



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 29, 1993 (ज्येष्ठ 8, 1915)
No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 29, 1993 (JYAISTHA 8, 1915)

इस भाग में प्रिन्ट पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

साविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 18 मई 1993

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 29 के निर्बंधानुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक आफ हैदराबाद के निदेशक बोर्ड से परामर्श करके तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से श्री एस. एम. पराण्डे को दिनांक 1 जून 1993 से 31 मई 1995 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए स्टेट बैंक आफ हैदराबाद के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया है।

ह. अपठनीय

अध्यक्ष

श्रम मन्त्रालय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 मई 1993

सं. 2/1959/डी. एल. माई./एकजम/89/भाग-1/
1977—उहाँ अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्तियों ने (जिसे
1—89 GI/93

इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम बहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोर्ट अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, ताकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबन्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-1 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त गजरात ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम में संचालन की छूट देता हूँ।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम तथा पता	श्रीड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० सं०
1	2	3	4	5
1.	मै० अंकूट टैक्सटाइल्स (ए विभाग अरविन्द मिल्स लि०) आऊट साईड रायपुर गेट अहमदाबाद ।	जी०जे०/265	1-6-91 से 31-5-94 तक	2/4298/92-डी० एल० आई०
2.	मै० सूबी फोटोबिल्टरस लि० यूनिट-2 जी० आई० डी० सी० केस III नरौडा इन्डस्ट्रीयल इस्टेट पा० ओनरोडा जिला अहमदाबाद ।	जी०जे०/1881	1-7-89 से 30-6-92 तक	2/4251/92-डी० एल० आई०
3.	मै० नियुपलस्ट इंजीनियरिंग प्रा० लि० 43 जी० आई० डी० सी० इस्टेट पिनजोल जटवा जिला अहमदाबाद-382445 ।	जी०जे०/2556	1-8-89 से 31-7-92 तक	2/4252/92-डी० एल० आई०
4.	मै० असग बलाल बिल्डिंग बी०एच० कापरी होटल रलफि रोड अहमदाबाद ।	जी०जे०/3704	1-7-91 से 30-6-94 तक	2/4299/92 डी० एल० आई०
5.	मै० निरो टैक्सटाइल परमार वाडी ची नारी जिला-बलसाड ।	जी०जे०/4342	1-3-90 से 28-2-93 तक	2/4300/92-डी० एल० आई०
6.	मै० रोलकोन इंजी० का० प्रा० लि० आनन्द सीजीवा रोड बल्लान विद्यानगर-388120 ।	जी०जे०/6135	1-6-89 से 31-5-92 तक	2/4301/92-डी० एल० आई०
7.	मै० गुजराल स्टील इंडस्ट्रीस मानकभाई टाटा रोड बिल्लामोरा-396321 ।	जी०जे०/6248	1-1-89 से 31-12-92 तक	2/4248/92-डी० एल० आई०
8.	मै० अमरेली जिला सहकारी खरीद विचन संघ लि० सहकारी भवन स्टेशन रोड अमरेली-364001 ।	जी०जे०/6773	1-6-69 से 31-5-92 तक	2/4362/92-डी० एल० आई०
9.	मै० पावर बिल्ट लि० पी० न० 28, बिट्टल उद्योगनगर 388121 बल्लभ विद्यानगर गुजरात स्टेट ।	जी०जे०/6924	1-3-88 से 29-2-92 तक	2/4303/92-डी० एल० आई०
10.	मै० टवीस्टेटेक्स इंजीनियरिंगस नाथरवेल हनुमान रोड राखीहेत अहमदाबाद ।	जी०जे०/6945	1-1-89 से 31-12-92 तक	2/4225/92-डी० एल० आई०
11.	मै० वार्म स्टोम आनन्द सजीतरा रोड बिट्टल उद्योगनगर बल्लभ विद्यानगर 388121 गुजरात स्टेट ।	जी०जे०/10511	1-1-91 से 31-21-92 तक	2/4304/92-डी० एल० आई०
12.	मै० भावनगर नागरिक सहकारी बैंक लि० 14, गंगागली टालब भावनगर ।	जी०जे०/1198	1-8-89 से 31-7-92 तक	2/4306/92-डी० एल० आई०
13.	मै० जे०एस० मेटल टरावरस का एन० आई० पी० कम्पाउंड चापरा रोड नवसारी-396445 ।	जी०जे०/12289	1-12-89 से 30-11-92 तक	2/4307/92-डी० एल० आई०
14.	मै० अशोकेक जैन्टीक एण्ड फार्मसी केटुलस, 244 गोडासर मनीनगर अहमदाबाद-380008 ।	जी०जे०/14282	1-3-89 से 29-2-92 तक	2/4257/92-डी० एल० आई०

1	2	3	4	5
15.	मै० वी० आर० इन्डस्ट्रीस सर्वे नं० 80 भीसटन जी० आई० डी० सी० प० ओ० पनडीसरा जिला सूरत— 394221 ।	जी०जे०/17115	1-11-90 से 31-10-93 तक	2/4263/92-डी० एल० आई०
16.	मै० वेथी ओरगैलिक प्रा० लि० प्लाट नं० 42/2 फस्ट फैस जी० आई० डी० सी० इंडस्ट्रीयल एरिया वापी— 396195 ।	जी०जे०/17140	1-2-91 से 31-1-93 तक	2/4264/91-डी० एल० आई०
17.	मै० पट्टेरोलिफिल्स को० प्रा० लि० पी० डी० तलडहरी टा विल्ला जिला बारूथ—393135 ।	जी०जे०/17627	1-12-90 से 31-11-93 तक	2/4308/92-डी० एल० आई०
18.	मै० टिडा फार्मास्यूटीकल्स प्रा० लि० टोरनट हाऊस नगर, दिनेश हाल, आश्रम रोड अहमदाबाद—380089 ।	जी०जे०/17714	1-8-90 से 31-7-93 तक	2/4309/92-डी० एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसके इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को इसी विवरणों में भ्रंजा और ऐसे सहायक तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करने को केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्त के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा या केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाय, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसके स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तव आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाये की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्दिष्टों को प्रतिफल के रूप में शेष राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययपत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यक्तिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्दिष्टों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तर-दायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्दार नाम निर्दिष्टों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एन. आई./एकजाम/89/भाग-II 1984—जहाँ अनुसूची में उल्लिखित नियोजकों ने (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण छूट के लिए आवेदन किया है (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मं. बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सह-

संबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसमें इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मं. बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कोयम्बटूर ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत डील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता है।

अनुसूची-1

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के०भ०नि०घा० फा० सं०
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स हज लैण्ड क्वार्टर्स 52, सिडकी इन्डस्ट्रियल एस्टेट कोयम्बटूर-641021	टी०एन० 16926	1-1-90 से 31-12-93	2/4903/93- डी०ए० आई०
2.	मैसर्स धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि. ० पो० बाक्स नं० 2 अथानगीराई धर्मापुरी, जिला पिन-635207	टी०एन० 21411	1-4-88 से 31-3-91 1-4-91 से 31-3-94	2/4906/93- डी०एल०आई०
3.	मं० श्री कुमारवल्लू इन्डस्ट्रियल 122, नवा इन्डिया, रोड कृष्णा रायपुरम (पो०आ०) कोयम्बटूर-641006	टी०एन० 21825	1-3-90 से 28-2-93	2/4904/93 डी०एल०आई०
4.	मं० श्री रंगा फाउण्डरी, 7 उपलीपल्लयम रोड सोबरोपल्लयम कोयम्बटूर-15	टी० एन० 25267	1-3-91 से 28-2-94	2/4902/93 डी०एल०आई०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसमें इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संवाह आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहान नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समूचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हैं जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में वही राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपलब्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति में कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्ति क्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एकजाम/89/भाग-1/1991—जहाँ अनुसूची में उल्लिखित नियोजकों ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निधि सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना का प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटका ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत डील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संभालन की छूट देता हूँ।

अनुसूची-I

क्र. सं.	स्थापना का नाम व पता	कोड सं.	छूट की प्रभावी तिथि	के० म० नि० आ० घा० सं०
1	2	3	4	5
1.	म० एस० के० जिला सैण्डल कोप बैंक लि० पी० बी० नं० 721 मंगलौर 575003 (डी०के०) कर्नाटका	के एन०/2814	1-1-88 से 31-12-92 तक	2/4657/92- डी०एल०आई०
2.	मै० मनीपाल प्रॉटिंग एंड पब्लिसरल लि०। अधमवानी लि० बिल्डिंग्स टाईल फ़ैक्ट्री रोड मनीपाल 576119 (डी०के०) कर्नाटका	क०एन०/4682	1-7-87 से 30-6-90 तक	2/4658/92 डी०एल०आई०

1	2	3	4	5
3	मै० सेंट्रल आरकटेज कोरुनट नाकीटिक कोप० लि० पो० बाकस न० 223, मिशन गली मंगलौर 575001 (डी०के०) करनाटका	के०एन०/5878	1-8-89 से 31-7-92 तक	2/4659/92- डी०एल०आई०
4	मै० मनीपाल इंस्टिट्यूट आफ टेकनालोजी निपाल 576119, (डी०के०) करनाटका	के०एन०/8208	1-1-90 से 31-12-92 तक	2/4660/92- डी०एल०आई०
5	मै० कसतूरबा मेडीकल कालेज मनीपाल 576119 (डी०के०) करनाटका	के०एन०/8810	1-12-89 से 3-11-92 तक	2/4662/92- डी०एल०आई०
6	मै० न्यू मंगलौर पोस्ट ट्रस्ट रजि० कारबो हैडलिंग वर्कट एडमिन्स्ट्रेटिव विंग धानामबूर मंगलौर-575010 डी०के०) करनाटका	के०एन०/9673	1-6-87 से 31-5-90 तक	2/466/92- डी०एल०आई०
7	मै० करनाटक कशीशू उबलपमेंट कार्पोरेशन लि० कबूर कास बजाय मंगलौर 575004	के०ए०/9792	1-10-87 से 3-9-90 तक	2/4663/92 डी०एल०आई०
8	मै० अनिल ट्रेड एंड इन्वैस्टमेंट (प्रा०) लि० ये० टी पाडूमंगलौर 575008 (डी०के०) करनाटका	के०एन०/12016	1-12-87 से 30-11-90 तक	2/4664/92- डी०एल०आई०
9	मै० जनाय कोप बैंक लि० उधपी 576101 (डी०के०) करनाटका	के०एन०/12073	1-7-87 से 30-6-90 तक	2/4665/02- डी०एल०आई०
10	मै० लमीना फाउंड्रीस लि० नीटे 57410 करकाला तलुक करनाटका	के०एन०/12084	1-5-87 से 30-4-90 तक	2/4666/92- डी०एल०आई०
11	मै० मिलाप्रेस टेकनीकल इंस्टिट्यूट (प्रा०) लि० अमबालपाडी हाईवेय जंक्शन उधपी-576103 (डी०के०) करनाटका	के०एन०/12/94]	1-6-91 से 31-5-94 तक	2/4667/92- डी०एल०आई०

अनुसूची-11

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समूचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेष है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवैय राशि से कम है जो कर्मचारी की उस वृत्त में संवैय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिवक वारिश/नाम निर्देशितों को प्रतिफल के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संवाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति में कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उम निगत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की वृत्त में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिवक वारिशों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी स्वस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिवक वारिशों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एकजम/89/भार-1/
1998—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजकों ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, ताकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिम तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त गजरात ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत डील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूँ।

अनुसूची—I

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के भ० नि० आ० फा० सं०
1	2	3	4	5
1.	मै० डी० अनिल स्टार्च प्रोडक्शन लि, अनिल रोड, अहमदाबाद-380025	जी० जे०/1062	1-1-92 31-12-94	2/4871/93- डी०एल०आई०
2.	मै० गीता थियेटर, भोधव रोड, इंडियन आक्सिजन के सामने अहमदाबाद	जी० जे०/16446	1-3-89 से 29-2-92	2/4870/93- डी०एल०आई०
3.	मै० प्लास्टीसाइजर्ष एंड केमिकल्स, प्लॉट नं० 3810/3811, जी०आई०डी०सी०, अंकलेपर, भरुच जिला	जी० जे०/18190	1-8-91 31-7-94	2/4872/93 डी०एल०आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण की एसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, एसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के मूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसके स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बहाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस वृत्त में संदेय होती जब तक उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना टिप्पण प्रकट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/जी. एल. आई./एकजम/89/भाग-1/2005—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

धुंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि एसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों में अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिमूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूँ जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता कोड सं०	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिनियम की सं० तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति तिथि	अवधि जिनके लिए और छूट दी है	के० भ० नि० आ० फा० नं०	
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० हाइको प्रोडक्ट्स लि० पंजिस्त सतवलकर मार्ग महिम बम्बई-400016	एम०एच०/1535	2/1959/डी०एल०आई० एक्जम/89/पार्ट-1 दिनांक 3-9-92	11-12-91	11-12-91 से 10-12-94	2/238/79-डी०एल०आई०
2.	मै० इंगरसोल-रेड (इंडिया) लि० रोहने पोलिस हाउस एस० के० अहर मार्ग बरली तथा इसकी 15 शाखा सहित।	एम०एच०/4099	एस०-35014/301/85 एस०एस० 11 दिनांक 26-12-85	25-12-88	26-12-88 से 25-12-91 से 26-12-91 से 26-12-94 से	2/185/78-डी०एल०आई०
3.	मै० कोरस (इंडिया) लि० कोरस हाउस पा० बा० नं० 6558 कार्यालय डा० ई० मासेस रोड, बरली, बम्बई-400018 तथा इसकी शाखा सहित।	एम०एच०/4996	2/1959/डी०एल०आई० एक्जम/89/पार्ट-1 दिनांक 3-4-91	28-2-90	1-3-90 से 28-2-93	2/3447/91-डी०एल०आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिससे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवादा करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के अन्तर्गत के अधीन समय-समय पर नियुक्त करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवादा, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संवादा आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवदा करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवदा राशि राशि से कम है जो कर्मचारी को उस वृद्धि में संवदा होती जब तक स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधक वारिस/नाम निर्वाहियों को प्रतिकार के रूप में वानों राशियों के अंतर बराबर राशि का संवादा करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यस्क हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना को सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन जाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सूचित करेगा।

बी. एन. सोम,

केन्द्रीय अभिव्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एकजम/89/भाग-1/2012—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजकों ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1992 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

शुक्र में, बी. एन. सोम, केन्द्रीय अभिव्य निधि आयुक्त इस बात में संतुष्ट हुए कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निधिप सहवर्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अम संश्लेष्य भारत सरकार/केन्द्रीय अभिव्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूँ जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उक्त नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	स्थापना को छूट बटाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई है।	के०स०नि०प्रा फाइल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० मार्डन प्रोटेक्स लि० प्लाट-1-12, कूरनौल, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पो०आ० कूरनौल (ऐ० पी०)	ऐ०पी०/6236	2/1959/डी०एल०आई०/ एकजम/89/पार्ट-1 दिनांक 27-3-90	30-10-91	1-12-91 से 30-11-94	2/2408/90- डी०एल०आई०
2.	मै० वि निजाम सुगर फैक्टरी लिमिटेड, फतेह मंदार रोड, पी० बी० नं० 1, खैराताबाद, हैदराबाद-500004 (और इसकी शाखाएं)	ऐ०पी०/158 289 40 41	2/1959 डी०एल०आई०/ एकजम/89/पार्ट-1 दिनांक 26-10-90	28-2-90	1-3-90 से 28-2-93	2/2903/90- डी०एल०आई०
3.	मै० रामा कृष्णा केमी हल्स लिमिटेड, 1/22 ए, रेलवे स्टेशन रोड, गांधी नगर, कृष्णा-516004 (ऐ०पी०)	ऐ०पी०/6110 ऐ०पी०/6376	---वही--- दिनांक 24-6-92	26-5-92	27-5-92 से 26-5-95	2/1453/86 डी०एल०आई०

1	2	3	4	5	6	7
4.	मै० मार्गदर्शी मार्किटिंग (प्रा० लि०, पो० ब० नं० 90 इन्डु कम्पऊन्ड, खरेताबाद, हैदराबाद-500482	ऐ०पी०/6690	2/1959/डी०एल०आई०/एकजम/89 दिनांक 24-1-91	24-3-91	25-3-91 से 24-3-94	2/1453/86-डी०एल०आई०
5.	मै० पायनीर एलोज कास्टिंग लिमिटेड, 22 एंड 23 इंडस्ट्रियल ऐरिया, गगुलामेनडयाम (बाया) रेमी गुंटा (ऐ०पी०) 517520	ऐ०पी०/6789	2/1959/डी०एल०आई०/एकजम०/89/पार्ट-1 दिनांक 19-12-89	31-12-91	1-1-92 से 31-12-94	2/2408/90-डी०एल०आई०
6.	मै० भारत सोमेंट पाईप इन्डस्ट्रिज, हैदर नगर, कुकाटपाली, हैदराबाद	ऐ०पी०/7164	— वही — दिनांक 14-2-91	30-11-92	1-12-92 से 30-11-95	2/3372/91-डी०एल०आई०
7.	म० ओरियंट सिमेंट पो०आ० देवापुर सिमेंट वर्क्स-504218 (बाया) मंनचरियल (एस०सी० रेलवे) एडीलाबाद जिला (ऐ०पी०)	ऐ०पी०/13433	— वही — दिनांक 27-3-90	28-2-91	1-3-91 से 28-2-94	2/2413/90-डी०एल०आई०
8.	मै० दि आंध्रा प्रदेश स्टेट फेरेशन आफ कोपो सुगर फैक्ट्रीज लि०, सी-4 सम्राट कम्पलेक्स, सेफाबाद, हैदराबाद-500004 (ऐ०पी०)	ऐ०पी० 18758	—वही— दिनांक 14-2-91	30-11-92	1-12-92 से 30-11-95	2/3370/91-डी०एल०आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना की सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी धारित आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबत करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समूचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात को छोड़ते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संबन्ध राशि से कम है जो कर्मचारी को उस वंश में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संतान करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का गृह्यत्व बरकरार रहेगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की वंश में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/बी. एन. आई./एकजम/89/भाग-1/2019—जहाँ अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजकों ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूँकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई असंग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सम्बन्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूँ जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची-1

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	भारत सरकार के अधिसूचना सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान की गई	छूट की प्रभावी तिथि	छूट बढ़ाई जाने की अवधि	के०भ०नि०आ० फा० सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स एच०एम०पी० सिमेंट लि०, (पहले ए०सी०सी० लि०) पोरबन्दर सिमेंट वर्क्स, एरोट्टम रोड, पोरबन्दर-360575	जी०जे०/8	एस-35014/241/83- पी०एफ०-11 दि० 5-3-87	16-12-89	17-12-89 16-12-92	2/658/82- डी०एल०आई०
2.	मै० न्यू० सोरोक मिल्स (मफतलाल इण्डस्ट्रीज का भाग) असखा रोड, अहमदाबाद-380016.	जी०जे०/362	एस०-35014/144/82- पी०एफ०-11, एस०एस० II दिनांक-21-4-86	29-10-88	30-10-88 29-10-91	2/567/81 डी०एल०आई०

1	2	3	4	5	6	7
3.	मै० गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कोर. वाहनवाहर भवन, असथोडिया, अहमदाबाद-380022 तथा इसके 20 यूनिट व 130 डिपो सहित	जी०जे०/1122	2/1959/डी०एल०आई०/छूट/89 पार्ट 1 दिनांक-शून्य	15-8-92	16-8-92 15-8-95	2/156/78- डी०एल०आई०
4.	मै० गुजरात स्टेट कोप० मार्किटिंग फ्रेडरेशन लि०, सहकार भवन, रिलिफ रॉड, अहमदाबाद-380001	जी०जे०/4833	2/1959/डी०एल०आई०/छूट/89-पार्ट-1 दि० 30-1-91	13-2-92	14-4-92 13-2-95	2/1330/85- डी०एल०आई०
5.	मै० एकजे इण्डस्ट्रीज लालपुरी लेक रोड राजकोट	जी०जे०/6922	2/1959/डी०एल०आई०/छूट/89-पार्ट 1 दि० 18-7-91	31-5-92	1-6-92 31-5-95	2/3679/91 डी०एल०आई०
6.	मै अंकलेशवर इनोरगनीक विगमेंटस एण्ड केमिकल प्रा० लि० 26 जल दर्शन सोसायटी ब्रालीया रोड, अंकलेशवर-393002	जी०जे०/15345	—वही— दिनांक 17-10-92	30-11-91	1-12-91 से 30-11-94	2/4097/92 डी०एल०आई०

अनुसूची-11

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसके इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को एंसी विवरणियां भेजेगा और एंसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एंसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक एंसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी धियों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो और उक्त स्कीम के अधीन अनुक्रमे है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के हाते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संक्षेप राशि से कम है जो कर्मचारी को उस वंश में संक्षेप हाते जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिफल के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना धिष्टकरण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसके स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी के ध्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की वंश में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न बी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत हाते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी० एन० सोहन
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आर्. /एकजम/89/भाग-1/2026—जहाँ अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजकों ने (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूँकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई गलत अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी

निर्भर सहवृद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसमें इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

वतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा शम संचालन भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसारण में तथा संलग्न अनुसूची-II में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों को संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूँ जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची--1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की सं० तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई है	के०भ०ति०आ० का० सं०
1.	मै० डा० शानाबाई नरसिंग होम (प्रा०) लि० आर०ओ 5-3-535 अंबोडस रोड, हैदराबाद	ऐ०पी०/2174	2/1959/डी०एल०आई० 89/पार्ट-1 दिनांक 11-4-92	31-5-91	1-6-91 से 31-5-94	2/4108/92-डी०एल०आई०
2.	मै० लक्ष्मी फिनांस एंड इंडस्ट्रियल कारपो० लि 1-10-60/3 बेगमपेट, हैदराबाद-500016	ऐ०पी०/17791	2/1959/डी०एल०आई० एकजम/89/पार्ट-1 दिनांक 22-5-90	29-2-92	1-3-92 से 28-2-95	2/2705/90-डी०एल०आई०
3.	मै० नेशनल इंडस्ट्रियल ऑफ़ समाल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग युसफगुडा, हैदराबाद-500045 (साथ में इसकी शाखाएँ जो गृहाटी में स्थित हैं।	ऐ०पी०/11422	—वही— दिनांक 11-1-92	28-2-92	1-3-93 से 29-2-96	2/3930/91-डी०एल०आई०
4.	मै० इंडस्ट्रियल ऑफ़ होटल मैनेजमेंट कंटेन्टिगटेकनॉलाजी एंड अपलाई नुट्रिशन ऐंटी०आई० कम्पस, विव्दया नगर, हैदराबाद-7.	ऐ०पी०/11444	—वही— दिनांक 23-4-91	28-2-93	1-3-93 से 29-2-96	2/2912/90-डी०एल०आई०
5.	मै० श्री अन्था ग्रामीणा बैंक पो० बा० न० 6 अंतलापूर	ऐ०पी०/11658	एस०-35014/173/84 एस०एस० 11 (एस० एस० 11) दिनांक 29-2-88	28-2-91	29-2-91 से 28-2-94	2/1135/84-डी०एल०आई०
6.	मै० ओ०एम०सी० कम्प्युटरस लि०, चौथी मंजिल, सूर्या टावरस, 104 एस० पी० रोड, सिकन्दराबाद-ऐ०पी०	ऐ०पी०/12895	2/1959/डी०एल०आई० एकजम/89/पार्ट-1 दिनांक 27-3-90	15-7-92	16-7-92 से 15-7-95	2/1383/86-डी०एल०आई०
7.	मै० राजश्रील वाईन मरचेंट्स, 3-8-476, हिम्मत नगर, हैदराबाद-500029 (ऐ०पी०)	ऐ०पी०/13385	—वही— दिनांक 25-2-92	28-2-93	1-3-93 से 29-2-96	2/3968/92-डी०एल०आई०

अनुसूची- II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को एसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रक्षक तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत सेवाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मूल्य बानों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरक्षित दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समूचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभवे हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात को होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संघे राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में, दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संघे करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, अहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यत्न करके अनुमोदन देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम को, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत अवधि के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तर-दायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सूनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/जी. एल. आर्. /एकजम/89/भाग-1/
2033—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजकों ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंदाज या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निधेप सहवृद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा निधि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची- में निर्धारित शर्तों के रहने हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के अन्तर्गत में प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूँ जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उसके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की सं० तथा तिथि	पहले से प्रधान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई है	के०भ०नि०आ० का सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० ऐसोसियेशन आफ स्टेट रोड, ट्रांसपोर्ट ग्रन्डरटेकिंग, 7/6 सीरीफोर्ट इन्-डीटम्युमल सं० खेरिया, खेल गांव मार्ग, नई दिल्ली-49	डी०एल०/3825	2/1959/डी०एल०आई० एक्जम/89/पार्ट-1 दिनांक 12-2-92	24-9-91	25-9-91 से 24-9-94	2/563/81- डी०एल०आई०
2.	मै० समाप्त धर्म पब्लिक स्कूल ईस्ट पंजाबी बाग रोड नं० 10 न्यू दिल्ली-110026	डी०एल०/9449	2/1959/डी०एल०आई० एक्जम/89/पार्ट-1 दिनांक 11-6-92	31-10-91	1-11-91 से 31-10-94	2/4128/92- डी०एल०आई०

अनुसूची-1।

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिससे इसमें इससे पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निरीक्षण करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो क्षेत्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निरीक्षण करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संवाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, क्षेत्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के मुख्यालय पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहलू से ही सदस्य है, उसके स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो तो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशनों के प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संवाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना विधिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिससे स्थापना पहले अपना सूची है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उक्त नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है और पारिती की व्यवस्था हो जाने बिना जाता है तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये किसी ध्यतिक्रम की वशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्वेशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संवाय का उच्च-वायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वेशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/बी. एन. आई./एकजम/89/भाग-1/2040—जहां अनुसूची में उल्लिखित नियोजताओं ने (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण छूट के लिए आवेदन किया है (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूँकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अवधिगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, ताकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसमें इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-1 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक को सामने (अनुसूची-1) में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हरियाणा ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ठील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूँ।

अनुसूची—1

क्र. सं.	स्थापना का नाम व पता	कोड सं.	छूट की प्रभावी तिथि	के.भ.नि.आ. का सं.
1	2	3	4	5
1.	मै० राघवीर मशीनरी प्रा० लि०, चन्दर नगर, गुड़गाँव (एच०आर०)	एच०आर० 2979 कोलड पी० एफ० कोड सं० एच०आर०/ 9590	1-3-92 से 28-2-95	2/4879/93 डी०एल०आई०
2.	मै० मनजल सोवा लिमिटेड, 9-10, मारुति, इन्डस्ट्रीयल एरिया, गुड़गाँव	एच०आर०/3883 कोलड पी०एफ० कोड सं० एच०आर०/10504	1-2-88 से 31-1-91	2/4868/93/ डी०एल०आई०

अनुसूची-1।

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसमें इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्वेश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

3—89/31/93

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी दायत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों के उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समूचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल है जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेष है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस वंश में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रिंटर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस निश्चल तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पानिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की वंश में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एफजम/89/भाग-1/2042—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

श्री. ए. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसमें इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II में निर्धारित शर्तों के रहते हुए श्री. बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूँ जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम तथा पता	कोड सं०	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की सं० तथा तिथि	पहले प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई	के०स०नि०आ०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० डेलटन केबल कं० 4801, भारत राम रोड, 24, दरियागंज न्यू दिल्ली— 110002.	डी०एल०/2557	एस०—35014/282/85 एस०एस०-II/	24-11-89	25-11-88 से 24-11-91	2/577/81/ डी०एल०आई०
2.	मै० डेलटन सेल्ज एंड सर्विस लि०, 4801, भारत राम रोड, 24, दरियागंज, न्यू दिल्ली— 110002.	डी०एल०/3241	2/1959/डी०एल०आई०/ छूट/89/पार्ट-I दिनांक 22-10-89	27-12-91	28-12-91 से 27-12-94	2/574/81/ डी०एल०आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिससे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सूचियां प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संवाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों में अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभवे हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संवाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है और पालसी के ध्वंगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत हों, बीमा लाभों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एकजम/89/भाग-1/
2054—जहां अनुसूची में उल्लिखित नियोजकों ने (जिससे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिससे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अवयवी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिससे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना के प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1 में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त गजरात ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ठीक प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संवाय की छूट देता हूँ।

अनुसूची—I

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के०म०नि०आ० फा० सं०
1	2	3	4	5
1.	अपेक्स प्लास्टिक वर्क्स 220, जी०आई०डी०सी०एस्टेट, मकरपुरा, बड़ोदा-10	जी०जे०/6214	1-10-89 से 30-9-92	2/4253/92- डी०एल०आई०
2.	मै० क्रान मैटलैक्स प्रोसोतम एस्टेट भद्रुचारा जी रोड, बड़ोदा-390018	जी०जे०/11361	1-1-91 से 31-12-93	2/4305/92- डी०एल०आई०
3.	मै० आदित्य मेटल एंड एलोज प्रा० लि०, 4/बी०-2, जी०आई०जी०सी०, हलोल-389350, जिला-पंच महल	जी०जे०/12361	1-11-91 से 31-10-94	2/4256/92- डी०एल०आई०
4.	मै० अपेक्स कनेटन्सर्स 225, जी०आई०डी०सी०एस्टेट, मकरपुरा, बड़ोदा-10	जी०जे०/15930	1-10-89 से 30-9-92	2/4258/92- डी०एल०आई०
5.	मै० पनोरमा प्लास्टिकस 501, ए०, जी०आई०डी०सी० हलोल, जिला-पंच महल	जी०जे०/16085	1-4-90 से 31-3-93	2/4259/92- डी०एल०आई०
6.	मै० विक्रम प्लास्टिकस 501, ए०जी०आई०डी०सी० जिला-पंच महल	जी०जे०/16085बी०	1-4-90 से 31-3-93	2/4260/92- डी०एल०आई०
7.	मै० चुरुचेम आफ इण्डिया, प्लॉट न० 161, जी०आई०डी०सी०, नन्देसरी, बड़ोदा-390340	जी०जे०/16801	1-7-91 से 30-6-94	2/4261/92- डी०एल०आई०
8.	मै० बैस्ट इण्डिया कलोरीनेटर्स 'बी०' छटी मंजिल राम कृष्णा चेम्बर्स बी०पी०सी० रोड अलकापुरी-बड़ोदा-5	जी०जे०/16803	1-7-91 से 30-6-94	2/4262/92- डी०एल०आई०
9.	मै० गुजरात कलोराइडस जी०आई० डी०सी० प्लॉट न० 190/191 नन्देसरी-बड़ोदा	जी०जे०/20118	1-1-91 से 31-12-93	2/4265/ डी०एल०आई०

अनुसूची-

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारी का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी धियों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवला करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समूहित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभवे हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवये राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस वृत्त में संवये होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक धारित/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संवाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उक्त सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की वशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक धारितों की ओर यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसको हकदार नाम निर्देशितों/विधिक धारितों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एकजाम/89/भाग-1/
2061—उक्त अनुसूची-1 उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

श्रीक में, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूँ, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम तथा पता	कोड सं०	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की सं० तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधिजिसके लिए और छूट दी गई है	के०भ०नि०आ०
1	मै० कोस्टल पैकिंगज बूमैनज कालेज रोड, (सम्बा सीव-पेट, गंटूर-522001। (माथ में दम्की शाखाएं जो इस कोड सं० में स्थित हैं)	ए०पी०/ 11809	2/1959/डी०एल०, आई०/छूट/89/पार्ट-1, दिनांक 17-10-92	30-11-90	01-12-90 से 20-11-93	2/4151/92/ डी०एल०आई०
2	मै० माडल स्टील (प्रा०) लि०, निडानानूर-521104, कृष्ण जिला।	ए०पी०/ 16471	2/1959/डी०एल०, आई०/छूट/89/पार्ट-1, दिनांक 23-12-92	31-08-92	01-09-92 से 31-8-95	2/4352/92/ डी०एल०आई०
	मै० फनाका दुर्गा ग्रामीण बैंक, 9/225, गौरी संकारा पूरम, गुड्डीवाड़ा-521301।	ए०पी०/ 16704	2/1959/डी०एल०, आई०/छूट/89/पार्ट-1, दिनांक 22-2-90	31-3-92	1-4-92 से 31-3-95	2/3205/90/ डी०एल०आई०

अनुसूची-

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेंगे और ऐसे लेखा रखेंगे तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेंगे जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संस्था की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेंगे।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तविक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समीचीन रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभवे हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस वृत्त में संवदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिफल के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की वृत्त में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एकजम/89/भाग-1/2068—जहाँ अनुसूची-I में उल्लिखित नियाक्ताओं ने (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 19 की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

धूक में, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारियों को अलग अंशदान या प्रीमियम की अवयगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी

निकषे सहवद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

उतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-II में उल्लिखित शर्तों के अनुसार में, बी. एन. सोम प्रत्येक उक्त स्थापना का प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत डील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता है।

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के०भ०नि०आ० फा० सं०
1	2	3	4	5
1.	मै० झालारार केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, जालार पाटन सिटी, झालारपाटन, राजस्थान	आ०जे०/836	1-7-91 30-6-94	2/4649/92- डी०एल०आई०
2.	संगन क्षेत्रीय विकास समिति पो०आ० राजसमन्ड, उदयपुर	आर०जे०/1071	1-11-89 से 31-10-92	2/4648/92- डी०एल०आई०
3.	मै० डार्हमैनसनरा पलास्टी ग्लास इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०, 116, ओखाडा इण्डस्ट्रियल एस्टेट, जयपुर	आर०जे०/367	1-12-89 से 30-11-92	2/4646/92- डी०एल०आई०
4.	मै० मार्डेन सूरिंग्स लि० पुराना इण्डस्ट्रियल एस्टेट, जिला अलवर	आर०जे०/3543	1-1-92 से 31-12-94	2/4647/92- डी०एल०आई०
5.	मै० डर्बी टैक्सटाइल्स लि०, मारुधर इन्डस्ट्रियल एरिया बसनी दूसरा फेस, जोधपुर	आर०जे०/4010	1-8-87 31-7-90	2/1804/88- डी०एल०आई०

अनुसूची-

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी के प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाए, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-अंश्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना गेट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समूचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों में अधिक अनुकूल है जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभवे हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात को होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस वषा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एकजम/89/भाग-1/2075—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजकों ने (जिस इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहयुद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसमें इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-1 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूँ, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची—1

क्र० स्थापना का नाम व पता सं०	कोड सं०	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की सं० तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए छूट दी गई है।	के०भ०नि०आ०
1. मै० डी० वसिलताडुको-आप-रेटिव स्टेट लैंड डिवलपमेंट बैंक लि० 79, लुस चर्च रोड, मद्रास-600004	टी०एन०/4152	3/35014 (80) 87-एस०एम०-II, दिनांक 27-7-87	26-7-90	27-7-90 से 26-7-93	2(73)77/डी०एल०आई०
2. मै० टोवेक एक्स्प्लोरमेंट्स प्रा० लि० एफ-6, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, अम्ब्राटूर-मद्रास।	टी०एन०/6243	2/1959/डी०एल० आई०/छूट/89/पार्ट-1, दिनांक 12-6-92	9-3-92	10-3-92 से 9-3-75	2(1368)/86 डी०एल०आई०
3. मै० पैट्टन गण्ड कार्पेन्ट्री वर्कर्स, 1/133, मुगलीवेकम रोड, मुगलीवेकम, पोन्नूर, मद्रास-116	टी०एन०/10343	2/1959/डी०एल० आई०/छूट/89/पार्ट-1, दिनांक 10-9-90	28-2-90	1-3-90 से 28-2-93	2(2815)/90 डी०एल०आई०

अनुसूची-

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिससे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उसे ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदेश करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तव आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगत करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों के उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभवे हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस वृत्त में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रत्येक के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिससे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में अस्फल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाते दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी धार्मिक नाम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एन. आर्क्ष./एकजम/89/भाग-1/
2081—जहाँ अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजताओं ने (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के कर्मचारी निशेप महबूब बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसमें इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसार मैं तथा संलग्न अनुसूची-1 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूँ जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची-1

क्र. सं.	स्थापना का नाम व पता	कोड सं.	स्थापना की छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की सं. तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई है	के.भं.नि.आ. फा. सं.
1.	मै. सनलाईट मेटल वर्क्स, जवाहर आटो नगर, विजयबाड़ा कृष्णा जिला (ए.पी.) और दो शाखाएँ जो ए.पी./7165 और ए.पी./13623 कोड नं. में हैं।	ए.पी./ 3816	एस-35014/89/ 88/एस.एस.-II दिनांक 25-8-88	24-8-91	25-8-91 से 24-8-94	2/1798/88- डी.एल.आई.
2.	मै. प्रकाश इंजीनियरिंग वर्क्स इमीकेपाडू, कृष्णा (जिला) ए.पी. विजयबाड़ा-521108	ए.पी./ 6386	2/1959/डी.एल.आई./ए.ए.जम/89/ पार्ट-1, दिनांक 2-2-91	31-3-91	1-4-91 से 31-3-94	2/3198/90- डी.एल.आई.
3.	मै. सधावहामा काटन प्रोरज कोप सीपनिंग मिल्स लि., सटेना पाली, गुंटूर, जिला ए.पी.	ए.पी./ 13645	2/1959/डी.एल.आई./ए.ए.जम/89/ पार्ट-1, दिनांक 21-8-89	31-10-90	1-11-90 से 31-10-93	2/2208/89- डी.एल.आई.
4.	मै. श्री हनुमान कोप. चगर्स लि. हनुमान जेकयान, कृष्णा जिला	ए.पी./ 13670	--वही-- दिनांक 21-8-89	31-12-89	1-1-90 से 31-12-92	2/1686/87- डी.एल.आई.
5.	मै. वर्क्समैन लवोरेटरीज, शीड सं. 11, फेस-11, जवाहर आटो नगर, विजयबाड़ा-520007	ए.पी./ 16529	--वही-- दिनांक 22-2-90	29-2-92	1-3-92 से 28-2-95	2/3203/90- डी.एल.आई.
6.	मै. श्री चेतनया ग्रामीणा बैंक, बोस रोड, तेनाली-522201 (गुंटूर)	ए.पी./ 13680	--वही-- दिनांक 21-8-89	30-4-90	1-5-90 से 30-4-93	2/1806/88- डी.एल.आई.

अनुसूची-11

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसको पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को एसी विवरणियाँ भेजेगा और एसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, एसे निरीक्षण प्रभारी को प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी शामिल है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीमों के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना को भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उनका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उनकी बाह्य आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को भेज करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाने जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध लाभों में समूचित रूप में वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों में अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस वक्ता में संवदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधायक वारिस/ नाम निर्देशितों को प्रतिफल के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपलब्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्राय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन के बिना नहीं किया जायगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यक्तिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधायक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार

नाम निर्देशितों/विधायक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एन. आई./एकजम/89/भाग-1/2089—जहाँ अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है)। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निधि सहबन्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसमें इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-1 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना की और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूँ जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची—1

क्र. सं.	स्थापना का नाम व पता	कोड सं.	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की सं. तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई है।	के.भ.नि.आ. सं.
1.	मै. सैंको एण्ड एलियस प्रा. लि. सं. 20, चामियर्स रोड नवनेन, मद्रास-20	टी.एन./11012	2/1959/डी.एन.आई./छूट/89/पार्ट-1 1185, दिनांक 21-12-89	30-10-90	1-11-90 से 30-10-93	2/3258/90-डी.एन.आई.
2.	मै. पिलर इण्डस्ट्रीयल (इण्डिया) प्रा. लि., 2, एवन्यू, ए-13, अन्ना नगर, मद्रास	टी.एन./19365	2/1959/डी.एन.आई./छूट/89/पार्ट-1 दिनांक 9-12-91	31-1-92	1-2-92 से 31-1-95	2/3869/91-डी.एन.आई.
3.	मै. कौन एलीवेटर्स (इण्डिया) लि., 50 वेनग्राम रोड, अचनावक्कम, मद्रास	टी.एन./19848	2/1959/डी.एन.आई./छूट/89/पार्ट-1 दिनांक 21-12-89	30-10-91	1-11-91 से 30-11-94	2/3147/90-डी.एन.आई.

अनुसूची II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसके इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, एसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत संस्थाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संस्था की भाषा में उसकी बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई एसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना को भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संघे राशि से कम है जो कर्मचारी को उस वशा में संघे होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपलब्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने में पूर्ण कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किराी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम की तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली-110055

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अधीन दिनांक 31-12-1986 तक शोधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का संकलन करने में प्रत्येक आवधानी बरती गई है। और उसमें यदि कोई छूट/सुधार अपेक्षित हो तो वह रजिस्टर के अगले प्रकाशन में उसके संशोधन हेतु रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 1-ई/6, स्वामी रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली-110055 को सूचित किया जाये।

राज कुमार जैन,
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका

गुजरात

ग-1-आयुर्वेद

1986

क्र० सं०	नाम और पिता का नाम	योग्यता, विश्वविद्यालय/ प्रदाय निकाय एवं वर्ष	पंजीयन संख्या और पंजीयन तिथि	पता
1	2	3	4	5
1.	अब्दुल वहीरा जमाल भाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1974	4800 24-4-75	ग्राम-खोराजवाभी, ता० कालोल, जिला मेहसाना
2.	अब्दुल अली बोबरिया मोहम्मद	वैद्य विशारद नि०भा०आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1979	6907 16-4-79	ग्राम-शोरगढ़, ता०-केशोब, जिला-जूनागढ़
3.	अब्दुल अजीज मंजीयानि मुख्दीन भाई	बी० एस०ए०एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1971	5628 15-12-76	डा० ए० एन० मंजीयानी, आनन्द नगर 16/363/64, ग्राम-भावनगर
4.	अब्दुल गनी मेहसानिया अब्दुल कादर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1971	3533 29-7-72	मोमीन स्ट्रीट, ग्राम वांकानेर, जिला- राजकोट
5.	अब्दुल कादर चौहान अब्दुल रहीम	आयुर्वेद-भिक्षक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1976	6797 21-3-79	छाया मार्ग, सामने भारतीय विश्वविद्यालय ग्राम-पोरबन्दर, जिला-जूनागढ़
6.	अब्दुल कादर इन्मारा यूसुफ	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1979	7835 30-9-80	ग्राम-तादकाशबर वाया किम, ता०- मन्दावी, जिला-सूरत
7.	अब्दुल नसरतजहा कादिर कागदी	बी० एम०ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1972	5636 18-12-76	हिन्दू गार्डन कालोनी, रूद्रपुरा ग्राम- सूरत
8.	अब्दुल रजाकलाल मियां अहमद	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1977	6399 10-11-78	पीछे मदनसा उच्च विद्यालय, ग्राम- निम्मतनगर जिला-सावरकंठा

1	2	3	4	5
9	अब्दुल रजाकवावलीवाला इब्राहिम भाई	बी० एफ० ए० एम०, फैकल्टी आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1968	3514 31-5-72	छीपावली पली, ग्राम—हिम्मतनगर जिला— साबरकांठा
10.	अभय कुमार भामी मोहन लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1978	7574 1-3-80	भामी निवास, किशोर सिंह जी मार्ग ग्राम—राजकोट—360 001
11.	अभय कुमार शाह रमन लाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1966	2523 20-6-67	महिया का खादीकी दलाबाडा ग्राम— कपाववाज जिला— खेड़ा
12.	अभू ओवेवरा वाजासी	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1973	4900 26-6-75	ग्राम-चेद बागसारा वाया वंतवा जिला— जूनागढ़
13.	अबीदा अली करीम भाई	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1978	7689 25-4-80	रामटेकरी रोड, ग्राम—तालजा जिला— भावनगर
14.	अबीर हुसैन मोरिया जमाल भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1977	6072 15-3-78	ग्राम और पो० आ० रानुज ता०—पाटान जिला—मेहसाना
15.	अबूषकर मेमन अब्दुल भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1975	5752 1-4-77	ग्राम—तारानागा हिल ता०—खेरालु जिला—मेहसाना
16.	अचला भक्त मूनी भाई	जी० एक० ए० एम०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1962	796 1-10-63	पुराना बान्दरी मोहल्ला, पर्णकुटी ग्राम—तासारी
17.	अछूताबेन पंडित मनुभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1977	6696 3-3-79	17-बी, वनातनगर सोसाइटी, भंखनाथ रोड, मैनगर, अहमदाबाद
18.	आदित्य भाई पटेल छंगन भाई	आयुर्वेद-उत्तमा, श्रा० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1975	6547 12-2-79	रामापार्क, कॉर्पोरेटिव हार्डिंग सोसाइटी 26, घटलोडिया रोड—बी० 1, अहमदाबाद
19.	अद्य मेहता सतीश चन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1980	8400 5-4-82	बी०-11, राजकीय पदाधिकारी कालोनी, 10-बंगला गुलाबी टेकारा, अम्बावाड़ी ए० बाद०
20.	आगम बाबू भट रमन लाल	आयुर्वेद-उत्तमा श्रा० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1976	6646 26-2-79	मेभा मार्ग, ता०—पदारा जिला—बड़ौदा
21.	अहमद पटेल मूसा जी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1978	7269 12-9-79	वजाल मेन्सन, सामने नवगाजीपीर बाड़ी मोतीवहोरबाद, ग्राम—बड़ौदा
22.	अजय कुमार भावसार सुन्दरलाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1984	9276 2-5-85	“सेवाश्रम” स्टेशन रोड, ग्राम—सहैरा जिला—पंचमहल—389 210

1	2	3	4	5
23.	अजय कुमार होरा रमेश चन्द्र	जी० एफ० ए० एम०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1960	2914 29-2-70	द्वारा अरूण चतुर्वेदी प्रतीक एपार्टमेंट कृष्णाबाग, मणीनगर, अहमदाबाद
24.	अजय कुमार पंड्या भानू शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1977	6937 17-4-79	22, श्री काशी विश्वनाथनगर ग्राम- बड़ौदा
25.	अजय कुमार पटेल अम्बा लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1976	5984 30-11-77	रामफलिया पाडापोल ग्राम-नादियद जिला-खेडा
26.	अजीतुर शेख रहेमान	बी० ए० एम० एस०, इन्वीर विश्वविद्यालय, 1974	8515 27-8-82	सुभाष चौक, संघवा जिला-खेवरन (म० प्र०) 451666
27.	अजीत कुमार देवानी शामजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1972	4099 19-10-73	ग्राम-नावपुर (शेड) बाया केशुद ता०-पोरबन्दर, जिला-जूनागढ़
28.	अजीत कुमार जयसवाल जन्का लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1973	4221 21-2-74	शिवा बाग मैन रोड, ग्राम-बड़ौदा
29.	अजीत कुमार ओझा हिम्मत लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1977	6313 27-9-78	द्वारा एच० बी० ओझा, नीयर स्वामी नारायण मंदिर ग्राम-ता०-केशाद जिला-जूनागढ़
30.	अजीत कुमार पांड्या कान्ती लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1978	7544 21-2-80	ग्राम-कथालाल, ता० कथाडवंज जिला-खेडा
31.	अजीत कुमार पटेल शामल दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1972	4133 7-12-73	ग्राम-नहाड़पुर, ता०-मोस्ता जिला- साबरकंठा
32.	अजीत कुमार पटेल नटवर लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1979	7560 29-2-80	ग्राम-कारंज, ता०-ओलवाड़ जिला- सूरत
33.	अजीत कुमार उपाध्याय हिम्मत लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1970	3185 19-4-71	ग्राम-जोगाड़ी पो० लोयानगा ता०- महवा जिला-भावनगर
34.	अजीत कुमार यागनिक कान्ती लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1973	4212 19-2-74	सामने: स्वामी नारायण मन्दिर महादेवाला का वाडा, कालुपुर, अहमदाबाद
35.	अजीत सिंह गोहिल गिरीरार्जिसह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1971	3725 8-1-73	ग्राम-हुकाड ता०-रोधा, जिला- भावनगर
36.	अजीत कुमार जयसवाल हसमुख लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1982	8856 6-10-83	70, द्वारिकाधीश सोसाईटी, ग्राम- पटारा, जिला-बड़ौदा

1	2	3	4	5
37.	अजीतसिंह सरवैया प्रभात सिंह	बी० एस० ए०एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1982	8834 1-9-83	ग्राम और पो०-भद्रावल, थाया त्रापज, ता०-तलाजा, जिला-भावनगर
38.	अकबर अली सामनामी काजी भाई	आयु० मध्यमा, शा० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1976	7462 21-12-79	ग्राम-अमरापुर गीर ता०-मालिया मतीना जिला-जूनागढ़
39.	अकबर अली बड़सारिया अली भाई	बी० ए० एम० एस०, इन्दौर विश्वविद्यालय, 1976	6134 12-4-78	ग्राम-चिन्नावाड़ (गीर) ता०-तलाला जिला-जूनागढ़
40.	अखीरहुसैन मलिक आजम हुसैन	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1983	8902 24-1-84	"पैरी हाउस पैरोपुरी नया हवाई अड्डा श्रीनगर - 190 005-कण्ठमौर
41.	अक्षय माह रमेश चन्द्र	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु विश्वविद्यालय, 1985	9651 31-12-86	2, माथेरान सोसाईटी, पाल्डी, अहमदाबाद-7
42.	आला सौन्वर्वा गोविन्द	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1972	3870 15-3-73	एम०-7, के० एल० एम० कालोनी, नया सिविल अस्पताल के सामने, अहमदाबाद
43.	अल्का भट्ट प्रवीन चन्द्र	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1984	9484 24-3-86	9/704, गर्दककलिया ताका, मिहामाना शेरी, बड़ी फालिया, सूरत
44.	अल्का भट्ट कान्ती लाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1984	9493 24-3-86	द्वारा के० सी० भट्टा, 8-के० के० नगर, घटलोदिया, अहमदाबाद।
45.	अल्का कामले किशन राव	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1975	5518 14-9-76	कुमदेन फालिया, नीयर संगीत महाविद्यालय ग्राम बड़ौदा
46.	अल्का मेहता रश्मि कान्त	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1984	9399 19-10-85	सी० जी० एस०/बी० सेनामैस कालोनी ग्राम अतुल, जिला-बलसाद-396020
47.	अल्का पाल प्रभा कान्त	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1984	9468 11-2-86	सोनी फालिया, पोती देसाई पोल ग्राम-सूरत, ता०-चोरयासी, जिला सूरत।
48.	अल्का पारीख रत्तिक लाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1985	9618 21-11-86	पो० आ० के पीछे, धर्म नगर, साबरमती अहमदाबाद-5
49.	अल्का शाह प्रेम चन्द	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1983	9210 2-2-85	द्वारा पी० जे० शाह, अभिनव वनियाबाद ग्राम-भुज-कच्छ
50.	अल्का शाह रक्षेस भाई	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1984	9421 2-12-85	द्वारा आर० आर० शाह, 33, अन्नापल्ली सोमायटी, करेलीबाग, ग्राम-बड़ौदा-18
51.	अल्का शाह विश्वोद भान्वरा	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1985	9632 5-12-86	10/8, तुलसी श्याम फ्लैट्स, भीमतीपुरा नया वाडाज, अहमदाबाद-17

1	2	3	4	5
52.	आलोकपटेल बहेछार भाई	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1983	9018 16-4-84	पटेल की मोती खादकी, ग्राम काथालाल ता०-कापड़वन्ज, जिला-खेड़ा
53.	अलाकोश रावल प्राण शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1978	7526 15-2-80	गाजगडोश्वर नजदीक मन्विर ग्राम-पुलपावा
54.	आलंकुर्ता जोशी रविशंकर	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय 1984	9250 9-4-85	द्वारा आर० एच० जोशी, भक्तीनगर, स्टेशन प्लाट, रोड नं० 2/12, आई० ई० बैंक बड़ौदा के पास, प्रथम तल, राजकोट- 360002
55.	अलारखा बोधरा अब्दुल करीम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1977	6349 4-10-78	ग्राम-उदाकिया पो०-मेतीमाई बाया धोराजी, जिला-राजकोट
56.	अली भाई भट्टी राजाभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1974	5240 4-6-76	रावतपाड़ा शेरी नं० 1, ग्राम-बिलाख जिला-जूनागढ़।
57.	अलिका शाह महेन्द्र कुमार	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1972	4134 10-12-73	काशी जुन्ज 11, कीरतकुंज सोसाईटी करेलीबाग, ग्राम-बड़ौदा।
58.	अल्पेश कुमार सेठ पुष्पा कान्त	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1979	7795 28-8-80	वानीव वाद ग्राम-त्रिकाली जिला-वलसाद
59.	अल्तु हुसैन आनीर ताज मुल अहमद	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय 1977	6283 20-9-78	वासिया छाल, नजदीक पो० आ० ग्राम और ता०-धर्मपुर, जिला-वलसाद।
60.	अमर चन्व खोखानी हाकिम खन्द	डी० ए० एस० एफ०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसन, बम्बई 1941	134 3-11-41	रायपुर चाकला, 907, नगर बोधिनी पोल, अहमदाबाद।
61.	अमरीश नीरभाई श्री कृष्ण	आयुर्वेदआचार्य, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1977	8069 4-5-81	द्वारा एम० एस० उपाध्याय अरभुरा सोसाईटी, सामने एल० जी० अस्पताल मणी नगर, अहमदाबाद।
62.	अमर प्रसाद वैद्य बालकी दास	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1936	9658 31-12-86	36, महालक्ष्मी सोसाईटी, पालावी सरखेज मार्ग, अहमदाबाद।
63.	अमरशी चौहान कान्जी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1970	3195 12-5-71	ग्राम-गोदकोट ता०-जोधिया बाया मोराबी जिला-राजकोट।
64.	अमरशी गोहिल तुलसी भाई	बी० ए० एम० एस०, कानपुर विश्वविद्यालय, 1972	4886 17-6-75	पुराना बम स्टाप, ग्राम-द्वारका जिला जामनगर
65.	अमरशी भाई सुतरिया बुनगार भाई	डी०एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2117 20-7-66	ग्राम और पो० आ०-रोहिशाला बाया निगाला जे० ता०-जोडड़, जिला-भावनगर

1	2	3	4	5
66.	अमरीश कुमार शाह अमृत लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय, 1975	5677 24-2-77	9 सी, तृतीय तल, टिगेर प्लैट, नजवीक नावीप हाई स्कूल, नया बावाज, अहमदाबाद।
67.	अमर सिंह भिमानी दुनगर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय 1972	5481 5-8-76	ग्राम-मावपार ता०, पमालिया-मियाणा जिला- राजकोट
68.	अमरसिंह कान्धारिया रत्नांजी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय 1980	8396 5-4-82	ब्राह्मण शेरी, जीमखाना मार्ग रन्वेर ता० चोरियासीर जिला-सुरत।
69.	अम्बा लाल भोई शाना भाई	जी० एफ० ए० एम०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1965	1886 10-12-65	ग्राम-सरसा ता०-आनन्द जिला-खेड़ा।
70.	अम्बा लाल धेंधी लक्ष्मण भाई	बी० एफ० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय 1974	4896 26-6-75	ग्राम-अम्बाला बाया अमरगाछा ता० सिहोर, जिला-भावनगर।
71.	अबण लाल कोठारी जीता लाल	डी० ए० एस० एफ०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1953	124 2-11-53	ग्राम-सुदासाना ता० खेरालू, जिला-मेहसाना
72.	अम्बा लाल पाघियार शंकर भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय 1974	5132 23-1-76	ग्राम जलालपुरा ता० पडारा, जिला बड़ौदा
73.	अम्बालाल पटेल खुशाल भाई	बी० एस० ए० एफ०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय 1974	4821 2-5-75	ग्राम रारोड ता० मियागाम-कारजन जिला बड़ौदा।
74.	अम्बा लाल पटेल मणि लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय 1975	5762 14-4-77	ग्राम कोछाक तारीख खाम्मत, जिला-खेड़ा
75.	अम्बा लाल पटेल प्रह्लाद भाई	आयु० मध्यमा शा० व० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6517 1-2-79	स्टाफ व्हाटर, सी० जे० अस्पताल ग्राम- सुरेन्द्र नगर।
76.	अम्बा लाल पटेल शिव राम	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय 1984	9419 2-12-85	ग्राम-आनम्बपुरा, पो० आ० भालक ता०- खेरालू जिला-मेहसाना।
77.	अम्बालाल शाह दाह्या भाई	जी० एफ० ए० एम०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1959	1127 2-1-59	नावी धारली नागरवाड़ा, बड़ौदा।
78.	अम्बालाल पारिख वसन्त लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय 1969	3051 13-10-70	सामने पुलिस गेट, ग्राम-पालिज ता० और जिला-बरोछ।

1	2	3	4	5
79.	अम्बा लाल पटेल मगन लाल	जी० एफ० ए० एम०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1961	506 19-12-61	पंचायत डिस्पेंसरी ग्राम-धानेरा जिला-बानस- कंठा ।
80.	अम्बालाल पटेल राव जी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय 1977	6469 19-1-79	ग्राम-कंजोड़ा ता०-नादियाड जिला-खेड़ा ।
81.	अम्बा लाल पटेल पुरुषोत्तम दास	आयु० मध्यमा श्रा० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1973	6634 21-2-79	21/659, एम० एल०, 5 शास्त्री नगर, अहमदाबाद ।
82.	अम्बा लाल प्रजापति लाल भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय 1979	7948 17-1-81	ग्राम और पो० पनसरोडा ता०-बालासिनोर जिला-खेड़ा ।
83.	अम्बा लाल व्यास माधव लाल	डी० ए० एम०, यू० पी० आर्यु० महाविद्यालय, बड़ौदा 1940	2650 14-9-40	मरुविया पोल, ग्राम-मेहनीयाबाद जिला-खेड़ा ।
84.	अम्बा राम पटेल मणि लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय 1973	4524 23-9-74	ग्राम-भेतपुर ता० चान्सभा जिला-लेहसाना ।
85.	अमरीश भाई शास्त्री लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय 1971	3582 7-9-72	संकाड़ी शेरी शिवाम ग्राम-मोरवी जिला- राजकोट ।
86.	अम्बा शंकर शुक्ला गिरिजा शंकर	आयुर्वेद विशारद, बोर्ड आफ इण्डिया मेडीसिन, सौराष्ट्र 1958 एच० पी० ए०, पो० ग्रे० ट्रेनिंग सेन्टर इन आयु जामनगर 1966	2280 15-4-58	कृष्णा भवन, डा० तरादा साहिब हाउस, सामने जाफर मदान, गांधी ग्राम जूनागढ़- 362 001 ।
87.	अम्भोई गण्जर वहिया भाई	जी० एफ० ए० एम०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1961	139 5-12-61	मानिक विला पंच हातड़ी नयासरी जिला- वलसाद ।
88.	अम्बिका बेन पटेल प्रमोद भाई	बी० एस० ए० एम०, विश्वविद्यालय आफ बम्बई 1979	9072 15-6-84	157, शक्ति नगर, ग्राम और जिला-अरोच ।
89.	अम्बिका प्रसाद शास्त्री रामचन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय 1974	4717 31-3-75	हलाक नं० 36, मणिदीप सोसाईटी, नजदीक जीवराज पार्क, ए० बाद ।
90.	अमरीश व्यास काणी विश्वनाथ	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय 1969	3063 14-10-79	ब्रह्मान शेरी, ग्राम-उन्सा, ता० सिद्धपुर जिला-मेहसाना ।

1	2	3	4	5
91.	अम्बू भाई पटेल शाना भाई	डी० ए० एस० एफ०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1950	504 30-12-80	ग्राम-बोरावी ता०-आनन्द जिला-खेड़ा ।
92.	अमरचन्द्र भाई पटेल बाहिछर दास	जी० एफ० ए० एम०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1960	494 5-12-61	ग्राम और पो० लिम्भोई ता०-मोदसा जिला साबरकंठा ।
93.	अमहुतीश जोशी रामेश्वर	बी० ए० एम० एस०, इन्दौर विश्वविद्यालय 1979	8267 31-12-81	धन्वन्तरि मेडीकल हाल, बायबानी (म० प्र०) जिला-खारगोने ।
94.	अमी बोंरा चन्द्र कान्त भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय 1977	6868 3-4-79	23, शारवानगर सोसाईटी, एलिस पुल, अहमदाबाद ।
95.	अमीचन्द्र भाई पटेल पोदार भाई	एम० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय 1973	4943 6-9-75	ग्राम-पुराल ता०-हिम्मतनगर जिला-साबर- कंठा ।
96.	अमीधर पारिख दलपत राम	डी० ए० एस० एफ०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1947	675 30-1-48	ग्राम-रामपुरा स्ट्रीट, मानकोडा ता०-विर- मगाम ।
97.	अमीनश सेठ मनसुख लाल	बी० ए० एम० एस०, इन्दौर विश्वविद्यालय 1977	7167 2-8-79	द्वारा एम० एन० सेठ सामने, जैम देरासर ग्राम बांकनेर जिला-राजकोट ।
98.	अमीश दावड़ा चन्दु लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय 1981	8997 28-3-84	13, संकर भारती सोसायटी, शारायणपुरा, अहमदाबाद-13 ।
99.	अमीता भट्ट जर्नावन	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय 1983	9135 10-9-84	बी०-6, निकुंज एर्पाट, सामने कृष्णा सिनेमा, ग्राम-बड़ोदा ।
100.	अमीता देसाई योतिन्धर भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० विश्वविद्यालय 1981	8384 24-3-82	सबोदय बलमानदीर सोनी फालिया नागेश्वरी पोल, सूरत-395 001
101.	अमीता कामवार कांती लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, 1978	7345 29-10-79	द्वारा डा० के० ए० कामदार अमृत कुटीर, बोराडी रोड, ग्राम भावनगर ।
102.	अमीता काशलीकार श्रीकृष्णा	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8540 14-9-82	10/1064, गोपीपुरा, मौलाभाई रोड, औरयासी, जिला-सूरत ।
103.	अमीता रावल अनिरुद्ध भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5972 28-11-77	भगतजी पलेस ग्राम-चोटीला जिला-सुरेन्द्र- नगर ।
104.	अमीता रावल नवीन चन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8446 15-6-82	द्वारा डा० एन० पी० रावल, मेडीकल आफीसर लाबरासी टैनिंग सेन्टर, अजया रोड, बड़ोदा-390 029

1	2	3	4	5
105.	अमीताबेन अध्वारयू ठाकुर भाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	1771 7-8-79	ग्राम गोपालपुरा ग्राम बाकोर, जिला खेड़ा
106.	अमित कुमार वैद्य पोपट लाल	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8470 3-8-82	ग्राम देमनी ता० बयाद, जिला साबरकंठा
107.	अमितराय त्रिपाठी उमाकांत	बी० ए० ए० एम०, गुजरात वि० वि०, 1981	8392 24-3-82	पंच कटाड़ी, चौक, भुज-कच्छ-370001
108.	अमृत भाई सतवारा जेठा राम	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	3049 21-9-70	ग्राम भाव्रेसी, ता० वाघवन, जिला सुरेन्द्र नगर
109.	अमरीश जोशी शांतू लाल	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3674 2-11-72	ग्राम मोघ, अंकाधिया बाया लनीघार, जिला अमरेली
110.	अमरीश परमार लिक्काम	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5539 28-9-76	ग्राम नागल काड़ा, ता० भोराजी, जिला राजकोट
111.	अमृत पटेल गामजी भाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8713 16-3-83	द्वारा डा० डी० जे० पटेल, स्टेशन रोड, ग्राम सांतारामपुर, जिला पंचमहल
112.	अमृत भाई बीबा पाशा भाई	आयुर्वेद मध्यमा, श्र० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1976	6719 9-3-79	ग्राम और पो० वडसार, ता० कालोल, जिला मेहसाना
113.	अमृतलाल जोशी दामोवर भाई	डी० ए० ए० एफ०, फैकल्टी आफ आ० यू० लि० मेडीसिन, बम्बई 1957	7768 17-7-80	ग्राम खोदीयार कालोनी बस स्टैण्ड एरोडूम रोड, ग्राम जामनगर
114.	अमृत भाई पंचाल ईश्वर भाई	बी० ए० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9346 21-8-85	पटेलवास सामने बस स्टैण्ड, जूनाबदाज अहमदाबाद-380013
115.	अमृत भाई पटेल नरोत्तम दास	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5365 22-4-76	ग्राम उपेरा, ता० सिद्धापुर, जिला मेहसाना
116.	अमृत भाई पटेल शिवा भाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8297 5-2-82	20, आषीश नगर सोसाइटी, मेघानीनगर, अहमदाबाद
117.	अमृत भाई पटेल मगनभाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8686 3-3-83	ईश्वरकरूपा ग्राम और पो० यूनार्ही, ता० वासना, जिला वलसाद
118.	अमृत भाई प्रजापत गुलाब चन्व	बी० ए० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9055 25-5-84	ग्राम पोशिना, ता० ईंदार, जिला एस० के०

1	2	3	4	5
119.	अमृतभाई परनार गनेश भाई	आयुर्वेद मध्यमा, श्रा० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1977	6554 12-2-79	4, छात्रा विकास कालोनी, पैलेस रोड, ग्राम राजपीपाला जिला बरूच
120.	अमृत कुमार वाघेरे मोहन भाई	आयु० मध्यमा, श्रा० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	7121 17-7-79	गिरीश सोसाइटी म० नं० 52, साबरमती डी कैंबिन, साबरमती, अहमदाबाद
121.	अमृतलाल अश्वत रामकृष्ण	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7356 29-10-79	ग्राम पारबादी, ता० धारी जिला अमरेली
122.	अमृतलाल अमीपारा देवाशी	आयु० मध्यमा, श्रा० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6727 9-3-79	12, गुण्डावड़ी, मन्सुख निवास, ग्राम राजकोट
123.	अमृत लाल आकामोन लालजी भाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1968	2860 24-11-69	ग्राम घोलाई, वाया दुनगारी, ता० गनदेवी, जिला बलसाद
124.	अमृत लाल बागाथारी नानजी भाई	आयु० भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1966	7084 5-7-79	ग्राम अम्बालास ता० तालला (गीर), जिला जूनागढ़
125.	अमृतलाल दवे तुला शंकर	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, महाराष्ट्र 1957	348 1-12-58	ग्राम वन्दरा ता० बाभाई, जिला बड़ौदा
126.	अमृत लाल गाघ्रिया मोहन लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	5050 24-11-75	5-बी, आयु० कालोनी, धन्वन्तरि मन्दिर के पीछे ग्राम जामनगर
127.	अमृतलाल गोहिल हरी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6106 28-3-78	ग्राम औरपो० माजेवाड़ी, ता० और जिला जूनागढ़
128.	अमृतलाल जानी शिव राम	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1964	1490 21-7-64	ग्राम बाबिरा वाया राजुला, जिला अमरेली
129.	अमृतलाल जोशी भाल चन्द्र	डी० ए० एस० एफ० फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1948	2080 30-6-48	मोती पांड्या खावकी ग्राम नवसारी, जिला बलसाद
130.	अमृतलाल जोशी मगन लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०; 1972	4057 19-9-73	ग्राम भावदा, ता० दासक्रोई, जिला अहमदा- बाद
131.	अमृतलाल जोशी रामचन्द्र	आयु० मध्यमा श्रा० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6783 21-3-79	17/2, तुलसीश्याम फ्लैट, नवां वादज, अहमदाबाद
132.	अमृतलाल जोशी प्रेम शंकर	वैद्य विशारद नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1964	7280 15-9-79	ग्राम भान्पुरी, ता० मालिया, मतिना, जिला जूनागढ़

1	2	3	4	5
133.	अमृत लाल कटारिया नाथु भाई	बी० ए० एम० एस०, गुजरात वि० वि० 1967	2616 19-12-67	नजदीक बाबनी बाव, ग्राम जनजोधपुर, जिला जामनगर
134.	अमृत लाल कारिया कृष्णादास	बी० ए० एम० एस०, गुजरात वि० वि०, 1965	1757 5-7-65	मोटा अंकाधिया बाँया लनीधार, जिला अमरेली
135.	अमृत लाल कटेशिया धानाजी	बी० एस०, ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6035 16-2-78	58, दिगविजय पलाट, ग्राम जामनगर
136.	अमृत लाल मंदालिया शिव लाल	आयु० भिषक, नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1976	6488 1-2-79	लिम्बावी उल्ला न० 2, ग्राम सुरेश्वर नगर
137.	अमृतलाल मेहता केशव लाल	डी० एस० ए० सी०, क० गृह आयु० कोर्स, गुजरात 1963	891 10-6-63	ग्राम नानी बारल, बाया मोरबी, जिला राजकोट
138.	अमृतलाल निमावत नाधव दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात वि० वि०, 1970	3283 5-11-71	टीचर्स कालोनी, दभोट रोड, राम निवास ग्राम विरावाल, जिला जूनागढ़
139.	अमृतलाल निरपारा हरी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8114 17-7-81	ग्राम गीरगाधदा, ता० और बाया उना, जिला जूनागढ़
140.	अमृतलाल पनारा चातुर भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4496 9-9-74	ग्राम बावला, ता० धोलाका जिला अहमदाबाद
141.	अमृतलाल पांड्या विठ्ठल जी	वैद्याचार्य नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1965	7246 30-8-79	ग्राम भालसन बेराजा, ता० कालावाड, जिला जामनगर
142.	अमृतलाल पटेल प्रभु दास	डी० ए० एस० एफ०, फैक्ट्री आफ आ० यू० सि० मेडीसिन बम्बई 1954	489 2-8-54	ग्राम शेरठा, ता० गांधीनगर, गुजरात
143.	अमृतलाल पटेल शेखर दास	डी० एस० ए० सी०, क० गृह आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2344 22-12-66	ग्राम धिकारा, पो० ओल ता० कादी, जिला मेहसाना
144.	अमृतलाल पटेल शिवराम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3667 25-10-72	26-यू० गुजरात पटेल सोसाइटी सं० 2, जहांगीरपुरा, रोड, असाखा
145.	अमृतलाल पटेल ईश्वर लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4279 20-3-74	ग्राम आनन्दपुरा, ता० खेरालु, जिला मेहसाना
146.	अमृत लाल पटेल प्रभु दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8221 17-11-81	ग्राम और पो० साल्या, ता० बलाशीनोर, जिला खेवा

1	2	3	4	5
147.	अमृत लाल पुरोहित मणि लाल	डी० ए० एस० एफ० फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1950	719	ग्राम साथम्बा, ता० बयाद, जिला साबरकण्ठा
148.	अमृत लाल शर्मा चन्ना भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु वि० वि० 1969	2974 16-6-70	वैद्यकीय अधिकारी, जिला पंचायत डिस्पेंसरी, ग्राम बारिया, ता० दाहेगान, जिला अहमदाबाद
149.	अमृत लाल शाह छबील बास	डी० ए० एस० एफ० फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1953	1119 7-4-53	जहांगीरपुरा चकला असारवा, ग्राम अहमदा- बाद
150.	अमृत लाल शाह नामालाल	डी० एस० ए० सी० क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1967	2528 23-6-67	द्वारा शाह बुद्धीसागर हनालाल, ग्राम अलुवा ता० कालो, पो० उन्नाव, जिला मेहसामा
151.	अमृत लाल शुक्ला दया शंकर	आयु० विशारद, बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन, सौराष्ट्र 1959	2215 16-9-59	ई० एस० आई० डिस्पेंसरी, सरकारी डिस्पेंसरी, डी-28, पीछे बाल मील, रखियाल अहमदाबाद
152.	अमृत लाल शुक्ला प्रभा शंकर	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1962	1269 15-9-62	गोरधारी सोसाइटी, ग्राम जामनगर
153.	अमृत लाल सोनी वरूज लाल	आयु० विशारद बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन, सौराष्ट्र 1961	2318 28-4-61	ग्राम पंचपीपला, बाया जेतपुर, जिला राजकोट
154.	अमृत लाल रावल नरथा लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7311 20-9-79	नानोवास, ग्राम रानासन, ता० बीजापुर, जिला मेहसामा
155.	अमृत लाल त्रिवेदी मूल शंकर	डी० ए० एस० एफ० फैकल्टी आफ यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1946	303 4-12-46	ग्राम बालीसाना, ता० पाटन, जिला मेहसामा
156.	अमृत लाल उपाध्याय बेछार भाई	जी० एफ० ए० एम० फैकल्टी आफ आ० यू० मेडिसिन, गुजरात 1962	61 5-1-66	ग्राम मुन्दरा, पो० नार, जिला खेडा
157.	अमृत लाल बाबोलिया लालजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4201 15-2-74	नवरंगपुरा, ग्राम राजकोट
158.	अमृत लाल जोशी मगन लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1968	2859 24-11-69	बालेण्ड शेरी नजदीक हवेली, ग्राम सहवा बान्दर, जिला भावनगर
159.	अमृत लाल कुमार ठाकुर भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9034 16-3-84	26 नूतन सोसाइटी, ग्राम और ता० नवसारी जिला बलसाद

1	2	3	4	5
160.	आनन्द भारद्वाज स्वरूप]	भिषग रत्न शास्त्री रा० आ० यू० लि०बी० कालेज, जयपुर 1970	6675 3-3-79	आर० नं० 287/एम० वेस्ट रेलवे मेडीकल कालोनी, भावनगर
161.	आनन्द शराफ प्रभाकर	बी० ए० एम० एस्० विक्रम वि० वि० 1978	7457 21-12-79	गुरू प्रसाद, मंगलदास मोहल्ला, शियाबाग बहौदा
162.	आनानी वैद्य प्रफुल्ल चन्द्र	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9366 2-9-85	1, आदर्श सोसाइटी, अथावालाइन्स, सूरत— 395001
163.	अनन्त बनारसि वसन्तेश	बी० ए० एम० एस्० विक्रम वि० वि० 1974	6739 15-3-79	ग्राम भारोली वाया साजन रेलवे स्टेशन जिला बलसाद
164.	अनन्त पाठक दिनेश चन्द्र	बी० ए० एम० एस्० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9435 23-12-85	ग्राम और पो० आ० वाघजीपुरा, ता० शहेरा, जिला पंचमहल
165.	अनन्त लाल बादनागारा लाल जी	बी० ए० एम० एस्० गुजरात वि० वि० 1985	1755 5-7-85	द्वारा सोनी लालजी के० चाँदी बाजार, जामनगर
168.	अनन्त कुमार जोशी जामीपत राम	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8087 4-6-81	ब्लाक नं० भगवती कृपा केशरियाजी नगर, इल्लिशमिज, वासना, अहमदाबाद
167.	अनन्त कुमार पांड्या मणि साल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8044 27-4-81	नीथर जैन डेरासार, ग्राम और पो० लोत्रा, ता० बीजापुर, जिला मेहसाना
163	अनन्त कुमार राजपुर भारत सिंह	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7827 25-9-80	सामने ऊषा टेकजी, 445/16, सुखीस चासी, गोमतीपुर, अहमदाबाद
169.	अनन्त कुमार उपाध्याय रमेश चन्द्र	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5669 24-2-77	3, सदाशिव नगर सोसाइटी, रामीप, ए० बाद
170.	अनन्त नारायण शर्मा रामचरित्र	एच० पी० ए० पो० प्रे. ट्रे० सेन्टर इन आयु० जामनगर 1963	2524 22-6-67	काल निकेतन, हास्पीटल रोड, जामनगर
171.	अनन्त प्रमोद आचार्य दुलभ जी	एल० ए० एम० यू० पी० आयु० महावि०, पाटन 1937	48 7-6-40	आचार्य शेरी ग्राम लिमावी, जिला सुरेन्द्र नगर
172.	अनन्त राय मन्दालिया कान्ति लाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3323 29-1-72	वादावचौरा कांजीकिदिया कान्छा, ग्राम भावनगर
173.	अनन्त राय त्रिवेदी दुर्गा शंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2948 10-4-70	शिल्पी नगर प्लोट नं० 6, ग्राम भावनगर

1	2	3	4	5
174.	अनन्त राय पांड्या तारा शंकर	डी० ए० एस० एफ० फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1953	5448 1-10-53	चोरापा ग्राम और जिला अमरेली
175.	अनन्त राय पारिख भगवत राय	बी० ए० एम० एस० गुजरात वि० वि० 1961	709 21-9-62	नाथरुपा, रामदिलो धाल रोड, जूनागढ़
176.	अनन्त राय पाठक प्राण शंकर	आयु० उत्तमा ग्रा० व० परीक्षा समिति, बड़ोदा 1967	6537 3-2-76	12, भावानली पार्क, सोसाइटी, पो० जीबराज पार्क, अहमदाबाद
177.	अनन्त राय रावल प्राण शंकर	घ्रायु० भिषक नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली	8184 22-9-81	ईश्वर नगर सोसाइटी, बातवा रोड, ग्राम अहमदाबाद
178.	अनन्त राय रूपारिलिया भापुर दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6253 2-9-78	द्वारा रूपारिल ब्रादर्स बस स्टैंड रोड, ग्राम सालरकुण्डाला
179.	अनन्त राय त्रिवेदी योजी लाल	आयु० भिषक नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1970	7647 21-3-80	दैंबागना प्रह्लाद प्लांट धन्वन्तरि मार्ग, ग्राम राजकोट
180.	आनन्द शंकर शुक्ला करुण शंकर	एल० ए० एम० यू० पी०, आयु० प्रहावि० पाटन 1941	1270 15-3-51	बी मं० 32-बी, शारवा सोसाइटी, इल्लिश ब्रिज, पो० आनन्द नगर, अहमदाबाद
181.	अनन्त सिंह परमार फूल सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	8269 31-12-81	ग्राम और पो० चन्द्रनगर, ता० देवगा- धरिया, पंचमहल
182.	अन सूर्या त्रिवेदी मफत लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8754 11-5-83	नरसिंह जी का पोल, वैद्य खादकी टांका पटेल पोल, ग्राम और ता० जिला बड़ोदा
183.	अनारशी कुमार तालाटी बन्धू लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	7360 29-10-79	नाना तालाटी पोल, दुम रास पोल, ग्राम तादियाड जिला खेड़ा
184.	अनिस कीशत रामचन्द्र	बी० ए० एम० एस० पूना वि० वि०, 1978	8571 20-10-82	ग्राम और ता० उमारगान, जिला वलसाड
185.	अनिल जोशी रोसिक लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8305 5-2-82	27, स्वास्तिक सोसाइटी मर्हाष अरविन्द मार्ग, पालनपुर, जिला बनास कांथा
186.	अनिल रेशामिया लीलाधर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5963 18-11-77	द्वारा ए० डी० पोपट, 32 जालाराम सोसाइटी, ग्राम जूनागढ़
187.	अनिल शाह प्रेमचन्द	जी० एफ० ए० एम० फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1965	1695 3-6-65	ग्राम सरदोई, ता० मोदासा, जिला साबर- कंधा

1	2	3	4	5
188.	अनिल शाह चम्पक लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7380 16-11-79	1360, जोशीस बान्छा, मोती बासान शेरी शेरी, ए० बाद
189.	अनिल ठाकरे हरी लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7060 27-6-79	ग्राम कीदिया नगर बाबा लंकविया, ता० रापर, जिला कच्छ
190.	अनिल त्रिवेदी कांति लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6365 13-10-78	ग्राम और पो० धानबवासी, ता० गिहोर जिला भावनगर
191.	अनिल ब्यास नटवर लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8896 10-1-84	द्वारा ब्यास नटवर लाल, एक-8, गवर्नमेंट फ्लैट एस० टी० रोड, सामने तालुका पंचायत, जिला अहमदाबाद
192.	अनिसा शाह कांति लाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात वि० वि० 1963	1498 30-7-64	ग्राम नाजवा, जिला बड़ौदा
193.	अनिला शाह गोपाल दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7585 11-3-80	15-ए, भावनेश्वर पार्क सोसाइटी, नारनपुर, रेलवे क्रासिंग, अहमदाबाद
194.	अनिल चन्द वैद्य बाल कृष्ण	बी० ए० एम० एस० सागर वि० वि० 1975	7806 9-9-80	ग्राम-मोगार ता०-मानन्द जिला खेड़ा
195.	अनिलचन्द्र तेंवार विपिन चन्द्र	बी० एस० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5015 16-2-76	द्वारा कांतिलाल सी० तेंवार दरबार नजदीक लालटावर, ग्राम राजपीपाला
196.	अनिल कुमार भावसार कचारा लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5098 23-12-75	बाजार चौक ग्राम-प्रान्तीज जिला- साबरकंधा
197.	अनिल कुमार दवे रति लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5541 28-9-76	दवेभुवन महादेववास नं० 2, नवाम्नाथाज, अहमदाबाद
198.	अनिल कुमार गांधी मंगू लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3997 7-8-72	ग्राम मटोडा, ता० खेड़ा जिला साबर कंठ
199.	अनिल कुमार गोहिल मगन लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3397 24-2-72	पीछे मुनी डेरी प्लॉट नं० 1083, दयानन्द चौक, किरण बिहार, कृष्णानगर, भावनगर
200.	अनिल कुमार जानी भवानी शंकर	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3675 2-11-72	द्वारा वसन्तराय जी० शास्त्री, श्री निवास, ज्योतिष कार्यालय, नजदीक सत्य नारायण मन्दिर, ग्राम जामनगर
201.	अनिल कुमार जोशी अमृत लाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3874 16-3-73	एम० पी० बिल्डिंग अन्वे फालिमा नगर, वाड़ा ग्राम जूनागढ़
202.	अनिल कुमार जोशी अम्बा लाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7940 17-1-81	ग्राम और पो० अम्भोलाज, ता० मानन्द, जिला खेड़ा

1	2	3	4	5
203.	अनिल कुमार मजेधिया शम्भू लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9401 19-10-85	वाटिया फालिया ग्राम भुज, कच्छ-370001
204.	अनिल कुमार मेहता सदाशिव	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4453 26-8-74	39, मध्यम वर्ग सोसाइटी, नजदीक भुलाई पार्क, गीता मन्दिर रोड, अहमदाबाद
205.	अनिल कुमार पंडित कैलाश नाथ	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2981 17-6-70	रिची रोड, अन्डर ब्रिज, हीरा लाल बाहेला कालुपुर, अहमदाबाद
206.	अनिल कुमार वैद्य नटवर लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5399 13-5-76	56, उत्तर गुज० पंचाल, को० आ० हा० सोसाइटी प्रगत लक्ष्मी सोसाइटी, रानिप अहमदाबाद
207.	अनिल कुमार पटेल मणि लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8837 6-9-83	ग्राम और पो० चिखाली वाया वादभाई, जिला वांग
208.	अनिल कुमार रावल गौरी शंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4702 29-3-75	ग्राम तामा, पो० नया अकोल, ता० खामभट, जिला खेड़ा
209.	अनिल कुमार रावल जेठा भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8931 17-2-84	ग्राम हुरीपुरा पो० अदा हृषरोल, ता० भिलोडा, जिला साबरकण्ठा
210.	अनिल कुमार शाह चन्दु लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3227 12-8-71	ग्राम धावकान ता० प्राणतीज, जिला साबरकण्ठा
211.	अनिल कुमार शाह मणि लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8404 5-4-82	ग्राम और पो० सबाली, ता० ईदार, जिला साबरकण्ठा
212.	अनिल कुमार ठक्कर शानलाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9241 12-3-85	ग्राम और पो० आ० मुवाल, ता० पडारा, जिला बड़ौदा
213.	अनिल कुमार उपाध्याय चन्द्रकांत	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7903 14-11-80	10-ए, कल्याण सोसाइटी, बड़ौदा-5
214.	अनिरुद्र वैद्य शिव कुमार	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5969 21-11-77	25, शांति पार्क सोसाइटी, प्रताप नगर, सिन्दर्वे नाटा रोड, जिला बड़ौदा
215.	अनिरुद्र जानी नाना लाल	डी० ए० एम० एफ० फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1956	194 1-11-56	ग्राम और पो० आ० आमला, ता० पाडरा, जिला बड़ौदा
216.	अनिरुद्र जोशी आशाराम	डी० ए० एम० एफ० फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1956	211 2-7-56	खेड़ा जिला पंचायत डिस्पेंसरी, ग्राम राधू ता० मातर, जिला खेड़ा

1	2	3	4	5
217.	अनिरुद्धमोघा जयन्ती लाल	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2370 20-1-67	गौतम नगर सोसाइटी, पो० आश्रम निवास अहमदाबाद ।
218.	अनिरुद्ध रावल नटवर लाल	बी० एस० ए० एम, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4718 31-3-75	ग्राम बिलाज बाया थालतेज ता० वासरोई जिला अहमदाबाद ।
219.	अनिरुद्ध शुक्ल हरी शंकर	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, महाराष्ट्र 1959	1268 23-10-61	सी०-30, ओम निकेतन सोसाइटी, प्रथम तल सामने जवाहर पम्पिंग स्टेशन, वसनारोड, अहमदाबाद ।
220.	अनिरुद्ध ब्यास भानु भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8698 3-3-83	10, वरूजलालसोसाइटी, कालेज रोड, ग्राम नादियाड, जिला खेड़ा
221.	अनिरुद्ध सिंह गोहिल नानु भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4584 3-12-74	ग्राम द्रपाज जिला भावनगर ।
222.	अनिरुद्ध सिंह झाला चन्दु भाई	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9345 21-8-85	ग्राम और पो० आ० लालियाद बाया चौदा ता० लिम्बादी जिला सूरत नगर ।
223.	अञ्जना मनकोषी विनायक राय	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8083 7-5-81	सी०-412, पेट्रोकेमिकल्स टाउनशिप, जिला बड़ोदा ।
224.	अञ्जना मेहता त्रिकम लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4169 5-2-74	द्वारा मेहता त्रिकम लाल प्रभाशंकर, ब्लॉक नं० 55, प्रभुविला हंस सोसाइटी, वाराछ रोड, ग्राम सूरत ।
225.	अञ्जना नाठी अशोक कुमार	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	7616 15-2-80	सेक्टर-29, 52/2 ग्राम और जिला गांधी नगर ।
226.	अञ्जना पांड्या सुभाष चन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4768 9-4-75	द्वारा पांड्या चिनुप्रसाद एफ भुटाषी जापा सरदार भवन गली ग्राम बड़ोदा ।
227.	अञ्जना बेन रावल चिमन लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6598 16-2-79	द्वारा अनिल कुमार गीरी शंकर रावल ग्राम तामसा पो० गुणडल, ता० खांभट जिला-खेड़ा
228.	अञ्जनी जरीबाला नवनीत लाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात वि० वि०, 1963	203 7-8-63	नालाजी रोड, सूरत-1
229.	अञ्जनी पांड्या लक्ष्मी नारायण	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6351 4-10-78	11, प्रगती सोसाइटी भैरवनाथ रोड अहमदाबाद ।
230.	अंशुमन प्रेम शंकर	एच० पी० ए०, पो० ग्रे० ट्रे० सेंटर इन आयु०, जामनगर । 1966	2573 22-8-67	जे० पी० आयुर्वेद कालेज, भावनगर ।

1	2	3	4	5
231.	अनसूया भट्ट नाना लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	7186 9-8-79	द्वारा एच० एम० भट्ट आनन्द भाषाकी चाकला ग्राम जामनगर।
232.	अनसूया देसाई नगीन लाल	डी० ए० एस० एफ०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1952	383 1-7-58	एम० ओ० डी० ई० जीनवाला, मेटरनिटी होम, ग्राम अंकलेश्वर, जिला बरोच।
233.	अनसूया कपाड़िया रघुवीर	जी० एफ० ए० एम०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई, 1958	2657 2-3-68	6, मल्हार राव, वाड़ी, दादीपथ अगीयारी- लेन, बम्बई।
234.	अनसूया पारिख गुणवन्त भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5332 3-4-76	मिनी मार्केट, खोकाहारा, महेमदाबाद अहमदाबाद।
235.	अनसूया पटेल भगु भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3326 1-2-72	175, मोती मेहता की पोल, वाड़ीगाम दरियापुर, अहमदाबाद।
236.	अनसूया पटेल विनायकान्त	जी० एफ० ए० एम०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1958	3969 1-5-58	3, सरवार नगर, छानी रोड, ग्राम बड़ोवा ग्राम बड़ोदा।
237.	अनसूया ठाकर रमन लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4178 11-2-74	द्वारा डा० रमनलाल डी० ठाकर थ्री पट्टी चौक, ग्राम द्वारका जिला-जुनागढ़।
238.	अनसूया विभाकर वृन्दावन दास	डी० ए० एस० एफ० फैकल्टी आफ आ० यू० सि०, मेडीसिन, बम्बई 1954	1014 5-1-55	विभाकर निवास, भक्ती नगर सोसाईटी, राजकोट।
239.	अन्तयामी काशवेकर पोराह्लाद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8486 6-8-82	19, नोरसिंहनगर सोसाईटी, नरानपुरा चार रास्ता, अहमदाबाद।
240.	अनुभाई शाह साकर चन्द	एल० ए० एम०, यू० पी० आयु० महावि०, पाटन 1940	1120 15-4-41	5, लक्ष्मी नारायण सोसाईटी, सामने, धम्यानेर सोसाईटी, वादज रोड, अहमदाबाद।
241.	अनूप कुमार केटादिया शम्भू भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7803 5-9-80	715, बापू नगर, निकोल रोड, द्वारा कोटादिया बलाथ स्टोर, अहमदाबाद।
242.	अन्न पुरना राणा निरा लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977 एम० डी० (आयु०) गुजरात आयु० वि० वि० 1982	7759 16-7-80	द्वारा एन० बी० राबा, 30/6 गवर्न० क्वाटर० पीछे कलक्टर आफिस।

1	2	3	4	5
243.	अश्र पूरणा ओजा कनैया लाल	डी० ए० एस० एफ०, फैकल्टी ग्राफ ए० यू० एस० एम०, बम्बई, 1951	3078 25-4-51	74-ए, एकसीनामूर्ती प्लाट, भावनगर।
244.	आराभामभाई मोधा मिनन्द भाई	आयु० भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1973	6899 16-4-79	ग्राम पीटा वाया माधवपुर (बोड), ता० पोरबन्दर, जिला जूनागढ़।
245.	अर्जन बीरोजा हीराजी	आयु० भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1965	7048 21-6-79	ग्राम-कोठारिया वाया मानवादार जिला जूनागढ़।
246.	अर्जना भाई सुतारिया जीवराज भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8757 11-5-83	10, शक्ति नगर, मैन रोड, गोतालवाड़ी (कातरगाम), जिला-सूरत।
247.	अर्जनादास भल्होत्रा इलाटक चन्द	श्री वैद्य कविराज स० ध० प्रेम गिरि आयु० कालेज, लाहौर 1936	7772 17-7-80	10, स्टैंड बैंक आफ इण्डिया आफिसरस सोसाइटी, नारायणनगर, पालादी।
248.	आरती जोशी यदु नन्दन	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9365 2-9-85	167, जैठाभाई पोल, खाडिया, अहमदाबाद 1671
249.	आरती मेहता महेन्द्र राय	टी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5022 29-10-75	द्वारा वी०वी० पटेल स्टेटलाईट इलेक्ट्रॉनिक सत्याकम सोसाइटी, अहमदाबाद।
250.	आरती रावल अयन्ती लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5130 23-1-76	75, नन्दन सोसाइटी, जुबहाई सेन्टर, साहपुर अहमदाबाद।
251.	अर्चना ठाकुर विष्णु प्रसाद	एम० डी० आयु० गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	8918 24-1-84	तन्तववन श्री हरी कालोनी, पानीगेट, सामने पेट्रोल पम्प, ग्राम बड़ोदा-19।
252.	अर्जन भलोदिया केशव लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5579 18-10-76	ग्राम अम्बालास ता० तालाला जिला- जूनागढ़।
253.	अर्जन चावड़ा धुम्सा भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3083 13-1-71	ग्राम हूडमाटिया पो० भावाजनिया ता०- धोराजी जिला राजकोट।
254.	अर्जन फालटु कंजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3585 7-9-72	ग्राम भयावदार करादियाल ता० उपलिटा जिला-राजकोट।
255.	अर्जनाभाई वाघेरे बाना भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4638 6-3-75	ग्राम-वासवाड़ा वाया पेटलाद जिला- जूनागढ़।
256.	अर्जुनभाई भुनगालिया मीरामाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7518 15-2-80	मानियानी खाद नान अदाध, ग्राम-आनद जिला-खेड़ा।

1	2	3	4	5
257.	अर्जुन भाई चौधरी दूबिया भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5306 29-3-76	ग्राम-लोठारवा ता० ध्यारा जिला- सूरत।
258.	अर्जुन भाई देसाई देलान भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात वि० वि०, 1968	2684 27-6-68	ग्राम-मोटा वराळ मर्ली उतरान ता० चरयासी जिला सूरत।
259.	अर्जुन भाई प्रासिया देवला भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3393 22-2-72	गवर्न आयु० डिस्पेंसरी, भोम्भा, ता०- प्रान्टिज जिला साबरकण्ठा।
260.	अर्जुनसिंह बारिया मोती सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8587 3-11-82	ग्राम-खुदारा पो० कुवजार मा० गोधारा जिला पंचमहल।
261.	आरती मेहसानी भारत कुमार	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	4553 15-10-74	685, आनन्द नगर सामने अनिल स्टारला नावा बन्दार रोड, ग्राम-भावनगर।
262.	आरती ओटिया नाटु भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9605 10-11-86	29, बल्लभाचार्य सोसाईटी, जीवरा पार्क अहमदाबाद-51
263.	आरती पाषा पीमाशंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8541 14-9-82	गांधी आश्रम रोड, नेहि तीज प्रभाकुंज सोससाइटी गोधारा, जिला-पंचमहल।
264.	अरुमाल जामनदास मोसायमाल	आयु० भिषक नि०आ० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1962	9268 9-4-85	134, शास्त्री नगर, मैन रोड, ग्राम राजकोट-1
265.	अरुण वैद्य रमाकान्त भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1979 एम० डी० (आयु०), गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9025 16-4-84	मुल्तानपुरा देसाई का बांवा ग्राम- बड़ीदा-390001
266.	अरुण कावम	बी० ए० एम० एस० पूना वि० वि० 1971	3469 5-4-92	ग्राम-शिलामवा ता०-सगबारा, जिला-बृहच।
267.	अरुण काम्बले वित्सेन	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5055 28-11-75	सी०बी० मिशन कम्पाउण्ड ग्राम-अहावा जिला दांग।
268.	अरुण श्रीजा हजातराई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि०, 1968	2679 13-6-68	अरुण आई० श्रीजा० 33/194, हलेरा पार्क रैसकोर्स सर्कल, बड़ीदा-7।
269.	अरुण शाह पोपटलाल	जी० एफ० ए० एम०, कॉन्स्ट्रिक्टि० आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात, 1961	1122 22-12-61	1, न्यू कोमेरसियल सोसाईटी, इल्लिश ब्रिज, अहमदाबाद।

1	2	3	4	5
270.	अरूण अग्रवत दुर्लभजी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5313 29-3-76	तुलसीधाम फ्लैट, 23/6, सामने भीमाजी पुरा नावा वाइज अहमदाबाद ।
271.	अरूण भामाली	जी० एफ० ए० एम०, फेकल्टी आफ आफ यू० सि०, मेडीसिन, बम्बई 1967	7958 3-2-81	कमलास्मृती 11, मिलन सोसाईटी, ग्राम-राजकोट ।
272.	अरूण दवे कान्ती लाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात वि० वि०, 1964	1768 20-7-65	रावकवाल स्ट्रीट ग्राम-बधारा जिला-सूरत ।
273.	अरूणा ओजा लक्ष्मी शंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3867 13-3-73	ग्राम-सारंगाम गली भीलाड जिला-वलसाद ।
274.	अरूणा पारिख नटवर लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5248 5-3-76	ग्राम-खानभा ता०-बीजापुर जिला- मेहसाना ।
275.	अरूणा पटेल मणि भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 11972	3976 25-7-73	बिट्टल भास्कर वाड़ा कृष्णकुंज दामदिया बाजार, पीछे बाबुल अस्पताल, ग्राम-बड़ीदा ।
276.	अरूणा पटेल भीखा भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8667 17-3-82	ग्राम पो० और ता० बायाध जिला साधरकंडा
277.	अरूणा पटेल देवेन्द्र कुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9432 23-12-85	ग्राम और पो० आ० सिथान बाया ध्यान ता० ओलपड़ जिला-सूरत ।
278.	अरूणा पटेल गणेश भाई	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9543 18-8-86	अनन्तवाड़ी प्लो नं० 12/बी०, पीछे जेल मैदान ग्राम-भावनगर ।
279.	अरूणा शाह गिरिश	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4115 13-11-73	द्वारा छोटालाल टी० गांधी, तम्बाकु वेपारी ग्राम-धारी, जिला अमरेली ।
280.	अरूणा सेठी धीरज लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3719 5-1-73	मेठ शोरी ग्राम-धर्मफा ता०-जाम- जोधपुर जिला-जामनगर ।
281.	अरूणा सोलंकी शगन लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5184 18-2-76	ग्राम-विसावाव बाया लनीधार जिला राजकोट ।
282.	अरूणा त्रिवेदी जगदीश चन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	3113 10-2-71	53, दिगविजयप्लोट, रमेश कुंज, ग्राम- जामनगर ।
283.	अरूणा उपाध्याय कन्हैया लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5217 26-2-76	6/6, मित्रामण्डल सोसाईटी उस्मानपुरा अहमदाबाद ।

1	2	3	4	5
284.	अरूणाबेन चौधरी घाससी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	8119 17-7-81	ग्राम नवानिया पो० बनसकुई ता० महुवा जिला सूरत ।
285.	अरूणाबेन गूजर अर्जुन सिंह	बी० एन० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5268 9-3-76	ग्राम ह्वार जिला साबरकंधा ।
286.	अरूणा बेन मछार जनकराय	आयु० मध्यमा श्री द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1979	9529 1-7-86	लाविगीया चक्रदा शेरी, नामा कोठा रोड, ग्राम भावनगर-364001 ।
287.	अरूणा बेन नायक शान्ती लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6062 8-3-78	ग्राम तालोद ता० गन्देवी बाया खिलीमोरा जिला-वलसाद ।
388.	अरूणाबेन पटेल जासा भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8230 24-11-81	ग्राम श्रीर पो० आ० मितराल ता० नादि- आड जिला खेड़ा
289.	अरूणाबेन पटेल मनु भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8353 11-3-82	ग्राम श्रीर पो० जारोला ता०-बोरसाद जिला खेड़ा ।
290.	अरूण धाती पण्डित कैलाश नाथ	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4214 19-2-84	27, कैलाश भवन, वसन्तनगर मणिनगर अहमदाबाद ।
291.	अरूणाबेन पांड्या नन्दकृष्ण	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5322 2-4-76	द्वारा पांड्या नन्दरीशाना पी० बाजबाड़ा कोटिकोट ग्राम--बड़ौदा ।
292.	अरूण कुमार वैद्य बलवन्त राम	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1964	1591 19-1-65	5/1036, रामनाथ महादेव की शेरी, गूजर फालिया हरीपुरा जिला सूरत-3
293.	अरूण कुमार आर्य रवीन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4521 23-9-74	राष्ट्रीय आयु० डिस्त्रिक्टरी, श्रद्धानन्द बाजार ग्राम व्यावर जिला--अजमेर (राज०) ।
294.	अरूण कुमार जानी मूल संकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5574 18-10-76	ग्राम पोसारपुर ता० धाँधुका, गली भीमानाथ जिला--अहमदाबाद ।
295.	अरूण कुमार जोशी भाई शंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3723 8-1-73	ग्राम अर्जुनसुख बाया वैद्य ता० कुकाबाव जिला अमरेली ।
296.	अरूण कुमार जोशी मनु भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8741 19-4-83	आम्या सेठवाड़ा प्रनाका ग्राम कल्याण जिला थाना (महाराष्ट्र) ।
297.	अरूण कुमार कपाड़िया गोविन्द लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7946 17-1-81	ग्राम और पो० चितारसुम्बा ता० धासरा जिला खेड़ा ।

1	2	3	4	5
298.	अरूण कुमार लिम्बानी मोहन भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4022 30-8-73	ग्राम सरसिया ता० धारी जिला अमरेली ।
299.	अरूण कुमार नायक चिमनलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6174 6-6-78	सुहासनगर सोसाइटी, नजदीक इन्कपेटेन्स, अहमदाबाद ।
300.	अरूण कुमार पटेल नगीन दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5511 2-9-76	ग्राम—मालव ता० कालोज जिला पंचमहाल ।
301.	अरूण कुमार राव रजनीकान्त	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6560 12-2-79	नारायण निवास ग्राम कुंजाराव बाया आमल जिला खेड़ा ।
302.	अरूण कुमार रिबाडिया नानजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7628 20-3-80	अम्बीक भवन नजदीक बैंक आफ इण्डिया सामने मनीनापुर स्टेशन, अहमदाबाद ।
303.	अरूण कुमार त्रिवेदी हिम्मत लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5355 20-4-76	गायत्री निवास, खोदपाड़ा ग्राम जैतपुर जिला जिला राजकोट ।
304.	अरूण कुमार वजरिया चन्दु लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	3030 14-8-70	द्वारा नरेन्द्र एम०, दवे, लाखु धीरवास सामने गाधस रग, ग्राम मोरबी, जिला राजकोट ।
305.	अरूण कुमार व्यास संकलेश्वर	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1961	1080 25-3-63	रोकाडिया दरवाजा ग्राम पाटन जिला मेहसाना ।
306.	अरूण कुमार पारिख पुरुषोत्तम दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6474 19-1-79	ग्राम केसिनदरा ता० संकेदा जिला मड़ौदा ।
307.	अरूण राय मनकाद जनक राय	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1965	1873 7-12-65	द्वारा डा० जे० एस० मनकाद न्यू नगर रोड जुनागढ़ ।
308.	अरविन्द भानुशाली लक्ष्मी दास	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8951 17-2-84	ग्राम शोरवा ता० मनवावी जिला कच्छ ।
309.	अरविन्द भवसार मणि लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3574 4-9-72	ग्राम बीरसुर ता० बालसीनोर जिला खेड़ा ।
310.	अरविन्द चौकसी जसवन्त लाल	जी० एफ० ए० एम०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1959	176 3-8-59	वाड़ा पाड़ा ग्राम और पी० बरोच ।
311.	अरविन्द गुप्त शंकर राव	बी० आई० एम० एम०, बोर्ड आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, दिल्ली प्रशा० 1958	156 25-6-72	डी० एस० आर० यूनिट जी० ए० बी० एम० पी० लेबोरेटरी द्वारा जोशीपुरा ग्राम और जिला जुनागढ़ ।

1	2	3	4	5
312.	अरविन्द गावसिन्धे दिलीप चन्द्र	बी० ए० एम० एस०, इन्दौर वि० वि०, 1976	6416 18-11-76	178, एम० जी० रोड, महेश्वर जिला वेस्ट निमार
313.	अरविन्द खेन्गार विगम्बर भाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	9023 16-4-84	डी०-5, 70, उमरवाड़ा कालोनी, कमला गेट, रिंग रोड, सूरत-2
314.	अरविन्द नानावती बाबू भाई	डी० ए० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1964	1447 11-6-64	66, बल्लभ नगर ओधावरोड, अहमदाबाद
315.	अरविन्द शाह कान्ती लाल	डी० ए० ए० एफ०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1953	2469 2-11-53	ग्राम रूमाला बाया बिरगाम ता० चिखाली जिला वलसाड।
316.	अरविन्द त्रिवेदी शंकर लाल	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4722 31-3-75	वाघेपवरी, चौक, ग्राम वाघवन सिटी जिला सुरेन्द्र नगर।
317.	अरविन्द त्रिवेदी रामाकान्त	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6092 21-3-78	सेक्टर नं० 16, च० 117, गांधी नगर।
318.	अरविन्द त्रिवेदी धीरज लाल	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7987 25-2-81	डी० ए. बी० स्कूल पारीमल ग्राम भावनगर
319.	अरविन्द जानी बाहिया भाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8065 27-4-81	रेस कोर्स रोड, सामने विद्यतभवन ग्राम बड़ौदा।
320.	अरविन्द भाई बाबू भाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5790 30-4-77	बालसाथी आफिस, ग्राम नावियाड जिला खेड़ा।
321.	अरविन्द भाई पाडया जमिया शंकर	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6082 15-3-78	ग्राम काठना ता० बरसाद जिला खेड़ा।
322.	अरविन्द भाई पटेल त्रिभुवन दास	जी० एफ० ए० एम० फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1958	492 2-2-59	1, भारत कालोनी, पो० नवजीवन, अहमदा- बाद।
323.	अरविन्द भाई पटेल जावेर भाई	डी० ए० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1963	493 11-7-63	पालिज जिला बरोध
324.	अरविन्द भाई पटेल मूल जी भाई	बी० ए० एम० एस०, वि० वि० आफ गुजरात 1965	1859 30-11-65	ग्राम मसररोड ता० पाडरा, जिला बरोडा
325.	अरविन्द भाई पटेल मगन भाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	3146 3-3-71	ग्राम पिपालाग भगत की खादकी ता० नावियाड जिला खेड़ा।

1	2	3	4	5
326.	अरविन्द भाई पटेल मगन भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3599 15-9-72	ग्राम पिपालाग ता० कादियाड जिला खेड़ा
327.	अरविन्द भाई पटेल नरसिंह भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3849 8-3-73	ग्राम सुन्दरपुर पो० रादोबरा ता० द्वापाड़ जिला साबरकंधा
328.	अरविन्द भाई पटेल केशव भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4012 24-8-73	ग्राम किन्तोद ता० और जिला बरोच
329.	अरविन्द भाई पटेल अविछल भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4300 27-3-74	ग्राम किरोद जिला बरोच
330.	अरविन्द भाई पटेल जावेर भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4780 16-4-75	38-बी०, बल्लभनगर सोसाइटी करीली बाग, सामने मेन्टल अस्पताल
331.	अरविन्द भाई पटेल जैठा भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	8084 4-6-81	ग्राम और पो० रामोची तह० बयाद, जिला साबरकंधा
332.	अरविन्द भाई पटेल केशव लाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8118 17-7-81	632 पुनीत पॉल, बाड़ीगाम वारेयापुर अहमदाबाद
333.	अरविन्द भाई पटेल नरसिंह भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4936 26-8-75	ग्राम माथम्बा तह० बयाद, जिला साबरकंधा
334.	अरविन्दभाई त्रिवेदी करुणा शंकर	वैद्याचार्य नि०भा०आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1967	6640 21-2-79	माली का खांच, पालड़ी गुम, अहमदाबाद
335.	अरविन्द भाई वालन्द शान भाई	आयु० मध्यमा श्रा०द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6485 1-2-89	ग्राम थामना ता० आनन्द जिला खेड़ा
336.	अरविन्द कुमार वैध मोघा भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3985 31-7-73	ग्राम कांसद वाया सभिन ता० चोरयासी, जिला सूरत
337.	अरविन्द कुमार भट्ट दयाली भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4347 20-4-74	ग्राम वीरादी वाया वन्वा, जिला भाव नगर
338.	अरविन्द कुमार भट्ट दुर्गा शंकर	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4404 12-6-74	जाला साहिब हाउस ग्राम-वातिज, जिला-भावनगर
339.	अरविन्द कुमार भारती चतुरसिंह	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5099 23-12-75	9/100, सुन्दरामा कहारवाव ग्राम नवसारी, जिला बलसाव

1	2	3	4	5
340.	अरविन्द कुमार चतुर्वेदी वसुदेव भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1972	3996 7-8-73	टुमराल बाजार, नजदीक, सन्तराम टावर ग्राम नावियाद, जिला खड्डा
341.	अरविन्द कुमार चिचिया माधव दास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1973	4247 11-3-74	नावापारा ग्राम अलियाबाड़ा, जिला जामनगर
342.	अरविन्द कुमार दवे बलवन्तराय	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1969	3016 5-8-70	द्वारा नटवरलाल जगन्नाथ दवे, नजदीक छत्री, ग्राम चौदा, जिला सुरेन्द्रनगर
343.	अरविन्द कुमार देसाई मंगनलाल	बी०एस०एम०एस० गुजरात वि०वि० 1968	2677 7-6-68	11, महादेवनगर सोसाइटी, सगरानपुरा, सूरत-2
344.	अरविन्द कुमार जोशी कांतीलाल	डी०एस०ए०सी० क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2127 4-8-66	ग्राम इसांड ता० कालोल, जिला मेहसाना
345.	अरविन्द कुमार जोषी प्यारे लाल	डी०एस०ए०सी० क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2398 16-2-67	पालकर खांवहा गणेश भवन, सामने खण्डराव मार्फिट, बडौदा-1
346.	अरविन्द कुमार कतीरा शांती लाल	बी०एस०एम०एस० गुजरात आयु० वि०वि० 1983	9119 23-8-84	रिसाला लाईन ग्राम-नावा विसा जिला बी०के०
347.	अरविन्द प्रसाद लिम्बाभिया गोविन्दभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1979	7824 24-9-80	ग्राम पाटुसाभा ता० बीजापुर, जिला मेहसाना
348.	अरविन्द कुमार मेहता वृजलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1974	6532 3-2-79	सामने स्वामीनारायण मन्दिर, जवाहर बाग रोड, ग्राम राजुला सिटी, जिला अमरेली
349.	अरविन्दकुमार मिस्त्री प्रह्लादजी	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1979	7944 17-1-81	बोरिंग छली ग्राम और ता० हरीज, जिला मेहसाना
350.	अरविन्दकुमार मोदी चन्द्रलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1976	5998 27-12-77	ग्राम पिलवाय, ता० बीजापुर, जिला मेहसाना
351.	अरविन्दकुमार भोजा मगनलाल	डी०एस०ए०सी० क० शुद्ध आयु० कोर्स, महाराष्ट्र 1957	80 1-12-58	नं० 16, सैकेण्ड क्रस लाइन, पुराना हनुमान गली बम्बई-1, बी०आर०
352.	अरविन्द कुमार भोंछाली जयन्ती लाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1970	3111 9-2-71	ग्राम प्राणतिया वाया दवेदा ता० और जिला गांधीनगर
353.	अरविन्द कुमार पांड्या मगनलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3972 20-7-73	द्वारा डा० मगनलाल बी० पांड्या; महात्मा गांधी रोड, ग्राम बन्तवा

1	2	3	4	5
354.	अरविन्द कुमार पटेल ईश्वर भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1974	4770 9-4-75	ग्राम बालम ता० विसनगर, जिला मेहसाना
355.	अरविन्द कुमार पटेल देवराज भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1975	5728 15-3-77	ग्राम मारम ता० महेमियाबाव, जिला खेड़ा
356.	अरविन्द कुमार पटेल फुला भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1978	6149 4-5-78	ग्राम प्रीत पो० रणोड, ता० कारजन, जिला बड़ौदा
357.	अरविन्दभाई पटेल भुदार भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1978	7692 29-4-80	ग्राम भावरपुरा, ता० काडी जिला मेहसाना
358.	अरविन्द कुमार पटेल चिमनभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1980	8143 3-9-81	आर० नं० सी-6, बिन्दु सोसाइटी, घोदसार ग्राम—अहमदाबाद
359.	अरविन्द कुमार पटेल केशव लाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1982	9099 31-7-84	22, आराधना पार्क सोसाइटी, जवाहर चौक, साबरमती, अहमदाबाद
360.	अरविन्द कुमार पुरोहित नाथालाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1968	2761 9-4-49	ग्राम कलवानी वाधा केशव जिला जूनागढ़
361.	अरविन्द कुमार शाह बाबल दास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1970	3114 10-2-71	पुराना बाजारग्राम इदार जिला— साबरमती
362.	अरविन्द कुमार शाह धर्मचन्द	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1973	4218 19-2-74	ग्राम चोरीवाड ता० इदार, जिला— साबरमती
363.	अरविन्द कुमार शुक्ला हरीशंकर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1969	3019 5-8-70	नजदीक अम्बाजी माता ग्राम सान्ध, जिला—अहमदाबाद
364.	अरविन्दकुमार शुक्ला रमतीक लाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1971	3549 17-8-72	द्वारा आर० पी० शुक्ला मेडीकल डिस्पेंसरी ग्राम—दादवा (रंदालवा) ता० उमराला जिला भावनगर
365.	अरविन्द कुमार सोनी कांतीलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1980	9198 30-1-85	“सागर क्लीनिक” राज्य लक्ष्मी सोसाइटी, ठक्करबापानगर रोड, पीछे इंडिया कालोनी, बापूनगर अहमदाबाद
366.	अरविन्द कुमार त्रिवेदी मणीलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1973	5066 15-11-75	ग्राम पिटाली नादियाड जिला खेड़ा
367.	अरविन्द कुमार त्रिवेदी कुबेर दास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1977	7930 29-12-80	कड़ियावाड, ग्राम लामावाड़ा, जिला पंचमहल

1	2	3	4	5
368.	अरविन्द कुमार त्रिवेदी नटवर लाल	आयु० मिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1972	8273 5-1-82	धनधालपुर, ता० समाला, जिला सुरेन्द्र नगर
369.	अरविन्द कुमार उपाध्याय राम शंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4713 31-3-75	ब्लाक नं० 1/1, भक्ती नगर, निकोल रोड नया बापू नगर अहमदाबाद
370.	अरविन्द सिंह सोलंकी गुलाब सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8017 3-4-81	ग्राम और पो० ता० ओलवाड, जिला सूरत
371.	अरविन्द राय देसाई ईश्वर लाल	जी० एफ० ए० एम० फैकटरी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1963	1438 16-5-64	10/1035, सेतन फालिया, गोपीपुरा, सूरत-2
372.	आशा प्रह्लाद भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7859 10-10-80	778, पाठक कॉला भाऊ पोल, रायपुर अहमदाबाद
373.	आशा अग्रवाल रामू भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3842 2-3-73	राम मन्दिर ग्राम जुधान, वाया मलिया, हथीन, जिना जूनागढ़
374.	आशा भट्ट प्रभा शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7905 14-11-80	द्वारा एफ० एन० भट्ट स्टेट बैंक कालोनी, स्टेशन रोड, ग्राम जामखामभालिया, जिला जामनगर
375.	आशा बवे चनश्याम भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	6861 10-2-83	द्वारा जी० ए० बवे एस० पी० मास्तर, ब्लाक, नं० 1, निवजीवन मील ग्राम कलोल, जिला-मेहसाना
376.	आशा जरीवाला दनेश चन्द्र	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8235 9-12-81	11, दर्शन मोस इडी, जैनानपुर तिमालियावाड सूरत
377.	आशा कपासी नाना लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	7109 13-7-79	पीछे जैन डेरानर, ग्राम पली टाना, जिला भावनगर
378.	आशा ओजा हरीनन्द भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9275 2-5-85	ओउम बस स्टेण्ड सोसाइटी, जैतपुर रोड, नजदीक हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, गोनदाल 360311, जिला राजकोट
379.	आशा ताहिलमानी सुन्दर दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8786 16-6-83	ब्लाक नं० 91/3, ठक्कर बापानगर, अहमदाबाद-383350
380.	आशा वासा वमन लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7057 21-6-79	द्वारा जी० वी० वासा, 28, पंचहिल- सोसाइटी, ग्राम जैतपुर (काठी), जिला राजकोट
381.	आशा व्यास दिनेश कुमार	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8280 16-1-82	द्वारा दिनेश कुमार कालीदास व्यास, आजाद चौक, धीया खादकी नारोड़ा, ता० सिटी, जिना अहमदाबाद
382.	आशाबेन भारती रमेश चन्द्र	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4590 12-12-74	ग्राम मालीवाड, ता० थारा, जिला सूरत

1	2	3	4	5
383.	आशालता बरोट हरी प्रसाद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5234 1-3-76	7, वल्लभ पार्क सोसाइटी, नजदीक, न्यू रेलवे कालोनी, साबरमती, अहमदाबाद
384.	आशालता चौधरी वसन्त राव	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4293 27-3-74	द्वारा वसन्त राव कालीराम चौधरी, जिला पंचायत शिक्षण समिति, ग्राम अहवा, जिला—दंग
385.	आशालता पवार मालति लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	5086 18-12-75	द्वारा पी० एम० परमार प्राहमरी हेल्थ सेंटर, ग्राम पैठापुर वाया बहोद, ता० जालोद, जिला पंचमहल
386.	अशरफ खान युसुफराज सैयद मोहम्मदीन खान	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9411 19-10-85	मामनवाड नजदीक पागा थिया, ग्राम जूनागढ़
387.	अशोक चतुर्वेदी रोहित श्याम	बी० ए० एम० एस० इन्दौर वि० वि०, 1979	8625 13-1-83	द्वारा डा० आर० पी० चतुर्वेदी, मेडीकल आफिसर, मोबिल डिस्पेंसरी, 2/52, कच्छ— 370165
388.	अशोक दवे दीनू भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8327 17-2-82	बजवाड़ा खालीपोल, बड़ौदा—380009
389.	अशोक देलवी गनेश	बी० ए० एम० एस० बि० बोर्ड आफ फ्रान्० यू० सि० मेडी०, महाराष्ट्र 1977	6248 23-8-78	185, आनन्द नगर, गुज० हाउ० बोर्ड, गोर्वा रोड, बड़ौदा—3
390.	अशोक कुकरानी श्रीकृष्ण	बी० ए० एम० एस० पूना वि० वि० 1971	4525 24-9-74	कृष्ण स्मृति ग्राम उम्बारग्राम, जिला वलसाद
391.	अशोक मेहता सुन्दर लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3234 30-8-71	39, गांधी ग्राम कालोनी, करोलीबाग, ग्राम बड़ौदा
392.	अशोक पांड्या नटवर लाल	एम० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3740 1-2-73	द्वारा जे० वी० भट्ट नजदीक चिपियावाल बाबा, नगर रोड, ग्राम जूनागड़
393.	अशोक पांड्या सोमनाथ भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8023 3-4-81	951, भाट पोल, गोमतीपुर, अहमदाबाद
394.	अशोक शाहनी नीलचन्द	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5179 18-2-76	द्वारा डी० एन० साहनी, जे-6, सिविल अस्पताल, अहमदाबाद
395.	अशोक सोनी रसिक लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6611 21-2-79	म० नं० 27, रूम नं० 494, गवर्नमेट कालोनी, शाहू आलम तोलताका, अहमदाबाद
396.	अशोक भाई पटेल कान्तीलाल	आयु० उत्तमा श्रा० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1972	6724 9-3-79	राधा स्वामी सावन बाग, बिन्दु सर्विस रोड. ग्राम सिद्धापुद, जिला मेहसाना

1	2	3	4	5
397.	अशोक चन्द्रा वैद्य बन्नु भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6227 10-8-78	5/710, भवानीगढ़, हरीपुर, ता० चौर्यासी, जिला सूरत
398.	अशोक कुमार अग्रवाल अमृत लाल	डी० ए० ए० सी० क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1818 5-10-65	मानावणेरी, ग्राम जैनपुर, जिला राजकोट
399.	अशोक कुमार भट्ट वासुदेव	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8120 17-7-81	बाजार स्ट्रीट, ग्राम और पो० शुक्ला बर्ध ता० और जिला बरोच
400.	अशोक कुमार भवसार शान्ति लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4577 20-11-74	ग्राम माजदार गली, छापी, ता० बडगाम जिला वानसकाथा
401.	अशोक कुमार दवे शंकर लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3760 6-2-73	द्वारा नरेन्द्र प्रसाद एस० दवे, मोटा अदाय, धोबी टिकरा, ग्राम आनन्द, जिला खेड़ा
402.	अशोक कुमार दवे अमृत लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4756 7-4-75	अमराईवाड़ी भीलवाड़ा, बस्त्रापुर रोड, पठान चाली आर० नं० 3, मणिनगर, अहमदाबाद
403.	अशोक कुमार दवे प्रसाद	आयु० मध्यमा आ० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6784 21-3-79	29-ए, केशव बाग कालोनी, राम नगर, साबरमती, अहमदाबाद
404.	अशोक कुमार दवे जमना दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8510 27-8-82	द्वारा जे० बी० दवे मदनवाड, सामने बाल मंदिर, बलसाद-396001
405.	अशोक कुमार देसाई हरचंद्रा वदन	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5870 2-9-77	12/108, गुज० हाउ० बोर्ड, नजदीक वाटर टैंक, ग्राम कालोल, जिला मेहसाना
406.	अशोक कुमार घीवाला कांति लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8207 2-11-81	हाउ० 3/112, पारसी शेरी, नावापुर ग्राम सूरत
407.	अशोक कुमार जेठी रामा भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	6187 5-7-78	जंजीना मदनसापा रोड, मोती ताम्बोली वाड, ग्राम बड़ौदा
408.	अशोक कुमार जोशी कांतिलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3185 20-3-71	ग्राम बालम, ता० विसनगर, जिला मेहसाना
409.	अशोक कुमार जोशी अम्बा लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5670 15-2-77	ग्राम रुदन, ता० महेमदाबाद, जिला खेड़ा
410.	अशोक कुमार जोशी नरेश भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8319 10-2-89	बी/2, विनय सोसाइटी, अजवा रोड, बड़ौदा
411.	अशोक कुमार लालवाणी रामचन्द्र	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6322 29-9-78	13, मुक्ती नगर, जूना पदारा रोड, नजदीक वेसिङ स्कूल, बड़ौदा

1	2	3	4	5
412.	अशोक कुमार मेहता भीमल राव	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4730 1-4-78	शाह भवन, जलाल पोर रोड वाई नं० 1068/6, ग्राम नवसारी
413.	अशोक कुमार मेहता भोगी लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7821 24-9-80	ग्राम मोमा रोड, ता० पावरा, जिला बड़ौदा
414.	अशोक कुमार बाल शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8198 12-10-81	ग्राम और पो० दोदीवाल, ता० जासवन जिला राजकोट
415.	अशोक कुमार पारिख मटवरलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8706 16-3-83	ग्राम० और पो० नानदेज (बारेजवी) ता० बसोरोई जिला अहमदाबाद-382435
416.	अशोक कुमार पटेल पुरुषोत्तम दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5194 25-2-76	ग्राम पोगालु, ता० प्राणतीज, जिला साबर- कंधा
417.	अशोक कुमार पटेल भाई लाल भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5530 17-9-76	ग्राम कागोपुरा वाया कोविन्दा, जिला बड़ौदा
418.	अशोक कुमार पटेल हरजीवन दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6860 2-4-79	प्लॉक नं० 10, दुधेश्वर कालोनी, आजवा रोड, बड़ौदा
419.	अशोक कुमार पटेल जाण भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7208 20-8-79	ग्राम वठवाणी, ता० नाहेमदाबाद, जिला खेड़ा
420.	अशोक कुमार पटेल नगीन भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7207 20-8-79	ग्राम चाकलासी, ता० नावियाड़, जिला खेड़ा
421.	अशोक कुमार पटेल मगन लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7527 15-2-80	ग्राम मुन्वलपुरा ता० आनन्द, जिला खेड़ा
422.	अशोक कुमार पटेल रमछोद लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	4888 15-6-82	ग्राम और पो० सोनासन, ता० प्राणतीज, जिला साबरकंधा
423.	अशोक कुमार पटेल नटवर लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8509 27-8-82	18, आदर्श सोसाइटी मजदीक टैक्नीकल स्कूल, ग्राम० काले, जिला मेहसाना
424.	अशोक कुमार पटेल मोती भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8597 13-12-82	ग्राम० और पो० विरोलगाम, ब्यारीफालिया, ता० कालोल, जिला पंचमहल
425.	अशोक कुमार पाटक (विमन लाल	डी० एस० ए० सी० क० मुद्रा आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2053 14-6-66	सामने जुबली बाग, बालाजी मंदिर, ग्राम बड़ौदा

1	2	3	4	5
426.	अशोक कुमार पुजारी मगन लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8694 3-3-83	नजदीक राधाकृष्ण मंदिर, बोपालगाम, ता० वासेरोई, जिला अहमदाबाद
427.	अशोक कुमार रावल अमृत लाल	बी० ए० एम० एस० विक्रम वि० वि० 1977	6804 21-3-79	श्री कृष्णा हाउस सोसाइटी, रूम नं० 4, ग्राम बरवाला (धेलाश) ता० धांसूका, जिला अहमदाबाद
428.	अशोक कुमार रावल रामेश्वर	बी० ए० एम० एस० विक्रम वि० वि० 1974	8296 5-2-82	ग्राम धीर पो० मंदावाडा, ता० रामपुर, जिला खोरगुणे (एम० पी०)
429.	अशोक कुमार शाह धन्नु लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6097 21-3-78	ग्राम धीर पो० धीर ता० बघेविया, जिला बड़ौदा
430.	अशोक कुमार शाह बाबू लाल	आयु० मध्यमा श्री० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1977	6812 22-3-79	3, चित्तामणि सोसाइटी, साबरमती, अहमदाबाद
431.	अशोक कुमार शाह नटवर लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7435 12-12-79	109, धारवा नगर सोसाइटी, नजदीक नावा विकासग्रह, पालावी, अहमदाबाद
432.	अशोक कुमार शाह दशरथ लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8243 9-12-81	गवर्न० डिस्पेंसरी, ग्राम बहियाल, ता० देहमाम, जिला अहमदाबाद
433.	अशोक कुमार शाह मेघ राज	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8724 19-4-83	पो० आ० रोड़ गा० कोसम्बा (आर० एच०) ता० मंरोल, जिला सुरत
434.	अशोक कुमार शाह मनहर लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8847 19-983	ग्राम धीर पो० धादकान, ता० प्राणतीज जिला साबरकणा
435.	अशोक कुमार सुधार कांति लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6828 22-3-79	240, उमिया देवी, सोसाइटी, विभाग नं० 1 खोकाराम, अहमदाबाद
436.	अशोक कुमार तालाविया शामजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3191 28-4-71	ग्राम चरखाविया; ता० सावरकुंवाला, जिला भावनगर
437.	अशोक कुमार ठाकर मगन लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7988 25-2-81	रावन्ती भवन नजदीक को० गा० बैंक, जवाहर रोड़, ग्राम जूनागढ़
438.	अशोक कुमार ठाकर जीवन जी	डी० एस० ए० सी० क० मुख आयु० कोर्स, महाराष्ट्र 1967	8106 20-6-81	312, कालबा देवी, रोड़; नजदीक स्वदेशी मार्केट, बम्बई
439.	अशोक कुमार तिवारी विश्व प्रकाश	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4362 29-4-74	द्वारा बी० पी० तिवारी, सहायक स्टेशन मास्टर, ग्राम मेहसाना

1	2	3	4	5
440.	अशोक कुमार त्रिवेदी शांति लाल	आयु० मध्यमा श्रा० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6493 1-2-79	ग्रह्मपोल ग्राम नहेलाव ता० पेटसाड, जिला खेड़ा
441.	अशोक कुमार त्रिवेदी प्रेम शंकर	आयु० भिषक नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1965	7416 29-11-79	सामने सिलीकेट, खारखाना, ग्राम जोरावर, नगर, ता० वाधावन, जिला सुरेन्द्र नगर
442.	अशोक कुमार उपाध्याय भाई शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6409 18-11-78	36, उन्नत नगर सोसाइटी भगवती निवास, ग्राम उना, जिला जूनागढ़
443.	अशोक कुमार उपाध्याय हूरी प्रसाद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8810 21-7-83	ग्राम प्रबिया, पो० जेठोशी, ता० बाला- सिनोर, जिला खेड़ा-388266
444.	अशोक कुमार वर्मा बाल किशन	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6829 22-3-79	14, आर्याव्रत सोसाइटी, खोखाराम हेमदाबाद अहमदाबाद
445.	अशोक कुमार वैद्य मनसुख लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5040 19-11-75	1/2020, जमरीख गली, नानपुरा, सूरत-1
446.	अशोक कुमार वर्मा विक्रमलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5562 13-10-76	16, विजय नगर, हाउस सोसाइटी, वेद मंदिर कंकरिया रोड, अहमदाबाद
447.	अशोक कुमार व्यास करुणा शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6239 19-8-78	मोदी संत सामने पाटिल्य पोल, नजदीक हैन्ड भवन, ग्राम नावियाड
448.	अशोक कुमार व्यास भानु प्रसाद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7177 7-8-79	कविथा ता० बोवासद, जिला खेड़ा
449.	अशोक कुमार व्यास विमल लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8035 10-4-81	नवदुर्गा सोसाइटी, 17, गायत्री निवास, मोदाश रोड, सामने खाद्यता बोडिंग, कपाडंबंज-387620
450.	अशोक कुमार व्यास रमन लाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8514 27-8-82	ग्राम और पो० महिलोल, ता० गोधारा, जिला पंथमहल
451.	अशोक सिन परमार सबलसिन	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9029 16-4-84	बहारपाडा फुलवाड़ी बाला खांवा ग्राम पालीटना
452.	आशुतोष वैद्य शरद चन्द्र	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5860 30-8-72	कीकाभाई स्ट्रीट, ग्राम गांदेवी, जिला वलसाद
453.	आशुतोष शास्त्री विश्वनाथ	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4724 1-4-75	ग्राम बड़ादरा, ता० खम्भाट, जिला खेड़ा

1	2	3	4	5
454.	आशुतोष सोलंकी बालु भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8636 28-1-83	ग्राम नैसादी ता० सावरकुंडाला, जिला भाव- नगर
455.	अश्विनी चितालिया रती लाल	बी० ए० एम० एस० सागर वि० वि० 1977	6953 1-5-79	द्वारा विसावाटर मेडीकल स्टोर, ग्राम विसावाटर, जिला जूनागढ़
456.	अश्विन द्विवेदी मूल शंकर भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4909 9-7-75	बेचार लणकारी, बंगला आऊटसाइड, दिल्ली गेट, अहमदाबाद
457.	अश्विन शाहीवाला नन्द कुमार	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5309 29-3-76	5, सेवा कुंज सोसाईटी, फतेहनगर, अहमदाबाद
458.	अश्विन शुक्ला गिरिजा शंकर	आयु० भिषक नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1973	7419 29-11-79	शुक्ला भवन, 1, लक्ष्मी बाड़ी, ग्राम राजकोट-2
459.	अश्विन बेन ठाकर भाई राजलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7573 1-3-80	जालारन आशीष, नजदीक रेलवे स्टेशन, ग्रा० आनलसाद, जिला बलसाद
460.	अश्विन कुमार अशार मोहन लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० आयु० वि० वि० 1976	6985 7-5-79	द्वारा डा० एम० एम० अशार, ग्राम लालवाड, (शीतला), जिला जामनगर
461.	अश्विन कुमार बरोट अमरसिंह भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात वि० वि० 1977	6363 13-10-78	सरदारपोल ग्राम खेड़ा, ता० महेमदाबाद, जिला खेड़ा
462.	अश्विन कुमार भवसार रतिलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4668 20-3-75	ग्राम देवा, ता० पेटलाद, जिला खेड़ा
463.	अश्विन कुमार भट्ट कौशिक चन्द्र	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3389 19-2-72	ग्राम कारसाद पो० और ता० बलिया, जिला बरोच
464.	अश्विन कुमार भट्ट दाहदर लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7270 12-9-79	सोनी फालिया ग्राम अब्रामा स्टेशन, वेदाछ, वेस्टर्न रेलवे
465.	अश्विन कुमार भिलोचा गणपत राम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8919 8-2-84	घ-270/1, सेक्टर-19, ग्राम गाँधीनगर
466.	अश्विन कुमार चुग वालजाजी भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9222 19-2-85	जालाराम कृपा, 2, काय बी प्लाट, ग्राम मोराबी, जिला राजकोट
467.	अश्विन कुमार चन्द्राणा रती लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7932 29-12-80	ग्राम और पो० शिहोरी, ता० कंकारिज, जिला धानसकंधा
468.	अश्विन कुमार दवे लक्ष्मीचन्द्र	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5583 18-10-76	ग्राम उनाउ बाया बिलीमोरा, जिला बलसाद

1	2	3	4	5
469.	अश्विन कुमार दवे माकन लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6228 10-8-78	ग्राम और पो० कावना, ता० सन्तरामपुर जिला पंचमहल
470.	अश्विन कुमार दीक्षित भाल मुकुन्द	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4594 1-1-75	10-बी, हरीदास कालोनी, नवजीवन प्रेस रोड, सामने गुज० हाई कोर्ट, अहमदाबाद
471.	अश्विन कुमार गोसाईं आनन्द गिरी	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9635 5-12-86	ग्राम और पो० आ० अजोल, ता० वीजापुर, जिला मेहसाना
472.	अश्विन कुमार जोशी मधुसूदन	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9237 12-3-85	नीयर ओल्ड सिविल कोर्ट, ग्राम और ता० बोरदास, जिला खेड़ा
473.	अश्विन कुमार कुबावत लालदास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5629 15-12-76	ग्राम मणिपुर, वाया कालोल, ता० कादी, जिला मेहसाना
474.	अश्विन कुमार महावैध केशव लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6742 15-3-79	कवा० नं० बी-3, ई० एस० आई० डिस्पेंसरी नं० 18, अहमदाबाद
475.	अश्विन कुमार नगरसेठ पुंजा लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4975 15-10-75	दादर माधववाडी, तृतीय तल, आर० नं० 22, नाइगव क्रॉस लेन, बम्बई-14
476.	अश्विन कुमार पांड्या दीनू भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5452 6-7-76	दाबा गढ़वाली शेरी, भगतावाड, भावनगर
477.	अश्विन कुमार परमार कांतिलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5867 30-8-77	8, वीपमंगल सोसाईटी, सामने पब्लिक अस्पताल, नानपुरा, सुरत
478.	अश्विन कुमार पटेल अम्बालाल	डी० एस० ए० सी० क० शुद्ध० आयु० कोर्स, गुजरात 1962	495 26-6-62	27, वन्दन पार्क, पीछे मणिनगर, स्टेशन, अहमदाबाद
479.	अश्विन कुमार पटेल चुन्नी लाल	जी० एफ० ए० एम० फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडी०, गुजरात 1962	496 6-3-63	ग्राम बालोल, ता० और जिला मेहसाना
480.	अश्विन कुमार पटेल पूनम भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4474 30-8-74	मोघाजी काका का खादड़ी, ग्राम बन्धानी, ता० पेटलाद, जिला खेड़ा
481.	अश्विन कुमार पटेल मगन भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5961 18-11-77	उपाकुंज राजमहल रोड, खाडे राव मार्किट सामने विजय फोटो स्टूडियो ग्राम बड़ौदा
482.	अश्विन कुमार पटेल हरमान भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5339 8-4-76	ग्राम अदाश रोड, ता० आनन्द, जिला खेड़ा

1	2	3	4	5
483.	अश्विन कुमार पटेल चन्द लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7947 17-1-81	1, मील कामदार सोसाईटी, मजदीक बच्चा- रिया हाई स्कूल, ग्राम और ता० कालोल जिला मेहसाना।
484.	अश्विन कुमार पटेल हरी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8212 2-11-81	ग्राम बालसन वाया और ता० पानेलीमोती जिला जूनागढ़।
485.	अश्विन कुमार शाह कान्ती लाल	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1887 10-10-65	द्वारा कान्तीलाल घोटालाल शाह, पो० कोविच काक्षोनी, वाया राजपीपाला जिला भरोच
486.	अश्विन कुमार शाह ईश्वर लाल	आयु० भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1976	6585 16-2-79	वैद्या खादकी, ग्राम आमोव, जिला भरोच
487.	अश्विन कुमार शाह चम्पक लाल	बी० एच० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8866 1-11-83	निरमल हाई स्कूल रोड, ग्राम जसवास जिला राजकोट
488.	अश्विन कुमार सेठ भाई लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4105 2-11-73	द्वारा डॉ० बी० एम० सेठ, ग्राम भावदा (स्वामिना) ता० गाधदा, जिला भावनगर
489.	अश्विन कुमार त्रिवेदी शान्ती लाल	बी० एस० ए० एम०; गुजरात आयु० वि० वि०; 1971	3488 19-4-72	ग्राम उन्देल, ता० कामबे, जिला खेडा
490.	अश्विन कुमार उधारेजा बारूजी भाई	बी० एस० ए० एम०; गुजरात आयु० वि० वि०; 1977	6603 21-2-79	लक्ष्मन निवास; शक्ति प्लॉट, भोरी नं० 7, ग्राम मोराबी जिल राजकोट
491.	अश्विन कुमार ध्यास भवानी शंकर	बी० एस० ए० एम०; गुजरात आयु० वि० वि०; 1975	5775 26-4-77	रंगीला पोल ग्राम कपाडवन्ज, जिला खेडा
492.	अश्विन मिह परमार मोहन सिंह	बी० एस० ए० एम०; गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8729 19-4-83	परमार फार्म; नारोली रोड ग्राम सिलबस जिला वावरनगर हवेली-396230
493.	असमिता दवे जयन्ती लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5886 20-9-77	वराजवासी औषधालय बडवाली शेरी, ग्राम और जिला खेडा।
494.	असमिता जोशी कुमुदे चन्द्रा	डी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6427 2-12-78	कृष्णा नगर हाउस सोसाईटी 52, बी/819 सेजपुर, बोधा अहमदाबाद।
495.	असमिता पटेल नारायण भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8063 27-4-81	6, शारीजी प्रकाश सोसाईटी, सामने देना बैंक, अमरायवाडी, अहमदाबाद।
496.	अतिल त्रिवेदी प्रभा शंकर	जी० एफ० ए० एम०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मे०, गुजरात 1961	301 2-1-62	“तेजास” भक्ती नगर ग्राम, राजकोट

1	2	3	4	5
497.	आत्माराम जोशी लक्ष्मी शंकर	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1968	2642 29-1-68	ग्राम रतिया वाया पोरबन्दर, जिला जूनागढ़
498.	आत्मा राम रामस्नेही प्रयाग दास जी	डी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	4139 20-12-73	रामद्वारा ग्राम—माथलिया जिला जोधपुर
499.	अतुल चन्द्र दरविया अमृत लाल	आयु० मध्यमा श्रा० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6888 12-4-79	ग्राम टुनीथानी वाया मुपेदी ता० उपलेटा, जिला राजकोट
500.	डा० अतुल कुमार कुमुदचन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5202 26-2-76	सालभटपुरा मैन रोड, सामने पुलिस गेट, सूरत
501.	अतुल कुमार भगत मनहर लाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9082 29-6-84	वनिया वाड ग्राम चिखाली जिला वलसाद— 396521
502.	अतुल कुमार कंखारा आनन्द लाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9334 [9-8-85	58, दिगविजय प्लाट, 'शेरी' गोपालधाम ग्राम जामनगर।
503.	अतुल कुमार पांड्या विलसुखराय	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7593 14-3-80	भद्रा, गांधीग्राम, ग्राम, जूनागढ़।
504.	अतुल कुमार शाह नागिन दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7646 20-3-80	ग्राम और पो० देलोल ता० कालोल, जिला पंचमहल।
505.	अतुल कुमार शाह मनुभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9147 10-9-84	41, भुयांगदेव सोसाइटी, सोला रोड, अहमदाबाद-61
506.	अतुल कुमार शुक्ला बास कृष्णा	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7877 14-11-80	मोदीवाल क्वार्टर, ग्राम जैसार, पो० साबर कुंडाला जिला भावनगर।
507.	अतुल कुमार व्यास बसन्त राय	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4904 3-7-75	हरी ओउम क्लिनिक, मिनी रोड, ओलपाड जिला सूरत।
508.	अतुल कुमार व्यास शिष भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8299 5-2-82	दरत शाला औषध आश्रम, महादेव ब.डी, ग्राम गोन्दाल जिन्ना राजकोट।
509.	अतुल कुमार व्यास भगत लाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	8898 24-1-82	पीछे टाउन, ह.ल, सामने विभाजी हाई स्कूल ग्राम जामनगर।
510.	अतुल कुमार ठाकर बृजलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8285 25-1-82	द्वारा बृजलाल एम० ठाकर, कलवा चौक, सामने एम० डी० एस० कालेज, नजदीक लौज, जूनागढ़।
511.	अमाछल सवासिया अमारवी	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2033 6-6-66	ग्राम और पो०—खाखराला, वाया मोरवी, जिला राजकोट

1	2	3	4	5
512.	अवधुत कुमार त्रिपाठी देवदत्त भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5622 3-12-76	7 ए, सरस्वती सोसाईटी, पीछे जैन मन्दिर मोनाइटी, सरखेज रोड, अहमदाबाद ।
513.	अबनिन्द्र कुमार अपटेल मोरार भाई	आयुर्वेद अलंकार आयु० कलेज, गुरुकुल वि० वि०, कांगडी 1953	498 2-11-53	ग्राम अकोली, ता० बरडोली जिला सूस्त ।
514.	अबनिन्द्र कुमार ठाकर किशम दास	बी० ए० एम०, एस० इन्दौर वि० वि०, 1977	7256 5-9-79	94, न्यू रोड, ग्राम साजापुर (एम० पी०)
515.	अत्रान्तिका पटेल रती लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8699 16-3-83	मीलोटारी बाजार, गणेश चौक, प्रा पो० जाम्नुसार जिला बरोच
516.	अबान्ति कुमार शाह, देवकरण	बी० ए० एम० एस०, गुजरात वि० वि०, 1961	1121 26-4-82	ए० डी० शाह, एम० वी० एम० सिविल अस्पताल, बेरावाल ।
517.	अबिनाश देसाई भगवान दास	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9188 11-12-84	मालीवागा ग्राम और ता० सखेड़ा जिला बड़ोदा ।
518.	अबिनाश पांड्या शिव शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4015 24-8-73	ग्राम कावन्द ता० छोटा उदेपुर, जिला बड़ोदा
519.	अबिनाश सुरा हीरा लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3380 17-2-72	ग्राम और पो० बीरपुर ता० बालिसीनोर जिला खेड़ा ।
520.	अबिनाश जोषे बाजीराम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5403 17-5-76	ग्राम मोरखेड़े पो० मारुल ता० यावल जिला जलगांव ।
521.	अबिनाश त्रिवेदी भानुशंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5988 6-12-77	द्वारा बी० जे० त्रिवेदी, 380, नावा ए-2, टार्प क्वार्टर ग्राम मीठापुर ता० द्वारका जिला जामनगर ।
522.	अक्षय कुमार कण्ठारिया योगेश चन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8331 17-2-82	49, निरमल सोसाईटी, वातवा रोड, मणी नगर अहमदाबाद ।
523.	अक्षय कुमार शाह विठ्ठल दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5364 22-4-76	बी-19, रघुकुल सोसाईटी, तजवीक शशीबाग रेलवे क्रोसिंग, अहमदाबाद ।
524.	आजाद कुमार जैन धान कुमार	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	5678 24-2-77	जयहिन्द रेस्टोरेंट सामने एस० टी० स्टैंड, ग्राम बघोदिया जिला बड़ोदा ।
525.	बाबलभाई पटेल अमीशाव भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	3010 1-8-70	ग्राम बालीसाना ता० पाटन जिला मेहसाना

1	2	3	4	5
526.	बाबू सेख कासम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6245 19-8-78	बादवा तालावड़ी नजदीक मंगल बिहार भाव नगर।
527.	बाबूभाई भादिया मोहन भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4864 22-5-75	ग्राम बीरसाव ता० बोरसाव जिला खेड़ा
528.	बाबूभाई चरण शान्ती भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8169 10-9-81	ग्राम और पो० बिरासना ता० इंदर जिला साबरकंधा
529.	बाबूभाई देसाई नालाजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4783 16-4-75	देसाई बावो ग्राम खेरालु जिला मेहसाना
530.	बाबू भाई कारत लावजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4634 1-3-75	ग्राम मोटा अंकादिया बाया लनीघर जिला अमरेली।
531.	बाबू भाई मकवाना लखू भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	7032 16-6-79	डेटरवेदी सामने छोटी गेट ग्राम पालीदाना जिला भावनगर।
532.	बाबू भाई मकवाना छगनभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	7716 17-5-80	ग्राम नगधानिवा बाया भाखरिया ता० और जिला भावनगर।
533.	बाबू भाई मुलानी साबजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1968	2936 31-3-70	गीता डिस्पेंसरी ग्राम सावरकुंडाला जिला भावनगर।
534.	बाबूभाई पधार मथू भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	8040 27-4-81	ग्राम भूगुपुर ता० लिमावी जिला सुरेन्द्रनगर
535.	बाबू भाई पटेल गोपाल दास	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1960	590 23-11-62	2, पटेलनगर, सोसाई, असारवा, अहमदाबाद
536.	बाबू भाई पटेल भोला भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	3018 5-8-70	ग्राम लोद्रा ता० विजापुर जिला मेहसाना
537.	बाबू भाई पटेल शामजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3219 7-8-71	ग्राम मंगध ता० गरियाघर जिला भावनगर
538.	बाबू भाई पटेल काशी राम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3098 28-1-71	ग्राम रंगपुर पो० आ० उमाता ता०—बिस- नगर जिला मेहसाना।
539.	बाबू भाई पटेल हरगोबिन्द दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3444 14-3-72	16-ए, रघुनाथ पार्क, नवाबदाज, अहमदाबाद
540.	बाबू भाई पटेल वाह्याभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3504 4-5-72	ग्राम अजारपुरा, ता० आमन्द जिला खेड़ा

1	2	3	4	5
541.	बाबू भाई पटेल जेताराम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3786 15-2-73	यता कागोजारिया ता० बीजापुर जिला मेहसाणा ।
542.	बाबू भाई पटेल लक्ष्मी बास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972 .	3806 21-2-73	ग्राम विवेर ता० गिनीर जिला बड़ौदा
543.	बाबू भाई पटेल शिवराम दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4482 3-9-74	ग्राम रेड लक्ष्मीपुरा ता०— खैरालु जिला मेहसाना ।
544.	बाबू भाई पटेल कालीदास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4831 8-5-75	ग्राम परलाधार ता० प्राणतीज जिला साबर कंधा
545.	बाबू भाई पटेल मत्स्य दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5113 2-1-76	ग्राम मोघेरा ता० — बससाणा जिला मेहसाना ।
546.	बाबू भाई पटेल शामजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6121 5-4-78	3, मंगल गिरधर ब्लाक, आउट साइड दिली दरवाजा, सामने पेट्रोल पम्प , अहमदाबाद ।
547.	बाबू भाई पटेल विठ्ठल भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6768 21-3-79	ग्राम उन्धाई बाया वदनगर ता०—खैरालु जिला मेहसाना ।
548.	बाबू भाई पटेल हरगोविन्द बास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8257 24-12-81	ग्राम और पो०—वडराव ता०—प्राणतीज जिला साबरकंधा
549.	बाबू भाई पटेल छगन भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8380 18-3-82	ग्राम बुधिया पो० बड़ौली ता० इंदर जिला साबरकंधा -383410
550.	बाबू भाई पटेल रमछोव बास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8705 16-3-83	ग्राम और पो० पिपाल ता०—धामसाणा जिला मेहसाना ।
551.	बाबू भाई पटेल शामल बास	आयु० मध्यमा, श्रा० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1979	9146 10-9-84	ग्राम और पो० सोनासन ता०— प्राणतीज जिला एस० के०
552.	बाबू भाई प्रजापति भीखा भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8568 20-10-82	ग्राम और पो० आ० गवाडा ता०—बीजापुर जिला मेहसाना ।
553.	बाबू भाई प्रजापति गोविन्द भाई	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9064 25-5-84	ग्राम और पो० बीलोद्रा ता० बीजापुर जिला मेहसाना ।
554.	बाबू भाई रावत भाना भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7590 14-3-80	ग्राम आमोव ता० बीजापुर जिला मेहसाना

1	2	3	4	5
555.	बाबू भाई स्वामी दशरथ भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4597 1-1-75	ग्राम गोजारिया ता० वीजापुर, जिला मेहसाना
556.	बाबू भाई बंकर सावा भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5512 2-9-76	ग्राम कन्दन सन ता० काडी जिला मेहसाना
557.	बाबू भाई बंकर मगल दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6304 27-9-78	ग्राम अम्बापुरा ता० काडी, पो०— पंसार जिला मेहसाना।
558.	बाबू भाई झलवादिवा राम जी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	9269 9-4-85	ग्राम अमोवा ता०—उना जिला जूनागढ़।
559.	बाबू भाई जावेरी बिमनलाल	डी० ए० एस० एफ०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मे०, महाराष्ट्र 1951	264 1-9-51	10/860 माफुभाई मुनसफ शेरी, अमलीराज सुरत।
560.	बाबू लाल आचार्य धीरज लाल	डी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7993 21-11-79	नजदीक बालधा चौरा ग्राम भोरजी जिला राजकोट।
561.	बाबू लाल वैद्य छोटा लाल	डी० ए० एस० एफ०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मे०, महाराष्ट्र 1951	1064 1-12-51	सामने जैन डेरसर ग्राम सिपोर ता० खेरालु जिला मेहसाना।
562.	बाबू लाल बारिया हरदास भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4973 15-10-75	द्वारा डी० एम० परमार, 95 बी, फर्नांडीश विला हिल रोड, बन्वारा, बम्बई-50
563.	बाबू लाल भट्ट दुरला भाई	एल० ए० एम०, यू० पी० महाविद्यालय (पाठन) (बड़ौदा) स्टेट 1942	1632 12-4-48	तारा भाई स बाग, ग्राम दाकोर जिला कैरा
564.	बाबू लाल चापला मघा भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3899 31-3-73	नजदीक जिनजारी गेट, ग्राम सरदारगढ़ बाया मानव दार जिला जूनागढ़।
565.	बाबू लाल छावड़ा बालु भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5318 31-3-76	ग्राम बवेरा ता० मोर जिला अमरेली
566.	बाबू लाल छोवतिया शम्भू भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1968	2823 25-8-68	द्वारा मोहन लाल बालभाई वेकारिया गाजेरा- पाड़ा कुदाला रोड, अमरेली
567.	बाबू लाल धोलिया नारनभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4591 12-12-74	ग्राम वेजालाल ता० पालीटना बाया जेसार जिला भावनगर।
568.	बाबू लाल बोधी भूल चन्द	जी०एफ० ए०एम०, क० शुद्ध आयु० नोर्स, महाराष्ट्र 1969	452 1-2-60	मेडीकल आफिसर बोरीवाड डिस्पेंसरी ग्राम बोरीवाड ता० हवर, जिला साबरकंधा

1	2	3	4	5
569.	बाबू लाल हीर पाड़ा गंगादास भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3750 6-2-73	ग्राम मलसिका ता०ध्वारी, जिला अमरेली
570.	बाबू लाल हीरपाड़ा काभरा भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3880 20-3-73	ग्राम सपेडी ता० धीराजी जिला राजकोट
571.	बाबू लाल जोशी रामचन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7476 5-1-80	ग्राम कच्छावाडा पो० खेमात ता० बीसा जिला साबरकंधा
572.	बाबू लाल कोसभा गोपाल भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3964 20-6-73	ग्राम लिम्बुडा वाया बस्तावा ता०—मानवदार जिला जूनागढ़।
573.	बाबू लाल काठरिया हीरा भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3974 20-7-83	“धन्वन्तरि क्लीनिक जलाल पोर रोड, नवसारी-366445
574.	बाबू लाल खंट उका भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	7200 20-8-79	बाबला पारा, वेसाईवाडी, ग्राम राजकोट
575.	बाबू लाल मकवाना शामजी भाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9013 28-3-84	ग्राम जमानवाव ता०पालीटिना जिला भावनगर
576.	बाबू लाल मालीया भावजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	8242 9-12-81	खोदियारनगर, ए-6, खोदिया क्लीनिक, सुरत
577.	बाबूलाल मारू रामजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4359 26-4-74	ग्राम हामापुर वाया बगसारा (भयानी) ता०—कुकावाव, जिला अमरेली
578.	बाबू लाल मवानी वालजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4191 12-2-74	स्ट० प्लाट, नखदीक रामजी धंदिर ग्राम— धोराजी जिला राजकोट।
579.	बाबू लाल मुञ्जानी कारछनभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3909 3-4-73	ग्राम गंवाली वाया गंधादस्वामिना जिला भावनगर।
580.	बाबू लाल नम्बनिया केराव	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3733 25-1-73	बालाव पाड़ा ग्राम जेतपुर जिला—राजकोट
581.	बाबू लाल पवशाला नान जी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3243 13-9-71	ग्राम दरियाजाव, जिला अमरेली
582.	बाबू लाल परमार परमानन्द	आयु० भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1972	8382 24 3-82	ग्राम बालोट, ता० नन्दाजी जिला जूनागढ़ 362610

1	2	3	4	5
583.	बाबू लाल पटेल गंगा राम	डी० ए० एम० एफ०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1953	587 29-7-53	बनसारी, सुभाष त्रिज सर्कन, हाईवे रोड, केशव नगर अहमदाबाद
584.	बाबू लाल पटेल कृष्ण दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	3003 18-7-70	ग्राम इस्लामपुर ता० चान्समा, जिला मेहसाना।
585.	बाबू लाल पटेल जगजीवन दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4356 26-4-74	ग्राम कुदेडा (न्यू) ता० बीजापुर जिला मेहसाना।
586.	बाबू लाल पटेल केशव लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5371 30-4-76	ग्राम खराना ता० बीजापुर जिला मेहसाना
587.	बाबू लाल पटेल प्रह्लाद दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6701 3-3-79	ग्राम हरीपुरा ता० कादी जिला मेहसाना
588.	बाबू लाल पटेल अम्बालाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	7063 27-6-79	ग्राम ताजपुरा पो० जोटाना जिला मेहसाना
589.	बाबू लाल प्रजापति केशव लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4370 8-5-74	ग्राम कोवाडा ता० और जिला गांधीनगर
590.	बाबूलाल प्रजापति रघुनाथ भाई	आयु० उत्तमा श्री० ए० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1976	6548 12-2-79	श्री सरवेस्वर सेवा सदन, ग्राम कामली ता०—सिद्धापुर जिला मेहसाना
591.	बाबू लाल राठोड़ अर्जुन भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3596 14-9-72	ग्राम पाण्डेगाम वाया वल्लाभाईपारा जिला भावनगर।
592.	बाबू लाल रावल जेठा लाल	एल० ए० एम०, यू० पी० आयु० महाविद्यालय (पाठन) बड़ौदा स्टेट 1939	983 30-8-40	ग्राम खेव ब्रह्मा, जिला साबरकंधा
593.	बाबूलाल शाह केशारलाल	जी० एफ० ए० एम० फैकल्टी ऑफ आ० यू० सि० मेडी०, गुजरात 1965	1912 4-1-66	द्वारा के० एच० शाह, ग्राम और पो०— तलोड जिला—साबरकंधा।
594.	बाबू लाल सोलंकी देवजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4112 13-11-73	ग्राम—बघादा वाया साबरकुंडाला जिला भावनगर।
595.	बाबूलाल ठाकर चिमनलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4527 24-9-74	ग्राम—उपेरा ता०—सिद्धापुर जिला— मेहसाना।
596.	बाबूसिन परमार पुजेसिंग	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8335 27-2-82	ग्राम—बोडवाला मुडाडा पो० ओठावड ता०—बालसीनोर, जिला—खेडा।

1	2	3	4	5
597.	बाळूभाई पटेल बहिचर भाई	जी० एफ० ए० एम०, फॅकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडी०, गुजरात 1963	2701 20-9-68	ग्राम-बमाज ता०-काडी जिला-मेहसाना ।
598.	बाळूभाई शाह वादीलाल	जी० एफ० ए० एम०, फॅकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडी०, गुजरात 1963	1364 28-11-63	डॉ० रा शिवलाल एन० पटेल ग्राम-खारिया, पो० भलगाम, जिला-बानसकांथा ।
599.	बाळूभाई वीरानी नागजी भाई	बी० ए० एम० एस०, गुजरात वि० वि०, 1969	2861 4-12-69	पटेल बोर्डिंग, नजदीक सोलरियाम ग्राम- जामनगर ।
600.	बाळूगर मेघानाठी प्रभू गर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5586 27-10-76	ग्राम-गंगाडा ता०-उना, जिला-जूनागढ़ ।
601.	बद्रीदास गोंदलिया जेठीराम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8165 10-9-81	ग्राम-हीरासर ता०-चोटीला जिला- सुरेन्द्रनगर ।
602.	बध रामन मुखियाजी मदनमोहन	आयु० मध्यमा, श्रा० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	7024 15-6-79	वृजविहाराम, आकाशदीप काशीनी, एरोड्राम रोड, बड़ौदा-6 ।
603.	बाधर सिंह सोलंकी मोहन सिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5467 14-7-76	टंकवाडा खांचा, ग्राम-हन्सोट, जिला- बरोच ।
604.	बद्रीनारायण शर्मा खागेन्द्रनाथ	एच० पी० ए० पो० ग्रे० ट्रे० सेन्टर इन आयु०, जामनगर 1967	6402 10-11-78	द्वारा डा० डी० एन० शर्मा, गोकुल पंथ, राजभवन ग्राम-नागपुर (महाराष्ट्र)
605.	भनवतप्रसाद शाह हरीलाल	जी० एफ० ए० एम०, फॅकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1958	1194 1-11-58	अमीनवाडा ग्राम-बहेगाम जिला- अहमदाबाद ।
606.	बहादुर	एम० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	7222 23-8-79	कपाली कुटीर, नजदीक प्रताप विकास, जेठवा मैसन ग्राम-जामनगर ।
607.	बहादुर सिंह मोरी सोमा भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8003 17-3-81	2/4045, शिवदास जावेदी शेरी, सगरामपुरा ग्राम-सूरत ।
608.	बहिछार भाई पटेल रामजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3659 18-10-72	ग्राम-वाडमकम्पा पो० हरसोल-ता०- प्राणतीज, जिला-साबरकंधा ।
609.	बहूयाभाई पटेल बाबलदास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6438 15-12-78	ग्राम और पो०-मोतीचन्दर ता०-सामी, जिला-मेहसाना ।

1	2	3	4	5
610.	बाकोरभाई पटेल सोमाभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5725 15-3-77	ग्राम-रनकुवा पो०-बीरपुर ता०- बालासिनोर जिला-खेड़ा ।
611.	बाकुल मेहता भावन भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5067 15-12-75	114, पुरानी सोसाईटी, गीता मन्दिर रोड, अहमदाबाद ।
612.	बाकुला दवे विलीप कुमार	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	8187 22-9-81	द्वारा बी० आर० दवे सुमंगल सोसाईटी पीछे मोटा भाऊस, नाहेरा मार्ग, ग्राम- जामनगर
613.	बाकुला मादलिया वीराजी भाई	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9262 9-4-85	11, विश्राम अपार्टमेंट, सामने सबलानी इस्टेट, घोड दोड रोड, ग्राम-सूरत ।
614.	बाकुलदेवी देसाई धेला भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3187 22-4-71	जंढा चौक, ग्राम-उदवाडा जिला- वलसाड ।
615.	बाकुल कुमार पांड्या बसन्त बिहारी	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9515 1-7-86	13, सेंटर पोइंट, फरपासिहजी रोड, ग्राम-राजकोट-360001 ।
616.	बाकुलराय लिपाठी ममकराय	बी० ए० एम० एस०, गुजरात वि० वि०, 1965	2028 3-6-68	ग्राम-सरखेज, ता०-सिटी, जिला- अहमदाबाद ।
617.	बालभद्र बारोट प्रताप सिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3374 16-2-72	ग्राम और पो०-लिब ता०-और जिला- मेहसाना ।
618.	बलदेव आषरा राम जी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	8476 3-8-82	ग्राम और पो०-जूना धनटीला ता०- मालिया जिला-राजकोट ।
619.	बलदेव पटेल रामछोद भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8291 5-2-82	बोसर ता०-वासक्रोई जिला- अहमदाबाद ।
620.	बलदेव भाई वैद्य धेला भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7059 27-6-79	ग्राम-कल्याणपुर ता०-कावी, जिला- मेहसाना ।
621.	बलदेव भाई नाहर केशव लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4944 16-9-75	ग्राम-कुनपुर ता०-विरमगाम जिला- अहमदाबाद ।
622.	बलदेव भाई पटेल शंकर भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3706 1-1-72	ग्राम-कुववा पो० लोद्रा ता० बीजापुर जिला-मेहसाना ।
623.	बलदेव भाई पटेल मणी लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5230 1-3-76	ग्राम-खोराज जिला-गांधीनगर

1	2	3	4	5
624.	बलदेव भाई पटेल शंकर भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5535 20-9-76	ग्राम-जस्तराल ता०-बीजापुर जिला- मेहसाना ।
625.	बलदेवभाई पटेल अन्वा लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5909 28-9-77	11, पुराना पटेल सोसाईटी, जहांगीरपुरा अहमदाबाद ।
626.	बलदेव भाई पटेल गोविन्द भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7263 5-9-79	कृष्णादादन राजन पारा ग्राम-मनसा जिला- मेहसाना ।
627.	बलदेव भाई परमार पुंजा भाई	बी०एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5615 3-12-76	2418/1, मेहसनिया वास नजदीक रंगीला गेट, अहमदाबाद ।
628.	बलदेव भाई सोनी लल्लू भाई	आयु० उत्तमा, श्रा० व० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6581 16-2-79	गायत्री आयु० क्लिनिक, नजदीक कन्या विद्यालय उत्ता, -384170
629.	बलदेव भाई रावत नाठा लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5698 24-2-77	ब्लॉक नं० 11, भीमराव नगर सोसाईटी, चमनपुरा, अहमदाबाद ।
630.	बलदेव दास भैया चन्दु लाल	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1962	877 23-11-62	ग्राम-घोषम्बा ता०-देवगढ़, बरिया, जिला- पंचमहल ।
631.	बाल मुकुन्द त्रिवेदी नाथा लाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9201 30-1-85	शंकर निवास, शंकुवा गेट, मागतालावाडी, ग्राम और पो०-नवसारी, जिला-बलसाद ।
632.	बालक दास हरीहर भयानी शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4288 25-3-74	ग्राम-भोरदिया बाया कोडीनार ता०-वेरावल जिला-जूनागढ़ ।
633.	बलपतराय अग्रवाल गमन दास	आयु० मध्यमा, श्रा० व० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1976	7414 29-11-79	ग्राम-बोदी, बाया मालिया-नासिना, पो० आ०-तारसिंगवा, जिला-जूनागढ़ ।
634.	बाल शंकर भट्ट अनोप राम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8777 16-6-83	ग्राम और पो०-पड़वावर बाया घासागाम- 364730 ।
635.	बालशंकर जोशी त्रिभुवन	आयु० भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1982	6691 3-3-79	ग्राम-संसला ता०-कुकवाव, जिला-अमरेली
636.	बलशंकर ओरिया देव शंकर	आयु० भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1964	6854 2-4-79	ग्राम-शमाघियालागीर, ता०-मैन्डरु जिला- जूनागढ़ ।
637.	बल सुख भाई सीतापाड़ा चमन लाल	आयु० मध्यमा, श्रा० व० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1976	6648 26-2-79	ग्राम और वडगाम ता०-बसहाडा जिला-सुरेन्द्र नगर ।
638.	बलवन्त भाई शर्मा हीरा लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4195 15-2-74	ग्राम-राजपुर ता०-कादी, जिला-मेहसाना

1	2	3	4	5
639.	बलवन्त राय भट्ट छोटू भाई	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2526 22-6-67	ग्राम और ता०-कामरेज बाया श्यात जिला- सूरत।
640.	बलवन्त राय जोशी कृष्ण जी	आयु० भिषक, श्रा० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1947	7769 17-7-80	वैद्यासदन, पायलट बसयरी रोड, सामने श्री रंग सोसाईटी, अहमदाबाद।
641.	बलवन्तराय मास्टर खुशाल भाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9068 15-6-84	भाण्योदय सोसाईटी, ग्राम-अमलसाद, ता०- गंदेवी जिला. बलसाद-396310।
642.	बलवन्तराय निमावत दयाराम भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8911 24-1-84	ग्राम-देवालिवा पो०-अटाला बाया पक्षधारी जिला-राजकोट।
643.	बलवन्त राय पांड्या केशव लाल	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2374 20-1-67	वाडवाचोरा वारजी दाले, थोभान मेहता शेरी, ग्राम-भावनगर।
644.	बलवन्त राय पांड्या नारानजी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1968	2798 24-7-69	वाघपारा मैन रोड, ग्राम-मोरजी जिला- राजकोट।
645.	बलवन्त राय पांड्या भगवान जी	वैद्याचार्य, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1971	6583 16-2-79	ग्राम-सनवाव ता०-उना, जिला-अूनागड़।
646.	बलवन्त राय पटेल नाथा लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3386 18-2-72	131, सर्वोदय नगर आउट साइट शाहपरतोड, अहमदाबाद।
647.	बलवन्तराय पटेल लखू भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4611 24-1-75	ग्राम-गामभोई, ता०-हिम्मतनगर, जिला- साबरकंधा।
648.	बलवन्तराय शिरोजा नागजी भाई	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1962	1267 9-7-63	बहारपुरा, लिलीया मोटा, जिला-अमरेली
649.	बलवन्त राय शिन्वे पर्वत राय	एच० पी० ए०, पो० ग्रें० ट्रे० सेंटर, इन आयु०, जामनगर 1964	1480 10-7-64	द्वारा बलवन्तराय कृष्णाजी राय पवार, आन्वपुरा गोलवाड़ा, बड़ौदा।
650.	बलवन्त राय ध्यास भाई शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4501 12-9-74	द्वारा एच० बी० ध्यास, प्लाट नं० 1159, बी-मानिक कृष्ण नगर, ग्राम- भावनगर।
651.	बलवन्त सिंह बराड़ प्रभात सिंह	जी० एफ० ए० एम०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसन, बम्बई 1960	3939 2-8-60	ग्राम-अमरोली, ता०-वलसाना, जिला-सूरत
652.	बलवन्त सिंह चावड़ा गोदार जी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4579 28-11-74	ग्राम-मुदास ना ता०-खेरालु जिला-मेहसाना

1	2	3	4	5
653.	बलबन्त सिंह जडेजा गागुभा	आयु० भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1976	8628 28-1-83	ग्राम बलवाना ता०-बधवन जिला-सुरेन्द्र नगर
654.	बलबन्त सिंह पुनाडा प्रभात सिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	7563 29-2-80	ग्राम-जवाविया जिला-बरोध
655.	बलदेव प्रसाद पनारा हारा लाल	आयुर्वेद बिभारद, बोर्ड ई० सेजी०, सीरास्ट्र 1958	2190 15-3-58	ई० एस०आई० डिस्पेंसरी सुरेन्द्रशाह हाउस काछिया पोल, मजबीक टेकरी, ग्राम- खामभट, जिला-खेड़ा
656.	बलदेव सिंह बघेला मगन सिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3172 13-4-71	360/2, हरगोवकेवल पोल, घीकाटा रोड, अहमदाबाद।
657.	बाल कृष्ण वैद्य कृपा शंकर	आयुर्वेद बिभारद, रा० सं० महाविद्यालय, बड़ौदा 1955	1649 14-5-65	ग्राम-वीरजाय ता०-कर्जन, जिला-बड़ौदा
658.	बालकृष्ण वैद्य छंगा लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3629 3-10-72	ग्राम-हदमातिया (गीर) वाया भंकोल- वाडी जिला-जुनागढ़।
659.	बालकृष्ण भट्ट भवानी शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	2934 30-3-70	ए/ 6/71, रंजीतनगर, पीछे हाथी कालोमी, ग्राम-हाम नगर
660.	बाल कृष्णा दवे प्रभाकर	आयु० भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1967	7506 17-1-80	पीछे जनरल पो० आ०, महाराज डेला ग्राम- वेरावल जिला-जुनागढ़।
661.	बालकृष्ण जोशी राम शंकर	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1966	2420 8-3-67	मेडीकल आफिसर, सुवाली डिस्पेंसरी, ग्राम- सुवाली ता०-बोरयासी जिला-सूरत
662.	बालकृष्ण मोरी गोबिन्द	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5133 23-1-76	ग्राम-दोलसा वाया वेरावल ता०-कोदीनर जिला-अमरेली
663.	बालकृष्ण पीड्या राव शंकर	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1962	759 21-1-63	ग्राम-सेवासी जिला-बड़ौदा
664.	बालकृष्ण पटेल शंकर भाई	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1961	589 14-12-61	गोल्डन स्ट्रीट, ग्राम-सोजिता जिला-खेड़ा
665.	बालकृष्ण पटेल पुरुषोत्तम दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5087 18-12-76	बाजार ग्राम-कागरा जिला-बरोध
666.	बालकृष्ण शाह शिमनलाल	जी० एफ० ए० एम०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसन, गुजरात 1962	1191 13-6-63	ग्राम-अबडोल ता०-नादिया जिला-खेड़ा
667.	बाल सुकुन्द वैद्य नरहरी प्रसाद	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4248 11-3-74	वादी, अन्निम पोल, ग्राम-बड़ौदा

1	2	3	4	5
668.	बाल मुकुन्द पण्डित धन शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5170 16-2-76	1913, हिंगलीक जोशी, नामी पोष घाल हनुमान, अहमदाबाद ।
669.	बलराम भानभाई	एल० ए० एम०, यू० पी० आयु० महा वि० पाटन (बड़ौदा इस्टेट), 1942	1526 3-2-46	ग्राम-उभरास वाया मारोली बाजार ता- नवसारी जिला-वलसाद
670.	बलराम पटेल मोहन लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4118 17-11-73	ग्राम-कोदराम ता०-दण्डगाम जिला- वनसाकंधा
671.	बलसिंह पटेल कंजी	डी० ए० एस० एफ०, फैक्ट्री आफ आ० यू० सि० मेडीसन, बम्बई 1951	588 16-6-51	ग्राम-कोलकी वाया उपलेता जिला-राजकोट
672.	बालस्वरूपानन्द आचार्य दामोदर नन्दजी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4488 4-9-74	स्वामी नारायण मन्दिर-कालुपुर, अहमदाबाद
673.	बालुभाई बालधा लक्ष्मण भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6088 21-3-78	ग्राम-ग्रौर पो० बघानिया वाया और ता०- कुक्वाव -जिला-अमरेली
674.	बालु भाई दोबारिया हरजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4246 20-4-74	ग्राम-बीतालाल वाया चलाला ता०-धारी जिला-अमरेली
675.	बालु भाई कथाडिया अर्जन भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6109 28-3-78	ग्राम-ग्रौर पो० असोदर वाया दामनगर जिला-अमरेली
676.	बालु भाई केशाडिया हीरजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4305 2-4-74	14/160, नेताजी नगर, पीछे मेघानी नगर, अहमदाबाद ।
677.	बालु भाई किकानी मूल जी भाई	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2086 7-7-66	ग्राम पुंजा-पदार पो०-लिली या मोटा जिला- अमरेली
678.	बालुभाई कोरंट काधव भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4328 9-4-74	ग्राम-देदाकियाल ता० मेन्डई, -जिला-जूनागढ़
679.	बालुभाई लुनागारिया नाथा भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3936 2-5-73	ग्राम ग्रौर पो०-रबारिका ता०-खम्मा वाया दादन जिला अमरेली
680.	बालुभाई पटेल मणी लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5435 18-6-76	ग्राम--मयाव ता०-प्राणतीज जिला-- साबरकंध ।
681.	बालुभाई रावल देवशंकर	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2176 27-9-66	द्वारा अतमूलाल एल० रावल रोजीत गेट, नजदीक न्यू पो० ओ० हाउस ग्राम- बरवाला धेलासेर ता०-धांधूका जिला-- अहमदाबाद ।

1	2	3	4	5
682.	बालुभाई रुवानी दाह्याभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	6342 4-10-75	कुब्रेरनगर ए-बोर्ड, नरोडा ग्राम— अहमदाबाद ।
683.	बालुभाई वशी जीना भाई	डी० ए० एस० एफ०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1947	1004 29-11-47	ग्राम-संजत ता०- नुमरगाम जिला— वलसाद ।
684.	बलवन्तराय त्रिवेदी अम्बालाल	डी० ए० एस० एफ०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1956	1556 2-4-56	स्टेशन रोड, ग्राम-धौधूका जिला— अहमदाबाद ।
685.	बभयन्ती गोलवाला काशीक कुमार	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	6759 15-3-79	सुभानवाडा शाक मार्किट, ग्राम-अंकलेशवार जिला-बरोच ।
686.	बंकिम शुक्ला नरेन्द्र भाई	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9499 12-5-86	2, महेन्द्रा मेंशन, स्टेशन रोड, ग्राम- नवसारी, जिला-वलसाद ।
687.	बंकिमचन्द्र वैद्य भीखू भाई	जी० एफ० ए० एम०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडी०, गुजरात 1963	1430 27-4-64	स्टेशन रोड, ग्राम-अमलसाद जिला— वलसाद ।
688.	बंकिमचन्द्र भगत बाबू भाई	आयु० मध्यमा, श्रा० द० परीक्षा समिति, बड़ोदा 1978	6728 9-3-79	5/76, हरीपुरा भवानीगढ़, ग्राम-सूरत ।
689.	बंकिमचन्द्र मालधिया प्रताप भाई	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9433 23-12-85	70/सी, बल्लभनगर सोसाईटी, धारणा रोड, ग्राम-सूरत-395 006 ।
690.	बंकिमचन्द्र ठाकर रमेश चन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	6258 2-9-78	ग्राम-जीर पो० माला ता०-सखेडा, पाया रूस्तमपुरा जिला-बड़ोदा ।
691.	बंशी चौधरी विट्ठल	बी० ए० एम० एस०, विदर्भ बोर्ड आफ आ० यू० सि०, मेडीसिन, महाराष्ट्र 1968	3020 5-8-70	ग्राम-भालोद, ता०-अधविद्या जिला— बरोच ।
692.	बंशी लाल पाटिल साजत	बी० ए० एम० एस०, विदर्भ बोर्ड आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, महाराष्ट्र 1967	3170 12-4-71	ग्राम-जरियावाडी ता०-नावोद जिला— बरोच ।
693.	बंशीलाल शाह अम्बालाल	जी० एफ० ए० एम० फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1960	1193 23-10-61	नजदीक पुलिस चौकी, सरसपुर, अहमदाबाद ।

1	2	3	4	5
694.	बंसारी जामीरवार नटवरलाल	जी० एफ० ए० एम०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1959	1795 27-8-65	11/129, हनुमान पोस्ट, नानावत, सुरत ।
695.	बामुबेन चौहान हुसैन भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6700 3-3-79	आमन्वनगर, एल० आई० जी०-87, नजदीक अनिल स्टार्च, ग्राम-भावनगर ।
696.	बानुप्रसाद कहानिया नागीनवास	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1961	129 15-1-62	127, प्रगती सोसाईटी, कंकरिया, अहमदाबाद ।
697.	बापलाल सिंह सरवाया बाबूभा	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9059 25-5-84	ग्राम और पो०-वाठा वाया तालजा ।
698.	बापूभाई गाधवी अमरे सिंह ।	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3818 26-2-73	ग्राम-वरसाडा, ता०-खम्भट, जिला- खेड़ा ।
699.	बरकत अली हुड्डा सुलेमान भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6761 15-3-79	ब्लाक नं० 50/183, नजदीक हुसैन चौक, सामने नूरनगर, रजियास रोड, जुम्हा बापूनगर, अहमदाबाद ।
700.	बशीर अहमद इस्मेतुल्ला कनुगा	जी० एफ० ए० एम०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडी०, गुजरात 1962	781 6-12-62	ग्राम और पो० कीम, जिला-सुरत ।
701.	बशीरअहमद मटेल इब्राहिम अहमद	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8006 17-3-81	ग्राम और पो०-टंकारिया, ता० और जिला- बरोच ।
702.	बटुक चावड़ा त्रिभुवनदास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4297 27-3-74	सामने चिल्लावाला खांठा ग्राम-लिम्बाडी जिला-सुरेन्द्रनगर
703.	बटुकलाल धूलिया गोविन्द भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3138 25-2-71	ग्राम-गोमता वाया वीरपुर, जालाराम, ता०-गौन्डल, जिला-राजकोट ।
704.	बटुक राय बरवालिया मोहन भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4773 10-4-75	ब्लाक नं० 4/11, मंगलम फ्लैट, एम० जी० ग्रुप, नजदीक हालिकशाबान स्टैंडियम, बापुरनगर, अहमदाबाद
705.	बटुकराय मेह्ता अम्बाशंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4743 5-4-75	रुदयकुंज मणीनगर, ग्राम-सावरकुंडाला जिला-भावनगर ।
706.	बटुकराय मेह्ता नवल शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3458 29-3-72	वैद्यकीय अधिकारी, वाया छपलेटा, ग्राम-बडसाडा ।
707.	बाबाभाई भुव पंजाभाई	आयु० भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1963	7890 14-11-80	ग्राम-टोबरा ता०-वेरावल जिला- जूनागढ़ ।

1	2	3	4	5
708.	बाबनदास देव मुरारी नारभें राम	वैद्य विशारद नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1963	8893 10-1-84	ग्राम और पो० लुनीघार ता० कुंकवाव जिला—अमरेली—364 460।
709.	बाबनजी पटोलिया तापू भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	8874 1-12-83	ग्राम बवाल (सोरठ) जिला जूनागढ़
710.	बाबचम्ब बालधा वीराजी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3583 7-9-72	ग्राम भान, वाया खाभा, जिला अमरेली
711.	बाबजीभाई हूपालिया वलजी भाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9587 7-10-86	ग्राम जीवापुर (टंकारा) 363650, वाया टंकारा ता० नोगर्ही, जिला राजकोट
712.	बाबजीभाई लखानी हरनभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3666 25-10-72	ग्राम पिपाल, पो० ऊषादी, ता० धानधनका जिला अहमदाबाद
713.	बेचार केटाडिया नारन	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3297 9-12-71	ग्राम बोरवाव वाया तालला जिला जूनागढ़
714.	भद्रा अमीन गमताम भाई	जी० एफ० ए० एम० फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडि०, गुजरात 1963	1391 20-1-64	द्वारा मनुभाई रंछोवभाई पटेल, नवा घरा नावी पोल, ग्राम करामसाव, जिला खेड़ा
715.	भद्रा जावेरी भूपत राय	एम० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3014 1-8-70	द्वारा निकुंज डी शाह 14, नेहरू पार्क, सोसाइटी भैरवनाथ रोड, अहमदाबाद
716.	भद्राबेन चौधरी सोमाभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5350 14-4-76	बेदी बलिया, सामने एस० टी० डी० डिपार्ट, ग्राम मारधी, ता० वरडोली, जिला सूरत
717.	भवदेश शाह सेवन्तीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8334 27-2-82	405, श्री चेतामणि नगर, नजदीक शान्तामणि जैन डेरासर, शापेर, सूरत
718.	भवदेशचन्द्र शुक्ला जय कृष्ण	ए० एम० एस० बनारस हिन्दू वि० वि० 1939	1280 8-10-41	म० नं० 6-2072, रामपुरा, मेन रोड, सूरत
719.	भवदेश कुमार अमीन मधुसूवन भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात वि० वि० 1982	8947 17-2-84	13-ए, सुदामापुरी सोसाइटी, मंजालपुर, जता० ग्राम—बड़ोदा-II
720.	भवदेशकुमार भट्ट केशवलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4088 10-10-73	रामदेवनगर, नजदीक रामदेव मंदिर, रामवाग रोड, माथरमती, अहमदाबाद
721.	भवदेशकुमार नायक रमनलाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9062 25-5-84	ग्राम और पो० कोठा वाया अमदाबाद, ता०— गणदेवी जिला—वलसाड

1	2	3	4	5
722.	भद्राशिला पटेल नरोत्तम बास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5183 18-2-76	बी-11, उदयनगर, आजवा रोड, नजदीक पानीगेट, ग्राम बड़ीबा
723.	भद्रासिंह परमार ठाकोर सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3769 7-2-73	ग्राम चापलधारा, बाया बिसीमोरा, ता० वासंदा, जिला वलसाद
724.	भद्रासिंह राणा प्रताप सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3850 8-3-73	द्वारा एन० पी० राणा पुलिस लाईन, ग्राम बाबरा, जिला अमरेली
725.	भदुर सिंह मोरी सोमाभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8003 17-3-81	2/4045, शिवदास जावेरी का घोरी, सगरामपुरा, ग्राम सूरत
726.	भदुर सिंह कथेला रामसिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4219 21-2-74	ग्राम राधू, ता० मातर, जिला खेडा
727.	भगवन धामनकार पुरुषोत्तम	डी० एस० ए० सी० क० शुद्ध आयु० कोर्स, बम्बई 1959	1944 1-2-60	ग्राम और पो० हदवान, ता० पलघार, जिला ठाना, महाराष्ट्र
728.	भगवान निकुम कुल्लभ भाई	बी० ए० एम० एस० इन्दौर वि० वि० 1973	8412 5-4-82	मलवाड, ग्राम और ता० व्याारा, जिला सूरत
729.	भगवानजी अकवालिया प्रागजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7717 17-5-80	ग्राम रिवाडा, ता० और जिला राजकोट
730.	भगवानी दौदा गागजी भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	4403 12-6-74	नानावती प्लाट नं० 1, 3 मानाभावाडी, कालानाला, ग्राम भावनगर
731.	भगवानजी फालदू नाथा लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	4663 17-3-75	कृष्णा भवन, ग्राम लालपुर, जिला जामनगर
732.	भगवानजी गम्ना छोटालाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8014 17-3-81	गोकुल भवन सागर घोरा, पानी गेट, ग्राम और ता० और जिला अमरेली
733.	भगवानजी कारदिया रामाजी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7982 25-2-81	ग्राम जुठल बाया भालिया, हुतीना, जिला जूनागढ़
734.	भगवानजी पंचोली केशव लाल	आयु० शिक्षक नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1940	8823 11-8-83	धन्वीबाघ रवी डिस्पेंसरी, सारखेज, अहमदाबाद
735.	भगवान जी पटेल धर्म सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3794 16-2-73	ग्राम नावाबाला (अमरान) ता० जोधिया बाया मोरवी, जिला राजकोट

1	2	3	4	5
736.	भगवानजी परमार हेमराज	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3275 20-10-71	स्टे० रोड ग्राम भारतखण्ड , ता० उज्जैन जिला राजकोट
737.	भगवानजी सोलंकी शाम जी	बी० एस्० ए० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5471 20-7-76	जिबाव ग्राम राजकोट, जिला अमरेली
738.	भगवानजी सुखाडिया बालाजी	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5617 3-12-76	ग्राम गोलाघार, ता० और जिला जुनागढ़
739.	भगवानजी बदोब्राह्मण तेजा भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5481 13-8-76	ग्राम सुवाग, पो० सरखवा ता० पट्टाहारी, जिला राजकोट
740.	भगवानजी कर्ना शामलजी	आयुर्वेद शिक्षक नि० भ्रा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1964	7136 24-7-79	ग्राम भानदुरी, ता० कलिया , जिला जुनागढ़
741.	भगवानजी भाईबन भादिया बाजु भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4949 12-2-76	ग्राम खिजादिया, ता० मेहसाणा जिला जुनागढ़
742.	भगवान भाई पटेल रामछोवदास	डी० एस्० ए० सी० क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात	597 30-5-63	ग्राम बिलिया, ता० सिद्धपुर, जिला मेहसाणा
743.	भगवान भाई पटेल हरी भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5197 25-2-76	ग्राम-बुट्टा पालडी, ता० और जिला मेहसाणा
744.	भगवान भाई रामछोवदास	आयु० शिक्षक नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली, 1961	7100 10-7-79	ग्राम लीलापुर, ता० लाखतार, जिला सुरेन्द्र नगर
745.	भगवान भाई सोदावडिया जशमत भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5712 4-3-77	ग्राम टुनदास, बाया महुवा, जिला भाव- नगर
746.	भगवानदास माना लाल	डी० ए० एस्० एफ० फैकल्टी आफ आयु० सि० मेडी० बम्बई 1951	335 6-5-52	ग्राम गोजारिया, ता० वीजापुर, जिला मेहसाणा
747.	भगवान दास अभावल हरीदास	वैद्य विशारद, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1985	6638 21-2-79	ग्राम नाना अंकेवडिया, बाया लाखतार, जिला सुरेन्द्र नगर
748.	भगवानदास अलगिया रत्न भाई	आयु० शिक्षक नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1957	8260 31-12-81	4/5, मंगलम फ्लैट, पीछे लाल बहादुर शास्त्री, स्टेडियम, नया

1	2	3	4	5
749.	भगवानदास नैमीकी जाबब जी	डी०एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4575 20-11-74	5, सामरपान सोसायटी, अवाजम रोड, सूरत
750.	भगवानदास भीबी खेमराय	डी०एस० ए० सी० क० मुद्रा अभियु० कौंसिल, गुजरात 1982	3484 19-4-72	ग्राम लखाव, ता० इंदरपो० बिलोरडा, जिला साबरकण्ठा
751.	भगवानदास कुभावत मूल दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8292 5-2-82	द्वारा श्री एम० एम० कुभावत सकवाना निवास, नजदीक टेलीफोन अफिस ग्राम शापुर (सोरठ) जिला जूनागढ़।
752.	भगवानदास बंकाधाला नगीन दास	डी० ए० एस० एफ० फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडी० बम्बई 1950	1936 15-2-66	2/4702, प्रावृती निवास, सामने पुटाली संग्रामपुरा, सूरत-2
753.	भगवान सिंह महिदा बाबा भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	9128 10-9-84	गांधी बाजार, ग्राम नेतरंग ता० वलिया, जिला बरोच।
754.	भगत राम राणा दारबदास	आयु० मध्यमा श्री० व० परीक्षा समिति, बड़ीबा 1989	9031 16-4-84	ग्राम भीर पो०-सीदपुर ता०-नादियाड जिला-खेडा
755.	भगवत भाई पटेल हरचोबिन्द भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3821 26-2-73	ग्राम घोरमर ता० खखेडा, जिला बड़ीबा
756.	भगवतदास ठक्कर हरी राम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	5425 4-6-76	आयुर्वेद कालेज, ग्राम नादियाड, जिला खेडा
757.	भगवतलाल कुटुम्बभाई प्रामलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4407 12-6-74	17, भगवतपारा ग्राम बोवाल, जिला- राजकोट।
758.	भगवत प्रसाद रावल हेमन्त लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5333 3-4-76	हनुमानपाड़ा खांगी कान्ठार ग्राम वांकनेर, जिला राजकोट।
759.	भगवतीबेन राठीर नटवर सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7371 29-10-79	ग्राम भीर पो० कम्पारिवा, ता० भीर जिला वलसाड।
760.	भगवती प्रसाद भट्ट मनुभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8358 11-3-82	द्वारा डा० एम० जे० भट्ट, धन्वन्तरि धरुणदावन, सोसायटी, सुरेन्द्रनगर।
761.	भगवती प्रसाद बने पुरुषोत्तम दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3182 16-4-71	भगवती भवन, ममिभासा सोसायटी, मणिमगर, अहमदाबाद।
762.	भगवती प्रसाद पांड्या अम्बालाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1988	2796 19-7-69	ग्राम लोडा, ता० बीजापुर, जिला मेहसाना।

1	2	3	4	5
763.	भद्रवती प्रसाद रावल त्रिकमलाल	डी० एस० ए० सी० क० शुद्ध आयु० कोर्स, बम्बई 1961	2968 15-6-70	राधाबाई पब्लिक डिस्पेंसरी, ग्राम डूंगर, बाया, वापी जिला वलसाद।
764.	भगवत प्रसाद त्रिवेदी नर्मदा शंकर	जी० एफ० ए० एम० फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडि० गुजरात 1965	1807 28-9-55	कांता निवास, नजदीक महादेव ग्राम बल्लभ, विद्यानगर, बाया आनन्द जिला खेडा।
765.	भगवत राय पांड्या बहिया भाई	डी० ए० एस० एफ० फैकल्टी आफ यू० सि० मेडि० बम्बई 1950	762 26-2-51	ब्लाक नं० 15, ग्राम लक्ष्मी ह्राउ० सोसायटी ग्राम उल्लान, ता० मोरयासी, जिला रतसू।
766.	भगवती सिंह जाला मेरूभा	बी० ए० एम० एस० गुजरात वि० वि० 1966	2085 5-7-66	राबापार, ता० मोरबी, जिला राजकोट।
767.	भगवत स्वरूप पामवोत जगन्नाथ	डी० एस० ए० सी० क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2066 23-6-66	गनेश भवन, सामने खांडेराव मार्किट, पलकार खाशो राजमहल रोड, बड़ौदा।
768.	भगु भाई पटेल अमृत लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6697 3-3-79	ग्राम जवानपुरा पो० सालतपुर, ता० प्राणतीज, जिला साबरकंधा।
769.	भागुभाई पटेल नाबू भाई	डी० ए० एस० एफ० फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडि० बम्बई 1955	7213 22-8-79	ग्राम शीथान बाया सयान जिला सुरत
770.	भाईलाल कननी रामभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5507 25-8-76	ग्राम जूना बाबर ता० सावरकुडाला, जिला भावनगर।
771.	भाई लाल पटेल भोमी लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3823 26-2-73	ग्राम काविदा ता० [सखेडा, जिला बड़ौदा।
772.	भाई लाल पटेल राया भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5672 15-2-77	ग्राम हरीपुरा, ता० वितरोज, जिला मेहसाना।
773.	भाई लाल सोनी वीरचन्द वास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4345 20-4-74	ग्राम सामी, ता० सामी, जिला मेहसाना।
774.	भाई लाल भाई पटेल नारन भाई	जी० एफ० ए० एम० फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडि० गुजरात 1963	1346 15-11-63	नजदीक विराई मेटा गोलैवाला, प्रा० उत्तरासवा, जिला खेडा।
775.	भाई लाल भाई पटेल ईश्वर भाई	डी० एस० ए० सी० क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1669 21-5-65	ग्राम अंगुठान पो० धुधानी, जिला बड़ौदा।

1	2	3	4	5
776.	भाई लाल भाई पटेल प्रसेतम	डी० एस० स० सी० क० मुद्रा आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2393 15-2-67	ग्राम और पो० मिया सरमान, दरवाजा ता० आमोद, जिला बरोच ।
777.	भाई लाल भाई पटेल भगवान दास	बी० ए० एम० एस० गुजरात वि० वि० 1968	2706 28-10-68	ग्राम उनाल्ला, ता० जगधिया, जिला बरोच ।
778.	भाई लाल भाई पटेल मगन भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3095 21-1-71	ग्राम फिनव, ता० खामअट, जिला-खेडा
779.	भाई लाल भाई पटेल पुरुषोत्तम भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4695 25-3-75	खालुपागी, मुजाडा पो० कोठम्बा, त० लूमा- वाडा, जिला पंचमहल
780.	भक्ती शाह कास्ती लाल	जी० एफ० ए० एम०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1960	1931 2-8-60	द्वारा शान्ती लाल सी, पारिख, 927/1, टोकालशा पोल, राईखाड, अहमदाबाद ।
781.	भक्ती भाई पटेल केशव लाल	डी० ए० एस० एफ०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1948	592 31-12-48	ग्राम कारजीमान, ता० काबी, जिला-मेहसाना
782.	भक्तीबेन भट्ट मटवरलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3472 6-4-72	धन्वस्तरि मन्डिर, मोतीनगर, अहमदाबाद
783.	भक्ती प्रसाद शोलाट अम्बालाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4277 20-3-74	ग्राम धनोरा पो० दतीसामा ता० सामी जिला मेहसाना
784.	भाला भाई परमार गोबर भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8115 17-7-81	ग्राम दही सारा (जाम), ता० जसदान, बाया सारधर जिला-राजकोट
785.	भाल चन्द्र दवे वासुदेव प्रसाद	आयु० मध्यमा श्रा० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1979	8980 12-3-84	लुहार रोरी, ग्राम और पो० धिनोज, ता०- चानसमा जिला मेहसाना
786.	भाल चन्द्र गजारे नारायण	डी० ए० एस० एफ०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1955	138 2-7-56	ग्राम भारविन, ता० वलिया, जिला बड़ौदा
787.	भालचन्द्र हाथी हर्षदराय	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2758 3-4-69	ब्लॉक नं० जी० एम० 19/2, सैक्टर नं० 22 गांधीनगर
788.	भालचन्द्र जोशी नाथा लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4389 28-5-74	लाल दरवाजा ग्राम-प्राणजती, जिला- साबरकंधा

1	2	3	4	5
789.	भाल चन्द्र कन्नूबारकर वसु श्रेय	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1964	1445 10-6-64	शंकर टिकारी, ग्राम बडीवा
790.	भाल चन्द्र पाड्या बाकोर भाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3697 29-11-72	ग्राम कुण्हेला, त० कभोई, जिला बडीवा
791.	भाल चन्द्र अर्मा बेचार लाल	डी० ए० एस० एफ०; फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1960	1111 1-3-60	संभादियाकाड रत्नजी केल, कूरत
792.	भाल चन्द्र सिद्धेजी अम्बा लाल	सी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4245 6-3-74	ग्राम पावी जेतपुर, जिला बडीवा
793.	भाल चन्द्र ठाकर प्रभा शंकर	एच० पी० ए०, पो० बो० ट्रे सेक्टर, इन आयु, जामनगर 1966	2402 23-2-67	ग्राम और पो० छाछपार बय्या मोरबी, जिला राजकोट
794.	भाल चन्द्र बालन्य बावी लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3394 23-2-72	लुहार, चाव, ग्राम और पो० लुमावाडा जिला पंचमहल
795.	भाल चन्द्र राय वैद्य अम्बाशंकर	आयु० विशारद, एम० एस० वि० वि०, 1941	2712 19-12-68	बाडी, दलिया पोल, बडीवा
796.	भामा बराड काना	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	4417 25-6-74	ग्राम अकाल (गीर) पो० मासजीनजावा बाया लालला जिला जूनागढ़
797.	भामिनी दबे मखल लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5745 31-3-77	द्वारा भारती एच पाठक गांधी बिल्ड, मानभा रोड ग्राम भाबंवा
798.	भान्जी भाकडिया खतव	बी० ए० एम० एस०, गुजरात वि० वि० 1967	2503 6-6-67	आनन्द नगर पार्क, ब्लाक नं० 22, ग्राम राजकोट-2
799.	भानु हीरपाडा मंगलस भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2992 6-7-70	ग्राम अमर नगर, बाया बाडिया देवाडी, ता० जेतपुर, जिला राजकोट
800.	भानु लाठिया मोहन भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4781 16-4-75	ग्राम मांगनाथ पिपाली ता० विसावदार जिला-जूनागढ़।
801.	भानु ठाकर जयेश	बी० ए० एम० एस०, पूना वि० वि० 1971	3341 7-8-72	द्वारा डा० जयेश के० ठाकर मोटर हाउस, जे० एस० बिल्डिंग, बेवी रोड, ग्राम जामनगर
802.	भानु भाई जोतनगिया कजी भाई	आयु० भिषक, मि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1971	6963 4-5-79	ग्राम-खाडिया, बाया जोशीपुरा ता० और जिला जूनागढ़।

1	2	3	4	5
803.	भानु काई किफ्तली वेणार भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6302 27-9-78	ग्राम और पो० वरसाजा ता० और जिला अमरेली
804.	भानु भाई मगत भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	8447 15-6-82	सुधार फालिया ग्राम राधू ता० मातर जिला- खेड़ा
805.	भानुबेन सवानी देवराज भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6265 2-9-78	ग्राम मालपाड़ा चाया भासा गाम, ता० गाधडा जिला भावनगर
806.	भानुबेन वासवा मनसुख भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	7570 29-2-80	पटेल फालिया, नाठीबान्त खेड, फतेहपुर ग्राम बड़ोवा
807.	भानु दास शिखरावकर हरी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5444 25-6-76	लक्ष्मी महाराज माध, बांकिया ब्राह्मण, ग्राम जम्मूगेट, ता० और जिला-बड़ोवा
808.	भानुमती गज्जर लक्ष्मी भाई	बी० एस० ए० एम०; गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7872 14-11-80	हाउस नं० 7/3333, सैयबपुरा, नागोडीबाण सूरत-3
809.	भानुमती पटेल नागर भाई	बी एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6431 2-12-78	अशोक निवास ग्राम और पो० धोरानपारबी, ता० कामरेज, जिला सूरत
810.	भानुमती उपाध्याय अम्बे लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5900 20-9-77	7/2437, चौकी शेरी, सैयब पुरा, ग्राम सूरत
811.	भानुमती बेन असारी साबजी भाई	बी० एस० ए० एम०; गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7464 21-12-79	ग्राम और पो० रायसिंहपुर ता० भिलोवा जिला साबरकंधा
812.	भानु कुमार शाह छगन लाल	डी० ए० एस० एफ०; फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन बम्बई 1956	1196 1-3-56	विद्यानगर नं० 1, आभ्रम रोड, उस्मानकुशा, अहमदाबाद-13
813.	भानु प्रसाद आचार्य रणछोद लाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात वि० वि०, 1967	2623 30-12-67	ब्राह्मण शेरी ग्राम जलजा, ता० सिद्धापुर, जिला-मेहसाना
814.	भानु प्रसाद आचार्य नारायण जी	वैद्य विशारद नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1973	9523 1-7-86	98/ए, रेलवे कालोनी, ग्राम-गांधीघाट, (कच्छ)
815.	भानु प्रसाद ब्रह्म भट्ट मीहन लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3399 24-2-72	17, बैंक स्टाफ सोसाईटी, जी० सेक्शन, बैशाली सिनेमा रोड, ग्राम नादियाड
816.	भानु प्रसाद विश्वाकर विष्णु राम	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1967	2533 30-6-67	सामने खेचारा मस्जिद, नगरबाड़ा, ग्राम महुवा, जिला भावनगर

1	2	3	4	5
817.	विष्णु प्रसाद जानी चिमन लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4562 22-10-74	ग्राम भानु, ता० विसनगर, जिला मेहसाना ।
818.	भानु प्रसाद जोशी कान्ती लाल	जी० एफ० ए० एम०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1965	1820 7-10-65	ग्राम वीरपुर, ता० हवर, जिला साबरकांठा ।
819.	भानु प्रसाद जोशी नरगोबिन्द भाई	एम० बी० आयु० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6184 17-6-78	सी०-39, सरकारी क्वार्टर, सालातवाडा, ग्राम बड़ौदा ।
820.	भानु प्रसाद मेहता बापू लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3167 26-3-71	ग्राम वेद, पो० वरधारी, ता० लूनावाडा, जिला पंचमहल ।
821.	भानु प्रसाद विरमल मनसुख लाल	बी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, महाराष्ट्र 1959 एच० पी० ए०, पो० ग्रे० ट्रे० सेंटर इन आयु०, जामनगर 1964	487 8-1-62	10/109, क्रिकेट बंगला, शेरी नं० 3, जाम- नगर ।
822.	भानु प्रसाद पाण्डेया पुरुषोत्तम	आयु० उत्तमा श्रा० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1959	7608 18-3-80	ग्राम गंजेरा, ता० भांगधारा, जिला सुरेन्द्र नगर ।
823.	भानु प्रसाद पटेल बहार भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8204 12-10-81	ग्राम और पो० नवारी, ता० हवर, जिला साबरकांठा ।
824.	भानु प्रसाद शेलाट जयन्ती लाल	एल० ए० एम०, यू० पी० आयु० महाविद्यालय, पाटन बड़ौदा स्टेट, 1940	1295 6-5-40	नजदीक सन्तराम मन्दिर, ग्राम-उमरथ, जिला खेड़ा ।
825.	भानु प्रसाद शुक्ला मूल शंकर	आयु० विशारद, एम० एस० वि० वि० बड़ौदा 1945	2494 28-9-46	ग्राम वीरपुर, ता० बालासिनोर, जिला खेड़ा ।
826.	भानु प्रताप मिश्रा रामलखन	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5280 12-3-76	31, मेंहदी कवामुनी, स्टाफ क्वार्टर आउट साइट साहपुर गेट, अहमदाबाद ।

1	2	3	4	5
827.	भानु राय शाह रती लाल	डी० आई० एम० एस०, बोर्ड आफ आ० यू० सि० मेडी०, दिल्ली प्रशासन 1961	2957 7-5-70	नजवीक श्रीवास, त्रिकोनबाग, ग्राम राजकोट ।
828.	भानु शंकर भट्ट अम्ब्याराम	डी० ए० एस० एफ०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1948	846 31-7-48	ग्राम जवार्, ता० हवर, जिला साबरकंया ।
829.	भानु शंकर दवे अमृतलाल	डी० ए० एस० एफ०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1954	365 3-9-54	ग्राम कोटडा (राहवाला), ता० नाखतराना, जिला कच्छ ।
830.	भानु शंकर जोशी जेष्ठा राम	एल० ए० एम०, यू० पी० आयु० महावि०, पाटन बड़ौदा स्टेट 1939	248 30-8-40	भवभुट, ता० और जिला बरोच ।
831.	भानुशंकर जोशी कान्ती लाल	जी० एफ० ए० एम०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1963	2419 8-3-67	ग्राम जामवाली, ता० जामजोधापुर, जिला जामनगर ।
832.	भानु शंकर मेहता कान्ती लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5911 11-10-77	ग्राम-खण्डीगढ़, वाया केशोव, जिला जूनागढ़ ।
833.	भानु शंकर मेहता जटा शंकर	आयु० मध्यमा श्रा० व० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1946	8695 3-3-83	ग्राम लोठपुर, वाया राजुला, जिला अमरेली ।
834.	भानु शंकर पौड्या मोहन लाल	डी० ए० एस० एफ०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1951	761 1-12-61	ग्राम कादियादरा ता० हवर, जिला बी०के० ।
835.	भानु शंकर शुक्ला जेठा लाल	आयु० विशारद, बोर्ड इण्डियन मेडीसिन, सौराष्ट्र 1958	2246 1-5-48	ग्राम मोटा चारोडी, ता० गरियाघार, जिला भावनगर ।
836.	भानुवन्ध राय रिबाडिस राम भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6543 12-2-79	ग्राम सापर, ता० विशवादर, जिला जूनागढ़ ।
837.	भावन सिंह राजपूत सरदार सिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4749 7-4-75	237/2350, बापू नगर, अहमदाबाद ।

1	2	3	4	5
838.	भागीरथ-जोशी- नवीनचन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4424 2-7-74	ब्रह्मान रोरी, ग्राम जाफराबाद, जिला अमरोली ।
839.	भागीरथ पांड्या शंकर लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3366 16-2-72	8/43, प्रभु नगर सोसाईटी, असारवा, अहमदाबाद ।
840.	भागीरथ शुक्ल नारन प्रसाद	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1962	1271 18-12-62	वादीवादी अलकापुरी, बड़ौचा ।
841.	भागीरथ सिंह महेव जोरावर सिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4856 22-5-75	3, विजय भवन, पटेल कालोनी, ग्राम जामनगर ।
842.	भागीरथ सिंह जालन जीवन सिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4360 26-4-74	श्री विद्यार्थी ग्रह, जयेश्वर रोड, ग्राम-विन्धेवी, जिला-सुरेन्द्रनगर ।
843.	भार्गवी परमार बलराम लाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9520 1-7-85	ओ/2, आफिसर्स कालोनी, अलकापुरी, ग्राम बड़ौचा ।
844.	भरमेन्द्र कुमार त्रिवेदी केवल राम	आयु० भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1955	7413 29-11-79	25/43, प्रहलाद प्लाट, विजय भवन, ग्राम राजकोट ।
845.	भरामाषी गोघानी शम्भू भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7433 12-12-79	ग्राम रतन पुर, बाया पालीठाना, जिला भावनगर ।
846.	भरानी पुरोषित राम प्रसाद	बी० एस० ए० एम०; गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7832 30-9-80	6/सी, राजहंस सोसाईटी, पीछे स्टे० जेम्सी-ओर्स, इल्लिस विज, अहमदाबाद ।
847.	भारत भट्ट रमेश चन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5693 17-11-76	6, वाडी पुरा ग्राम और जिला-सुरेन्द्रनगर ।
848.	भारत दवे नटवर लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7681 22-4-80	7, कीर्तिकुंज सोसाईटी, शाह अलम टोलनाका, अहमदाबाद ।
849.	भारत गावकी विलासी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8756 11-5-83	10, कैलाशकुंज सोसाईटी, लाल बंगला, इल्लिस विज, अहमदाबाद ।
850.	भारत म्यात्रा हमीर भाई	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9061 25-5-84	द्वारा म्यात्रा एम० के० हेल्थ मन्डिर, (ग्राम और पो० रताडिया (धनेश वाका), ता० मुन्ना, जिला कच्छ ।

1	2	3	4	5
851.	भारत नर्वाय्या बन्धू लाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9473 28-2-86	अमीज्योति चेतन सोसायटी, कामुभा रोड, ग्राम भावमगर 364002 ।
852.	भारत नाह गोपाल दास	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9517 1-7-86	यू-1, आफिसर्स कालोनी, अलकापुरी, बड़ोदा-390005 ।
853.	भारती भट्ट मधुसुधन	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5207 28-2-76	नजदीक जी० पी० ओ० ट्याक्युरा, बड़ोदा ।
854.	भारती भट्ट नरहती प्रसाद	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5284 15-3-76	मास्तीकुंज दोलतनगर, अर० नं० 8, बोरीवली (ईस्ट), बम्बई-66 ।
855.	भारती जेदारिया बन्धू लाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात वि० वि० 1967	2476 3-5-67	द्वारा बन्धूलाल नारायण दास बंधारिया, गोपीपुरा, 82/2454, सूरत-2 ।
856.	भारती छतवार कास्ती लाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9142 10-9-84	श्री जमुना, गीतगुजरी सौसाईटी, पीछे नीलकंठ महादेव मन्दिर, ग्राम राजकोट ।
857.	भारती चौधरी लीलाधर	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9371 2-9-85	3, मेरिड नर्सिंग अका० नजदीक नमसर अस्पताल, न्यू सिविल अस्पताल, अहमदाबाद- 16 ।
858.	भारती चौधरी दिलास	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6922 17-4-79	बहादुरपुर, ता० धरीला, जिला अजमेर, महाराष्ट्र ।
859.	भारती देसाई बालू भाई	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5858 30-8-77	द्वारा बालूभाई बी० देसाई, चार शास्ता, ग्राम कावोवरा, ता० पुनसामी, जिला सूरत ।
860.	भारती देव मुकन्द राव	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5506 25-8-76	कालुपुरा ब्रह्मण कालिया, बड़ोदा ।
861.	भारती जोशी ग्रामबाकलाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8411 5-4-82	सेक्टर नं० 22, ब्लॉक नं० 78/30-जे, ग्राम गांधीनगर ।
862.	भारती मेहता भारत दास	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5475 28-7-76	सामने लाइब्रेरी, पिपलावाडी बेनी, ग्राम और जिला अमरेली ।
863.	भारती मेहता जीवन राम	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6525 1-2-79	द्वारा डा० जे० के० मेहता, गुजरात हाउस बोर्ड कालोनी, 62, भक्तना मस्ति, ग्राम अमरेली ।
864.	भारती मजपारा पीपट लाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7938 29-12-80	खोजखाना शेर, बहेलापाडा, ग्राम सिम्बाही, जिला सुरेन्द्र नगर ।

1	2	3	4	5
865.	भारती पांड्या नर्मदा शंकर	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2069 23-6-66	3, प्रणव सोसाईटी, सामने जोशी भवन, कृष्णा बाग, मनीनगर, अहमदाबाद ।
866.	भारती पटेल संमुख लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4206 15-2-74	सामने पंचहारी वाड पंचारी बाजार, अंकलेश्वर, जिला बरोचड़।
867.	भारती पारिख बाबू भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4152 15-1-74	द्वारा दीपक बी० शेठ, ग्रेठ बिल्डिंग, लाटी प्लाट, ग्राम भारंगधरा, जिला सुरेन्द्रनगर ।
868.	भारती संघवी हरी लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6803 21-3-79	सेक्टर नं० 16/6/9, गांधीनगर ।
869.	भारती सेठ यसवन्त राय	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7033 16-6-79	सामने जैल, लक्ष्मीभवन, ग्राम भावनगर ।
870.	भारती ठाकर दीपक	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3959 13-6-73	द्वारा जे० आर० ठाकर, ब्लाक नं० 11, पुलिस हैड क्वार्टर, प्रताप नगर, बड़ौदा-4 ।
871.	भारती ठक्कर रमेश चन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8162 10-9-81	36, नील कमल सोसाईटी, सरदार नगर, जिला बड़ौदा ।
872.	भारती त्रिवेदी तुलजा शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3827 27-2-73	खजूरिया बिल्डिंग, 2, वीथानपुरा, ग्राम राजकोट ।
873.	भारती व्यास जय सुखलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3200 19-6-71	द्वारा जे० ए० रावल, 1922, रनछोवजी, पोल सारंग पुर, अहमदाबाद ।
874.	भारती बाला पांड्या शान्ती लाल	आयु० भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1974	7035 20-6-79	7, लक्ष्मी बाड़ी, आयुर्वेद आश्रम, राजकोट-2
875.	भारती भाई मोघारिया मूलाजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8550 14-9-82	ग्राम और पो० अखीयाना, ता० घासडा, पाटवी वाया बाजना, जिला सुरेन्द्र नगर ।
876.	भारतीबेन भट्ट सत्येन्द्र प्रसाद	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3496 24-4-72	पित्रीवाया सूर्योदया सोसाईटी, ब्लाक नं० 12, फतेहगंज कैम्प, ग्राम बड़ौदा ।
877.	भारतीबेन बह्या भट्ट राजनी कान्त	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5935 19-10-77	ग्राम जसपार, ता० पावम, जिला बड़ौदा ।
878.	भारतीबेन देसाई ननु भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3055 30-9-70	11, महादेवनगर सोसाईटी, तथामपुरा, सूरत-2 ।

1	2	3	4	5
879.	भारती बेन गाधिया कानाजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6699 3-3-79	नजदीक अम्बिका चौक, बंनीभाई वकील, शेरी, ग्राम-जूनागढ़ ।
880.	भारती बेन जोशी रसीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3913 3-4-73	12, अबानिका पार्क, बहाई सेंटर, नजदीक खानपुर, अहमदाबाद ।
881.	भारती बेन पंडित कमलेशंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8482 3-8-82	ग्राम और पो० सयान, ता० ओलपाड, जिला सूरत ।
882.	भारती बेन पौड्या जादवजी	आयु० भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1975	17041 21-6-79	द्वारा वैद्यराज कान्तिशाल, डी० जानी विश्विद्य प्लाट, राजकोट ।
883.	भारती बेन पारोट रसिक लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8263 31-12-81	अरबुडा सोसाईटी ब्लॉक नं० 29, सामने शोटा एल० जी० जनरल अस्पताल, मनीनगर, अहमदाबाद ।
884.	भारती बेन व्यास नर्मदा शंकर	आयु० उत्तमा श्रा० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1975	7027 15-6-79	सामने पो० आ०, ग्राम पेठापुर, जिला-गांधी नगर ।
885.	भारती बेन व्यास विलीप कुमार	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	7486 17-1-80	द्वारा लक्ष्मी प्रसाद बी० त्रिवेदी, 129/3, ख्याल दास भवन, सामने नव गुज० महिला शिक्षित्सालय, अहमदाबाद ।
886.	भारत कुमार आचार्य मगतलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6236 19-8-78	ग्राम-भदाली (भान) वाया गांधादा स्वामिना, जिला—राजकोट ।
887.	भारत कुमार वैद्य रजनीकांत	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5101 24-12-75	नजदीक मारायन देव मन्दिर, ग्राम कपाड- वंत, जिला—खेड़ा ।
888.	भारत कुमार वैद्य लक्ष्मी शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5895 20-9-77	द्वारा विष्णु एल० वैद्य 770, डी० फटि- लाहजर नगर जिला—बड़ौदा ।
889.	भारत कुमार वैद्य रमन लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7300 20-9-79	ग्राम और पो० पोसारा ता०-नवसारी, जिला वलसाद ।
890.	भारत कुमार बड़ोका प्रान शंकर	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1964	1510 13-8-64	मेडीकल आफिसर, ई० एस० आई० डी/1; आचेर, साबरमती, अहमदाबाद-5 ।
891.	भारत कुमार बागत वृन्दावन दास	डी० ए० एस० एफ०; फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1950	802 1-9-51	ग्राम सारागी, ता० खेड़ा, जिला—बड़ौदा ।

1	2	3	4	5
892.	भारत कुमार भास्करा दामोदर भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8151 3-9-81	द्वारा सी० डी० कल्याणी ब्लॉक सं० 25/ एल हाउसिंग बोर्ड, मेघानी नगर, आई० टी० आई० रोड, ग्राम—जूनगढ़।
893.	भारत कुमार भक्त प्रभुराम	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7531 15-2-80	10, साधना सोसाईटी वरछा रोड, ग्राम- सूरत-6।
894.	भारत कुमार भामदियात्रा जुगलदास	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7815 17-9-80	दामोदर भवन, सामने विश्व कुंज सोसाईटी, नारायण नगर, रोड, रलाड़ी, अहमदाबाद।
895.	भारत कुमार भास्कर रामनारायण	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० व० 1979	7914 3-12-80	नजदीक परबोधी, ग्राम-समारखा ता०-आनख जिला—खेड़ा।
896.	भारत कुमार भट्ट चुनी लाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3347 8-2-72	गवर्नमेंट अस्पताल कम्पाउण्ड स्टेशन रोड, ग्राम और पो० शिहोर, जिला भावनगर।
897.	भारत कुमार भट्ट रमन लाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3670, 30-10-72	नावा बाजार, ग्राम मिशागाप्त करजार ता० करजन जिला—बड़ोवा।
898.	भारत कुमार भट्ट जयश्री लाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8159 3-9-81	5, बंगला हेमन्त कुंज, अस्तखाल रोड, ग्राम- जामनगर।
899.	भारत कुमार भट्ट वसन्त भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4818 30-4-75	द्वारा बी० के० भट्ट पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, करेली बाग, बड़ोवा।
900.	भारत कुमार कृष्ण गुरुदेव	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6744 15-8-79	2137, पण्डितजी स्मॉल, सारंगपुर, अहमदाबाद।
901.	भारत कुमार आनखा कारसंवन	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7595 14-3-80	305, सी-64, फुलबन्द म्यू ब्रासी, नजदीक शारदाभाई अस्पताल, सारसपुर, अहमदाबाद।
902.	भारत कुमार बने कान्तीलाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3483 8-2-72	86/डी/1, कौठी, कम्पाउण्ड, राजकोट।
903.	भारत कुमार बने भूरा शंकर	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5552 4-10-76	सामने, नववुर्गा हाई स्कूल, ग्राम राजपिपाला जिला—बरोच।
904.	भारत कुमार बने कान्तीलाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	6326 4-10-78	शंकर पोल, रावपुरा ग्राम—बड़ोवा।

1	2	3	4	5
905.	भारत कुमार देसाई मधुसूदन	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6089 15-3-78	19/279/3, गांधीनगर ।
906.	भारत कुमार देवमुरारी नरम राम	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5396 13-5-76	अरोपदनगर, अमृत कुंज, ग्राम-काँकनेर, जिला—राजकोट ।
907.	भारत कुमार देवमुरारी नारनबास	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5544 28-9-76	नजदीक पो० आ०, ग्राम-बाबसा, जिला— जूनागढ़ ।
908.	भारत कुमार देवमुरारी मनसुख लाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8809 21-7-83	ग्राम और पो० बादापुर ता० और जिला— अमरेसी-364610 ।
909.	भारत कुमार बुधारेजिया जीवराय भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4039 10-9-73	चावड़ी गेट (बाइका) ग्राम भावनगर ।
910.	भारत कुमार गधू ईश्वर लाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8756 11-5-83	बाखरिया पोर्ट रोड, तामने कंगाली मीस, ग्राम और पो० बिलीभीरा, ता०-गन्धेवी, जिला—वलसाद ।
911.	भारत कुमार गन्ना तामालाल	बी० ए० एम० एस्०, कानपुर वि० वि० 1974	4887 17-6-75	7, बैंक कालोनी, ग्राम-कोरकण्डर, जिला— जूनागढ़ ।
912.	भारत कुमार गोर लम्बाजी	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8416 10-2-82	ग्राम-सुवासना ता०-खेरामु जिला—मेहसाणा
913.	भारत कुमार हल्दी मुकुन्दराम	बी० एस्० ए० एम०, पूना वि० वि० 1975	5359 20-4-76	अस्पताल रोड, ग्राम-भुज कच्छ ।
914.	भारत कुमार जतनी मणी लाल	बी० एस्० ए० सी०, क० मुद्रा आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2118 20-7-66	35-ए, मुने सेरवंत सोसाईटी, नजदीक पुराना पायलट डेरी, कंकरिया, अहमदाबाद ।
915.	भारत कुमार जैन मीलापेहान्द	आयु० मध्यमा था० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6577 16-2-79	द्वारा एस्० एन० भारद्वाज, दुर्गा राजेन्द्रा सोसाईटी, ग्राम-राजपिपाला, जिला—बरोच ।
916.	भारत कुमार जानी कास्ती लाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3623 30-9-72	पियूस, 8-प्रहलाद प्लाट, ग्राम-राजकोट ।
917.	भारत कुमार जोशी देवशंकर	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3176 13-4-71	नजदीक पो० आ०, ग्राम और ता०- विणवदार, जिला—जूनागढ़ ।
918.	भारत कुमार जोशी कूल शंकर	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4489 6-9-74	ग्राम-बोबवावार ता०-गोन्वाल, जिला— राजकोट ।

1	2	3	4	5
919.	भारत कुमार काक्कड बृज लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	9126 23-8-84	ग्राम माधवपुर (घेद) ता०-पोरबन्दर जिला जिला जूनागढ़
920.	भारत कुमार लसखारी दलपतराम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6033 16-2-78	द्वारा एम० डी० लसखारी विश्वासमूर्ति, बिल्डिंग नजदीक सेन्दूल बैंक आफ इण्डिया ग्राम नवसारी
921.	भारत कुमार मेहता धानजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3426 9-3-72	बनिया गेरी, मेहतामाधुली ग्राम लाठी, जिला अमरेली
922.	भारत कुमार मेहता चिमन भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6037 16-2-78	मोती बाजार, ग्राम गोन्दाल, जिला राजकोट
923.	भारत कुमार गोवी वेदी लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5944 26-10-77	ग्राम-इलोल, ता० हिम्मत नगर, जिला-साबर- कंधा
924.	भारतकुमार मोदी अम्बालाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7394 21-11-79	ग्राम-पेठपुर, जिला-गांधीनगर
925.	भारत कुमार नायब मगनलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5488 11-8-76	ग्राम-सोनवाडी वाया गादट ता० गणेश्वी जिला वलसाड
926.	भारत कुमार पोंड्या बिन्तामणि	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5097 22-12-75	ग्राम-पारिया ता० पारवी, जिला-वलसाड
927.	भारत कुमार पोंड्या कास्तीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	9482 24-3-86	17, राधेश्याम सोसाईटी, राजेन्द्र पार्क, नजदीक गोरी सिनेमा, ओधाव, एहमदाबाद
928.	भारत कुमार पटेल मनु भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7378 7-11-79	ग्राम-वडताल ता०-नाघियाड, जिला-खेड़ा
929.	भारत कुमार पटेल रन्छोद भाई	बी० ए० एम० एल०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9261 9-4-85	भदुरा अस्पताल, ग्राम और पो० आ० कीम जिला-सूरत-394110
930.	भारत कुमार पटेल लक्ष्मीदास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6041 16-2-78	टावर रोड ग्राम-सत्तरामपुर जिला-पंचमहल
931.	भारत कुमार पटेल दहिया भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7993 25-2-81	कोटाली रेन्दर ता०-चोरपासी जिला-सूरत
932.	भारत कुमार पटेल उगरा भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	7235 29-8-79	ग्राम-सुवासना, ता०-खोरालु जिला मेहसामा

1	2	3	4	5
933.	भारतकुमार पाठक रमन लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5012 20-10-75	1-ए कार्तिक स्वामी सोसाईटी, भाउट साइड, शाहपुर गेट, अहमदाबाद
934.	भारत कुमार पटेल जयन्तीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5208 26-2-76	द्वारा भारत ट्रेडिंग कं०, नजदीक दरकोली गेट, ग्राम-नूतावाड़ा, जिला-पंचमहल
935.	भारत कुमार पारिख अमूललाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9400 19-10-85	3ए, 74, मधुवन कालोनी, पो० आ० कारद, वाया वापी सिलबास ग्राम-सादरा और हवेली-396240
936.	भारत कुमार पारिख हरी लाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9405 19-10-85	ग्राम और पो० आ० सिमोन्द्रा वाया कोसम्ब ता० मोती मंगरोल, जिला सूरत
937.	भारत कुमार पुरोहित रमनलाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9170 13-11-84	द्वारा आर० डी० पुरोहित, ग्राम और पो० मालपुर, जिला साबरकंधा
938.	भारत कुमार रावल दिनेश चन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7631 20-3-80	4 दीप ज्योत सोसाईटी, भुलाभाई पार्क, अमदाबाद
939.	भारत कुमार शाह केशवलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3743 2-2-73	49/1, सुनी क्वार्टर, भाउट साइड शाहपुर गेट, दुधेधर रोड, अहमदाबाद
940.	भारत कुमार शाह प्रीतमकुमार	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4157 17-1-74	किशोर सिंहजी रोड, करणपारा "मधुला" ग्राम-राजकोट
941.	भारत कुमार शाह नटवर लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7995 25-2-81	बी-6, सुनानगालम एपार्टमेंट वारछा रोड, ग्राम सूरत
942.	भारत कुमार शाह नाथा लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	8124 17-7-81	मोटा फालिया ग्राम नालिया ता०- अवावसा जिला-कच्छ
943.	भारत कुमार शाह जेठा लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8867 1-11-83	ग्राम और पो० सरखोई, ता० मोदसा, जिला-साबरकंधा
944.	भारत कुमार शाह विमनलाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8984 12-3-84	ग्राम और पो० अकारुन्द ता० बयाव, जिला-साबरकंधा
945.	भारत कुमार शर्मा मन्वलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8356 11-3-82	कानरा बाजार नजदीक मस्जिद ग्राम-शिहोर जिला-भावनगर
946.	भारत कुमार शर्मा गोविन्द लाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9540 28-7-86	ग्राम-हलधरवास, ता०-महेमी अवाव जिला- खेड़ा

1	2	3	4	5
947.	भारत कुमार ठाकर लक्ष्मी शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8818 11-8-83	द्वारा वैद्य भोगीजाल गोखलमबाई, मन्वरपुरा ग्राम पेटलाड, जिला खेड-388450।
948.	भारत कुमार टंडा रती लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8634 28-1-83	10, सत्तार तालुका सोसाईटी, नवजीवन नवरंगपुरा, अहमदाबाद।
949.	भारत कुमार त्रिवेदी प्राण शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4281 20-3-74	भटपापेश्वर दीपा, ग्राम सुरेश्वरनगर।
950.	भारत कुमार त्रिवेदी नीलकण्ठराय	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4642 6-3-75	छोटूभाई जीबनजी वशी हाऊस, वशी फालिया, ग्राम बलसाव।
951.	भारत कुमार त्रिवेदी मनसुखलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5874 2-9-77	द्वारा ए० के० त्रिवेदी, 12 गुल्दामाडी, गिरीम- कुंज, राजकोट-2।
952.	भारत कुमार त्रिवेदी करुणा शंकर	आयु० उत्तमा, श्री० व० परीक्षा समिति, बड़ौचा, 1966	6492 1-2-79	53, शारदा सोसाईटी, इल्लिशमिज, अहमदाबाद।
953.	भारत कुमार व्यास जिनेन्द्र शय	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5892 20-9-77	गोपीपुरा सिमाधी कुञ्ज हाउस नं० 10/1092 ग्राम सूरत।
954.	भारत कुमार उपाध्याय केशव लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8591 3-11-82	नजदीक निशाक ग्राम और पो० मालपुर, जिला साबरकंधा।
955.	भारतसिंह बबौला नटवर सिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7620 20-3-80	ग्राम औरपो० मोकशी ता० ताबली, जिला बड़ौचा
956.	भारत सिंह जी जवेजा मानसिंह जी	बी० ए० एस० एफ०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1956	2224 30-6-56	ग्राम बागवाडर बाया पोरबन्दर, जिला जूनागड।
957.	भारत राय बब वीलत राय	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6135 12-4-78	द्वारा बी० एस० कच्छी, गणेश फालिया, जिला जूनागड।
958.	भास्कर देसाई रमन लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	2991 4-7-70	द्वारा मणिभाई करकणजी देसाई, वैद्य फालिया ग्राम मरोली, ता० नवसारी, जिला वलसाड।
959.	भास्कर देसाई वासुजी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4162 23-1-74	ग्राम वाकताना, ता० चोरयासी, जिला सूरत।
960.	भास्कर कर्माकर रुपका	डी० एम० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, महाराष्ट्र, 1959	4537 1-7-59	श्री निवाम बासिया रोड फतेहपुर, पी० डब्ल्यू० डी० बर्कसभ, शाय बड़ौचा।
961.	भास्कर पांड्या विनु भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6524 1-2-79	ग्राम मोदरा, ता० बीजापुर, जिला मेहसाना।
962.	भास्कर त्रिवेदी रवि शंकर	डी० एम० ए० सी०, सी० एम० आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2264 18-11-66	लक्ष्मी निवास सामने टाउनहॉल, इल्लिशमिज, अहमदाबाद।
963.	भास्कर साई पटेल महेन्द्रा भाई	डी० एस० ए० सी० सी० एस० आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2531 2-7-67	नवधारा ग्राम-बासे ता० नाथियाड जिला खेड

1	2	3	4	5
964	भास्करगिरि गोस्वामी भास्करगिरि	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3210 30-7-71	ग्राम-कालरी बाया बिसबावर विस्तार, अहमदाबाद
965	भास्कर राय अस्तिक धीरज लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	3644 15-9-70	ग्राम धुष्मली, ता० दत्तपुर, जिला भावनगर ।
966	भास्कर राय बलीका नर्मदा शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1961	6593 18-2-79	गीला मिस्त्री बावली, ता० कुडीर, जिला भावनगर ।
967	भास्कर राय महु प्राण शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1961	7291 26-9-78	आभवनगर मुडके-42, ग्राम भावनगर ।
968	भास्कर राय वाली जयन्ती लाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1968	2736 18-2-68	द्वारा पन्नालाल लखु भाई, शैरी लक्ष्मी स्टील और बाय इण्डस्ट्रीज बनवार रोड, भावनगर ।
969	भास्कर राय दवे जयसुख लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5763 14-4-77	जीवन लक्ष्मी ग्राम लाखावावल जिला जामनगर ।
970	भास्कर राय दवे मनसुख लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8132 4-8-81	द्वारा एम० पी० दवे, तालुक मन्थल कालोनी क्रमा० नं० 8, पीछे गुरुद्वारा ग्राम जामनगर ।
971	भास्कर राय जामी प्रताप राय	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4558 19-10-74	कार० नं० 598, विठ्ठलवाडी कालोनी, नं० 2, ग्राम भावनगर ।
972	भास्कर राय जीषी जय शंकर	बी० एस० ए० एम० फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1951	249 1-2-52	सामने कलाच मिल, ग्राम राजकोट
973	भास्कर राय ब्यास देवकीभास	डी० एस० ए० सी०, क० गुरु० आर० कोर्स, गुजरात, 1963	1099 7-8-63	देवगाना आयु० अस्पताल, बाया सिहोर, जमन, जिला भावनगर ।
974	श्री फालिग वेगायु	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3245 13-9-71	ग्राम और ता० निजार्, जिला सुरत ।
975	शम्भना देसाई मल्लभ भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4291 27-3-74	1-ए, सुरजीत सोसाईटी ठाकर, बापानगर रोड, नजदीक जविया कालोनी, अहमदाबाद ।
976	शम्भना देसाई देवदर भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	8982 12-3-84	साकेत महादेवनगर, ग्राम शिवी ओरा ।
977	शम्भना दवे कमला नयन	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7883 11-3-80	9, श्री रंग सोसाईटी सामने कन्वेंट हार्ड स्कूल, फतेहगंज, ग्राम बड़ोवा ।
978	शम्भना गोखी कृष्णकांत	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9000 28-3-84	6, हस्तिनापुर सोसाईटी, मन्थल, जिला भावनगर, रेलवे स्टे० बाया जगतपुर, पी० वि० वि० जामनगर, अहमदाबाद ।
979	शम्भना कलक जया शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8324 10-2-82	जीवराज पार्क, तुलसीनगर सोसाईटी, ता० सुरत रोड, अहमदाबाद ।

1	2	3	4	5
980.	भाबना पटेल बन्धु लाल	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7587 14-3-80	द्वारा पटेल विजय कुमार, फ्लैट नं० 5-3, किरण 83, जी० पी० टी० ए०, तृतीय रोड, गोलीबार साताकुण्ड, बम्बई-65 ।
981.	भाबना परमार सरदार सिंह	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7825 24-9-80	द्वारा ए० ए० परमार, ब्लॉक नं० 33/1, जे० एम० टाइप, सेक्टर-20, गांधीनगर ।
982.	भाबना उपाध्याय बन्धु लाल	बी० ए० ए० एम० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9822 21-11-86	20/78, गुज० हाऊस सोसाईटी, नजदीक रायपुर मिल, अहमदाबाद ।
983.	भाबनाबेन बने बन्धु लाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8105 20-6-81	कारोविया पोल, पेंटर भेरी ग्राम बक्रीवा ।
984.	भाबना भाई कलाबाविया भीखा भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4249 11-3-74	ग्राम राजपीपाला बाया गांधवास्वामिना, जिला भावनगर ।
985.	भाबना भाई माबाविया शामजी भाई	आयु० शिक्षक नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1945	7980 20-2-81	शक्तिरूपा कालिका प्लाट ग्राम रोरावी, जिला राजकोट ।
986.	भाबु भाई शीलकी हमीर भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5894 15-11-76	ग्राम सामनेर बाया उना, जिला जूनागढ़ ।
987.	भाबीन बप्पी छगन लाल	बी० ए० ए० एम० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9649 31-12-86	परिश्रम सामने केतन बोडिंग, गुलबाईटकरा, अहमदाबाद
988.	भाबीन कुमार जोशी कांति लाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7523 15-2-80	ग्राम और पो० नेरंज ता० नावियाड, जिला खेडा ।
989.	भाबसुख जोशी जमिया शंकर	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5421 4-6-76	ग्राम अफला बाया लाठी, जिला अमरेली ।
990.	भवानी शंकर मेहता हरदास भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8519 27-8-82	31, वल्लभनगर, सोसाईटी, बराल रोड, सूरत-6 ।
991.	भीखाभाई बने नंगाराम	वैद्य विशारद नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1985	7146 24-7-79	ग्राम तीर्थ गाम, ता० बाव, जिला बनासकांठा
992.	भीखाभाई पटेल नरसिंह भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7289 20-9-79	ग्राम और पो० सालैया, ता० भालसिमेर, जिला खेडा ।
993.	भीखाभाई पटेल हीराभाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4654 12-3-75	कस्तूरबा गलिया, ग्राम नाभोविया, जिला बक्रीवा
994.	भीखाभाई पटेल दर्शासह भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4848 14-5-75	ग्राम मोतीपुरा, ता० खेरापु, जिला मेहसाणा ।
995.	भीखाभाई पटेल शंकर भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8368 17-3-82	रामपुर पो० गन्धिभोल ता० उवाद, जिला साबरकांठा-383410
996.	भीखाभाई राजापति पुजा भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	7401 27-11-79	ग्राम सासपुर, पो० नाडोली, ता० इवार, जिला सागरजा ।

1	2	3	4	5
997.	भीष्माभाई बालव बेमाभाई	डी० एस० ए० सी० क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1692 2-6-65	ग्राम वभाव, ता० खेरालु, जिला मेहसाणा ।
998.	भीष्मा लाल जामी अमर जी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4419 15-6-74	ग्राम सधारा बाया सापाज ता० तासजा, जिला भावनगर ।
999.	भीष्मा लाल कोरत लावाजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6926 17-4-79	नजदीक तेजाब भगत धेरी, ग्राम भोराधी, जिला राजकोट
1000.	भीष्मालाल लिम्बानी रत्नछोव भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2854 27-10-69	नहारपाड़ा बाबकरगढ़ रोड़, ग्राम और जिला अमरेली ।
1001.	भीष्मालाल मन्डालिया जीवराज	आयु० भिषक नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1974	7049 21-6-79	राधानपुरी बाजार, हुनाभा धेरी ओघावजी, सालजी खांवा, ग्राम भावनगर ।
1002.	भीष्मालाल मेहला भागजी भाई	वैद्य विशारद नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1970	6848 2-4-79	पंचवटी भकतीनगर स्टेमन, प्लाट धेरी- नं० 2, ग्राम राजकोट ।
1003.	भीष्मालाल बाधामिया जादव लाल	आयु० भिषक नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1964	7112 16-7-79	ग्राम प्रेमपुरा बाया विश्वदार जिला जूनागढ़ ।
1004.	भीष्माराम रविसाहिब माधुर दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7817 17-9-80	ग्राम जनजासबा ता० और जिला जूनागढ़ ।
1005.	भीष्मू देसाई कानाजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8646 1-2-83	खीरपारा नजदीक गोप बाधी नाम जेतपुरा, -360370
1006.	भीष्मूलाल परसोम्या मोहनलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4042 10-8-73	ग्राम उमरावी (जाम) बाया गोम्बल ता० जेतपुर जिला राजकोट ।
1007.	भीष्मराज भट हरीचन्द्र	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3301 20-12-71	ग्राम राजपुर ता० विसा जिला बनासकांठा ।
1008.	भीष्मू भाई नायक नायू भाई	डी० ए० एस० एफ० फकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1956	476 1-8-56	ग्राम और पो० आ० गणदेवी, जिला बलसाड ।
1009.	भीष्मूभाई वाला भीम भाई	वैद्य विशारद नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1965	6734 12-3-79	ग्राम बालुकाठ (जी० जी०) ता० धोधा जिला भावनगर ।
1010.	बिहारी लाल पोद्दया भगवानजी	डी० एस० ए० सी० क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1963	760 12-6-63	जिला आयु० आफिसर, ओघावजी कसोधी, हाउस, पीछे भागनाथ मंदिर, नजदीक भीता उन सेंटर ग्राम अमरेली
1011.	मीलालभाई पटेल नाथाभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5508 25-8-76	ग्राम लिखोव, ता० कर्जम, बाया अंकलेश्वर, जिला बड़ौदा
1012.	मीमा भाई मोरी अर्जुनभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4526 24-9-74	ग्राम उमारवा बाया तलावा ता० वेरावल, जिला जूनागढ़
1013.	मीमा जी भूषिया बाला जी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	6102 28-3-78	ग्राम और पो० मन्दापार, नवावास, ग्राम धुज- कच्छ ।

1	2	3	4	5
1014.	भीमाजी मनसुर्वा राव जी भाई	एम० ए० ए० ए० एफ० प० बंगाल आयु० परिषद, कलकत्ता 1977	7733 6-6-80	डारा डा० एम० जी० सोबसानी वंटेले अस्पताल, नेथान कालिया ग्राम भूनागड़
1015.	भीमाजी राजपारा मानजी	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5035 11-11-75	ग्राम कालिका नगर, ता० भीराबी, जिला राजकोट
1016.	भीमाजी ठाकर विसा जी	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8180 22-9-81	ग्राम और पो० विसासपुर ता० बसोरोई, अहमदाबाद
1017.	भीमाजी भाई अजाली सामजी भाई	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8425 1-5-82	ग्राम कुशियाड बाया कुंवावा ता० और जिला राजकोट ।
1018.	भीमाजी भाई विलेबाबे केहर भाई	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2976 16-6-70	ग्राम हबियाला ता० जीविया जिला जामनगर ।
1019.	भीमाजी भाई काथिरिया वीराजी भाई	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5546 28-9-76	ग्राम मोटा उजाला बाया कुंवावा
1020.	भीमाजी भाई खाडिया कल्याण भाई	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4871 30-5-75	ग्राम और पो० टाना ता० सिहोर, जिला भावनगर
1021.	भीमाजी भाई सबानी भगवान भाई	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2830 28-8-69	ग्राम शेखपुर ता० सायी, जिला अमरेली
1022.	भीमाजी भाई बैण्ण साबजी भाई	आयु० मर्ममा श्रा० व० पेरीभा समिति, बड़ोवा 1974	7029 15-6-79	ग्राम प्रेमपुरा बाया विसासपुर जिला भूनागड़
1023.	भीमा सिंह शामी बेबीदास ।	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5852 23-8-77	ग्राम दोसबाबा ता० सींगल जिला सुरत
1024.	भीरजलाल गोडलिया वासता भाई	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7550 22-2-80	ग्राम सुखपुर बाया विसासपुर जिला भूनागड़
1025.	भीरज लाल पारिख । बृजलाल	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	5651 18-1-77	बाला आयु० काजेज, सींगल ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा
1026.	भीरजलाल पोपलानी । बबबू भाई	बैद्य विचारक नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1965	7086 5-7-79	ग्राम छाछर ता० कोवीनार बाया वाटवाड जिला अमरेली
1027.	भीरजलाल रत्नाभिया रणछोद दास	आयु० निषक नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1965	6594 16-2-79	हबेली पीक ग्राम चोरबाब, जिला भूनागड़
1028.	भीरजलाल सोबलिया] पंच भाई	बी० ए० ए० ए० एम०] गुजरात आयु० वि० वि०] 1973	4308 2-4-74	ग्राम जाधिया बाया जमाला जिला अमरेली ।
1029.	भीषन तेजवानी नरीरा	बी० ए० ए० ए० एम० विक्रम वि० वि०] 1975	7376 29-10-79	दाभोवर बिस्वन रेडीपसंघानी, सिवावा रोड, तोलनाका, अहमदाबाद ।
1030.	भीषम कुमार अग्निहोत्री रमनसाह	आयु० निषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1973	6837 22-3-79	सिबाम रामबाटी, भद्रा, अहमदाबाद ।

1	2	3	4	5
1031.	श्रीगोदाश्रम धारंगधरिया मोहन लाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4102 20-10-73	ग्राम समतेर ता० जमा, जिला जूनागढ़ ।
1032.	श्रीगोदाश्रम गोधी मणीलाल	बी० ए० एस्० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7833 30-9-80	ग्राम भियागाम ता० कर्जन, जिला बड़ौदा ।
1033.	श्रीगोदाश्रम मेहता हिम्मतलाल	आयु० विचारक, रा० सं० महाविद्यालय, बड़ौदा 1953	1612 22-2-65	ग्राम और पो०-मोभा ता० पावरा, जिला बड़ौदा
1034.	श्रीगोदाश्रम मरुवाना तनयुक्त लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6161 16-5-78	ग्राम और पो० पोलापुर ता० घोमुका, जिला अहमदाबाद ।
1035.	श्रीगोदाश्रम नाथक जयसंकर	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3834 1-3-73	ग्राम कोलबाव ता० और जिला- गांधी नगर ।
1036.	श्रीगोदाश्रम परमार कालजी भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6331 4-10-78	हैपिस टेलर्स, न्यू सिविल रोड, सामने बालभवन, अहमदाबाद ।
1037.	श्रीगोदाश्रम पटेल बहिछोर भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4265 18-3-74	ग्राम थोजलपुर ता० साबली, जिला बड़ौदा ।
1038.	श्रीगोदाश्रम पटेल बाली भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5458 14-7-76	ग्राम-ररोद पा०-कर्जन जिला-बड़ौदा ।
1039.	श्रीगोदाश्रम पटेल रघू भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	7069 30-6-79	ग्राम-दासाज ता०-सिद्धापुर जिला- मेहसाना ।
1040.	श्रीगोदाश्रम पटेल विठ्ठल भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7541 20-2-80	ग्राम जंजाव ता० सिनोर जिला बड़ौदा
1041.	श्रीगोदाश्रम शाह बन्कू लाल	जी० एफ० ए० एम० पीकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1958	1197 2-1-58	ग्राम अमीरगढ़ ता० पालनपुर जिला बालन- कंथा
1042.	श्रीगोदाश्रम जडेजा विलीस सिंह	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3916 7-4-73	ग्राम नानाववाला बाया करकी, ता० कासा- बाब जिला जामनगर
1043.	श्रीगोदाश्रम पटेल श्रीधरभाई	बी० ए० एम० एस्० गुजरात वि० वि० 1961	594 5-12-61	ग्राम और पो० बारीजा जिला अहमदाबाद
1044.	श्रीगोदाश्रम भाई शाह दशाराठना	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5682 24-2-77	श्री कृष्णा कृपा, 2-सुभानपुरा रोड, रिस कोर्स, इलोरापार्क, सापिंग सेंटर, बड़ौदा
1045.	श्रीगोदाश्रम कुमार पटेल मगन भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4038 10-9-73	ग्राम कुराल ता० पावरा जिला बड़ौदा
1046.	श्रीगोदाश्रम शाह भातिलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3853 8-3-73	ग्राम सामा ता० कालोल जिला अहमदाबाद
1047.	श्रीगोदाश्रम भाई गोपाली लक्ष्मण भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3940 5-5-73	ग्राम पानेलीमोती ता० उपक्रिता जिला राजकोट

1	2	3	4	5
1048.	भूपति राम जाली मणि शंकर	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3235 30-8-71	ग्राम भसोवर, माया धाननगर, जिला अमरेली ।
1049.	भूपत राम भिरमल परमान्यदास	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5099 18-12-75	नागी बाजार, बडाकी मोरी, ग्राम-गोंवल जिला-राजकोट ।
1050	भूपत राम रामभाबी कृमानबास	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4236 28-2-74	गीता गुजरी सोसायटी, एवरोडग्राम रोड, ग्राम-राजकोट ।
1051.	भूपतसिंह अटोवारिया जय सिंह	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8408 5-4-82	ग्राम और पो० क्यास, ता० चोरयासी, जिला सूरत ।
1052.	भूपत सिंह ठाकुर गम्भीर सिंह	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7638 20-3-80	ग्राम किमकाली, पो० किम, ता० भोलपाड, जिला सूरत ।
1053.	भूपेश्र वैद्य हरी लाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5095 22-12-75	महारमा वाडी, ऋटोडरा, सूरत ।
1054.	भूपेश्र वैद्य जिष्णा भार्ग	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6929 17-4-79	श्लाक नं० 3, बी उत्तम नगर, सोसायटी, वासना, अहमदाबाद ।
1055.	भूपेश्र भट्ट भाट्ट शंकर	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3495 24-4-72	गवर्नमेन्ट क्या० नं० 20, ग्राम और जिला अमरेली ।
1056.	भूपेश्र बलाल ईश्वर लाल	बी० ए० ए० ए० ए०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1962	2406 1-3-67	मोरा बाजार, बलसाव ।
1057.	भूपेश्र जोशी नटवरलाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4445 16-8-74	नटराज होटल नजदीक कांग्रेस हाऊस, सामने गुजरात बजब, भावरा, अहमदाबाद ।
1058.	भूपेश्र किनारी वाला सुन्दर लाल	डी० ए० ए० ए० ए०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1958	111 2-8-58	9/1637, कलापीठ रोड, ग्राम सूरत ।
1059.	भूपेश्र पांड्या अम्बालाल	डी० ए० ए० ए० ए०, क० युद्ध आयु० कोर्स, गुजरात, 1965	1667 21-5-65	डेरासर खांचो, लालाभार्ग पोल, मण्चवीनी पोल, अहमदाबाद ।
1060.	भूपेश्र पटेल ठाकुर भार्ग	जी० ए० ए० ए० ए०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1961	595 5-1-62	दवे पोल, काकरजाब नावियडा, जिला खेडा ।
1061.	भूपेश्र पारिख रती लाल	जी० ए० ए० ए० ए०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1959	687 3-8-59	मोट रोड, ग्राम जालोड, जिला पंचमहल
1062.	भूपेश्र राबल रती लाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1968	2821 25-8-69	सामने हरमल बिलास रेलवे स्टेशन, ग्राम और ता० मोरबी, जिला राजकोट ।
1063.	भूपेश्र शर्मा रमणीक लाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3945 17-5-73	2, विष्णुजय प्लाट, शिरोवासवन ग्राम धामनगर ।

1	2	3	4	5
1064.	भूपेन्द्र शोबन की हमसुख लाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9391 23-9-85	6/302, मच्छरपुरा, कालमबाड़, ग्राम सूरत-3 ।
1065.	भूपेन्द्र ठाकर भाई शंकर	आयु० मध्यमा श्री० व० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1983	6580 18-2-79	1358, मोती बामनशोरी, सारसपुर, अहमदा- बाद ।
1066.	भूपेन्द्र त्रिवेदी भोगीलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4652 12-3-75	2, मन्वेर नगर को० आ० हाउ० सोमायटी, रेम कोर्स, नजदीक मुभाषपुरा, बड़ौदा ।
1067.	भूपेन्द्र भाई गज्जर बालु भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3390 21-2-72	6/731, गल्ले मण्डी, मोती शेरी, सूरत ।
1068.	भूपेन्द्र भाई पटेल अम्बा लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5117 8-1-76	72, उत्तर गुज० सोमायटी, विभाग-1, असारवा, अहमदाबाद ।
1069.	भूपेन्द्र कुमार भट्ट बन्धू लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6310 27-9-78	47, एयर हंटको आ० हाउ० सोमायटी, पीछे वासना बस स्टैंड, मामने सुभी स्कूल, बामना अहमदाबाद-7 ।
1070.	भूपेन्द्र कुमार बबे हीरा लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3237 2-9-71	मथार फैलियम ग्राम काठवाड़ा ता० दामरोई जिला अहमदाबाद ।
1071.	भूपेन्द्र कुमार बबे प्राण शंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4136 10-12-73	भावनी गेट, ग्राम गघादा, (स्वामिना), जिला भावनगर ।
1072.	भूपेन्द्र कुमार जानी गजानन्द	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	9702 16-3-83	धर्मानगर सोमायटी, ग्राम धर्माजी, ता० पेटलाब जिला खेड़ा ।
1073.	भूपेन्द्र कुमार जोशी अमृत लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5203 26-2-76	द्वारा कम्पाउंडर क्वा० जनरल अस्पताल, ग्राम जूनागढ़ ।
1074.	भूपेन्द्र कुमार मेहता मंगल लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7209 20-8-79	ग्राम नरसादा, ता० नाथियाड, जिला खेड़ा ।
1075.	भूपेन्द्र कुमार मेवाड छगन लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4850 14-5-75	ग्राम मजवाली ता० खेरालु जिला मेहसाना ।
1076.	भूपेन्द्र कुमार पांड्या कुमुद कांत	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7970 20-2-81	मानापोल, चाकना, गांधी शेरी ग्राम और पी० और ता० दभोई, जिला बड़ौदा ।
1077.	भूपेन्द्र कुमार पुरोहित अमृत लाल	आयु० शिक्षक मि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1979	7965 3-2-81	ग्राम और पो० साठम्बा, ता० गयाड, जिला जिला माबरकंभा ।
1078.	भूपेन्द्र कुमार रावल धीरज लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5451 6-7-76	रावल स्ट्रीट ग्राम बेशारा बाया बिलीमोग, गनदेवी, जिला वलसाड ।
1079.	भूपेन्द्र कुमार रावल छाब भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8443 31-5-82	ग्राम धोर पो० पिलुनरा, ता० प्रास्तीज, जिला माबरकंभा ।
1080.	भूपेन्द्र कुमार रावल बाबूलाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9558 23-9-86	आर० एम० अस्पताल, ग्राम धाबुरा जिला आर० के० ।

1	2	3	4	5
1081.	भूनेन्द्र कुमार शाह बन्धू लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5053 26-11-75	बाजार ग्राम बयाब, जिला साबरकण्ठा ।
1082.	भूनेन्द्र कुमार बालरव केशव लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4344 19-4-74	नाना नगर वाडा, ग्राम कपाडवंज, जिला खेडा ।
1083.	भूनेन्द्र प्रसाद दीक्षित दामोदर लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5906 28-9-77	श्री रनछोदजी मंदिर, नजदीक नागोपवर लाके, ग्राम—जम्बुसार जिला बरोच ।
1084.	भूनेन्द्र प्रसाद पटेल रामदास भाई	आयु० उत्तमा श्रा० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	7135 24-7-79	ग्राम—ओरी ता०—राजपिपाना जिला बरोच ।
1085.	भूनेन्द्र सिंह चौहान शिशजी	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7323 10-10-79	ग्राम—गोरिता ता०—विजयपुर जिला—मेहसाना ।
1086.	भूनेन्द्र सिंह राज गहवार सिंह	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8762 11-5-83	सी-1, बैभव अपार्ट, अमदाव लाइन्स, दिवाली बाग, ग्राम सूरत ।
1087.	भूनेन्द्र कुमार पांड्या मणि शंकर	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9017 16-4-84	2/1 पुष्पाकुंज, महामन्दिर रोड, ग्राम हिंमत नगर—383001 ।
1088.	बिहारीलाल बाबे कृष्णा प्रसाद	आयु० मध्यमा श्रा० द० परीक्षा, समिति, बड़ौदा 1977	6813 22-3-79	29-ए, केशवबाग, कालोनी, राम नगर, सागर साबरमती, अहमदाबाद ।
1089.	बिहारी लाल पटेल अर्जुन भाई	आयु० उत्तमा श्रा० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1973	6498 1-2-79	सामने पिनाकिन ओपल मिल, चक्रवर्ती रोड, ग्राम और जिला अमरेली ।
1090.	बिचकिसवानु शेष हुसैन मिया	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4868 30-5-75	दाण हुसैन और कम्पनी मच्छी पीठ, रावपुरा । जिला बड़ौदा ।
1091.	बिमला कुमार बरोट वशरथ लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8843 19-9-83	7 श्री जी० सोसाइटी, पेटलाड रोड, ग्राम नादियाड, जिला खेडा—387001 ।
1092.	बिना नोटिमबाला विनोद चन्द्र	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7613 18-3-80	12/260, निमादा चौक, पाटवा शेरी, सूरत ।
1093.	बिना राठौड मूलचन्द भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8021 3-4-81	51, गणपत नगर सोसाइटी सामने श्यू सिविल अस्पताल, अहमदाबाद ।
1094.	बिना शाह रतीलाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1965	1714 15-6-65	44, प्रह्लाद राजकोट ।
1095.	बिना शुक्ला प्रशान्तचन्द्र	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7860 10-10-80	दाण डा० विजय कुमार भट्ट, नजदीक देना बैंक, ग्राम पेटलाद ।
1096.	बिना शुक्ला छैन शंकर	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9623 21-11-86	11, बाबरीक सोसाइटी, मालबियानाद, जीवराज पार्क, अहमदाबाद ।
1097.	बिनाचेन त्रिबेदी विजिन चन्द्र	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6473 19-1-79	गायत्री क्लिनिक, बस स्टैण्ड रोड ग्राम पानीटना जिला भावनगर ।

1	2	3	4	5
1098.	बीना कुमारी वैद्य गोपाल दाम	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9124 23-8-84	ग्राम और पो० अमलसाद ता० गनदेवी जिला- वलसाड ।
1099.	बिन्दु देसाई बलवन्त राय	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8435 17-5-82	32, गांधी नगर, सोसाइटी, महारानी शांता देवी रोड, पीछे जहांगीर टाकीज, ग्राम नवानरी ।
1100.	बिन्दु मास्टर कौशिक	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5846 16-8-77	6, शांतिवन सोसाइटी, नारायण नगर, रोड, पलाडी, अहमदाबाद ।
1101.	बिन्दु शाह रसिक लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4185 12-2-74	1004, टोकरशा का पोल, राजबाड़, अहमदा- बाद ।
1102.	बिन्दु बेन बारोट राम लाल	डी० एम० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात । 1966	2098 13-7-66	3-ए, चन्द्र कालोनी, पीछे ला कालेज, इस्लाम ब्रिज अहमदाबाद ।
1103.	बिन्दुबेन कोठारी शान्ती लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3345 8-2-72	द्वारा भारत कुमार बी० शाह, जगजीवन नारन- दाम, पोल, नगरकुई, नाशियाड ।
1104.	बिन्दुबेन जावेरी चिमन लाल	डी० ए० एम० एफ०, फैकल्टी आफ आ० यू० वि० मेडिसिन, बम्बई 1955	1532 3-1-55	ई० एम० आई० डिस्पेंसरी, ग्राम पोरबन्दर, जूनगढ़
1105.	बिन्दुबाणिनी व्यास गुणवन्तराय	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3357 15-2-72	एम/18, आफिसर्स कालोनी, अलकापुरी, बड़ीदा ।
1106.	बिनेशकुमार कारिया नामीर शाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7422 12-12-79	ग्राम-ककाशवाड़ा काया चारनाड जिला-जूनगढ़ ।
1107.	बिनीत जोशी पुरा ध्रुव कुमार	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6377 27-10-78	13, परिजीत मोसाइटी, फोहूनगर, पन्नाधी अहमदाबाद ।
1108.	बीरेन्द्र पांडे	एच० पी० ए०, पो० ग्रे० ड्रे० सेंटर इन आयु० जामनगर 1963	2738 21-2-69	मेडिकल आफिसर, डिस्पेंसरी ग्राम उमरखाम, जिला वलसाड ।
1109.	बीरोय सोनी नरेन्द्र भाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9428 2-12-85	कृष्ण कुंज नजदीक विज्ञान सोसाइटी, ग्राम थारा जिला बी० के० ।
1110.	बिपिन भाई पटेल गोविन्द भाई	डी० एम० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात, 1962	591 9-1-63	बन्धु ता० बीसनगर, जिला मेहसाना ।
1111.	बिपिन भाई पटेल शिवा भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3600 15-9-72	ग्राम खामधोलाय ता० आनन्द जिला खेड़ा ।
1112.	बिपिनचन्द्र वैद्य नटवर लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3516 7-6-73	कोलामपाडी ग्राम-खाम-भट जिला-खेड़ा ।
1113.	बिपिनचन्द्र वैद्य जयन्ती लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7272 12-9-79	डॉग डा० जयन्ती लाल वैद्य, इयांश पो० बीगरी याथा गिनीमोडा, जिला वलसाड ।
1114.	बिपिनचन्द्र अमीन अम्ना लाल	डी० एम० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1967	2588 19-9-67	मेडिकल आफिसर ग्राम मोलासन, ता० प्राणसीज जिला नाबरकंधा ।

1	2	3	4	5
1116.	बिपिन चन्द्र बरहिया मनसुख लाल	बी० एम० ए० एम०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि०, मेडिसिन, बम्बई 1960	784 23-10-61	नजदीक धर्म कांटा 11/1231, नानावट मेन रोड, सुरत।
1116.	बिपिन चौटानी जवाहर लाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9296 23-5-85	ग्राम गाधमिया कच्छ, ता० मरदाबी, कच्छ, 370445 जिला भुज कच्छ।
1117.	बिपिन चन्द्र देसाई छोटू भाई	जी० एफ० ए० एम०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1960	426 23-10-61	भीमभवन 529, हाऊसिंग सोसाइटी, स्टेशन रोड, नवमारी।
1118.	बिपिन चन्द्र देसाई धीरेन्द्र राय	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4051 15-9-73	द्वारा बी० बी० देसाई, स्टेशन प्लाट, ग्राम-उन जिला जूनागढ़।
1119.	बिपिन चन्द्र डोगा कुरजी भाई	डी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3857 8-3-73	ग्राम-बालापर, पी० चारेल, ता०-धामखंडोरना बाया भायाववार, जिला-राजकोट।
1120.	बिपिन चन्द्र फोडारी मेहर चन्द्र	डी० एम० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1668 21-5-65	रामा पार्क, दक्षिणी सोसाइटी प्लेस, अहमदाबाद।
1121.	बिपिन चन्द्र लाहिरी काम्ती लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5181 18-2-76	डा० के० टी० लाहिरी, ग्राम सावडी, ठंकारा, ता०-मोराबी, जिला राजकोट।
1122.	बिपिन चन्द्र मेहता हीरा लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4140 20-12-73	द्वारा हीरालाल एन० मेहता धानपीठ, पिपामा खादकी ग्राम-जूनागढ़।
1123.	बिपिन चन्द्र पंडित जीवन लाल	डी० एम० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1721 15-6-65	नानी भागोल, पीछे अम्बाजी, माता ग्राम-प्राणजीत जिला-साबरमती।
1124.	बिपिन चन्द्र पांड्या सुमी लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3668 25-10-72	भाबसार बास ग्राम-नारवीपुर, ता०-कालोल, जिला-मेहसाणा।
1125.	बिपिन चन्द्र पंचान राजजी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	7064 30-6-79	माता अलाम, चकलावी, ता०-नादियाड, जिला-खेड़ा।
1126.	बिपिन चन्द्र परमार सुजानल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8294 5-2-82	बरबारी बासग्राम अमराम बाया मोराबी, ता०-ओदिया, जिला-जामनगर।
1127.	बिपिन चन्द्र पटेल प्रताप सिंह	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5871 15-2-77	ग्राम-नारबड़ा, ता०-बाहोबा जिला पंचमहल।
1128.	बिपिन चन्द्र पटेल भीष्म भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9459 10-1-86	ग्राम और पी० आ०-कापल 394550 ता० महुवा, जिला-सुरत।
1129.	बिपिन चन्द्र पाठक हीरालाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3341 8-2-72	13, लोकजीवन सोसाइटी मणियास स्कूल मणिमगर, अहमदाबाद।
1130.	बिपिन चन्द्र राववानी रती लाल	आयु० मध्यमा, क० शुद्ध परीक्षा मिति, बड़ौदा 1978	6482 1-2-79	रुधामय दाम मोहल्ला, नजदीक देना बैंक, ग्राम-विगमग्राम जिला-अहमदाबाद।

1	2	3	4	5
1131.	बिपिन चन्द्र शाह चन्दु लाल	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कौंस, गुजरात 1966	2380 10-1-67	कोटी फानिया, काञ्चिठ्यावाड, बड़ीया ।
1132.	बिपिन चन्द्र शास्त्री छोटा लाल	डी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1968	2871 16-1-70	नागरबाड़ा जगादिया पोल ग्राम—नादियाड जिला—जेडा ।
1133.	बिपिन चन्द्र शुक्ल प्राण लाल	डी० ए० एस० एफ०, फैकल्टी आफ आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई । 1955	1279 1-5-58	ग्राम—लालपुर, जिला—जामनगर ।
1134.	बिपिन चन्द्र शुभाच बाला धनमुख लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6040 16-2-78	1/1650, सुवान स्ट्रीट नानपुरा, ग्राम सूरत ।
1135.	बिपिन चन्द्र उपाध्याय, निमथ भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6294 20-9-78	ग्राम और पो० दाया ता०—तालजा जिला भावनगर ।
1136.	बिपिन चन्द्र वैष्णव कान्ती लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	2306 20-9-79	ग्राम—जुनियानी वाया सुपेडी ता० उपलेटा जिला—राजकोट ।
1137.	बिपिन चन्द्र ग्राम रती लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5424 4-6-76	बहारपारा ग्राम मानवदार जिला—जुनागढ़ ।
1138.	बिपिन चन्द्र कुमार माग्वाड़ा मूल चम्प	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8840 6-9-83	ब्लाक नं० 51/37, गाँधी नगर, ग्राम—जामनगर ।
1139.	बिपिन कुमार परमार कंजी भाई	आयु० मध्यमा श्रा० व० परीक्षा समिति, बड़ीया 1977	6642 26-2-79	कैपिमेस टेलर असारवा चार रास्ता, नजदीक मिथिव अस्पताल, अहमदाबाद ।
1140.	बिपिन कुमार राठोड़ धोर सिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7672 18-4-80	ग्राम दिगेन्दर नगर ता० बलसाड जिला—बलसाड ।
1141.	बिपिन कुमार थुमार देव जी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5163 12-2-76	ग्राम—लारिया ता० विरवावर जिला—जुनागढ़ ।
1142.	बिपिन कुमार बोरस भगवान जी	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6293 20-9-78	ग्राम और पो० भुवाना वाया राजकोट—2
1143.	बिपिन लाल पटेल मगन लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8313 27-8-82	प्रा और पो० रणछोद, ता० बघाव, जिला साबरकांठा ।
1144.	बीरेन्द्र सिंह महिदा बहादुर सिंह	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9002 28-3-84	ग्राम और पो० आ०—ओलपाड ता० ओलपाड [जिला सूरत
1145.	बालि ठाकर शशि कान्त	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8527 14-9-82	द्वारा शशिकान्त बी० ठाकर सेन्द्रल जेल बड़ीया ।
1146.	बुज बल्लभ गोस्वामी सागोने बल्लभ	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कौंस, गुजरात 1961	168 25-1-62	4/ए, गंगोत्री सोसाईटी पीछे सेट जबीयरस कॉलेज इन्स्टीट्यूट, अहमदाबाद ।
1147.	बुज लाल मेहता त्रिभुवन दाम	बी० आई० एम० एस०, बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन, लखनऊ 1949	914 12-7-62	ग्राम रावनी वाया जुनागढ़ ।

1	2	3	4	5
1148.	बृजलाल पटेल सञ्जा राम	बी० ए० एम० एम०, विदर्भ बोर्ड आफ आ० यू० सि० मेडीसिन महाराष्ट्र 1971	4210 18-2-74	पंचायत डिस्पेंसरी, ग्राम लिलाव, ता० कासोट, जिला बरोच ।
1149.	शुजनाल पाटिल उषा	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आयु० कोर्स गुजरात 1966	2073 24-6-66	ग्राम सिसोद्रा वाया कोमन्बा, जिला बरोच ।
1150.	बृज किशोर अरिनहोत्री	ए० एम० बी० एम०, बोर्ड आफ इण्डियन मेडीसिन, लखनऊ 1965	1879 18-12-65	ग्राम-नरोली नगर हवेली वाया बापी ।
1151.	शुद्ध मान मकवाना नागजी भाई	आयु० विषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1965	7417 29-11-79	कोली मन्दिबवाला खाना ग्राम-पालीटना जिला भावनगर ।
1152.	शुद्धदेवपुरी गोस्वामी हीरापुरी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3471 5-4-72	ग्राम-सारसा ता० आनन्द जिला खेड़ा ।
1153.	शुद्धा कांत भट्ट मणि शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6885 2-4-79	ग्राम बगवाड़ा वाया उवावडा ता० पारडी जिला बलसाद ।
1154.	जगन भाल मोथी मणि भाई	आयुर्वेद विषक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1962	7704 29-4-80	ग्राम और पो० आ० सरवाव, वाया मोरबा, ता० मासिया मतिना, जिला राजकोट ।
1155.	जगलाल पोरिया मनजी भाई	आयुर्वेद विषक, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1976	7040 21-6-79	परमीला कुटीर, मास्टर सोसाईटी, ग्राम राजकोट-2
1156.	चैतन्य भाङ्गा नरेन्द्र	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6287 20-9-78	कड़वा फालिया, ग्राम जगदिया, जिला बरोच ।
1157.	चमनलाल मिश्रा ओषाधजी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	4643 12-3-75	पोठ वावला, ता० जामजोधा पुर, जिला जामनगर ।
1158.	चमराबेन जयला ईश्वर लाल	आयुर्वेद विषक, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1961	7407 29-11-79	ग्राम मोती मराद, ता० भोराजी, जिला राजकोट ।
1159.	चम्पक लाल तान्त्र मोती चन्द	डी० एस० ए० सी०, कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1961	485 7-9-62	पब्लिक डिस्पेंसरी, ग्राम पुनी, वाया बेसमा, जिला-सूरत ।
1160.	चम्पक लाल शाह बृज लाल	डी० ए० एस० एफ०, फै० आफ आयु० एण्ड यू० सिस्टम्स, आफ मेडीसिन, बम्बई, 1955	1151 1-8-55	ग्राम भैलवी, ता० दिता, जिला वानसक्रन्ठा ।
1161.	चन्दनबेन गमीन मवाजी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5120 15-1-76	ग्राम जखाला, पो० आ० तरसावा, ता० मन्बावि, जिला-सूरत ।
1162.	चन्द जेन शाह प्रफुल्ल भाई	वैद्याचार्य नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1968	7279 15-9-79	बोधकुवरबा स्कूल वाली शेरी, खेडीनाका, जिला-राजकोट ।
1163.	चाँदमोहम्मद पत्थर वाला देसका मोहम्मद	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8313 2-11-81	स्टेशन रोड, ग्राम-वेगवाड़ा, ता० बभोई, जिला नडौदा ।

1	2	3	4	5
1164.	चन्द्रिका-रुपेरा जयवन्त लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5077 15-12-75	18, तन्दानगर, नजदीक बापू नगर, अहमदाबाद ।
1165.	चन्द्रिका ठाकुर राम जी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	6931 17-4-79	475 ए, यू रेलवे कालोनी, साबरमती, अहमदाबाद ।
1166.	चन्द्र अम्बाबाणी दूल चम्ब	आयुर्वेद शिक्षक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1974	6550 12-2-79	वाडन नं० जी०/120, कुबेरनगर, अहमदाबाद ।
1167.	शत्रु पटेल बाबू लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4694 25-3-75	मामा कोठा रोड, हीरा शेरी, ग्राम भावनगर ।
1168.	चन्द्र शर्मा श्रेय	ए० एम० बी० एम०, बोर्ड आफ इन्डियन मेडीसिन, लखनऊ 1959	2466 17-4-67	रामलीला बाड़ा, नगरा, अजमेर ।
1169.	चन्द्र जा श्रेय	एच० पी० ए०, पो० गे० ट्रेनिंग सेंटरइन आयुर्वेद, जामनगर 1963	1431 2-5-64	आयुर्वेदिक कालेज, ग्रामजूनागढ़ ।
1170.	चन्द्र मंगी ठाकुर रामनारायतरान सिंह	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3610 18-9-72	पंजारी चाल आफिस, गोमती पुर, अहमदाबाद ।
1171.	चन्द्रिका भट्ट रमन लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5564 13-10-76	ग्राम दशरथ, ता० और जिला बड़ौदा ।
1172.	चन्द्रिका कोटेबा लक्ष्मी दास	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3975 20-2-73	श्रीराम गेस्ट हाउस, ग्राम पोरबन्दर, जिला जूनागढ़
1173.	चन्द्रिका पटेल शंकर लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4037 4-9-73	मार्फत पधियार मदन सिंह विजयसिंह, ग्राम और पो० आ० वन्ता, जिला वानसकन्ठा ।
1174.	चन्द्रिका पटेल भीष्म भाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	8929 17-2-84	भिखानपुरी, नाडिदी भागेल, ग्राम और पो० आ० वाभोरी, जिला बड़ौदा ।
1175.	चन्द्रिका शाह भोगी लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3776 9-2-73	6, अजकनदा सोसाईटी, आश्रम रोड, अहमदाबाद ।
1176.	चन्द्रिका शुक्ल लाभाशंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4151 15-1-74	नजदीक पुराना पो० आफिस, ग्राम जामनगर ।
1177.	चन्द्रिकादेन दये नवीनचन्द्र	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4927 5-8-75	मार्फत डा०के० एम० चवमा, ग्राम बिबासा, । ता० मंगरोरी, जिला जूनागढ़ ।
1178.	चन्द्र देन नाथकानी अमृतपाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4603 4-1-75	मार्फत अमृतपाल लक्ष्मीचन्द्र, नजदीक पुराना बस स्टाप, ग्राम कालाबाद शीतला, जिला जामनगर ।
1179.	चन्द्रिका देन ममरुबाला हृदयमूर्ति लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8537 14-9-82	मिथी शेरी मालवात पुरा, ता० चोरयासी, जिला सूरत ।
1180.	चन्द्रिका देन मास्टर जयराम दास	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4035 4-8-73	सोनी फालिया, नजदीक बसत हाथ, अभाला बाला बिल्डिंग, ग्राम सूरत ।

1	2	3	4	5
1181.	चण्डिकाबेन परमार जगजीवन राम	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3914 7-4-73	म० नं० 7/611, लाल गेट, गमपुरा, राम बाग, ग्राम सूरत ।
1182.	चण्डिकाबेन पटेल रति लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	5655 18-1-77	कृष्णा निवास, ब्रह्मपुरी, तन्वीया बाजार, बड़ौदा ।
1183.	चण्डिकाबेन भाह देवचन्द्रभी	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	3001 17-7-70	14, तामकन्द सोसाईटी, अम्बवाडी, अहमदाबाद ।
1184.	चण्डिकाबेन व्यास ठाकुर लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3433 14-3-72	ग्राम भुज, ता० पावरा, जिला बड़ौदा ।
1185.	चन्द्रसिंह सोनकी नाब सिंह	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8453 15-6-82	ग्राम और पो० आ०—सतिया काण्डे, ता० बोरयासी, जिला सूरत ।
1186.	चन्द्र भानु सिंह जाखेजा महेन्द्र सिंह	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4361 26-4-74	लक्ष्मी साहेबम उत्तर, बेरीताका, ग्राम राजकोट ।
1187.	चन्द्र वसु दये बसन्त राय	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8103 20-6-81	जुनी बिट्टुसावाडी पीछे को० आ० पेट्रोल पम्प, गायत्री डिस्पेंसरी, ग्राम भावनगर ।
1188.	चन्द्र कला बोशी प्रवीन चन्द्र	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1965	1927 20-1-66	मार्फत जावेरबख्त ओधावजी मेहता, पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, जामनगर ।
1189.	चन्द्र कला बोशी गोविन्द लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6746 15-3-79	16, ए० एस० टी० सोसाईटी, सामने टी० बी० अस्पताल, ग्राम बड़ौदा ।
1190.	चन्द्र कला पंडित रमेश चन्द्र	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7989 25-2-81	मार्फत आर० एन० पण्डित, पटेल कालोनी, रोड, नं० 3, पोरी, नं० 4, नजदीक शान्तिपी कृपा, जामनगर ।
1191.	डा० चन्द्र कान्त अम्बे लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5215 26-2-76	76, बुधेश्वर नगर, आश्रम रोड, बड़ौदा ।
1192.	चन्द्र कान्त वैद्य शिव भाई	जी० एफ० ए० एम०, फौ० आफ आयु० एण्ड यू० सिस्टम आफ मेडीसिन, गुजरात, 1963	1420 4-4-64	वराध अफिस, नादियाड
1193.	चन्द्र कान्त वैद्य मारुती लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3569 30-8-72	होलीठाकला, ग्राम कपुडबन्ज, त्रिका खेड़ा ।
1194.	चन्द्र कान्त भट्ट मोहन लाल	डी० ए० एम० एफ० फौ० आ आफ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, मुम्बई, 1955	817 2-8-58	ग्राम वाटवा, ता० मनावदार ।
1195.	चन्द्र कान्त भट्ट मोहन लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात वि० वि०, 1961	816 18-6-62	मोगबी हाउस, नं० प्लाट, राजकोट ।
1196.	चन्द्र कान्त भट्ट हीरा लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3239 2-9-71	ग्राम टिम्बागम, ता० तौधारा, जिला पंचमहल ।

1	2	3	4	5
1556.	शेवशी भाई कटारिया जीवाभाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3217 5-8-71	ग्राम बीरवाडी, बाया बिलकहा, जिला जूनागढ़
1557.	धरियाबाला जावेरी कनुभाई	बी० ए० एस्० एम० फै० ऑफ आ० एण्ड यू० सि० ऑफ मेडिसिन, बम्बई 1954	1636 3-9-54	सामने दानमहल स्कूल, ग्राम चामभालिया, जिला जामनगर
1568.	धनंजय जोशी विवाकर राम	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3312 11-1-72	भदी किनारे, ग्राम लिम्बाडी, जिला सुरेन्द्र नगर
1559.	धनंजय पटेल योरधन भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	8962 18-11-77	ललितपुरा बाबकी, ग्राम राम, ता० पधारा, जिला बड़ोच
1560.	धनजी लखरा भानजी	बी० एस्० ए० सी० कमेटी ऑफ शुल्स अ यु० कोर्स, गुजरात 1966	2386 6-2-67	ग्राम-बोडिरा, ता०-पोरबन्दर, जिला जूनागढ़
1561.	धनजी सपारिया बन्धु भाई	पी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6612 21-2-79	सामने कम्भासा, ग्राम-बावा, जिला अमरेली
1562.	धनजी सोलंकी नानजी भाई	आयुर्वेद मध्यमा आयुर्वेद विभाग परीक्षा समिति बड़ोच 1978	6618 21-2-79	ग्राम बाबडा, बाया मोटा बिलिया, जिला अमरेली
1563.	धनजी बाघेर लखनभाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5866 30-8-77	गीता अमरोदराय राजवा रोड, ग्राम-ग्राम- चामभालिया
1564.	धनेशकुमार पटेल बुधालभाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4383 20-5-74	ग्राम-मुनेबाबुसब, पो० आ०-सगवकसा, ता०-हासोट, जिला-बड़ोच
1565.	धनेश कुमार रावल मननलाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5195 25-2-78	मार्फत मननलाल लिंकजी, ग्राम-अकेबालिया, ता०-लिमाडी, जिला-सुरेन्द्रनगर
1566.	धनेश्वर धनवाकिया गोर्धनभाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3038 9-10-72	ग्राम-नेलवाड, बाया तरनसा, ता०-साकवा, जिला भावनगर
1567.	धनजी भाई पटेल नरोत्तमभाई	बी० ए० एस्० एम० फै० ऑफ आ० एण्ड यू० सि० ऑफ मेडिसिन, बम्बई 1956	2288 1-12-56	कस्तूरबा सेवाश्रम, रामी प्रवेश-पब्लिक डिस्पेंसरी, ग्राम धीर पो० आ०-कावेरी ता०-मंगरोल, बाया कोसम्बा, जिला-सुरत
1568.	धनसूखलाल चोकसी अंगनलाल	बी० ए० एस्० एम० फै० ऑफ आ० यू० सि० ऑफ मेडिसिन, बम्बई 1956	179 2-4-57	जिला परिषद डिस्पेंसरी, ग्राम-आचल, ता०- पानवड, जिला बाया
1569.	धनजी भाई पटेल गोरधनभाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3060 18-10-70	ग्राम-बिलायत (बैरिल) ता०-बावारा, जिला बड़ोच
1570.	धनजी भाई सवालिया पूजाभाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8622 13-1-83	गोपाल आयु० क्लिनिक, मन्नी शक्ति कालोनी, सामने इण्डिया कालोनी, बापुनगर, ठक्करबापा, नगर, रोड, अहमदाबाद-14
1571.	धनजी भाई बनसा बाह्याभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1955	3825 27-2-73	ग्राम-रंगपुर ता०-लिम्बाडी, जिला-सुरेन्द्रनगर

1	2	3	4	5
1572.	जनराज कौन हीराचन्द्र	डी० ए० एम० एफ० फै० ऑफ आ० एण्ड यू० सि० ऑफ मेडीसन बम्बई 1955	267 1-8-55	30/8, गुजरात डिभिनिंग क्लब, इरगा रोड, अहमदाबाद
1573.	धनश्याम देवमुरारी मूल राम	डी० एम० ए० सी० कमेटी ऑफ लुड आयु० कोर्स, गुजरात 1964	1465 30-6-64	"विमल" गोपालनगर, ग्राम-राजकोट ।
1574.	धनसुख भाई पटेल छानन भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5483 11-8-76	ग्राम-जंगपुर, पो० आ०-जंगपुर, जिला-सुरत
1575.	धनसुख भाई पटेल नरोत्तम भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8233 24-11-81	ग्राम जीर पो० आ०-हजीरा, जिला-सुरत
1576.	धनसुखकुमार धीरे नामन राव	बी० ए० एम० एम० इन्वीर वि० वि० 1976	6417 18-11-78	78, एम० डी० रोड, ग्राम और पो० आ० बरवाह-जिला प० निमार
1577.	धनसुख लालचंद नारिंद लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6171 8-6-78	ग्रामघो-असबा, ता०-भोसन, जाया बादिमा बैबाड़ी, जिला-जुनागढ़
1578.	धनसुख लाल शाह जोफिसन दान	डी० ए० एम० एफ० फै० ऑफ आ० एण्ड यू० सि० ऑफ मेडीसन बम्बई 1949	1164 2-8-49	बाजार, ग्राम-कवाव स्ट्रीट स्टेशन, टी० डी० रेलवे ता०-बारजोबी, जिला-सुरत ।
1579.	धनसुखलाल श्याम बाबूलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4776 10-4-75	ग्राम-मालिकपुर, ता०-जुनाबाड़ा, जिला-नवसहल
1580.	धर्मवीर वसुधामा वसुधामदास	डी० एफ० ए० एम० फै० ऑफ आ० एण्ड यू० सि० ऑफ मेडीसन बम्बई 1960	1002 2-8-60	लिम्बाविया स्ट्रीट, ग्राम-कटारनाथ, जाया और जिला-सुरत
1581.	धर्मवीर जेथारिखा आलम्बभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7014 18-5-79	प्लॉट नं० 6, लालसल्ल सोसाइटी, सरदारनगर, ग्राम-भावनगर
1582.	धर्मसिंह सोलंकी दीपराजजी	बी० ए० एम० एम० इन्वीर वि० वि० 1972	6309 27-9-78	सुतार मोहल्ला, ग्राम-बरवाली, जिला-खरगीन (म० प्र०)
1583.	धर्मसिंह भाई नरकलमा प्रतापजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3855 8-3-73	प्लॉट नं० 1457, रुपार्नी विस्किंग, ग्राम-भावनगर
1584.	धरमचंकर जोशी अमृतलाल	डी० ए० एम० एफ० फै० ऑफ आ० एण्ड यू० सि० ऑफ मेडीसन बम्बई 1954	236 31-1-47	48, संकल्प सोसाइटी पीछे सेंट जेवियर स्कूल, गोत्र डोव रोड, 157, सुरत-395001
1585.	धराबशी वैद्य चरण दास	डी० एफ० ए० एम० फै० ऑफ आ० एण्ड यू० सि० ऑफ मेडीसन गुजरात 1962	1035 10-1-63	मार्फत चरण दास पंचवली, पासु कंधार स्ट्रीट कच्छ, सन्वासी
1586.	धरणी मेहता अशोक कुमार	डी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8421 17-4-82	मार्फत डा० ए० डी० मेहता, समीर क्लीनिक, मोसा रोड, ता०-पडारा, जिला-बड़ोदा
1587.	धर्मेश्वर पारिब मधुरादास	आयु० मध्यम श्रावणनाथ बणिगा पटोला, समिति बड़ोदा 1972	6884 12-4-79	प्रभा मन्दिर, प्लॉट नं० 61, पीछे वीरसावरकर मार्ग, बम्बई-400025

1	2	3	4	5
1588.	धर्मेश भाई पटेल भाईलाल भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3980 31-7-73	ग्राम गम्भीरा, ता० भोरसाद, जिला-बड़ोदा
1589.	धर्मेश कुमार पटेल विठ्ठल बास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5289 23-3-76	ग्राम-छत्तराल, ता०-कालोल, जिला-मेहसाणा
1590.	धरमिष्ठा अमीन बन्धुफाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	9398 5-4-82	ग्राम और पो० आ०-बीरसाद, ता०-बीरसाद जिला-बड़ोदा
1591.	धरमिष्ठा भद्र शुनीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8000 25-2-81	कानाजी भाई देसाई भवन, चौक, ग्राम-सूरत
1592.	धरमिष्ठा पटेल सुमन्तलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	4379 20-5-74	मार्फत डा० सुमन्तलाल पटेल मामले साक्षरनगर करौलीबाग, बड़ोदा
1593.	धरमिष्ठाबेन जोशी पार्वती शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5102 24-12-75	ग्राम-कुम्भारिया, ता०-बीरसादी, जिला-सूरत
1594.	धरमिष्ठाबेन बभार देशरथ लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8546 14-9-82	8, आराधना पार्क, जवाहर चौक, साबरमती, अहमदाबाद
1595.	धरमिष्ठाबेन पटेल मोतीभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7675 18-4-80	बन्धु पार्क, रेलवे स्टेशन मणी नगर, (पूर्वी) अहमदाबाद
1596.	धरमिष्ठा बिबेदी रतीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3140 25-2-71	प्लॉट नं० 12, "श्रीरणा" लक्ष्मी सोसाईटी, सुभाष नगर, ग्राम-भावनगर
1597.	धरमिष्ठाबेन शाह भाईलाल भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8538 14-9-82	2/बी, स्वामी सोसायटी, सामा रोड, बड़ोदा
1598.	धर्मसुख पटेल तुलसी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4100 19-10-73	ग्राम-जापा, ता०-वान्दवाजा, पावी जेपुर, जिला-बड़ोदा]
1599.	धवलचन्द्र उपाध्याय भालचन्द्र	जी० एफ० ए० एम० पै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन गुजरात 1961	65 23-10-61	मैडिकल आफिसर, महुवा, जिला-सूरत
1600.	धवलकुमार पांड्या जर्नाबिन भाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9633 5-12-86	कटुम्ब नियोजन तालीम केन्द्र, बूबा 2, सामने गवर्नमेंट प्रेस, नजदीक डी० एम० पी० पी० बंगला ग्राम-राजकोट
1601.	धीमन्तरराव दवे दलमुखराम	बी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० 1965	2129 4-8-66	नागनाथ शेरी, ग्राम-और ता०-मोरबी, जिला- राजकोट
1602.	धीरजकुमार रैयानी बेलजी भाई	पी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9409 19-10-85	ग्राम बीलख, ता० और जिला-जुनागढ़
1603.	धीरजलाल अग्रवाल मदनचन्द्र	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1967	7347 29-10-79	ग्राम जराखिया, ता० लाठ, जिला-अमरेली

1	2	3	4	5
1604.	धीरज भाल भट्ट मगनलाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० 1967	2512 14-6-67	मार्फत कडा० मगनभाई भट्ट डिगविजय, प्लाट, ग्राम-अमनगर
1605.	धीरजलाल भावसार मणीलाल	बी० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3562 25-8-72	260/2, कोठ पोला, रायपुर अहमबाबा
1606.	धीरजलाल भट्ट वलपतराम	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1960	9284 2-5-85	आई ब्लॉक, रूम नं० 17, पुलिस तालीम महा- विद्यालय, ग्राम जूनागढ़
1607.	धीरजलाल बाभी हंसजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3313 17-1-72	ग्राम महमदपुरा, पो० आ० कूतेल, ता० वभोई, जिला बड़ौदा
1608.	धीरजलाल बबें मोतीलाल	वैद्य विशारद नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1964	6896 12-4-79	ग्राम जामवणी, ता० मगरोल, जिला जूनागढ़
1609.	धीरजलाल घुधत बलराम भाई	जी० ए० एम० एम० म० सि० वि० वि० 1980	9504 12-5-86	ग्राम गीर-गझादा, ता० उमा, जिला जूनागढ़
1610.	धीरजलाल गजेरा राधव भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5795 30-4-77	ग्राम लखापदार, बाया गुनीधर, जिला अमरेली
1611.	धीरजलाल जानी अमृतलाल	आयु० भिषक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1972	7195 17-8-79	मार्फत वैद्यराज कान्तीलाल, दयालशंकर, 8, प्रह्लाद प्लाट, जिला-राजकोट
1612.	धीरजलाल जगराणा दामनराय	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3398 24-2-72	हरीमाला प्लाट नं० 73, बोर्डिन रोड, कृष्णानगर, भावनगर
1613.	धीरजलाल जोशी मणिकंकर	वैद्याचार्य नि० भाग० आयु० वि०, दिल्ली 1965	7441 21-12-79	माधव आयु० औषधालय, बहार गोट, ग्राम बेरावल, जिला जूनागढ़
1614.	धीरजलाल कककाव बोबीदास	डी० एम० ए० सी० कमेटी आफ गुरु आयु० कोर्स, गुजरात 1963	1543 13-6-63	सेट जे० पी० आयु० महाविद्यालय, मामने सरदार बाग, भावनगर
1615.	धीरजलाल कककाव छगनलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	7075 30-6-79	ग्राम माधवपुर (बेव) जिला जूनागढ़
1616.	धीरजलाल लोखिया मारीलाल	वैद्य विशारद नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1971	6657 29-2-79	दरबारगढ़, ग्राम भानवाव, जिला जामनगर
1617.	धीरजलाल मेहता बिठ्ठलदास	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1965	7180 9-8-79	ग्राम करकच, ता० लीलियामोटा, जिला अमरेली
1618.	धीरजलाल पंचोली वीरचन्द्र	डी० एम० ए० सी० कमेटी आफ गुरु आयु० कोर्स, गुजरात 1962	731 28-9-62	बोटाडकर रोड, ग्राम बोटाव, जिला भावनगर
1619.	धीरजलाल पांड्या दक्षिणलाल	एल० ए० एम० यू० पी० आयु० महाविद्यालय, पाटन 1941	749 8-10-41	रामनेकारी, ग्राम लवाजा, जिला भावनगर
1620.	धीरजलाल पटेल माधवजी	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1964	8742 19-4-83	ग्राम और पो० आ० मेमबान, बाया केणोद, जिला जूनागढ़

1	2	3	4	5
1621.	धीरजलाल पटेल त्रिभुवनदास	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9309 2-7-85	ग्राम लक्ष्मीनगर, पो० आ० आनंदेज, ता० सनाव, जिला महमदाबाद
1622.	धीरजलाल पारेक दहियालाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4063 26-9-73	ग्राम पाटवा, ता० घोषा, बाया भादी, भभानरिया, जिला भावनगर
1623.	धीरजलाल रानीलिया मोहन भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	5029 11-11-75	ग्राम और पो० आ० तरकुदा, बाया डेशल, जिला अमरेली
1624.	धीरजलाल रंक कर्मवी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8043 27-4-81	ग्राम लुधिका, जिला राजकोट
1625.	धीरजलाल रावभ कास्तीलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3652 11-10-72	बाघेश्वरी चौक, बाघेश्वरी मन्दिर, ग्राम वाघवन, मिटी, जिला सुरेन्द्रनगर
1626.	धीरजलाल राठीड़ लक्ष्मण दास	डी० एम० ए० सी० कमेटी आफ गुड आयु० कोर्स, गुजरात 1963	1396 21-1-64	मार्फत धीरजलाल लक्ष्मणदास राठीड़, (भार० एम० ओ०) गांधीनगर, आयु० अस्पताल, सेक्टर नं० 22, गांधीनगर
1627.	धीरजलाल वधासिया वल्लभ, भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8780 16-6-83	ग्राम और पो० आ० प्रेमवाड़ा, बाया विस्वदास, जिला जूनागढ़-362930
1628.	धुब कुमार ठाकर हरी वल्लभ	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8760 11-5-83	सेटुल बक रोड, नजदीक बकूल सादी सेंटर ग्राम जामनगर
1629.	विलीपसिंह राउल हिमसिंह	आयुर्वेद विशारद बी० आफ ई० मेडीसिन, सौराष्ट्र 1958	2250 15-3-58	गवर्न० हिल्सिरी, ग्राम सामना, बाया पनेलीमोती जिला जामनगर
1630.	धीरजलाल माह दीपचन्द	डी० ए० एम० एफ० फै० एम० आ० एण्ड० यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1955	2456 1-9-55	ग्राम साधम्बा, ता० बयाद, जिला साबरकंधा
1631.	धीरजलाल माह बाबी लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० 1964	24 18-12-64	ग्राम जखडा ज ता० चान्दमा, जिला मेहसाणा
1632.	धीरजलाल शिगला भगवान जी	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8218 17-11-81	ग्राम निकावा, ता० कलवाड़, (शिगला) जिला जामनगर
1633.	धीरजलाल सोनी नरसिंह दाम	डी० एम० ए० सी० कमेटी आफ गुड आयु० कोर्स, महाराष्ट्र 1960	1317 23-10-61	ग्राम चौव, शंकरी शेरों, प्राण मोरावी, जिला राजकोट
1634.	धीरजलाल मुजाक नारनदास	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4922 4-8-75	ग्राम और पो० आ० अमरनगर, ता० जेतपुर, जिला राजकोट
1635.	धीरुभाई श्याल भगवान भाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9483 24-3-86	ग्राम माववाड़ा, पो० आ० सठारा, बाया त्रपाज जिला भावनगर
1636.	धीरजलाल वण्णत्र वल्लभ भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5822 14-6-77	मार्फत मैसर्स राधाकृष्ण पेपर नोड, इण्डस्ट्रीज नजदीक विलीप प्रोसेसर्स, सामने भदार कन्या, ग्राम जैतपुर-360370
1637.	धीरजलाल बोरा शास्तीवाल	डी० एम० ए० सी० कमेटी आफ गुड आयु० कोर्स, गुजरात 1964	1508 11-8-64	ग्राम अमृतवेल, पी० आ० हुनदास० बाया महुवा जिला भावनगर

1	2	3	4	5
1638.	धीरजलाल श्याम बिदुल दास	डी० एस० ए० सी० कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1756 5-7-65	ग्राम विकटोर, बाया बुनगर
1639.	धीरजलाल श्याम चम्बूलाल	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3536 1-8-72	मार्फत हरीजिन मिल, ग्राम बस्तबा, ता० हुन्तवदार, जिला जूनागढ़
1640.	धीरजलाल यागनिक जीवराज	एल० ए० एम० यू० पी० प्रायु० महाविद्यालय, पाटन 1941	962 3-11-41	नेगमपुरा, बुधारा घेरी, सूरत
1641.	धीरेन्द्र बन्जारा रन्धोददास	डी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० 1966	2177 27-9-66	ग्राम धीर पो० आ० बकिया, ता० और जिला, अमरेली
1642.	धीरेन्द्र ओगं सरामबन्जाल	डी० एम० ए० सी० कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1961	234 15-12-61	ग्राम० एम० मो० प्रायु० गवर्न० अखण्ड अस्पताल, ग्राम अहमदाबाद
1643.	धीरेन्द्रबाबा दवे रसिकलाल	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3037 27-8-70	धन्तोवाल, नजदीक सी० एम० देसाई, ग्राम बड़ौदा
1644.	धीरेन्द्र कुमार त्रिवेदी भानु प्रसाद	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3193 7-5-71	ग्राम तिम्ली, बाया उना, जिला अमरेली
1645.	धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय चन्द्र लाल	आयुर्वेद मध्यमा श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1976	6862 2-4-79	6, नर्ननिर्माण आगम, निगम सोसायटी, आनन्द बाड़ी, वाटवा, रोड़, अहमदाबाद
1646.	धीरेन्द्र कुमार वैष्णव बन्शीलाल	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4431 18-7-74	ग्राम खारिया, जिला जूनागढ़
1647.	धीरुभाई देसाई भीमभाई	डी० ए० एम० एफ० फं० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन 1951	414 10-7-51	देसाई बाड़, ग्राम खिखानी, जिला बलसाद
1648.	धीरुभाई नायक मकानजी	डी० ए० एम० एफ० फं० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन 1953	475 29-8-63	ग्राम पंभरा, ता० नवसारी, जिला बलसाद
1649.	धीरुभाई नायक रमछोदजी	डी० एस० ए० सी० कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1964	1461 29-6-64	गोपीपुरा, बोरवाड, सामने पो० ग्रा०, सूरत-2
1650.	धीरुभाई पटेल बिदुलभाई	डी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9321 25-7-85	3/ए, गणेश कालोनी, वारठा रोड़, ग्राम सूरत-6
1651.	धीरुभाई सिंगना बाबू भाई	डी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5175 18-2-76	पटल भेरी, ग्राम फलिया, मोटा, जिला अमरेली
1652.	धीरुलता मिस्त्री भीष्म भाई	डी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9577 23-9-86	मार्फत भीष्मभाई भगवानजी मिस्त्री, नवपुरा स्ट्रीट, ग्राम बिलीमोरा-396321, ता० गनदेवी, जिला बलसाद
1653.	विगम्बर नरेश्वरकर वत्ता राय	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4104 2-11-73	सामने, कलाभवन शंकर तेकररी, द्वितीय तल, ग्राम बड़ौदा
1654.	विगबिजय सिंह वगेली उदेंसिंह	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4400 6-6-74	ग्राम अंधेडा, ता० बोरसाद, जिला खेड़ा

1	2	3	4	5
1656.	विगबिजय सिंह जाला मग्भा	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4847 14-5-75	ग्राम अदाबल, ता० घांघुका, जिला अहमदाबाद ।
1656.	दिलावर राठोड़ इस्माइल भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3930 24-4-73	ग्राम धोधा, जिला भावनगर ।
1657.	दिलावर सिंह जवेजा जुधानसिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3238 2-9-71	ग्राम खेड़ोई, ता० अंजार, जिला कच्छ ।
1658.	दिलीपकुमार भट्ट बिमनलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5931 17-10-77	बिनय सोसायटी ब्लाक नं० 790, अजारोड़, बड़ोदा ।
1659.	दिलीपकुमार भट्ट जयवैक भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7971 20-2-81	ग्राम कम्बोला, ता० कर्भन, जिला बड़ोदा ।
1660.	दिलीपकुमार भवसार रन्छोददास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5917 11-10-77	अम्बिका क्लिनिक, ग्राम बोधसक, ता० बोरासब जिला खेड़ा ।
1661.	दिलीप दाल दासदास	एम० डी० आयु०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8483	सिमानपारा रोड़, राजकोट-1
1662.	दिलीप दवे प्रतापराय	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5057 28-11-75	माफेत टाटा कैमिकल लिम, ग्राम, रतवाव, जिला जूनागढ़ ।
1663.	दिलीप बोरा धनजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4175 11-2-74	ग्राम दवाडिया, ता० घांघुका, जिला अहमदाबाद ।
1664.	दिलीपभाई राज्यगुरु सम्भूषणकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4867 29-5-75	ग्राम वघाहर, थाया महुवा, जिला भावनगर ।
1665.	दिलीपचन्द्र मेहता नटवरदास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3626 30-9-72	ग्राम बीरपुर, ता० बालटोनोर, जिला खेड़ा ।
1666.	दिलीपचन्द्र ठाकर प्राणवल्लभ	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4753 7-4-75	माफेत पी० बी० ठाकर, डबी भुवन रोड़ ग्राम झारका, जिला जूनागढ़ ।
1667.	दिलीप कुमार अमीन बिहारीभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8826 1-9-83	बाजार, ग्राम लिम्बासी, ता० भाटर, जिला खेड़ा ।
1668.	दिलीप कुमार भट्ट जन्मू भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4934 26-8-75	ग्राम जसापुर (गीर) थाया अकोलवाड़ी, जिला जूनागढ़ ।
1669.	दिलीपकुमार चौटालिया कनवरजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	5782 13-8-83	ग्राम और पो० आ० चिरोदा(गीर) थाया मेंबर दास, जिला जूनागढ़ ।
1670.	दिलीप कुमार दवे रामकृष्ण	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8460 25-6-82	सामने एस० टी०, स्टैण्ड, ग्राम और पो० आ० चोड़ा, जिला सुप्रेमगर ।
1671.	दिलीपकुमार देसाई कान्ती लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6403 10-11-78	“श्रीध भवन” कन्सरा बाजार, ग्राम नादियाड, जिला खेड़ा ।

1	2	3	4	5
1672.	दिलीप कुमार दोसनी बृजलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5298 29-3-76	स्वामी नारायण शेरी, नं० 4, ग्राम धारी, जिला अमरेली ।
1673.	दिलीप कुमार जय बाल नारायण दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6128 5-4-78	ग्राम और पो० आ० सुतराड़ा, ता० मालपुर, जिला साबरकंधा ।
1674.	दीपक कुमार कोटाड़िया बाबू भाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9626 21-11-86	एफ 8, सैंक्टर-7-ए, सामने पांड टंकी, निर्णय- मगर, पो० आ० चन्वोड़िया, अहमदाबाद ।
1675.	दिलीप कुमार लक्ष्मण त्रिभुवनदास	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9620 21-11-86	ग्राम और पो० आ० वेवपुरा, ता० वीरामगाम, जिला अहमदाबाद ।
1676.	दिलीपकुमार मकवाना नरेश भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3557 23-8-72	मुनी क्वा० 7/152, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद ।
1677.	दिलीप कुमार मेहता हेमंत लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3903 31-3-73	मार्फत हेमंतलाल टी० मेहता, नजदीक पो० आ० ग्राम जमकाबोराना, जिला राजकोट ।
1678.	दिलीप कुमार मेहता परशुराम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5274 12-3-76	गांधीवास, ग्राम, राधापुर, जिला बानसकंधा ।
1679.	दिलीप कुमार मेवाड़ अमृतलाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9554 3-9-86	पोछे रामजी मन्दिर, ग्राम गुजा० ता० वीसागर जिला मेहसाना ।
1680.	दिलीपकुमार नायक अमृतलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8820 11-8-83	ग्राम सोढा, ता० वीजापुर, जिला मेहसाना, 382835 ।
1681.	दिलीपकुमार पनारा मोहन लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5640 24-12-76	प्रकाश पार्क, बी नं० 21, नवरंगपुर, अहमदाबाद ।
1682.	दिलीपकुमार पांड्या नवनिधि राय	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3124 17-2-71	नाया बाजार, जाफराबाद, जिला अमरेली ।
1683.	दिलीपकुमार पांड्य काशरवर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3545 16-8-7222	ग्राम सासुन्दा, ता० कपाडनगंज, जिला खेड़ा ।
1684.	दिलीपकुमार पांड्या मणिलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4826 2-5-75	ग्राम नन्दासा, ता० और जिला मेहसाना खेड़ा ।
1685.	दिलीप कुमार पटेल रतनोबलाम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4059 21-9-73	101, सोती सभालीवाड़, सरसपुर, अहमदाबाद ।
1686.	दिलीप कुमार पटेल मगनलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6297 20-9-78	ग्राम और पो० आ० रतवेरीकला, ता० चिखाली, जिला वलसाड ।
1687.	दिलीप कुमार पटेल संडलदास	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	6435 15-12-78	5, परमहंस हाउस सोसायटी, मंजलपुर रोड ग्राम बड़ोदा ।
1688.	दिलीप कुमार पटेल हरगोविन्द दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8246 24-12-81	ग्राम और पो० आ० ट्रेंट, ता० वीरामगाम, जिला अहमदाबाद ।

1	2	3	4	5
1689.	दिलीप कुमार पटेल ईश्वर भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8379 18-3-82	ग्राम और पो० आ० जारेला, ता० बोरासद, जिला खेड़ा ।
1690.	दिलीप कुमार पाठक मन्मथ प्रसाद	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3694 27-11-72	मार्फत डा० ए० वी० पाठक, मैडीकल आफिसर मिनो डिस्ट्रिक्ट, नं० 2, ग्राम महुवा, जिला भावनगर ।
1691.	दिलीप कुमार पोकिया नागजी भाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9619 21-11-86	3 ए, गायत्रीनगर सोसायटी, कार्लेज रोड, ग्राम नादियाड, जिला खेड़ा
1692.	दिलीप कुमार शाह जगमोहन शास	डी० ए० एम० एफ०, पी० आफ आ० यू० सी० मैडीसन बम्बई, 1954	2309 2-1-54	मफतलाल सिविल अस्पताल, ग्राम और ता० नवसारी, जिला सूरत ।
1693.	दिलीप कुमार शाह नवनील लाल	बी० ए० एम० एम०, विदर्भ बोर्ड आफ आयु० एण्ड यूनानी सिस्टम, आफ मैडीसन, महाराष्ट्र, 1975	6327 4-10-78	मार्फत डा० नवनील लाल सी० शाह, 5, भीमनाथ सोसायटी, नजदीक सर्किट हाउस, शाहीबाग अहमदाबाद ।
1694.	दिलीप कुमार शाह गोविन्दलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7547 21-2-80	79, उधोगनगर सोसायटी, बाहर पानी गेट बड़ोवा ।
1695.	दिलीप कुमार शाह मन्जालाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9022 16-4-84	22 वी, मधुकुंज सोसायटी, मनीनगर, अहमदाबाद ।
1696.	दिलीप कुमार शाह वस्तुपाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9095 31-7-84	गुजरात हाऊसिंग बोर्ड, 64, नीलकांठ नगर ग्राम, पो० और जिला वरोच-392001 ।
1697.	दिलीप कुमार भावना जयशंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7992 25-2-81	10 1739, श्री संगीत उपासन मंदिर, देसाई पोल, अनिबेरान्त, ग्राम सूरत ।
1698.	दिलीप कुमार सोलंका मालू भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5863 30-8-77	ग्राम और पो० आ० औरी, वाया विछिया, ता० सयाला, जिला सुरेन्द्रनगर ।
1699.	दिलीप कुमार सोनी जयशंकर लाल	आयुर्वेद माध्यम, श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ोदा, 1978	7179 9-8-79	ग्राम जीवापारा, गली पिपाली, जिला जामनगर ।
1700.	दिलीप कुमार त्रिवेदी प्रभाशंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	2990 1-7-70	आर० एम० ओ० गवर्न० आफ आयु० अस्पताल, सेक्टर-22, गांधीनगर ।
1701.	दिलीप कुमार त्रिवेदी मूल शंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8336 27-2-82	वैद्य स्मृती, नावा बाजार, नजदीक ग्राम पंचायत आफिस बल्लभ विद्या नगर, 388120 ।
1702.	दिलीप कुमार उपाध्याय शशिकान्त	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	9300 6-6-85	"श्रीवन्तहृपा" राजा रोड, मारोली बाजार, ग्राम मारोली, ता० नवसारी, जिला बलसौर ।
1703.	दिलीप कुमार उपाध्याय हरीचन्द्र	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4981 15-10-75	पंचमुखी महादेव पोल, रावपुर, जिला बड़ोद ।
1704.	दिलीप कुमार वैद्य कणपति शंकर	डी० एम० ए० सी०, कमेटी आफ शुद्ध आयु० को, गुजरात 1965	1671 21-5-65	ग्राम कामराज, जिला सूरत ।
1705.	दिलीप कुमार व्यास जयशंकर लाल	आयुर्वेद उस्तम श्रावण मास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ोदा, 1972	6712 9-3-79	कमरा नं० 4, सब निश्च सोसायटी, करैलीबाग जिला-बड़ोवा ।

1	2	3	4	5
1706.	विलीकुमार ब्याम अत्री शंकर	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि, 1985	9600 23-10-86	बनिया पोल्तगर्वाड़ा, ग्राम नदियाड, जिला खेडा
1707.	विलीप राम बोलकिया मोहन लाल	डी० ए० एम० एफ०, पै० आफ आ० एण्ड यू० सी० आफ मेडिसिन बम्बई 1952	461 5-9-52	भवन० अस्पताल, मालिया, अबायासा जिला कच्छ
1708.	विलीप सिंह जड़ेजा नानाभा	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5624 3-12-76	बरबागढ़ ग्राम बाबरीबी, ता० मालिया-मिया जिला राजकोट ।
1709.	विलीप सिंह महिवा प्रतापसिंह	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8018 3-4-81	ग्राम और पो० आ० उत्तरान, ता० भोरवानी जिला सुरत ।
1710.	दिनेश सिंह पशारी बैलाजी	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि, 1974	5043 29-10-75	ए-पी० बाक्य न० ग्राम-उता, जिला-जूनागढ़
1711.	विलीप सिंह परमार जसबन्त सिंह	बी० एम० ए० एम०, नि० भा० आयु० वि० वि०, 1965	8629 28-1-83	बलाडना, ता० बहावन, जिला सुरेश्वरनगर
1712.	विलसाय पीरजादा फारिखीन	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	9101 31-7-84	ग्राम पालेज, जिला बरोच
1713.	विलसुबराय देवपुरारी मोकुल दास	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3377 16-2-72	ग्राम जिनजुवा, ता० मोरदरीडा, जिला जूनागढ़ ।
1714.	वीना राबल चिमनलाल	एम० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4588 12-12-74	रा० आयु० कालेज, सरदारबाग, ग्राम जूनागढ़ ।
1715.	दीनाबेन भट्ट अशोक कुमार	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3568 30-8-72	मार्फत गिरीशकुमार टी० शास्त्री, 3 बोलेश्वर सोवाहीटी, मणीनगर-पूबी, अहमदाबाद ।
1716.	दीनाबेन निम्बारक छोटासाय	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	9054 10-5-84	मार्फत सी० जे० निम्बारक, श्री रामकुटीर, ग्राम मोरादीसमाधियाला, माया जैनपुर, जिला राजकोट
1717.	दीनाबाब भट्ट बालकृष्ण	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4972 15-10-75	भट्टबाड़ा, ग्राम बेलोल ता० कालोल, जिला पंचमहल ।
1718.	दीनजशु जोशी रती लाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1967	2530 27-6-67	हाथी भेरी, सामने सधनारायण मन्दिर, ग्राम जामनगर ।
1719.	वीनबाला शाह चिमनलाल	जी० एफ० ए० एम०, पै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, गुजरात 1962	1163 7-8-63	मार्फत डा० चिमनलाल आर० शाह, भोरीसम रोड ग्राम पोरबन्दर ।
1720.	दिनेश कशाडिया पुरुषोत्तम दास	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8075 4-5-81	65/3, घ, सेक्टर न० 29, ग्राम गांधीनगर ।
1721.	दिनेश पाठक रमनलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8592 3-11-82	1/कार्तिक स्वामी मोवाहीटी, बाहर शाहपुर गेट, अहमदाबाद ।

1	2	3	4	5
1722.	दिनेश पटेल कालीबाम	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8728 19-4-83	1492/1, मोतीबामन रोरी, सरसपुर, अहमदा- बाद-380018
1723.	दिनेश भाई ब्रह्मभट्ट मूलजी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7359 29-10-79	ग्राम और पो० आ० कराई, ता० कर्जन, जिला बड़ौदा।
1724.	दिनेश कुमार धरसब्बिया पुष्पोरतम भाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9470 11-2-86	“रत्नदीप”, 59, कोटेछनगर, कलबाड़, रोड़ ग्राम राजकोट।
1725.	दिनेशभाई परमार रावजी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8516 27-8-82	ग्राम और पो० आ० उनाई, ता० बलसाब जिला बलसाब।
1726.	दिनेश भाई पटेल गोरधन भाई	डी० एस० ए० सी०, कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1982	554 24-9-62	मार्फत डा० जी० आर० पटेल, ग्राम और पो० आ० चोरखा, बाया मियांगामकर्जन जिला बड़ौदा।
1727.	दिनेशभाई पटेल जीवराज भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3318 21-1-72	गोमालवाड़ी, मुनी प्लाट, ए-5/5, ग्राम सूरत।
1728.	दिनेश भाई पटेल अनुर भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4062 21-9-73	93, दुधेश्वर नगर, अजबा रोड़, बाहर पानी गेट के बाहर, ग्राम बड़ौदा।
1729.	दिनेश भाई पटेल गोकुल भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4329 9-4-74	37, टाककरबापा कालोनी, नजदीक आयु० कालेज ग्राम बड़ौदा।
1730.	दिनेश भाई पटेल हरमान भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4457 27-8-74	5, अमूलख सोसायटी, रातिप, अहमदाबाद।
1731.	दिनेश भाई पटेल नसूभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4720 31-3-75	10, पुष्पकुंज सोसायटी, गोरबा, ग्राम बड़ौदा।
1732.	दिनेशभाई पटेल विठ्ठल भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6147 4-5-78	ग्राम और पो० आ० नन्दमाजा, ता० संबेड़ा, जिला बड़ौदा।
1733.	दिनेशभाई पटेल रतछोवभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7016 16-5-79	ग्राम और पो० आ० जानन्वपुरा, ता० संबेड़ा, बाया खेरवाड़ा, जिला बड़ौदा।
1734.	दिनेश भाई पटेल रावजी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8991 28-3-84	ग्राम और पो० आ० लतीपुरा, ता० फड़ाग, जिला बरोच।
1735.	दिनेशचन्द्र अनवाड़िया शेमचन्द भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8011 17-3-81	नजदीक सिद्धमाता मन्दिर, ग्राम और पो० आ० मुतादिमा, ता० विसा, जिला बनारसका।
1736.	दिनेशचन्द्र अयानिया ईश्वरलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5027 11-11-75	2/4436, छावघर रोरी, मगतमपुरा, सूरत।
1737.	दिनेशचन्द्र भट्ट रमणीक लाल	डी० एस० ए० एम०, कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, महाराष्ट्र 1974	4536 4 10 74	मार्फत वैद्य कमानिक्रिया के० भट्ट, श्री सुप्रसाद को० आ० हाउसिंग सोसायटी, बी० के०-20, पीछे मालवीय नगर, गोंडल रोड़, राजकोट।
1738.	दिनेशचन्द्र गांधी अमृतलाल	आयुर्वेद शिक्षक, नि० मा० आयु० वि०, दिल्ली 1981	9115 23-8-84	गांधी निवास, 8, जवाहर सोसायटी, ग्राम सुरेन्द्रनगर।

1	2	3	4	5
1739.	दिनेशचन्द्र जोशी लक्ष्मीचन्द्र	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5081 15-12-75	ग्राम लाहेरिया, बाया विभवदर, जिला जूनागढ़ ।
1740.	दिनेशचन्द्र खोखली किरणद भाई	डी० एस० ए० सी०, कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1964	12 8-12-64	1402, कामेश्वानीपोल, राईपुर लकला, अहमदाबाद
1741.	दिनेश चन्द्र मेहता कंचन माल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4225 21-2-74	ग्राम कालोल, जिला पंचमहल
1742.	दिनेशचन्द्र मेहता प्राण जीवन	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8123 17-7-81	पंच बंगला रोड, कार्यालय, इजानेर बंगला ग्राम जामनगर ।
1743.	दिनेशचन्द्र मेसवानीया हीरादास	डी० एस० ए० सी०, कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, महाराष्ट्र 1966	5673 13-2-77	ग्राम रोनकी, पो० आ० बेलावे, ता० मानववार, जिला जूनागढ़ ।
1744.	दिनेशचन्द्र नारायण मंगलनाथ	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7273 12-9-79	7/2310, बुधारा भोरी, रामपुरा, ग्राम सूरत ।
1745.	दिनेशचन्द्र नारायण त्रोहन नाथ	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8303 5-2-82	कालापुर कटाकियावाड़, त्राउम नं० 2102/ए अहमदाबाद ।
1746.	दिनेश चन्द्र पांड्या लक्ष्मीनारायण	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3498 24-4-72	434, मेताजी बाजार, ग्राम बहोद, जिला पंचमहल
1747.	दिनेश चन्द्र पांड्या धरदू माल	एम० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4046 12-9-73	एफ-3512, गोपालकृपा, फतेहपुर, सजवीक बार रास्ता, ग्राम बड़ीया ।
1748.	दिनेश चन्द्र पांड्या हरनारायण	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9157 17-10-84	15, अरमाकुंज, सोसायटी, मामने कालेज, ग्राम और पो० आ० कालोल, जिला मेहसाणा ।
1749.	दिनेशचन्द्र पारिख गोपाल दास	डी० एस० ए० सी०, कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स गुजरात 1961	686 24-1-62	मार्फत गोपालदास पी० पारिख, ग्राम इबार, जिला साबरकंधा ।
1750.	दिनेशचन्द्र पटेल मेवाजी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3164 22-3-71	ग्राम बेंदी, पो० आ० तरसिहगाड़ा, ता० माली शातना, जिला जूनागढ़ ।
1751.	दिनेशचन्द्र पटेल केशवलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6274 11-9-78	ग्राम मानियार, ता० इबार, जिला साबरकंधा ।
1752.	दिनेश चन्द्र पटेल शंकर माल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8557 16-9-82	10/1, उत्तर गुज० सोसायटी, अमारवा, अहमदा- बाद ।
1753.	दिनेशचन्द्र पटेल दहि्या भाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8789 16-6-83	ग्राम और पो० आ० अरेथ, ता० मरदाबी, जिला सूरत ।
1754.	दिनेशचन्द्र राजगण जगमल भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1968	2778 30-5-69	ग्राम कूचवाड़ा, ता० दिमा, जिला बनासकंधा ।
1755.	दिनेश चन्द्र जामी जयन्तीनाथ	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3112 9-2-70	ग्राम अयोधर, बाया जामनगर, ता० लाटी, जिला जमरेशी ।

1	2	3	4	5
1756.	विनेश चन्द्र राज्यगुरु नरेंद्र भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5463 14-7-78	म० नं० बी/318, लवदेरा, ग्राम बरोज
1757.	विनेश चन्द्र शाह छगन लाल	बी० आर्इ० एम० एस० बी० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन दिल्ली प्रशासन 1980	1182 3-8-82	उदा चौक, ग्राम बालो, जिला खेड़ा
1758.	विनेश चन्द्र शर्मा	बी० ए० एम० एस० इन्डोर वि० वि० 1974	5607 17-11-76	ग्राम बालिया, जिला बोरसा
1759.	विनेश चन्द्र गुक्ल रती लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4967 4-10-75	ग्राम रोहिवा, ता० पिडवाड़ा, जिला श्रीरोही
1760.	विनेशचन्द्र गुक्ल मगनलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6096 21-3-76	बहाणपुरा, जैल रोड़, ग्राम मानवदार, जिला जुनागढ़
1761.	विनेश चन्द्र जिबेदी मगनलाल	बी० ए० एम० एस० इन्दीर वि० वि० 1968	5554 4-10-76	मेडिकल आफिसर, पो० आ० सेनार, ता० तलाजा, जिला भावनगर
1762.	विनेश चन्द्र वैद्य तुलसीदास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5721 15-3-77	बी०/नं० 40/2, जयन्त पार्क, नजदीक भद्र बल नगर, वटवा रोड़, मणीनगर अहमदाबाद
1763.	विनेश चन्द्र व्यास जयन्तीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4442 16-8-74	4, राधनथ कालोनी, करेली बाग, ग्राम बड़ोवा
1764.	विनेश कुमार भट्ट दहियालाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3761 6-2-73	ग्राम बयाना, ता० भीलोवा, जिला साबरकंवा
1765.	विनेश कुमार भट्ट ओछाव लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6866 2-4-79	30, विलाभोहरिया सोसायटी, नजदीक जोधराज पार्क, अहमदाबाद
1766.	विनेश कुमार चरिया हामोर भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7422 12-12-79	ग्राम कुकाशवाड़ा, भाया धोरवाड़, जिला जुनागढ़
1767.	विनेश कुमार चोनारा कुन्धाजी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8282 16-1-82	बी०/2, वनलक्ष्मी फ्लैट्स वसरापुर, अहमदाबाद
1768.	विनेश कुमार दमानी मणि लाल	आयु० भिषक दि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1975	7039 20-6-79	6/11, जयराज प्लाट माधवकुण्ठाभवन, ग्राम राजकोट
1769.	विनेश कुमार दवे शान्ति लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	6385 27-10-78	1, व्यास भवन, अम्बाजीवाग, ग्राम और पो० आ० पनसार, ता० कनोज, जिला मेहसाणा
1770.	विनेश कुमार लंगलिया शान्ति लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6146 4-5-78	भवेवा घेरी, गेरी फालिया, भालवाड़ा, भावनगर
1771.	विनेश कुमार सकाड़िया मानु भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8904 24-1-84	आनन्दनगर पार्क, ब्लॉक नं० 22/253, सामने नीलकंठ टाकीज, ग्राम राजकोट-360002

1	2	3	4	5
1772.	विनेश कुमार मोदी दहिया लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	6667 28-2-79	बादीबडी, ब्राह्मण कालिया, पीछे पुलिम गेट, रावपुरा, टावर, बड़ौदा
1773.	विनेश कुमार पांड्या वलपतराम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3871 15-3-73	ग्राम धारणा, बाया त्रिजपादी, जिला भावनगर
1774.	विनेश कुमार पटेल खेमचन्द दाम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4804 25-4-75	ग्राम मनुद, ता० पाटन, जिला मेहुमाना
1775.	विनेश कुमार पटेल शंकर लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7555 29-2-80	ग्राम देभारी, ता० भालसिनोर, जिला खेड़ा
1776.	विनेश कुमार पटेल हरजीवन भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7832 30-9-80	मार्कत श्रीमती शान्ताबेन जे० मकवाना, विमादा लेन, ग्राम जामनगर
1777.	विनेश कुमार पटेल रामजी भाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9093 31-7-84	मार्कत डा० अमृत आर० पटेल, चार रास्ता, ग्राम और पो० आ० चिलोदा, ता० और जिला-गांधीनगर
1778.	वेवेन्द्र कुमार पटेल दहिया भाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9340 9-8-85	ग्राम और पो० आ० विधान, बाया स्थान, ता० ओलपाडे, जिला सूरत
1779.	विनेश कुमार पटेल हनी भाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9375 2-9-85	मधोदय क्लिनिक बजार, ग्राम कावन्त, ता० छोटा जवेपुर, जिला बड़ौदा
1780.	विनेश कुमार राजस प्रवीन चन्द्र	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	8092 22-12-75	सुपेदी, मोतीबाबरी, -360440
1781.	विनेश कुमार राजस नारायण भाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9595 23-10-86	ग्राम और पो० आ० राणामन, ता० बीजापुर, जिला मेहुमाना
1782.	विनेश कुमार सोनी सुन्दर लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8434 17-5-82	ग्राम और पो० आ० कैमिन्दा, ता० मखेड़ा, जिला-बड़ौदा
1783.	विनेश कुमार सुधार विठ्ठल भाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9280 2-5-85	ग्राम और पो० आ० मेहुमन, ता० इदार, जि नः-पावरकथा-383450
1784.	विनेश कुमार तातमिया हीराभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3056 30-9-70	ग्राम अगनराई, बाया केशोड, जिला जूनागढ़
1785.	विनेश कुमार वासवा जेठाभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7346 29-10-79	ग्राम और पो० आ० गुन्दीबा, ता० बलिया, जिला-अरौन
1786.	दिनकर भाई मेहता मोती राम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5410 25-5-76	ग्राम बिसनपुरा, ता० कादी, जिला मेहुमाना
1787.	दिनकर कुमार जोशी मन्व लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7864 10-10-80	ग्राम स्वान, ता० महेन्द्राबाद, जिला खेड़ा
1788.	दिनकर प्रसाव व्यास हेमशंकर	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1941	7037 20-6-79	मार्कत मनोजकुमार डी० व्यास, दयानन्द- नगर, मार्ग न० 7, बनिया बाड़ी, राजकोट-2

1	2	3	4	5
1789.	विनकर राय मन्कड़ वसन्तराय	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सी० आफ मेडिसिन बम्बई 1953	932 2-1-54	(घन निवास) काभ्रभलिया नाका, ग्राम जामनगर
1790.	विनकर राय त्रिवेदी माधुर भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3711 1-1-73	ग्राम धेदी, ता० पालीटना, जिला भावनगर
1791.	विनकर राय त्रिवेदी बृज लाल	वैद्य विशारद नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1967	6688 3-3-79	30, प्रह्लाद प्लाट, देवागना, ग्राम राजकोट
1792.	दिनमणि पटेल रामछोद भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1966	2471 3-5-67	सरदारनगर सोसायटी, ब्लॉक 7, नजदीक स्टेशन, मूरत
1793.	दीनूभाई नायक हरीभाई	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सी० आफ मेडिसिन बम्बई 1952	1546 6-5-52	ग्राम और पो० आ० खारेल, ता० नवसारी, बाया गम्बेजी, जिला बलसार
1794.	दिनू भाई पटेल शंकर भाई	डी० एस० ए० सी० कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1961	586 23-10-61	ग्राम कोसिनशा, ता० मखेड़ा, जिला बड़ोदा
1795.	दीपक भीहान प्रेम कुमार	बी० ए० एम० एम० नागपुर वि० वि० 1983	9086 29-6-84	रजनीकान्त अटालिया (मानेवसलाहकर) भंगी कपता, मुक्ती प्रोग्राम सचिवालय, ब्लॉक नं० 11, द्वितीय तल, पाण्डीनगर
1796.	दीपक देसाई गुणबन्तराय	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9184 11-12-84	ग्राम और पो० आ० होरिया, बाधा अनुल, जिला-बलसार
1797.	दीपक जोशी वस्ता राय	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3924 19-4-73	मार्फत विमल बी० जोशी, पावागध रोड, ग्राम हालोल, जिला पंचमहल
1798.	दीपक जोशी अम्बालाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8740 19-4-83	3, मंत्रीपार्क सोसाईटी अटकेवर, खोखरा, अहमदाबाद
1799.	दीपक शाहपुरकर पुरुषोत्तम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8752 11-5-83	रमेशकुंज, देसाई सोसायटी, कालेज रोड, ग्राम नावियाद, जिला खेड़ा-387001
1800.	दीपक ठाकर जिनेश	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3116 11-2-71	ब्लॉक नं० 11, पुलिस हौड इवाटर, प्रसापनगर, बड़ोदा-4
1801.	दीपक भाई सुधार जनक भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6976 7-5-79	नजदीक अम्बिका विजय सामिल, ग्राम कयाव- रोचन, ता० पधार्ड, जिला बड़ोदा
1802.	दीपक कुमार भट्ट सुरेन्द्रलाल	आयु० मध्यमा श्रावणमास वसिष्ठा परीक्षा समिति, बड़ोदा 1978	6565 12-2-79	ग्राम गजेरा, ता० जम्नुसार, जिला बरोच
1803.	दीपक कुमार भट्ट चिमनलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7365 29-10-79	ग्राम सोजा, ता० काले, जिला मेहसाना
1804.	दीपक कुमार भट्ट शान्ती लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8020 3-4-81	नजदीक वेना बैंक, ग्राम पेटलाव, जिला खेड़ा
1805.	दीपक कुमार बन्ने प्रह्लाद राय	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5623 3-12-76	439ए, जीवन कोटेज, प्रभूशाम तालाव चौक, ग्राम भावनगर

1	2	3	4	5
1806	दीपक कुमार दसाई विठ्ठल राम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5813 6-6-77	22, वैशाली सोसायटी, करेलीबाग, सैटल अस्पताल के पीछे, ग्राम बड़ौदा
1807	दीपक कुमार गुज्जर मेनुने	आयु० सध्यमा श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6791 21-3-79	6/731, गलेमण्डी, मोती शोरी, सूरत
1808	दीपक कुमार गिनीनवाला हंसमुखलाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9314 2-7-85	7/4401, बेगमपुरा, दाखनना, रोड़, पाने टंकी ग्राम सूरत-395003
1809	दीपक कुमार हिन्दोबा वत्सल राम	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9133 10-9-84	मार्कन बी० डी० हिन्दोबा, गवर्न० डिस्पेंसरी, ग्राम सुतारपुड़ा, वाया बेरावल, जिला जूनागढ़- 362275
1810	दीपक कुमार जाली ओमकर प्रसाद	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7582 11-3-80	भोयारवास, विनुवाई राय हाउस, ग्राम कालोल, जिला मेहसाना
1811	दीपक कुमार जोशी शांती लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7814 17-9-80	1, शिक्षासदन, नावा बाजार, ग्राम कर्जत, जिला बड़ौदा
1812	दीपक कुमार कमानी शांती लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9335 28-7-86	“सौभाग्य” 5/प्रकाश सोसायटी, सामने निर्मल कोरबेंट स्कूल, ग्राम राजकोट-360005
1813	दीपक कुमार लालिपाला शरद चन्द्र	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8088 4-6-81	ग्राम और पो० आ० फधीला, वाया संसार, ता० उमराला, जिला भावनगर
1814	दीपक कुमार पांड्या वल्लभ चंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5016 28-10-75	ग्राम बेधोलोल, ता० कालोल, जिला पंचमहल
1815	दीपक कुमार पांड्या रमेशचन्द्र	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7224 23-8-79	ग्राम जाम-करवेराणा, वाया घोराजी, जिला राजकोट
1816	दीपक कुमार पांड्या मुखण्डराय	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8647 1-2-83	बैद्य पोटी, नानी भगोल, ग्राम और पो० आ० और ता० प्राणितजी, जिला साबरकंधा
1817	दीपक कुमार पटेल मीहन भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	7744 30-6-80	ग्राम वधोदिया, जिला बड़ौदा
1818	दीपक कुमार पटेल चन्द्र लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7945 17-1-81	ग्राम और पो० आ० चेतस्सुम्बा, ता० पासरा, जिला खेड़ा
1819	दीपक कुमार पटेल बालू भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8589 3-11-82	77, कोहिनूर हार्जमिंग सोसायटी, धरली रोड़, जिला सूरत-6
1820	दीपक शाह छबीलराम	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9307 6-6-85	ए/15/8, गोदावरी नगर, बासाना, अहमदाबाद-7
1821	दीपक शाह कमल नयन	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9342 9-8-85	15/एम० रतन कुंज सोसायटी, सामने जाबेर० नगर, पानी गेट, वधोदिया रोड़, ग्राम बड़ौदा-390019
1822	दीपक कुमार शाह रमन लाल	बी० ए० एम० एम० विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन 1976	6592 16-2-79	ग्राम प्रनवाड, ता० छोटा उवेपुर, जिला बड़ौदा

1	2	3	4	5
1823.	दीपक कुमार शर्मा नीरा लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7635 20-3-80	10/1938, मोनी पालिया, मैन रोड, ग्राम सूरत
1824.	वीपक कुमार सेठ भगवान दास	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8209 2-11-81	गोविन्द माधव सोसाइटी, ग्राम-सिद्धापूर, जिला मेहसाणा
1825.	दीपेन्द्र कुमार नानावटी प्रवीर राय	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5947 26-10-77	मांग नाथ स्ट्रीट, लजवीक मांग नाथ कमान, भगवान कटपीस स्टोर, जूनागढ़
1826.	दीपिका बेन पांडूमा सूर्यकांत	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8054 27-4-81	ग्राम और पो० आ० गोधाभी, ता० सारद, जिला अहमदाबाद
1827.	दीप्ति बेसाई अमृत लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9221 19-2-85	अवाधुत सोसाइटी, तिपाल रोड, ग्राम बलसाव
1828.	दीप्ति शाह मानेक लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9225 19-2-85	स्त्रिधाथ पार्क, नाभा बाइज, अहमदाबाद-13
1829.	दीप्ति बोहरा प्रसूत कुमार	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9041 10-3-84	'पंकज' सामने बिजली रेस्टोरेन्ट, परीमल, ग्राम भावनगर-2
1830.	दीप्ति व्यास अरुण कुमार	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9360 2-9-85	14/अलंकार सोसाइटी, ग्राम मोवामा-383315 जिला साबरकंधा
1831.	दीप्ति जावेरी विशुधेन्द्रा	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6601 21-2-79	सीताविला, ग्राम ओलपाड़, जिला सूरत
1832.	दीपेन्द्र सिंह चौहान यशुनाथ सिंह	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8869 1-12-83	70/243, ब्राडू नगर, अहमदाबाद
1833.	दीपतिन शाह गुणवन्त भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8656 10-2-83	987, टाकरमं पोल, रैबाव, अहमदाबाद-1
1834.	दीवाकर बैद्य नर्मदा शंकर	बी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० 1965	1919 21-1-66	संघनवाला चौह, सामने मेहला गिरिधर, ग्राम राजकीट
1835.	विश्व जाली सुभाष	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7367 29-2-80	मार्फत डा० एम० एम० जानी, 23, पुष्पकुंज, सोसाइटी, ग्राम आमन्द, जिला खेडा
1836.	विश्वदासा उपाध्याय अम्बा लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० 1968	2790 19-6-69	11-बी, मदीलाल पार्क वाले काका रोड, ककरिया, अहमदाबाद
1837.	दिव्याबाशा मेहता महावन्त राय	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3640 9-10-72	21/22, प्रीतम नगर, इन्डियन बिज, अहमदा- बाद
1838.	विश्व बेन भट्ट प्रेम शंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7530 15-2-80	मार्फत पी० एम० भट्ट, ग्राम और पो० जा० बाड़िया, जिला अमरेली
1839.	दिव्याक कुमार व्यास रमेशचन्द्र	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7061 27-6-78	गांधी रोड, ग्राम और पो० आ० राजकीट, ता० उमरगाम बाया साजत रोड, जिला नवलपुर

1	2	3	4	5
1840.	विष्णु कांत चौहान मावजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7460 21-12-79	ग्राम रनपुर, ता० भन्धुका, जिला अहमदाबाद
1841.	विष्णुकान्त पाठक ओछवलाल	आयुर्वेद मध्यमा श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1976	6722 9-3-79	6/64, सभारा टाउन शिप, पो० आ० जवाहर नगर, ता० भीर जिला बड़ौदा-390320
1842.	विष्णुजता रुणी देव प्रसाद	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5472 26-7-76	बिस्वागा स्ट्रीट, ग्राम राजपीपला, जिला बरौच
1843.	विष्णु प्रभा बेद्य मनबर लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7727 29-5-80	मार्फत डा० चम्पकलाल मेवकलाल शाह अरहिल, भावरकाली, माता पोल, रावपुरा, बड़ौदा
1844.	विष्णुचन्द्र पटेल सोम भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5308 29-3-76	सी-1094, जामियतराम खावकी, लल्लूभाई बाकला, ग्राम बरौच
1845.	विशान जीबनानी छगोमल	जी० ए० एम० एम० बिहार वि० वि०, मुजफ्फरपुर 1976	8716 16-3-83	ए-1, सामने सुतर कारखाना, नारोवा, अहमदाबाद
1846.	वीलर कुमार जोशी हरशेव भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8576 21-10-82	ग्राम निगाला, जं० ता० गोधाडा, जिला भावनगर
1847.	वीलतराय मेहता प्राण जी भाई	डी० ए० एम० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1950	905 26-2-51	ग्राम गधशीप, ता० मण्वाभी, जिला कच्छ
1848.	वीलर राय राजनी लक्ष्मी दास	बी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० 1965	1763 15-7-65	नगर गेट रोड, ग्राम सानवाड़, जिला जामनगर
1849.	वीलत सिंह ठाकर सोम सिंह	जी० एफ० ए० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, गुजरात 1961	278 25-10-61	बाजार, ग्राम बोलपेड, जिला सूरत
1850.	देवीयानी शाह बन्धू लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6442 15-12-78	ग्राम कनभा, ता० दासेरोई, जिला अहमदाबाद
1851.	वरगभाषेन मेहता भायू भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4393 31-5-74	मार्फत भायुभाई भोगीलाल मेहता, 44/बी, कुच्छी, पाटीवार सोसाईटी, ग्राम हिम्मत नगर जिला साबरमती
1852.	दुर्गा जोशी बन्धू लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6032 16-2-78	ब्लाक नं० 11, श्री नाथड्डा डा सोसाईटी बन्धीलिया रोड भाभा वावाज अहमदाबाद
1853.	दुर्गा ठाकर रमिक लाल	आयु० उस्ता श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1977 और बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	6573 16-2-79	मार्फत डा० एम० आर० ठाकर बनलक्ष्मी सोसाईटी, करेली बाग, बड़ौदा
1854.	दुर्गाबेन शाह रजन लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	5393 24-3-82	जोषीबत्ती कार्यालय, ग्राम आगरवा, चावा अन्ना, स्ट्रीट इकोर, जिला खेडा

1	2	3	4	5
1855.	दुर्गाबिन राय दीनू भाई	बीच विहारक नि० जा० आयु० वि०, दिल्ली 1965	7497 17-1-80	बुध मैदान विट्ठल सोसाइटी, नावापुरा भार० बी० देसाई रोड, ग्राम बड़ौदा
1856.	दुर्गेबा कुमार दवे मनबन्त राय	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8346 11-3-83	रमिका, मुनी सोसाइटी, ब्लॉक नं० 5, भावनगर
1857.	दुर्गा लंकर व्यास मणि लंकर	आयु० भिषक नि० जा० आयु० वि०, दिल्ली 1966	9175 13-11-84	ग्राम खेराली, ता० बेरावल, जिला जूनागढ़
1858.	दुर्लभजी मकवाना जीबराज	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3543 14-8-72	सरदारपारा प्लाट, मकवाना भवन, ग्राम जूनागढ़
1859.	दुर्लभजी जयंतिया लिकम जी	आयु० भिषक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1973	9563 3-9-86	ग्राम चारवावा, ता० हलवाड़, जिला सुरेन्द्र नगर
1860.	दुर्लभजी ठक्कर टीवा भाई	ए० बी० बी० तिलक महाराष्ट्र, विद्यापीठ, पूना 1943	271 20-6-44	ग्राम धीर ता० कर्जन, जिला बड़ौदा
1861.	दुर्लभजी ठक्कर नयल्ला	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3190 28-4-71	ग्राम वैषययाली, बाया बन्दा, ता० साबर- कुण्डाला, जिला भावनगर
1862.	दुर्लभ राम जोशी भोरारजी	आयुर्वेद विहारक म० सिंह, वि० वि०, बड़ौदा 1943	2545	ग्राम चाउव, ता० बील जिला बड़ौदा
1863.	दुर्लभराम अप्पवाल सुन्दर बास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3646 9-10-72	ग्राम कांतिपुर, पो० भा० बरवालाल, बाबा भोराबी, जिला राजकोट
1864.	दुष्मन्त प्रसाव मुक्ता नरहर लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4237 28-2-74	ग्राम देव, ता० जालसिनोर, जिला खेड़ा
1865.	दुष्यन्त राय त्रिवेदी रवि लंकर	डी० एस० ए० सी० कमेटी आक गृह आयु० कोर्स गुजरात 1961	314 9-2-62	म० नं० 3, विनय कुंज सोसाइटी साहसम रोड, अहमदाबाद
1866.	द्वारके कर्मचर्यानी कीर्ति राय	डी० एस० ए० सी० कमेटी आक गृह आयु० कोर्स, गुजरात 1967	2401 22-2-67	सी-24, कुबेर नगर, अहमदाबाद
1867.	द्वारका पांडेय भास्कर	बी० ए० एम० एस० विदर्भ बोर्ड आक आ० एण्ड यू० सि० आक मैडिसिन, महाराष्ट्र 1965	5732 15-3-77	सेवा सवन, रेलवे प्लाट, ग्राम जूनागढ़
1868.	द्वारका बास पटल रंजण बास	डी० एस० ए० सी० कमेटी आक गृह आयु० कोर्स, गुजरात 1961	557 20-1-62	एस० एम० टी० सेक्टर, शाहपुर, ता० बीरान- गाम, जिला अहमदाबाद
1869.	द्वारका बास गोषारी बाबू भाई	डी० ए० एस० एफ० वी० आक आ० एण्ड यू० सि० आक मिडिसिन बम्बई 1945	163 29-8-46	प्राथमिक आरोग्य केन्द्र, ग्राम बसाव, ता० जनावर, जिला खेड़ा
1870.	द्वारका दास पटेल मोली बास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8802 6-7-83	ग्राम धीर पो० भा० बालीसाना, ता० प्राणसीक, जिला साबरकंधा

1	2	3	4	5
1871.	हारका दास वैद्यनाथ] राठोबास]	बी० एस० ए० सी० कमेटी आफ मुड आयु० कोर्से, गुजरात 1965	1688 1-6-65	ग्राम पंचाबाड़ा, ता० वास्ता, जिला बनासकांथा
1872.	हारका दास बिठुलानी छगम लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3963 13-3-73	ग्राम और पो० आ० विजपाड़ी, ता० सावर- कुण्डला, जिला भावनगर
1873.	श्रीजैन्ना देसाई देवी प्रसाद	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1955	413 1-12-55	गुरुद्वारा, नजदीक बांडेराव मार्केट, बड़ोका
1874.	इकबाल छिया कासम भाई	आयु० मध्यम श्रावणमास वक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ोका 1978	6513 1-2-79	सामने नरगारी बिल्डिंग, अस्तोविया रोड, अहमदाबाद
1875.	इकबाथ मलिक अहमद राजा	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6333 10-8-78	राज टैक्सटाइल, ग्राम और पो० आ० केसम्बा, ता० मगरोल, जिला सूरत
1876.	इकनाथ पाटिल] फकीरा	बी० ए० एम० एस० विदर्भ बोर्ड आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, महाराष्ट्र 1975	5662 3-2-77	ग्राम वामरखेड़ा, ता० वाहूवा, जिला धुलिया
1877.	फलगुनी दवे बसवन्त राय	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9192 9-1-85	22, तासकन्वा सोसाइटी, धूपपुरा, अम्बा- बाड़ी, अहमदाबाद-15
1878.	फालगुनी जोशी, झोकम लाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9232 12-3-85	लिपव, 19 इकलिंगजी कृपा सोसाइटी, कृपनी रोड, ग्राम बड़ोका-390006
1879.	फरहद कुलाम शेख अहमद	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9385 7-10-86	3/1544, सालवतपुरा, अम्बाबाड़ी, कालीपुल ग्राम सूरत-2
1880.	फरीद मिर्जा केसरबाग]	आयुर्वेद विषय नि० भा० आ० वि०, दिल्ली] 1973	6852 2-4-79	281/3, पीछे साहीबाग, पो० आ० सुनतीकुंज अहमदाबाद
1881.	फरीद रुपानी मगम भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3932 24-4-73	राजपुरा, तोलका, मनियारवाड़ा, अहमदाबाद
1882.	फरोहसिंह वारिया मण्डू भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7232 29-8-79	प्रोहित बान, क्वा० छोटा उदेपुर, जिला बड़ोका
1883.	फतेह सिंह राठी] छतार सिंह]	आयु० विषय नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली] 1952	6909 16-4-79	ग्राम धानपीपाली, ता० अन्बाली, जिल्ला जूनागढ़
1884.	फरकलिन कुमार मैथ्यू	बी० ए० एम० एस० विदर्भ बोर्ड आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, महाराष्ट्र 1966	2875 16-1-70	मेडिकल आफिसर, जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट, ग्राम पो० आ० और जिला पंचमहल
1885.	गफार चौहान रहीम	डी० एस० ए० सी० कमेटी आफ मुड आयु० कोर्से, गुजरात] 1966	2442 24-3-67	पीछे भक्ती नगर स्टेसन, लक्ष्मीनगर नैन रोड, महादेवबाड़ी चौक, राजकोट
1886.	गमनदास दासबांदनी धरदास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3126 17-2-71	मार्फत नारायणदास धावरदास नववी, माही बाजार, ग्राम बटवा, जिला जूनागढ़

1	2	3	4	5
1887.	गजानन्द वैद्य भिखा भाई	बी० ए० एम० एफ० फैक० आफ भा० एण्ड यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1956	1023 1-8-57	ग्राम गावेवी, जिला बलसाब
1888.	गजानन्द श्याम अम्बा शंकर	बी० ए० एम० एफ० फैक० आफ वा० एण्ड यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1947	1081	स्टेशन रोड, ग्राम अमलसाब, जिला बलसाब
1889.	गजानन्द ब्यास हिम्मत लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3132 20-2-71	अमुभाई बाल, कमरा नं० 17, बस स्टॉप के पीछे, ग्राम रलजा, जिला भावनगर
1890.	गजेन्द्र देसाई मोहन लाल	बी० ए० एम० एफ० फैक० आफ आ० एण्ड यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1947	400 31-1-48	छापनिया मोहोलाव, ग्राम अलाकन, जिला सुरत
1891.	गजेन्द्र मयबानी नरसिंह बास	आयु० चिकित्सक नि० मा० वा० विद्यापीठ, दिल्ली 1976	7962 3-2-81	अराधना सोसाइटी, ब्लॉक नं० बी/13, ग्राम पानेलो, मोती
1892.	गजेन्द्र रावल अम्बानी प्रसाद	बीक० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3067 13-11-70	1058, गुम्भी पोने, रेलिफ रोड, अहमदाबाद
1893.	गजेन्द्रगीर महन्त शिवसागीर	ए० बी० बी०, सिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, महाराष्ट्र 1941	3077 31-7-47	नवपुरा, ग्राम-छोटम-देपुर, जिला-बड़ौदा
1894.	गजेन्द्र सिंह भावड़ा हरबास जी	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3528 25-7-72	ग्राम, नवरोली, ता०-परदा, जिला-बालसकंधा
1895.	गजेन्द्र सिंह राठी फतेह सिंह	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8873 1-12-83	ग्राम और पो० आ०-चनापीपाली, ता०-बड़ौदा, जिला-जुनागढ़
1896.	गजराज सिंह चाटेडिया प्रेम सिंह	बी० ए० एम० एम०, सागर वि० वि० 1975	9228 19-2-85	ग्राम और पो० आ०-कवाला, ता०-बड़ौदा, जिला-पंचमहल
1897.	गलेन्द्र बाल भाई रंगा भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7439 21-12-79	ब्लॉक नं० 792, बी०-सेंटर, प्रतापनगर पुलिसिंग लेन, ग्राम-बड़ौदा
1898.	गमन लाल पवार भाना भाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9319 25-7-85	ग्राम और पो० आ०-गंगापुर, ता०-बास-नन्दा, जिला-बलसाब
1899.	गम्भीर सिंह देसाई अक्षे सिंह	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5438 25-6-76	ग्राम-पाली, पो० आ०-हृलधाक, ता०-कामरेज, जिला-सुरत
1900.	गम्भीर सिंह खेर हमीर सिंह	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5890 20-9-77	ग्राम-कुवराड़ा, बाया कोसधा, ता०-मणरोल, जिला-सुरत
1901.	गणपति गुप्ता रामचन्द्र	बी० ए० एम० एम०, हम्बौर वि० वि०, 1974	6207 3-8-78	ग्राम और पो० आ०-रैविदपुरा, जिला-न०-नेमार चारगोने (म० प्र०)
1902.	गणपति राय कवासी मन्नेक लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7682 22-4-88	शिवकानन्द क्लिनिक, सैजपुर बोधा, सामने बुलाच पास, कुबेरनगर, अहमदाबाद

1	2	3	4	5
1903.	गन्धालाल भट्ट प्रभा शंकर	आयुर्वेद शिक्षक, वि० भा० आयु० वि० दिल्ली 1984	7182 25-7-79	सामने प्रभाल टाकित्त, ग्राम-जामजोधपुर, जिला- जामनगर
1904.	गणेश भाई चौधरी हरी सिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3034 20-8-70	ग्राम-शेखियाल, ता०-बीसनगर, जिला-मेहसाणा
1905.	गणेश भाई गोपाली रमछो भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4514 20-9-74	115, निर्मल नगर, पीछे सोहिल राज मील, ग्राम भावनगर
1906.	गणेश भाई काकड़िया पुरुषोत्तम भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	8800 5-7-83	ग्राम-निहगला नं०, ता०-गधादास्वामिना, जिला-भावनगर
1907.	गणेश भाई पटेल अम्भाराम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1989	3080 13-1-71	ग्राम-जैताल वासना, ता०-बीशानगर, जिला-मेहसाणा
1908.	गणेश भाई सीधंकी मीठा भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3264 13-10-71	ग्राम-देवमल, ता०-वासना, जिला-मेहसाणा
1909.	गणेश चन्द्र खरे दामजी राव	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5299 29-3-76	मलाई चाड़ा, ग्राम-अपारा, जिला-सुरत
1910.	गंगाधर जोशी महेन्द्र कुमार	एम० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3937 2-5-73	मार्फत बाबूभाई सी०जोशी, जोशी मोहल्ला ग्राम-नवसारी, जिला-वलसाड
1911.	गंगाधर चंनोला भूरा भाई	जी० एफ० ए० एम०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, गुजरात 1962	173 16-7-63	ग्राम-शापुर (सोये) जिला-जूनवाड़
1912.	गंगाधर भटवाडे महादेव	आयुर्वेद शिक्षारव, म० सिंह० वि० वि० 1940	2134 18-10-41	मार्फत गजानन भ० विमाले, नजदीक हाथी पोल, डॉविया बाजार, ग्राम-बड़ोदा
1913.	गंगाधर पटेल खोदी दास	जी० एफ० ए० एम०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1960	529 1-7-60	कुकरवाड़ा, आरोग्य क्लिनिक, ग्राम कुकरवाड़ा, ता०-बीजापुर, जिला-मेहसाणा
1914.	गंगाधरी मेघान्धी हीराचिरी	आयुर्वेद शिक्षक, वि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1972	6971 4-5-79	ग्राम-बाबरगौर, ता०-भाभीशतीना, जिला- जूनवाड़
1915.	गंगाजी भाई पाटिल्य मेघाजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7362 29-10-79	ग्राम-मोरा खिजेविया, वाया टणकारा, ता० मोराजी, जिला राजकोट
1916.	गंगाराम पटेल बेलस्री दास	डी० ए० एस० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1953	527 1-3-54	न्यू श्रीवन प्रकाश सोसाईटी, मेमनगर रोड, पो० आ०-नवजीवन, अहमदाबाद
1917.	गंगाराम प्रजापति पीताम्बर दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3288 18-11-71	ग्राम-कुवरा, पो० आ०-मोरा, जिला-मेहसाणा
1918.	जानी भाई देराईक अबमाद भाई	आयुर्वेद शिक्षक, वि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1969	9745 18-4-83	गवर्नमेंट कालोनी, ब्लॉक नं० 2, रूम नं० 28, नजदीक जैल, भावनगर

1	2	3	4	5
1919.	गंगी भाई मन्सूरी कासार भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात वि० वि० 1977	6311 27-9-78	ग्राम और पो० आ० छाला, ता० और जिला गांधीनगर
1920.	गणपत भाई पटेल अमथाम राम	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4058 21-9-73	ग्राम-रामपुरा, स्ट्रीट, भानकोडा, ता०-वीरामगाम जिला-अहमदाबाद
1921.	गणपत भाई पटेल माधव भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8250 24-12-81	ग्राम-बाव, पो० आ०-समलासना, ता०-बोरालू जिला-मेहसाना
1922.	गणपति शंकर वैद्य धरिया लाल	एल० ए० एम०, यू० पी० आयु० महाविद्यालय, पाटन 1942	2259 22-10-42	घट्ट कालिया, ग्राम-और पो० आ०-धामदक्क बाया अमलवाव, त०-गणदेवी, जिला-वलसाड
1923.	गणपत लाल गज्जर बाबू लाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8340 17-2-82	ग्राम और पो० आ०-पालोद, ता०-वीरामगाम, जिला-अहमदाबाद
1924.	गणपत राल राजल मगन लाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6320 27-9-78	ग्राम-पुडेडा, ता०-हवार, पो० आ०— महोर, जिला साबरकंधा
1925.	गणपत सिंह चौहान सिद्धल सिंह	बी० ए० एम० एम०, सागर वि० वि० 1976	7950 17-1-81	ग्राम-बाकू, ता०-आवदासा, जिला-कच्छ
1926.	गणपत सिंह राणा वीप सिंह	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4254 14-3-74	ग्राम-बाकू, ता०-पावरा, जिला-बड़ौदा
1927.	गणपत सिंह सैन्ध भाब सिंह	जी० एफ० ए० एम०, फे० आक आ० एण्ड यू० सि० आक मेडीसिन, गुजरात 1962	1303 24-8-82	ग्राम-भूना, जिला-बरोच
1928.	गणपत सिंह सोलंकी सोमा भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4213 19-2-74	ग्राम-मानोली, पो० आ०-गणपतपुरा, ता०- वधोविया, जिला-बड़ौदा
1929.	गणपत सिंह सोलंकी बहादुर सिंह	डी० ए० एम० एफ०, फ० आक आ० एण्ड यू० सि० आक मेडीसिन, बम्बई 1957	1324 1-8-57	नावा बाजार, ग्राम-मियागाम, कर्जन जिला-बड़ौदा
1930.	गम्भाई ठक्कर छोटा लाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	3040 1-9-70	ग्राम-गोराड़ ता०-बाम्बट जिला-खेड़ा
1931.	गारधनदास उवासी ओंकार बास	बी० ए० एम० एस्०, हदोर वि० वि०, 1974	8108 2-7-81	ग्राम-नारानिया, बाया-हरसिव, जिला-बाड़वा
1932.	गार्गी देसाई प्रद्योत, जन्म	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6357 4-10-78	मार्फत श्री आर० एल० उमरबाड़ी, कामी छिपवाड़, गोपी पुरा, सूरत
1933.	गार्गी सैधावी बुमी लाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7657 28-3-80	मार्फत सैधावी बुनीलाल ठाकरशी, धामास उत्तरा, ग्राम सुरेन्द्रनगर।
1934.	गोरीबने अद्यानाजा रामजी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5960 18-11-77	मार्फत पटेल रामजीभाई, 14 मिघ गुज० सोसाईटी, ग्राम रतनपुरी, ता० धोधावन, जिला सुरेन्द्रनगर

1	2	3	4	5
1935.	गौरीशंकर जोशी वैलणी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2835 2-9-69	ग्राम गीरगाछादा, ता० उना, जिला जूनागढ़ ।
1936.	गौरीशंकर पौड्या गंगाराम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8543 13-9-82	पौड्या निवास, गिमवाड़ा, ता० धोलका, जिला अहमदाबाद
1937.	गौरीशंकर पौड्या हरनोबिन्ददास	बी० एस० ए० सी०, कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स गुजरात 1962	742 4-1-63	ग्राम कल्याण ता० गोधारा, जिला पंचमहल
1938.	गौरीशंकर शर्मा बाबू राम	बी० एस० ए० सी० मैटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1963	1392 20-1-64	ग्राम भावभुट, जिला बरोच
1939.	गोदस्त व्यास तुलज शंकर	आयु० भिषक, नि० भा० आयु० वि० वि०, दिल्ली 1975	6856 2-4-79	व्यासवेली, ग्राम फरोल, जिला जामनगर ।
1940.	गौरंग भट्ट गिरीश भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6090 21-3-78	25 ए, डोन, ग्राम भावनगर
1941.	गौरंग पानेरी भवानी शंकर	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1978	8024 3-4-81	468, संक्राड़ी, शेरी, अहमदाबाद
1942.	गौरंग शास्त्री मोहन लाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9191 11-12-84	5-ए, कमल कालोनी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-9
1943.	गौरंग कुमार भट्ट हंसमुख राम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4141 28-12-73	मार्फत डा० एच० जी० चट्ट, फोर्ट ब्यारा, जिला सूरत
1944.	बच्च गीतम मदवर लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	9020 16-4-84	नवरंगपुरा थार रास्ता, पीछे नवरंगपुरा बस काटे, अहमदाबाद ।
1945.	गीतम अमीन रावजी भाई	जी० एफ० ए० एम०, फ० आफ एण्ड यू० सि० आफ मैडीसिन, बम्बई 1962	2704 25-9-68	मार्फत मनुभाई रामेशोवभाई पटेल, नाबीपोल ग्राम भारसाध, जिला खेड़ा
1946.	गीतम मकवाभा अम्बा लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6457 15-1-79	524, आनन्द चौक, सरसपुर, अहमदाबाद
1947.	गीतम पटेल रती लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7622 20-3-80	2- जय यमुना सोसाइटी, मणी नगर अहमदाबाद
1948.	गीतम चन्द्र पाठक रामा शंकर	बी० एस० ए० सी०, कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1744 28-6-65	ग्राम जीर पो० आ० बागवाड़ा, बाया उबवाड़ा जिला बलसर
1949.	गीतमकुमार पारिख शास्त्रीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8029 10-4-81	8/2145. लिम्बुसोरी, महिभरपारा, ग्राम सूरत-3
1950.	गीतमकुमार व्यास पीताम्बरदास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5934 9-10-77	वादी, स्वामीनारायण मोहल्ला, नारायण हाईस्कूल बड़ीदा-1 ।

1	2	3	4	5
1951.	गौतम लाल जोशी मोहन लाल	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1940	7409 29-11-79	नजदीक भक्ती नगर स्टेशन लक्ष्मीनगर मन रोड, ग्राम राजकोट
1952.	गायत्री जोशी राजेंद्रप्रसाद	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8439 31-5-82	43, हरीकृपा सोसाईटी, गोत्री रोड, ग्राम बड़ीवा
1953.	गायत्री पोंड्या छल भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5401 17-5-76	शिवम सुखनाथ चौक, ग्राम जूनागढ़
1954.	गायत्री प्रसाद जोशी धानेश्वर भाई	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1961	6969 4-5-79	ग्राम दनवाड़ा, ता० मुली, जिला सुरेन्द्रनगर
1955.	धनश्याम बरोट प्रभुवास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7700 29-4-80	ग्राम और पो० आ०— जायसद, ता० ग्रामभट, जिला खेड़ा
1956.	धनश्याम षट्ट राम प्रसाद	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4376 20-5-74	138, चन्द्र कमल सोसाईटी, सामने सैय्यदवाड़ी, बल्वा, अहमदाबाद
1957.	धनश्याम मिरानी अमृत लाल	डी० ए० एस० सी०, कमेटी आफ शुद्ध आयु० कौंसिल, गुजरात 1966	2388 15-2-67	मस्जिद रोरी, कृष्णा पुरा, ग्राम बधिया, जिला अमरेली
1958.	धनश्याम निमावत छगन शंभ	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9053 10-5-84	मन्वाबो, चौक, गोलवाड़ा, ग्राम जूनागढ़
1959.	धनश्याम पांड्या भवानी शंकर	डी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6054 8-3-78	ग्राम देहवाण, ता० बोरसाद, जिला खेड़ा
1960.	धनश्याम पटेल छगन लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5684 24-2-77	ग्राम उन्ग्रेला, ता० मातर, जिला खेड़ा
1961.	धनश्याम पटेल मनम लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8552 14-9-82	कनाबीवाड़ा, बंकादिया, रोरी, भावनगर-364001
1962.	धनश्याम पुरोहित हीराजाल	आयु० मध्यमा, श्रावण दास वसुधा परीक्षा समिति, बड़ीवा 1979	9085 29-6-84	ग्राम और पो० आ०— गन्धीरा, ता० बोरसाद, जिला खेड़ा
1963.	धनश्याम रामानुज विष्णु प्रसाद	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5296 29-3-76	ग्राम-बुड़ा, ता० लिमावी, जिला सुरेश्वर नगर
1964.	धनश्याम सेजक वलसुख राम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8364 17-3-82	कोथाम्ब पल्ला, ता० जूनावाड़ा, जिला पंचमहल
1965.	धनश्याम शाह गिरधर लाल	डी० एफ० ए० एम०, ई० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ सेडीसिम, गुजरात 1962	1226 23-11-62	नगरवाड़ा, ग्राम बालीसाना, स्ट्रीट, रतुज, जिला मेहसाना
1966.	धनश्याम शुकल साधनशंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5946 26-10-77	ग्राम पंचनाम, ता० घानभुका, जिला अहमदाबाद
1967.	धनश्याम शिबेदी नारतजी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5567 13-10-76	मानेकवाड़ी, नजदीक स्टेशन चैतन्यनिवास, प्लॉट नं० 571, ग्राम भावनगर

1	2	3	4	5
1968.	धनश्याम उपाध्याय अम्बा लाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9048 10-5-84	14, अलंकार सोसाइटी, ग्राम मोडाना जिला साबरकंधा
1969.	धनश्याम यागनिक रमनलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5502 25-8-76	कापलिया हिल, ग्राम पालेज, जिला बरोच
1970.	धनश्याम जालशविया मालती भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9533 28-7-86	ग्राम कल्याणपुर, पो० आ० चारा, बाया घामनगर ता० नीसिया, मोता, जिला अमरेली
1971.	धनश्याम शुक्ल हिमालाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3105 3-2-71	ग्राम नेसड़ा, ता० गिहोर, जिला भावनगर
1972.	धनश्याम भाई पटेल बाली भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2844 3-10-69	ग्राम तिम्वारवा, ता० गिहोर, बाया मियागाम जिला बड़ौदा
1973.	धनश्याम भाई मोरविया मैराभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9510 12-6-86	ग्राम और पो० आ० औतारिया 382 463, ता० घांघुका, जिला अहमदाबाद
1974.	धनश्याम भाई राणा कंचन लाल	आयुर्वेद मध्यमा श्रीवर्णमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1979	9084 29-6-84	ग्राम और पो० आ०-अन्गावी, ता० धारवा, जिला खेड़ा
1975.	धनश्याम लाल भट्ट जाता लाल	एल० ए० एम० यू० पी० आयु० महाविद्यालय, पाटन 1941	914 8-10-41	जविरवर डिस्त्रिक्ट, डावा फालिया, ग्राम-अंकलेश्वर जिला बरोच
1976.	धनश्याम लाल भट्ट कन्हैया लाल	एल० ए० एम० यू० पी० आयु० महाविद्यालय, पाटन (बड़ौदा स्टेट) 1942	1533 29-4-49	सामने ओरा बेना, भगतालाव, ग्राम भावनगर
1977.	धनश्याम प्रसाद ईश्वरलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5382 10-5-76	धर्मव हरीरवाव, ईश्वरलाल भट्ट ताठा बेपारी, नादी कये, सामने मधुकांत बाल मन्दिर, ग्राम जोरावरनगर, जिला-सुरेन्द्रनगर
1978.	धनश्याम सिंह चौधरी जोरावरी सिंह	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3699 30-11-72	ग्राम देवानपुर, ता० घांघुका, जिला अहमदाबाद
1979.	धनश्याम सिंह जड़ेजा ननसा	बी० एस० ए० सी० कमेटी आफ गुजरात आयु० कोर्स गुजरात 1966	2889 29-1-70	ग्राम कुन्तासी, ता० मालियानीयुता, जिला राजकोट
1980.	धनश्याम सिंह राणा पृथ्वीराज सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	3729 17-1-73	ग्राम कन्धारिया, ता० लिम्बाड़ी, जिला सुरेन्द्र नगर
1981.	धेलाभाई मकवाना राम भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3089 13-1-71	ग्राम कुन्तासी, बाया दहीसरा, ता० मालिया जिला राजकोट
1982.	जिजना थास भास्कर भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8186 22-9-81	2, नटरंग सोसायटी, शैखनाथ रोड, मणीनगर अहमदाबाद-380008
1983.	गिजूभाई जोशी बकू भाई	वैशाखाय नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1961	8361 11-3-82	मार्फत श्री ए० सी० बांकेर, 3-जी रेशामवन माल बरवाजा, मूरत
1984.	गिजाभाई गोसाई कालुपुरी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4098 17-10-73	ग्राम बटडा देवाजी, ता० कुकावा, जिला अमरेली

1	2	3	4	5
1985.	गिरजा शंकर वीक्षित भाई मूलशंकर	बैद्य विचारक बि० भा० आयु० बि०, दिल्ली 1964	7194 17-8-79	गायत्रीकृपा, पीछे जानकी आश्रम, ग्राम बाग- सारा, जिला अमरेली
1986.	गिरधरदाम गोकानी रामजी भाई	जी० ए० ए० एम० फै० आफ० भा० एण्ड यू० सि० आफ० मेडीसन बम्बई 1959	159 1-2-60	2, विगविजय, प्लाट, ग्राम जामनगर
1987.	गिरजाशंकर जैन साधशंकर	बी० ए० एम० एम० गुजरात बि० बि० 1964	35 28-12-64	मार्फत एल० पी० जैन, दबाना व्यापारी, एण्ड ग्राम उना, जिला जूनागढ़
1988.	गिरिजा शंकार जानी कल्याणशंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1973	4608 13-1-75	ग्राम आनन्दपुर, बारा कालावाड़, शिताला, जिला जामनगर
1989.	गिरजाशंकर मेहता कण्जी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1972	3908 3-4-73	मार्फत रामभरोसे हॉटेल, ग्राम प्लाजा, जिला जूनागढ़
1990.	गिरजाशंकर पांड्या भाई शंकर	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ० भा० एण्ड यू० सि० आफ० मेडीसन बम्बई 1956	1552 1-6-56	हालुरिया चौक, एम एम० मेहता हाउस, ग्राम भावनगर
1991.	गिरिजाशंकर पांड्या बाहिया भाई	बैद्य विचारक बि० भा० आयु० बि०, दिल्ली 1964	7249 30-8-79	ग्राम तारसदा, ता० और जिला अमरेली
1992.	गिरिजाशंकर त्रिवेदी रामचंद्र	आयुर्वेद विषय बि० भा० आयु० बि०, दिल्ली 1961	6921 16-4-79	मार्फत जे० एन० त्रिवेदी, त्रिवेदी गुंज, 12 शक्ति नगर, सोसायटी, गीतालवाड़ी कातरग्राम रोड़, ग्राम सूरत
1993.	गिरधर वधासिया कुराजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि०, 1974	4946 16-9-75	मार्फत डा० पी० जी० पटेल, महालक्ष्मी स्ट्रीट, दान पीठ, ग्राम जूनागढ़
1994.	गिरधर भाई पटेल मं गलभाई	डी० एस० ए० सी० कमेटी आफ युव आयु० कोर्स, गुजरात 1964	1470 2-7-64	ग्राम सिमालिया, बाया बेजालपुर, जिला पंचमहल
1995.	गिरधारी नारी धीमजी भाई	आयु० विषय बि० भा० आयु० बि० दिल्ली 1961	7248 30-8-79	आयु० बिल्सेसरी, ग्राम रावलीयाबावर, बाया बीघारेज, जिला सुरेन्द्रनगर
1996.	गिरधरलाल अटारा लाखा भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1975	5770 28-4-77	ग्राम भवार, ता० जाम कन्चूराणा, जिला राजकोट
1997.	गिरधर लाल पुरोहित रामजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1969	2943 4-4-70	ग्राम घेयाला, बाया पानकवोरसा, ता० रानाबाब जिला जूनागढ़
1998.	गिरधरलाल उकानी रामाजी भाई	बैद्यचार्य बि० भा० आयु० बि०, दिल्ली 1967	6895 12-4-79	"अक्षय" 15-ए, पंचवटी सोसायटी, नजदीक कालावाड़, रोड़ ग्राम राजकोट
1999.	गिरधर लाल बछापी जेराम भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1970	3086 13-1-71	लिमदा चौक ग्राम, गीमाला, बाया वीरपुर जलाराम, ता० गोवाल, जिला राजकोट
2000.	गिरधरलाल आनन्दलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1971	3672 30-10-72	मार्फत श्री जय अम्बे स्वीट मार्ट, सामने स्टेशन ग्राम कालोल, जिला मेहसाना

1	2	3	4	5
2001.	गिरधारी लाल शर्मा श्रीराम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2988 4-7-70	नरोदा रोड, नजदीक चाम्बुड़ा, नार रास्ता, आनन्दजी कालयुगी, थाल अहमदाबाद
2002.	गिरिराज सिंह मोहित श्रीक भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8395 5-4-82	ग्राम बाजूद, बाया अमरगोधा, ता० उमराला, जिला भावनगर
2003.	गिरीश आचार्य रमनलाल	आयुर्वेद शिक्षक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1976	8012 17-3-81	आचार्य निवास, ग्राह स्ट्रीट, ग्राम भासर, जिला खेड़ा
2004.	गिरीश रावल शकतीशंकर	डी० ए० एम० एफ० फै० आक आ० एण्ड यू० सी० आक मैडीसन बम्बई 1957	2750 2-1-58	61, जनता नगर, रामोल रोड, अहमदाबाद
2005.	गिरीश पोड्या नटवर लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9338 9-8-85	जी/62, रंजीत ठावर, सामने लाल बंगला, ग्राम-जामनगर, 361001
2006.	गिरीश बाबूदेसाई कांचनलाल	आयु० मध्यमा भावणमाम बक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6806 22-3-79	ग्राम उरतमनगर, ता० सवाली, जिला बड़ौदा ।
2007.	गिरीश भाई दलवाडिया हरीदास	बी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० ¹ 1966	2563 10-8-67	नजदीक पटेल चौक, ग्राम बरवाली, जिला जूनागढ़
2008.	गिरीश भाई शावर बसन्त लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० ¹ 1982	8985 12-3-84	हिन्दु अनाथ आश्रम, आश्रम रोड, ग्राम नावियार जिला खेड़ा
2009.	गिरीश भाई पटेल हीरा लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5020 28-10-75	तालजा, मंगल खारकी, ग्राम पन्डारा, जिला बड़ौदा
2010.	गिरीश भाई पटेल रमन भाई	[बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०] ¹ 1982	9239 12-3-85	ग्राम और पो० आ० गाबड, ता० बयाव जिला साबरकंधा
2011.	गिरीश चन्द्र बेवचन्द्र	वैद्य विशारद । नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1965	7633 20-3-80	ग्राम नगवादार, बाया उपलेटा, जिला राजकोट
2012.	गिरीश चन्द्र ¹ भट्ट जयश्री लाल	आयुर्वेद विशारद, बो० आक इण्डियन मेडीसन, सीराण्ड 1958	2213 15-3-58	[1, सत्यसंगम सोसाईटी, बम्बेलोदिया, अहमदाबाद ।
2013.	गिरीशचन्द्र धने रमनलाल	[बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०] ¹ 1968	2853 21-10-69	मेमनगर, पो० आ० नवरंगपुरा, ता० मिटी, जिला अहमदाबाद ।
2014.	गिरीशचन्द्र ¹ दीक्षित भद्राशंकर	डी० एम० ए० सी० ¹ कमेटी आक गृह आयु० कोर्स, गुजरात 1963	377 1-6-63	मार्फत कीर्तिचन्द्र बी० दीक्षित हकीमशा जावेरचन्द्रबोरा हाउस, सामने टाउन हाल, ग्राम जामनगर
2015.	गिरीशचन्द्र ¹ दीक्षित जेठालाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० ¹ 1968	2895 9-2-70	हुटाविया चाकला, ग्राम महिआ, ता० नावियाव जिला खेड़ा
2016.	गिरीशचन्द्र ¹ मेहता बाभ्रम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० ¹ 1973	3888 26-3-73	ग्राम और पो० आ० केवलाव, जिला जूनागढ़
2017.	गिरीशचन्द्र ¹ मेहता बुध लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० ¹ 1974	4887 24-3-75	कालुभा रोड, प्लॉट नं० 8, उपनगर, सामने न्यू फिल्डर ग्राम, भावनगर

1	2	3	4	5
2018.	गिरीश चन्द्र मेहता चम्पक लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5742 25-3-77	6, कचेरी रोड, ग्राम भाँडूका, जिला अहमदाबाद
2019.	गिरीशचन्द्र मेहता निर्मल राम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7729 29-5-80	श्री कृष्ण कुंज, ग्राम बाबरा, वाया भासा थ० जिला अमरेली
2020.	गिरीशचन्द्र पटेल ज्योत राम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4774 10-4-75	ग्राम कोराव, ता० चाणसमा, जिला मेहसाना
2021.	गिरीशचन्द्र शाह नयालाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8168 10-9-81	26, हुरीसिद्ध पार्क, को० आ० हाड० सोसाईटी, पीछे बीना पार्क, पटलोविया, ग्राम अहमदाबाद
2022.	गिरीश चन्द्र शुक्ल गोरीनाथ	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3443 14-3-72	एस० एम० पी० सेंटर, ग्राम मुण्जा, ता० बीसनगर जिला मेहसाना
2023.	गिरीश कुमार भट्ट हरीशंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4352 24-4-74	ग्राम बवाली, ता० हवार, जिला साबरकंवा
2024.	गिरीश कुमार भट्ट अमृतलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	6559 12-2-79	ग्राम बाहोली, ता० वालिया, जिला बरोचे
2025.	गिरीश कुमार ववे मणी शंकर	डी० एस० ए० सी० कमेटी आफ शुद्ध आयु कोर्स, गुजरात 1966	2430 13-3-67	मार्केत एस० थ० ववे, सबधीरवास, मोरबी, जिला राजकोट
2026.	गिरीश कुमार जोशी कण्ठैया लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5058 28-11-75	ग्राम एणधीरपुर बाया पिप्लोड, जिला पंचमहल
2027.	गिरीश कुमार खोबानी अमर चन्द	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6401 10-11-78	907, नगरखोवी पोल, रायपुर, बाकला, अहमदाबाद
2028.	गिरीश कुमार मटालिया जयमती लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5560 4-10-76	हुरीकुंज, जिन प्लाट, ग्राम धरंगधरा, जिला सुरेन्द्रनगर
2029.	गिरीश कुमार मिस्त्री मूलजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7230 29-8-79	पाठक फालिया, ग्राम बोरियावी, ता० आनन्द जिला खेड़ा
2030.	गिरीश कुमार पांड्या अमीशर भाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	9256 9-4-85	9-ए, भारत समाज सोसाईटी बबोविया, रोड बडौवा-390019
2031.	गिरीश कुमार पंचल शंकर लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4906 5-7-75	ग्राम बबोरिया, ता० और जिला बडौवा
2032.	गिरीश कुमार पारिख. भाई लाल भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8707 16-3-83	20, वयाशंकर कालोनी, दक्षिणी सोसाईटी, मणीनगर, अहमदाबाद-8
2033.	गिरीश कुमार पारिख नवीनचन्द्र	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5304 29-3-76	दीना महल प्रैस, ग्राम, माधी, ता० बरडोसी, जिला सुरत
2034.	गिरीश कुमार पटेल रती लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9137 10-9-84	खावकी, ग्राम और पो० आ० नवराजूवाविया, ता० राजपिपासा, जिला बरोचे

1	2	3	4	5
2035.	गिरीश कुमार साबलिया प्रेम जी भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3254 4-10-71	ग्राम उमराजी, ता० जेतपुर, जिला राजकोट
2036.	गिरीश कुमार सोत्रवा भायूर भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6043 23-2-78	नेशनल मोडर्न तेंगारी, उध्यानगर, ग्राम उगा, जिला जूनागढ़
2037.	गिरीश कुमार शुक्ल मठबरलाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3181 9-3-71	ग्राम चौठा, ता० वीलका, जिला अहमदाबाद
2038.	गीता भवसार काशती लाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4830 8-5-78	मार्फत डा० काशतीभाई टी० भवसार, 17, भवसार: सोसाईटी, नावा वावज, अहमदाबाद
2039.	गीता वर्दे हरीप्रसाद	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4091 12-10-78	मार्फत एच० बी० वर्दे, ए-5, गांधीनगर, ग्राम- जामनगर
2040.	गीता बेसाई विठ्ठल दास	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	6376 27-10-78	22, बैंगली, सोसाईटी, करौलीबाग, बड़ोदा
2041.	गीता बेसाई प्रभात भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8140 21-8-81	सकार बेंरी, ग्राम हिम्मतनगर, जिला साबरकंधा
2042.	गीता गांधी लालभाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5293 17-10-77	श्री कृष्णा चौक, रावल टॉकरा, सुरत-3
2043.	गीता महता अम्बा सांकर	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4278 20-3-74	“रघुवीर” महावीर सोसाईटी ग्राम-घान्णव जिला खेड़ा
2044.	गीता मेहता यशवन्त पुरी	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4977 15-10-75	124, विजयनगर, द्वितीय तल, बिल्डिंग, नं० 2, गुज, हाउ, बोर्ड, गोरवा, रोड, ग्राम, बड़ोदा
2045.	गीता मेहता मठबर भाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9528 1-7-86	मार्फत मेहता एन० डी० सीताबाबा, जिला जामन- नगर।
2046.	गीता पेशाभी धर्मशी भाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9362 2-9-85	गांधी ग्राम, “अवधेश” ग्राम-जूनागढ़ 382001
2047.	गीता पांड्या एकज कुमार	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8259 31-12-81	मार्फत डा० एच० एच० पांड्या, मेडीकल आफिसर गवर्नमेन्ट डिस्पेंसरी, ग्राम राण काबो- राणा जिला-जूनागढ़ 260570
2048.	गीता पटेल फिका भाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8851 6-10-83	केवावा कालियु, ग्राम और पो० आ० बहूडा, रायपुर, ता०-उयारा, जिला-सुरत।
2049.	गीता संधावी हरी लाल	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6600 21-2-79	सेक्टर 6० 16, बी०/नं० 6/9, ग्राम-गांधी- नगर।
2050.	गीता साहू घोरज लाल	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4309 2-4-74	ए/2, मालव-ट्र फ्लैट सामने सुगम फ्लैट, बासन, अहमदाबाद।
2051.	गीता साहू अशु लाल	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4933 17-8-75	पंचवटी सोसाईटी, 21 मंगलम मणिनगर, अहमदाबाद।

1	2	3	4	5
2052.	गीता सुक्ला सुगत लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7015 18-5-79	अमृतेश्वर निवास, गजर फौली रामकुन्ना, स्ट्रीट, ग्राम जामनगर ।
2053.	गीता त्रिवेदी प्रभाकर भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	6731 15-3-77	43, संरवार पटेल कालोनी, अहमदाबाद ।
2054.	गीता ब्यास धोयी लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4615 29-1-73	मार्फत एल० डी० ववे, अनुजामदार बिल्डिंग, स्टेशन प्लाट, ग्राम जूनागढ़ ।
2055.	गीताबेन आचार्य लामशंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3530 27-7-72	मार्फत आचार्य एल० जी० दयानन्द सोसाइटी, ब्लॉक नं० सी०-36, ग्राम उना, जिला जूनागढ़ ।
2056.	गीताबेन भट्ट मनहर लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3709 1-1-73	4, अमर फुज, सोसायटी, विठ्ठल भाई, पटेल रोड, नाडियाद, जिला—बड़ोदा ।
2057.	गीताबेन चौधरी सोम भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5349 14-4-76	बेबी कालिया, सामने एस० टी० डिपो, ग्राम माछी ता० बारही, जिला—सुरत ।
2058.	गीताबेन थामर जगजीवन दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7886 14-11-80	ग्राम और पो० आ०— किम, ता० ओसपाड़, जिला—सुरत ।
2059.	गीताबेन जागीरवार चन्द्र काशत	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8430 17-5-82	6/385, नानी पांड्या, खावकी, ग्राम नवसारी, जिला—वलसाद
2060.	गीताबेन जोशी जयन्ती लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3143 25-2-71	मार्फत जे० के० जोशी, रामशा "कोटेज" बिल्डिंग सेन, राजपूतपुरा, मेरी नं० 2, जामनगर ।
2061.	गीताबेन पांड्या कान्हीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4462 27-6-74	4, कल्याण नगर, कामनाथ सोसाइटी, मणीनगर अहमदाबाद ।
2062.	गीताबेन शाह ज्योतिराल	एम० डी० आयु०, गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8738 19-4-83	पटेल पार्क सोसाइटी, आजबल्ली मिस्त्र.के पास पानी गेट, बड़ोदा ।
2063.	गीताबेन शर्मा हरीशंकर	आयु० उत्तमा, आवण मात दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ोदा 1982	7454 21-12-79	कमला काशा सुक्ती, एम०-5, 60-476, माछी नगर ।
2064.	गीताबेन सुक्ल गिरीश चन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5980 30-11-71	मार्फत कमालेश आर० त्रिवेदी, 2623, जनरल पोल, साहपुर, अहमदाबाद ।
2065.	गीताबेन ठाकर शमपत लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7984 25-2-81	मार्फत जी०पी० ठाकर, छव्भस्त्रि औषधालय, पो० आ० रोड, जूनागढ़ ।
2066.	गीताबेन ब्यास विष्णु भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2977 17-6-70	सार्वजनिक डिस्पेंसरी, बल्लभ भिखाराम, ग्राम. बोमासन, स्ट्रीट, ता० बोरसाद, जिला—बड़ोदा ।
2067.	गीता शाह बिन्नु भाई	बी० एस० ए०.सी०, कमैटी आफ युव आयु० कोर्स, गुजरात 1962	1145 10-7-62	गीता मन्दिर, बड़ोदा ।
2068.	गीता गोविन्द भोविया जीवा भाई	बी० एस० ए०.एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1980	9462 10-1-86	ग्राम चानापिपाले, माया चन्दाजी, ता० बयारकी जिला जूनागढ़ ।

1	2	3	4	5
2069.	गोगन बियाल मैमजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7390 19-11-79	ग्राम नावी, मेघानी, बाया और जिला—राजकोट ।
2070.	गोकुल चोबलिया लक्ष्मण	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8153 3-9-81	ग्राम गोर, त्रियानी, ता० क्षेत्र, जिला जूनागढ़ ।
2071.	गोकुल काबा उका भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3712 1-1-73	ग्राम थापिपाली, बाया जुशाला, ता० बग्घानी, जिला जूनागढ़ ।
2072.	गोकुलवास भाकर केसवजी	वीच बिहारद, नि० भा० आयु० वि० दिल्ली 1963	7579 3-3-80	एम० कालोनी, ब्लॉक नं० 78/3, गवर्नमेंट क्वार्टर, सामने पुराना सचिवालय, अहमदाबाद-15 ।
2073.	गोकुलवास पटेल भगवान भाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि० 1964	33 24-12-64	चमनपुरा चाकला, आसार्व, अहमदाबाद ।
2074.	गोकुल दास सोवबदिया हरी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4401 8-6-74	ग्राम दुन्वास, बाया डूंगर, ता० महुवा, जिला भावनगर ।
2075.	गोकुल दास जाजमैरिया बृज दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3225 10-8-71	नजदीक बोरादी कोरा, ग्राम बन्धाली, जिला जूनागढ़ ।
2076.	गोकुल दास राधावल्लभ	बी० एस० ए० सी०, कमेटी आफ युव आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2387 7-2-67	बड़वारी, शेरी, ग्राम और जिला खेड़ा ।
2077.	गोमतीबेन पटेल शिवराम दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5816 6-6-77	ग्राम सनिपारी, ता० जामसमा, जिला मेहसाणा ।
2078.	गोपाल पाटिल दंगैज	बी० ए० एम० एम०, पूना वि० वि० 1975	5837 25-7-77	ग्राम भादणपुरा, ता० माहुवा, जिला कुजिया ।
2079.	गोपाल भावोवरिया भानजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5191 21-2-76	ग्राम सुबाग, पो० आ० सरपावाक बाया पवधेरी, जिला राजकोट ।
2080.	गोपाल बसानी भालजी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3411 2-3-72	ग्राम और पो० आ० पवधेरी, जिला राजकोट ।
2081.	गोपाल व्यास नवनीत राय	जी० एस० ए० एम०, फे० आफ भा० एच० यू० सि० आफ मेडीसिन, गुजरात 1964	1476 8-7-64	गीता निवास, 1214, तथियास पोल, नारंगपुर, अहमदाबाद ।
2082.	गोपालभाई राधेसागर] मैमजी भाई	आयु० वि० वि०, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1964	6704 9-3-79	पटेल द्विसेसरी, गांधी रोड, ग्राम गोधवार, जिला राजकोट ।]
2083.	गोपाल भाई माह मोहनलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8371 17-3-82	नालोका कावकी, बट्टा रोड, ग्राम दाकोर, ता० यासरा, जिला खेड़ा-388225 ।
2084.	गोपाल दास धोलापिया रावजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8544 14-9-82	मार्केत रावजीभाई, गोकुलभाई धोलापिया, ग्राम मजीवाड़ी, जिला जूनागढ़ ।
2085.	गोपाल दास गोम्बाधिया गोविन्द राय	आयुर्वेद वि० वि०, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1963	6914 16-4-79	अग्निवाला बाया जुशाला, ता० मेम्बराड़ा, जिला जूनागढ़ ।

1	2	3	4	5
2086.	गोपालबास निमाजन बल्लभ बास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4040 10-9-73	ग्राम पुराना तगना, ता० भीर जिला जामनगर ।
2087.	गोपालबास पाद्मा शिवशंकर	एल०ए० एम०, यू० पी० आयु० महाविद्यालय, पाटन 1940	741 17-5-41	38, लेबर की० आ० सोसाईटी, ग्राम कालोल, जिला मेहसाणा ।
2088.	गोपालजी सवानी जगजीवन	वैद्याचार्य, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1977	7505 17-1-80	ग्राम बोखिरा जुबली, ता० पोरबन्दर, जिला जूनागढ़ ।
2089.	गोपालबास शाह रमछोदलाल	डी०ए० एस० एम०, कै० आक० आ० एण्ड यू० सि० आक मेडीसिन, बम्बई 1952	1148 18-3-52	उम्बापाड़ा, ग्राम झोलका, जिला अहमदाबाद ।
2090.	गोपालबास शाह रमछोदलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3277 29-10-71	बाजार नजदीक मस्जिद, ग्राम हालोल, जिला पंचमहल ।
2091.	गोपालबास सुधार दिला भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3364 16-2-72	ग्राम और पो० आ० सखसाल, ता० साखी, जिला बड़ोदा ।
2092.	गोपाल जी रामिना साव जी	वैद्याचार्य, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1966	6522 1-2-79	ग्राम धामपुरी, ता० सुकीहातिना, जिला जूनागढ़ ।
2093.	गोपालकृष्ण बलुबेदी प्यारसीशाल जी	एच० पी० ए० पो० ये० ट्रे० सेंटर, इन आयु०, जामनगर 1966	1816 6-10-65	ग्राम और पो० आ० संगोली, जिला मन्सरोर ।
2094.	गोपाल कृष्ण पांड्या विष्णु शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5300 29-3-78	ग्राम सबबाड़ा, ता० पेटलाक, जिला बीड़ा ।
2095.	गोपिका मेहता इन्द्र भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6980 7-5-79	2, रामनगर सोसाईटी, मणीनगर, अहमदाबाद ।
2096.	गोपीनाथ शास्त्री विट्ठल राम	जी० एम० ए० एम०, कै० आक आ० एण्ड यू० सि० आक मेडीसिन बम्बई 1959	1114 1-4-59	20, जनविश्राम सोसाईटी, सहजानन्द कालेज के पीछे, अम्बाबाड़ी, अहमदाबाद ।
2097.	गोरखन राठीक देवसी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6137 19-4-78	ब्लाक न० एक० 7-511, रणजीतनगर, कालोनी, गाठी कालोनी के पीछे, जामनगर ।
2098.	गोरखन बबोवरिया ईराज जी भाई	बी० एस० ए० एम०, [गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5112 2-1-76	ग्राम मुबाग, पो० आ० सर्पवाक, बाया पड़वारी जिला राजकोट ।
2099.	गोर्धन भाई देसाई मूलजी भाई	बी० एस० ए० एम०, कामपुर वि० वि०, 1975	5800 24-5-77	बालबाड़ी गोवारपाड़ा, ग्राम चित्तल, जिला अमरेली ।
2100.	गोरधन भाई जोतपाणिमा जोबाभाई	डी० एस० ए० सी०, कमेटी आक शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1962	210 29-11-62	ग्राम गरमाली मोती, पो० आ० जार, बाया अमरेली ।
2101.	गोर्धन भाई शुक्ल राजजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5924 17-10-77	ग्राम सर्पवाक, ता० पड़वारी, जिला राजकोट ।

1	2	3	4	5
2102.	गोर्धनभाई पटेल मोती भाई	बी० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3797 19-2-73	सोना अपार्टमेंट, सी-11; कम नं० 5, नजदीक बैसाली टाकिज, बारछा रोड, सूरत ।
2103.	गोर्धनभाई रंक मानजी भाई	बी० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5571 13-10-76	ग्राम मोती खिलोरी, बाया पेखी (कुम्भाजी) ता०— गोन्वाल, जिला राजकोट ।
2104.	गोर्धनभाई तालविया मोहन भाई	बी० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3593 14-9-72	ग्राम महन्त सिमरोली, पो० आ० भट सिमरोली, बाया केशोव, जिला जूनागढ़ ।
2105.	गोर्धनभाई बीरामणामा गोविन्दभाई	बी० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3928 19-4-73	ग्राम सरवाड, ता० मीली मियाला, जिला राजकोट ।
2106.	गोर्धन दास बारोट कल्लू भाई	बी० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3218 6-8-71	ग्राम नावां धानु, पो० आ० पुराना कामु, ता० ह्वार, जिला साबरकंधा ।
2107.	गोर्धन दास भलानी नरन भाई	बी० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5107 1-1-76	चमनपुरा हाउ०, बार रास्ता, अहमदाबाद ।
2108.	गोर्धनदास धामेलिया नानजी भाई	बी० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3440 14-3-72	ग्राम जामावालापीर, बाया बेरावण, ता० उगा, जिला जूनागढ़ ।
2109.	गोर्धनदास कनानी राध्या भाई	बी० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8574 20-10-82	ग्राम बीर पो० आ० समाधियाला (सुलानी) बाया सोंगध, ता० पासीटगा, जिला साबरकंधा ।
2110.	गोर्धन दास निमावत मोहनदास	बी० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8793 16-6-83	काविया हनुमान प्लेस, ग्राम खोरवाड़, ता० मसिया हसीना, जिला जूनागढ़-362250 ।
2111.	गोर्धनदास सबसाविया लालजी भाई	बी० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8703 16-3-83	न्यू प्लाट, पीछे पुराना स्कूल, ग्राम पंजापाचार, बाया बीर ता० हवलिया, मोटा ।
2112.	गोर्धनदास सोनी सकथ बन्ध	बी० ए० ए० सी० कमेटी आफ गुजरात आयु० कोर्स, गुजरात 1967	2518 16-6-67	ग्राम बीर पो० आ० कंकरोल, ता० शिम्मत नगर, जिला साबरकंधा ।
2113.	गोर्धनदास शंखनाथी द्वारका दास	बी० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8950 1-2-84	ग्राम लन्दीया, ता० बन्दावा, जिला कच्छ ।
2114.	गोबा बघेला देवा	बी० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7174 7-8-79	हरीजनदास, ग्राम बेराकी (कुम्भाजी) ता० गोन्वाल, जिला राजकोट ।
2115.	गोविन्द गावरीकर वासुदेव	बी० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3497 24-4-72	श्री कृष्णा निवास, मुटाविजापा, जिला बड़ोदा ।
2116.	गोविन्द काछा कारसाह	बैद्याचार्य नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1972	7102 13-7-79	भगवती कृपा, 1-मक्ती नगर, सीसाहटी, ग्राम राजकोट ।
2117.	गोविन्द मकवाना हरीलाल	बी० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9091 20-7-84	राजिका, नजदीक पुलिस गेट, कापुरा, साबरनगर-354001 ।
2118.	गोविन्द बाबू पटेल	बी० ए० ए० ए०, नागपुर वि० वि० 1971	4810 25-4-75	ग्राम भागलपुर, पो० बारहनपुर, तह् मानहवा, जिला धुनिया ।

1	2	3	4	5
2119.	गोविन्द भाई बराब मुन्लीजी भाई	बी० ए० एम० एफ० पी० आफ यू० सि० मे० मुम्बई 1954	786 3-1-54	बराब भवन बकरोल रोड, बल्लभविद्यानगर, तह० आनन्द, जिला खेड़ा
2120.	गोविन्द भाई बारिया ननबी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5818 14-6-77	ग्राम कारमोदिया, ता० महुआ, जिला भावनगर
2121.	गोविन्द भाई भालना दहया भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4339 18-4-74	ग्राम नाना माहिका, पो० आ० भुलवा, तह० गोण्डल, जिला राजकोट
2122.	गोविन्द भाई धामेलिया रामजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5315 29-3-76	नजदीक सन्धी बाजार, ग्राम बल्लभीपुर, जिला भावनगर
2123.	गोविन्द भाई बेलानी देवशी भाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9506 12-6-86	2/बो, आदर्श नगर सोसाइटी, शंकर नगर के पीछे, बरछा रोड, सूरत-3
2124.	गोविन्द भाई कुम्हार मोती भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4032 30-8-73	ग्राम मालोसन, तह० धोजपुर, जिला मेहसाणा
2125.	गोविन्द भाई पानरा पोपट भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8338 27-2-82	ग्राम एवं पो० रत्ना, ता० खम्भट, जिला खेड़ा
2126.	गोविन्द भाई पटेल राम भाई	बी० एम० ए० सी० क० शु० आ० का० गुजरात 1961	526 23-10-61	ग्राम सालपुरा, पो० कोसिन्दा, तह० चाणूधम जिला बड़वा
2127.	गोविन्द भाई पटेल भाग भाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1964	26 19-12-64	ग्राम केसली, पो० गन्धेवी, जिला बलसाड
2128.	गोविन्द भाई पटेल बेलवास	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2809 13-8-69	ग्राम क्षाजपुर पी० पुम्भारा तह० धोजपुर, जिला मेहसाणा
2129.	गोविन्द भाई पटेल विठ्ठलवास	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4002 10-8-73	कुशनगर को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी, ग्राम जेटना, तह० एवं जिला मेहसाणा
2130.	गोविन्द भाई पटेल बहया भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5704 24-2-77	ग्राम बैलरोज मातावाला, पास ता० कीरमगाम, जिला अहमदाबाद
2131.	गोविन्द भाई पटेल मणि भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6212 3-8-78	ग्राम हलधर, ता० महेन्द्रवार, जिला खेड़ा
2132.	गोविन्द भाई पटेल मूलचन्द भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7483 5-1-80	ग्राम सोयाद, ता० प्रान्तजी, जिला साबरकांडा
2133.	गोविन्द भाई पटेल बेलाजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7879 14-11-80	ग्राम एवं पो० बेलवाध, ता० एवं जिला बलसाड
2134.	गोविन्द भाई राखौलिया वालजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3084 13-1-71	ग्राम बारवाला (सिमासी), तामा लूसाला, ता० मोन्डई जिला जूनागढ़
2135.	गोविन्द भाई त्रिवेदी जेया लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5384 10-5-76	ग्राम टिपाबाड I, ता० सन्धेडा, जिला बड़वा

1	2	3	4	5
2136.	गोविन्द भार्गव बालन्द गण्वा लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7674 18-4-80	ग्राम छत्राल, बालन्दवासा, ता० कशील, जिला मेहसाना
2137.	गोविन्द कुट्टी बारियार शकुन्त	आर्य वैद्यन आयु० का० कोट्टाकल 1960	9112 23-8-84	2, अलका अपार्टमेंट, मजिनगर चार रास्ता, गार्डन बाई, अहमदाबाद-8
2138.	गोविन्दजी टांक पूना भार्गव	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4813 30-4-75	ग्राम आलीधरा, बाया मेन्डेड जिला जूनागढ़
2139.	गोविन्द लाल भट्ट हीरा लाल	आयु० मध्यमा श्र० द० प० स० बड़ौदा 1978	6635 21-2-79	पूना नगर, ब्लॉक नं० 464/2, अहमदाबाद
2140.	गोविन्द लाल जैन मगन लाल	जी० ए० एम० एत० पंजाब स्टेट फ़ै० आ० यू० सि० मेडीसिन, अण्डीगढ़ 1970	7250 3-9-79	ग्राम डंगरवा, ता० कावी, जिला मेहसाना
2141.	गोविन्द प्रसाद वैद्य हरिवास	आयु० भिषक नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1937	9090 20-7-84	धन्वन्तरी, गोमतीपुर, अहमदाबाद-21
2142.	गोविन्द प्रसाद वखे कृष्ण लाल	डी० एस० ए० सी० क० यू० आयु० कोर्स, गुजरात 1963	351 28-5-63	18, मधालाल मूलदास सोसाइटी, अहमदाबाद
2143.	गोविन्द प्रसाद द्विवेदी हरि शंकर	एच० पी० ए० पी० ग्रे० ट्रे० से०, आयु० जामनगर 1964	1479 10-7-64	ग्राम संखारी, ता० पाठन, जिला मेहसाना
2144.	गोविन्दराम गोण्वालिया नारन दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3703 1-12-72	ग्राम घेलाना पो० रंणरोल, बाया केशोद, जिला जूनागढ़
2145.	श्रीस राज जोसुआ	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3587 7-9-72	मार्फ़त एच० आर० दाभी सेक्टर नं० 16, 62/4, ग्राम गांधी नगर
2146.	प्रेविल पारवार प्रमानिका भार्गव	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6218 3-8-78	4/11/1889 नाकुदा बाल, मुगलीसारा मेन रोड, सुरत
2147.	प्रियमा मेहता रजनी कांत	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8046 27-4-81	ब्लॉक नं० 4-बी, तयना स्मृति नवरंग सोसाइटी, मीना गार, अहमदाबाद
2148.	गुलाब सानेर नारायण	बी० ए० एम० एत० वि० बी० आ० यू० सि० मेडीसिन, सजैरी, महाराष्ट्र 1968	3025 11-8-70	ग्राम काकावल, ता० शाहवा, जिला धुविया
2149.	गुलाब राजा दाश्री	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5034 11-11-75	रेलवे क्वार्टर नं० 23, एक, ग्राम जूनागढ़
2150.	गुलाभार्गव नायक बासंजी	एल० ए० एम० यू० पी० आ० महाविद्यालय पाठन, बड़ौदा 1937	472 25-7-40	ग्राम एच० पी० आ० चिखारी, जिला बलसाद
2151.	गुलाभार्गव पटेल नारिन भार्गव	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6027 16-2-78	ग्राम आसूखाला, बाया वापी, पा० धर्मपुर, जिला बलसाद
2152.	गुलाब शाय माजिविया संगलजी	डी० एस० ए० सी० क० यू० आयु० कोर्स, गुजरात 1964	1456 29-6-64	ग्राम एच० पी० पिवाड, बाया धरोल, जिला जामनगर

1	2	3	4	5
2153.	गुलाभाई पटेल जिनाभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9051 10०5-84	ग्राम एथ पो० पेरा, वाया गुरुकुल सूपा, ता० नवसारी, जिला-वलसाड।
2154.	गुलाबसिंह चन्देला जीवनसिंह	वैधाचार्य नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1967	9480 28-2-86	श्री घन्वन्तरी आयुर्वेदाश्रम, नजदीक रेलगे स्टेशन, ग्राम बेरावल-362265।
2155.	गुलाबसिंह ठाकौर फतेह सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7482 5-1-80	ग्राम-कानाभाई, पो० आ० भवोस, ता० अंजना- पाव, जिला-भूरत।
2156.	गुलाम अनी शेष गुलामहुसेन	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5116 8-1-76	बहोरवाड, ग्राम-आलिना, ता० नरसिंयसद, जिला-खेड़ा।
2157.	गुलामनबी शेष भीखू मिधा	आयु० उस्तम श्रा० ए० ए० ए० स०, बड़ोवा 1978	8013 17-3-81	दाभी कालिया, पो० बादी, जिला-बड़ोवा।
2158.	गुलागनबी वैद्य इस्माइल	डी० एस० ए० सी० फ० शु० आयु० कोर्स गुजरात 1966	2700 19-9-68	नादी गेट नगोना मस्जिद के पीछे, ग्राम- कापवानी, जिला-खेड़ा।
2159.	गुलाम खेर ओमदभाई	बी० ए० एम० एम० बम्बई वि० वि० 1961	8927 8-2-84	घन्जावाड छलिय पारा, ग्राम-लिम्बावी, जिला-सुरेन्द्रनगर।
2160.	गुलबन्त खाल सोनी शाहितलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4916 15-7-75	ग्राम-सुरेसना, ता० खेरानु, जिला-मेहसाणा।
2161.	गुलबन्तलाल ग्यास लाभ शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5406 25-5-76	ग्राम-मनसा, ता० बीजापुर, जिला-मेहसाणा।
2162.	गुणवन्ती शाह मोहनलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	7525 15-2-80	बबवा धोरा, नजदीक चौहान फाली, ग्राम- भावनगर।
2163.	गुणवन्त भाई शाह प्राणलाल	जी० एफ० ए० एम० फ० अस्प० यू० सि० मेडिसिन, गुजरात 1965	1687 31-5-65	ग्रामलजी थावस तनकादी धोरी, अहमदाबाद।
2164.	गुणवन्त भाई प्रजापति मुंगल भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6752 15-3-79	ग्राम-कथालाल, ता०-शामनवन्ज, जिला-खेड़ा।
2165.	गुणवन्त भाई पारेब नागरदास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4754 7-4-75	नवरंगपुरा, प्रकाशपार्क, ब्लॉक नं० 2, नजदीक वाणिज्य महाविद्यालय अहमदाबाद।
2166.	गुणवन्त कुमार चायक कचारा भाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8925 8-2-84	25, प्रथम तल, नायकनगर सोसाइटी, नजदीक गारदेब पटेल कालोनी, अहमदाबाद 13।
2167.	गुणवन्तराम जमनावास	जी० एफ० ए० एम० फ० आ० यू० सि० मेडिसिन, गुजरात 1962	57 25-1-63	6, जगन्नाथ प्लाट, जिम्बलान रोड, कृष्णा फाटेज, ग्राम-राजकोट।
2168.	गुणवन्तभाई कोठारी बसंतलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4128 30-8-75	ग्राम-बैलान, ता०-कोविनगर, जिला-अमरेली।
2169.	गुणवन्तराम बबे मंगललाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5593 5-11-76	ग्राम-शिकासा, पो० नई पोस्ट, ता०-पोरबंदर, जिला-जुनागढ़।

1	2	3	4	5
2170.	गुणवन्तराय पाण्ड्या चामराकर	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4522 23-9-74	ग्राम-त्रिलिया, पो० आ०-बारवला, ता० मोरबी, जिला-राजकोट ।
2171.	गुणवन्तराय पाण्ड्या भोती लाल	आयु० शिक्षक नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1948	7496 17-1-80	ग्राम पीपलदोडा, ता० लालपुर, जिला- जामनगर ।
2172.	गुणवन्तराय पटेल बोधी दास	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3781 12-2-73	वाता, ग्राम गोजारिया, ता० बीजापुर, जिला जिला मेहसाना ।
2173.	गुणवन्तराय पटेल वाला जी भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4905 5-7-75	18, आनन्दनगर सोसाइटी, बतवा रोड, भावनात नगर, अहमदाबाद ।
2174.	गुणवन्तराय राज्यगुरु जयसंकर	आयु० शिक्षक नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1962	6853 2-4-79	जूनी कश्चियावाड नाका, अमृतवादी के पीछे, विद्यापारा रोड, ग्राम भावनगर ।
2175.	गुणवन्तराय राजत देवा संकर	आयु० मध्यमा आ० व० परीक्षा समिति, बड़ोवा 1973	7127 17-7-79	ग्राम खोपाला, वाया भोला जं०, ता० गधावा स्वामिना, जिला भावनगर ।
2176.	गुणवन्तराय उपाध्याय कांति लाल	वैद्य विशारद नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1964	6968 4-5-79	7, अतस्तवादी रामघान, जेल रोड, त्रिपावा, भवन, ग्राम भावनगर ।
2177.	गुणवन्तराय बासुदेव	बी० ए० एम० एस्० गुजरात आयु० वि० वि० 1963	350 29-5-63	ग्राम, कोठ-गंगाव ता० घोसका, जिला अहमदाबाद ।
2178.	गुणवन्तराय लाल बहिया लाल	बी० एस्० ए० सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1741 22-8-65	रामपुरा, पो० आ० सोनासन, जिला साबर- कंठा ।
2179.	गुणवन्तराय लाल पारिख गोर्धन दास	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1961	679 26-6-62	महियाघार पुर, जवावादी, जिला सूरत ।
2180.	गुणवन्तराय लाल शाह नरेश्वर लाल	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1965	2014 3-5-66	3, राणा पार्क सोसाइटी, मजदीक समसी बस स्टैण्ड, अहमदाबाद ।
2181.	गुणवन्तराय शाह मणिलाल	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1961	1147 28-12-61	बबपोल, नाडियडा, जिला-खेडा
2182.	गुणवन्तराय मधु अम्बा लाल	बी० ए० एम० एफ० फै० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1945	2114	श्वनभोरी, ग्राम विमनगर, जिला मेहसाना ।
2183.	गुणवन्तराय बघे नमजी	बी० ए० एम० एस्० गुजरात वि० वि० 1965	1877 8-12-65	पुस्तकालय चौक, ग्राम उना, जिला जूनागढ़ ।
2184.	गुणवन्तराय नायक रमछोयजी	डी० ए० एस्० एफ० फै० आफ यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1951	471 10-10-51	ग्राम प्रताप नगर, ता० बासवा, जिला बलसाद ।
2185.	गुणवन्तराय रावल वलपतराम	डी० आई० एम० एम० आ० यू० वि० ए० बोर्ड, दिल्ली 1958	975 18-6-62	14, अवतिका पाक, खानपुर, अहमदाबाद ।
2186.	गुणवन्तराय ठाकर भाई संकर	बी० एस्० ए० सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1961	276 17-1-62	ग्राम पीपलदोडा, वाया गोधारा, जिला पंचमहल ।

1	2	3	4	5
2187.	गुणवन्त राय दुर्गा शंकर	डी० ए० एस० एफ० फै० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1957	1082 1-3-57	ग्राम विजयवादी, ता० सावरगुण्डाला, जिला भावनगर ।
2188.	गुणवन्त राय देसाई मनन लाल	डी० ए० एस० एफ० फै० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1953	402 2-12-57	ग्राम ऐयरघाम, ता० पालसाना, जिला सूरत ।
2189.	गुणवन्त राय सोधास मफा लाल	डी० एस० ए० सी० कमेटी फार गृह आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1751 30-6-65	पेठ बाजार, ग्राम खम्बट, जिला केरा ।
2190.	गुणवन्त राय ठक्कर नरभा राम	डी० एस० ए० सी० कमेटी फार गृह आयु० कोर्स, गुजरात 1958	269 1-2-60	डी/4, कामदार राज्य बीमा योजना, शशिबुग बम्बई गैरेज, के पीछ, अहमदाबाद ।
2191.	गुरुवन्त रामध जयन्ती लाल	डी० एस० ए० सी० कमेटी फार गृह आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1665 20-5-65	75, नन्दम सोसाइटी, शाहपुर मिल कम्पाउण्ड, बहाई केन्द्र, अहमदाबाद ।
2192.	गुरुवीप सिंह वरियाम सिंह	डी० ए० वार्ड० एम० बनारस हिन्दू वि० वि० 1971	8747 19-4-83	डी-50 इन्द्रादिग सोसायटी ग्राम जामनगर ।
2193.	हवीब शेख बी० लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3266 22-10-71	ग्राम-जैनाबाद, ता०-बभाडा, जिला-पुरेश्वर- नगर ।
2194.	हवीमुरलाह सचौर अम्बुलगमी	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9290 7-5-85	भवनगढ़, ग्राम और पी० आ०-वस्ता, ता०- वस्ता, जिला-बनारसकाबा ।
2195.	ह्रीडा भट्ट धीरज लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3658 18-10-72	मार्फत विनेशकरजी० व्यास, हरी निवास, 3, पटेल कालोनी, जामनगर ।
2196.	ह्रीडा गोस्वामी धीरजगिरी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	5796 30-4-77	31, करनपारा, सामने आयु० अस्पताल, ग्राम राजकोट ।
2197.	हनीफ बोधिया हासम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5316 31-3-76	मार्फत वेकजी नानजी, कोटाबिया हाउस भाजबी शेरी ग्राम-गोन्डाल, जिला-राजकोट ।
2198.	हरीलाल भट्ट विश्वनाथ	आयुर्वेद विशारद बोर्ड आफ इन्फिजन मेडीसिन, सौराष्ट्र 1942	2185 16-11-42	मणिलाल पी० भट्ट, मेडिकल आफिसर, ग्राम-तलाला, (सौर्य) ।
2199.	हुंस बबे पुरेश्वर	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० आयु० एण्ड यू० आ० मेडीसिन, बम्बई 1962	3048 19-9-70	मोगल कोट, ग्राम-नडियाड, जिला खेड़ा ।
2200.	हुंस बबे महादेवप्रसाद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5378 10-5-76	ओ० वन रोड, सामने जंजारा पोल, ग्राम- पालिटना, जिला-भावनगर ।
2201.	हुंस जोशी उमेशलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4354 26-4-74	मार्फत यू० बी० जोशी, श्री निवास लिम्बा लेन, ग्राम जामनगर ।
2202.	हुंस मटालिया पीयूष कुमार	बी० ए० एम० एस० पूना वि० वि० 1970	3609 16-9-72	'वत्सालय धर्म' 38/बी, महावीर हाऊसिंग सोसाइटी, नजदीक प्रताप विलास-पेलेस, [जामनगर] ।
2203.	हुंस पटेल काली दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8031 10-4-81	7, तालुक पंचायत सोसाइटी, थालतेज, रोड, अहमदाबाद ।

1	2	3	4	5
2204.	हंस शाह लाल भाई	जी० एफ० ए० एम० फ० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1962	1266 8-2-63	मार्फत पी० एल० शाह, 125, स्वातिस्क सोसाइटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद
2205.	हंस शाह शंकर लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5219 26-2-76	ब्लॉक नं० 2-ए, कपिलकुंज सोसाइटी नजदीक नारनपुरा रेलवे क्रासिंग, अहमदाबाद
2206.	हंस नकीम उपेन्द्र भाई	जी० एफ० ए० एम० फ० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1958	2305 1-3-58	समादी फालिया, ग्राम जंकलेश्वर, जिला बरौच
2207.	हंस त्रिवेदी राम नंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5686 24-2-77	11, त्रिभुवन पार्क सोसाइटी, जवाहर भौक, साबरमती, अहमदाबाद
2208.	हंसबेन बेसाई शंकर भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	4011 17-8-73	ग्राम तरलसा, ता० और जिला बरौच
2209.	हंसबेन धुवा अमर सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4864 29-5-75	ग्राम चित्रावाव (गीर) ता० तला, जिला जूनागढ़
2210.	हंसबेन पटेल मैगान भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4230 26-2-74	मार्फत मेगानभाई पी० पटेल, हवेली वाला, बिर्हिनग, स्टेशन रोड, ग्राम-आमन्व, जिला-खेड़ा
2211.	हंसबेन पटेल त्रिकम भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6444 15-12-78	खादक फालिया, ग्राम और पो० आ० भटपुर, सखेड़ा, जिला बड़ोदा
2212.	हंसबेन पटेल छगन भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8455 15-6-82	धन्वन्तरि जिनानिक, एस० टी० स्टैंड, नजदीक बैंक आफ बड़ोदा, ग्राम-छानी, जिला-बड़ोदा
2213.	हंसबेन पटेल महीजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8463 25-6-82	भाई खावकी, ग्राम और पो० आ०-रास, ता० बरसाव, जिला-खेड़ा
2214.	हंसबेन रावल रमा कांत	डी० ए० ए० एफ० फ० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1953	2592 1-12-53	स्टेशन रोड, ग्राम बेरावल, जिला जूनागढ़
2215.	हंसबेन वैष्णव कुबेर लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6202 28-7-78	कुबेर नगर सोसाइटी, ग्राम और पो० आ० नावियाड, जिला-खेड़ा
2216.	हंस देवी खंधार रती लाल	आयुर्वेद मध्यमा आवण माम दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ोदा 1973	6882 12-4-79	बोर्ड प्लाट नं० 511, ब्लॉक नं० एक/एफ, पीछे हाथी कालोनी, ग्राम-आमन्गर
2217.	हंस कुमार पांड्या नर्मदा शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6389 27-10-78	मार्फत एन० जे० पांड्या, सामने रेलवे स्टेशन, ग्राम द्वार, जिला-साबरकंधा
2218.	हंस राज लिम्बानी मोहन लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5933 19-10-77	ग्राम सरसिया, ता० धारी, जिला-अमरेली
2219.	हंसराज पवनवामी छोटा भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5551 4-10-76	ग्राम मोती खिलोदी, धाया बेरादी, ता० गोमदास, जिला-राजकोट

1	2	3	4	5
2220.	हंसराज पटेल गोविन्द भाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, जामनगर 1985	9536 28-7-86	आजाद फार्म, ग्राम और पो० आ० श्री अमीर, गढ़, पालनपुर, जिला-बी० के०
2221.	हंसदेव रायगुरू बाजे शंकर	एम० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	3994 7-8-73	पीछे जेल, नजदीक जेल प्राउन्ड, गवर्न० भवा० 8/92, ग्राम धावनगर
2222.	हंस मुख भाई कठिया पटेल विठ्ठल भाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2754 28-3-69	वैद्यकीय अधिकारी, गवर्न० आयु० अस्पताल, ग्राम कपाड़ गंज, जिला खेड़ा
2223.	हंसुख लाल पविषा माधवजी	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1967	3526 12-7-72	ग्राम जनवाला, ता० ऊना, जिला जूनागढ़
2224.	हनुभाई राय भाईज भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6664 28-2-79	रोहित निवास ग्राम सोखाड़ा, ता० और जिला बड़ौदा
2225.	हरबास लाम्बा कनजी	डी० एम० ए० सी० कमेटी फार प्रोब आयु० कोर्स, गुजरात 1963	1356 21-11-63	रा० आयु० डिस्पेंसरी, ग्राम खाखी, जलिया, बाया उपभेदा, जिला राजकोट
2226.	हरदे कुमार व्यास शान्ति लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5500 17-8-76	नानपुर, अधुगर स्ट्रीट, हाउस नं० 1/833, ग्राम-सूरत
2227.	हरदेव नारायण मिश्रा राजा राम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3342 8-2-72	1, उमियादेवी सोसाइटी नं० 2, नजदीक देना बैंक, अमरायवाड़ी, अहमदाबाद
2228.	हरदेव सिंह राणा जीवन सिंह	आयुर्वेद विषय वि० भा० आ० वि०, दिल्ली 1979	9415 2-11-85	ग्राम-काहू, ता० लखनार, जिला सुरेन्द्र नगर
2229.	हरेन्द्र देसाई मदन जीत	डी० ए० एम० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० मि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1955	443 1-5-56	मार्फत एम० डी० देसाई, बाकू मोहल्ला, ग्राम जिला—वलसाद
2230.	हरेन्द्र पाटा रमन लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2909 24-2-70	लाल भाई खांचा, सुल्तानपुरा, बड़ौदा
2231.	हरेन्द्र विगी गोस्वामी जगन्नाथ विगी	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7529 15-2-80	ग्राम और पो० आ० लिम्बावी, शुक्लापा, जिला सुरेन्द्र नगर
2232.	हरेन्द्र कुमार अधावरू गणपति शंकर	जी० एफ० ए० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० मि० मेडीसिन, गुजरात 1961	53 13-2-62	तपोवन, 39, शारदा सोसाइटी, इन्डिया ब्रिज, अहमदाबाद
2233.	हरेन्द्र कुमार बारोट मधु भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4160 21-1-74	51, मास्टर कालोनी, आउटसाइड, शाहपुर गेट, अहमदाबाद
2234.	हरेन्द्र कुमार जोशी बाल कृष्ण	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6256 20-9-78	ग्राम और पो० आ० कालावा, ता० बगरा, जिला बरीच
2235.	हरेन्द्र कुमार मेहता गोविन्द जी	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5585 27-10-86	अमरपारा नजदीक हेल्थ सेंटर, ग्राम बागसरा, भयानी, ता० कुकवाथ जं०, जिला—अमरेली

1	2	3	4	5
2236.	हरेन्द्र कुमार ब्यास नर्मदा शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4530 27-9-74	2/1, गिरराज सोसाइटी, बंधाली रोड, ग्राम जूनागढ़
2237.	हरीश दवे चन्द्रववन	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9092 31-7-84	दरबार गढ़ चौक, हुबेली श्री, ग्राम उपलेटा- 360490
2238.	हरीश पटेल मोहन भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2893 2-2-70	ग्राम कुंकवाव मोती, ता० कुंकवाव, जिला अमरेली
2239.	हरीश पटेल जगु भाई	बी० ए० एम० एस० विदर्भ बोर्ड आफ आ० एण्ड यू० वि० सि० आफ मेडीसिन, महाराष्ट्र 1968	4181 11-2-74	मगन धीबी बाड़ी, नजवीक जाकतनाका, बरछा, रोड, ग्राम सूरत
2240.	हरीशचन्द्र प्रवृया समु प्रसाव	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5307 29-3-76	ग्राम जलेझा, ता० बडगाम वाया पालनपुर, बनासकंधा
2241.	हरीश कुमार अम्बालाल	आयुर्वेद मध्यमा श्रावण मास बक्षिणा परीक्षा समिति, बडौदा 1976	6811 22-3-79	76, कुपेखर सोसाइटी, आजवा रोड, ग्राम बडौदा
2242.	हरीशकुमार भट्ट मणिलाल	आयुर्वेद मध्यमा श्रावण मास बक्षिणा परीक्षा समिति, बडौदा 1976	7022 21-6-76	ग्राम वेदव, ता० जम्बुसार, जिला बरीच
2243.	हरीशचन्द्र चम्हा गुलाबसिंह	आयुर्वेद मध्यमा श्रावण मास बक्षिणा परीक्षा समिति, बडौदा 1978	6676 3-3-79	श्री घन्वन्तरि आयुर्वेदाश्रम, नजवीक रेलवे स्टेशन, ग्राम बेरावल, जिला जूनागढ़
2244.	हरीश कुमार पटेल राम भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8248 24-12-81	हरीकुया वल्लभ नगर सोसाइटी नं० 2, ग्राम नाडियाड, जिला खेड़ा
2245.	हरीश कुमार पांड्या भोगीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	6275 11-9-78	ग्राम और पो० आ० बोमार्ह, ता० बयाव, जिला साबरकंधा
2246.	हरीश कुमार रावल जैठा लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5503 25-8-76	मार्फत जे० बी० शिवेदी, 20 विविजय प्लाट, मिस्त्री भवन, ग्राम जामनगर
2247.	हरीश कुमार सोलंक वल्लभ दास	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8970 12-3-84	शाक मार्केट, ग्राम पाघरी, जिला राजकोट-360110
2248.	हरीश कुमार ठाकर मणिलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	6261 2-9-78	10, मेघदूत काशीनी, ग्राम बिसीमोरा, ता० गम्वाबी, जिला बससाव
2249.	हरीश कुमार त्रिपाठी गोविन्द प्रसाव	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5276 12-3-76	ग्राम लिमावी, ता० जालोद, जिला पंचमहल
2250.	हरीश कुमार त्रिवेदी लाम शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4304 2-4-74	प्लाट नं० 1899, कृष्णा नगर, ग्राम भाई रोड, जिला भावनगर
2251.	हरीश कुमार बाला राम भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5356 20-4-76	जलराम सोसाइटी, ब्लॉक नं० 1-ए, भारतकुंभ ग्राम जूनागढ़

1	2	3	4	5
2252.	हरमोहन पटेल भीखा दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2996 13-7-70	ग्राम उन्धारी, ता० खेरासु, जिला मेहसाना
2253.	हरमोविन्द भट्ट पोपटलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2800 25-7-69	राजेश्वर रोड, ग्राम जाम जोधपुर, जिला जामनगर
2254.	हरमोविन्द भट्ट मगनलाल	जी० एफ० ए० एम० कमेटी फार गुज आयु० कोर्स, गुजरात 1965	2163 9-9-66	मेडिकल आफिसर, गवर्न० डिस्पेंसरी वाणडोड जिला मेहसाना
2255.	हरमोविन्द जोशी तुलजासंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4364 30-4-74	ग्राम—गीर गधाड़ा, ता० उना, जिला जूनागढ़
2256.	हरमोविन्द भाई पटेल मणीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4116 15-11-73	ग्राम गुणवारसन, ता० बीजापुर, जिला मेहसाना
2257.	हरमोविन्द भाई पटेल सोमाभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6836 22-3-79	ग्राम लिम्ब, ता० खयाद, जिला साबरकांवा
2258.	हरमोविन्ददास वैष्णव गंगा राम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4433 22-7-74	ग्राम घानावाड़ा, ता० मूली, जिला सुरेश्वर- नगर
2259.	हरि गुरनानी बाबनमल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9422 2-12-85	34, नई स्वाहर नगर, मंजीप्यारा रोड ग्राम नाथियाद, जिला खेड़ा
2260.	हरिभाई कसवाला वल्खमभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4621 12-2-75	ग्राम मोटा, भन्वरिया बाबापुर, जिला अमरेली
2261.	हरिभाई पटेल रणोदभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2834 2-9-69	ग्राम मोरा खरोबिया, वाया वामनगर, ता० गरियाविहार, जिला भावनगर
2262.	हरिभाई पटेल शंकरभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4094 17-10-73	ग्राम पोगसु, ता० प्राणतीज, जिला सार- कांठा
2263.	हरिभाई वांकिर केशवभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5692 24-2-77	वंकरवास, ग्राम अती, ता० पाद्रा, जिला बड़ोवा
2264.	हरिभक्ती वैद्य भालचन्द्र	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5605 17-11-76	रंगीला पोल, कपाड़वंज, खेड़ा
2265.	हरिकृष्ण त्रिवेदी गोरी शंकर	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1963	2660 12-3-68	मार्फत जी० एस० त्रिवेदी, बन्दाफाली, ग्राम जामनगर
2266.	हरिदासजी महन्त पंचमदासजी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2867 31-12-69	कबीर मस्जिद, आउट साइट, अहमदाबाद रोड, ग्राम नाडियाद, जिला—खेड़ा
2267.	हरिहर भट्ट नर्मदासंकर	एल० ए० एम० यू० पी० आयु० महा वि०, पाटन (बड़ोवा स्टेट) 1938	1538 31-7-44	ग्रांट-इन-एड डिस्पेंसरी, ग्राम वेसार, ता०— साबली, जिला—बड़ोवा

1	2	3	4	6
2268.	हरिहर वेद जेटा शंकर	एल० ए० एम० यू० पी० आयु० महावि० पाटन (बड़ौदा स्टेट) 1937	372 12 8 40	1, गनेश सोसाइटी, आउट साइड, शाहपुर गेट, अहमदाबाद ।
2269.	हरिहर ओगी मोहनलाल	एल० ए० एम० यू० पी० आयु० महावि०, पाटन (बड़ौदा स्टेट) 1940	259 18-10-41	शाबिद पोल, ग्राम-दकोर, ता० धानसारा, जिला—खेड़ा ।
2270.	हरिहरीलाल शाह शान्तीलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4803 25-4-75	18 बी, ठक्करबापा सोसाइटी, आजवा रोड़, नजदीक आयु० कालेज, पाणि गेट, बड़ौदा ।
2271.	हरिहरप्रसाद पाड्या बलभराम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3260 11-10-71	ग्राम, करोली ता०—हिम्मतनगर, जिला— साबरकंच ।
2272.	हरीश आन्दकत अमृतलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9494 16-4-86	नन्देनवान जीवन ज्योति सोसाइटी, नजदीक ब्रह्मसमाज, ग्राम—राजकोट ।
2273.	हरीश जाबब सोमभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7366 29-10-79	एम० पी० चालू, जूना वावज, अहमदाबाद ।
2274.	हरिस मोटानी गुरुबहादुरराय	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5771 26-4-77	ए/5/54, कृष्णानगर, सैजपुर, अहमदाबाद ।
2275.	हरीश शर्मा ठाकुरदास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4889 17-6-75	4, जयविमल सोसाइटी, गोवसार, मणिनगर, अहमदाबाद ।
2276.	हरीशभाई पटेल भीबायराम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1961	8503 27-8-8	ग्राम—दाभी सुरजनगर, ता०—सिद्धापुर, जिला—मेहसाना ।
2277.	हरीशचन्द्र आर्य धनजीभाई	डी० एस० ए० सी० कमेटी फार गृह आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2261 7-11-66	नानपरा, कहारबाद, सूरत-1 ।
2278.	हरीशचन्द्र भट्ट कुर्गारकर	डी० ए० एस० एफ०] फै० आफ० आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, मार्ग बम्बई 1954	868 3-1-55	ग्राम—मंगनेज, ता०—कर्जत, जिला—बड़ौदा ।
2279.	हरीशचन्द्र भट्ट रामचन्द्र	बी० एम० ए० एम०] गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6977 7-5-79	ग्राम—दाहेली, ता०—वलिया, जिला—बरोच
2280.	हरीशचन्द्र जैन	एच० पी० ए० पो० ग्रे० ट्रेनिंग सेंटर इन आयु० जामनगर 1964	5556 4-10-76	पी० जी० टी० आर० गुज० आयु०, यू० जामनगर ।
2281.	हरीशचन्द्र पंडित जयन्तीलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4620 12-2-75	शरवन शेरी, वरहर रोड़, ग्राम बीसानगर, जिला—मेहसाना ।
2282.	हरीशचन्द्र पटेल रसिकलाल	बी० ए० एम० एफ० फै० आफ० आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई] 1950	661 31-8-50	224, नानीमारुकी बाड़, मरसपुर, अहमदाबाद ।

1	2	3	4	5
2283.	हरीशचन्द्र पटेल छिन्नु भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6039 16-2-78	ग्राम सिर्वाई वाया उगाई, ता०—वासम्बा, जिला—वलसाव ।
2284.	हरीशचन्द्र उपाध्याय जीवनलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8567 20-10-82	9, जिन्डूसागर सोसाईटी, ग्राम—कापोल, जिला—मेहसाना ।
2285.	हरी चन्द्र वासवदा मधुसूदन राय	बी० आई० एम० एस० बोर्ड आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, (विल्सी प्रशासन) 1959	2312 22-1-59	“मधुकुण्डू, भक्षीनगर, ग्राम—राजकोट ।
2286.	हरिवास कस्तूरी श्रीधर	एच० पी० ए० पी० ने० ट्रेनिंग सेंटर इन आयु०, जामनगर 1960	1929 1-2-66	शाहपुर, पी० आ०, बिर्दिग, अहमदाबाद
2287.	हरिवास पटेल मारतभाई	एम० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3673 30-10-72	5, न्यू अलकापुरी, सोसाईटी, गुलबाई टेकरा, पंचवटी, अहमदाबाद ।
2288.	हरिकान्त नानाबती जनक राय	बी० ए० एम० एस०, गुजरात वि० वि० 1963	1365 6-12-63	रामकृपा नगर रोड, जूनागढ़-362001
2289.	हरिकृष्ण भट्ट रमेश चन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8721 19-4-83	नजदीक बस स्टेशन, ग्राम धांगाधर, जिला सुरेन्द्र- नगर ।
2290.	हरिकृष्ण दीक्षित मगन लाल	डी० ए० एस० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1947	380 30-1-48	मगन लाल बी० दीक्षित, दीक्षित मोहल्ला, ग्राम वलसाव
2291.	हरिशना पटेल रामभाई	पी० एफ० ए० एम०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, गुजरात 1961	657 18-4-82	लखबाड़ चौरा, ग्राम माडियाड़, जिला खेड़ा
2292.	हरिकृष्ण पंडित जयन्ती लाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात वि० वि० 1966	2138 16-8-66	सामने मुखिया कन्याशाला, चावड़ी बाजार रोड, ग्राम पटलाद, जिला खेड़ा
2293.	हरिकृष्ण पुरोहित हरीलाल	डी० ए० एस० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ, मेडिसिन, बम्बई 1954	722 2-1-57	14, दिग्बिजय प्लाट, पुसिस चौकी, ग्राम जाम- नगर
2294.	हरिकृष्ण शाह शंकर लाल	डी० एस० ए० सी०, कथेटी आफ मुद्र आयु० कीर्स, गुजरात 1963	1405 14-2-64	देसाई शेरी, बाबा साधी लेन, चाडियाल-घोस, बड़ीदा ।
2295.	हरिकृष्ण ठाकर शांतीलाल	आयुर्वेद माध्यमा श्रावण मास दक्षिण परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6788 21-3-79	ग्राम कनकपुरा, तह० बरसाव, जिला खेड़ा
2296.	हरिकृष्ण, उपाध्याय जगन्नाथ	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1947	2036 15-7-47	ग्राम जावेरबर, तह० और जिला बरौच
2297.	हरिकृष्ण दास शाह पुरुषोत्तम दास	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1965	1797 1-3-65	बहलभाई खावकी, ग्राम उत्तरसम्बा, जिला कैर

1	2	3	4	5
2298.	हरिकृष्ण दास झाह भीताम्बर बास	बी० ए० एम० एम०, भागपुर वि० वि०, 1975	5391 13-5-76	मैसर्स रसिकलाल हरिकृष्णदास, कं०, ग्राम मोवसा, बजिला साबरकंधा
2299.	हरीलाल बाबरिया, लालजी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	7215 23-8-79	पटेल आफिल नरी, ग्राम चिताल, जिला अनारैली
2300.	हरीलाल श्रीधेरा जाववजी	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	3006 18-7-70	मार्कत जाववजी राजकी, बिधीपारा, जिला; राजकोट
3201.	हरीलाल चिकानी डोभनभाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि० 1961	175 5-12-61	डा० एच० टी० चिकानी, नजवीक सिमैना कालवाड़, (सीतक) गुजरात
2302.	हरीलाल गाधिया धनजीभाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1964	21 14-12-64	जुना चन्टीया मासिया (मियाभा) महल, जिला राजकोट
2303.	हरीलाल रावल शिवजी	बैद्य विशारद, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1969	7042 21-6-79	ग्राम, बेदकियाज, तह० मेण्ढराड़ा, जिला जुनागढ़
2304.	हरीलाल झाह शिवजी	बी० ए० एम० एम० कै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1956	1262 1-10-56	बिपाठी भवन, नं० 2, सामने जैन मन्दिर, भार० ए० रोड, गैरेगान, प० बम्बई-62
2305.	हरीलाल शिवेरी केसवलाल	आयुर्वेद विशारद, डॉक्ट० आफ इण्डियन मेडीसिन, सीराष्ट्र 1961	2243 22-3-61	प्राथमिक जे० पी० आयु० विद्यालय, सामने सरदार बाग, ग्राम भावनगर
2306.	हरीलाल उपाध्याय] श्री नवलसंकर]	वैद्याचार्य, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1961	8111 2-7-81	गेरो नं० 4, रामकृष्ण नगर (प०), पीछे बीरानी, हाई स्कूल, ग्राम राजकोट
2307.	हरीनाथ जा, महेन्द्रा]	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8704 16-3-83	श्री जयराम क्लिनिक, कोज, रावपुर, अहमदाबाद
2308.	हरीप्रसाद भट्ट शिवसंकर	डी० ए० एम० एम०, कै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1953	866 28-3-53	ग्राम-सियाणी, बाया लिनापी, जिला-पुरेन्द्रनगर
2309.	हरीप्रसाद भट्ट लखूभाई	डी० ए० एम० एम० कै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1958	867 8-2-68	ग्राम-बिवाली, तह०- हवार, जिला-साबरकंधा
2310.	हरीप्रसाद बने लम्बकलाल	डी० एम० ए० सी०, कमेटी फार मुक्त आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1823 13-10-65	नजवीक बस स्टैंड, ग्राम-बुवा, तह०-सिम्बाड़ी, जिला सुरेन्द्रनगर ।
2311.	हरीप्रसाद निमाबत सुखरामजी	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5373 30-4-76	मनत भेरी, ग्राम- थोटीया, जिला -पुरेन्द्रनगर
2312.	हरीप्रसाद ओजा चन्द्रकांत	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4939 4-9-75	सुतरफाली, ग्राम-विराम ग्राम, जिला : अहमदाबाद
2313.	हरीप्रसाद पांड्या अमृतलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3461 29-3-72	ग्राम-करजाला, बाया साबरकंधा, जिला - राजकोट
2314.	हरीप्रसाद शुक्ल नाथलाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1963	1285 8-7-63	ग्राम-जंगलोव, तह० बीजापुर, जिला-मेहसाना

1	2	3	4	5
2315.	हरीप्रसाद बोरा सुखनाराय	बी० ए० एस्० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1952	2464 1-8-52	गवर्नमेन्ट डिस्पेंसरी, ग्राम पानगढ़, जिला : सुरेन्द्रनगर
2316.	हरीप्रसाद व्यास भगवलाल	बी० ए० एस्० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन बम्बई 1952	1109 18-3-52	ग्राम-वेवियापाड़ा, जिला - बरौच
2317.	हरीशंकर बबाली भास्त्री	बी० आयु० मध्यमा बनारस हिन्दू वि० वि०. 1972	8359 11-3-82	37, लाल बहादुर शास्त्री नगर, सोसायटी, 9, पटेल कालोनी, जामनगर
2318.	हरीशंकर जोशी जनसुन्दराम	बी० ए० एस्० एफ० फै० आफ आ० यू० सि०, फ्रांफ मेडीसिन बम्बई 1952	260 2-1-53	कंकन, फालियास, ग्राम-बेजालपुर, तह० कलोथ, जिला: पंचमहल
2319.	हरीशंकर रामल महादेवराम	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3813 23-2-73	ग्राम अशारीपाना, तह० रसाडा, जिला सुरेन्द्रनगर
2320.	हरीशंकर लर्मा मीरीशंकर	एच० पी० ए०, पो० से० ट्रेनिंग सेंटर, इन आयु० जामनगर, 1958	1414 9-3-64	डायरेक्टर आफ फार्मसी, गुजरात आयु० वि० वि० वि०, जामनगर
2321.	श्री हरीशंकर लर्मा श्री लक्ष्मी शंकर	आयुर्वेदाचार्य, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1949	7455 21-12-79	कमला लाला स्मृति, एम/5, 60-476 शास्त्री नगर, अहमदाबाद
2322.	हरीशंकर लर्मा शंकीलाल	बी० ए० एम० एस्०, बिफ्य वि० वि०, 1980	8475 3-8-82	43, हरजीघवाल, योगीपुरा उज्जैन
2323.	हरीशंकर लक्ष्मण कालीदास	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1960	6849 2-4-79	ग्राम बरीदरा, (जाला) ता० : बेरावल, जिला जूनागढ़
2324.	हरीशकुमार आचार्य बजरबहाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3211 30-7-71	ग्राम और पो० आ० दान्तीवाड़ा, तह० : धनोरा, जिला बनारसकं।
2325.	हरीशकुमार बबे हरीभाई	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1975	6546 12-2-79	तागनाथ रोड, अम्बाजी चौक, ग्राम जामनगर
2326.	हरीशकुमार बबे विपिन चन्द्र	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7623 20-3-80	10/813, चापतिया, चाकला, विपिन पली, ग्राम-सूरत।
2327.	हरीशकुमार मेहता मोहनदास	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7286 20-9-79	म० न० 9, भीपाल नगर, छस्मानपुरा, अहमदाबाद
2328.	हरीशकुमार पौड्या विष्णुप्रसाद	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5566 13-10-76	36 ए, गोपी, निवास सूरत कुंज सोसाइटी, बाहपुर, बहाय सेंटर, अहमदाबाद,
2329.	हरीशकुमार पटेल चतुरभाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7598 17-3-80	ग्राम: भवाम, ता० राजपिपला, जिला बरौच
2330.	हरीशकुमार सौर्या भरभेराज	बी० ए० एस्० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि०, आफ मेडीसिन, बम्बई 1955	1307 1-3-55	सुखनाथ रोड, बाया उपलेटा सोराष्ट्र

1	2	3	4	5
2331.	हरीश कुमार शुक्ल जयशंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5697 24-2-77	ब्रह्मान शेरी, ग्राम : सखेड़ा, जिला : बड़ोदा
2332.	हरीशकुमार बधेल चिमनलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5209 26-2-76	7, गीण कुंज सोसाइटी, नजदीक पुनीत आश्रम, मणिनगर, अहमदाबाद
2333.	हरी सभिता मेग्ढवाला नटवरलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3894 27-3-73	853/3, देवभवन, रामनगर, साबरमती अहमदाबाद
2334.	हरीश सरैया प्रभातसिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3487 19-4-72	ग्राम भद्रावत, ता० तालज, जिला भावनगर
2335.	हरीशवन भट्ट कांतीलाल	जी० ए० ए० एम०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1948	869 2-1-59	बाजी भट्ट, खांचा, ग्राम उमरथ, जिला खेड़ा
2336.	हरीशवन पंचाल भूलाजीभाई	आयुर्वेद मध्यमा] श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा, समिति, बड़ोदा 1965	7720 17-5-80	ग्राम जघादिया, बाया अंकेलेबर, जिला बरोच
2337.	हरीशवन पांड्या हीरलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3795 16-2-73	पुराना फालिया, ग्राम जमल्ला, ता०: जघादिया, जिला बरोच
2338.	हरीशवन पटेल रन्छोदभाई	बी० ए० एम० एस०, पटना, वि० वि०, पूना] 1976	5646 30-12-76	ग्राम सरोगी, ता० सखेड़ा, जिला बड़ोदा
2339.	हरीशवन राणा जयन्तीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6011 21-1-78	17, कृष्णनगर साँसाइटी, पीछे तलुका पंचायत, ग्राम -बरोच
2340.	हरीशवन सरैया मोहनलाल	जी० ए० ए० एम०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, गुजरात 1961	1305 3-4-62	पचकुई बुलठाकर पोल, नाडियाड, जिला खेड़ा
2341.	हरीशवन व्यास हरगोविन्धवास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5370 30-4-76	ग्राम पुनासन, ता० भीलोदा, जिला साबरकंधा
2342.	हरीशवल्लभ ठाकर बन्सूलाल	एम० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	5797 30-4-77	ग्राम, मीठपुर, ता० लालपुर, जिला : जामनगर
2343.	हरजी रावल प्रेम जी	दवाचार्य नि० भा० आयु० वि० दिल्ली 1968	7703 29-4-80	रेलवे लेन, ग्राम-सकापुर, बाया एण्ड ता० जमजोधापुर, जिला जामनगर
2344.	हरजी वैष्णवी बेलसजी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5277 12-3-76	ग्राम धाना, पिपाली, बाया लुशाला, जिला, जुनागढ़
2345.	हरजीभाई भानसैया भानजीभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4895 17-6-75	ग्राम भद्रावल, ता० ताला, जिला भावनगर
2346.	हरजीवन चौहान जेरामभाई	वैद्यचिकारक नि० भा० आयु० वि० दिल्ली 1971	6845 2-4-79	ग्राम जम्बाला (गीर) ता० ताला (गीर), जिला जुनागढ़ ।

1	2	3	4	5
2347.	हरजीवन दवे हिम्मतलाल	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० वि० दिल्ली 1957	6902 16-4-79	ग्राम देदकाड़ी, बाया धोला जं०, तह० उमराला, जिला भावनगर ।
2348.	हरजीवन पटेल नानजीभाई	जी० एफ० ए० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ० मेडीसिन, बम्बई 1957	653 1-2-58	ग्राम मनुव, ता० पाटन, जिला मेहसाना
2349.	हरजीवन दास पटेल शंकरलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4087 10-10-73	ग्राम मितराल, ता० नादियाड़, जिला खेड़ा
2350.	हरीकिशन मनियार पोपटलाल	जी० एफ० ए० एम०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ० मेडीसिन, बम्बई 1961	1804 28-9-65	ग्राम वधानगर, ता० खेरालु, जिला मेहसाना
2351.	हरमानभाई पटेल जावेर भाई	डी० ए० एस० एफ०, फै० आ० आ० एण्ड यू० सि० आफ० मेडीसिन, बम्बई 1944	654 21-6-66	लक्ष्मी चौक, ग्राम नार, ता० पेटलाव, जिला खेड़ा
2352.	हरमानभाई पटेल बिसेरी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5522 15-9-76	ग्राम बेदावन, ता० आनम्ब जिला खेड़ा
2353.	हरमितरबेल ओशा नवीनचन्द्र	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० वि० वि०, दिल्ली 1973	6736 12-3-79	नरभीकुंज, 4, जगनाथ, प्लाट ग्राम राजकोट
2354.	हरनारायण मन्विर लाभाशंकर	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9588 7-10-86	“राजनन्दीर” नटराजनगर, ब्लॉक, सी/ए-5, सौराष्ट्र, अस्ट रोड, ग्राम राजकोट-360005
2355.	हरनीसकामत पारिख जयन्तीलाल	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1954	2128 2-8-54	हजीबा गाजार, ग्राम बरीच
2356.	हर्ष अम्बावी नटवरलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4757 7-4-75	मार्फत नटवरलाल टी अम्बावी, जीवन प्लाट, ग्राम भेसान, जिला जूनागढ़
2357.	हर्षवीरा सतीश	बी० ए० एम० एम०, पूना वि० वि० 1975	7891 14-11-80	उपहार ड्रा० यागनिक रोड, सामने डकसारी, होटल, ग्राम राजकोट ।
2358.	हर्ष बरोट शंकरलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7641 20-3-80	2382, परबांसिस पोल, रमपुर, अहमदाबाद
2359.	हर्ष शाह महेन्द्रकुमार	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	8286 20-9-78	मार्फत शाह महेन्द्र, मुकुमार प्रभुदास, घोषा गेट, खैवाला खान्जा, ग्राम भावनगर ।
2360.	हर्ष शाह रतनलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7396 21-11-79	22, राजेश्वरी कालोनी, नजदीक उत्तमनगर कास, मणिनगर, अहमदाबाद
2361.	हर्ष पांड्या चम्पूलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4648 12-3-75	प्रथम तल अश्या भवन, महात्मा गांधी रोड, कंडीवाली, प० बम्बई ।

1	2	3	4	5
2362.	हर्ष बेन पांड्या प्रफुलचन्द्र	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8417 17-4-82	मार्कत पी० के० पांड्या, ए० सी० सी० कालोनी, क्वा० नं० पी० 78, पो० आ० सिबानिया सीमेट वर्क्स, ता० वासरा, जिला खेड़ा 388 240
2363.	हर्ष बेन पटेल गोविन्दभाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9475 28-2-86	25/शरद फ्लैट, नावा विकास गृह, पलावी, अहमदाबाद-7
2364.	हर्षव वैद्य गजानन्द	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7779 1-8-80	मार्कत चिनुभाई, एम० जोशी, 8/1150, बावासिरी, गोपीपुरा, सुरत।
2365.	हर्षव सतिकेदी राय	ए० ए० ए० ए०, बनारस हिन्दू वि० वि०, वाराणसी 1952	2178 27-9-66	आई० ए० ए० आर०, ग्राम कामनगर।
2366.	हर्षव माहू रसिकलाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात वि० वि०, 1964	1585 19-1-85	मार्कत डा० रसिकलाल लाधुभाई, लाखाजीराज रोड, राजकोट।
2367.	हर्षव चन्द्र जोशी गणपतराम	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8596 13-12-82	ग्राम और पो० आ० उमारी, ता० चरालु, जिला मेहसाणा।
2368.	हर्षवकुमार गांधी सोमालाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	8495 27-8-82	ग्राम देमाई, ता० बयाव, जिला साबरकण्डा।
2369.	हर्षवकुमार गोबानी विठ्ठलदास	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9283 2-5-85	“आजाद चौक” ग्राम सुबावी ता० धीराजी, जिला—राजकोट।
2370.	हर्षवकुमार जोशी त्रिकुम लाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4317 3-4-74	ग्राम कुकरवाड़ा, ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा।
2371.	हर्षवकुमार पांड्या अनूपकांत	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4289 26-3-74	मार्कत डा० एम० जे० पांड्या, ग्राम बाबर, जिला बनारसी।
2372.	हर्षवकुमार पांड्या गजानन्द	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4572 4-11-74	बहूम पोल, ग्राम बाबली, ता० श्वाप, जिला साबरकण्डा।
2373.	हर्षवकुमार पटेल प्रेम चन्द भाई	बी० ए० ए० ए० सी०, कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1963	659 31-5-63	हर्षव कुंज, मोती साल्की बाड़, सरसपुर, अहमदा- बाद।
2374.	हर्षवकुमार पटेल गोकुल भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	2961 3-6-70	ग्राम सिमासी, वाया लुसाना, जिला जूनागढ़।
2375.	हर्षवकुमार पटेल नारायण भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5493 13-8-76	ग्राम गोरव, ता० चासमा जिला मेहसाणा।
2376.	हर्षवकुमार पटेल अमृतलाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6173 6-6-78	वेसाई पोल, ग्राम बेटरेजा ता० विरामगाम, जिला अहमदाबाद।
2377.	हर्षव कुमार राणा नरकर लाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4747 7-4-75	निजाम बाड़ी, ग्राम मुज, तीर्थ, जिला बरौच।

1	2	3	4	5
2378.	हर्षदकुमार शाह जयन्ती लाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9514 1-7-86	218, नयननगर, सैजपुर बोधा, नरोदा रोड, अहमदाबाद-382345 ।
2379.	हर्षद कुमार जिवेदी मगन लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8010 17-3-81	ग्राम मोटा, ता० नरडोली, जिला सूरत ।
2380.	हर्षद कुमार व्यास भानुशंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	6469 3-8-82	ग्राम वरमाद, ता० चाम्भट, जिला खेड़ा ।
2381.	हर्षद लाला पंचाल मूलजी भाई	जी० एफ० ए० एम०, फै० आफ० आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, गुजरात 1961	729 23-10-61	ग्राम जागेदिया, बाया अकलेश्वर, जिला बरौच ।
2382.	हर्षद बैद्य गणपति शंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	3070 19-11-70	सोनी फालिया, मैन रोड, नजदीक वल मन्दिर, सूरत ।
2383.	हर्षद कुमार अश्रामत बनमाली दास	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6175 6-6-78	ग्राम और पो० आ० —जंजामर, बाया तालजा जिला भावनगर-364135 ।
2384.	हर्षदराय भट्ट हरी कृष्ण	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3989 7-8-73	एम० ओ० सी० एच० बी० प्राईमरी हेल्थ सेंटर, ग्राम और पो० आ०—संजाम जिला बलसाव ।
2385.	हर्षदराय दवे अमृतलाल	आयुर्वेद विशारद, बोर्ड आफ इण्डियन मेडीसिन, सौराष्ट्र 1958	2202 15-3-58	जेतालपुर आयु० डिस्पेंसरी, ग्राम और ता० जेताल जिला राजकोट ।
2386.	हर्षदराय वितानी काशी लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3960 15-6-73	ग्राम सरभान्सा, बाया चलाला, ता० और जिला अमरेली ।
2387.	हर्षद राय मोहिन मोहन लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	5352 14-4-76	पिरपा मेरी, ग्राम चित्तल, ता० और जिला अमरेली ।
2388.	हर्षदराय जोशी जगजीवन दास	डी० एम० ए० सी०, कमेटी फार ह्युइ आयु० कोर्स, गुजरात 1965	2081 29-6-66	नजदीक कुनेरजी मन्दिर, धोलका, जिला अहमदा- बाद ।
2389.	हर्षदराय जोशी भानुशंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7718 17-5-80	23, कैलाश अपार्टमेंट सामने मुन्नी अस्पताल, ग्राम महुवा जिला भावनगर ।
2390.	हर्षदराय मेहता प्राणलाल	जी० एफ० ए० एम०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, गुजरात 1961	928 15-12-61	2, विष्णु निवास सोसायटी, शुक्रबाय टैकरा, अहमदाबाद-15 ।
2391.	हर्षदराय पटेल मगन भाई	जी० एफ० ए० एम०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ० मेडीसिन, गुजरात 1961	658 22-3-63	पुस्तकालय रोड, ग्राम छोटा उदमपुर, जिला बड़ौदा ।
2392.	हर्षदराय अम्बालाल	डी० एम० ए० सी०, कमेटी फार ह्युइ आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2373 20-1-67	ग्राम और पो० आ० दवोन, ता० वरमाद, जिला खेड़ा ।
2393.	हर्षदराय पुरोहित शिव शंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	3015 1-8-70	मार्फत पांड्या प्रतापराय, एम० रानिकापारा, नजदीक पुलिस गेट, ग्राम भावनगर ।

1	2	3	4	5
2394.	हर्षेन्द्रराय राजयगुरू भवानी शंकर	बी० एस्० ए० एम्०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4330 9-4-74	पिपलवासी शेरी, ग्राम बल्लभीपुर, जिला भावनगर।
2395.	हर्षेन्द्रराय रावल जेटा शंकर	बी० एस्० ए० एम्०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3804 21-2-73	ग्राम हववाड, ता० बाठीड, जिला भावनगर।
2396.	हर्षेन्द्रराय सरैया नरम राम	वैद्य विशारद, ति० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1965	7507 17-1-80	सूरजभारा, ग्राम वैद्य, ता० कुकवाड, जिला अमरेली।
2397.	हर्षेन्द्रराय मेवक दनमुखराय	बी० एस्० ए० एम्०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4238 5-3-74	ग्राम भावडा, ता० लूनावाडा, जिला पंचमहल।
2398.	हर्षेन्द्रराय शुक्ल मधुसूदन	बी० एस्० ए० एम्०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6073 15-3-78	रामनाथ रोड, धीन चौक, ग्राम और ता०— लिम्बाडी, जिला सुरेन्द्रनगर।
2399.	हर्षेन्द्रराय त्रिवेदी छोटा लाल	बी० एस्० ए० एम्०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1968	2812 18-8-69	बड़वा, चौरा, ग्राम भावनगर।
2400.	हर्षेन्द्रराय उपाध्याय ईश्वर लाल	जी० एफ० ए० एम्०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, गुजरात 1961	76 5-12-61	2/4269, काला मेहताजी पोल, संग्रामपुरा, सुरत।
2401.	हर्षेन्द्रराय व्यास देवाशंकर	बी० एस्० ए० एम्०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6941 26-4-79	ग्राम बिल, ता० और जिला बड़ौदा।
2402.	हर्षेन्द्रराय संघवी नटवर लाल	बी० एस्० ए० एम्०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6394 27-10-78	ग्राम और पो० आ० धूमसन, ता०—काबी, वाया पंसार, जिला मेहसाना।
2403.	हर्षेन्द्रराय वैद्य जगन्नाथ	बी० एस्० ए० एम्०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8225 18-11-81	ग्राम और पो० आ०—मानपुर, ता० सन्तामपुर जिला पंचमहल।
2404.	हर्षेन्द्रराय जेठानपूजा अमृतलाल	बी० एस्० ए० एम्०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8079 7-5-81	ए/3, नावा देलवे क्वार्टर, मणिनगर, अहमदाबाद।
2405.	हर्षेन्द्रराय मेहता मणिलाल	बी० एस्० ए० एम्०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3575 4-9-72	मार्फत मेहता एन० के० स्टेशन रोड, ग्राम खेराली, जिला मेहसाना।
2406.	हर्षेन्द्रराय वैष्णव रमणोकराय	जी० एफ० ए० एम्०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1959	1069 2-2-59	मोबाईल डिस्पेंसरी, ग्राम धीमा, वाया खारड, जिला धनासकंधा।
2407.	हर्षिदा भरवाडा दलीपचन्द्र भाई	बी० एस्० ए० एम्०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	7202 20-8-79	खडाटा मिंग कालोमी, प्लाक नं० 7/37, पीछे बम डिपो, जामनगर।
2408.	हर्षिदा कोटेज मनसुख लाल	बी० एस्० ए० एम्०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4381 20-5-74	प्लाक नं० एच० 30, मनसुखशास्त्रीनगर, ग्राम भावनगर।
2409.	हर्षिदा मेहता सक्षमण	डी० एस्० ए० सी०, कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1971	3395 22-2-72	कृष्णा भवन, आनन्द सौसाईटी, नजदीक मणिनगर रेलवे क्रासिंग, अहमदाबाद।

1	2	3	4	5
2410.	हृषिवा नायक लाम शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8669 16-2-83	सैजा बास, पीछे जैन, ड्रेसर, ग्राम और पो० आ० कालोल, जिला मेहसाना
2411.	हृषिवा वृणिया कीर्तिभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8861 1-11-83	ए-2, सुहास अपार्ट, भीमाजी पुरा, नावा वदाज, अहमदाबाद-13
2412.	श्रीमती हर्षदा बाह श्री अरविश्व कुमार	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8534 14-9-82	पांड्या पोल चाकला, महेन्दावाड।
2413.	हृषिदा सिंह राणा भगवान सिंह	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, जामनगर 1984	9299 6-6-85	881, मुक्तीनगर, सिधवाई रोड, ग्राम वरोच
2414.	हृषीकान्त पारिख अमृतसाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1966	2329 7-12-66	ग्राम उबनारि, ता० और जिला गांधीनगर
2415.	हृषीकलाल राजीवप्रिया नामजी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4427 8-7-74	रोजीवप्रिया घोरी, ग्राम बंधाली, जिला-जूनागढ़
2416.	हृषकुमार भट्ट प्रभाशंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5049 24-1-75	पीछे बरबार गढ़, ग्राम पालिदाना, जिला भाव- नगर।
2417.	हरमुख त्रिवेदी रेवाशंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5085 18-12-75	सोनी हवेवी, मगतसलाव, भावनगर।
2418.	हरमुखभाई भट्ट गजानन्ध	एल० ए० एम०, यू० पी० आयु० महावि०, पाटन (बड़ौदा स्टेट), 1935	1528 8-3-44	कोर्टे ग्राम-व्यारा, जिला-सूरत।
2419.	हरमुखलाल केशव लाल	बैद्य विद्यारथ, वि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1964	7420 29-11-79	जिला पंचायत आयु० डिस्पेंसरी, ग्राम कनकावती भं रगाधरा, जिला सुरेन्द्र नगर।
2420.	हरमुखलाल भट्ट मोहन लाल	डी० एस० ए० सी०, कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1978	1416 18-3-84	बैद्यकीय अधिकारी, ग्राम देववा, वाया कुटीना, जूनागढ़।
2421.	हरमुखलाल देवराज भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7298 20-9-79	ग्राम भिमौरा, वाया एण्ड ता० उपलेटा, जिला राजकोट।
2422.	हरीमुखलाल वैष्णव बन्सी धाम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8583 3-11-82	ग्राम खादिय, वाया एण्ड जिला जूनागढ़।
2423.	हरमुखराय भट्ट गनानन्ध	एल० ए० एम०, यू० पी० आयु० महा वि०, पाटन (बड़ौदा स्टेट), 1944	1528 8-3-44	कोर्टे ग्राम व्यारा, जिला सूरत।
2424.	हरमुखलाल त्रिवेदी गिरधर लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4657 15-3-75	उपारकोट, रोड, रामजी मन्दिर, ग्राम जूनागढ़।
2425.	हरसुता वैद्य आत्मीक	आयुर्वेद मध्यमा, श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1972	6781 21-3-79	मगत गेरी, भागा सालव, ग्राम भावनगर।

1	2	3	4	5
2426.	हुरूलाबेन गामित रतनजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6111 5-4-78	ग्राम पेरबाद, पो० आ०— बन्नाली, ता० ध्यारा जिला सूरत।
2427.	हरबचन बबे महाशंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4232 27-2-74	2, गिरधर नगर, शाहीबाग, अहमदाबाद।
2428.	हामात्री बोरु सैकुद्विंग	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3531 27-7-72	ग्राम संजेली, ता० जलाद, पंचमहल।
2429.	हंसबाल सोधी रणजीत सिंह	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6050 8-3-78	ई/71/72, कुबेर नगर, अहमदाबाद।
2430.	हमोकुमार पारिख पुंजा भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8842 19-9-83	ग्राम पंढोली, ता० पेटबाद, जिला खेड़ा 388160
2431.	हममिता हीरकानी मानिकलाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, जामनगर 1983	9233 12-3-85	1383/1, क्राजापटेल पोल, काराकुवा, पोल, रिनिट रोड, अहमदाबाद-1
2432.	हममिता जोशी रमेशचन्द्र	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, जामनगर 1985	9630 5-12-86	मार्फत जोशी रमेश चन्द्र, एस० गांधीबाड़ा, ग्राम मोदसा, जिला एस० के०।
2433.	हममिता मेहता त्रिमलाल	बैद्य विशारद, नि० भा० आयु० वि०, बिल्ली 1972	7444 21-12-79	मार्फत एस० जे० मेहता, मेहता सदन, 2, वाड़ी प्लाट, ग्राम पोरबन्दर, जिला जूनागढ़।
2434.	हममुख सुबा बायजी	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7804 9-9-80	26, धोजराज पाया, ग्राम गोगल, जिला राजकोट
2435.	हममुख दबे प्रागजीवन	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1963	373 11-7-63	मार्फत डा० पी० के० दबे, ग्राम साठी, जिला अमरेली।
2436.	हममुख शकती धोरनबाब	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9217 19-2-85	मार्फत बभतधीरजलाला, श्री चन्द्रकृपा, बिबेका नन्दनगर, 40 फूटस रोड, ग्राम राजकोट।
2437.	हममुख सेथानी शामजी	बैद्यचार्य, नि० भा० आयु० वि०, बिल्ली 1963	6796 21-3-79	महात्मा गांधी क्लास रोड, नं० 1, मोहिल्योधी बानूभाई पनोला, रूम नं० 12/15, चाली नं० 1, कान्दीवाली, अम्बई-67
2438.	हममुख मिरली नटवरलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7830 25-9-80	104, अन्नपूर्णा, सोसाईटी, अनिल रोड, अहमदाबाद
2439.	हममुख पारिख रमलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3828 28-2-73	भौदिया पोत, नजदीक लामासंकर, हूबेली न्यायिक ग्राम बीजनगर, जिला मेहसाना।
2440.	हममुख पटेल मनु भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5187 21-2-76	1928, हिगनोक जोशी पोल, कड़िया बाला हनुमान, अहमदाबाद।
2441.	हममुख शाह चन्द्र लाल	डी० एस० ए० सी०, कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2090 7-7-66	17, नन्दनवन सोसायटी, आउट साइड माहपुर गेट, अहमदाबाद।
2442.	हममुख ठक्कर कुबेर दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8892 4-1-84	मार्फत डा० ठक्कर आर० के० आर्थोपैडिक सर्जन, चित्तबाना चौक, एम०जी० रोड, ग्राम जूनागढ़

1	2	3	4	5
2443.	हममुख त्रिवेदी रामेश्वर भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4881 12-6-75	मार्फत डा० रामेश्वर एम० त्रिवेदी, सामने म्यू पिल्डर, कनुभा रोड, नजदीक धंध्र शाला, "राज- मुकुल" ग्राम—भावनगर ।
2444.	हममुख वैद्य शुनी लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7325 10-10-79	मार्फत विलीप जी० शंभू, जगदीश भवन, नवरंग पुरा, नजदीक बस स्टैण्ड, अहमदाबाद ।
2445.	हममुख बालेरा रमोपाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	5559 4-10-76	1, अशोक बाड़ी, सरवरपुर, अहमदाबाद ।
2446.	हममुख बगोट भाई शंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5974 28-11-77	राजगोर कान्पी, भानू भवन, ग्राम जामनगर ।
2447.	हममुख जोगी मन्नाशंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5569 13-10-76	गुजरात हाउस बोर्ड सौसायटी, ब्लॉक नं० 14, ग्राम सिहोर, जिला भावनगर ।
2448.	हममुखबेन शाह नन्दलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5633 18-12-76	मार्फत रमोपाल सी० शाह व्हाट हाउस, लाकभ कन्या, ग्राम लिम्बादी, जिला सुरेन्द्र नगर ।
2449.	हममुख भाई भगत शुनी लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5894 20-9-77	ग्राम टण्डलाजा, मंछेड़ा, जिला बड़ौदा ।
2450.	हममुख भाई भट्ट गंगा शंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6071 15-3-78	ग्राम और पो० आ० कान्बाला, ता० कर्जन, जिला बड़ौदा ।
2451.	हममुख भाई जोशी नटवर लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3854 8-3-73	बनिया बाड़, ग्राम लाबोल, ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा ।
2452.	हममुख भाई पौड्या किशोर लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3142 25-2-71	ग्राम समरापुर, पो० आ० —पाटखेणी, जिला बड़ौदा ।
2453.	हममुख भाई पारिख दीश्वर भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5319 31-3-76	4, स्टाफ क्वार्टर, जिला पंचायत कचेरी, जिला मेहसाणा
2454.	हममुख भाई पटेल शिवभाई	डी० एम० ए० सी०, कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2035 6-6-66	श्रीरंग अमी, 14/82, आनन्द पलैट, विजयनगर अहमदाबाद ।
2455.	हममुख भाई पटेल भैलालभाई	डा० एम० ए० सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2322 3-12-66	ग्राम और पो० आ०— मधाली, ता० सितर, जिला बड़ौदा ।
2456.	हममुख भाई पटेल पुंजाभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4049 15-9-73	बाजार, ग्राम तार, जिला खेड़ा ।
2457.	हममुख भाई पटेल बिसनभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4666 20-3-75	ग्राम गुण्डिया, ता० समाजहेदा, जिला बड़ौदा ।
2458.	हममुख भाई पटेल मोती भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4727 1-4-75	ग्राम रोड, ता० कर्जन, जिला बड़ौदा ।
2459.	हममुख भाई पटेल रन्धीव भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4815 30-4-75	ग्राम गावसाव, ता० पावरी, जिला बड़ौदा ।

1	2	3	4	5
2460.	हसमुख भाई पटेल रन्छीव भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8737 19-4-83	11, कैलाश सोमाहंटी, ग्राम किम, ता० ओलपाद, जिला सुरत ।
2461.	हसमुख भाई पटेल छोटा भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4870 30-5-75	महादेव फालिया, ग्राम नार, ता० पेटलाव, जिला खेड़ा
2462.	हसमुख भाई पटेल मोदार भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5256 8-5-76	ग्राम हसोट, जोशी पालिया, ग्राम-बरोच
2463.	हसमुख भाई पटेल गोमन भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5386 10-5-76	ग्राम सिधी, पो० आ०--मेन्दरोई, ता० ओलपाद, जिला सुरत ।
4464.	हसमुख भाई पटेल बेभा जी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5429 18-6-76	ग्राम अखडोल, ता० नावियाड, जिला खेड़ा
2465.	हसमुख भाई पटेल मोठी लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5794 30-4-77	ग्राम मोक्षमान, ता०-कणोल, जिला पंचमहल ।
2466.	हसमुख भाई पटेल स्वाद लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6698 3-3-79	ग्राम राखियाता, ता० विरामगाम, जिला अहमदाबाद ।
2467.	हसमुख भाई श० सेठ त्रिभुवन दास	आयुर्वेद मध्यमा आयुर्वेद वैश्विणी परोक्षा समिति, बड़ौदा 1973	6479 1-2-79	मार्फत त्रिभुवन दास- बी सेठ, स्टेशन, रोड, ग्राम कयाबरोहान, ता० वभाई, जिला बड़ौदा
2468.	हसमुख चन्द्र शर्मा कन्हैया लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7079 5-7-79	खामपुर, मिरसी बेद, सामने अबानिका पार्क, अहमदाबाद ।
2469.	हसमुख लाल बेद्य वेलाभाई	डी० ए० एस० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1941	1061 3-11-41	बुनी भाई नानवततिरोड, बावी, फालिया, सुरत
2470.	हसमुख लाल फादरू रावजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3735 31-1-73	ग्राम-कोलकी, बाया उपलेटा, जिला-राजकोट
2471.	हसमुख लाल जयमजाल पूनम चन्द	डी० एस० ए० सी०, कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2071 24-6-86	ग्राम जाल, जिला पंचमहल ।
2472.	हसमुख लाल जोशी मोहन लाल	डी० एस० ए० सी०, कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1814 29-9-65	ग्राम अजापुरा, ता० आनन्द, जिला खेड़ा
2473.	हसमुख लाल खोखानी किराबन्व भाई	जी० एफ० ए० एम०, फै० आफ आयु० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, गुजरात 1961	136 5-7-61	1402, कामेश्वरनी, पोल, रायपुर, अहमदाबाद
2474.	हसमुख लाल चन्द्र लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	2983 19-6-70	आउट साईड घुलेरा गेट, स्टे० रोड, ग्राम इवार, जिला साबरकण्ठा
2475.	हसमुख लाल पारिख मन लाल	डी० ए० एस० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1954	697 1-8-55	बाजार, ग्राम काबोव, ता० बड़दोली, जिला सुरत

1	2	3	4	5
2476.	हसमुखलाल राणा गंगा राम	डी० एस० ए० सी०, कमेटी फार शुख आयु० फोर्स, गुजरात 1961	968 26-12-61	स्टेशन रोड, सामने हार्ड स्कूल, ग्राम नधीपुर, जिला बरोच
2477.	हसमुखलाल साह महासुखलाल	डी० ए० एस० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1957]	1264 2-1-57	19, श्रीनाथ सोसाईटी, आश्रम रोड, सामने चम्प- नौर बस स्टॉप, अहमदाबाद
2478.	हसमुखलाल साह राय चन्द्र दास	डी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981]	8422 17-4-72	ग्राम भीर पो० आ०— लिम्बाविया, ता० लाना- वाड़, जिला पंचमहल
2479.	हसमुखलाल सोनी कृष्णा लाल	डी० ए० एम० एस०, गुजरात वि० वि० 1963	1423 14-4-64	सानी बावो, दागशवरी, मेहता पोल, ग्राम पाटन, जिला मेहसाना।
2480.	हसमुखलाल सानी अम्बा लाल	जी० एफ ए० एम०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, गुजरात 1965	1702 15-8-65	ए० जी० सभ्यथ को० आ० बैंक ग्राम कुंजरास ता० आनन्द, जिला कैरा।
2481.	हसमुखलाल त्रिवेदी शास्त्री लाल	डी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3261 11-10-71	ग्राम-भीमदाव, बाया बाठोड़, जिला भावनगर
2482.	हसमुखराय जानी जयन्ती लाल	डी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4924 4-8-75	ग्राम मावज, बाया धोला, जं०, ता० गधाड़ा, जिला भावनगर।
2483.	हसमुखराय मेहता चुनी लाल	डी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3425 8-3-72	कुदुसखाना रोड, सामने दुम्बाकोटेज, ग्राम भीर पो० आ० उपलेटा, जिला राजकोट
2484.	हसमुखराय मोदी अम्बेलास	डी० ए० एस० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1956	1839 2-1-56	मुसबाई बाड़, बेगमपुरा, सुरत-1
2485.	हसमुखराय मिमबाई आत्माराम भाई	डी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5338 8-4-76	ग्राम गोवाल ग्राम, बाया खलाना, जिला अमरेली
2486.	हसमुख राय पाब्या मगन लाल	डी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3935 2-5-73	ग्राम जामसंबापुर, ता० जमजोधपुर, जिला जाम- नगर
2487.	हसमुख भाई पाब्या काली दास	डी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4233 27-2-74	पवनमेंट क्वार्टर, ग्राम उमराला, बाया घोसा जं०, जिला भावनगर।
2488.	हसमुखराय साह जगजीवन दास	डी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4302 28-3-74	मार्फत बकील जे० डी० साह, सलिता निवास, ग्राम सुरेन्द्र नगर
2489.	हसमुख राय साह बाबू लाल	आयुर्वेद शिक्षक, नि० मा० आयु० वि०, दिल्ली 1960	6652 28-2-79	18, रन्छोदनगर सोसाइटी, वेदीपारा, जिला राजकोट
2490.	हसमुख राय ठाकुरी केशवलाल	डी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	2905 16-2-70	सारी महाप्रभुजी बैठक महात्मा गांधी रोड, पोरबन्दर
2491.	हसमुख राय त्रिवेदी दुर्गाकिशोर	डी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	3007 20-7-70	संधावी चौक, पटेल जेरी, ग्राम राजूवा सिटी, जिला अमरेली

1	2	3	4	5
2492.	हसमुखराय त्रिबेदी दुर्गाशंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5664 3-2-77	डोन 953, प्रभुमवन, ग्राम भावनगर।
2493.	हसमुखराय बोरा मगन लाल	बी०एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	4991 17-10-75	ब्राह्मण बाड़ा, ग्राम बधाली, जिला जूनागढ़।
2494.	हसमुखराय म्यास सन्धकुमार	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3605 16-9-72	ग्राम मोतीमोलपारी, बाया बिश्नवार, जिला जूनागढ़।
2495.	हसमुखराय वेबमुरारी जानकीदास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6762 15-3-79	ग्राम भावली (भाननी) (बाया गढ़गा स्वामिना) ता० जसवन, जिला राजकोट
2496.	हसमुखराय वैष्णव लक्ष्मी दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	6153 4-5-78	ग्राम मोनिया बाया तनसा, ता० गगलभा, जिला भावनगर
2497.	हसमुखराय वैष्णव हनुमाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8575 21-10-82	वर्कतराय मेरी, ग्राम और ता० मोरावी, जिला राजकोट
2498.	हसमुखराय पटेल दिनेश राय	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5285 23-3-76	6, त्रिलोकनाथ सोमाईटी, गगलपुरा, रामप, अहमदाबाद-8
2499.	हसमुखराय भंडारी भगवानजी	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4177 11-2-74	वेविलिंग बिल्डिंग हाउस और हरीभाई वहाभाई हाउस, 7, हवेली सिटी, राजमहल रोड, ग्राम जूनागढ़
2500.	हसमुखराय भट्ट लक्ष्मी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4626 17-2-75	मार्फत जे० डी० भट्ट, साईबाग, 5/6, प्रथम तल, एम० जी० रोड, नार्द तृतीय क्रस लेन स्वमिग ब्रिज कम्पनीवाली (प०) बम्बई-400067।
2501.	हसमुखराय पारिख पोपट लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3787 15-2-73	2, इन्द्रापुर सोसाइटी, भाई रावनाथ रोड, मणि- नगर, अहमदाबाद।
2502.	हसमुखराय पटेल रामभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6119 5-4-78	3, पटेल सोमाईटी अवाहूर चौक, मणिनगर, अहमदाबाद।
2503.	हसमुखराय पटेल राजेश्वरदास	बी० ए० एम० एम०, सागर वि० वि०, सागर 1979	9492 24-3-88	नजदीक खोरा, ग्राम और पो० आ०—नादा— 391210, बाया कम्पारी, जिला बड़ोदा
2504.	हसमुखराय शाह वामोचरदास	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1962	1261 25-2-63	नजदीक हाजी बिल्डिंग, जमलपुर, आकला, अहमदाबाद।
2505.	हसमुखराय ठक्कर अमृतलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6663 28-2-79	1648/1, मन्वावील पोस, सरवादी, पोस, अहमदाबाद।
2506.	हसमुखराय त्रिबेदी नारलजी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2994 13-7-70	नजदीक मानिकवाड़ी, स्टे०, प्लॉट नं० 571, भावनगर,
2507.	हसमुखराय बीटडालानी द्वारकादास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4912 9-7-75	ग्राम बीटडालाड़ी, ता० नाबर कुशाला, जिला भावनगर
2508.	हसमुखराय नरकाजी रमछोच भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5842 3-8-70	मार्फत परमार हसमुखलाल बीदीदास, पीछे स्वामीनारायण मन्थिर, बहारिया नजदीक काणि गेट, बड़ोदा

1	2	3	4	5
2509.	हृषी भार्द खुमान बाबाभार्द	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4837 9-5-75	ग्राम धार, ता० नावरकुण्डला, जिला भावनगर
2510.	हृषा मबादिया धनकिभार्द	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6989 7-5-79	मार्फत धनजी भार्द कुरजी भार्द, हरीपुरा, गली नं० 2, ग्राम बण्डावा
2511.	हृयस्तीलाल जकानी भगवान जी भार्द	बैद्याचार्य, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1972	6992 7-5-79	205, सर्वोदय इं.कमिश्नियस सेंटर, नजदीक जी० पी० जी० सालपाल, रोड, ग्राम अहमदाबाद।
2512.	हृश्री पोपट पुरुषोत्तम दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4748 7-4-75	3, अगदीश स्मृती, सामने सरवाजंकर हार्द स्कूल नानपुरा, सूरत
2513.	हेमा वने हेमानगभार्द	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9078 29-6-84	मार्फत हेमंग जी० वने, 41 धुला भार्द पार्क, गीता मन्दिर रोड, अहमदाबाद।
2514.	हेमा जोशी महेन्द्रा	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, जामनगर 1984	9330 9-8-95	15 बन्वना सोसाइटी, सामने टंकी अदाजन रोड, ग्राम सूरत, ता० चीरमिया, जिला सूरत
2515.	हेमा त्रिवेदी निरंजन भार्द	एम० डी० आयु० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6055 8-3-78	4, स्यू० प्रेरणा सोमाईटी, जुहापुरा, मरखू रोड, अहमदाबाद।
2516.	हृषीभार्द भानु भार्द	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1947	7161 2-8-79	ग्राम मन्बर, ता० जम्बूसर, जिला बरोच
2517.	हेमा व्यास जयकिशोर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8758 11-5-83	808, ऋषि राज अपार्ट, विवाली बाग, अठबागेट, ग्राम सूरत-305001
2518.	हेमाबेन धुडक बल्लभभार्द	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6639 4-10-78	मार्फत डा० जी० एम० घाडक, कादी रोड जुमागढ़।
2519.	हेमाबेन मेहता नटवरलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5176 18-2-76	1218/1, महादेवबाला खान्वा, लक्ष्मी नारायण पोल, राजा मेहता पोल, काचपुर अहमदाबाद।
2520.	हेमचन्द्र भार्द लोठ त्रिभुवन दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6932 17-4-79	मार्फत डा० टी० बी० लोठ, ग्राम कयाचरोहान, ता० बभोई, जिला बड़ोचा
2521.	हेमानगिनी जोशी जयस्तीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4931 13-8-75	बाजबाड़ा, लेमादी पोल, ग्राम बड़ोचा।
2522.	हेमानगिनी कंसारा रविमकांत	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7671 18-4-80	872, महाजन बाड़े, मन्वादी पोल, अहमदाबाद
2523.	हेमानगिनी मकाड धुजंगीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3856 8-3-73	मार्फत बी० एन मकाड, सामने मोटा बहेला, श्रीनगर, चाकला, ग्राम धुज-कच्छ।
2524.	हेमानगिनी पुरोहित कान्तीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3321 29-1-72	मार्फत कान्तीलाल बी० पुरोहित, ग्राम पंसीरा ता० सिम्बाड़ी, जिला सुरेन्द्र नगर।

1	2	3	4	5
2525.	हेमानगिरी शान कीरव	जी० एफ० ए० एम०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मैडीसिन, बम्बई 1985	9406 6-6-85	बी 53, सिटीजन कम्पनी सामने सोसाईटी नजदीक आत्मज्योति आश्रम, ग्राम बड़ौदा- 390007
2526.	हेमनगिरी गडोवाल ठाकोरलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8862 1-11-83	5, सूर्यसिदाम, बसन्त हिल, सूरत-395003
2527.	हेमनगिरी बीमाबाला चम्पकलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3442 14-3-72	गोपीपुरा कयाठा मोहल्ला, ककाववाल्स चौका, सूरत।
2528.	हेमनशिका जोशी अनिलकुमार	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5709 4-3-77	8-बी, तुभर सोसाईटी, नावा छानी रोड, निजाम- पुरा, बड़ौदा।
2529.	हेमन्त बने रमाकांत	एम० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	3978 25-7-73	मार्फत रमाकांत बी० बँदा, 2, मणीनगर सोसाईटी ग्राम, साबरकुण्डा, जिला भावनगर।
2530.	हेमन्त जोशी नरेन्द्र भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8652 10-2-83	दभोडिया पोल, बाड़ी, ग्राम बड़ौदा
2531.	हेमन्त राणा सन्मुख लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7838 30-9-80	159, भवितनगर हाउस सोसाईटी, पुराना सिन्धवाई रोड, ग्राम बरौच
2532.	हेमन्त वास्ती मधुकान्त	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9199 30-1-85	वसन्तकुई, नजदीक सुनी अस्पताल, जिला खेड़ा
2533.	हेमन्ती का पटेल हसमुख लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	6057 8-3-78	मार्फत अमिल कुमार कनुभाई, पटेल वरबाधा ग्राम असोदर, ता० बारसाव, जिला खेड़ा
2534.	हेमन्त लाल चौहान चाकू भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7205 20-8-79	ग्राम बाबवी, ता० और जिला जूनागढ़।
2536.	हेमन्त कुमार बैरा मधु भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4222 21-2-74	दल पटेल पोल, सामने पटवा प्रैस, ग्राम बड़ौदा
2538.	हेमन्त कुमार भट्ट वेव शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3615 19-9-72	ग्राम बहलपुर, ता० संचेडा, जिला बड़ौदा।
2537.	हेमन्त कुमार भट्ट जसवन्त राय	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4084 8-10-73	मेटा शेरी, भट्ट डोली, ग्राम भावनगर।
2538.	हेमन्त कुमार भट्ट वुर्गाशंकर	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9066 15-6-84	मार्फत प्रो० शुक्ला, एन० जी० ए-3, स्टाफ नवा० कालेज, कैम्पस, ग्राम मोदसा, जिला एन० के०
2539.	हेमन्त कुमार जोशी मनोहर लाल	बी० ए० एम० एम०, विक्रम वि० वि०, 1975	7254 5-9-79	राजभवन निमवाड़ी, ग्राम साजपुर (म० प्र०)
2540.	हेमन्त कुमार मेहता चिमनलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8352 11-3-82	मार्फत चिमनलाल नाना भाई मेहता, 12/189, रामजी निवास, पटवा शारी, रानी रावच सूरत- 395003

1	2	3	4	5
2541.	हेमन्त कुमार मुग्धी नवनीत लाल	बी० ए० एम० एफ०, फै० आफ आ० एफ्फ यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1952	947 1-8-52	ग्राम सुखसार, ता० सन्तरामपुर, जिला पंचमहल
2542.	हेमन्त कुमार शाह बाबू लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8227 24-11-81	ए०/बाबुलाल एच० शाह, स्टे० रोड, भोटा मिया, मंगरोल, जिला सूरत।
2543.	हेमन्त कुमार शुक्ला चम्पक लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7624 20-3-80	ग्राम और पो० आ० वरार्ह, ता० बरबोली, जिला सूरत
2544.	हेमन्त कुमार पांड्या अरविन्द कुमार	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7572 1-3-80	ग्राम मेंसोली, ता० कालोल, जिला पंचमहल।
2545.	हेमन्त कुमार बोरा कान्ती लाल	डी० एम० ए० सी०, कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2363 10-1-67	नगरपोठ धोरी, ग्राम और ता०--बोटाड, जिला भावनगर।
2546.	हेमन्त कुमार श्याम शिव प्रसाद	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4740 5-4-75	35, ब्याविला, जगाचाई पार्क, सोसाईटी, कंकरीड अहमदाबाद।
2547.	हेमन्त लाल मेहता मगन लाल	डी० एम० ए० सी०, कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1700 15-6-65	मबरसा क्वाटर्स, बंधाली, जिला जूनागढ़।
2548.	हेमन्त आचार्य प्रताप राय	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1964	1457 29-6-64	ग्राम सुमपाड़ा, वाया घेराबल, जिला जूनागढ़।
2549.	हेमन्त रंजनी मंगल प्रसाद	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि० 1963	32 24-12-64	कमाथ अम्बाली जोरावर सिंह जी, बंगलो ग्राम- नगर।
2550.	हेमन्त कुमार खमर ठाकुर लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5227 1-3-76	1076, जमालपुर, पगपिया, साल्बीपोल, अहमदाबाद।
2551.	हेमील जावेरी दरारा	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9108 31-7-84	ग्राम और पो० आ० रोहिन, वाया उधवाड़ा ता० पारदी, जिला नवलसाव
2552.	हेमलता देसाई ईश्वरलाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9431 2-12-85	6/मा दर्शन अपार्टमेंट, अम्बाली, रोड, ग्राम सूरत
2553.	हेमलता गोपीधामी जता शंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7120 16-7-79	राजगोर फाली, वकील खांचा, ग्राम जामनगर
2554.	हेमलता पटेल माधुभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7630 20-3-80	ग्राम और पो० आ०--भारपना, ता० नबीपुर जिला धरोच
2555.	हेमलता पटेल प्रमोद भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7927 29-12-80	ग्राम सामपुरा, ता० कमराज, जिला सूरत
2556.	हेमलता पटेल मणी लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8309 5-2-82	ग्राम और पो० आ०--माधुनी, वाया बापी बादरनगर, हूवेली
2557.	हेमलता ओजा करुणाशंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4576 20-11-74	मार्फत गंगामी बी० जे०, 65, समरपान सोसाईटी, अवजान रोड, सूरत

1	2	3	4	5
2558.	हेमलता ग्यास आनन्द कुमार	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3784 15-2-73	सी०/2, सरदार कुंज सोसाइटी, साई मॅटर, शाह पुर, अहमदाबाद।
2559.	हेमलता ग्यास नवी लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8427 1-5-82	29, आनन्द नगर मोसाईटी, बरबोली, जिला सुरत।
2560.	हेमलता बसानिया विजय सिंह जी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4483 3-9-74	मार्फत बराड़ मोती सिजी ए० ग्राम अमररोली ता० ता० पालसाना, जिला सुरत
2561.	हेमनलिनो आचार्य शरत कुमार	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4798 24-4-75	28, जलराम कुटीर, नजदीक कामसे कालेज, ग्राम भावनगर।
2562.	हेम कुमार शाह नीलमा कुमार	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6825 22-3-79	गांधी गेट रोड, नवी पोल, राधानिवास, तृतीय तल, बड़ौदा।
2563.	हेमन्त सिंह रायजाबा कीर्ति सिंह	बी० एफ० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7614 18-3-90	श्री सत्य दाई निवास, नजदीक खादियार मस्जिद, ग्राम जामनगर।
2564.	हिमाशु भट्ट वशरथ लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5533 20-9-76	797, राधाबल्लभ खीच, पोल, रायपुर अहमदाबाद
2565.	हिमाशु बलाल प्रवीण कास्त	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8976 12-3-84	804, राजेश्वर अपार्ट० अयुगार, मोहल्ला, नाल- पुरा, ग्राम सुरत-395001
2566.	हिमाशु राय रामछोवभार्	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4902 26-6-75	ग्राम मोटा कराजा, ता० सिहोर, जिला भावनगर
2567.	हिम्मत लाल अचार्य भानुशंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1968	3203 5-7-71	मार्फत कनुभाई बी० आचार्य हेमकुंज, बड़वा, पचारियावाड़ी, पानवाड़ी रोड, भावनगर।
2568.	हिम्मतलाल बने हृदयवत दास	आयुर्वेद निषक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1957	7293 20-9-79	श्री रामरूप भारोष्य भाम, प्रेमपुरा ग्राम और ता० धारी, जिला अमरेली
2569.	हिम्मत लाल हीरभारा मूल जी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	5039 13-11-75	ग्राम रायपुर (सोर्य ता० भैसन, जिला जूनागढ़)
2570.	हिम्मत लाल जोगी विठ्ठल जी	आयुर्वेद विशारद, एम० एम० वि० वि०, बड़ौदा 1943	1943 22-1-43	पो० आ० --अंकाविया मोटा, ता० और जिला अमरेली
2571.	हिम्मत लाल जोगी हरी लाल	आयुर्वेद मध्यमा श्रावण मास बक्षिणी परीक्षा समिति 1976	6789 21-3-79	जोगी डिस्पेंसरी नजदीक पो० भा० ग्राम भवाभ, जिला कच्छ
2572.	हिम्मत लाल मेहता गिरधर लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2892 2-2-70	ए०-8, म्यू मण्डल गवर्न आफिसर कालोनी, मेधान नगर, अहमदाबाद।
2573.	हिम्मत लाल मेहता रामजी	वैद्याचार्य, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1965	7179 17-8-79	ग्राम अगतराय, वाया केशीव, जिला जूनागढ़।
2574.	हिम्मत लाल पुरोहित नरसी लाल	डी० ए० एम०, यू० पी० आयु० महावि० पाटन 1940	2636 6-5-40	पाडया पोल, ग्राम महेन्द्रा बाब, जिला खेड़ा

1	2	3	4	5
2575.	हिम्मतलाल शाह साहेरचन्द	जी० एफ० ए० एम०, फ़ी० आफ० आयु० एण्ड यू०सि० आफ मेडीसिन, गुजरात 1963	1248 15-10-63	प्रभु दास, ठक्कर, कालेज, बम स्टेण्ड, नारायण नगर रोड, पालदी, अहमदाबाद
2576	हिम्मत लाल सोलंकी नक्षत्र भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1969	4029 14-8-70	नजदीक आर्य गंज मन्दिर, ग्राम टंकारा ता० मोरबी, जिला राजकोट
2577	हिम्मत लाल थाकी जोषन लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4143 28-12-73	पांकीकुटीर, छाया प्लाट, रोरी नं० 2, ग्राम पोरबन्दर, जिला जूनागढ़।
2578.	हिम्मतलाल त्रिवेदी रविशंकर	ए० बी० बी०, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पूना 1943	334 29-2-44	जालुचीक, ग्राम सिहोर, जिला मेहसाना
2579.	हिम्मत लाल त्रिवेदी केशवलाल	आयुर्वेद विशारद, बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन, नौराष्ट्र 1958	2247 15-3-58	सर्वोच्च सोमार्दीटी, ब्लाक नं० 6, ग्राम पालीटना, जिला भावनगर।
2580.	हिम्मत लाल बोरा भास्की	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3584 7-7-72	ग्राम अमृतधेल, पो० आ० दुनवास, बाया दुनगर जं०, जिला भावनगर
2581.	सिम्मताय अश्रावत ममन दास	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5405 25-5-76	ग्राम मोटा देवासिया, बाया लुनीघर, स्टेशन, ता० स्टेशन ता० मागर, जिला अमरेली
2582.	हिना जोशी त्रिनेन्द्र	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9070 15-6-84	जिला पंचायत क्वार्टर, धरमपुर रोड, ग्राम वलसाद, जिला वलसाद।
2583.	हिना पाठक मनुभाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9402 19-10-85	मोटी लम्बोलीवाड़, लक्ष्मण पीठ रोड, पोस्टमैन मैन हाउस ग्राम बड़ीदा
2584.	हिना त्रिवेदी अनिल कुमार	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9625 21-11-86	24, जयसिंह भाई पार्क, मणिनगर, अहमदाबाद-8
2585.	हरीभाई पटेल हरीभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3420 7-3-72	84, हरी प्रकाश सोमार्दीटी, पीछे कुनारणाना नरोबा, अहमदाबाद।
2586.	हीराभाई शीला जयसिंग भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4366 3-5-76	ग्राम भालुमना, ता० खेरालु, जिला मेहसाना
2587.	हीराभाई शेट बेकार भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5080 28-11-75	ग्राम त्रापज, ता० तालजा, जिला भावनगर।
2588.	हीराबेन जोशी जयशंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8914 24-1-84	दिविजय प्लाट रोरी नं० 56, नजदीक विरानी मैसन, पीछे जेठवा, कुशिंग, बर्फस, ग्राम जामनगर।
2589.	हीरागर मेघानाथो सवाईगर	बैद्य विशारद, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1965	6909 18-4-79	ग्राम महोबतपुर, ता० वन्धासी, जिला जूनागढ़
2590.	हीरजी गोंवलीया उका भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2960 3-6-70	ग्राम खीरसारा रोड, बाया केशोव, जिला जूनागढ़
2591.	हीरजी गोंवलिथा मोहन	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7173 7-8-79	ग्राम खीरसारा (मेव) ता० केशोव जिला जूनागढ़

1	2	3	4	5
2592.	हीराजी भाई गोबाती गवजी भाई	बी० ए० एस्० एफ०, फै० आफ० आ० एण्ड यू० सि० आफ मेंडीसिन, बम्बई 1955	164 1-11-55	“हिमांग बरौन” ग्राम पालिदना, जिला भावनगर
2593.	हीरालाल वैद्य रमनलाल	बी० ए० एस्० एफ०, फै० आफ० आ० एण्ड यू० सि० आफ मेंडीसिन, बम्बई 1963	1063 1-12-53	नरसिंह पोल, दल पटेल, मोहन भवन, ग्राम बड़ौदा
2594.	हीरालाल भट्ट मणिकंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2802 28-7-69	महेन्द्रपारा सामने प्रथम ब्राह्मण लेन, ग्राम मोरबी, जिला राजकोट
2595.	हीरालाल दवे धनमुखभाई	आयुर्वेद मध्यमा श्रावणमास वसिष्ठा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6486 1-2-79	गलनेमेंट बसाहट ई० कालोनी, ब्लॉक नं० 79, रूम नं० 300, सामने अम्बर सिनेमा, सरसपुर, बहुमदाबाद।
2596.	हीरालाल विघोना आनन्द भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3079 13-1-71	ग्राम सुपेवी, ता० घोराजी, जिला राजकोट
2597.	हीरालाल जाधेला धन जी भाई	आयुर्वेद मध्यमा श्रावणमास वसिष्ठा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	7124 17-7-79	ग्राम वेधगना, ता० शिहोर, जिला भावनगर
2598.	हीरालाल पटेल माधव लाल	ए० बी० बी०, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पूना 1942	663 28-4-44	नजदीक पो० आ० बीर ता० ग्राम कलोल, जिला मेहसाणा
2599.	हीरालाल उकामाई	डी० एस्० ए० सी०, कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2153 25-8-66	आयु० डिस्पेंसरी, ग्राम बतरान, ता० मन्वेरवा जिला जूनागढ़
2600.	हीरालाल शाह बापू चन्द	ए० बी० बी० तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पूना 1943	1265 31-7-48	ग्राम रावल गाम, ता० मालेगाम, जिला नासिक, महाराष्ट्र
2601.	हीरालाल सुरानी गोखल वाम	आयुर्वेद विशारद, बोर्ड आफ इण्डियन मेडीसिन, सौराष्ट्र 1960	2232 22-3-61	दुर्लभ फार्मसीस ग्राम पोरबन्दर जिला जूनागढ़
2602.	हीरालाल टप्पा करमशी भाई	जी० एफ० ए० एम०, फै० आफ० आ० एण्ड यू० सि० आफ मेंडीसिन, बम्बई 1959	289 2-9-59	ग्राम हरीज, जिला मेहसाणा
2603.	हीरालाल ठक्कर मुरारजी	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि० 1967	2583 12-9-67	मिना निवास, नजदीक जनरल अस्पताल, ग्राम- भुज कच्छ
2604.	हीरा लाल बघेला रामजी भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3267 25-10-77	ग्राम प्रणला, ता० लिम्हावी, जिला सुरेन्द्र नगर
2605.	हीरालाल कास अम्बालाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3101 2-2-71	ग्राम खेरी धारी बाल, ता० चोसमा, जिला मेहसाणा
2606.	हिरव्या वैष्णव प्राणजीवन	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5003 20-10-75	गुज० हाउस बोर्ड, ट्रिनमेंट 82, मारुषी, साधपुरी तालुका, जिला राजकोट
2607.	हीरेन चौहान मोहन लाल	बी० ए० एम० एस्०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8901 24-1-84	दरबारगढ़ चौक, सेठ शेरी, ग्राम उपलेटा 360490

1	2	3	4	5
2608.	हीरणकुमार देसाई जमबन्धन काम	आयुर्वेद मध्यमा आवणमास दक्षिण परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6792 21-3-79	बी -1, अम्बिका अपार्टे नावासाई रोड, नजदीक ओई बसन्त हाल, सुरत-3
2609.	हीरणकुमार मेहता विनोद चन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6826 22-3-79	लोक प्रिया डिस्पेंसरी, ग्राम ओटना, तहू० और जिला मेहसाना
2610.	हीरुभाई देसाई साधक	जी० एफ० ए० एम०, कमेटी फार गुज आयु० कोर्स, गुजरात 1963	445 12-6-63	बाजार ग्राम पटाडी ता० बलावा, जिला सुरेन्द्रनगर ।
2611.	हीरुभाई पटेल जावेरभाई	डी० ए० एस० एफ० फ० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन बम्बई 1955	682 2-4-56	ग्राम पावरा, जिला बड़ौदा ।
2612.	हीरुभाई पटेल कुबेरभाई	ए.ब० पी० ए० पी० से० ट्रे० सेंटर आयुर्वेद, वामनगर 1962	664 28-9-62	पुनरवास क्लिनिक, जिला माधियाड़ ।
2613.	हितेश देसाई गुलामभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8766 11-5-83	ग्राम और पो० आ० वाया उदावाडा, जिला बलसाव ।
2614.	हितेश पोहिल पुरखोत्तमभाई	डी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8937 17-2-84	50, बी विभाग-2 नजदीक मानक नगर बाग, अहमदाबाद-15 ।
2615.	हितेश जोशी चुनीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9075 29-6-84	ग्राम मागरवाडा, ता० बलगाव, जिला बी० के ।
2616.	हितेश जानी प्रमोदकुमार	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8876 1-12-83	ई० एस० आई० बी० 37 सी 7, स्टाफ क्वा० कुरिया, अहमदाबाद-22 ।
2617.	हितेशभाई भूपतानी गुजलाल	डी० एस० ए० सी० कमेटी फार गुज आयु० कोर्स, गुजरात 1968	2699 19-9-68	ए/8 नेहरू बसहाल, ग्राम महुवा, जिला भावनगर ।
2618.	हुकम सिंह बिष्ट उमराव सिंह	बैद्य विचारद नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1967	7087 6-7-79	नजदीक रेलवे स्टे०, ग्राम शाहपुर (साउथ) जिला जूनागढ़ ।
2619.	हितेश सिंह वारासिया अजयसिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6434 2-12-79	ग्राम और पो० आ० बहुली, ता० बालिया जिला बरोच ।
2620.	हुममतलाल सोधा देवाहन्द	बैद्य विचारद नि० भा० आ० वि०, दिल्ली 1963	6778 21-3-79	ग्राम रायडी, ता० जमकुन्डोराणा, जिला राजकोट
2621.	हुसेनी सोबान्धवाला अम्बुल भाई	आयुर्वेद मध्यमा नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1978	8835 1-9-83	4/707, मोती बहोरवाड़, ग्राम धोतका, जिला अहमदाबाद ।
2622.	इब्राहिम टंक मुल्लेमाल भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3090 13-1-71	ग्राम जिनजरी, पो० आ० सरदारगढ़, जिला जूनागढ़
2623.	इब्राहिमी भाई पीरम अहमद	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5718 4-3-77	ग्राम लुगाया, ता० खेरालू, जिला मेहसाना ।

1	2	3	4	5
2624.	इकबाल पटेल हसन	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8354 11-3-82	मोटा चाकला, ग्राम और पो० आ० काबी, ता० जम्बुसार, जिला बरोच ।
2625.	इकबाल हुसैन बाबटर रोशन अली	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5336 23-9-76	पीछे स्टेशन, ग्राम समेनी, ता० आमोव, जिला बरोच ।
2626.	इकबाल हुसैन मनसूरी फकीर अहमद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6262 2-9-78	ग्राम सुन्दरपुर, पो० आ० सरवारपुर, ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा ।
2627.	इकबाल हुसैन नादिर फजल हुसैन	बी० ए० एम० एस० विक्रम वि० वि०, उज्जैन 1976	6509 1-2-79	101, नर्मिद मार्ग, ग्राम बरवाका, ग्राम खरगांव-431001
2628.	इला जानी शिवनारायण	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4367 3-5-74	मार्फत एस० एच० जानी, श्री जी निवास, दामापीठ सोसाईटी, ग्राम जूनागढ़ ।
2629.	इला जोशी महाशंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4096 17-10-73	पीछे वस्ता मन्दिर बाबूनिवास, ग्राम सरखेजी जिन्ना अमहदाबाद ।
2630.	इला संधाकी उत्तम चन्द	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	6982 7-5-79	ग्राम फिदियानगर, ता० रापर, बाया लकाविया जिला कच्छ ।
2631.	इला शाह विमललाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	4183 11-2-74	429/2, निमावा, पोल, रावपुरा, बड़ौदा ।
2632.	इला शाह अनूपलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5147 2-2-76	19, आनन्दनगर, सोसाईटी, सरखेज रोड, अहमदाबाद ।
2633.	इला शाह अनूपलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5877 8-9-77	9, प्रगति सोसाईटी, धैराधरठा रोड, कंकरिया अहमदाबाद ।
2634.	इला शिबेयी नरेन्द्र प्रसाद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5177 18-2-76	डी-3 आनन्द अपार्टमेंट बासना, अहमदाबाद ।
2635.	इला व्यास मदन लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8791 16-6-83	नजदीक वहेरासर, ग्राम और पो० आ० करुषेलिया बाया बरडीली, जिला सूरत ।
2636.	इलाबेन वैद्य सन्तराम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5996 19-12-77	बी-85, कल्पना सोसायटी, ल्येर रोड, सूरत ।
2637.	इलाबेन वैद्य नवीनचन्द्र	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5123 15-1-76	हरीपुरा, रामनाथ महादेव शेरी, सूरत ।
2638.	इलाबेन मोदी महेन्द्र कुमार	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5264 9-3-76	14, धर्मनगर, सोसायटी, नजदीक बैंक आफ बड़ौदा, साबरमती अहमदाबाद ।
2639.	इलाबेन पटेल सवाई लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7164 2-8-79	7, कमलमयन सोसाईटी नामने हाई कोर्ट, अहमदाबाद ।
2640.	इलाबेन पटेल शाना साई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	8050 27-4-81	ग्राम और पो० आ० मंजिलपुर 22, संकरबाग सोसायटी, ता० और जिला बड़ौदा ।

1	2	3	4	5
2641.	इलाबेन पटेल नटवरलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9215 18-2-85	ए-2, पी वी० डी० क्वा० सामने पो० आ०, मानपुरा, ग्राम सूरत, ता० चोरोयासी जिला सूरत ।
2642.	इलाबेन उपाध्याय जयशंकर	डी० एस० ए० सी० कमेटी आफ गुज आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1659 17-5-65	मार्फत रतीलाल डी० मारीब न्यू पोल गांधी गैट, रोड बड़ोवा ।
2643.	इलाबेन घासी दौलतराय	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4498 9-9-74	बालाजी रोड, पीछे इन्वू भवन, जिला सूरत ।
2644.	इलाबेनी ठाकरकर शेणी लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4651 12-3-75	मार्फत रजनी पलान, 14, रघुवीरपुरा, राजकोट ।
2645.	इलेस कुमार व० जोशी वकारबलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6404 10-11-78	22, गांधी पार्क, सोसायटी, मणीनगर, अहमदाबाद ।
2646.	इमतीजा पठान अब्दुल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9158 17-10-84	कालाबाढ़ गेट रोड, खलोवाड़ जिला जामनगर ।
2647.	इनासी घेवार इन्दुलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2920 7-3-70	मार्फत आई० के० घेवार, एचकोट, जंजमभासिया, जिला जामनगर ।
2648.	इनायत हुसैन कापसी नजुमउद्दीन	बी० ए० एम० एस० इम्बौर वि० वि० 1974	5534 20-9-76	ग्राम भादरोव, ता० महुवा, जिला भावनगर ।
2649.	इन्द्रा बारोट अम्बालाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3791 16-2-73	2370/8, रायपुर बंभला, पोल, अहमदाबाद
2650.	इन्दिरा भावसार अशीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4274 20-3-74	84, सबाँय नगर, बाहर की तरफ, माहपुर गेट, अहमदाबाद
2651.	इन्दिरा मिस्त्री जेठालाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात वि० वि० 1967	2508 16-6-67	ए-20/670, रज्जित नगर, जामनगर ।
2652.	इन्दिरा पट्टिया अन्सुलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9021 16-4-84	गिरधर भवन, नजदीक जूना बहूबारमाता, गीता मन्दिर रोड, अहमदाबाद
2653.	इन्दिरा पटेल जोर भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6822 22-3-79	ग्राम-छतराल, ता०-कासोल, जिला-मेहसाना
2154.	इन्दिरा पटेल मधु भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6974 7-5-79	6, निशिता अपार्ट०, पीछे पंराबाईज, पार्क पीछे गोहिल निवास, शास्त्रीनगर अहमदाबाद
2655.	इन्दिरा पटेल कान्तीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8457 15-6-82	ग्राम और पो० आ० लक्ष्मीपुरा, ता० बयाव, जिला साबरकांथा
2556.	इन्दिरा पटेल, बालूभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	9498 12-5-86	ग्राम और पो० आ० सिमजर, ता० और जिला बलसाद
2657.	इन्दिरा भट्ट अनुराग	डी० ए० एस० एफ० पी० आफ एण्ड यू सि० आफ मैडीसन, बम्बई 1956	711 1-11-56	ग्राम भटवा, ता० मानचैन्द्र, जिला जूनागढ़

1	2	3	4	5
2658.	इन्दिराबेन गोस्वामी जैठापुरी	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7649 28-3-80	क्यास्या फालिया, नजदीक मोटा मन्दिर, ग्राम जम्बुमार जिला बरोच
2659.	इन्दिरा बेन पटेल प्राणजीवनवास	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2862 6-12-69	मार्फत पटेल पी० एम० नं० 6, "धीवकुपा" तृतीय तल, रावपुरा, टावर, बड़ोवा
2660.	इन्दिरा बेन पटेल मरीचदान भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	7519 15-2-80	ग्राम और पो० आ०—अम्बाव, ता० बोरसाव, जिला खेडा
2661.	इन्दिरा बेन उपाध्याय जयस्तीलाल	जी० एफ० ए० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सी० फ़ाँफ़ मेडीसिन, गुजरात 1962	2151 25-8-66	महात्मा गांधी स्मारक, अस्पताल, सुरेन्द्रनगर।
2662.	इन्दिरा शाह शिमम लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7428 12-12-79	मार्फत डा० जी० के० शाह, ग्राम बादली, जिला जिला सावरकथा
2663.	इन्द्र जी वैद्य भाषकर राव	जी० एफ० ए० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सी० आफ मेडीसिन बम्बई 1960	1544 1-7-60	भाईदास मेहता शेरी, सगरामपुरा, सूरत
2664.	इन्द्र सिंह पधीर अमरसिंह	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8129 4-8-81	ग्राम मोता कालोद्रा, ता० खामभट्ट जिला खेडा
2665.	इन्द्र सिंह राणा मंगल सिंह	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8339 27-2-82	स्टेशन रोड, ग्राम, चुवा, ता० विम्बाड़ी, जिला सुरेन्द्रनगर
2666.	इन्द्रसिंह ठाकुर सुनुमान सिंह	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8794 16-6-83	ग्राम और पो० आ० भोज, ता० शिखाली, जिला वलसाद
2667.	इन्द्रसिंह जाला प्रवीण सिंह	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3093 13-1-71	ग्राम मेघान, वाया राजसीतापुर, जिला सुरेन्द्र नगर
2668.	इन्द्र वदन वैद्य छोटासाल	बी० एम० ए० एम० कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1962	1019 23-11-62	सामने बालभवन, सिविल अस्पताल, रोड, जहागीरपुरा, अहमदाबाद
2669.	इन्द्र वदन वैद्य मंगलाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० 1965	2009 20-4-66	नानी देसाई पोल, सोनी फालिया, सूरत-1
2670.	इन्द्र वदन वैद्य मणी भाई	आयुर्वेद मध्यमा भावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ोवा 1978	6514 1-2-79	राम निवास पीछे स्वास्तिक सिनेमा, ग्राम आनन्द, जिला खेडा
2671.	इन्द्र वहन अमीन मनू भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8684 3-3-83	सेबाबा भवन, ग्राम उस्तर सखा, ता० नादियाड जिला खेडा, 387370
2672.	इन्द्र वदन जानी मूल शंकर	आयु० विशारद फै० आफ इण्डियन मेडीसिन, सौराष्ट्र 1960	2219 17-6-60	ग्राम० आयु० डिस्पेंसरी, ग्राम भानपुरी, ता० ता० मालीयसीना, जिला जूनागढ़
2673.	इन्द्र वदन घट्ट सोमनाथ	बी० ए० एम० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सी० आफ मेडीसिन, बम्बई 1958	2106 1-7-58	रतहोदजी मन्दिर, ग्राम मतार, जिला खेडा

1	2	3	4	5
2674.	इन्द्र वदन दवे नानालाल	डी० ए० एम० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1950	2458 31-7-50	ग्राम बाकोर, ता० लूनावाडा, जिला पंचमहल.
2675.	इन्द्र वदन दवे कान्तीलाल	डी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9160 17-10-84	ब्लॉक नं० 4, कालेज सोसाइटी, ग्राम सुरेन्द्रनगर
2676.	इन्द्रवदन देसाई ठाकुर लाल	डी० एम० ए० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, गुजरात 1963	2439 23-3-67	ग्राम और पो० आ० मरोली बायें कस्तूरबा सेवाश्रम, मेन्टल अस्पताल, जिला बलसाव
2677.	इन्द्र वदन देवमुरारी जाधुराम	डी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3221 9-8-71	ग्राम पालीयाद, ता० माटोव, जिला भावनगर
2678.	इन्द्र वदन मेहता मनु भाई	डी० एम० ए० सी० कमेटी आफ युव आयु० कोर्स, गुजरात 1963	894 31-5-63	मनुसमुद्री, नजदीक विश्वबन्धु सोसायटी, सोमने आत्मदर्शन सोसायटी, भद्रदहा, अहमदाबाद-7
2679.	इन्द्र वदन पारिख विठ्ठल दास	डी० एम० ए० सी० कमेटी आफ युव आयु० कोर्स, गुजरात 1962	710 25-6-62	मुटवी जापा, जे० पी० पंडित हाऊस, ग्राम बड़ोवा
2680.	इन्द्र वदन पटेल अम्बालाल	डी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4295 27-3-74	सुधार छादकी, ग्राम उत्तरेसन्दार, जिला खेडा
2681.	इन्द्र वदन पटेल अम्बु भाई	डी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6195 15-7-78	ग्राम राजबेदोली, पो० आ० केसिया, ता० जेतपुर पाकी, जिला बड़ोवा
2682.	इन्द्र वदन पटेल नरसिंह भाई	डी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6347 4-10-78	ग्राम और पो० आ० बवेली, ता० संजैका जिला बड़ोवा
2683.	इन्द्र वदन पटेल नटवरलाल	डी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	9179 11-12-84	1696, सिम्बाडी, वाड, नवरंग गाम, अहमदाबाद-9
2684.	इन्दिरा वदन पुरोहित [शम्भू शंकर]	डी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	8788 22-4-80	ग्राम धामाजेल, ता० जैरावल, जिला जूनागढ़
2685.	इन्द्रा वदन रावल मणिसंकर	डी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	6182 15-6-78	ग्राम सरवाल, ता० धागेधरा, जिला धुवेंद्रनगर
2686.	इन्द्रा वदन सोनी रतीलाल	डी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9427 2-12-85	मार्फत सोनी रतीलाल डी० 3/बलबीतनधर शामने नेकनगर, ग्राम और पो० आ० इदार, जिला एस० के०
2687.	इन्द्र पूर्ती [जमुतलाल]	डी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० 1965	1657 30-11-65	"आशीष" आनन्दपुरा, बड़ोवा-1
2688.	इन्द्रबेन देसाई कान्तीलाल	डी० ए० एम० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन बम्बई 1955	387 2-4-56	डा० एम० डी० देसाई; डॉ० मोहम्मद, ग्राम वलसाद
2689.	इन्द्रबेन रावल नंधाराम	डी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5540 28-9-76	मार्फत डी० आर० रावल, गवने० हायर सैकेण्डरी स्कूल, ग्राम पिजीवाडा, जिला सिरोही (राज०)

1	2	3	4	5
2690.	इन्दुबेन श्याम अरविन्द भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1969	2952 16-4-70	ग्राम अबारामा, ता० मन्सेरो, जिला बलसाब
2691.	इन्दुकुमार मदन राम शंकर	आयुर्वेद शिक्षक नि० भा० आयु० बि०, दिल्ली 1947	8961 12-3-84	ग्राम और पो० आ० खानपुर, ता० कामरेज, जिला सूरत
2692.	इन्दुसाल चंद धामशंकर	आयुर्वेद शिक्षक नि० भा० आयु० बि०, दिल्ली 1941	6817 22-3-79	दन्तियावाली तोरो, करवालिया पारा, मजवीक पुलिस गेट, रानिका, ग्राम भावनगर
2693.	इन्दुमती भरवानिया जमोल सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० बि० बि० 1978	7890 25-4-89	ग्राम मोरोडा (कोच) ता० मंगरोल जिला सूरत
2694.	इन्दुमती जीजी बलमुखराय	बी० ए० एस० एफ० पी० आफ् आ० एण्ड यू० सि० आफ् मेडीसिन बम्बई 1953	212 1-2-85	6, गोरधननगर, सामने श्रीरवाजार, अहमदाबाद
2695.	इन्दुमती मिस्त्री उका भाई	डी० एस० ए० सी० कमेटी आफ् गुड आयु० कोर्स, गुजरात 1966	1949 3-3-66	श्री पांड्या खावो कार्यालय, ग्राम बलाल, जिला अमरेली
2696.	इन्दुमती पटेल काशीनाथ	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1972	3800 19-2-73	ग्राम पाससलबेवी, पो० आ० नन्दाद खेडा, ता० काहवा, जिला घुलिया
2697.	इन्दुमती पिपाडिया भारनदास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1973	4395 31-5-74	मार्फत आर० एन० पिपाडिया, 2/90 गवर्न० कालोनी, वरियाकहन, चुम्पट, काईवान, अहमदाबाद
2698.	इन्दुमती ठक्कर नरसिंहावास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1973	4284 25-3-78	ग्राम अवेसाद, ता० रापड, जिला कच्छ
2699.	इन्दुमती बेन खारावी जीवाभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1981	8506 27-8-82	19, रेक पोरवाब, सोसाईटी, पन्नाओ अहमदाबाद
2700.	इन्दू प्रसाद जीजी श्रीरजसाल	ए० बी० बी० तिलक महाराज वि०, पूना 1943	2827	पाठक फालिया, ग्राम काकनपुर, ता० गोधारा जिला पंचमहल
2701.	इन्दू प्रसाद पांड्या मधु सुदन	आयु० मध्यमा आवणमास वक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1974	7192 17-8-79	बजवाडा, समाओ, पोब ग्राम बड़ौदा
2702.	इन्दुसभाई मोरा इत्ताहिस भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1982	8559 16-9-82	ग्राम विपावान, ता० नादिवाड, जिला खेडा
2703.	इन्नाबासा ववे पद्म शंकर	आयुर्वेद मध्यमा आवणमास वक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1977	7770 17-7-80	ए-9-4, गोदावरी नगर, जौड, बाबना अहमदा- बाद
2704.	इन्दर दास भजसार भागचन्द	बी० ए० एम० एल० विदर्भ बोर्ड आफ् आ० एण्ड यू० सि० आफ् मेडीसिन, महाराष्ट्र 1964	4342 16-4-74	सेवाश्रम, प्रथम तल, लिबर्टी गार्डन, मन्नाड बम्बई-64
2705.	इन्दरभाई पटेल रत्नोद भाई	बी० ए० एम० एल० गुजरात आयु० बि० बि० 1983	9445 23-12-85	ग्राम बीरपुर, 383230, ता० ह्वार, जिला एस० के०

1	2	3	4	5
2706.	ईश्वर भाई भास्कर नारीभाई	आयुर्वेद उस्तामा श्रावणमास वक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ोवा, 1976	6572 16-2-79	8, उस्तरा को हाऊस सोसायटी, नजदीक कजंन आश्रम, अहमदाबाद
2707.	ईश्वर भाई जीहाम पुरषोत्तम भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3803 15-9-72	ग्राम करमल, ता० बभोई, जिला बड़ोवा
2708.	ईश्वर भाई बलबाडी जगजीवनदास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5198 25-2-76	गनेश मिवास, कुम्भारबाड़ा, पो० आ० फतेहपुर बड़ोवा-6
2709.	ईश्वर भाई लिम्बाशिया रामा भाई	आयुर्वेद मध्यमा श्रावणमास वक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ोवा 1976	6541 12-2-79	ग्राम-अम्बालियागान, स्टेशन रोड, ता० घोर मेहसाना
2710.	ईश्वरभाई परमार नारसभाई	आयुर्वेद भिषक् नि० प्रा० आयु० वि०, दिल्ली 1963	7082 5-7-79	ग्राम सीतापुर (पन्सारा) पो० आ० जसिया, ता० गरिमाघर जिला भावनगर
2711.	ईश्वरभाई पटेल भाईलाल भाई	डी० एफ० ए० एम० पी० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1960	501 5-12-61	31 बी, भद्रकुंज सोसायटी, नजदीक काशी विश्वनाथ महादेव मणिनगर, अहमदाबाद
2712.	ईश्वरभाई पटेल जेशिगामाई	डी० एस० ए० सी० कमेटी आफ युव आयु० कोर्स, गुजरात 1962	502 28-11-62	ग्राम मोती कोराल, ता० कजंन, जिला बड़ोवा
2713.	ईश्वरलाल पटेल महीजी भाई	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4788 21-4-75	ग्राम वावु ता० पादरा, जिला बड़ोवा
714.	ईश्वर भाई पटेल केसव भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5955 4-11-77	ग्राम मोटा बरछा, ता० भोरयासी जिला सूरत
715.	ईश्वरभाई प्रजापति सुनजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5073 15-12-75	ग्राम रतनपुर, ता० इदार, जिला साबरकंधा
2716.	ईश्वर भाई पटेल बम्बालाल	डी० ए० एस० एफ० पी० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1954	500 3-9-54	ग्राम चिखोडा ता० आनन्व, जिला खेडा
717.	ईश्वरभारती गोसाई कैलाश भारती	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4142 28-12-73	575, बावा टावा, धोली बकला, गोमतीपुर, अहमदाबाद]]
718.	ईश्वरदत्तजदेसाई बहुशाभाई	आयुर्वेद मध्यमा श्रावणमास वक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ोवा 1933 एच० ए० एम० बू० पी० आयु० महाविद्यालय पाठन, 1934	389 11-10-40	नगर कृपा, ग्राम, पेटलाव, जिला खेडा
719.	ईश्वरलाल भोसाशिया जैठालाल	आयुर्वेद मध्यमा श्रावणमास वक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ोवा 1979	9037 10-5-84	बम्बकलाल वारजी हाऊस, बड़वा, नजदीक खण्डवा कुवा, ग्राम भावनगर
720.	ईश्वरलाल देकाबाडिया नारनदास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5074 15-12-75	ग्राम मोटा अनेवाडिया, ता० पांगधरा जिला सुरेन्द्रनगर

1	2	3	4	5
2721.	ईश्वर लाल देसाई रन्छोवजी	जी० एफ० ए० एम० फे० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1959	2380 2-1-59	मार्कस पार्वतीबेन अस्पताल सोमनाथ रोड, ग्राम बिलीमोरा, जिला वलसाड ।
2722.	ईश्वर लाल गौन्वामी बहेछरभाई	बी० एस० ए० एम गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6348 4-10-78	ग्राम और पो० आ० बुनवास, ता० महवा, जिला भावनगर
2723.	ईश्वर लाल गोधावी कृष्ण भाई	आयुर्वेद बिषक् नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1973	7108 13-7-79	नजदीक नगरपालिका, ग्राम और पो० आ० हुरीजी, जिला मेहसाना
2724.	ईश्वरलाल कपाड़िया शिवलाल	जी० एफ० ए० एम० फे० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1958	99 2-1-59	इन्दरपुरा खागीवाड़, ग्राम सूरत
2725.	ईश्वरलाल नायक प्रायजी	डी० एस० एस० एफ० फे० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1955	470 3-1-55	ग्राम मौलांवारा, ता० भवसारी, जिला वलसाड
2726.	ईश्वर लाल पांड्या दशजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3819 26-2-73	ग्राम बघेला, ता० दिव, जिला जूनागढ़
2727.	ईश्वर लाल पारिख मनसुखलाल	आयुर्वेद मध्यमा श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6481 1-2-79	सामुभवन रोड, नं० 3, उधनानगर, ग्राम उधना ता० चोरयासी, जिला सूरत
2728.	ईश्वरलाल पटेल सहया भाई	जी० एफ० ए० एम० फे० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, गुजरात 1965	1792	ग्राम और पो० आ० कमलछोद, बाया माधो-जिला सूरत
2729.	ईश्वर लाल पटेल गंगाराम	जी० एफ० ए० एम० फे० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, गुजरात, 1963	2475 3-5-67	मेडीकल आफिसर, ग्राम वेदाच, ता० पालनपुर, जिला बनासकंधा
2730.	ईश्वरलाल पटेल मोहन भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1968	2856 27-10-69	ग्राम मीठापुर, बाया जुयाला, पो० आ० खाना पियाली, ता० मेनवारवा, जिला जूनागढ़।
2731.	ईश्वरलाल पटेल उगर दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4017 24-8-73	ग्राम कानी, ता० पाटन, जिला मेहसाना
2732.	ईश्वर लाल पटेल मोहनलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4378 20-5-74	ग्राम बाबीपुरा, पो० आ० हासका, ता० खेरार, जिला मेहसाना
2733.	ईश्वरलाल पटेल भवनभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6038 16-2-78	ग्राम कामरोली, ता० ओलवाडा, जिला सूरत
2734.	ईश्वरलाल पटेल अम्बालाल	बैद्य बिहारब नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1973	7238 30-8-79	ग्राम सावजी, ता० तिलकवाडा, जिला बड़ौदा
2735.	ईश्वरलाल सन्तोकी प्रभू दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०। 1970	3308 5-1-72	ग्राम गुजरादी, ता० धामधारा, जिला सुवेन्द्रनगर

1	2	3	4	5
2736.	ईश्वर लाल मुभार अमृतलाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4029 30-8-73	ग्राम सरदारपुर, ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा
2737.	ईश्वरलाल ठक्कर देवराम	बी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० 1967	2710 19-11-68	ग्राम बराही, जिला बनासकंथा
2738.	ईश्वर लाल थाववाला, मनुभाई	बी० ए० एम० एफ० फ० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1955	338 1-12-55	16, मोराजी मील इस्टेट, सामने भारत माता सिनेमा, लाल बाग, बम्बई
2739.	इस्माईल टेवा मोहभाई	वैद्याचार्य नि० आ० आयु० वि०, दिल्ली 1964	6584 16-2-79	1, अयराज, प्लाट थिबा, हाउ० ग्राम राजकोट
2740.	इस्माइल भाई भट्ट अब्दुल भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० ¹ 1977	6188 5-7-78	ग्राम और पो० आ० गध वाया जावर, ता० हिम्मतनगर, जिला साबरकंथ
2741.	इस्माइल भाई मंसूरी अब्दुल भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8110 2-7-81	ग्राम और पो० आ० चादा, ता० खेरालु, जिला मेहसाणा
2742.	इकबाल मंसूरी इब्राहिम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5687 24-2-77	5/1/सी, आसियाना अपार्टमेंट, नारायण नगर रोड, पालड़ी, अहमदाबाद
2743.	जाववजी जाविया जीवराज	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4430 18-7-74	ग्राम महीबतपुर, वाया लुयाला, ता० बन्धाली, जिला जूनागढ़
2744.	जाववभाई मोषा मोषा भाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9350 21-8-85	सेक्टर 16, ब्लॉक 105/1, छ, ग्राम गांधीनगर-382016
2745.	जीवाभाई धोरी पुरुषोत्तम भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5810 24-5-77	2/1448, सगरामपुरा, बेसाई शेरी, नाका पटेल किसानिक, सुरत-2
2746.	जफर मर्चेंट बकर अली	बी० आई० एम० एम० बोर्ड आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, (दिल्ली प्रशासन) 1963	1341 13-11-63	वि कतेह् फार्मोसी, प्रतापनगर, बड़ोवा-4
2747.	जगदीप पुरोहित देवेश कुमार	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० ¹ 1981	8735 19-4-83	मार्फते डा० एच० एम० भट्ट, 3/677, कवावा रोड, नवपुरा, सुरत-395003
2748.	जगन्नाथ जोशी प्रयामजी भाई	डी० ए० एम० एफ० फ० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1956	224 1-8-56	महादेव प्रसाद, औषधालय, शेरी नं० 3, राजपुत्रपुरा, राजकोट
2749.	जगन्नाथ श्रीखानडा रामचन्द्र	डी० ए० एम० एफ० फ० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1946	1296 1-12-47	तिरुवी राहत मंडल, ग्राम और जिला सुरेन्द्रनगर
2750.	जगदीप कुमार शुक्ल वसन्त राय	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7691 29-4-80	वसन्त निवास, पुरानी सोसायटी, ग्राम लिम्बाड़ी, जिला सुरेन्द्रनगर

1	2	3	4	5
2751.	जगदीप सिंह सोलंकी प्रताप सिंह	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि०] 1984	9466 11-2-86	ग्राम और पो० आ० भासपाड़ा 394540, ता० आसपाड़ा, जिला सूरत ।
2752.	जगदीश भानिज बालकृष्ण	बी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० 1966	2276 25-11-66	1, पारतोष, सोसायटी, अजवा रोड़, बड़ौचा ।
2753.	जगदीश भट्ट नामचण्कर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7328 15-10-79	ब्लॉक नं० 4, कमलेश सोसायटी, वधाव रोड़, राजेन्द्र पार्क, स्टैण्ड, अहमदाबाद
2754.	जगदीश भूटाक लक्ष्मण	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4188 12-2-74	मार्फत भूटाक एल० एम०, ग्राम बागता, ता० कुक्वाच, जिला अमरेली
2755.	जगदीश लाहेरू जयन्तीलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5529 17-9-76	जैराम निवाच, बेवी गेट रोड़, राजकोट
2756.	जगदीश मेहता भाई शंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3108 5-2-71	प्लॉट नं० 1019, देवकुंज, कृष्णानगर, घामनगर
2757.	जगदीश पटेल बहिया भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5131 23-1-76	ग्राम टिम्बरवा, ता० सिनोर, जिला बड़ौचा
2758.	जगदीश पटेल राजाराम	बी० ए० एम० एम० दुन्दोर वि० वि० 1976	6419 18-11-78	ग्राम पिथौरा, पो० आ० बलसामुण्ड, ता० कसारबाड़ा जिला खरगोन (म० प्र०)
2759.	जगदीश पाटिल जागू	बी० ए० एम० एम० पूना वि० वि० 1975	5263 8-3-76	ग्राम और ता० शाहवा, जिला सुपिया
2760.	जगदीश शेष प्रजाराज भाई	आयुर्वेद शिषक नि० घा० आयु० वि०, दिल्ली 1975	6793 21-3-79	7, जमनाच प्लॉट डा० राधाकृष्ण रोड़, ग्राम राजकोट
2761.	जगदीश टंक तुलसीदास	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9352 21-8-85	मार्फत टंक टी० के० नजदीक कामपिया कुवा, ग्राम धोरजी, 380410, जिला राजकोट
2762.	जगदीश बलोरा रतीलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2982 17-6-70	18, अकोबाबाड़ी, सरसपुर, अहमदाबाद
2763.	जगदीश बसानी राजजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5103 29-12-75	मार्फत शोभान बसानी, आयु० क्लिनिक स्पेक्टम द्वितीय तल, अहमदाबाद
2764.	जगदीश भाई पटेल जश भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4529 15-3-74	शियापुरा, रावपुरा, बड़ौचा
2765.	जगदीश भाई पटेल मगन भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5038 13-11-75	ग्राम शीहड़ा, रामनिवास, जिला बड़ौचा
2766.	जगदीश चन्द्र वैद्य नटवर लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5351 14-4-76	3, गजामण्ड सोसायटी, दक्षिणी सोसायटी मणिनगर, अहमदाबाद
2767.	जगदीश चन्द्र अचारा मरभे राम	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1967	2513 15-8-67	अचारा बिल्डिंग, प्लॉट 49 प्रह्लाद प्लॉट, ग्राम राजकोट

1	2	3	4	5
2768.	जगदीश चन्द्र भट्ट बालकृष्ण	आयुर्वेद विशारद डी० आफ डेविडयन मेडीसिन, सौराष्ट्र 1959	2229 20-3-61	खेड़ा जिला पंचायत आयु० डिस्पेंसरी, ग्राम वासो, ता० मादियाड़, जिला खेड़ा
2769.	जगदीशचन्द्र भट्ट प्रभाशंकर	एच० पी० ए० पो० प्रे० ट्रेनिंग सेंटर इन आयु० आमनगर 1961	822 15-1-62	मार्फत वैद्य प्रभाशंकर, ग्राम पालीटना
2770.	जगदीशचन्द्र भट्ट केशवलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4771 9-4-75	मार्फत भूपतराय के० भट्ट चित्तारिया स्ट्रीट रोड ग्राम बिलखा जिला जूनागढ़
2771.	जगदीशचन्द्र भट्ट शान्तीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8666 16-2-83	शिवम शंकावी शेरी ग्रीन चौक, ग्राम और ता० मोरावी, जिला राजकोट
2772.	जगदीशचन्द्र भट्ट गुलाब सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5267 9-3-76	श्री धर्मस्तरि आयुर्वेदाश्रम, नजदीक रेलवे स्टेशन, ग्राम बोगवल, जिला जूनागढ़
2773.	जगदीशचन्द्र भट्ट रतीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5154 7-2-76	मार्फत वैद्य आर० एम० दवे, 33, विगिजय प्लाट, ग्राम जामनगर
2774.	जगदीशचन्द्र भट्ट योगेश कुमार	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4341 18-4-74	ग्राम उगेड़ी, ता० माखतराना, जिला कच्छ
2775.	जगदीश चन्द्र भट्ट जयशंतीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4455 26-8-74	पुरबाव परू ग्राम पड़ारा, जिला बड़ौदा
2776.	जगदीश चन्द्र भट्ट रमनलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2896 12-2-70	1495, कोकापिया पोल, सारंगपुर, अहमदाबाद
2777.	जगदीश चन्द्र भट्ट केशवलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3133 20-2-71	जीवपारा शेरी महावीर निवास, ग्राम टंकारा ता० मोरबी, जिला राजकोट
2778.	जगदीश चन्द्र भट्ट जमना वाम	बी० ए० एम० एम० बिदर्भ बोर्ड आफ आ० एण्ड यू० वि० अँ फ मेडीसिन, महाराष्ट्र 1970	4174 5-2-74	श्रीराम कुंज, लक्ष्मीबाड़ी, ग्राम राजकोट
2779.	जगदीश चन्द्र भट्ट प्रभात सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8884 19-12-83	ग्राम चारना, मुचाड़ा, पो० आ० धोदसार, ता० महेमदाबाद जिला खेड़ा
2780.	जगदीश चन्द्र भट्ट राव शंकर	बी० एस० ए० सी० कमेटी आफ मुड आयु० कौंस, गुजरात 1963	746 21-6-63	ग्राम सेबासी, जिला बड़ौदा
2781.	जगदीश चन्द्र भट्ट बलपत भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	6557 4-10-76	नजदीक हाई स्कूल, ग्राम रंगपुर, ता० धांगुलम जिला अहमदाबाद
2782.	जगदीश चन्द्र भट्ट केशव लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7494 17-1-80	बी-3, भावना सोसायटी, पीछे नवजीवन सोसायटी अजावा रोड, ग्राम बड़ौदा
2783.	जगदीश चन्द्र भट्ट रतीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3523 28-6-72	मोटा बरवाजा, ग्राम सरसा, ता० आनन्द जिला खेड़ा
2784.	जगदीश चन्द्र भट्ट भाईला भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7021 16-5-79	ग्राम और पो० आ० दुधावाड़ा, ता० पादरा, जिला बड़ौदा

1	2	3	4	5
2785.	जगदीश चन्द्र पुरोहित हीरालाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3121 17-2-71	वैद्यकीय आफिसर, ग्राम कावना कावनी, बाय सन्तरामपुर, जिला पंचमहल ।
2786.	जगदीशचन्द्र पुरोहित यूमिया शंकर	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5555 4-10-76	कादियावाड़, चाकवानी धूरी, ग्राम जूनापड़ ।
2787.	जगदीशचन्द्र पुरोहित केशवलाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6332 4-10-78	ग्राम और मो० ता० दरद, जिला बानसकंधा ।
2788.	जगदीशचन्द्र राजगुरु मूल शंकर	डी० एस्० ए० सी० कमेंटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1963	965 6-6-63	सुर्ती करसान हाउस, स्टेशन रोड, भावनगर ।
2789.	जगदीशचन्द्र रावल मणिलाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4371 8-5-74	ग्राम पिल्लूवा, ता० प्राणतीज, जिला सबारकंधा ।
2790.	जगदीशचन्द्र शाह चन्डूलाल	डी० ए० एस्० एफ० पी० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसन बम्बई 1959	2899 1-12-59	ग्राम भावीसार स्ट्रीट, टिम्बा, रोड़, ता० गीधरा जिला पंचमहल ।
2791.	जगदीशचन्द्र शाह मणिलाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4081 5-10-73	17, चित्तकूट सोसायटी, बागोविद्या रोड़, बड़ौदा ।
2792.	जगदीशचन्द्र शाह नबवीत लाल	आयु० मध्यमा श्रावणमास बक्षिण परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6620 21-2-79	वैकुण्ठपुरी, ग्राम जन्मराल, ता० कालोद, जिला पंचमहल ।
2793.	जगदीशचन्द्र शेरधिया गंगादास घाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8127 4-8-81	ग्राम—कालना, बाया और ता० घोराजी, जिला राजकोट ।
2794.	जगदीशचन्द्र शेरधिया अम्बाशाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4964 4-10-75	पंच लकी, सामने कोठ बाब ग्राम भुज, जिला कच्छ ।
2795.	जगदीशचन्द्र त्रिवेदी करजार्शंकर	आयुर्वेद विशारद रा० सं० मन्त्रालय, बड़ौदा 1955	1648 14-5-65	सोनी पोल नं० 4, बाड़ी, बनिया शेरी नाका, बड़ौदा ।
2796.	जगदीशचन्द्र त्रिवेदी हरीप्रसाद	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3635 9-10-72	ग्राम पिपारला, पो० आ० साधरा, बाया त्रपाज, ता० तालजा, जिला भावनगर ।
2797.	जगदीशचन्द्र त्रिवेदी गिरजाशंकर	वैद्याचार्य नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1963	7340 16-10-79	सम्बलपुर एल०आई० जी०, 324, आनन्द नगर, जिला भावनगर-5 ।
2798.	जगदीशचन्द्र त्रिवेदी भीखीलाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7488 17-1-80	मार्फत बी० एस्० ए० पी०, जुनी भारियली बाबर बाहुर स्वपारी गेट, दिवानपारा रोड़, भावनगर— 364001
2799.	जगदीशचन्द्र व्यास नरोत्तम दास	वैद्य विशारद नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1964	6958 3-5-79	घारमाली बंगलो, ग्राम वीर जिला सुरेन्द्रनगर ।
2800.	जगदीशचन्द्र व्यास विश्वनाथ	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7508 2-2-80	ग्राम पिसाई, ता० बाभोई, जिला बड़ौदा ।

1	2	3	4	5
2801.	जगदीशकुमार भट्ट मोहनलाल	बी० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4495 9-9-74	सेवक स्ट्रीट, ग्राम सिगुरा, ता० अम्बार, जिला कच्छ ।
2802.	जगदीश कुमार गांधी मोहनलाल	बी० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9458 10-1-86	इबन्दा चौक, ग्राम दिल्लीमोरा, ता० गणवेशी, जिला, बलसाव ।
2803.	जगदीश कुमार पांड्या दहियालाल	बी० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4961 4-10-75	ग्राम बिवादा, कच्छ, ता० मानवेशी, जिला कच्छ ।
2804.	जगदीश कुमार पटेल दहया भारी	बी० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3100 30-1-71	धोबीशेरी, सीयापुर, हाउस नं० 7/3276, ग्राम-सूरत ।
2805.	जगदीश कुमार पटेल अम्बालाल	बी० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4085 8-10-73	सरदार पटेल नगर, चकराखरी ब्लाक नं० 39, इस्लाम क्रिज, अहमदाबाद ।
2806.	जगदीश कुमार राजल मटबरलाल	बी० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6380 27-10-78	पी० इन्स्यु० डी० न्वा० सामने पो० आ०, हिम्मतनगर, जिला साबरकंधा ।
2807.	जगदीश कुमार सिबेंबी हरीलाल	बी० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5908 28-9-77	सी-39, कर्मचारी नगर, फो० हाउ० सोसायटी, बटलोविया रोड, नारनपुरा, अंकुर सोसायटी, अहमदाबाद ।
2808.	जगदीश नारायण पुरोहित प्रेम नारायण	बी० ए० ए० ए० विक्रम वि० वि० 1978	9165 17-10-84	ग्राम और पो० आ०, रिगनोब, जिला रतलाम, (म० प्र०) ।
2809.	जगदीश प्रसाव आचार्य बलदेव दास	आयुर्वेद मध्यमा आवणमास दक्षिणा परोभा समिति, बड़ौदा 1973	6491 1-2-79	66/1179, शिवानन्द नगर कालोनी, नगरवेल् हनुमान, रश्मियाल रोड, अहमदाबाद ।
2810.	जगदीश प्रसाव दवे यादवराय	डी० ए० ए० ए० फो० आ० ए० ए० ए० 1947 बम्बई	356 31-5-48	ग्राम कनोद, थाया वेरोल, ता० कालोला, जिला पंचमहल ।
2811.	जगदीश प्रसाव यादव चन्द्र बली	आयुर्वेद शास्त्री नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1975	9612 10-11-86	हरीहर महादेव मन्दिर, गवपुरा, रेंडक्रास, गोली रोड, ग्राम बड़ौदा-390015 ।
2812.	जगदीश राय जोशी मोहन लाल	बैद्याचार्य नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1965	7445 21-12-79	ग्राम सुंधिया, बाया घाटी (मोती) ता० विष्वाचर, जिला जूनागढ़ ।
2813.	जगजीवन टम्ना कन्धीमल	डी० ए० ए० सी० कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1962	292 16-6-62	पो० आ० बरवाड़ा, नाकर, राधनपुर, जिला बानसकंधा
2814.	जगजीवन दास गोम्पिलिया अमरदास	बी० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8445 31-5-82	ग्राम और पो० आ० बाजबी, ता० उमा, जिला जूनागढ़ ।
2815.	जगमोहन जगत विक्रम भारी	डी० ए० ए० सी० कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1967	2574 23-8-67	ग्राम कुनरपारा, ता० सखेंडा, जिला बड़ौदा ।
2816.	जगमोहन प्रमर् धरदयाल सिंह	एच० बी० ए० पो० से० ट्रेनिंग सेंटर इन आयु०, जामनगर 1961	5433 18-6-76	ब्लाक नं० डी-33, गांधीनगर, कालोनी ग्राम जामनगर ।

1	2	3	4	5
2817.	जगमोहन दास काठिया विभुवनवास	डी० ए० एम० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन बम्बई 1955	101 1-12-56	ग्राम आमोद, जिला बरोच ।
2818.	जगनाथ बेद्य दुरुल्लम	डी० एस० ए० सी० कमेटी आफ बूड आयु० कोर्स, महाराष्ट्र 1960	1026 23-10-61	एस० एम० पी० सेंटर, ग्राम मुमपार, ता० सत्तरामपुर, जिला पंचमहल ।
2819.	जगन्नाथ दवे बाणरुण	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन बम्बई 1951	356 10-7-51	687, देरी रोड, माडिकवाडी, ग्राम भावनगर ।
2820.	जगस्ती भट्ट कन्हैयालाल	डी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9206 31-1-85	2, स्वास्तिक सोसायटी, जूना रास्ता, ग्राम आनन्द, जिला खेडा ।
2821.	जगस्ती पाठक साम्बक लाल	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4506 17-9-74	नगर चकला, वाला मेंहता, भेरी ग्राम आमनगर ।
2822.	जगस्ती पाठक चितरंजन	डी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9556 3-8-86	मार्केट के० के० भट्ट (मटसछाया) नजदीक ग्रीड, सामने ग्रामन्य आर्ट्स कालेज, ग्राम आनन्द ।
2823.	जगस्तीबेन बेद्य किशोर चन्द्र	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6925 11-4-79	38, आनन्द कालोनी, नवगाम (गाध) आमनगर ।
2824.	जगुभाई चवामा गोकुभा]	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3698 29-11-72	ग्राम पंची, पो० आ० छोलैर, बायाबाबुका, जिला अहमदाबाद ।
2825.	जगुभाई पटेल कुलाभाई	डी० एफ० ए० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन बम्बई 1957	559 12-9-63	ग्राम बरबोली, जिला सुरत ।
2826.	जगुभाई पटेल भुला भाई	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	3302 20-12-71	गिरवारी रोड, ग्राम पाठन, जिला मेहसाणा ।
2827.	जगुभाई लिम्बुनिया काशीराम	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3765 7-2-73	नजदीक रामजी मन्दिर, ग्राम मोहरेल, ता० मादिभाद, जिला खेडा ।
2828.	जगजीवनदास पल्लिया धुवारदास	आयु० भिन्नक मि० आ० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1963	8767 11-5-83	संसूर रोड, नजदीक गृहार कोष, ग्राम और ता० बिरागगाम, जिला अहमदाबाद ।
2829.	जहीदा अहमद मलिक बोसु मिया	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8697 3-3-83	पुलिस लॉन, ग्राम और पो० आ० और ता० बासरा, जिला खेडा ।
2830.	जैमिनी पटेल कानुभाई	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9172 13-11-84	सामने पो० आ०, ग्राम और ता० गणवेशी, जिला वससाव ।
2831.	जैमिनी लिबेरो जगदीशचन्द्र	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6694 3-3-89	2103, सारंगपुर, दोलतबान, मन्नाबाबा, अहमदाबाद ।
2832.	जालुभाई बरबाडा कठाड भाई	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8135 21-8-81	ग्राम चरोडिया, ता० राजसिटी, जिला अमरसैली ।

1	2	3	4	5
2833.	जमाल जामजी	आयु. वि. वि. नि. भा. आयु. वि., दिल्ली 1957	7241 30-9-79	ग्राम अमर पुर (गीर) ता. मालिवाटीना, जिला जुनागढ़ ।
2834.	जमनाबाई जमानी बाबू भाई	बी. एस्. ए. एम. गुजरात आयु. वि. वि. 1982	8821 11-8-83	ग्राम रयाबी, ता. जामकंबोराना, जिला राजकोट
2835.	जमनाबास नरसोराम	आयुर्वेद वि. वि. नि. भा. आयु. वि., दिल्ली 1960	7140 24-7-79	ग्राम मील, ता. मंजरीस, जिला जुनागढ़ ।
2836.	जमनाबास जगन्ना वामजी भाई	बी. एस्. ए. एम. गुजरात आयु. वि. वि. 1979	7792 19-8-80	ग्राम भीरपुर (जखराम) स्वामी मठिर रोटी जिला राजकोट ।
2837.	जमनाबास बाबाभिया केशवजी	बी. एस्. ए. एम. गुजरात आयु. वि. वि. 1972	4072 1-10-73	ग्राम धानापिपली, बाया सुभाला, ता. बन्धारी जिला जुनागढ़ ।
2838.	जमनाबास मानबर सबाजी भाई	बी. एस्. ए. एम. गुजरात आयु. वि. वि. 1976	6133 12-4-78	एम. जी. रोड, ग्राम कुटियाना, जिला जुनागढ़ ।
2839.	जमनाबास पटेल कुराजी भाई	बी. ए. एम. एस्. गुजरात वि. वि. 1983	1381 27-12-83	स्टेशन रोड, ग्राम बटवा, जिला जुनागढ़ ।
2840.	जमनाकुमार पटेल कल्याणजी भाई	बी. एस्. ए. एम. गुजरात आयु. वि. वि. 1982	8523 27-8-82	ग्राम बोवापिपार, बाया और ता. पावाघारी, जिला राजकोट ।
2841.	जमनाकुमार उपाध्याय उनिया शंकर	बी. एस्. ए. एम. गुजरात आयु. वि. वि., 1977	6531 3-2-79	ग्राम नगर पार्क, कम नं. 4, प्लॉट नं. 40, ग्राम राजकोट ।
2842.	जमनापुरी गोसाई रत्नपुरी	बी. एस्. ए. एम. गुजरात आयु. वि. वि. 1972	4159 21-2-74	ग्राम जामला, ता. कलोल, जिला मेहसाणा ।
2843.	जमना समत लाडवा जयराम	बैद्याचार्य नि. भा. आयु. वि., दिल्ली 1969	7876 14-11-80	ग्राम तरासी, बाया और ता. जाम जोधापुर जिला जामनगर ।
2844.	जमनाबास भद्रूट छोटालाल	आयुर्वेद उस्तमा श्रावणमास दक्षिण परीक्षा समिति, बड़ोवा, 1959	9503 12-5-86	1968/3, मानी सास्त्रीबाड़ा, मरसपुर, अहमदाबाद
2845.	जमनाबास बाबाभिया नरसी भाई	बी. एस्. ए. एम. गुजरात आयु. वि. वि. 1975	4235 28-2-74	सिनेमा रोड, ग्राम मानबर, जिला जुनागढ़
2846.	जमनाबास बलसानिया हरीलाल	बी. एस्. ए. एम. गुजरात आयु. वि. वि. 1971	3383 16-2-72	मोडिया रोटी, पी. भा. अण्णवार, ता. कपसेटा जिला राजकोट ।
2847.	जमनाबास हीरानी लक्ष्मीदास	बी. एस्. ए. एम. गुजरात आयु. वि. वि. 1978	7696 29-4-80	2/1955/सी/बो डा. बी. एस्. हीरानी, गोवाघरी बन, बक, 15, ग्राम और जिला- राजकोट ।
2848.	जमनाबास कसबा मोहनलाल	बी. ए. एम. एस्. गुजरात वि. वि. 1967	2617 19-12-67	ग्राम राजकान्ठो राणा, ता. राणाबाब, जिला जुनागढ़ ।
2849.	जमनाबास बालभारा देवजी भाई	बी. एस्. ए. एम. गुजरात आयु. वि. वि. 1974	4762 9-4-75	ग्राम जवानिया बाया माडिका हरीना, जिला जुनागढ़ ।

1	2	3	4	5
2850.	जमनाजय मटवरलाल	जी० एफ० ए० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मैडीसिन गुजरात 1969	2424 8-3-67	14, भासापुरी सोसायटी, अकोटा, पासा रोड, ग्राम बरोड़ा-5
2851.	अम्बुवती पुरोहित मुखराम	शैच विशारद नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1972	7097 10-7-79	जोमनाथ कालिया, ग्राम चोरबाड़, जिला जुनागढ़
2852.	जमुनाबेन पोपट बृन्दावनदास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3923 19-4-73	मार्फत बृन्दावनदास पी० पोपट, सामने अम्बा- लिया गेट 3, दिग्विजय प्लाट, बृन्दावनबाग, ग्राम जामनगर
2853.	जनकबेन मास्त्री हरीप्रसाद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8134 21-8-81	ग्राम पुंधारा, ता० धीजापुर, जिला मेहसाना
2854.	जनकबाला सोनी जनककुमार	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9177 11-12-84	ग्राम और पो० आ० नेतरामअली, ता० ह्वार, जिला एस० के०
2855.	जानकीदास वैभवराणी धर्मदास	आयुर्वेद शिक्षक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1960	8746 19-4-83	ग्राम घादाली भान, ता० जासवान, जिला राजकोट
2856.	जनककुमार दने विष्णु प्रसाद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8449 15-6-82	पटेल बास, स्ट्रीट जेविओर्स स्कूल रोड, नजदीक हेमनगर बस स्टाप, मेमनगर, अहमदाबाद
2857.	जनककुमर रर जोशी वैष्णो शंकर	बी० ए० एम० एत० बम्बई वि० वि० 1981	9114 23-8-84	ईश्वर भवन, द्वितीय तल, कम नं० 21, 89 बाविलकर रोड, सामने कामत होटल, ग्राम बम्बई-4
2858.	जनककुमार उपाध्याय महादेव भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8277 16-1-82	मार्फत प्रो० एम० आर० उपाध्याय, सी-3, रामनिवास, गवर्न० क्वा० जुनागढ़
2859.	जनकलाल वैद्य रमनलाल	बी० ए० एस० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मैडीसिन बम्बई 1947	1027 4-3-48	नाना पांड्या पोल, ग्राम पेटलाव, जिला खेड़ा
2860.	जनमार्शकर मेहता लालशंकर	आयुर्वेद शिक्षक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1959	8627 28-1-83	11/रामनाथापारा, कानुमा राजपूत हाउस, ग्राम राजकोट
2861.	जनकराय भट्ट अमतराय	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3827 3-10-72	भागा तालव, गागा ओजा बांधा, ग्राम भावनगर
2862.	जनक राय भट्ट रेखा शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4605 8-1-75	ग्राम शिवराजपुर, ता० जासवान, जिला राजकोट
2863.	जनकराय भट्ट प्रभाशंकर	शैच विशारद नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1965	6777 21-3-79	नजदीक रामकुवा, गजारफाली, सिराज निवास, ग्राम जामनगर
2864.	जनकराय रावल प्राण शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8370 17-3-82	मागनाथ गेट, अम्बाजी रोड, जामनगर
2865.	जनकराय मुकल मगनलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2807 11-8-69	ग्राम मोतीम रव, बाया और ता० धोराजी, जिला राजकोट

1	2	3	4	5
2866.	जानकीराय खिचैवी बाबाशंकर	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4190 12-2-74	नजदीक गेट, मेन रोड, नजदीक काळा मण्डिर ग्राम मोरवी, जिला राजकोट
2867.	जनार्दन भट्ट चन्व भाई	डी० एस० ए० सी० कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1697 3-8-65	508, विशुविहार, भावनगर
2868.	जनार्दन भट्ट नरहरी प्रसाद	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4208 18-2-74	मोतीनगर, बोरी माफा वधै दादन, रामिका भावनगर
2869.	जनार्दन भट्ट भानू शंकर	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6131 12-4-78	मुगळ्खा, ग्राम और पो० आ० जवार, ता० इवार, जिला साबरमती
2870.	जनार्दन वधे नम्व कुमार	डी० एस० ए० सी० कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1968	1685 28-5-65	सामने विजय मिला मारोवा रोड, अहमदाबाद
2871.	जनार्दन पांड्या चम्र शंकर	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3519 14-6-72	वैद्य कुटीर, जैन बागा, पांड्या शेरी, नजदीक स्वामीनारायण, ग्राम मोई, जिला नवसारी
2872.	जनार्दन रावल मणि शंकर	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन बम्बई 1959	4593 17-12-74	रणजीतपारा, ग्राम भानवाड़, जिला जामनगर
2873.	जनार्दन माई खिचैवी मोण शंकर	आयुर्वेद शिक्षक नि० भा० अ यु० वि०, दिल्ली 1968	8288 25-1-82	नजदीक प्रभुतमेशाल वर्कर्स, कुदवाट रोड, ता० नवावन, सुरेन्द्रनगर
2874.	जनार्दन उपाध्याय रंगमणि	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2958 25-5-70	अखिल आयु० कालेज, अहमदाबाद
2875.	जनार्दन व्यास हरनारायण	डी० एस० ए० सी० कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1962	28 22-12-64	22, नार्थ गुजरात, पटेल सोसायटी, विधाव-1 बाधुपुरा बस स्टैण्ड, न्यू सिविल अस्पताल, असारवा, अहमदाबाद
2876.	जनहवी बातोबाया विलीसुखर	डी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9589 7-10-66	मार्फत डी० जे० बटविधा, जिला पंचायत कम्पाउण्ड, नवा०, रेसकोर्स, ग्राम राजकोट-360001
2877.	जानकीदास हरियानी राजवदास	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4107 3-11-73	स्टे० अमरनगर, ता० जेतपुर, जिला राजकोट
2878.	जनकलाल वैद्य रमनलाल	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1947	1027 4-3-48	नाना पांड्या पोल, ग्राम वेटसाव, जिला खेड़ा
2879.	जनमा शंकर जोशी अम्भाशंकर	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1952	225 4-7-52	कचौलिया शेरी, नजदीक वरवारगढ़, ग्राम उपलेटा, जिला राजकोट
2880.	जरेखरी वैद्य करनलाल	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1957	1639 1-8-57	मार्फत करनलाल सी० वैद्य, मोती नम्व, सामने निधि बारी, मांगनाथ शेरी, जूनागढ़

1	2	3	4	5
2881.	जसवंत गखारिया गोकल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5699 24-2-77	ग्राम तिम्बावाड़ी, वाया जूनागढ़
2882.	जसवंतलाल पटेल मंगलनाथ	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8281 16-1-82	ग्राम और पो० आ० रादोदारा, ता० बघाव जिला साबरकंधा
2883.	जसवंत मेहता अम्बा शंकर भाई	आयुर्वेद शिक्षक नि० मा० आयु० वि०, दिल्ली 1972	6686 3-3-89	कल्याण सोसायटी, गोवीन रोड, ग्राम राजकोट
2884.	जशभाई पटेल बाकोर भाई	डी० एस० ए० सी० कमेटी आफ गुड आयु० कोर्स गुजरात 1982	542 21-12-62	ग्राम आमदपुरा, वाया खेरवाड़ी, ता० संखेड़ा, जिला बड़ोदा
2885.	जशभाई पटेल शंकर भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2849 14-10-69	ग्राम साधकी, ता० मिनोर, जिला बड़ोदा
2886.	जशभाई पटेल भाईलाल भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4390 28-5-74	ग्राम जोशीकुवा, ता० बोस रव जिला खेड़ा
2887.	जशभाई पटेल पुंजा भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5388 10-5-76	ग्राम कंजोवा, ता० नाडियाड, जिला खेड़ा
2888.	जशवंतगिरी गोस्वामी जेठोगिरी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5647 5-1-77	ग्राम मठ, पो० आ० साकातुका, ता० मिनोदा, जिला साबरकंधा
2889.	जशवंती बछानी जयन्तीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7975 20-2-81	गोपालनगर, मेन रोड, सामने जे कुम र टेलरिंग कालेज, ग्राम राजकोट
2890.	जशवंत कुमार बैद्य ईश्वर लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4475 36-8-74	ग्राम राजपुर, ता० कादी, जिला मेहसावा
2891.	जशवंत कुमारी अंबेजा बम्बूसिंह जी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	6830 22-3-79	जबेजा मेशान, 5, बाघेपारा, ग्राम मोराबी, जिला राजकोट
2892.	जशवंत लाल देसाई अम्बोलाल	एल० ए० एम० यू० पी० आयु० महाविद्यालय, पाटन 1934	1521 8-1-49	बहराम कालिया, ग्राम और ता० बसगदा, जिला वलसाड
2893.	जशवंतलाल देसाई गुलाबभाई	डी० ए० एस० एफ० फै० आ० आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1950	406 17-5-51	ग्राम विखाली एण्ड विखाली, जिला वलसाड
2894.	जशवंतलाल देसाई नानालाल	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1953	407 2-1-54	सामने पो० आ०, ग्राम हसोट, जिला बरोच
2895.	जशवंतलाल पटेल मंगल भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	6673 3-4-79	ग्राम और ता० मेघारज, जिला साबरकंधा
2896.	जशवंतलाल शाह नानालाल	डी० एम० ए० सी० कमेटी आफ गुड आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2267 19-11-66	ग्राम अगुवा, पो० आ० उगावा (वलसाड), ता० कालोज

1	2	3	4	5
2897.	जगवन्तलाल खिवेदी रतीलाल	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ० आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1957	311 2-1-58	शिव स्मृति, 11/17, लक्ष्मीबाड़ी, राजकोट
2898.	जसवन्तराय भट्ट माधवलाल	आयुर्वेद विभागर बी० आफ इण्डियन मेडीसिन, सौराष्ट्र 1958	2204 1-5-58	गवर्न० आयु० डिस्पेंसरी, ग्राम बाबसाव, ता० मानवदार, जिला जूनागढ़
2899.	जगवन्तराय जोशी मानजी	जी० एफ० ए० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1957	227 1-7-57	मधुकुंज, विद्यानगर सोसायटी, ग्राम भावनगर
2900.	जगवन्तराय मांड्या जैठालाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3421 7-3-72	ग्राम सोबड़ा, पो० आ० सरवाल, ता० धांगघरा, जिला सुरेन्द्रनगर
2901.	जगवन्तराय बनमानी वान	बैद्य विभागर नि० भा० आयु० वि० विल्ली 1965	7113 16-7-79	नजदीक नीलम बाग, वीरभद्रनगर, सोसायटी, प्लाट नं० 17, जैल रोड, ग्राम भावनगर ।
2902.	जसवन्तराय भट्ट बालकृष्णा	आयुर्वेद मध्यमा श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौचा 1978	6681 3-3-79	बेबी पतिया पंड्या धोरी, ग्राम शाशेर, जिला भावनगर ।
2903.	जसवन्त सिंह बर्याड़ बहादुर सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4481 3-9-84	ग्राम अन्तराली, बाया सयान, ता० कमरेज, जिला सूरत ।
2904.	जगवन्त सिंह राठीड़ फतेहसिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4456 27-8-74	ग्राम बद्दाला, ता० पवारा, जिला बड़ौचा
2905.	जगवन्तसिंह जाला मधीसिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8034 10-4-81	ग्राम अन्तराली, ता० प्राणतीज, जिला साबरकांचा
2906.	जगमती जोशी मनू भाई	बी० एस० ए० सी० कमेटी आफ शुद्ध आ० फोर्स, गुजरात 1962	229 29-6-62	कोट सफील रोड, ग्राम सूरत
2907.	जगू भाई पटेल मानजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	6061 8-3-78	ग्राम और पो० आ० धुधीया, ता० लिमबाड़ा, जिला पंचमहल
2908.	जगूभाई पटेल मोरार भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8722 19-4-83	ग्राम और पो० आ० ओंजाल, ता० नवसारी जिला वलसाव
2909.	जगुमती मोघवाड़िया सावदास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4485 3-9-74	तीर्थ बन्दार रोड, वीरवी प्लाट, ग्राम पोरबन्दर जिला जूनागढ़
2910.	जगुमती मोहता रती लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	5737 25-3-77	भीमाजीभाई वधेला हाउ० गवर्न० कुवावली शोर्टी कविया बाड़, जूनागढ़
2911.	जगुमती पवार खल्लू भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8369 17-3-82	ग्राम और पो० आ० और ता० म्यार, जिला सूरत
2912.	जगुमती ठाकर उत्तमराम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	4509 17-9-74	मार्फत जगुमती नीलकंठ रावल, 25, प्रह्लाद प्लाट, ग्राम राजकोट

1	2	3	4	5
2913.	जशवन्तराय पारिख गोकुलदास	डी० एस्० एं० सी० कमेटी कार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2390 15-2-67	मार्फत आर० जी० पारिख सोल्ट रिसर्च, बवा० नं० जी-9, ग्राम भावनगर ।
2914.	जशवन्तराम पांड्या [शामबक प्रसाद	डी० एस्० एं० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5141 29-1-76	बाबा फालिया, ग्राम देभान, ता० नायियाड़ जिला खेड़ा ।
2915.	जशवन्तरसिंह माहिया मोहनसिंह	जी० एफ० एं० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० ऑफ० मेडीसिन, बम्बई 1964	1754 5-7-65	ग्राम गोयान, जिला सूरत ।
2916.	जसमीन ठाकर उमियाशंकर	बी० एस्० एं० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7764 16-7-80	वतार मंजिल, विद्याविहार, ग्राम जूनागढ़ ।
2917.	जसराजभाई गोशानी चतुरभाई	बी० एस्० एं० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3744 2-2-73	नजदीक राजपुर चौरा, ग्राम राजसितापुर, ता० धारंगधरा, जिला सुरेन्द्रनगर ।
2918.	जतिन कनारा जाँन	डी० एं० एम० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० ऑफ मेडीसिन, बम्बई 1955	91 1-12-55	सोनावाला अस्पताल, ता० बोदड़, जिला- भावनगर ।
2919.	जतिनकुमार शाह चम्बूलाल	डी० एं० एम० एस्० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9211 2-2-85	मार्फत सी० सी० शाह (बीवाला) ग्राम-बारजा, ता० दासकोई, जिला अहमदाबाद ।
2920.	जटा शंकर भट्ट जगन्नाथ	डी० एं० एम० यू० पी० आयु० महाविद्यालय, पाटन 1953	2644 1-10-53	धोधा सर्कल, प्लाट नं० 2875 ।
2921.	जटाशंकर पुरोहित [विठ्ठलजी	वैद्य विभागात् नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1969	6918 16-4-79	ग्राम अम्बाल गध, ता० मालिया-मेडिना, जिला जूनागढ़ ।
2922.	जटाशंकर राजगोर जयाशंकर	आयुर्वेद विभागात् बी० इण्डियन मेडीसिन, सीराफ्ट 1958	2209 1-5-58	रूवापारी गेट, केशीयाबाड़, ताका, ग्राम-भावनगर ।
2923.	जतेन्द्रकुमार गुक्ल भाग्य प्रसाद	बी० एम० एं० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7370 29-10-79	ग्राम और पो० आ० बीपपुर, ता० बाला सिमोर, जिला खेड़ा ।
2924.	जी प्रकाश पटानी शास्तीलाल	बी० एस्० एं० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4691 24-3-75	ग्राम कुकावाव मोती, जिला अमरेली ।
2925.	जवाधुरसैन हुकीम मोहम्मद	बी० एं० एम० एम० का० सिंह दरभंगा संस्कृत वि० वि० 1983	9312 2-7-85	ग्राम मन्तरामपुर, जिला पंचमहल ।
2926.	जवाहर पंजाबी [पह्लाजराव	आयुर्वेद विभागात् नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1974	6653 28-2-79	पटेल हाऊस, मामने जनमता प्रेस, ग्राम राजकोट ।
2927.	जवानसंग चौहान खोवा भाई	बी० एम० एं० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9015 28-3-84	ग्राम और पो० आ० मनकवा, ता० महेशवाबाद जिला खेड़ा ।
2928.	जया गन्धोलिया अमरदाम	डी० एस्० एं० सी० कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2358 8-1-67	मार्फत जया पी० बैणू, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद-14 ।

1	2	3	4	5
2929.	जया पटेल बेब जी भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8685 3-3-83	इतीत ही कपोरास क्लिनिक, 10-ए, बिष्णु अपार्टमेंट न्यू मानिकलाल स्ट्रीट, गोमतीपुर (वैस्ट) बम्बई-400086 ।
2930.	जया बेन गोस्वामी मदनपुरी	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6934 17-4-79	कानबीवाड़, नानी सदाक ग्राम भावनगर ।
2931.	जयकर भवास रमेश चन्द्र	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7629 20-3-80	9/711, गैरॉक फालिया, बाडी पालिया, ग्राम सूरत ।
2932.	जयबेबकुमार राजल रेबा शंकर	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8642 28-1-83	ग्राम और पो० आ० शानासाना, ता० बीजापुर जिला मेहसाना ।
2933.	जय बलिजा वैद्य गोविन्दराम	ए० ए० एम० यू० पी० आयु० महाविद्यालय, पाटन 1942	1031 31-12-66	ग्राम नाबली, वाया धान्द जिला खेड़ा ।
2934.	जयकृष्णबास शर्मा बालकृष्णबास	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3844 2-3-73	श्री मन्दिर कषारिडा, ग्राम किरानगड़, जिला अजमेर ।
2935.	जयनक्षमी पांड्या अमृतलाल	आयुर्वेद भिषक नि० मा० आयु०, वि० दिल्ली 1961	7247 30-9-79	ग्राम भालश बराजा, ता० कालीवाड़, जिला जामनगर।
2936.	जयलक्ष्मी सोलंकी बेबजी भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4672 20-3-75	गायत्री कृपा, गांधीग्राम रैया रोड, राजकोट 360001 ।
2937.	जयना जोशी बान्से केरवर	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7352 29-10-79	8/1003, गोपीपुरा, किरपाराम मेहता शेरी, ग्राम सूरत ।
2938.	जयाना मेहता चन्द्र कान्त	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9049 10-5-84	पानी भीत, ग्राम सुरत, 3, ता० चोरयासी, जिला सूरत ।
2939.	जयानन्द पटेल बच्चू भाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9167 13-11-84	451, दुधावाली पोल, धीकान्ता, अहमदाबाद ।
2940.	जयन्नागोरी मैथान्सी पुरबोतरम गिरी	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5912 11-10-77	डा० जै० पी० गोस्वामी, जमता बिस्पेसरी, ग्राम अजाड, ता० केयोड, जिला जनागड़ ।
2941.	जयस्त गोखले गजानन राव	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० एण्ड यू० सि० आ० सेंडीसन, गुजरात 1961	180 7-12-61	मार्फत जी० ए० गोखले, गोखले निवास, रतनपोल ग्राम सिद्धापुर, जिला मेहसाना ।
2942.	जयस्त वैद्य चुनीलाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० 1963	1394 20-1-64	मगरामपुरा, हनुमान शेरी, सूरत-2 ।
2943.	जयन्ती भाई मकवाना मागजी भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6437 15-12-78	ग्राम और पो० आ० करेली, ता० जम्बुसाड जिला बरोच ।
2944.	जयन्ती भाई पनारा बेबभाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8401 5-4-82	ग्राम और पो० आ० कसबारा, ता० बान्ध जिला खेड़ा ।

1	2	3	4	5
2945.	जयन्तीलाल परमार काचरा जाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8200 12-10-81	रूम नं० 78, ब्लॉक नं० 9, गवर्न० बसाहृत जी० कालोनी, पीछे लालभोल, अहमदाबाद ।
2946.	जयन्ती भाई पटेल नोरदन भाई	बी० एफ० ए० एम० फे० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मैडीसन, गुजरात 1966	1844 11-11-65	मोटा दरबाजा, ग्राम सरसा, जिला खेड़ा ।
2947.	जयन्ती भाई पटेल शंकर भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2929 20-3-70	ग्राम कीवेम, ता० बालासीनोर, जिला खेड़ा ।
2948.	जयन्ती भाई पटेल माधव लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3717 5-1-73	कालका माता मन्दिर, ग्राम-सुग्धीया, ता०- खेरालु, जिला मेहसाणा ।
2949.	जयन्ती भाई पटेल विठ्ठलदास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4075 4-10-73	ग्राम कांज, ता० विरामगाम, जिला अहमदाबाद ।
2950.	जयन्ती भाई पटेल मूलजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4443 16-8-74	ग्राम इन्दराल, ता० सखेड़ा, जिला बड़ोदा ।
2951.	जयन्ती भाई पटेल रेवा भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4566 29-10-74	ग्राम पोगालु, ता० प्राणतीज, जिला साबरकंधा ।
2952.	जयन्ती भाई पटेल रमछोड भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4980 15-10-75	ग्राम करेली, ता० जम्बुघार, जिला बड़ोदा ।
2953.	जयन्ती भाई पटेल गोपाल भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5653 18-1-77	ग्राम कंस, ता० बिसनागर, जिला मेहसाणा ।
2954.	जयन्ती भाई पटेल मोहन भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8649 10-2-83	ग्राम और पो० आ० हाथीपुरा, ता० बवाड, जिला साबरकंधा ।
2955.	जयन्ती भाई पटेल जीवाभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8679 3-3-83	ग्राम बुधिया, पो० आ० बघोली, ता० इवार, जिला साबरकंधा-383410 ।
2956.	जयन्ती भाई पटेल लखूभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9490 24-3-86	ग्राम और पो० आ० याबड़, ता० कपाड़बज, जिला खेड़ा ।
2957.	जयन्ती भाई पटेल मोहन भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9496 16-4-86	ग्राम और पो० आ० वासना, ता० सखेड़ा, जिला बड़ोदा ।
2958.	जयन्ती भाई पटेल मंगलदास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	9568 3-9-86	ग्राम और पो० आ० मोटाप, ता० चानसना, जिला मेहसाणा ।
2959.	जयन्तीका मोदी मधुसूदन	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9430 2-12-85	12/मियाबैनी, सोसायटी नैनवगर, (पूर्वी) अहमदाबाद ।
2960.	जयन्तीलाल रामभाई	आयुर्वेद सिवक नि० घा० आयु० वि०, दिल्ली 1969	7158 2-8-79	ग्राम फतसार, ता० खटा, जिला जनागढ़ ।
2961.	जयन्ती लाल आचार्य गिरजाशंकर	बी० एस० ए० सी० कमेटो फार युज आयु० कौंस, गुजरात 1964	1601 29-1-85	डिस्टेंसरी, ग्राम औरबाज, चाया तलासा, जिला जूनागढ़ ।

1	2	3	4	5
2962.	जयन्तीलाल अखानी देवराम	डी० एस० ए० जी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2150 25-8-66	भूदार मिस्त्री, पोल, कालपुर, पंचमस्ती, अहमदा- बाद ।
2963.	जयन्तीलाल अदोवरिया मतभाजी भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9110 7-8-84	ग्राम और पो० आ० खोरसा (भीर) ता० मलिया हथीना, जिला जूनागढ़ ।
2964.	जयन्ती लाल अमीन छोटा भाई	डी० एम० ए० सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2028 3-6-66	ग्राम और पो० आ० नेवावा, ता० जम्भुसार, जिला बरीच ।
2965.	जयन्ती लाल भट्ट सहेयवर	ए० बी० पी०, तिलक महाराज विद्या०, पूना 1943	823 29-2-44	ग्राम सिसवा, ता० बोरसाद, जिला खेड़ा ।
2966.	जयन्ती लाल भट्ट कृष्ण शंकर	आयु० उलमा, श्रावणमास वसिष्ठा परीक्षा समिति, बड़ौचा 1972	6891 12-4-79	एफ/6, आफिसर कालोनी, अजकपुरी, बड़ौचा- 5 ।
2967.	जयन्ती लाल चौहान आनन्द जी	वैद्य विशारद, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1961	6597 16-2-79	पटेलनगर नं० 2, सोरठिस बाड़ी, ग्राम राजकोट ।
2968.	जयन्ती लाल चावड़ा नानसरजीभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5835 25-7-77	ग्राम इवाव (शेरबाग), ता०— मलियाटीना, जिला जूनागढ़ ।
2969.	जयन्ती लाल दव भाई शंकर	डी० ए० एस० एफ०, फै० ऑफ आ० एफ० यू० सि० ऑफ मेडिसिन, बम्बई 1943	1535 13-1-43	ग्राम घोरबाजार, शहलाम, अहमदाबाद-22 ।
2970.	जयन्ती लाल दवे मूल शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3257 7-10-71	मार्फत भानुशंकर मूल शंकर दवे, प्रहलाद जूनाद, किलोर सिंह जी, रोड, ग्राजराजकोट ।
2971.	जयन्ती लाल गांधी पुरुषोत्तम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3537 4-8-72	बाजार रोड, ग्राम जमालया, ता० जाम- जामिया, जिला जामनगर ।
2972.	जयन्ती लाल भाटवड़ा. रमछोवलाल	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1976	6843 2-4-79	जामभासियाना नाका, कुम्हारबुड़ी, ग्राम जामनगर
2973.	जयन्ती लाल गोह्ले कन्धी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3295 3-12-71	ग्राम अमरावी, बाया गधडा स्वामिना, ता०- जसदान, जिला राजकोट ।
2974.	जयन्ती लाल जाली देव शंकर	आयु० मध्यमा, श्रावणमास वसिष्ठा परीक्षा समिति, बड़ौचा 1965	7139 24-7-79	ग्राम धमाज, बाया-कालोल, जिला मेहसाणा ।
2975.	जयन्ती लाल जोशी अम्बेशंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4512 20-9-74	1, रवासिया प्लसट, ग्राम पोरबन्दर, जिला जूनागढ़ ।
2976.	जयन्ती लाल जोशी अमृतलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4809 25-4-75	ग्राम मेता, ता०—बवगाव, जिला बन्तसर्वा ।
2977.	जयन्ती लाल कारावटिया रतीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8736 19-4-83	ग्राम माधवपुर (धव) ता०—पोरबन्दर, जिला जूनागढ़ ।
2978.	जयन्ती लाल कुवारिया बम्भू भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	2924 9-3-70	ग्राम पिठालपुर, बाया तलाभा, जिला जामनगर ।

1	2	3	4	5
2979.	जयन्ती लाल लक्षकारी रतन दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5694 24-2-77	ग्राम सन्ध, ता०— मांगरोल, जिला-जूनागढ़ ।
2980.	जयन्ती लाल लोधिया हरीलाल	बैद्य विशारद, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1970	7081 6-7-79	ग्राम खरेड़ी, ता०— कलवाड़, जिला-जामनगर
2981.	जयन्ती लाल मकाविया कन्जी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8205 12-10-81	मकवाना कंजी अम्बाबा हाडसिंग, ग्राम कीयाली (बाबा) बाया भापुर, जिला-जूनागढ़ ।
2982.	जयन्ती लाल मकानी मोहन लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	5765 14-4-77	ग्राम-मवाली (भानखचाई), ता०-जसवन्त, जिला-राजकोट ।
2983.	जयन्तीलाल मेहता छोटा लाल	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1980	9106 31-7-84	ग्राम और पो० आ०— फतेहपुर, ता०-प्राणतीज, जिला-साबरकंधा ।
2984.	जयन्ती लाल मोघ बीबा लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5247 5-3-76	ग्राम-गाध, ता०-पालनपुर, जिला-बनास कंधा ।
2985.	जयन्ती लाल नोथानी हुलंभ जी	बैद्य विशारद, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1976	6850 2-4-79	नजवीक भिदभाजन नवरपारा, सामने खन्वपीठ, नबेरा, ग्राम-भानसगर ।
2986.	जयन्ती लाल पड़िया देवेन्द्र	बैद्य विशारद, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1967	6772 21-3-79	मार्फत मुन्वरजी माधवजी, मनवाकी, चौक, ग्राम जूनागढ़ ।
2987.	जयन्ती लाल पांड्या छोटा लाल	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1942	9107 31-7-84	ग्राम-भासी, ता०-नादिवाड़, जिला-बेंका ।
2988.	जयन्ती लाल पारिख मफतलाल	बी० ए० एस० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1955	685 1-7-55	मेडिकल आफिस, वियोवर, जिला-भासकंधा ।
2989.	जयन्ती लाल पारिख नटवर लाल	जी० एफ० ए० एम०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन गुजरात 1961	683 4-12-61	मार्फत डा० एन० ए० पारिख, ग्राम-बोदेशी, जिला-बड़ोवा ।
2990.	जयन्ती लाल परमार हीरा भाई	बैद्य विशारद, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1967	7091 6-7-79	म० नं० 17, रूम नं० 470, जनतानगर जमराव- बाड़ी, अहमदाबाद ।
2991.	जयन्ती लाल पटेल हरमोहन्य दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1968	2839 16-9-69	ग्राम-खावाड़, ता०-काशी, जिला-मेहसाणा ।
2992.	जयन्ती लाल पटेल भानजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3988 7-8-73	ग्राम-गुणाली, ता०-बीजापुर, जिला-मेहसाणा ।
2993.	जयन्ती लाल पटेल नारन भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4080 4-10-73	गवने०-आयु० डिस्पेंसरी, ग्राम-बड़ोवा, ता०-सोन- गढ़, बाया सगवार, जिला-भूरत ।
2994.	जयन्ती लाल पटेल बामुभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4194 15-2-74	ग्राम-रवारवा, बाया तानद, ता०-कालोल, जिला-मेहसाणा ।
2995.	जयन्ती लाल पटेल मगन भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5211 26-2-76	ग्राम-सैताल साना, ता०— खैरालु, जिला-मेहसाणा ।

1	2	3	4	5
2996.	जयन्ती लाल पटेल काली भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5376 30-4-76	ग्राम-कैयाज, ता०-नाडियाड, जिला-खेड ।
2997.	जयन्ती लाल पटेल नल्था भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	7134 21-7-79	ग्राम-बरगासी, ता०-लूनावाडी, जिला-पंचमहल ।
2998.	जयन्ती लाल पटेल शांकर भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	7166 2-8-79	ग्राम-बबोध, ता०-हदार, जिला-साबरकंधा ।
2999.	जयन्ती लाल पटेल कालीयास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	9424 2-12-85	ग्राम और पो० आ०—लक्ष्मीपुरा, ता०-बीसमगर जिला-मेहसाणा ।
3000.	जयन्ती लाल पटेल शंकर लाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9545 18-8-86	ग्राम और पो० आ०—गयका, 384630, ता०- खैरातु, जिला-मेहसाणा ।
3001.	जयन्ती लाल पाठक बहेबर लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3990 7-8-33	ग्राम-बाखोर, ता०—हिम्मत नगर, जिला-साबर- कंधा ।
3002.	जयन्ती लाल पिठाडिया रामजी भाई	जी० एफ० ए० एम०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन गुजरात 1963	1389 9-1-64,	भावसारवाड, नाडियाड, जिला-खेड ।
3003.	जयन्ती लाल पोपट रंगनाथ	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4060 21-9-73	काली विश्वनाथ, रोड, कण्ण कुंज, स्टेशन प्लाट, ग्राम-गोन्दा, जिला-राजकोट ।
3004.	जयन्ती लाल राज्यगुरु मानजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6192 15-7-78	ग्राम-दलखानिया, ता० और नाया भाटी, जिला अमरेली ।
3005.	जयन्ती लाल रनपुरा लीलाधर भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7977 20-2-81	पो० आ०—धुलकोट, नाया सोराबी, ता०- जिला-जामनगर ।
3006.	जयन्ती लाल शाह रंगील बास	डी० ए० एस० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1955	1153 1-9-55	बाजार ग्राम काबोव, ता० बरडोली जिला-सूरत ।
3007.	जयन्तीलाल धुनी लाल	जी० एफ० ए० एम०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, गुजरात 1964	1913 4-1-66	ग्राम और पो० आ०—फतेहपुर, ता०—प्राण- तीज, जिला-साबरकंधा ।
3008.	जयन्ती लाल शुक्ल भानु शंकर	डी० एस० ए० सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1962	1152 10-8-62	ग्राम और पो० आ०—बागवाड, उदवाडा जिला- वलसाड ।
3009.	जयन्ती लाल सोलंकी धनजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5976 28-11-77	मार्फत बैद्य भानजी भाई, ग्राम-साबरकुण्डला, जिला-भावनगर ।
3010.	जयन्ती लाल सोनी शिवलाल	डी० ए० एस० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1956	1316 2-1-56	मुधार बावो, ग्राम-बीजापुर, जिला-मेहसाणा ।
3011.	जयन्ती लाल सुधार धुलाभाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9026 16-4-84	ग्राम और पो० आ० पूंजतुड, ता० पन्तमबनगड जिला-वनासकंधा ।

1	2	3	4	5
3012.	जयन्ती लाल त्रिवेदी पंजीलाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9453 10-1-86	ग्राम और पो० आ०—मोती सरगान, ता०—सन्तराम- पुर, जिला—पंचमहल
3013.	जयन्ती लाल त्रिवेदी शुनी लाल	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1941	9604 10-11-86	नं० 145, सारंगपुर, बासीराम पोल, अहमदाबाद
3014.	जयन्ती लाल वैद्य संभा भाई	बी० आई० एम० एस०, बोर्ड आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, दिल्ली 1959	1028 18-10-82	ग्राम—उनाब, मिराबतार, जिला—मेहसाणा ।
3015.	जयन्तीलाल वैष्णव बेचार भाई	वैद्य विशारद, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1964	7051 21-6-79	दतार कृपा औषधालय, गीर बाजार, ग्राम—मन्वरका जिला—जूनागढ़ ।
3016.	जयन्तीलाल बाजा गोबिन्ध भाई	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1983	7183 9-8-79	प्लॉट नं० 1314, भोपा सीरियल, ग्राम—साब- नगर ।
3017.	जयन्ती लाल व्यास छोटा लाल	आयुर्वेद विशारद, स० सं० महाविद्यालय, बड़ौदा 1985	1603 30-1-85	ग्राम और पो० आ०—खाँवा, ता०—पावरा, जिला बड़ौदा ।
3018.	जयन्तीलाल व्यास मोहन लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4418 25-6-74	नजवीक भीवाजन महादेव, ग्राम—अटकोट, ता०— जसुवान, जिला—राजकोट ।
3019.	जयन्ती लाल टंक हरीलाल	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1965	6774 21-3-79	“सहजानन्द” सहकार सोसाइटी, आनन्दनगर, राजकोट—2 ।
3020.	जयन्तीलाल व्यास जैठालाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5565 13-10-76	जगदीश मन्दिर, न्यू ब्लॉक नं० 1, आउट साइड, जमालपुर गेट, अहमदाबाद ।
3021.	जयन्तीलाल व्यास सम्भूप्रसाद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	7935 29-12-80	रतछोदशी मन्दिर, ता०—महोमदाबाद, जिला— खेड़ा ।
3022.	जयन्तीपर्वत बाबा ईश्वर पर्वत	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7387 19-11-79	ग्राम—जीवपुरा, ता०—वीरामगाम, जिला— अहमदाबाद ।
3023.	जयन्तकुमार असोवरिया लावणी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6447 28-12-78	जूना बालमन्दिर, सामने बगीचा, ग्राम— जैतपुरकाथी, जिला—राजकोट ।
3024.	जयन्तकुमार भट्ट मणीलाल	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1949	2788 2-7-49	ग्राम—भयाली, ता० और जिला—बड़ौदा ।
3025.	जयन्तकुमार भट्ट नवलशंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3501 4-5-72	भगवतीभवन काठिया प्लॉट, ग्राम—पोरबन्दर जिला—बड़ौदा ।
3026.	जयन्तकुमार बवे लक्ष्मीशंकर	डी० एस० ए० सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2457 7-4-67	श्री हृदय सेंटर, ग्राम—अम्बालिया, ता०—अयाव, जिला—साबरकंधा ।
3027.	जयन्तकुमार गोहल शिबलाल भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8293 5-2-82	आयु० डिस्पेंसरी, ग्राम और पो० आ०—चिकलावाड़, ता०—जाम-कावीराना, बाया भयाववार, जिला—राजकोट ।

1	2	3	4	5
3028	जयन्तकुमार जोशी गणपतराम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4662 17-3-75	ग्राम-जलरान, ता० खास्मट, जिला--खेड़ा।
3029	जयन्त कुमार जोशी कालीदास	आयुर्वेद मध्यमा श्रावणमास वक्षिणा परीक्षा सभिति, बड़ौदा 1973	6730 9-3-79	रमेश गोटेज, लिमाङ्गलिन, 3, राजभूतपारा, ग्राम-जामनगर।
3030	जयन्तकुमार चिमनलाल	डी० एम० ए० सी० कनेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1964	1513 19-8-64	बानजीवन चंदा आफिस, रावपुरा, बड़ौदा।
3031	जयन्तकुमार पटेल अम्बालाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4299 27-3-74	मुलाजीपारा, ग्राम-चाममा, जिला--मेहसाणा।
3032	जयन्तकुमार पटेल कुराजी भाई	डी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6076 15-3-78	श्री रामनिधाम, प्लॉट नं० 836, वयानन्द चौक, भावनगर।
3033	जयन्तकुमार पुरोहित हृगोशंकर	डी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5257 8-3-76	ग्राम-चौकारी, ता०-पादरा, जिला--बड़ौदा।
3034	जयन्तकुमार रावत गिरधारी लाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3122 17-2-71	ए/10, आफिसरस कालोनी, पीछे न्यू सेंट्रल अस्पताल, अहमदाबाद।
3035	जयन्तकुमार सोनी हरजिवनदास	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3690 20-11-72	ग्राम-नाना उभाडा, ता०-वेरांगाम जिला-- अहमदाबाद।
3036	जयन्तकुमार वानंग कणा भाई	डी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3282 4-11-71	ग्राम-वामना, ता०-बोरमावड़, जिला--खेड़ा।
3037	जय शंकर दवे अम्बादास	आयुर्वेद विशारद म० सि० वि० वि०, बड़ौदा 1953	2447 28-3-67	मेडीकल आफिसर, पालना पब्लिक डिस्पेंसरी, ग्राम-पालना, ता०-नादिया, जिला--खेड़ा।
3038	जयश्री शेट्ट इन्दूलाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4168 5-2-74	मार्फत डा० बी० एन० जोशी, ग्राम-धीनक, वाया भयावहार, जिला--राजकोट।
3039	जयश्री दवे भगवानजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6337 4-10-78	मार्फत विश्वनाथ एन० दवे, ग्राम और पो० आ० गागा, तथा कुकावाड, जिला--अमरेली।
3040	जयश्री त्रेसाई प्रमोदराय	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8383 24-3-82	85, मोनारिका सोसाईटी, नजदीक वाटर टैंक, हुरगी-केरेली बाग रोड, बड़ौदा।
3041	जयश्री घाडिया राजजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6127 5-4-78	रामजी बेल प्लाट्स, श्रीगुणसरीनन्द भवन, राजकोट।
3042	जयश्री गांधी जगदीशचन्द्र	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8343 27-2-82	32, तपोवन मोसाईटी, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद।
3043	जयश्री जानी जमयन्त भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7740 6-6-80	श्री मनजीत अस्पताल रोड, ग्राम-जामनगर।
3044	जयश्री जोशी भरत कुमार	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5242 5-3-76	8/416, उमा अपार्टमेंट, ओह्लतावाड़ा, नवसारी, भाजार. सुरत।

1	2	3	4	5
3045.	जयश्री ओशी रमेशचन्द्र	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8488 3-8-82	देवनाग, जीवन ज्योति सोसाईटी, प्लॉट नं० 12, भावनगर-2 ।
3046.	जयश्री कबीरपन्थी श्यामलाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7754 3-7-80	कबीर मन्थीत, ग्राम-भूज कच्छ ।
3047.	जयश्री कदाक्रिया रमेशचन्द्र	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6183 15-6-78	ग्राम-पिपलाव, ता०-देवगढ़, बारिया, जिला— पंचमहल ।
3048.	जयश्री नाथबानी रतीलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7974 20-2-81	आशुतोष, 16, सरदार नगर, ग्राम-राजकोट ।
3049.	जयश्री पारिख जितेन्द्र	बी० ए० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9446 23-12-85	पारिख अस्पताल, मदनवाड़ा, ग्राम -वलसाड 396 001 ।
3050.	जयश्री पारिख कान्तीलाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8059 27-4-81	मरफतिया बिल्डिंग, पीछे दलाल बिल्डिंग, बैंक आफ इण्डिया, गनी मन्थी नगर, अहमदाबाद ।
3051.	जयश्री पटेल ईश्वरभाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8600 13-12-82	आजाद चौक, कोकलवाड़ा, ग्राम और पो० आ०— वेतवा, ता०-वसरोई, जिला—अहमदाबाद ।
3052.	जयश्री पुरानी केतन कुमार	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	8344 11-3-82	मार्फत डा० आर० डी० पुरानी, महोरबनका, कपाड़वांज ।
3053.	जयश्री रावण रमनलाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5854 23-8-77	वैद्यकीय ओबीसर, गवर्न आयु० डिस्पेंसरी, उमेदगढ़, ता०-इंदार, जिला—साबरकंधा ।
3054.	जयश्री रावल जयन्तीलाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8717 16-4-83	नवपुरा, ग्राम-कालोल, जिला—पंचमहल ।
3055.	जयश्री रेहता अरुणकुमार	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5831 6-7-77	ग्राम-नारनपुर, ता०-भुज, जिला—कच्छ ।
3056.	जयश्री शाह हरीशचन्द्र	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5674 21-2-77	मार्फत श्री एच० एन० शाह 10/ए, बीरबिजय सोसाईटी, नजदीक समझाबी हाई स्कूल, नारनपुरा, अहमदाबाद ।
3057.	जयश्री शाह मल्लूचन्द्र	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8477 3-8-82	मार्फत एम० एम० शाह, ग्राम-रामपुर, ता०— शनधुका, जिला—अहमदाबाद ।
3058.	जयश्री सोनी वसुदेवभाई	एम० डी० (आयुर्वेद) गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8145 3-9-81	वनश्यामनगर सोसाईटी, सुभाष पुल, नाका, अहमदाबाद ।
3059.	जयश्रीबेन चौहान माधवभाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6928 71-4-79	मार्फत एम० के० चौरान, नजदीक हाता कुवा, ग्राम-लूतावाड़ा, जिला—पंचमहल ।
3060.	जयश्रीबेन राठी प्रेमजी	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5448 5-7-76	मार्फत आर० पी० राठी, सिविल साईंन पो० आ० रायगढ़ (म० प्र०) ।
3061.	जयश्रीबेन मट्ट रघुमन्वन	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7007 16-5-79	नजदीक बाला मिडर्स, विधानी पोल, ग्राम— वाडियाड़, जिला—खेड़ा ।

1	2	3	4	5
3062.	जयसुख साँखवी मणी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5989 19-12-77	ग्राम—फतेहगढ़, ता०—रापर, जिला—कच्छ ।
3063.	जयसुख ठाकर अनुराध	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4671 20-3-75	7, वयानम्यनगर, एणकुंज, राजकोट ।
3064.	जयवस्ता मेहता केशबलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5597 17-11-76	मार्फत मेहता केशबलाल, प्राणजी, ग्राम— कालावाड़, जिला—जामनगर ।
3065.	जय लाल शिवेदी नटवरलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3631 3-10-72	मार्फत कानुभाई बी० आचार्य, हंसकुंज, वड़वा, फवारिया बाड़ी, पनवाड़ी रोड़, भावनगर ।
3066.	जयवपाल सीनी नर्सीसिंह	बैद्याचार्य नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1966	8770 11-5-83	13, श्री द्वारकेश निकेतन आजादनगर, को०- आ० हाउ० सोसाईटी, एन० एम० रोड़ नं० 1, जुद्ध स्मृति सेपारले (प०) बम्बई-400 056
3067.	जयेश्वर जानी शास्तीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5948 26-10-77	जुवारेख रोड़, सेरी नं० 1, बैया निवास सुवेन्नगर ।
3068.	जयेश्वर जोशी सोमनाथ	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3045 15-9-70	भटवावो, सामने हनुमानजी मन्दिर, ग्राम बीजापुर, जिला—मेहसाना ।
3069.	जयेश्वर जोशी मोहनलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3506 9-5-72	वाड़ी, सोनी पोश, नं० 4, ग्राम—बड़ोवा ।
3070.	जयेश्वर शाह कास्तीलाल	बी० ए० एम० ए० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9007 28-3-84	1572, धरुव फालिया, पीछे महादेव, ग्राम— अहमदाबाद ।
3071.	जयेश्वर कुमार आचार्य देवेश्वर प्रसाध	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6869 3-4-79	श्याम बिसनिक, समाज चौक, ग्राम देनाप, ता०—बीमानगर, जिला—मेहसाना ।
3072.	जयेश्वरकुमार अग्रवाल गोपालदास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7211 20-8-79.	11, गणेश सोसाईटी, आर० बी० देसाई रोड़ बड़ोवा ।
3073.	जयेश्वरकुमार भट्ट मानकलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2828 28-8-69	44, सोमनाथनगर सोसाईटी, नारनपुरा, चार रास्ता, अहमदाबाद-13 ।
3074.	जयेश्वरकुमार भट्ट मूलशंकर	बी० ए० ए० एम०] गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4595 1-1-75	जिन गेट, ग्राम घोराजी, जिला—राजकोट ।
3075.	जयेश्वरकुमार मेहता गंगादास	बी० एस० ए० सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोस, गुजरात 1962	906 21-1-63	आयु० डिस्पेंसरी, मोटा जिनजुवा, वाया सावरकुम्हाला, जिला—भावनगर ।
3076.	जयेश्वरकुमार पटेल मनुभाई	बी० ए० एम० ए० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9331 9-8-85	मार्फत प्रो० एम० एम० पटेल, कुबेरनगर, ग्राम—और पो० आ०—बोदेली, ता० सखेड़ा, जिला—बड़ोवा ।
3077.	जयेश्वर कुमार सत्यपाल बलदेव भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	8055 27-4-81	ग्राम—खन्नागाम,, ता०—दसरौर, जिला— अहमदाबाद ।
3078.	जयेश्वरकुमार उपाध्याय किशोर चन्द्र	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6324 27-9-78	“कल्याणकुम्भ” पञ्जीक जनता बैंक, स्टेशन रोड़, ग्राम घोषुका, जिला—अहमदाबाद ।

1	2	3	4	5
1079.	जयदेवकुमार बल्कानी केशवलाल	पी० एफ० ए० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1957	1007 2-1-58	जसवन अस्पताल, ग्राम और ता० जसवान, जिला—राजकोट ।
1080.	जयेंद्रप्रसाद दवे ईश्वरप्रसाद	वैद्य विशारद नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1968	7294 20-9-79	ई० गवर्न० कालीनी, सरमपुर, अहमदाबाद ।
1081.	जयेश अग्निहोत्री रमनलाल	डी० एस० ए० सी० गुजरात आयु० वि० वि० 1963	1363 26-11-63	शंकर आयु० फार्मसी, अमाली पोल, रायपुर, अहमदाबाद ।
1082.	जयेश भोवी हंसमुख राय	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8525 27-8-82	4/1904, जोगपुरा, मुमबाहबाड़ा, सूरत ।
1083.	जयेशकुमार पारिख बाघजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7528 15-2-80	गायत्री कालोनी, तजदीक अहमदाबाद, जिला—को०-आ० बैंक ओशाव, अहमदाबाद 382 410 ।
1084.	जयेशकुमार पारिख भरविन्द भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7919 12-12-80	चन्द्रेण नकास्ता शेरी, बेबी गेट रोड, ग्राम—राजकोट ।
1085.	जयेश त्रिवेदी इन्द्र बदन भाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9627 21-11-86	पुनीतपोत, ग्राम—परखेज-382 210 ।
1086.	जयदेव पांड्या नारायणशंकर	डी० एम० ए० सी० कमेट्री फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1686 29-5-65	बाववैद्य नहावकी नगर उवा, ग्राम—नेटनाद जिला—कैरा ।
1087.	जयदेवो मेहता रतीशाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4436 1-8-74	मार्फत अर० जी० मेहता, अस्पताल रोड, ग्राम—संगरोली, जिला—जूनागढ़ ।
1088.	जयदेव भाई पटेल रसिकभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7867 16-10-80	ग्राम—तिम्बारवा, ता०—मिनोर, जिला— बड़ौदा ।
1089.	जयकिशम त्रिवेदी अमृतलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8553 14-9-82	सेक्टर नं० 20, ब्लाक नं० 129/3, ए० ग्राम— गांधीनगर ।
1090.	जयकृष्ण जोशी टाकूर लाल	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1950	226 30-12-50	नारायण देव खादकी, नवदारा, ग्राम—बड़ौदा ।
1091.	जयकृष्ण बैद्य अम्बाराम	एन० ए० एम० यू० पी० आयु० महावि०, पाटन 1934	1030 27-5-40	ग्राम—मुषा (कुरेली) ता०—नवसारी, जिला— वलसाड ।
1092.	जयनारायण शर्मा हनुमान प्रसाद	जी० एफ० ए० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1967	2923 9-3-70	पी० एच० जे० टंकाल, ता०—बिखाली, जिला वलसाड ।
1093.	जयपाल पटेल कानाभाई	आयुर्वेद अर्थकार आयु० कालिज गुरुकुल वि० वि० कांगड़ी (हरिद्वार) 1939	540 26-10-40	ग्राम—गुरुकुलसपा, ता०—नवसारी, जिला वलसाड ।

2	3	4	5
094. जयप्रकाश भट्ट बसन्त भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5855 23-8-77	बोलत भट्ट बी० 2/10, रामन स्मृति अहमदाबाद ।
095. जयप्रकाश शर्मा मदनलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5205 26-2-76	16, स्वास्तिक सोसाईटी, नजदीक एस० टी० गारेज, ग्राम पालनपुर, जिला बनारसकन्या ।
096. जयप्रकाश त्रिवेदी जयन्तीलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4438 1-8-74	मार्फत जे० आर० त्रिवेदी, सारदा माध, नजदीक गोमती नदी, ग्राम दारका, जिला जामनगर ।
097. जयराम त्रिवेदी जयन्तीलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4704 29-3-75	गोरवाड़ा होली, बकला, ग्राम कपाड़वंज, जिला खेड़ा ।
098. जयशंकर दवे अम्बालाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3022 6-8-70	जाड़ी दलिया पोल, माका श्री शंभुदेव महाराज मन्दिर, बड़ौदा ।
099. जयशंकर जानी नर्मदाशंकर	एम० ए० एम० यू० पी० आयु० महावि० पाटन, बड़ौदा 1941	197 3-11-41	ग्राम पञ्जन, वाया मरोली, बाजार, जिला बलसाव ।
100. जयश्री जानी हेमन्द्रा	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7800 4-8-80	230/1, बाहर रामपुर गेट, भवनपुरा, पीथ नाका, अहमदाबाद ।
101. जयसिंह नन्दा नारीदाम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7188 17-8-79	मार्फत बी० एम० नन्दा मेक्षारानी चेट्टा रोड, सामने देविया निवास, डिवीवाली (पूर्व) धाना ।
102. जयसुख निम्बार्क लक्ष्मीराम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5792 30-4-77	ग्राम मोटा सुराका, वाया सिहोर, जिला भावनगर ।
103. जयसुख भ घानी मंगलजीभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3847 2-3-77	बाजार रोड, ग्राम-वाधिया देवाड़ी, ता० कुकावाव, जिला-जनागढ़ ।
3104. जयसुखलाल भट्ट हरीशंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3946 2-3-73	ग्राम प्रेमपुरा, वाया बैसवदार, जिला जनागढ़ ।
3105. जयसुखलाल चौहान कृष्णदास	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1965	1864 2-12-65	दर्जी कृष्णदास रामजी, बाजार, लाठी जिला-अमरोली ।
3106. जयसुखलाल जमानी रतीलाल	आयुर्वेद भियक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1975	7406 29-11-79	15/26, विजय प्लाट, सुखीटकुन्ज, ग्राम राजकोट ।
3107. जयसुखलाल मेहता रामजी	आयुर्वेद भियक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1983	6994 7-5-79	नजदीक थोरा, गुणवावाड़ी, मेन रोड, ग्राम राजकोट ।
3108. जयवन्त पाठक रमनलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	7322 10-10-79	बाग पालिया, पुरानी खादकी, ग्राम नालोन, जिला पंचमहल ।
3109. जयवन्तकुमार आर्य मणि शंकर	एम० एम० बी० एम० बोर्ड ऑफ इंजियान मेडीसिन, लखनऊ 1965	1800 13-9-65	ग्राम खेवोई, ता० अन्जार, जिला-कच्छ ।
3110. जयवन्त निकाम भववन्त राव	बी० ए० एम० एम० जीवाजी वि० वि० 1965	7219 23-8-79	मार्फत जी० बी० यमाला, यमुना नवन, बड़ौदा ।

1	2	3	4	5
3111.	जयान्तराव सूर्यवंशी गणपतराव	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1948	1312 31-12-48	विपी स्ट्रीट, ग्राम-नवसारी, जिला-बलसाड ।
3112.	जयवन्त सिंह सरवईया करण सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1975	7190 17-8-79	ग्राम-बलार, ता०-तालजा, जिला-भावनगर ।
3113.	जयशैल नन्धा काकुषाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1977	6756 15-3-79	मार्फत के० के० नन्धा, 3, रामनाथपुरा, ग्राम- राजकोट ।
3114.	जेकिनदास पटेल जगुभाई	जी० एफ० ए० एम० फै० आफ आयु० एण्ड यू० आफ मेडिसिन, गुजरात 1961	547 10-4-62	बाकला क्लिनिक, सामने जी० पी० आई० निकारते कम्पनी अम्बेरी (पूर्वी) ।
3115.	जेमुभाई बोडिया मयुभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1977	6448 28-12-78	ग्राम-मोईपर, नटास, नलवाड़, जिला- सुरेन्द्रनगर ।
3116.	जेताभाई परमार जुगा भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1971	3441 14-3-72	ग्राम भीर पो० आ०-विठवामी, ता०-महेस्वाबाद जिला-खेड़ा ।
3117.	जेराम भाई भकवामा देवजी भाई	डी० एस० ए० सी० कमेटी फार एन्ड आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2472 3-5-67	ग्राम-फटकपारा, पो० आ०-नर्यावा, बाया, हनुवावा, जिला-जुनागढ़ ।
3118.	जेरामभाई पटेल मेधाजी भाई	बैच विचारद सि० भा० आयु० बि०, दिल्ली 1965	7602 18-3-80	ग्राम-इगोराला, बाया मोरा, सम्बीयाला, ता०-खाम्मा, जिला-अमरेली ।
3119.	जेराम भाई पटोरिया बाबा भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1977	6589 16-2-79	बश्मीनगर, बरछा रोड़, मजदीक गीताजली सिनेमा, सुरत-6 ।
3120.	जेसिंह भाई राठी जीवा भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1974	4697 25-3-75	22, प्रतापनगर सोसाईटी, राजपुर, अहमदाबाद ।
3121.	जेसिंह लालशाह नानालाल	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1954	1155 1-7-54	14-बी, कार्तिकदामी सोसाईटी, बरबाजा अहमदाबाद ।
3122.	जेरुसनेन परमार देविशभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1973	4283 24-3-74	इमानुअल सोसाईटी, ब्लॉक नं० 2-बी, सरसरपुर, अहमदाबाद ।
3123.	जेठालाल पटेल बुनीलाल	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ आयु० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1951	546 10-7-51	ग्राम वबाड़, ता०-इदार, जिशा-साबरकंवा ।
3124.	जेठालाल राठी रावजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1969	2970 16-6-70	मार्फत रवजी भाई मेलजीभाई, कादिया प्लाट ग्राम-पोरबन्दर, जिशा-जुनागढ़ ।
3125.	जेठालाल शाह मैठ लाल	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1947	1154 30-8-47	ग्राम-सरदोई बाया मोवासा, जिला- साबरकंवा ।

1	2	3	4	5
3126.	जैठ लाल शाह कुचेरवाम	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, गुजरात 1954	2351 2-8-54	ग्राम और पी० आ०—चितरोडा, बाया और ता०—इंदार, जिला—माबरकांभा ।
3127.	जैठलाल उजिया त्रिकम जी	आयुर्वेद सिधक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1969	6773 21-3-79	2, करणपुरा, ग्राम—राजकोट ।
3128.	जैठलाल बड़सैला बनजी भाई	डी० एस० ए० सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1962	1001 23-11-62	ग्राम—दिम्बाडी, पी० आ०—मेरजाय, जिला— राजकोट ।
3129.	जैठानन्द दक्षिणा विशान दास	बी० ए० एम० एस० गुजरात वि० वि० 1966	2481 6-5-67	हरीपुरा, पी० आ०—दरनधा, ता०—मामबवार, जिला—जूनागढ़ ।
3130.	जिगनसा घोकासी चन्द्र कान्त	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8708 16-3-83	बजबाड़ा शेट शेरी, बड़ौदा-1 ।
3131.	जिनाभाई मकवाना समजी भाई	बी० एम० ए० एम गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2811 18-8-69	ग्राम—भोटी, बाया पालीटना, जिला—भावनगर ।
3132.	जितेन्द्रा भट्ट धनमुखराम	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1950	825 24-1-51	9/748 अलीरात पाठशाला शेरी, सूरत-1 ।
3133.	जितेन्द्र वागया भीम भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4801 24-4-75	2/6 तुलसी नगर, पुराना बायज, अहमदाबाद ।
3134.	जितेन्द्र ववे विश्वनाथ	बी० एस० ए० एम० । गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3255 5-10-71	ग्राम—धरसादा, बाया लाथी, जिला—अमरेली ।
3135.	जितेन्द्र वरू रमनीकलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6056 8-3-78	नगर बाकला मजबीक बाराकुवा, जामनगर ।
3136.	जितेन्द्र गोस्वामी बच्चुगिरी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8326 17-2-82	गोसाईवाड़ा, ग्राम—बो साद, जिला—बेड़ा ।
3137.	जितेन्द्र जोशी वामोदर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3961 15-6-73	ग्राम कल्याणपुर, ता० मखतराणा, जिला— कच्छ ।
3138.	जितेन्द्र जोशी भरगोविन्द भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6198 15-7-78	भगवत क्लिनिक, ग्राम—बारेजा, ता० वासरोई, जिला—अहमदाबाद ।
3139.	जितेन्द्र भोजा जयन्तीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5903 20-9-77	कोठी कम्पाउण्ड, 96ए, 1, ग्राम राजकोट ।
3140.	जितेन्द्र, पारिख सूरजनाथ	बी० एफ० ए० एम० फै० आफ आयु० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1959	712 1-7-59	महाराणा गांधी रोड, ग्राम और जिला— बलसाद ।
3141.	जितेन्द्र पारिख जैठलाल	बी० एफ० ए० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1969	4857 19-10-74	“मातृकाया” हाथी फील्ड, बड़ौदा ।

1	2	3	4	5
3142	जितेन्द्र राजगोर चन्दूलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7978 20-2-81	11, श्रीनाथ सोसाईटी, सामने रानक पाव नववादा, ग्राम अहमदाबाद ।
3143	जितेन्द्र राठी गिरधारी लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8348 11-3-82	संजीवनी सोसाईटी, 2, प्लॉट नं० 22 63 ब्ला नं० 6, बलाजा रोड, कृष्णानगर भावनगर
3144	जितेन्द्र बिबेदी भालचन्द्र	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4791 21-4-75	गोजारिया पोल, हलीम खादकी, गान्धपुर, अहमदाबाद
3145	जितेन्द्र उपाध्याय भगवती प्रसाद	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3589 13-9-72	ग्राम-अवासंग, बाया सचारकण्डला, जिला- भावनगर ।
3146	जितेन्द्र बघमार जयन्तीलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7010 16-5-79	33, कमलेशपार्क कालेज रोड, ग्राम-माडिम जिला—खेड़ा ।
3147	जितेन्द्र बैद्य रमणीकलाल	ए० बी० बी० तिलक महाराज विद्यापीठ, पूना 1942	1032 13-1-43	काला मेहता शेरी, सगरामपुरा, ग्राम-सूर- जिला—बड़ौदा ।
3148	जितेन्द्र भाई जोशी भानुशंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5041 20-11-75	कमलपुरा नजदीक जैन ट्रेडर, खलीव ग्राम-पालनपुर, जिला—बतासकथा ।
3149	जितेन्द्र भाई शाह भइया भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7873 14-11-80	ग्राम और पो० आ०-समार रोड, ता०-पा जिला—बड़ौदा ।
3150	जितेन्द्रकुमार भट्ट हरीप्रसाद	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8828 1-9-83	रामभयन धोदी पोल, ग्राम-खाम्भट, जिला खेड़ा-388 620 ।
3151	जितेन्द्रकुमार बेसाई नरपत भाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9527 1-7-86	ग्राम और पो० आ० मुदेरी, ता० इ जिला—एम० के० ।
3152	जितेन्द्र कुमार गांधवी कृष्ण भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7922 12-12-80	ग्राम और ता०-हरिज, जिला—मेहसाना ।
3153	जितेन्द्र कुमार अमीन ठाकुर भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6291 20-9-78	नजदीक भावजी मन्दिर, ग्राम और पो० आ वीरसाद, जिला—खेड़ा ।
3154	जितेन्द्रकुमार जानी एशम सुन्दर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5135 27-1-76	सायने बस टैण्ड, स्टेशन रोड, ग्राम-देव बरिया, जिला—पंचमहल ।
3155	जितेन्द्रकुमार जानी कमलशंकर	आयुर्वेद उत्तमा श्रावणमाम दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1971	6545 12-2-79	राधा स्वामी मावन बाग, ग्राम-सिद्ध जिला—मेहसाना ।
3156	जितेन्द्रकुमार मेहता ईश्वरलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5744 25 3 77	म० नं० 50, बाड, ग्राम ओलपाव, जिला सूरत ।
3157	जितेन्द्रकुमार मुलानी मंगनलाल	डी० ए० एम० एफ० फै० आफ प्रा० एण्ड यू० वि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1953	950 1-2-51	गिरराज चौक, जाफराबाद, जिला—अमरे

1	2	3	4	5
3158.	जितेन्द्रकुमार पटेल अम्बालाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8472 3-8-82	मन्वहार, बालो, ता०-नादिवर, जिला— खेडा ।
3159.	जितेन्द्रकुमार पाठक मालाजी भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5249 5-3-76	गुण० हाउ० बोर्ड, नवजीवन सोसाइटी, अण्णा रोड, बड़ौचा ।
3160.	जितेन्द्र कुमार राणा मधु जी	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1989	2972 16-6-70	1/5, गुण० हाउ० कालोमी, असारवा, जमनपुरा, जूना, अहमदाबाद ।
3161.	जितेन्द्र कुमार राजल नाचालाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8572 20 10-82	ग्राम और पी० आ०-काड़ा, ता०-बीस नगर जिला—मेहसाणा ।
3162.	जितेन्द्र कुमार माह विमललाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5443 25-6-76	ग्राम-उमाला, ता०-अषाधिया, जिला— बड़ौचा
3163.	जितेन्द्र कुमार माह नासमुबलाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7589 14-3-80	ग्राम-बुधारी, ता०-बालोद, जिला—दूरत ।
3164.	जितेन्द्र कुमार ठाकरजी नरवलाल	आयुर्वेद उज्जवा श्रावणमास बकिणा परीक्षा समिति, बड़ौचा 1973	6950 1-5-79	बन्दी गेट रोड, सामने बन्दीवाला, जिला— गड़ौचा ।
3165.	जितेन्द्रकुमार उपाध्याय मणीबाल	बी० ए० एम० एस्० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6229 10-8-78	जितेन्द्र निवास सोनिवाड़ा, ग्राम-मोबसा, जिला—साबरमती ।
3166.	जितेन्द्र कुमार उपाध्याय रजनीकान्त	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6758 15-3-79	ब्राह्मणवाड़ा, ग्राम-सतरामपुर, जिला— पंचमहल ।
3167.	जितेन्द्र कुमार उपाध्याय जसवन्तलाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7811 13-2-80	बोधाम-नीरमाली, ता०-कपाडबस्त, जिला— खेडा ।
4168.	जितेन्द्रकुमार उपाध्याय वीकुण्ठराय	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7848 10-10-80	नजवीक गांधी मोरी, आवेर मवन, ग्राम— मोवीनार, जिला—जूनागढ़ ।
3169.	जितेन्द्रकुमार व्याम कागरीलाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4794 21-4-75	10/817, ज्ञापतिया नरकला, नजवीक विपिन बार्ग, ग्राम—दूरत ।
3170.	जितेन्द्रकुमार खाना कन्जीभाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5523 15-9-76	ग्राम-बारोजा, ता०-वासरोई, जिला— अहमदाबाद ।
3171.	जितेन्द्रकुमार त्रिपाठी पर्वती शंकर	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3588 7-9-72	761/1, लालवाला फोल्, नजवीकपरबाही, संकावीशेरी, आधिया बार्ग, जूना 2, अहमदाबाद ।
3172.	जितेन्द्र नाथ पांडेया प्रताप भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5153 4-2-76	मार्फत पी० डी० पांडेया, आशापुरा मन्दिर रोड, नजवीक आशापुरा मन्दिर, ग्राम— भोम्बाल, जिला—राजकोट ।
3173.	जितेन्द्रप्रसाद माह मूलचन्द्र भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5583 13-10-76	नजवीक पो० आफिस, मोवीनार, ग्राम और ता०-खेरालु, जिला—मेहसाणा
3174.	जितेश मट्ट मनु भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8725 19-4-83	मार्फत एम० पी० मट्ट, सावजीवाचा, रामाजी, फाली, ग्राम-अमरेली ।

1	2	3	4	5
3175.	शिलिनकुमार पीड्या सूर्यकांत	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4684 24-3-75	ग्राम-बोधाधी, ता०-सतम्ब, जिला-अहमदाबाद
3176.	जीवामाई पटेल सोमाभाई	डी० ए० ए० ए० एफ० फै० आफ् आफ् ए० ए० सि० आफ् मेडीसिन, बम्बई 1941	3459 3-11-41	प्राइमरी हेल्थ सेक्टर, ग्राम-बागपुर, जिला- बेचगधवारिया, जिला-पंचमहल ।
3177.	जीवामाई पटेल हीराभाई	बी० ए० एम० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9335 9-8-85	ग्राम-बोधा, ता०-प्राणतीर्थ, जिला- ए० के० ।
3178.	जीवामाई बाधिया करण भाई	बी० ए० एम० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9486 24-3-86	ग्राम-मनगाध-360 375, ता०-जैतपुर, जिला-राजकोट ।
3179.	जीवन टंक नबूभाई	बैद्याचार्य नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1968	6816 22-3-79	ग्राम-रत, ता०-कल्याणपुर, जिला-भामनगर
3180.	जीवनभाई पटेल पुरुषोत्तम बास	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4565 29-10-74	ग्राम-रामपुर ता०-बीजापुर, जिला-मेहसाणा ।
3181.	जीवनभाई पटेल नल्लुभाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5719 4-3-77	ग्राम-कनारी, पो० आ०-गिजार, ता०- बरडोली, जिला-सूरत ।
3182.	जीवन भाई राज माधव भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3601 18-9-72	ग्राम बीर, सामने गुजराती जाला, ता० बीर जिला बड़ौदा
3183.	जीवन लाल भट्टी कृष्ण भाई	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1961	8743 19-4-83	श्रीम मार्केट, सामने पंचवटी, बरव नवाला रोड, ग्राम भामनगर
3184.	जीवन लाल भाजेरा प्राण जी भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3630 3-10-72	ग्राम बीर पो० आ० गुजाराती, ता० महुवा, जिला भामनगर ।
3185.	जीवन लाल कौधिया खोदी बास	डी० ए० ए० ए० सी० कमेटी फार गुज आयु० कोर्स, गुजरात 1963	1362 26-11-63	1155/1, संकादी, मानिक चौक, अहमदाबाद ।
3186.	जीवन लाल राठी कालु भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3952 22-5-73	ग्राम मेखनवार, बाया सासथा, जिला भामनगर ।
3187.	जीवन लाल सुरवीया कुरमनी भाई	आयुर्वेद मध्यमा श्रावण मास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1973	6639 21-2-79	ग्राम नगला, बाया भोला जं०, ता० उमराला, जिला भामनगर ।
3188.	जीवन लाल सुरवेर भाई बन्धस	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3882 23-3-73	ग्राम अम्बाजी, ता० बलासकंधा ।
3189.	जीवन लाल उकानी बीराजी भाई	बी० ए० एम० ए० ए० कालपुर वि० वि० 1972	4699 26-3-75	बड़ौदा प्रेसटीज, आकेट नाका, बरछा रोड, सूरत ।
3190.	जीवन लाल व्यास अंकर लाल	ए० ए० एम० यू० पी० आयु० महावि० पाटन 1941	2546 17-4-41	लिम्बी शेरी, ता० महेन्द्राबाद, ता० और जिला खेड़ा ।

1	2	3	4	5
3191.	जीवन पुरी गोस्वामी मीनाम पुरी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3762 6-2-73	ग्राम सुरकुवा, ता० बोस्ताप, जिला बेका ।
3192.	मोहन राम गोंडालिया मोसी राम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4542 8-10-74	ग्राम धरकाला, ता० साधरकुछावा, जिला भावनगर ।
3193.	जीवराज म रोविया पामजी भाई	बी० ए० एम० एम० इन्डोर वि० वि० 1977	6300 27-9-78	ग्राम जामनबाब, ता० पालीटणा, जिला भावनगर ।
3194.	जीवराज हलवाडिया टाकरली	बी० एस० ए० सी० कमेटी फार गुज आयु० कोर्स, गुजरात 1968	2079 27-6-66	ग्राम केजला, ता० मोरवी, जिला राजकोट ।
3195.	जीवराज पुनसूरिया भुवन भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6140 19-4-78	बालम चौक, ग्राम मेन्डाबा, जिला जूनागढ़ ।
3196.	जीवराज बाबोलाल बिमजी	आयुर्वेद भिषक मि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1975	7705 28-4-80	ग्राम भगत राय, बाया केशाब, जिला जूनागढ़ ।
3197.	जीवराज भाई परसूरी मोहन भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5331 3-4-76	ग्राम उन्तबाड़, ता० बावटा, जिला अमरेली ।
3198.	जोगेन्द्र सिंह चौहान सबल सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9014 28-3-84	राधाकृष्ण बिल्डिंग, ग्राम कुटियाणा, जिला जूनागढ़
3199.	जोगिन जोशी हृदी नवन	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9287 7-5-85	ओम बी बिक्रम कुटीर, हाथी रोरी ग्राम जाम नगर -361001
3200.	जोईल बेन कुबिटेफर मानरोभाई	बी० एस० ए० सी० कमेटी फार गुज आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2119 22-7-66	पालडी चार रास्ता, सामने पेट्रोल पम्प, इस्लाम ब्रिज, अहमदाबाद ।
3201.	जोहर मराजबेन सनियवाओ	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4268 18-3-74	मराजबेन मोजजिल, ग्राम मासर रोड, ता० पटारा, जिला बड़ोदा ।
3202.	जोठालाल रावल मधनलाल	आयुर्वेद भिषक मि० भा० आयु० वि० दिल्ली 1985	6684 3-3-79	मार्फत मेहता आयु० अधिधालय, ग्राम पनाची बाया वल्लभीपुर, जिला भावनगर ।
3203.	जोठालाल उपाध्याय वृजलाल	वैद्य विशारद मि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1963	7605 18-3-80	ग्राम इम्होरला, (बन्ध) ता० लिलिया, जिला अमरेली ।
3204.	ज्योति कुमारी रजनीकांत	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6879 8-8-77	23, मधुराम पार्क सोसाइटी, मणीनगर, अहमदा- बाद
3205.	ज्योति कुलकर्णी प्रकाश	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9437 23-12-86	'बस्ता प्रसाद' अबाजी पाबजी पागा मारीमाता सेन, पालस रोड, ग्राम बड़ोदा-1
3206.	ज्योति लोधाविया प्राणजीवन दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3319 24-1-72	70-सी, सांताक्रुज, तृतीय रास्ता, बम्बई-55 ।
3207.	ज्योति मास्टर जयराम दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4761 9-4-75	बार० नं० 3, अनाववाडा बिल्डिंग, सुरत-1

1	2	3	4	5
3208.	ज्योति पंढर मधुकांत	आयुर्वेद शिक्षक वि० एस्० आयु० वि०, दिल्ली 1973	6528 1-2-79	डी-4, ई० एस्० जर्जी० एम्० हिल्सेसरी, बका० नजदीक बम्बई गारोज, शाहीबाग, अहमदाबाद
3209.	ज्योति शैल बकण कुमार	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8070 4-5-81	स्टाफ बका० जय कृष्ण विशालय, कारीबी बाग, बड़ौदा ।
3210.	ज्योति बाला पाण्ड्या भानु शंकर	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6876 3-4-79	प्लॉट सं० 38, किल्लम नगर, भावनगर ।
3211.	ज्योतिबाबा जिवेदी सुर्गा शंकर	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4550 10-10-74	7/73, बल्लभ नगर, कृष्ण० मन्मोही, बापुवनर चाररास्ता, अहमदाबाद ।
3212.	ज्योति बेन अट्ट महाशिव	आयु० सम्भवा श्रावण मस बक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1977	6710 9-3-79	माजोछाया, हरफानपदाई धारी, जोगीबादा ढंकी, ग्राम भावनगर ।
3213.	ज्योतिबेन चौहान त्रयम्भर सिंह	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8803 5-7-83	म० न० 675, पेट्रोलमिकस टाऊनशिप, बड़ौदा-391345
3214.	ज्योतिबेन चौहान नरसिंह भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9418 2-11-85	बम्बरवास, ग्राम-सरखेजी, जिला-अहमदाबाद
3215.	ज्योतिबेन पटेल बाबू भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3556 21-8-72	तिथोरीबाबा बिरुजग, लक्ष्मणदा, भाडियाड़, जिला— खेड़ा ।
3216.	ज्योतिबेन शाह ठाकर भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4467 29-8-74	जोगीबाग विट्टाला पोल, रावपुरा, बड़ौदा ।
3217.	ज्योतिबेन उपाध्याय सम्यक कुमार	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	8774 16-6-83	8-1998, अमलीरान भाका, ग्राम-सरत ।
3218.	ज्योतिबेन म्यास भानु भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5164 12-2-76	नजदीक रम्भोवजी मन्दिर, देसाई, बागो ग्राम-भाडियाड़, जिला— खेड़ा ।
3219.	ज्योतिबा ओजा जादा भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7479 3-1-80	17, परिजातक वाटिका आर्या कम्पन महा- विद्यालय करेलीबाग, बड़ौदा ।
3220.	ज्योतिबा मेहता पंकजभाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5155 7-2-78	41, मित्रमण्डल सोसाईटी, मित्रापुरा, बड़ौदा-2 ।
3221.	ज्योतिबा पटेल नगवतशंसाब	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4678 24-3-73	सरदारनगर सोसाईटी, प्लॉक न० 214, छानी रोड़, बड़ौदा ।
3222.	ज्योतिबा पुरोहित भानु शंकर	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5404 26-5-76	मार्फत किलौर लक्ष्मीदास ठाकर, बजवाड़ा, काफेरेवर महादेव पीस, बड़ौदा-1 ।
3223.	ज्योतिबाबाहू 3 रमनलाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8085 4-6-81	31, अमानिका पार्क, सोसाईटी, ग्राम रोड़, अहमदाबाद ।

	2	3	4	5
3224.	ज्योतिन्द्र चट्ट भामुप्रसाद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6669 28-2-79	1167/2, बन्धारा जन्मा, मन्काकी सेरी नुका, मानिक चौक, अहमदाबाद ।
3225.	ज्योतिन्द्र बने महेशकुमार	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9186 11-12-84	1/42/1, जुपाम्ही पोलनाका, मन्काकी सेरी, मानिकचौक, अहमदाबाद ।
3226.	ज्योतिन्द्र जोशी अम्बालाल	डी० एस० ए० सी० कनेटी डाक बूड आयु० कोर्स, गुजरात 1967	2612 16-12-67	ग्राम-तिवरवा, ता०-सिन्धौर, जिला-बड़ौदा ।
3227.	ज्योतिन्द्र मेहता रामचन्द्र	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8639 28-1-83	ग्राम और पो० डा०-वाहेज, ता०-वापरा, जिला-मेरीच ।
3228.	ज्योतिन्द्र पटेल मंकरलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4380 20-5-74	मार्फत डा० सुमंतलाल पटेल, सामने सावनगर, करेलीबाग, बड़ौदा ।
3229.	ज्योतिन्द्र कुवला महाशंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3622 26-9-72	मुन्काबाव रोड, ग्राम-बगसर, ता०-बैद्य, जिला-अमरेसी ।
3230.	ज्योतिन्द्रकुमार बने हरीप्रसाद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7395 21-11-79	ग्राम-मोरवा (रेता), ता०-शाकेरा, जिला- पंचमहल ।
3231.	ज्योतिन्द्रकुमार जानी कृष्णशंकर शर्मा	आयुर्वेद मध्यमा श्रावणमन्त्र दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6952 1-8-79	ग्राम-नवगाम, वाया कलवाड़ (शीतला) जिला-जामनगर ।
3232.	ज्योतिन्द्रकुमार श्याम अमलकुमार	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3417 7-3-72	नगर पोस, पो० डा० और ता० भेता, जिला-खेड़ा ।
3233.	ज्योतिन्द्रसिंह अटीवारिया भगवान सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7856 10-10-80	स्टेशन उमास्ता, ग्राम और पो० डा०-हुरीपुरा, ता०-उवाविया, जिला-बड़ौदा ।
3234.	ज्योतिन्द्रचन्द्र बैद्य बाबू शर्मा	जी० एफ० ए० एम० फै० डाक डा० एम्ब यू० सि० डाक मेडीसिन, गुजरात 1983	1033 29-8-83	मार्फत बी० एम० बैद्य प्रानव, 108 विद्या- नगर, जामनगर ।
3235.	ज्योतस्ना जोशी प्रद्युम्न	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6666 28-2-79	12, गर्वन० सर्वेन्ट सोसाईटी, लक्ष्मीक मुनी मार्फेट, नवरंगपुरा, अहमदाबाद ।
3236.	ज्योतस्ना छतलामी कतरानाथ	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1989	7510 13-1-80	हरानी रोड, ग्राम-बड़ौदा ।
3237.	ज्योतस्ना बने नरहरलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4817 30-4-75	ग्राम-उनावा, जिला-मेहसाणा ।
3238.	ज्योतस्ना बीकान नरहरीलाल	डी० ए० एस० एफ० फै० डाक डा० एम्ब यू० सि० डाक मेडीसिन, बम्बई 1955	378 1-2-56	नवन० अस्पताल, ग्राम-मीठापुर, जिला- मेहसाणा ।
3239.	ज्योतस्ना हीरामी किमनशर्मा	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4149 7-1-74	मार्फत डा० केशव शंकर-करेलिया, जामना, जिजाबावणी सेरी, ग्राम-जामनगर ।

1	2	3	4	5
3240.	ज्योतस्ना जोशी रतीशाना	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5494 13-8-76	मार्फत डा० एफ० बी० व्याम, ग्राम जाम कम्बली, जिला जामनगर ।
3241.	ज्योतस्ना भद्र भास्कर	डी० एस० ए० सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1962	826 18-2-63	16, अरुणदय पार्क जालुभाई पार्क स्टैं० जबीपारा कालज कोरनर, नवरंगपुरा, अहमदाबाद ।
3242.	ज्योतस्ना मेहता महेमचन्द्र	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3073 5-12-70	काशुभा रोड, सामने न्यू फिल्टर, "उपमीर" प्लॉट नं० 6, भावनगर ।
3243.	ज्योतस्ना तानावती कमलेशकुमार	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3353 11-2-72	मार्फत के० पी० तानावती, हटकेरबर, खेन, ग्राम जूमागढ़ ।
3244.	ज्योतस्ना पमव्या प्रह्लाद राय	डी० एस० ए० सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2164 9-9-66	रामतेकरी रोड, ग्राम और ता० तालजा, जिला भावनगर ।
3245.	ज्योतस्ना पाठक हीरालाल	डी० एस० ए० सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1964	1474 6-7-64	भुटाही, जापा, सामने इण्डियन प्रैस, ग्राम बड़ीवा ।
3246.	ज्योतस्ना पटेश माधुर भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6975 7-5-79	7, ताशकम्व सोसाईटी, भूवरपुरा, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद ।
3247.	ज्योतस्ना पटेल ब्रजसुख लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	7627 20-3-80	मार्फत डी० जी० पटेल, ग्राम और पो० आ० मूलाव, बाया किन, ता० ओलपड, जि० सूरत ।
3248.	ज्योतस्ना रावल हिम्मतलाल	एम० डी० आयु० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6243 18-8-78	एम० 5/34265, शास्त्रीनगर, नजदीक प्रगतीनगर, अहमदाबाद ।
3249.	ज्योतस्ना साह कास्तीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4016 24-8-73	कोठीपोल, रावपुरा रोड, बड़ीवा ।
3250.	ज्योतस्ना शाह मनीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4426 8-7-74	स्ट्रीट रोड, ग्राम हालोल, जिला पंचमहल ।
3251.	ज्योतस्ना साह रमलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4440 6-8-74	25, श्री कृष्ण पार्क, खानपुर, अहमदाबाद ।
3252.	ज्योतस्ना श्याम शिवकुमार	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4879 12-6-75	मार्फत भद्र अरुण, के० 24, गणेश सोसाईटी, काशी मवन, गोपीपुरा, ग्राम सूरत ।
3253.	ज्योतस्ना यशवीक रमेश चन्द्र	एम० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4508 17-8-74	आयु० विकास मण्डल, डिस्पेंसरी, पनवाड़ी, ग्राम-जामनगर ।
3254.	ज्योतस्नाशेन मोदी कास्तीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7402 27-11-79	सामने रानीबाग, जिला पंचायत, क्वा० वाघम भगोल रोड, ग्राम नाडियाड़, जिला खेड़ा ।
3255.	ज्योतस्नाशेन पटेल प्रवीण भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6464 15-1-79	बी-5, बल्लभनगर सोसाईटी, करोलीबाग, बड़ीवा ।

1	2	3	4	5
3256.	ज्योतस्नाबेन पटेल बिमललाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8189 22-9-81	उत्तर गुज० पटेल सोसाईटी, बी-1, ब्लाक नं० 71, गिरधरनगर, अहमदाबाद ।
3257.	ज्योतस्नाबेन पटेल विनीव भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8739 19-4-83	ग्राम और पो० आ०-डुमगारा, ता० कामरेज, जिला सुरत ।
3258.	ज्योतस्ना बेन बाहू मोहनलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5059 28-11-75	जवाहरनौर, ग्राम-महालव, जिला खेडा ।
3259.	ज्योतस्नाबेन त्रिपाठी भानुशंकर	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9584 7-10-86	ग्राम-बौदोई (कच्छ) ता० अम्बार ।
3260.	ज्योतस्नाबेन बावभा भीगीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2955 24-4-70	ग्राम-अमरोली, रूटीड उत्तरान, जिला सुरत ।
3261.	ज्योतस्ना पटेल नरोत्तमदास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4777 16-4-75	25-बी, गवर्न० सभेष्ट सोसाईटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद ।
3262.	कञ्जरालाल सियामी भीमजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7805 9-9-80	ग्राम बरवा, ता० बाबरा, जिला अमरेली ।
3263.	कैलाश पटेल बाबी लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7558 29-2-80	मार्केत बी० एम० पटेल, लक्ष्मणन, ता० धासरोई जिला अहमदाबाद ।
3264.	कैलाश पटेल लक्ष्मणलाल भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7826 20-3-80	कालबीबाड़, नानीसाधक, ग्राम कावतनगर ।
3265.	कैलाश गुप्ता मरदान	बी० ए० एम० एस० इन्धौर वि० वि० 1979	8289 5-2-82	कञ्जवीक सियामारायण मन्दिर, राजगढ़ (ब्याबर) एम० पी०-465661 ।
3266.	कैलाश पंचाल रती लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	5189 16-2-76	22, श्री रंज सोसाईटी, कंकरिया, अहमदाबाद ।
3267.	कैलाशबेन पटेल वेन भी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7367 29-10-79	ताहपुर बाकला, बड़वाली मेहता पोल, अहमदाबाद ।
3268.	कैलाशचन्द्र गुप्ता मूलचन्द्रजी	बी० ए० एम० एस० इन्धौर वि० वि० 1974	6319 27-9-78	31, सुभाष मार्ग, ग्राम कुकाजी (म० प्र०) ।
3269.	कैलाशचन्द्र शर्मा अग्रकाश	बी० ए० एम० एस० इन्धौर वि० वि० 1976	7262 5-9-79	8, सावित्र नगर, कनाडिया रोड, सामने जालीबुर्गे, ग्राम इन्धौर-(म० प्र०) ।
3270.	कैलाशचन्द्र शर्मा कमल शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8481 3-8-82	ग्राम और पो० आ० स्यान, ता० धोलपाव, जिला सुरत ।
3271.	कैलाशप्रसाद सिंह कैलाश गौरीपत	एच० पी० ए० पो० प्रे० ट्रेनिंग आयु० सेंटर, जामनगर 1965	3150 6-3-71	फेठ भी० पी० आयु० कालेज, ग्राम भावनगर ।
3272.	कैलाशगोरी पटेल ठाकुर भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4258 15-3-74	13, स्वास्तिक सोसाईटी, गोबारी रोड, ग्राम पासनपुर, जिला बनारसकंधा ।

1	2	3	4	5
3273.	काकनभाई कभाग चिमन भाई	बी० एस० ए० सी० कमेटी फार गुजरात 1986	2384 3-2-67	ग्राम उभायान, ता० सालपुर, जिला-साबरमती ।
3274.	कौकुभास हुंसाधिया जातिशाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4653 12-3-75	ग्राम चिलवाड़ा, बाया जयवाहार जिला-राजकोट ।
3275.	कान्हुन्दराय दवे कान्सीतलाय	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8095 4-6-81	ग्राम ईश्वरिया, बाया लोकभारती सासोसरा, जिला-सावनगर ।
3276.	कालानेन चौकसी, जयधर कुमार	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2755 28-3-69	मार्फत नरेन्द्र कुमार जे० चौकसी, मेहुता पोल, बडोदा ।
3277.	कलाभाई देसा रामभाई	बैच बिहार वि० भा० आयु० वि०, दिल्ली	6489 1-2-79	पीछे सरस्वती जयल मीन चौक, ग्राम छाया, बाया पोरबन्दर, जिला-भुनागढ़ ।
3278.	कलाभाई दासधिया जयधर भाई	आयुर्वेद बिहार वि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1984	6901 16-4-79	ग्राम बोझाका, ता० बन्वाली, जिला-जुनागढ़ ।
3279.	कालीदास लोधिया बल्लभ भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9412 19-10-85	ग्राम सुनोसारा, ता० सिहोर, जिला-सावनगर ।
3280.	कालीदास जिधेयी जुठा भाग	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3592 14-9-72	ग्राम भोटा भामिदेरा, बाया बन्वा, ता०, जुन्वाला, जिला-सावनगर ।
3281.	कल्याणदा कुमार पारिख आमिधर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5317 31-3-76	मार्फत डा० आमिधर बी० पारिख, ग्राम रामपुरा भामकोड़ा ता० विजयगाम, जिला अहमदाबाद ।
3282.	कल्पना मट्ट हरशंकर रामे	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9247 12-3-85	'बोदलकृपा' फ्लॉट नं० 1570/बी, क्वाती सावनगर 384001 ।
3283.	कल्पना मवसार बाबू भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7068 30-6-79	ब्लॉक नं० 1/10 पवन० बसाहत साल्तबाडी ग्राम बडोदा ।
3284.	कल्पना मोसाधिया रमजीक भाग	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7942 17-1-81	मार्फत आर० एस० शाह, 15, को० एन० फी० सी० सोसाइटी, टी० बी० अस्पताल रोड, जिला मेहसाणा ।
3285.	कल्पना जाली नरेश भाग	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5820 14-6-77	आउट साइड, गाहपुर गेट, सामने फायर ब्रिगेड, पंचमुखी, अहमदाबाद ।
3286.	कल्पना माहक विनेश कुमार	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	9495 16-4-86	मार्फत नायक विनेश एम० दत्तकृपा प्रताप रोड, राजपुरा, बडोदा 390001
3287.	कल्पना पटेल जातिशाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8377 18-3-82	24, शंकर भारती सोसाइटी, नजदीक अंकुर सोसायटी, अहमदाबाद ।
3288.	कल्पना शाह जयतादास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3578 5-9-72	812, ओसवाल गैरी, पंचभाई पोल, विकास रोड, अहमदाबाद ।
3289.	कल्पना शाह अकण	बी० ए० एम० एस० पूना वि० वि० 1975	5426 4-6-78	ग्राम मोदासा, जिला साबरमती ।

1	2	3	4	5
3290.	कल्पना बाह सुकुम्भ भाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9828 5-12-86	प्याकबाल स्टीट, ग्राम और ता० भ्यारा, -394650 जिला सूरत ।
3291.	कल्पना डाकर हरभाकराय	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5679 24-2-77	8, चतुरभुज कालोनी, गोमाथा बाड़ी, कंकरिया, अहमदाबाद ।
3292.	कल्पना वसिन्ध, वित्तमलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8432 17-5-82	मार्फत पी० बी० बलिया, सरपटाणी रोड, न जयीक मघानी सर्कल, प्लाट नं० 1132-ए, कल्पना, भावनगर-364001 ।
3293.	कल्पना वैष्णव गजेश्वर राय	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4665 20-3-75	मार्फत जी० एच० वैष्णव, 1 मनहूर प्लाट, भानव भवन, ग्राम राजकोट-2 ।
3294.	कल्पना बेन देसाई हरेन्द्र राय	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8521 27-8-82	3, गुरुकुवा बैंक कालोनी, हलार रोड, वलसाड ।
3295.	कल्पना बेन जोशी हीरा लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4528 24-9-74	मार्फत एच० एफ० जोशी 4, भानसरी बाड़, ग्राम जामनगर ।
3296.	कल्पना बेन देसाई कमल शंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5758 14-4-77	22, अनिता सोसाइटी, नारायण नगर रोड, पासावी, अहमदाबाद ।
3297.	कल्पना भाई पटेल अरुण भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8038 14-4-81	ग्राम और पो० आ० केसिया, ता० संखेड़ा, जिला वडोदा ।
3298.	कापूर्तिह काशा जयसिंह भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4789 21-4-75	मार्फत बकील क्लिनिक, ग्राम बेरावल, पोर्ट जिला-जुनागढ़ ।
3299.	कल्याण खेनी मीना	एम० एफ० ए० एम० फै० आ० एण्ड यू० सि० आ० मेडीसिन, बम्बई 1970	8026 3-4-81	शिवशंकर पार्वती सोसाइटी, भट्ट बाड़ी, ग्राम नं० 55, वारख रोड, ग्राम-सूरत 6 ।
3300.	कल्याण राठोड़ राजबीभाई	बी० एम० ए० एम० कानपुर वि० वि० 1973	4518 20-9-74	राष्ट्रीय माला रोड, महार प्लाट, ग्राम राजकोट ।
3301.	कल्याणभाई साहू मणीलाल	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० एण्ड यू० सि० आ० मेडीसिन, बम्बई 1957	7957 3-2-81	भोती, सरदारनगर (प०) शेरी, नं० 4, ग्राम-राजकोट ।
3302.	कल्याणी पटेल मरोलम भाई	बी० ए० एम० एफ० फै० आ० एण्ड यू० सि० आ० मेडीसिन, बम्बई 1954	510 2-8-54	मेडीकल आफिसर, कासबाड आश्रम डिस्पेंसरी, ग्राम और पो० आ० कासबाड, वाया अकलेभर, जिला-वरीच
3303.	कल्याणी कलारिया देवसीभाई	बैद्य विज्ञान नि० आ० आयु० वि०, दिल्ली 1965	7581 3-3-80	ग्राम भांडुरी, ता०-मलिया-मतिना जिला- जुनागढ़ ।
3304.	कल्याणी परमार काकर भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4193 15-2-74	बराड़ी गेट रोड, ग्राम-जामसाया, ता० खम्हालिया, जिला-जामनगर ।
3305.	कल्याणी मोवा भायालाल	बी० एम० एम० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4117 17-11-73	बराड़ी गेट रोड, ग्राम-साया, ता०-खम्भीया, जिला जामनगर ।

1	2	3	4	5
3306.	कमल कुमार वैदित बाबूलाल जी	बी० ए० एम० एम० इन्दौर वि० वि० 1975	6282 20-9-78	मेडीकल आफिसर, जिला पंचायत डिस्पेंसरी, ग्राम अमरासी, ता० साधो, जिला-भुज ।
3307.	कमलकुलकर्णी कृष्ण राय	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3515 2-6-72	मार्फत प्रहलाद एन० नन्दुरबरकर, भवेहीशेरी, घोली चौक, ग्राम-उना, जिशा-जूनागढ़ ।
3308.	कमल चावड़ा] हीरजी भाई	बी० ए० एम० एम० पूना वि० वि० 1971	3324 29-1-72	मार्फत डी० एच० चावड़ा आशानगर सोसाईटी, ग्राम-नवसारी, जिला-वलसाव ।
3309.	कमला राठी मोहनलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7648 28-3-80	4063 पीछे पुराना अजुमान हाई स्कूल, गोलीमाड़ा, अहमदाबाद
3310.	कमला वैद्य अमृतराव	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6321 27-9-78	करनीकुलाम, धारा, अहमदाबाद ।
3311.	कमलबेन जोशी प्रभाशंकर	बी० एम० ए० सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1963	1403 28-1-64	नजदीक पो० आ० ग्राम बवाली, बाया हवार, जिला-साबरकंवा ।
3312.	कमलमाई रावल जसवन्तराय	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8987 12-3-84	"कल्पतरू, रावल बिल्डिंग, बाववा पलियाघर ग्राम भावनगर ।
3313.	कमलादेवी दुधारेत्रिया शरद कुमार	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7724 29-5-80	5/56, नवरिस्मानगर, नारनपुरा, अहमदाबाद
3314.	कमलदास गोंडालिया रामदास	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5450 5-7-76	कमरा नं० 47, हरवास नगर, बापूनगर, अहमदाबाद ।
3315.	कमलानन्द स्वामी सदानन्दजी	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3240 6-9-71	गीता मन्दिर, अहमदाबाद ।
3316.	कमलापति शुक्ला अम्बालाल	आयुर्वेद स्न हि० सा० सम्मेलन, प्रयाग 1959	6677 3-3-79	ग्राम रुसीकुल सोसाईटी, ता० खेड़ा, जिला-बड़वा ।
3317.	कमलकिशोर वैद्य रमनलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4561 22-10-74	महीवाड़ा, ग्राम और ता०-बीसनगर, जिला मेहसाना ।
3318.	कमलेश भट्ट जगदीशचन्द्र	बी० एम० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9564 3-9-86	प्लॉक-9, गवर्न० हा०, नजदीक घरम सिनेमा राजकोट ।
3319.	कमलेश दवे विरजाशंकर	आयुर्वेद विषय नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1976	7156 26-7-79	1, जयराज प्लॉट, भगवतीकृपाभवन, ग्राम राजकोट ।
3320.	कमलेश भवसागर भावाचन्द्र	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7847 10-10-80	39, नवजीवन सोसाईटी, ग्राम महेशवाड़ा, जिला-खेड़ा ।
3321.	कमलेश जोशी विश्वजी	बी० एम० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9526 1-7-86	4/29, चौक फालिया, नजदीक पुराना विपीटेबल मार्फिट, ग्राम-भूज, (कच्छ)-237001 ।
3322.	कमलेश शोध रसिकलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8498 27-8-82	श्री बी० के० गांधी, अम्बा चौक, भावनगर ।

1	2	3	4	5
3323.	कमलेश ठाकर रसिकलाल	बी० ए० एम० एस० कानपुर वि० वि० 1974	4760 7-4-75	1106, एम० आई० जी० फ्लैट, करेलीबाग, बड़ौदा ।
3324.	कमलेशचन्द्र श्रीवास्तव जयस्ती प्रसाद	आयुर्वेद उत्तमा श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा । 1975	6861 2-4-79	मार्फत जयस्तीप्रसाद, पीछे कुबली-बाग, नरहरी महाराज मार्ग, ग्राम-बड़ौदा ।
3325.	कमलेश कुमार दवे रामनाथयणजी	बी० ए० एम० एस० दुन्दौर वि० वि० 1976	8748 19-4-83	ग्राम बैदिया, जिन्ना खरगीन (म० प्र०) ।
3326.	कमलेश कुमार गण्जर हिम्मतलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9303 6-6-85	580/2, महहीया पोल, रिक्की रोड, अहमदाबाद-1 ।
3327.	कमलेश कुमार लालजी भूसा भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3338 7-2-72	सामने काबरीसाहोबीस वाली, रैखाव, अहमदाबाद ।
3328.	कमलेश कुमार नायक जिथारा भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7653 28-3-80	मार्फत एम०/एस० खान्गरजी ब्यासजी नानूमान बाजार, ग्राम पद्मोद, जिन्ना पंचमहल ।
3329.	कमलेश कुमार पटेल जिन्नाभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8485 3-8-82	ग्राम और पो० आ०-उनाय, ता० बलसाद, जिन्ना बलसाद ।
3330.	कमलेश कुमार पटेल जिन्नाभाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9457 10-1-86	ग्राम और पो० आ० सारोधी, बाया उदबाड़ा, ता० पारदी, जिन्ना बलसाद ।
3331.	कमलेश कुमार नर्मदाशंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4637 5-3-75	बादियाली पोल, कोला बायी, सामने रतन, पोल, ग्राम-बड़ौदा ।
3332.	कमलेश कुमार शाह पूनमचन्द्र	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9518 1-7-86	डी/54, ओमनगर सोसाईटी, अजवा रोड, ग्राम बड़ौदा-19 ।
3333.	कमलेश कुमार शुक्ला श्रीरामप्रसाद	आयु० मध्यमा श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6714 9-3-79	रणजीत हाउस कालोनी, थ० नं० बी० 8, फ्लैट नं० 340, पीछे राठी कालोनी, जामनगर ।
3334.	कमलेश कुमार त्रिवेदी रतीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6356 4-10-78	बैद्य भवन, ब्रह्मपोल, ग्राम-दकोद, जिन्ना खेड़ा ।
3335.	कामिनी वैसाई मधुकर	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9166 17-10-84	8, सिद्धर सोसाईटी, नजदीक इस्हार धवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद ।
3336.	कामुबेन पटेल नारायण भाई	डी० ए० एस० एफ० फै० आर० ए० एम० एम०, बम्बई 1947	508 10-1-47	1, विजय सोसाईटी, न्यू बम्बेरोड रोड, बड़ौदा ।
3337.	कामुबेन सोलंकी बेनचन्द्र	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5245 5-3-76	61/2, सुनी, स्टाफ क्वा०, आउट साईड, वाहपुर गेट, अहमदाबाद ।
3338.	कानभाई जावव भासरी भाई	डी० एस० ए० सी० कमेटी फार मुक्त आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2124 1-8-66	ग्राम बुधेचा, पो० आ० चौरवाड, बाया कुसवाड़ा, ता०-मलिया हुबीना, जिन्ना जुनागढ़ ।

1	2	3	4	5
3339.	कानाभाई बाबू मेराबो भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5815 6-6-77	ग्राम—मिती, ता०—मंगरोली, जिला—जुनागढ़ 1
3340.	कन्हैयालाल मासक भोधाबजी	बैद्याचार्य वि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1969	6815 22-3-79	ग्राम—बाबरा निर, ता०—मलिया हलीना, जिला—जुनागढ़ 1
3341.	कन्हैयालाल बैद्य सिन्धु भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7902 14-11-80	31, केशवबाग को० आ० हाऊ० सोसाईटी, सामने गवर्न० आफिसरी कालोनी, वैष्णवीनगर अहमदाबाद 1
3342.	कन्हैयालाल घट्ट अम्बालाकर	डी०एस०ए०सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्ट, गुजरात 1963	810 16-1-63	ग्राम—बल्लमीपुर, बाया छोला 1
3343.	कन्हैयालाल बेसाई जसबन्तराय	जी०एफ०ए०एम० फै०आफ०एण्डयू०सि०आफ मेडिसिन, बम्बई 1959	393 31-3-60	कोटमा, ग्राम—व्यास, जिला—सुरत 1
3344.	कन्हैयालाल कालीदास	डी०ए०एस०एफ० फै०आफ०आ०एण्डयू०सि०आफ मेडिसिन, बम्बई 1953	376 1-4-54	म०न० 1-8/516 1 सिविकाकाली, हृदराबाद-70 1
3345.	कन्हैयालाल घोवासर लक्ष्मीदास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5970 28-11-77	ग्राम—बारुसा, बाया शेरबाग, ता०—मलिया, हलीना, जिला—जुनागढ़ 1
3346.	कन्हैयालाल जानी जयन्तीलाल	आयुर्वेद विशारद बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन, धीरापुर 1960	2194 27-6-80	ग्राम—पिठाबाड़ी, बाया साबरकुण्डाला, जिला—भावनगर 1
3347.	कन्हैयालाल जोशी बासकृष्ण	डी०एस०ए०सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० वि०, महाराष्ट्र 1958	216 2-1-59	17, मानसेन बिल्डिंग, बहंगा फास जेन, बालकेश्वर, बम्बई 1
3348.	कन्हैयालाल जोशी सोमेश्वर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7731 29-5-80	ग्राम और पो० आ०—टिम्बानन, ता०—गोखार, जिला—पंचमहुल 1
3349.	कन्हैयालाल कलबानी गुलाब राय	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8651 10-2-83	ग्राम—रोहीशावा, बाया निगावा जंक्शन, ता०—बोटाड़, जिला—भावनगर 1
3350.	कन्हैयालाल भवानी गोविन्द भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2973 16-6-70	म०न० 6-870, बोली जेरी, लाल दरवाजा सुरत-3 1
3351.	कन्हैयालाल मेहता अमृतलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4733 3-4-75	ग्राम—शामनबा, ता०—वासड़ा, जिला— सुरेन्द्रनगर 1
3352.	कन्हैयालाल निम्बार्क गुलाब दास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8511 27-8-82	ग्राम और पो० आ०—विहोर, ता०—तासजा, बाया और जिला—भावनगर— 364 151 1
3353.	कन्हैयालाल पटेल कुशलदास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8142 21-8-81	ग्राम और पो० आ०—बड़सार, ता०—कालोल, जिला—मेहसाना 1
3354.	कन्हैयालाल पटेल रतीलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8491 9-8-82	ग्राम—दावरवा, ता०—भावनगर, पो० आ०— गम्भू, जिला—मेहसाना 1

1	2	3	4	5
3355.	कन्हैयालाल मटेस भालीकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8688 3-3-83	ग्राम और पो० भा०-मोगालु, ता०-प्राणतीज, जिला-अहमदाबाद ।
3356.	कन्हैयालाल मटेस अमलाल साह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8864 1-11-83	नजदीक बस स्टण्ड, ग्राम और पो० भा०- जगता, ता०-पालनपुर, जिला-बनारसकंधा ।
3357.	कन्हैयालाल राजगोरे मजसतराम	बी० एस० ए० सी० कमेटी फार मुद्रा आयु० कोर्स गुजरात 1965	1691 2-6-65	ग्राम-दाभोद, ता०-बौरालु, जिला-मेहसाणा ।
3358.	कन्हैयालाल रावल बालमुदेब	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3642 9-10-72	ग्राम-कल्याणपुरा, ता०-कादी, जिला- मेहसाणा ।
3359.	कन्हैयालाल रावल विमललाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	6943 25-4-79	1353/2' खिजवावाला वास 'मिमा खाली, इस्लामाबाद, अहमदाबाद ।
3360.	कन्हैयालाल रावल अभिषेककर	आयुर्वेद शिक्षक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1946	7580 3-3-80	ग्राम-सरला, ता०-सली, जिला-सुरेन्द्रनगर ।
3361.	कन्हैयालाल शाह अशोक साह	बी० एल० ए० एम० फं आरु आ० एण्ड यू० सि० आरु मेडिसिन, बम्बई 1958	2049 2-9-58	1 अनुराधा सोसाइटी पानीगैट बड़ीवा ।
3362.	कन्हैयालाल शाह भोकल वास	बी० एस० ए० सी० कमेटी फार मुद्रा आयु० कोर्स, गुजरात 1960	1129 12-2-82	9-ए चन्द्रबेक सोसाइटी मंगलपुर बड़ीवा ।
3363.	कन्हैयालाल शाह मुन्शी साह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4137 12-12-72	बनार्ई कालिया ग्राम हालोल, जिला पंचमहल ।
3364.	कन्हैयालाल शाह जिबलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5909 20-9-79	मार्फत गोविन्द लाल शिवलाल क० ग्राम-खनसपुर ता० मोदसा जिला साबरकंला ।
3365.	कन्हैयालाल मठबर लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6031 16-2-78	मार्फत शाह मठबरलाल जेटललाल वासन वेपारी कान्तरा बाजार मुण्ड, जिला अहमदाबाद
3366.	कन्हैयालाल जमनी श्रीराम साह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3109 5-2-71	27, बल्लभनगर सोसाइटी, मजदीक मार्फेट वाड, ग्राम कालील, जिला मेहसाणा ।
3367.	कन्हैया लाल ठाकर सोन नाथ	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4676 21-3-76	ग्राम आजील, ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा ।
3368.	कन्हैया लाल शिवश्री बाबा कंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5549 28-9-76	63 न्यू कामदारनगर सोसाइटी औद्योग रोड, बीछाव अहमदाबाद ।
3369.	कन्हैया लाल उपेन्द्र बाबब बी	आयुर्वेद शिक्षक नि० भा० आयु० वि० दिल्ली 1963	6735 12-3-79	नावापाण चौक सामने स्वामी नारायण मन्दिर, ग्राम-पालीटना जिला-पालनपुर
3370.	कन्हैया लाल व्यास परमानन्द	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5601 17-11-76	ग्राम-पाल ता०, भोरयासी, जिला-सुरत

1	2	3	4	5
3371.	कन्हैया लाल जामनेरिया दामोदर वास	बी० ए० ए० ए० एम०० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4589 12-12-74	सामने सिपटोन टी० बी०पो, नजदीक बोपाधी चौरा ग्राम-बन्धाली जिला-जूनागढ़।
3372.	कन्हैया लाल जाबेरी मोती बन्ध	बी० ए० ए० ए० एफ० कै० आ० आ० ए० ए० ए० सि० आ० मेडिसिन बम्बई 1953	262 1-5-56	मार्फत कृष्णा रेडियो क्लिनिक सामने रंग महल स्कूल-ग्राम खम्भासिया जिला-जामनगर।
3373.	कान्ही भाई मदारिया निरजी भाई	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7576 1-3-80	ग्राम-मिस्त्री, बाया भयाबदार ता०-उपलेटा जिला राजकोट।
3374.	कान्ही भाई परमार गणपति भाई	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	6693 3-3-79	ग्राम-शरठा, ता० और जिला गांधीनगर।
3375.	कनक गांधी मथरावास	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7330 15-10-79	गांधी क्लिनिक जोग नानक रोड ग्राम द्वारका जिला जूनागढ़।
3376.	कनकबन शंकर बधिकेवा	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5812 24-5-77	अल्कापुरी वाड़ीबाद नजदीक सांपभाई ग्राम बड़ीबा-7।
3377.	कनककांत जोशी रत्नीलाल	बी० ए० ए० ए० सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स गुजरात 1963	215 19-6-63	नजदीक तलाब ग्राम-करवान, ता०-रबोही। जिला-बड़ौदा।
3378.	कनक कुमार मधुकर मधुसूदन	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5189 21-2-76	किन्नावाला गली, दवे स्ट्रीट ग्राम सुरत।
3379.	कनकलता शाह महाशुभ लाल	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6662 28-2-79	गुप्तपारिख पोल मदन गीपाल, हबेली, अहमदाबाद।
3380.	कनकपुरी गोस्वामी गंगापुरी	आयु० मध्यम आवण मास वल्लिण परीक्षा समिति, बड़ीबा 1978	7122 17-7-79	32, शंकर सोसाइटी बूधदसागर डेरी ग्राम- मेहसाना।
3381.	कनकराय दवे अम्बा शंकर	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5358 20-4-76	मार्फत डा० ए० ए० ए० दवे, ग्राम-जामकम्बोरामा जिला राजकोट।
3382.	कनकराय पाधिया अमृत राय	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8450 15-6-82	मार्फत श्री अमृत लाल कुराजी पाधिया, हनुमान वाली गली, माता चौक ग्राम-जिला अंतपुर, जिला-राजकोट।
3383.	कनकसीला पटेल मनी भाई	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5240 5-3-76	सरमपान क्लिनिक सी-1/16, मुनी तरनकांत गावलावादी, सुरत-4।
3384.	कनकसिंह भारिया हिंमंत सिंह	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4014 24-8-73	ग्राम पिचवाड़ा, ता०-जगादिया, जिला- बरोच।
3385.	कनक सिंह कीसामिया धीरज सिंह	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9467 11-2-86	कयोरेल क्लिनिक, ग्राम घाट ता०-कारेज, जिला-सुरत।
3386.	कनक सिंह आला बीमा भाई	एम० बी० (आयुर्वेद) गुजरात आयु० वि० वि० 1976	8307 5-2-82	सदमी सबन, गुरूवार रोड, जामनगर।

1	2	3	4	5
3387.	कनक सिंहजी सोलंकी शिव सिंह जी	बी० ए० ए० एम० फी० आ० आ० एण्ड यू० सि० आ० मेडिसिन बम्बई 1949	1326 31-5-49	ग्राम-जानोद, ता०-बालासिनोर, जिला-खेड़ा ।
3388.	कंचन लाल पांड्या छोटा लाल	आयुर्वेद बिहारद म० सिंह वि० वि० बड़ौचा 1941	2002 1-12-42	ग्राम गुन्दीचा ता० संखड़ा जिला-बड़ौचा ।
3389.	कंचन लाल पुरोहित जीवन लाल	आयुर्वेद मध्यमा श्रावणभास दक्षिणा परीक्षा समिति बड़ौचा 1967	6889 12-4-79	ग्राम-खरबादी ता०-बाधोदिया, जिला-बड़ौचा ।
3390.	कन्दर्प कुमार जोशी कन्हैया लाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5225 27-2-76	37, कीर नगर सोसायटी नावा बावण अहमदाबाद-13 ।
3391.	कन्दरपा देसाई रती लाल	बी० ए० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9080 22-5-84	180 आदिनाथ नगर, विभाग-1, प्रीधाय रोड, अहमदाबाद ।
3392.	कान्हीभाई पटेल ठाकरशी भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात वि० वि० आयु० 1974	4686 24-3-75	1059/2 बाबाबाणी, नजदीक छत्वा कुवा, गोमतीपुर, अहमदाबाद ।
3393.	कन्जी धारिया पूगा	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3695 27-11-72	बहारपारा ग्राम-मानववार, जिला-जूनागढ़ ।
3394.	कन्जी कोयानी भावा भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3542 8-8-72	ग्राम और ता०-ग्राम कन्वोरना, जिला-राजकोट ।
3395.	कन्जी पाटोलिया शामजी भाई	बी० ए० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9358 21-8-85	ग्राम-मोती खोदिया ता० मेथारवा जिला- जूनागढ़ ।
3396.	कन्जी बीरानी कन्नामन भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3669 25-10-72	ग्राम घानक ता०-उपभेडा जिला-राजकोट ।
3397.	कन्जी भाई बीदासमा सामस्त भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3680 13-11-72	ग्राम-दिवासा ता०-मांगरील जिला-जूनागढ़ ।
3398.	कन्जी भाई पभाग देवा भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3262 11-10-71	ग्राम-कसबारा, ता०-खामभट जिला-खेड़ा ।
3399.	कन्जी भाई शेरसिया] धर्मशी भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4050 15-9-73	ग्राम-मनी बाजाल, बाया देहिसारा ता०- मलिया, मियाना, जिला-राजकोट ।
3400.	कानोज कुमार बोनी [अमृतलाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4053 17-9-73	ग्राम-उमोवगा, ता०-इवार, जिला-साबरकंधा ।
3401.	कनसियालान मोदी [मणीलाल]	वैद्य विशारद] नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1963	7566 29-2-80	ग्राम-मुल्तानपुर, ता०-भाटधारा, जिला- सुरेन्द्र नगर ।
3402.	कनसियालाल दामोहन मंगलदास	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8077 7-5-81	ग्राम और पो० आ०-तेलनार, ता०-कपाडुवन्ट, जिला- खेड़ा ।

1	2	3	4	5
3403.	कान्ता पिठादिया माथुर दास	बी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० 1965	1889 15-12-65	मार्केत हा० एस० टी० जोशी, निम्बानिमे जामनगर-361 001 ।
3404.	कान्ताबेन पटेल दक्षिणा भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2778 28-5-69	मार्केत दक्षिणाभाई बी० पटेल, ग्राम-आशी, बाया अनाने, जिला— खेड़ा ।
3405.	कान्तीबेन पटेल रत्नछोद भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3848 2-3-73	मार्केत पिनेसभाई पी० पटेल, ग्राम-बायोध, ता०-सखेड़ा, जिला— बड़ोदा ।
3406.	कान्ती भाई पटेल ठाकोर भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4312 2-4-74	ग्राम और पो० आ०-सिनोर, ता०-सिनोर जिला—बड़ोदा ।
3407.	कान्तीभाई पटेल गनेश भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5251 5-3-76	ग्राम-मोती रत्ताई, ता०-बीरामगाम, जिला—अहमदाबाद ।
3408.	कान्ती भाई पटेल कासाभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6033 17-4-79	ग्राम पल्लवार, ता०-प्राणतीज, जिला— साबरकंधा ।
3409.	कान्तीभाई पटेल पुंजीराम	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9301. 6-6-85	ग्राम-आसबाई, पो० आ०-भालक, ता०- खेरालु, जिला—मेहसाना ।
3410.	कान्ती भाई राजा मगनभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6449 28-12-78	सामने लेआ, पटेल बाड़ी, ग्राम-पावरा, जिला—बड़ोदा ।
3411.	कान्तीभाई राठी खोदाभाई	बी० ए० एम० एम० । गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9168 13-11-84	ग्राम- मोतीपुरा, ता०-बाहेगाम, जिला— अहमदाबाद ।
3412.	कान्तीलाल मणि शंकर	बी० ए० एम० एम० । नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1965	7154 25-7-79	ग्राम-सामधियाला, पो० आ०-मोन्वारवा, जिला—जूनगाड़ ।
3413.	कान्तीलाल असार जीवाभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8490 9-8-82	ग्राम और पो० आ०-रवांगपुर, ता०- भिलोवा, जिला—साबरकंधा ।
3414.	कान्तीलाल बगवारिया गिरधर भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6448 28-12-78	ग्राम-भांख, बाया सुपेरी, जिला—राजकोट
3415.	कान्तीलाल बगवारिया बल्लभ दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8222 17-11-81	आशा क्लिनिक, सामने वेना बैंक, अम्बिका भवन, हसनपुर, अहमदाबाद ।
3416.	कान्तीलाल बारबोलिया बुज लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० 1963	783 7-8-63	लाल दरवाजा, पिपलाल रोड़ी, सूरत-3 ।
3417.	कान्तीलाल भट्ट हरीप्रसाद	बी० ए० एम० एम० फ़ै० आफ आ० एण्ड मू० वि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1948	813 31-7-48	मेडिकल आफिसर, ग्राम-ताबकेशबर, बाया किम, जिला—सूरत ।
3418.	कान्तीलाल भट्ट गोकुलदास	आयुर्वेद विशारद बी० आफ इण्डियन मेडिसिन, सौराष्ट्र 1959	2222 28-2-59	नजदीक गाबाबाव, ग्राम-मावणपुर बाया कसोद, जिला—जूनगाड़ ।

1	2	3	4	5
3419.	कान्तीलाल भट्ट पुष्पोत्तम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3647 9-10-72	ग्राम-गणधारा, गणपतपुरा, ता०-कर्वेण, जिला--बड़ोदा
3420.	कान्तीलाल भट्ट शंकरलाल	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1948	7723 29-5-80	पीछे बहुभारजी मन्दिर, पंचेश्वर चौक ग्राम--जामनगर
3421.	कान्तीलाल देसाई त्रिकमलाल	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1954	394 1-7-54	बरोटी बाजार, ग्राम-वादनगर, ता०-छेरालु।
3422.	कान्तीलाल देसाई काशीराम भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3130 17-2-71	जावहर रोड, प्राणकुटीर, ग्राम--राजुला सिटी, जिला--अमरेली
3423.	कान्तीलाल दोशी अमथालाल	डी० ए० एस० एफ० कमेटी फार गृह आयु० फोर्स, बम्बई 1949	449 10-2-50	ग्राम-बाभद, ता०-छेराल, जिला--मेहसाना।
3424.	कान्तीलाल दोशी आमथा लाल	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ आयु० एण्ड य० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1952	2257 2257 1-8-52	महावीर कलिनिक, लिम्बा शेरी, हरीपुरा नजदीक बल्लेश्वर, महादेव, सूरत-395003।
3425.	कान्तीलाल गोंधी नरानजी	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1960	7149 25-7-79	नजदीक जामा मस्जिद, ग्राम--जाम नगर।
3426.	कान्तीलाल गोर भाई लाल	जी० एफ० ए० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1962	2954 22-4-70	डा० गीरुका बंगला गोंधी रोड, मालवा, बम्बई
3427.	कान्तीलाल हीरपारा जीवराज	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8613 28-12-82	ग्राम भालगाम पी० घा०-बीलखा, ता०- और जिला-नूनागढ़
3428.	कान्तीलाल जेठवा गोविन्द भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	5125 15-1-76	ग्राम-गोपालगाम, बाया बालाल, ता०- धारी, जिला-अमरेली
3429.	कान्तीलाल जीवानी गोर्धन दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०	3942 7-5-93	ग्राम-सूपेवी, ता०-धीराजी, जिला-राजकोट।
3430.	कान्तीलाल जोशी बिठल दास	एल० ए० एम०, यू०पी आयु० महाविद्यालय पाठन, 1934	217 8-10-41	अशोपलाब, स्ट्रीट, ग्राम-इंदार, जिला- सावरकंधा।
3431.	कान्तीलाल जोशी नरमेशंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4253 14-3-74	ग्राम गुणसिधा, ता० और जिला जामनगर।
3432.	कान्तीलाल जोशी मगनलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2891 2-2-70	ग्राम सिंहज, ता०-महेमबाबाव, जिला-खेड़ा।
3433.	कान्तीलाल काकरवाला देवचन्द भाई	जी० एफ० ए० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, गुजरात 1961	105 23-11-62	12, लुहारपोल, शाह पोल, सूरत।
3434.	कान्तीलाल काकड़ रस्तीलाल	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आ० वि० दिल्ली 1976	6549 12-2-79	सकमीवाड़ी, मैन रोड, रामन निवास, ग्राम- राजकोट।

1	2	3	4	5
3435.	कान्हीलाल काटरा साधू जी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8599 13-12-82	ग्राम रामेला, पो० आ०—दाबोळवा, ता०— भीलोडा, जिला—साबरकंधा
3436.	कान्हीलाल शौरावियः लक्ष्मीबास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7686 22-4-88	ग्राम—मुठाला, ता०—मंगरील, जिला— जुनागढ़
3437.	कान्हीलाल कोठाईया कचारालाल	जी० एफ० ए० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1959	122 1-12-59	ग्राम—मेराणा, ता०—हिम्मत नगर, जिला—साबर- कंधा
3438.	कान्हीलाल कुबाबत लालबास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5106 1-1-76	मार्फत डा० अश्विनीकुमार लालबास, ग्राम— सान्ध, जिला—अहमदाबाद
3439.	मकवाना कान्हीलाल मंगनलाल	डी० एस० ए० सी० केमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2063 21-6-66	ग्राम और पो० आ०—नेमावपुर, ता०—बाधगाम, जिला—बनासकंधा
3440.	कान्हीलाल मधाली शुलाभाजी	वैद्याचार्य नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1965	7098 10-7-79	मधपारा, नजदीक भीवसजन मेडिकल, ग्राम— भाधनगर
3441.	कान्ही लाल मेहता भीष्मा भार्ग	ए० बी० बी० ति० महाराज विद्यापीठ, पूना 1943	898 3-11-41	ग्राम—बाधगाम, जिला—बनासकंधा
3442.	कान्हीलाल मेहता बाबेर बन्ध	आयुर्वेद विशारद बोर्ड आफ इण्डियन मेडीसिन, लीड्स 1958	2227 15-3-58	ग्राम नेवाम, बाया टनबादा, ता०—सोप्री, जिला—राजकोट
3443.	कान्हीलाल मेहता प्रसाधराय	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3064 15-10-70	ग्राम—होभोल, बाया बोंगाध, जिला—भाधनगर
3444.	कान्हीलाल मिश्री नरसिंहलाल	जी० एफ० ए० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई	1348 16-11-63	ग्राम—बांकनेर, जिला—राजकोट ।
3445.	कान्हीलाल मोधी पूतमोहन	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6159 16-5-78	ग्राम—दोली, ता०—सतरामपुर, जिला—धंधमहल ।
3446.	कान्हीलाल मेहता सुखसीदास	आयुर्वेद विशारद म० सिंह वि० वि०, बङ्कीवा 1952	2647 4-9-52	18, भद्रसार प्लाट, होरी न० 18, जैन मन्दिर, गली ग्राम—मोरवी, जिला—राजकोट
3447.	कान्हीलाल नडावनी शिरधारीलाल	एस० ए० एस० एफ० डी० सी० एस० एफ० आयु० मेडी०, प० बंगमल, (नाउ प० बंगगा आयु० परिषद्, कलकत्ता) 1969	8308 5-2-82	खवाला पारा, जेतपुर, जिला—राजकोट
3448.	कान्हीलाल पावलिया कृष्ण भार्ग	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3973 20-7-73	ग्राम—पादेली मंडा, ता०—उरलावा, जिला— राजकोट
3449.	कान्हीलाल पानोट मोतीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4913 9-7-75	ग्राम—विहोर, ता०—तासजा जिला—भाधनगर ।
3450.	कान्हीलाल पारिख अमरसिंह	डी० एस० ए० सी० केमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2748 13-3-69	ग्राम—मानिकवाडा, बाया केशाव, जिला— जुनागढ़

1	2	3	4	5
3451.	कान्हीलाल परमार मगतवाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5501 25-8-76	अमृतनगर हा० सोसाईटी, ग्राम-मन्सा, जिला-मेहसाणा
3452.	कान्हीलाल पटेल मूलजी भाई	बी० ए० एस० एफ० पी० आफ आ० एफ० यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1954	1545 2-1-54	मासार रोड, ता०-पंचय, शिक्षा-अकोबा
3453.	कान्हीलाल पटेल गोपालजी	बी० एस० ए० सी० पी० आफ आ० एफ० यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1954	511 1-10-54	ग्राम-अमराई, स्ट्रीटिकम, ता०-अकोबा, जिला-बरोच
3454.	कान्हीलाल पटेल पंजालला	बी० एफ० ए० एम० पी० आफ आ० एफ० यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1958	512 2-1-59	डी-2, सरदारकुंज सोसाईटी, बहाई सेंटर, साहपुर, अहमदाबाद
3455.	कान्हीलाल पटेल बिडटलवास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3017 5-8-70	ग्राम-अकोबा पो० आ०-विश्वामंगल, बाया और ता०-हिम्मतनगर
3456.	कान्हीलाल पटेल मणिलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3314 17-1-72	ग्राम-चौवाल बनगरवा, ता०-बिरामगाम, जिला-अहमदाबाद
3457.	कान्हीलाल पटेल शंकरलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3881 19-10-72	ग्राम-कारेली, पो० आ०-भोटा, ता०-सप्तलवा, जिला-सूरत
3458.	कान्हीलाल पटेल दुवार भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4307 2-4-74	ग्राम-कड़ोवा, विजयवास. ता०-सिद्धपुर, जिला-मेहसाणा
3459.	कान्हीलाल पटेल कृष्ण दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4416 21-8-74	ग्राम-राजपुर, ता०-हिम्मतनगर, जिला- साबरमती
3460.	कान्हीलाल पटेल डेव भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4529 27-9-74	ग्राम-जिपोर, ता०-जेराव, जिला-मेहसाणा
3461.	कान्हीलाल पटेल प्रभू दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4763 9-4-75	ग्राम-धेसिया, बाया लुनावाड़ा, जिला- पंचमहल ।
3462.	कान्हीलाल पटेल नारायणदास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4893 17-8-75	ग्राम और पो० आ०-सांगीवा, ता०-बहेगाव, जिला-अहमदाबाद ।
3463.	कान्हीलाल पटेल सीमा भाई	आयुर्वेद अध्ययन अभियान संस्था दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ोवा 1973	6645 26-2-79	डिवाला बस, सामने पुराना स्कूल, ग्राम- जाम्बाला, ता० कलाल, जिला-मेहसाणा ।
3464.	कान्हीलाल पटेल [कान्हीराम]	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	8375 18-3-82	ग्राम हाजीपुर, पी० आ०-सांगी, ता०- सिद्धपुर, जिला-मेहसाणा
3465.	कान्हीलाल पंचायती विपुलदास	बी० एस० ए० सी० कमेटी फार युद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1963	1375 28-12-63	ग्राम और पो० आ०-बालपर, बाया मीरधी, जिला-राजकोट
3466.	कान्हीलाल राजेंद्र गोकुलदास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4707 29-8-75	ग्राम-मोतीमार्ग, बाया धोरजी, जिला- राजकोट ।

1	2	3	4	5
3467.	कान्तीलाल राठी बाबीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7565 29-2-80	ग्राम-पन्नासार, बाया भाजेबाड़ी, ता०-और जिला-जुनागढ़
3468.	कान्तीलाल रावल भोगीलाल	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ० आ० एण्ड यू० सि० आफ० मेडिसिन, बम्बई 1941	2491 3-11-41	मेडिकल आफिसर, ग्राम-कुंघर, ता०-पाटन, जिला-मेहसाणा
3469.	कान्तीलाल समानी बलजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3883 23-3-73	ग्राम-मैयाबवर, ता०-उपसेटा, जिला- राजकोट
3470.	कान्तीलाल सायेरोर देवराकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8149 3-9-81	दावर (गीर) बाया सारासाई, ता०-मथवावर, जिला-जुनागढ़।
3471.	कान्तीलाल शाह योगीलाल	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ० आ० एण्ड यू० सि० आफ० मेडिसिन, बम्बई 1946	2115 1-10-46	ग्राम-अकण्ड बाया शालोद, जिला- साबरमती
3472.	काश्री लाल शेट मणिलाल	जी०एफ०ए०एम० फै० आफ० आ० एण्ड यू० सि० आफ० मेडिसिन, बम्बई 1960	1376 26-12-63	मेडिकल आफिसर, एलोपैथिक डिस्पेंसरी, ग्राम- बाजना, जिला-सुरेन्द्रनगर।
3473.	कान्तीलाल शाह कचरा भाई	डी०एस० ए० सी० कमेटी फार शुद्ध आयु कोर्स, गुजरात 1965	1850 26-11-65	सुपरवाइजर, नजदीक पुराना पो० आ०-बीजापुर, जिला-मेहसाणा
3474.	कान्तीलाल स्वामीनारायण ओझाबाबी	डी० ए० एस० एफ० फै०आफ०आ० एण्ड यू० सि० आफ० मेडिसिन, बम्बई 1955	1333 3-1-55	28, प्रहलाद प्लाट, मनोहला, ग्राम-राजकोट
3475.	कान्तीलाल ठक्कर रतीलाल	डी०एस०ए०एफ० फै० आफ० आ० एण्ड यू० सि० आफ० मेडिसिन, बम्बई 1950	268 30-12-50	वाकं नं०2, बी/प्लाट नं०305, नजदीक रेलवे स्टेशन, एबीपुर कच्छ-370205।
3476.	कान्तीलाल ब्रम्बाडिया जेराजभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु, वि० वि० 1972	4055 19-9-73	सामने-माली, धोरवाड़, ग्राम-बरडोली, जिला-सूरत
3477.	कान्तीलाल शिवेदी मणिसाल	आयुर्वेद विशारद म० सिंह वि० वि०, इकौवा 1941	3304 8-10-41	मुन० सर्वेस्ट सोसाईटी, नजदीक पापलठ डेरी, ककरिया रोड़, अहमदाबाद।
3478.	कान्तीलाल बछामी मानजीभाई	बी०एस० ए०एम०]] कानपुर वि० वि० 1974	4884 17-6-75	ग्राम-कौलकी, बाया उपसेटा, जिला- राजकोट।
3479.	काशित प्रसाद पाण्ड्या गिरिजाशंकर	वैद्य विशारद वि०भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1964	7054 21-8-79	ग्राम-बुधाला, ता०-दारी, जिला-अमरेली
3480.	काशिराम मेसबानिया जादुराम	बी०एस० ए० एम०]] गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4632 1-3-75	ग्राम एवं पो०-आलिदार, ता०-कोशिनार, जिला-अमरेली।
3481.	कमलभाई बरवालिया तुलसीभाई	बी०एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4670 20-3-75	ग्राम-धोरावी, ता०-साबारकुण्डला जिला- भावनगर

1	2	3	4	5
3482.	कनुभाई सट्ट मुलाजी भाई	बी०एस० ए० सी० क०शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2389 15-2-67	आयु० रिजर्व, वार्ड जी० 1, बंनया, सिविल अस्पताल, अहमदाबाद ।
3483.	कनुभाई भवसार अमरुतलाल	बी०एस०ए० एम० गुजरात आयु० वि० 1974	4731 1-4-75	ग्राम—टंकल, बाया रणकुवा, ता० पिच्छाली, जिला—वलसाड
3484.	कनुभाई भवसार भुनीलाल	आयु० मख्तभा संघ०प० समिति, बड़ीवा 1979	9038 10-5-84	ग्राम बामनगाम ता०—बोरसाड, जिला— खेडा
3485.	कनुभाई बीहान जीवरामभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	6369 13-10-78	ग्राम—सामानी, ता०—धोलाका, जिला— अहमदाबाद
3486.	कनुभाई भाववा खसाभाई	बी ए० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	7299 20-9-79	ग्राम बाणवा, ता० तालाजा, जिला—भावनगर ।
3487.	कनुभाई भोवाधिया बल्लभ भाई	बी०एस० ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1970	3204 20-7-71	ग्राम—कोरियाचार, ता०—एवं जिला— अमरेली
3488.	कनुभाई दवे रविलाल	बी० एस०ए० एम० गुजरात आयु०वि०वि० 1981	8317 10-2-82	ग्राम मोता कालोवारा, ता०—खम्भट, जिला— खेडा
3489.	कनुभाई बेसाई मोधाजीभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु०वि० वि० 1973	4574 20-11-74	ग्राम—बसाई, ता० इवार, जिला— साबरकथा
3490.	कनुभाई जोशी नानोपकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1977	6769 21-3-79	ग्राम—मोत पोंफालिया, ता०—शिमीर, जिला— धरणीवा
3491.	कनुभाई मकवाना देशलजी	बी० ए० एस० ए० सी० क०शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1982	878 26-11-82	ग्राम भुगपुर, बाया बुडा, जिला—सुरेन्द्रनगर ।
3492.	कनुभाई मोध	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1981	8620 13-1-83	पंचालवास, ग्राम लखवाडा, ता० एवं जिला मेहसाणा
3493.	कनुभाई नावोवा रणमल भाई	बी०ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9120 23-8-84	ग्राम एवं पो० बास्पा, ता०—सामी, जिला— मेहसाणा
3494.	कनुभाई पारिख गोर्धन दास	बी० ए० एस० ए० एम० गुजरात आयु०वि०वि० 1973	4471 30-8-74	पारेख फाली (बोरवा) ग्राम बाबला, ता०— खोलका, जिला—अहमदाबाद ।
3495.	कनुभाई परमार जेवार भाई	जी०एफ० ए०एम० कै०आ० यू० सी० मेडी०, बम्बई 1962	668 3-8-62	परमार क्लिनिक, ग्राम—बोवका, बाया ब्रास जिला—जामनगर ।
3496.	कनुभाई पटेल पुरुषोत्तम दास	बी०एस०ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4351 23-4-74	ग्राम—रावच, ता० एवं जिला—धरणीवा ।
3497.	कनुभाई पटेल नया भाई	बी०ए०एस० ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4742 5-4-75	ग्राम—काधियास, ता०—कानवण्ड, जिला— खेडा
3498.	कनुभाई पटेल भागू भाई गुजरात आयु० वि० वि०	बी०ए०एस० ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7383 19-11-79	ग्राम—ऊगल, ता०—मदसारी, जिला—वलसाड ।

1	2	3	4	5
3499.	कनुभाई पटेल मंगा भाई	बी०एस० ए०एम० गुजरात आयु०वि०वि० 1978	7752 3-7-80	मोती फाली, ग्राम-मोरे, भागल, रण्डर जिला-सूरत
3500.	कनुभाई पटेल मति भाई	बी०एस०ए० एम० गुजरात आयु०वि०वि० 1980	8174 22-9-81	ग्राम एवं पो०-सालाल, ता०-प्राणजी, जिला- साबरमती ।
3501.	कनुभाई पटेल आरमा राम भाई	बी एस ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8883 10-2-83	7 आदर्श सोसाइटी, नजदीक रमेश्वर महादेव मेधापीनगर, अहमदाबाद-16 ।
3502.	कनुभाई पटेल मफतलाल	बी०ए० एम० एस० गुजरात आयु०वि० वि० 1985	9550 18-8-86	ग्राम-लिहोदा-384172, पो० आ० दसाज, जिला-मेहसाणा ।
3503.	कनुभाई शाह रमणलाल	जी०एफ० ए० एम० क० आयु० यू० सि० मे०, गुजरात 1982	1128 31-7-83	बाजास छोरा-उदेपुर, जिला-बड़ोदा
3504.	कनुभाई मोलाधिया गोबिन्द भाई	बी०एस०ए० एम० गुजरात आयु०वि० वि० 1973	4899 26-6-75	ग्राम-मोता समाधियाला, बाँया बालसा ता०-बम्हा, जिला-अमरेली
3505.	कनुगोर गोस्वामी व्यामीर	बी०एस०ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3279 2-11-71	ग्राम-शाहेरा, ता०-पावरा, जिला-बड़ोदा ।
3506.	कानुलाल भाकुला कामूल भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7845 10-10-80	द्वारा के० के० शाह, सामने बैंक ऑफ इरोदा साबरमती, अहमदाबाद ।
3507.	कापली पाण्ड्या कुमुद चन्द्र	एम० डी० आयु०बेव, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	6170 20-5-78	द्वारा के० जी० पाण्ड्या, एस० पी० एम०, ग्राम ता० कम्भाणिया, जिला जामनगर ।
3508.	कापिला लिउबा भूनी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8730 19-4-83	746/4982, श्रीजी विद्यालय, बापुनगर, अहमदाबाद ।
3509.	कापिलराज वैद्य केशव लाल	जी० ए० एस० एफ०, क० आ० यू० सि० मे०, बम्बई 1949	1021 20-9-49	बिकिस्ता अधिकारी, ग्राम लिम्बावी, जिला सुरेश्वर नगर ।
3510.	करमजी भावजा जीवराज	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7292 20-9-79	ग्राम एवं पी० काव, पिपली, बाँया एवं ता० मैबई, जिला जूनागढ़ ।
3511.	करमजी बिछोडिया कावबा भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1988	2785 11-4-89	ग्राम कमलापुर, बाया जलोदेव जिला राजकोट
3512.	करमजी बामजा गोरख	जी० एफ० ए० एम०, क० आ० यू० सि० मे०, बम्बई 1982	1011 23-11-82	पटेल चौक, ग्राम बैवाली, जिला जूनागढ़ ।
3513.	करमसिंह जारोला मोहन भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4986 17-10-75	ग्राम काराला (हरिपुर), ता० मोरावी, जिला राजकोट ।
3514.	करम सिंह बारोव उदे सिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5270 9-3-76	ग्राम गंगवा, ता० वल्ता, जिला-जामनगर ।
3515.	करम भाई पटेल तायू भाई	बी० ए० एम० एस०, गुजरात वि० वि० 1965	1870 6-12-65	आम्बाजी, बकला, कादी फालिया, ग्राम पो० रण्डर, ता० बैरवासी, जिला सूरत ।

1	2	3	4	5
3516.	कारकम भाई पंडित नारायण बाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4863 29-8-76	ग्राम रूपान, हरिपुर, ता० एच० जिला मेहसाणा।
3517.	कारकम पंचोली बालकृष्ण	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5505 25-8-76	बी०/बी० नं० 4, पुरुषोत्तम नगर, ग्राम एच० पी० मानेजा, जिला बड़ोदा
3518.	कृष्ण भाई वेकाबादिया धरम सियाह भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3303 31-12-71	ग्राम खेरवा, ता० पाटवी, जिला सुरेन्द्र नगर।
3519.	कृष्ण भाई माहूर सोमनाथ	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5010 20-10-75	ग्राम कुमपुर, ता० वीरमगाव, जिला अहमदाबाद।
3520.	कृष्ण भाई माहूर भावन भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5178 19-2-76	ग्राम कानपुर, ता० वीरमगाव, जिला अहमदाबाद।
3521.	कृष्ण भाई पटेल जेठ भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8865 1-11-83	ग्राम एच० पी० कमलीबाड़ा, ता० पाटन, जिला मेहसाणा।
3522.	कृष्ण भाई प्रजापति काशरा भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4464 29-8-74	ग्राम सरदारपुर, ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा
3523.	कृष्ण भाई प्रजापति मोहन भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4734 3-4-75	ग्राम पुराना, शोधाली, पी० डंगरवा, जिला मेहसाणा
3524.	कृष्ण भाई गच्छार गोविन्द भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6279 20-9-78	ग्राम एच० पी० छतर, ता० एच० बाया काला नाथ (मितला), जिला जामनगर।
3525.	कृष्ण वास बनिभारिया काहन वास	आयु० शिक्षक, नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1961	7236 29-8-79	ग्राम बीजापुर, जिला जूनागढ़।
3526.	कृष्ण वास कनानी लाजप्री भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3226 10-8-71	ग्राम गोमटा, पी० आ० बलवाना, ता० लिम्बाव, जिला सुरेन्द्र नगर
3527.	कारसुख भाई लखवी अमृतलाल	आयु० शिक्षक, नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1963	6542 12-2-79	ग्राम मोता कोदावा, ता० बिसाबाद, जिला जूनागढ़
3528.	करुणा करमार भिखू भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7515 15-2-80	18/33, उधो नगर कालोनी, ग्राम राजकोट।
3529.	करुणा बेन चौधरी धना भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8751 11-5-83	ग्राम एच० पी० सोनगढ़ (मवाग्राम) ता० किला सोनगढ़, जिला सुरत
3530.	कासन भारद्वाज गणपत राय	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9488 24-3-86	सुबान्यू, 14/बी, कोटेशानगर, शेरी नं० 1, जिला राजकोट
3531.	काशीराम पाण्ड्या धोकू भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6466 15-1-79	वाभकारवास, ग्राम लोन्नरा, ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा
3532.	काशीराम पटेल माधव लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5030 11-11-75	ग्राम हाजीपुर, पी० भूबर, ता० सिद्धापुर, जिला मेहसाणा।

1	2	3	4	5
3533.	कशमीरा भट्ट नैतनकुमार	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9363 2-9-85	8, सुबिधिनाथ सोसायटी, शान्तिवन पलाय, भारतमण नगर, रोड, अहमदाबाद।
3534	कशमीरा कोठारी मुलाजी भाई	बी० एफ० ए० एम०, फै० आ० यू० सि० मेडी, गुजरात 1961	126 1-8-63	द्वारा मोहनलाल एन० विधि, ग्राम हिम्मलनगर, जिला साबरकंधा।
3535.	कशमीरा नायक कुम्बनलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8199 12-10-81	शान्तिवन, नायकनगर, ग्राम अहमदाबाद।
3536.	काश विश्वनाथ व्यास प्रह्लादजी	एल० ए० एम०, यू० पी० आ० म० पाटन 1940	1089 25-7-40	ब्राह्मण शैरी, ग्राम उल्हा, ता० सिद्धपुर।
3537.	कमप रावल रमणीकलाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8956 12-3-84	अम्बासिया, ग्राम सिम्बावी, जिला सुरेन्द्र नगर।
3538.	कस्तुरभाई पटेल बतईभाई	बी० एम० ए० सी० क० शु० आयु० कोर्स गुजरात 1965	1680 27-5-65	द्वारा रा० कर्तूभाई के० पटेल, ब्लाक नं० 17, मंगलपार्क सोसायटी, गजरावावी, यमुना मिल रोड, बड़ौदा।
3539.	कस्तुर भाई सुधा भगवान दास	बी० एफ० ए० एम०, फै० आ० यू० सी० मेडी० गुजरात 1965	1973 15-3-66	उन्डी बावकी, ता० सावली, जिला बड़ौदा।
3540.	कस्तुरमल संबाला प्रपसुख	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4207 18-2-74	राजपुर डोलनाका, चोफासीस डाबा कालिचल आर० नं० 1751/33, अहमदाबाद।
3541.	कतारसिंह छटालानी लाधसिंह	आयु० रत्न, हि० सा० ए० प्रयाग, 1966	8848 6-10-83	तिलकपार्क सोसायटी, हजली रोड, ग्राम बड़ौदा
3542.	कौशिक वने नमालाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7430 12-12-79	17/7-बी, देवेन्द्र सोसायटी, नारनपुरा, अहमदाबाद।
3543.	कौशिक जोशी हर्षद राय	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1963	1503 1-8-64	शिक्षिता अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केन्द्र, ग्राम जामखण्डी, बाया रामियाम्बा, ता० किला सोनगढ़ जिला सूरत।
3544	कौशिक लुभानी फाकू भाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9420 2-12-85	3/रामनाथपुरा, ग्राम राजकोट-1
3545.	कौशिक शाह प्रमोद राय	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9418 2-12-85	ग्राम सादरा, ता० वाहेगाम, अहमदाबाद।
3546.	कौशिक व्यास नटवरलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7840 9-10-80	10-ए, संगीता सोसायटी, नारनपुरा, सामने अम्कूर, अहमदाबाद।
3547.	कौशिक बेंन पटेल रामचन्द्र	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8610 28-12-92	2/43, अम्बाजी चौक, रणेश्वर, ग्राम एर्ष पो० सूरत
3548.	कौशिक धर भट्ट भानुधर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3179 16-4-71	पूलापोल, ग्राम महोन्दाबाद, जिला बड़ौदा
3549.	कौशिक कुमार देसाई काशरालाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6379 27-10-78	जाबेरीबाद, ग्राम एर्ष पो० बीरपुर, ता० बाला शिबोर, जिला बड़ौदा

1	2	3	4	5
3550.	कौशिक कुमार लक्ष्मारी धीरजराज	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8566 20-10-82	234/2, बी० श्री० रामछपा, देव अकला, बोकारा, मनेन्द्रबाद, अहमदाबाद।
3551.	कौशिक कुमार पाठक रिप्रसाद	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5398 13-5-76	ग्राम गणेशपुरा, बाबोदिया, जिला बड़ोदा
3552.	कौशिक कुमार शुक्ल शिवसंकर	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6741 15-3-79	व्यास कालिया, ग्राम माहोलोड, ता० गोधारे, जिला पंचमहल।
3553.	कौशिक कुमार त्रिवेदी भानु प्रसाद	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6172 6-6-78	ब्रह्मपोल, ग्राम एम् पौ० गामाडी, ता० आमन्व जिला खेड़ा
3554.	कौशिक कुमार वेद नन्दीतलाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8433 17-5-82	वेद मोहल्ला, ग्राम गन्धेवी, बाया बिलिमोरा जिला नलसाद।
3555.	कौशिक्या गमात्रा रमणीकशाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	7929 28-12-80	17. कल्याण नगर, सीसायटी, नालोज रोड, ग्राम जूनागढ़।
3556.	कौस्तुभकाल पाण्ड्या मशिकाल	बी० एस्० ए० एम० क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1963	740 22-3-63	भीमनाथ रोड, सखेडा, जिला बड़ोदा
3557.	कविता राजनी श्रीचन्द्र	बी० एस्० ए० एम०, कौ० आ० यू० वि० मे०, बम्बई 1969	3548 17-8-72	ई० बाई० कमरा नं० 259, कुबेरनगर, पो० सरदारनगर, अहमदाबाद।
3558.	काजीभाभी मोमिनाली	एम० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6470 19-1-79	मजिका भवन, प्लॉट नं० 1- मोटर हाइल से पीछे, ग्राम आमनगर
3559.	केदार भाई प्रजापति सोमभाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3253 1-10-71	ग्राम पण्डारवादा, ता० सुनाम्नका, जिला पंचमहल
3560.	केदार नाथ यागनिक प्रता प्रेय	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4324 8-4-74	महिता मदन, मट्ट जमाली, ग्राम आमनगर
3561.	केशव राठी मारल	आयु० शिक्षक, वि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1957	6949 1-5-79	ग्राम कोयामा, ता० रानाववा, जिला जूनागढ़
3562.	केशव भाई पटेल जोएलाराम	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3256 5-10-71	नवा कछलास, अमला भुवन, ग्राम मोदरा, ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा
3563.	केशव भाई बानकर जीवन भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5159 7-2-76	ग्राम गामवा, ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा
3564.	केशव भाई पटेल संकलभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3986 31-7-73	ग्राम मुवन, पो० मोदीवा, ता० बानाकिनोर जिला खेड़ा
3565.	केशव भाई तिरवार पुजा भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7639 20-3-80	ग्राम गामन, ता० ब्याद, जिला साबरमती।
3566.	केशवचन्द्र बारोल छत्र सिंह	बी० एस्० ए० एम० क० शु० आयु० कोर्स, मद्रास 1960	792 23-10-81	सुलतानपुरा, गोलबाद, बड़ोदा।

1	2	3	4	5
3567	केशवजी कथागारा करमशो भाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3919 13-4-73	ग्राम बंगोला, बाया मानेसारा, जिला भाव- नगर
3568	केशवलाल गोंधानी गोपाल दास	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3438 14-3-72	ग्राम एबं पो० तिकुलाय बाया अष्टवा जिला जुनागढ़।
3569	केशवलाल हरखानी कृष्ण भाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4959 4-10-75	मिर्मल नगर, चाभदुदा कृपा, प्लोट नं० 80, ग्राम भावनगर।
3570	केशव लाल जाधिया पंचन भाई	बी० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5767 26-4-67	ग्राम तिमोरा ता० उपालता
3571	केशव लाल जानी जयशंकर	ए० ए० ए०, यू० पी० आ० म० पाटन, बड़ोदा 1939	195 23-8-39	दोसा रामना बासना, ता० वाहेगाम, जिला अहमदाबाद।
3572	केशवलाल जोशी हरिलाल	बी० ए० ए० सी० क० शु० आयु० कोर्स गुजरात 1966	2463 14-4-67	द्वारा हरिलाल गौरीशंकर जोशी इन्डू कार्मेली अजन्ती दोसा ज० ता० उमराला जिला भावनगर
3573	केशवलाल पटेल राधिया भाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5592 18-10-76	ग्राम हरिपुरा ता० नादी पो० देतरोज, जिला महसना।
3574	केशवलाल पटेल अम्बालाल	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7757 18-7-80	ग्राम अम्बागाम ता० बायद, जिला साबरकण्ठा
3575	केशवलाल प्रभापति शिव भाव	बी० ए० ए० ए० ए०, क० मा० यू० सि० म० बम्बई 1955	777 1-8-57	ग्राम अम्बाधियासम जिला महसना
3576	केशवमल्ल ठक्कर मोती लाल	आयु० मध्यम, वि० भा० आ० विद्यापीठ दिल्ली 1979	8875 1-12-83	1 हीराबाग सोसायटी रामबाग के पीछे मजि नगर अहमदाबाद-8
3577	केशवलाल चूमरा लखा भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8903 24-1-84	ग्राम तवागाम (विलाखा) पो० विलाखा ता० एबं जिला जुनागढ़-362110।
3578	केशवलाल शंभरकिमा लालजी भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3877 16-3-73	ग्राम कालना पो० पाटनबब ता० मोरबी जिला राजकोट।
3579	केशवदास जेलावाधिया शिवजी	आयु० मिचक, वि० भा० आ० विद्यापीठ दिल्ली 1976	7105 13-7-79	द्वारा शिवजी मामाजी जेलावाधिया बेहरपारा ग्राम मानवदार जिला जुनागढ़।
3580	केशव लाल अच शंकर भाव	{आयु० मिचक, वि० भा० आ० विद्यापीठ दिल्ली 1941।	8710 16-3-83	"बघविला" नजदीक किका भाई का पोजे, अहमदाबाद-1
3581	केशव सिंह जी मोहिल हरिसिंह जी	बी० ए० ए० ए० ए०, क० मा० यू० सि० म० बम्बई 1952	169 4-7-62	असस्त भवन, ग्राम एबं ता० लाबी, जिला अमरेली
3582	केशवसिंह सोलंकी जिना भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7636 20-3-80	ग्राम बिभानाली पो० एबं बाया किम ता० ओलपाव जिला सुरत।
3583	केशुराम दुधारोजिया वासिधर दास	आयु० मिचक, वि० भा० आ० विद्यापीठ दिल्ली 1959	7050 21-6-79	ग्राम पानेली ता० मोरबी, जिला राजकोट।

1	2	3	4	5
3584.	केसवलाल आचार्य गणितज्ञाचार्य	आयुर्वेदाचार्य नि० भा० भा० विद्यापीठ दिल्ली 1981	9039 10-5-84	ग्राम खेड ता० हित्तत नगर जिला-एस० के०
3585.	केसाव झंकार पाण्ड्या बाकरभाई	ए० बी० बी० ति० म० विद्यापीठ पुना 1948	1819 7-10-85	ग्राम समासपुरा, जिला-बड़ोवा ।
3586.	केतनकुमार जोशी जयकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु वि० वि० 1984	9480 10-1-88	मोनीबाव ग्राम बिलिमोर ता० गमबेबी जिला बलसाब ।
3587.	केतन कुमार पुरानी राजेश प्रसाव	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु वि० वि० 1977	7490 17-1-80	द्वारा बार० बी० पुरानी बिकिता मन्डिकरी ग्राम तारापुर, ता० बम्बट, जिला-बेका
3588.	कुल्ल शास्त्री ब्रह्मदाव भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु वि० वि० 1982	9024 18-4-84	2/4230 बी काला पैल्लाव बोबी सान्भल्लेवा सुरत-2
3589.	केवूर दीक्षित हरिप्रसाद	बी० एस० ए० सी० क० मु० आयु कोरि गुजरात 1985	1739 22-8-85	हनुमान पोल बजवाडा बड़ोवा
3590.	कागनाथ बिमिरे	एच० पी० ए० पो० से० ट्रे० से० आयु आमनगर 1963	1 23-11-64	श्रीमती एम ए एच आयुर्वेदिक अस्पताल नया सिबिल अस्पताल के पीछे बहुमवाबाव-8
3591.	काण्ठपारणु वारोत छत्र सिंह	आयुर्वेद सन्मन्तरी आ० यू० ति० कानैव दिल्ली 1942	2705 13-5-43	मुल्तानपुरा गोलवाव बड़ोवा ।
3592.	काशीनाथ पटेल मदन भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु वि० वि० 1968	2822 25-8-69	द्वारा रामजी नामा पटेल ग्राम इमारखेडा ता० शाहद जिला-धुलिया (महाराष्ट्र)
3593.	कातम सिंह परमार छत्र सिंह	सी० एस० ए० एम० गुजरात आयु वि० वि० 1977	8835 22-3-79	ग्राम भिलबानिया, पो० अथावाली ता० पाबी जेतपुर, जिला-बड़ोवा ।
3594.	कैम भाई पाण्ड्या कुबेर भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु वि० वि० 1969	2979 17-8-70	ग्राम एव ता० मालपुर, जिला-साबरकंधा
3595.	कैमा भाई राठोड़ बातराम भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु वि० वि० 1975	5485 11-8-76	ग्राम बनकोल, ता० खेरापु, जिला केरलाणा
3596.	कानगरभाई पटेल मोती भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु वि० वि० 1982	8922 8-2-84	138, जय बजरंग आदर्श को-आप० सोसाइटी, सामने नूतन मिल, अनिल रोड, बहुमवाबाव-28
3597.	कौंभर भाई बानकर मीरामाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु वि० वि० 1979	7861 10-10-80	ग्राम एव पो० रातेहपुर (मोता), ता० पण्डिज, जिला साबरकंधा
3598.	किमभाई पटेल मणिलाल	वैद्य बिलारव, नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1971	7118 18-7-79	5, पराग सोसाइटी, आर्ट एव साइंस कालेज के पीछे, ग्राम एव जिला मुदेनगर ।
3599.	किमभाई बाजा अर्जुन भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु वि० वि० 1980	8152 3-8-81	ग्राम नवागाम, ता० कोदिनार, जिला अमरेली
3600.	किमजी वाघासिया हीरजी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु वि० वि० 1974	4836 8-5-75	ग्राम बावरवा, ता० जीतपुर, जिला रावकोड

1	2	3	4	5
3601.	बिजयी भाई धोषारी बेसिंगमार्ड	बी.ए.विद्यार्थ नि.भा.जा. विद्यापीठ, दिल्ली 1986	7136 24-7-79	ग्राम बासना, ता. बिसनगर, जिला मेहसाणा
3602.	बिजयम भाजवी बिजन	बी.एस. ए.एम. गुजरात आयु. वि. वि. 1972	4197 15-2-74	ग्राम लावना, ता. धियोवर, जिला वानसकंधा
3603.	बिजयी राधाधिया बाघसमार्ड	बी.एस.एम.एस., गुजरात आयु. वि. वि. 1984	9281 2-5-85	ग्राम एब पो.भा. उकारवा, ता. पावरो, जिला राजकोट-360110
3604.	बिजयी बाबाधिया पुखोतम	डी.एस.ए.सी., क. सु. आयु. कोर्स, गुजरात 1966	2032 6-6-66	ग्राम एब पो. बाबादाभा, बाया मोरजी, जिला राजकोट
3605.	बिजयम्ब साहू जीबाजी	डी.एस.ए.एम., कै. आयु. सि. मे., बम्बई 1952	1144 1-7-53	402, बी, पुरम अपार्टमेंट, अनिलकान्त रोड लीट्स सिनेमा, बरसी, बम्बई-18
3606.	बोधाभाई ठाकीर रायाभाई	आयु. शिक्षक, नि.भा. आ. विद्यापीठ, दिल्ली 1983	8768 11-5-83	भारबापी गेट, बाबू फाली, ग्राम एब ता. कीरमनाम, जिला अहमदाबाद
3607.	बोधिवास बन्नेबाधिया नागरभाई	बी. एस. ए. ए.एम., गुजरात आयु. वि. वि. 1974	4842 14-5-75	ग्राम पणनाम, ता. चान्दुका, जिला अहमदाबाद
3608.	बुद्धबन्ब मेहता हीरालाल	जी.एफ.ए.एम., कै. आ. यू. सि. मे., बम्बई 1959	1698 3-6-65	पो. बापला, ता. बानेर, बाया बीसा जिला वानसकंधा
3609.	बुधनसिंह पाधिपार उमेवसिंह	बी.एस.ए.एम., गुजरात आयु. वि. वि., 1973	4585 3-12-74	ग्राम पानसिरा, ता. जिम्मादे, जिला सुबेन्द्रनगर
3610.	किशूभाई पटेल जगजीवनदास	बी.एस.एम.एस. कै.भा. यू. सि. मे., बम्बई 1953	515 2-1-54	मेन रोड, ग्राम बालसाना, जिला सूरत
3611.	किरन बिक्रमल उत्तमबन्ब	बी.एस.ए.एम. 1980	8367 24-3-82	28, मर्दानगर, लोसकट्टी, बी.जे.बिन, साबरमति, अहमदाबाद
3612.	किरन वबे सुगर्भिकर	बी.एस.ए.एम., गुजरात आयु. वि. वि., 1975	5166 16-2-76	नागरपारा, ग्राम जामनगर ।
3613.	किरन कांड्य लक्ष्मणमसाव	बी.एस.ए.एम., गुजरात आयु. वि. वि. 1978	6099 21-3-78	8, बंगला, नजबीक पावर हाउस, सखरमती अहमदाबाद
3614.	किरन पाण्ड्या, राममसाव	बी.एस.ए.एम., गुजरात आयु. वि. वि. 1976	6626 1-2-79	530, हांकर लेंकरी, देविबा, बाजार, अहमदाबाद
3615.	किरन बटेल मोतीमार्ड	जी.एफ.ए.एम., कै.भा. यू. सि. मे., बम्बई 1960	516 5-12-61	ग्राम मोरव, बाया आनन्व, जिला-कोटा
3616.	किरन ठाकर जयन्तीलाल	डी.एस.ए.सी., क. सु. आयु. कोर्स, महाराष्ट्र 1975	5411 25-5-78	15, पहली कोलपट, काम लैन कालवा देवी रोड, बम्बई-2
3617.	किरन भाई पटेल अम्बालाल	बी.एस. ए.एम., गुजरात आयु. वि. वि. 1978	7739 6-6-80	ग्राम धुन्धाकुवा, ता. बोरसाव, जिला-कोटा

1	2	3	4	5
3618.	किरण भाई पटेल काशिभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8827 1-2-83	गेट, ग्राम एच पो० कासोर (भालेज) ता० आनन्द, जिला खेड़ा
3619.	किरणकाशीब बर्मवास	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5882 20-9-77	प्रसूति गृह एच अस्पताल, ग्राम सुंदरी, ता०एच जिला बलसाह
3620.	किरण कुमार भगत मोहनभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8496 27-8-82	ग्राम एच पो० सरगाई, ता० संखेडा, जिला बड़ौदा-391140
3621.	किरणकुमार काशी प्रभासकर	आयु० सञ्चाल श्र० नं० ५० समिति, बड़ौदा 1978	6483 1-2-79	आयु० मेडिकल सर्विसेज, मजदीक दूध डेरी, ग्राम बघानी, ता० पेटलाव, जिला खेड़ा
3622.	किरण कुमार लोधी इन्दुप्रसाद	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8308 27-8-82	ग्राम एच पो० मोराबहावा, तह० गोखेरा, जिला पंचमहल ।
3623.	किरणकुमार कुचन भानुकांत	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9463 10-1-86	10, "उमी" विवेकानन्द सोसाइटी-4, नई जं० रोड, ग्राम सुरेन्द्रनगर ।
3624.	किरणकुमार ठक्कर रतिलास	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	789 14-3-80	रोनक बाजार, रानिय, अहमदाबाद
3625.	किरणकुमार ठक्कर नालजीभाई	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8932 17-2-84	19, काहनगर सोसाइटी, महावीरनगर, ग्राम हिस्मल नगर, जिला साबरकण्ठा
3626.	किरणकुमार शिवेदी भाबत प्रसाद	बी०एस०एम०एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6609 21-2-79	47, प्रोफेसर न्वाटर्स, मया सिविल अस्पताल कम्पाउण्ड, आसर्वा, अहमदाबाद
3627.	किरणकुमार वैष्णव राजमीकांत	बी०एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3754 6-2-73	राज० न्वाटर्स सी/28, जामेवर रोड, ग्राम राजकोट
3628.	किर्तीसिंह परसराम जसवंतसिंह	आयु० शिक्षक वि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1959	8630 28-1-83	ग्राम मुली नथा बानिया, ता० मुलि, जिला सुरेन्द्रनगर ।
3629.	किर्ती नरियामबाला मोहनलाल	जी० एफ०ए०एम० फै० आयु० सि० मे०, बम्बई 1966	3979 27-7-73	द्वारा जितेन्द्र एम० शाह, बेंजलपूर होली चकला ग्राम एच जिला बरीच
3630.	किर्ती ठक्कर कानुभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6284 20-9-78	द्वारा कानु ठक्कर, प्लॉट नं० 35, एस० बोरडी गेट, साबरकर ।
3631.	किर्तीमाला भट्ट केशवलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6107 28-3-78	द्वारा जीवन भट्ट का मकान, मजदीक फौज दाबा, पुरानी मानिकगढ़ी, साबरकर ।
3632.	किर्तीबेन जोशी महसायभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5445 25-6-76	48/1, मोहननगर सोसाइटी, नरोवा रोड, अहमदाबाद
3633.	किर्तीभाई पटेल साधुराई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3485 19-4-72	ग्राम, कोमवम ता० बासासिनोर, जिला खेड़ा
3634.	किर्तीभाई पटेल भाईलालभाई	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7802 5-9-80	ग्राम वणपलपुर, ता० बाबोदिया, जिला बड़ौदा

1	2	3	4	5
3635.	किर्तीबा दवे रचितकार	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7852 10-10-80	12, चाणोबम सोसाइटी, ग्राम एच ता० कोलोन, जिला मेहसाणा
3636.	किर्तीबा जोशी चक्रुलाल	बी० एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5173 16-2-76	द्वारा सी० एम० जोशी, पी० 152, सेक्टर नं० 119, गांधीनगर ।
3637.	किर्तीबा राजल रमणीकलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5237 2-3-76	1277, सामेयशिकार पोस, मांखवी पोस, अहमदाबाद ।
3638.	किर्तीबा सारैया गुणवंत लाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	6098 21-3-78	3013, वोलिया जवाफाई अस्तोदिया, वार्ड- पोस अहमदाबाद ।
3639.	किर्तीबा तन्ना नारायण भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8784 16-8-83	115, मुक्तीनगर, ता० वाकजा, रोड ग्राम- बड़ीवा-5
3640.	किर्तीबा दवे नरिसंकर	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6058 8-3-78	ग्राम एच पो० नानोपेरा, ता० चोलका, जिला अहमदाबाद
3641.	किर्तीबा देसाई बिमललाल	पी०एफ०ए०एम० कै० आ० यू०सि० मे०, गुजरात 1961	396 12-9-82	5, मिन्बुर को-आय० सोसाइटी, पो०आ० नवजीबम, अहमदाबाद
3642.	किर्तीबा सयानिया कुलाजी भाई	बी० एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7912 3-12-80	ग्राम एच पो० एच ता० फालिया, जिला बरोच
3643.	किर्तीकान्त बोधी छोटालाल	आयु० विषयक नि० आ० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1976	6967 2-4-79	असोक रेश कोर्से रोड, ग्राम राजकोट
3644.	किर्तीकान्त पाठक महेश्वरलाल	बी० एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4244 6-3-74	ग्राम काकनपुर, ता० मोघारा, जिला पंचमहल
3645.	किर्तीकुमार वैद्य बिमललाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6371 13-10-78	ग्राम एच पो० लोदरा, ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा
3646.	किरितकुमार आचार्य दीनलाल	आयु० विषयक नि० आ० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1978	8526 14-9-82	17, गिरिबिहार सोसाइटी, सुपेन्द्रनगर
3647.	किरितकुमार अग्रवाल अमृतलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4612 24-2-75	ग्राम एच ता० नन्दासी, जिला खूतागढ़
3648.	किरितकुमार मट्ट बनसुखराम	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9139 10-9-84	ग्राम एच पो० छानियाना, ता० बेचगाम, जिला वातसकंधा
3649.	किरितकुमार भाजती छोटुभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7543 21-2-80	सेक्टर नं० 28, बी नं० 43/4, सी० एच०एच० टाइप, ग्राम गांधीनगर
3650.	किरितकुमार भट्ट बनध्यामलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3340 8-2-72	2788, लालबाबा का टिम्बा, धरियापुर, अहमदाबाद
3651.	किरितकुमार भट्ट रेवामंकर	बी० एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3872 16-3-73	मेसुरमामा बकजा, अटनाच पालिया, ग्राम बरोच ।

1	2	3	4	5
3652.	किरितकुमार भट्ट विश्वनाथ	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4513 20-9-74	कुम्भारवावा, सामने जगन्नाथ मन्दिर, ग्राम धोराजी, जिला राजकोट
3653.	किरितकुमार भट्ट नरहरिकर	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8825 11-8-83	ग्राम एष पो० दाहूँली, ता० बालिया, जिला बरीच-383125
3654.	किरित कुमार भट्ट भानुशंकर	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8347 11-3-82	ग्राम नागेशी (384543), ता० जाफराबाद बाधा एष जिला अमरेली।
3655.	किरित कुमार बने जगत राम	बी०एस०ए०सी०, क०शु०आयु० कोर्स, गुजरात 1985	1779 2-8-85	प्लॉट नं० 2165 बी, कृष्णानगर, भावनगर
3656.	किरितकुमार बेने प्रताप राम	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6028 16-2-78	कोटन बाजार, बाघ, ग्राम मोलवा, जिला अहमदाबाद
3657.	किरित कुमार बने काश्यामाल	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9258 9-4-85	श्रीसाई निकेतन, ग्राम तिलिया मोता, जिला अमरेली
3658.	किरित कुमार ध्रुव हीरालाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3222 9-8-71	नजवीक जाजा, रामकला गली, ग्राम जामनगर
3659.	किरितकुमार गोस्वामी रमणीकमिनि	बी०एस०ए०सी०, क०शु०आयु० कोर्स, गुजरात 1987	2653 22-2-88	4, अनुपम सोसाईटी, सामने साराफाई कैमिकस, ग्राम बड़ीवा
3660.	किरितकुमार जोशी रतिलाल	बी०एस०एम०एस०, गुजरात वि० वि०, 1987	2632 12-1-88	द्वारा, रतिलाल ई० जोशी, ब्राह्मण कालिया ग्राम महुआ, बाया नवसारी, जिला सूरत
3661.	किरितकुमार जोशी कमलाशंकर	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5004 20-10-75	बी-6, त्रिकमनपर सोसाईटी, एस० टी० डिपो के पीछे, ग्राम सूरत-3
3662.	किरितकुमार जोशी हरिप्रसाद	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9152 1-10-84	26, गायत्री सोसाईटी, विद्यालय के पीछे, ग्राम बनसुरा, ता० मोवासा, जिला साबरकांठा।
3663.	किरितकुमार मन्नाभिया छान्तराी	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4858 28-5-75	द्वारा बी० मन्नाभिया, कामदार कालोनी, ग्राम जामनगर।
3664.	किरितकुमार मगरमैठे पुंजालाल	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5321 31-3-76	102, ई० माधवाजी, नई गांव, कास चौक, बाबर, बम्बई-14
3665.	किरित कुमार नामक मंगनलाल	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8539 14-9-82	ग्राम एष पो० जोलावा, ता० पलसाभा, जिला सूरत।
3666.	किरितकुमार पाण्ड्या कामिलाल	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5856 23-8-77	ग्राम मिन्हुवा, ता० अहमदाबाद, जिला खेड़ा
3667.	किरितकुमार पामाविप्रा दुर्लभजीभाई	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3853 11-10-72	द्वारा मोनी जयन्तीलाल दुर्लभजी, स्वामी- नारायण मन्दिर रोड, विवाली जट्टस छावाफी तीसरी मस्जिद, अहमदाबाद
3668.	किरितकुमार पाण्ड्या छोटालाल	बी०एस०एम०सी०, क०शु०आयु० कोर्स, गुजरात 1982	738 23-11-82	बाजा, ग्राम वासो, ¹ ता० नावियाद, जिला खेड़ा

1	2	3	4	5
3669.	किरित कुमार पटेल गणुभाई	बी०एस०ए०सी०, क० शु० आर्यु० कोर्स, गुजरात 1985	1890 1-6-85	ग्राम चावाप, ता० कवची, जिला मेहसाणा ।
3670.	किरितकुमार पटेल माधवलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5188 21-2-78	ग्राम लावरपुर, ता० एवं जिला गांधीनगर
3671.	किरितकुमार पटेल दुंबरभाई	बी०एस०एम०एस०, गुजरात-आयु० वि० वि० 1983	8940 17-2-84	नजदीक लोक, ग्राम - एवं पो० माहेरबावी, ता० सिद्धापुर, जिला मेहसाणा
3672.	किरितकुमार पुरोहित मोहनलाल	बी०एस०ए०एम० एवं एम०बी० (आयु०) गुजरात-आयु० वि० वि०, 1978	8004 10-1-78	ग्राम डाभा, ता० कवच, जिला साबरकंधा
3673.	किरितकुमार रावल मंगललाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	8084 15-3-78	ग्राम एवं पो० तोरवा, ता० बिलोवा, जिला साबरकंधा
3674.	किरितकुमार खन्ना महिपतराम	बी० ए० एम०एस०, गुजरात-आयु० वि० वि० 1985	8819 1-7-88	द्वारा एम० बी० रावन, 12/एचपूतपारा, विश्वनाथ निवास, ग्राम जलकंध-361001
3675.	किरितकुमार संघवी तोर्बतीलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7392 18-11-79	द्वारा एस० डी० संघवी, राज० औषधालय, ग्राम बाबैवारजी, ता० चानसभा, जिला मेहसाणा
3676.	किरितकुमार साह हिम्मतलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात-आयु० वि० वि०, 1978	8818 17-10-77	ग्राम एवं पो० अम्बालीपादा, ता० कवच, जिला साबरकंधा
3677.	किरितकुमार साह नवलचन्द	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984	1789 20-7-85	रायाकाकण गली, ग्राम क्वाथ, जिला दूरा
3678.	किरितकुमार साह सामेहलभाई	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	8358 4-10-78	ग्राम एवं पो० कामलपुर, ता० क्वर, जिला साबरकंधा
3679.	कुलकुमार साह कान्तिनलाल	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	7486 21-12-79	ग्राम एवं पो० अक्कल, ता० कवच, जिला साबरकंधा
3680.	किरीकुमार साह भागवाजी	आयु० निष्क, नि० भ० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1971	7502 17-1-80	जें० के० मोदी भवन, लेखरबाई, रोड, ग्राम राजकोट
3681.	किरीकुमार साह भान्तिनलाल	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7972 20-2-81	8, जयश्री सोतावडी, कावैसी बाग, बड़ौदा
3682.	किरीकुमार शुक्ल गिरिजाचंकर	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	6749 31-3-77	शुक्ल भवन, लक्ष्मणवाडी चेंरी नं० 1, ग्राम राजकोट
3683.	किरीकुमार ठक्कर बालकृष्ण	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3891 27-3-73	ग्राम, बायाली, ता० क्वर, जिला साबरकंधा
3684.	किरितकुमार ठक्कर विभवप्रसाद	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5008 20-10-75	हरिकृपा निवास, बाहीकालिया, ग्राम बैजालपुर, ता० कनीस, जिला पंचमहल ।
3685.	किरितकुमार विपाठी कनैयालाल	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5482 3-8-76	बी०, निर्मलकुंज, फ्लैट, आश्रम रोड, नव गुजरात कालेज के पीछे, ममता पार्क, बहुमवावा

1	2	3	4	5
3686.	किरितकुमार उपाध्याय तुलजाशंकर	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7811 15-9-80	टावर रोड, ग्राम एवं ता० संतरामपुर जिला पंचमहल ।
3687.	किरितकुमार व्याम द्रुम्भकलाय	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4792 21-4-75	ग्राम पुनगी, ता० प्रांटिज, जिला साबरकण्ठ
3688.	किरित प्रकाश उपाध्याय कृष्ण कान्त	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8080 7-5-81	3-ए, शिवसदन, भृत्तिकुंज, सोमावती, मणिनगर, (पूर्वी), अहमदाबाद
3689.	किशानलाल भट्ट जटायंकर	आयु० भिषक, नि०भा०आ० विश्वापीठ, दिल्ली 1956	7606 18-3-80	ग्राम साजे, ता० मुप्पी, जिला सुरेन्द्रनगर
3690.	किशानसिंह बराड़ सिदिभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7495 17-1-80	द्वारा शहदेवसिंह, एम० रायजाबा, सामने मिन्धुनगर बस स्टैंड, ग्राम भावनगर
3691.	किस्तत त्रिवेदी प्रभाशंकर	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4493 9-9-74	22, सन्या सोमावती, बननोदिया, अहमदाबाद
3692.	किष्णु चम्पानी बेनुमल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8226 18-11-81	तिबर चौक, सामने हृषेण निवास, ग्राम कुटियाता, जिला जूनागढ़
3693.	किशोरभाई पटेल नारायणभाई	आयु० भिषक, नि०भा०आ० विश्वापीठ, दिल्ली 1973	6502 1-2-79	महायक प्रोजेक्ट, अधिकारी (पशुपालन), कच्छ जिला ग्राम विकास एजेंसी, नारायण भवन, दूसरी मन्जिल, स्टेशन रोड, मुजफ्फरपुर ।
3694.	किशोर ववे लक्ष्मीशंकर	डी०एम०ए०सी०, क० शू० आयु० कोर्स, गुजरात 1964	1516 25-8-64	16, अपेक्षम, सोसाइटी, सामने बी० जे० त्रिवेदी हाई स्कूल, जीवराभापार्क, बेंजलपुर, अहमदाबाद
3695.	किशोर देसाई मानेकलाय	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3231 21-8-71	नजदीक वाशमिमा का बाड़ी, तीसरी मंजिल, ओवर तालाब, दाहोव, जिला पंचमहल ।
3696.	किशोर जोशी पुरुषोत्तम	बी०एस० ए० ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5254 8-5-76	नवा बाजार, मिरात्रस्टार, टेकारा, पटवर्धन हाउस बड़ौदा-6
3697.	किशोर रावल आत्मराम	बी०एस०ए०एम०, गुजरात वि० वि० 1961	974 8-12-61	द्वारा जे० के० जानी, 51, त्रिविजय फ्लोड, जामनगर
3698.	किशोर शाह कान्तिलाय	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8954 12-3-84	स्टेशन, मिलाव, ग्राम एवं पो० फालसा, जिला वजसाद ।
3699.	किशोरभाई ववे रमिकलाय	आयु० भिषक नि०भा० आ० विश्वापीठ, दिल्ली 1978	8681 7-5-81	ग्राम राजपारा, ता० छोटिला बाया देवसिया जिला सुरेन्द्रनगर ।
3700.	किशोर भाई बेंकारिया राणाभाई	बी०एस० ए० ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8141 21-8-81	ग्राम अमरगढ़ बाया वादिया-बेबली (स्ट०), ता० जेनपुर, जिला राजकोट
3701.	किशोरचन्द्र बनशनिवा रायवजी भाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5735 15-3-77	मरदारवाडा प्लाट, यदुकुटीर, ग्राम जूनागढ़
3702.	किशोरचन्द्र भट्ट छोटालाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3736 31-1-73	नजदीक साबरमती, डी० केबिन, अहमदाबाद

1	2	3	4	5
3703.	किशोरचन्द्र भट्ट बटुकराय]	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3803 21-2-73	ग्राम खम्भा, जिला अमरेली
3704.	किशोरचन्द्र वडे चिमनलाल]	डी०एस०ए०सी०, क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1964	1506 10-8-64	जमादार सेरी, धोघानेट, भावनगर
3705.	किशोरचन्द्र वडे [लाभशांकर]	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2877 19-1-70	ग्राम एन० पो० बलवाना, बाधा सिम्बाधी, ता० वाघवान, जिला सुरेन्द्रनगर
3706.	किशोरचन्द्र देवक्रिया गोवाभाई]	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3968 7-7-73	रोकड़ शेरी, ग्राम भायावावर, ता० उपनेटा, जिला, राजकोट
3707.	किशोरचन्द्र देसाई] [नरसूभाई]	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5282 15-3-76	ग्राम सारीखराद बाया अमालसाव, जिला बलसाव
3708.	किशोरचन्द्र दोषी] जयमुखलाल	जी०एफ०ए०एम०, फै० झा० यू० सि० से० बम्बई 1960	1611 18-2-65	मंगल भवन, नजदीक बालकाका धाल, कंकारिया रोड अहमदाबाद
3709.	किशोरचन्द्र वडे मुणाहंकरभाई]	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	8160 3-9-81	सत्यासदन, सरदार प्लाट, ग्राम जूनागढ़
3710.	किशोरचन्द्र मेहता] प्राणलाल	बी०एस०ए०एम०] गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5941 26-10-77	श्रीराम जुबली प्लाट, बोखीरा, ग्राम पोरबन्दर, जिला जूनागढ़।
3711.	किशोरचन्द्र ओमा लक्ष्मीशंकर	बी०एस०ए०एम०] गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4394 31-5-74	ग्राम गारल, पो० मंखेडा, ता० उना, जिला जूनागढ़
3712.	किशोरचन्द्र पाण्ड्या [नटवरलाल]	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3156 18-3-71	सामने चासलेट बाबा बन्दा, राणिका, भावनगर
3713.	किशोरचन्द्र पाण्ड्या शिवकुमार	बी०एस०ए०एम०] गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5620 3-12-76	आयु० क्लीनिक, नीलवानी रोड, एलबास- 396230
3714.	किशोरचन्द्र पाठक [बालाशंकर]	बी०एस०ए०एम०] गुजरात आयु० वि० वि० 1973 ¹⁾	5577 18-10-76	स्वामीनारायण] मन्दिर के सामने, ग्राम विसाववार, जिला जूनागढ़
3715.	किशोरचन्द्र राजवाड़ा] गोर्धनदास]	बी०एस०ए०एम०] गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3274 26-10-71	ग्राम अम्बा, ता० विवियामोता, जिला अमरेली
3716.	किशोरचन्द्र मधवी] [नरसोराम]	आयु० भिषक] मि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1960	7509 4-2-80	पंचायत आयु० औषधालय, ग्राम क्याववा, बाया मलबाद, जिला सुरेन्द्रनगर।
3717.	किशोरचन्द्र शाह] [कंचनलाल]	डी०एस०ए०सी०] क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1892 15-12-65	नजदीक हीराभगोल गैट, ग्राम दभोई, ता० दभोई, जिला बड़ोदा]
3718.	किशोरचन्द्र शंकर चंनकलाल	बी०एस०ए०एम०] गुजरात आयु० वि० वि० 1972	5034 28-11-75	ग्राम मोता, उजावा, ता० कुकाबाक, जिला अमरेली।
3719.	किशोरचन्द्र ठरकर गोदावजी	डी०एस०ए०सी०, क० शु० आयु० कोर्स, महाराष्ट्र 1958	286 1-2-60	स्वास्थ्य निकेतन, रावपुरा, ग्राम बड़ोदा

1	2	3	4	5
3720.	किशोरचन्द्र त्रिवेदी मोहनलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4034 30-8-73	ग्राम शापर, बाया बगसारा, त० बिसावादर, जिला जूनागढ़ ।
3721.	किशोरचन्द्र उपाध्याय कल्याणजी	डी०ए०एस०एफ० कै० आ०यु०सि०मे०, बम्बई 1953	63 2-2-53	ग्राम टगावी, त० धन्धुका, जिला अमदावाद
3722.	किशोरचन्द्र व्यास कान्तिलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3375 16-2-72	खापातिया चकला, बाया विविमनगं महादेव की गली, सूरात ।
3723.	किशोरचन्द्र व्यास अगजीवनवाम	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4767 9-4-75	ग्राम भावीचन्द्रिया, जिला भावनगर
3724.	किशोरदास शायम जेठामाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० 1974	5139 29-1-76	ग्राम ता० पटावी, जिला सुरेंद्रनगर
3725.	किशोरदर गोस्वामी रामगर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7011 16-5-79	सोनी बाजार, पदी रोड, गोस्वामी निवास, ग्राम छोराणी, जिला राजकोट
3726.	किशोरी त्रिवेदी जयन्त कुमार	बी०ए०एम०एस० गुजरात वि० वि० 1967	2726 18-1-69	द्वारा डा० जे० एम० त्रिवेदी, मानकशौक, अहमदावाद
3727.	किशोरी अकील सुन्दरलाल	बी०ए०एम०एस० गुजरात वि० वि० 1967	2598 10-10-67	विजय म० नं० 521, ग्राम बैताप, जिला भावनगर ।
3728.	किशोरीकांत जोशी दयाराम	बी०एस०ए०एन०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7223 23-8-79	द्वारा दयाराम केशवजी जोशी, सामने वादिय गैरेज, छै प्लाट, ग्राम पोरबन्धर, जिला जूनागढ़
3729.	किशोरी कान्त पाण्ड्या रमणलाल	डी०एस०ए०सी० क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1962	739 23-11-62	हनुमान बादी, बड़ौदा
3730.	किशोरकांत शर्मा बनमासीबास	आयु० भिषक नि०भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1964	7114 16-7-79	स्वास्तिक औषधालय, संधादिया बाजार, ग्राम भावनगर ।
3731.	किशोरकुमार भट्ट रजनीकांत	बी०ए०एम०एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9617 21-11-86	श्रेयस गांधी चौक, ग्राम एबम् पो० एबम् ता० आमोद, जिला बंरोच
3732.	किशोरकुमार नावरिया रतिलाल	बी०एस० ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8166 10-9-81	ग्राम मोखासन, ता० कानोल, जिला मेहसाणा
3733.	किशोरकुमार दवे मगनलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7423 12-12-79	ग्राम मिन्मुवा पो० पादियाना, जिला जामनगर
3734.	किशोरकुमार दोषी बम्बकलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5288 23-3-76	द्वारा दम्बकलाल लावाजीभाई पटेल, ग्राम बोटाड, जिला भावनगर ।
3735.	किशोरकुमार जियानी अर्जुनभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7823 24-9-80	14/161, नेताजी नगर, मजदीक मेघालीनगर अहमदावाद
3736.	किशोरकुमार पंचोली नगीनचन्द्र	बी०एस० ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4092 15-10-73	भवाली, नाका, ग्राम गुधावा, जिला भावनगर

1	2	3	4	5
3737.	किशोरकुमार पटेल गोपालभाई	बी०ए०एम०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9006 28-3-84	ग्राम एजम् पो० अम्मेरां, ता० पालसाभा, जिला सूरत ।
3738.	किशोरभाई रानिगा लक्ष्मीबाब	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3911 3-4-73	देवपाड़ा, मैन रोड, ग्राम राजकोट ।
3739.	किशोरकुमार शास्त्री शांतिबाल	बी०एम०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	4629 24-2-75	द्वारा एम० के० शास्त्री, अम्नाली कालिया, ग्राम जलोद, जिला पंचमहल
3740.	किशोरकुमार उपाध्याय जातुभाई	बी०एम०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	5968 21-11-77	ग्राम विहोर, ता० तालाजा, जिला भावनगर
3741.	किशोरकुमार बाबेरा राजेशभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4103 2-11-73	द्वारा बाबेरा, कृपाय स्टोर नजदीक टावर, ग्राम एबं जिला अमरेशी
3742.	किशोरकुमार बैद्य रामाकांत भाई	बी०एम०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5910 11-10-77	सुल्तानपुरा, देसाई का खांबा, ग्राम बड़ीया
3743.	किशोरसिंह चुडासामा महिपत सिंह	एम०डी०आयु० गुजरात आयु० वि० वि० 1988	9583 7-10-86	ग्राम बाबलियारी-382455, ता० पन्थुका, जिला अहमदाबाद
3744.	किशोरसिंह देसाई बन्धेवभाई	डी०ए०एस०एफ० फै० आ० यु० सि० मेडी० बम्बई 1955	397 1-7-55	33-ए, चैतन्य सोसाइटी, नजदीक पेट्रोल पम्प, सरदार पटेल स्टेशन रोड, वजजीवन, अहमदाबाद
3745.	किशोरसिंह रागा अनुपुभा	बी०एम०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2799 24-7-69	कुबेरनाथमेत रोड, ग्राम सोरबी, जिला राजकोट
3746.	कोदरभाई पटेल मिनाहाभाई	डी०एम०ए०सी०, फै० शु० आयु० कोर्म, गुजरात, 1964	1472 6-7-64	ग्राम कानकापुरा, ता० बोरसाद, जिला खेड़ा
3747.	कोदर भाई पटेल करणभाई	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० यु० सि० मे० गुजरात 1964	1592 19-1-65	ग्राम सापाबादर, पो० लालोवा, ता० इवर, जिला—साबरकंधा ।
3748.	कोह्याभाई प्रजापति साधुभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7777 1-8-80	मंगलना पल्ला, पो० माधव, ता० लुभावाथा जिला—पंचमहल ।
3749.	कोकिला जराबी रतिलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5011 20-10-75	941, एडवर्ड वार्शक कम्पनी, धिकाटा रोड अहमदाबाद ।
3750.	कोकिला शाह नरकिशनदास	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	7297 20-9-79	बाहरी गेट, नजदीक बंशी फ्लोरमिल, ग्राम अहमदाबाद ।
3751.	कोकिला शाह, त्रिमलाल	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० यु० सि० मै०, गुजरात 1961	1143 21-7-62	द्वारा डा० सी० एन० शाह, मैटरलीटि एबं नर्सिंग होम, मानेकलाल मेहता इस्टेट आगरा रोड, छटकोबर बम्बई-77 ।
3752.	कोकिला पाण्ड्या दुम्बरकलाल	बी०एम०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970 ।	3163 20-3-71	वेदंनरी औषधालय, ग्राम तालाजा, जिला— भावनगर ।
3753.	कोकिला ब्यास मणिसंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3500 4-5-72	कमला भवन, पुरानी मानेकवादी, ग्राम भावनगर

1	2	3	4	5
3754.	कोकिलाबेन पटेल हरीणभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात वि० वि० 1981	8719 19-4-83	द्वारा डा० हरीम बी० पटेल, ग्राम एबं पो० बिलिया, ता० सिद्धपुर, जिला—मेहसाणा ।
3755.	कोकिलाबेन टक्कर रमेशचन्द्र	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8102 20-6-81	टी० ए० जेड० 15, ग्राम अविपुर, ता० अन्जार जिला—कच्छ ।
3756.	कृष्ण बाबन पटेल केयाबलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7266 11-9-79	कृष्णा सदन, सज्जनपुरा, ग्राम मानसा, ता० बीजापुर, जिला—मेहसाणा ।
3757.	कृष्ण बैद्य बकुलभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5473 26-7-76	द्वारा बैद्य बकुलभाई गटुभाई, सामने बरुणली भवन, सत्य नारायण मन्दिर रोड, ग्राम जामनगर
3758.	कृष्णचन्द्र गुप्ता पद्मालाल	बी० ए० एस० एम० इन्दौर वि० वि० 1978	6436 15-12-78	4, जैन कालोनी, ग्राम बरवानी, जिला— खरगांव (म० प्र०) ।
3759.	कृष्णचन्द्र पटवर्धन रमेशचन्द्र	बी० एस० ए० सी० क० यू० आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1854 29-11-65	बादी पोमार्गे, फालिया, बड़ोदा ।
3760.	कृष्णचन्द्र पुरोहित अम्बालाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3033 20-8-70	ग्राम अभील, पो० कुराल, ता० पादरा, जिला—बड़ोदा ।
3761.	कृष्ण कान्त भवसार हीरालाल	डी० ए० एस० एफ० फै० आ० यू० सि० मे०, बम्बई 1955	874 1-8-55	ग्राम कोतवी, महादेवपुरी, ता० मन्डवी, जिला—कच्छ ।
3762.	कृष्णकान्त गांधी छगनलाल	डी० ए० एस० एफ० फै० आ० यू० सि० मे०, बम्बई 1953	144 2-1-54	नगर फालिया, ग्राम कावोव, ता० बारीवली, जिला—सूरत ।
3763.	कृष्णकान्त जोशी शीघर प्रसाद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3616 19-9-72	माहेरा भगोल, लाल औषधालय, ग्राम गोधारा, जिला—नर्मदाहल ।
3764.	कृष्ण कान्त पाण्ड्या केयाबलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4186 12-2-76	ग्राम वासासार, पोस्ट डूगा अन्नादजलाया, ता० धासारा, जिला—बोझा ।
3765.	कृष्ण कान्त थाक रन्जीतलाल	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० यू० सि० मे० गुजरात 1966	2656 2-3-68	5/930, जभाडी, माहिनंदपुरा, सामने मूलचन्द- बाग, सूरत-3 ।
3766.	कृष्ण पाण्ड्या अयंतीलाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9607 10-11-86	"पदमाकर", साघना सोसाईटी, मणिनगर के पीछे, ग्राम साबरकुण्डला, जिला—भावनगर ।
3767.	कृष्णाबेन राजासुभा नरेन्द्रकुमार	बी० ए० एस० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9449 23-12-85	व्यावसिला, अम्हाहर चौक, मणिनगर, अहमदाबाद-8
3768.	कृष्ण कुमार दवे सुरिचन्द्र	पी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6923 17-4-79	बीहान शेरी, नानी बाजार, ग्राम गोरबी, जिला—राजकोट ।
3769.	कृष्णकुमार दोषी जयसुखलाल	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० यू० सि० मे० गुजरात 1965	1678 25-5-65	मंगल भवन, अमरकुंज सोसाईटी वेस, ककारिया, अहमदाबाद ।
3770.	कृष्णकुमार गजारिया मणिलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3922 19-4-73	द्वारा जी० एम० गजारिया, शीतला लाइन, ग्राम जूनागढ़ ।

1	2	3	4	5
3771.	कृष्णकुमार तलाठी नवमीतभावा	जी० एफ० एम० ए० फै० आ० यू० सि० मे० गुजरात 1963	1354 20-11-63	13, केशवनगर, अहमदाबाद ।
3772.	कृष्णलाल जोशी गणपतराम	आयुर्वेद विशारद म० सि० वि० वि०, बड़ौदा 1941	1942 3-11-41	नालभाई पी० एम० टी०, कोठारी खवाकी ग्राम बरोच ।
3773.	कृष्ण लाल पटेल विठ्ठलधाम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4701 29-3-75	मातावली वास, ग्राम देतरोज, ता० बीरमगाम जिला—अहमदाबाद ।
3774.	कृष्णलाल रामानुज तुलसीवास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4192 15-2-74	ग्राम पीपादादी, बाया काना ज०, ता० गंधावा जिला—मावनगर ।
3775.	कृष्ण लाल शाह बृजवल्लभवास	ए० बी० बी० सि० म० विद्यापीठ, पूना 1943	1141 13-1-43	नजदीक पो० आकिस, ग्राम उत्तरसंधा, जिला—खेड़ा ।
3776.	कृष्णलाल शाह बलदेव पास	ए० बी० बी० सि० म० विद्यापीठ, पूना 1944	1140 28-4-44	ग्राम गुण्डी, स्टेशन मुर्छी, ता० छोलका, जिला—अहमदाबाद
3777.	कृष्णलाल शिवेकी बाबूभाई	डी० एस० ए० सी० क० यू० आयु० कोर्स, गुजरात 1967	2539 10-7-67	जालू का चौक, ग्राम एबं ता० शिहोर, जिला— भावनगर ।
3778.	कृष्ण प्रसाद पाठक सोमेश्वर	आयुर्वेद विशारद रा० वठ० महाविद्यालय, बड़ौदा 1953	1645 10-5-65	देसाई का खाम्बा सुल्तानपुरा, ग्राम बड़ौदा ।
3779.	कृष्ण प्रसाद शुक्ल हरिप्रसाद	एम० ए० एम० यू० पी० आयु० महाविद्यालय, पटना 1941	1272 15-1-41	सामने श.यपुर-नेट, दूधेश्वर रोड गुजरात कालोमी, अहमदाबाद ।
3780.	कृष्णपरिभा मेहता सुन्दरलाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० 1966	2579 31-8-67	द्वारा सुन्दरलाल एन० मेहता 18, बदन देवन जयहिनव सोसाईटी, ग्राम एबं पो० सुवेश्वरनगर ।
3781.	कृष्ण शंकरशर्मा बाबू राम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3076 21-12-70	ग्राम भवभाट, ता० एबं जिला—बरोच ।
3782.	कृष्णकानन पटेल गोवर्धनवास	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5973 28-11-77	13ए, कदगा सोसाईटी, नवाबवाज, अहमदाबाद
3783.	कृष्ण अट्ट हेमन्त कुमार	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9325 25-7-85	3/677, कारवा रोड, नवापाड़ा, ग्राम सूरत ।
3784.	कृष्ण शर्मा गोपाल	बी० ए० एम० एम० इन्दौर वि० वि० 1973	5548 28-9-75	द्वारा अमृत आयु० औषधालय, सामने कन्याशाला ग्राम बाबला, जिला—अहमदाबाद ।
3785.	कृष्णकांत केशवराव हरनारायण	बी० ए० एम० एम० वि० वि० वि०, उज्जैन 1975	7220 23-8-79	राजेश्वर मार्ग, ग्राम महेश्वर जिला—(म०प्र०)
3786.	कृष्णकांत गोण्डालिया मवाजीभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7309 20-9-79	ग्राम खिरसारा (बेड़), बाया केगोव, जिला— जुनागढ़ ।
3787.	कृष्णकांत वैद्य नन्दलाल	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० यू० सि० मे० गुजरात 1965	1689 1-6-65	नन्दनवन, टाउमहाल के पीछे, एमिसब्रिज, अहमदाबाद-6 ।

1	2	3	4	5
1197.	चन्द्रकान्त अट्ट जाट शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5151 4-2-76	ग्राम पालनबाड़ा, ता० दभोई, जिला बड़ोदा, ।
1198.	चन्द्रकान्त भावसार चंभूलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3482 13-4-72	ग्राम बीरपुर, ता० बालासीनोर, जिला खेड़ा ।
1199.	चन्द्रकान्त दवे लक्ष्मी शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4377 20-5-74	ग्राम पिपारडोडा, बाया जामनगर ।
1200.	चन्द्रकान्त देसाई भोगी लाल	आयुर्वेद विशारद, म० सि० वि० वि०, बड़ोदा, 1938	1958 2-1-38	बाग्यवाली पोल, कोलाबड़ी, ग्राम बड़ोदा ।
1201.	चन्द्रकान्त देसाई नरान जी	आयुर्वेद अल्पकार, आयु० शा० गुरु वि० वि०, कांगड़ी, (हृदिहार), 1947	2183 19-3-47	मेडीकल आफिसर, ई० एस० आई०, डी-33, अहमदाबाद ।
1202.	चन्द्रकान्त देसाई दिनकर राम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6112 5-4-78	म० नं० 181/2, हरीनगर, ग्राम और पो० आ० उघाता, ता०—चौरयासी, जिला सुरत ।
1203.	चन्द्रकान्त धोलाकिया रमन लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4782 16-4-75	ग्राम अलारसा, ता० मोराड़, जिला खेड़ा ।
1204.	चन्द्रकान्त हुआवला मंगल लाल	आयु० मध्यमा, श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ोदा, 1978	6557 12-2-79	2/184, रुस्तमपुरा, मोटा कुम्भार बाड़, ग्राम सूरत ।
1205.	चन्द्रकान्त हिरानी हरजीवन भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4759 7-4-75	दरियालाल शेरी, ग्राम मोरावी, जिला राजकोट ।
1206.	चन्द्रकान्त हुबलीकार कृष्ण सा	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9318 25-7-85	38, न्यू मेडिकल मिलस घास, रजिपाल रोड, अहमदाबाद-23 ।
1207.	चन्द्रकान्त जागीरवार मंगललाल	डी० ए० एस० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, मुम्बई, 1946	191 31-5-46	नानी पांड्या ब्याक्की, ग्राम नवसार, जिला कलसाव ।
1208.	चन्द्रकान्त जानी अम्बालाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4997 17-10-75	ग्राम अंणलाज, ता० वातिरोई, जिला अहमदा- बाद ।
1209.	चन्द्रकान्त जोशी फूल शंकर	डी० ए० एस० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, मुम्बई, 1954	222 1-9-55	आर० इम० ओ०गबने० अस्पताल, ग्राम गोंदाल, जिला राजकोट ।
1210.	चन्द्रकान्त जोशी राम कृष्ण	डी० ए० एस० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, मुम्बई, 1957	223 1-7-58	ग्राम दतात्रिया, ता० मुन्डा, जिला कच्छ ।
1211.	चन्द्रकान्त नेहरू बिठुल दास	एम० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	5675 24-2-77	आयु० कालोती, ब्लॉक डी-3, ग्राम जामनगर ।
1212.	चन्द्रकान्त निमाबत बलपत राम	आयुर्वेद शिक्षक, मि० शा० आयु० वि०, दिल्ली, 1968	7604 18-3-80	ग्राम मोटा कालाबव, ता० धनवाव, जिला जाम- नगर ।

1	2	3	4	5
1213.	चन्द्र कान्त निरमल छगन लाल	बी. बी. शारदा, नि. भा. आयु. वि., दिल्ली, 1970	7277 15-9-79	महारमा गांधी रोड, ग्राम लिम्बाड़ी, जिला सुन्दर नगर।
1214.	चन्द्र कान्त ओझा जयधराम जी	डी. एस. ए. सी., कमेटी आफ शुद्ध आयु. कोर्स, महाराष्ट्र, 1958	81 1-2-60	जिला पंचायत आयु. डिस्पेंसरी, ग्राम रोसलल, बाया घासा, ता. गधावा (स्वामी) जिला- भावनगर।
1215.	चन्द्र कान्त पण्डित भान्सी लाल	डी. एस. ए. एम., गुजरात आयु. वि. वि., 1976	6101 28-3-78	ग्राम जलिया, बाया कागधावी, ता. और जिला राजकोट।
1216.	चन्द्र कान्त पांड्या छगन लाल	डी. एस. ए. सी., कमेटी आफ शुद्ध आयु. कोर्स, गुजरात, 1962	744 15-9-62	ग्राम उन्देरा, ता. और जिला बड़ौचा।
1217.	चन्द्र कान्त पांड्या प्राण शंकर	डी. एस. ए. एम., गुजरात वि. वि., 1967	2518 16-6-67	अक्षरा बोरी, ग्राम और ता. तालसा, जिला भावनगर।
1218.	चन्द्र कान्त पांड्या रमन लाल	आयुर्वेद शिक्षक, नि. भा. आयु. वि. दिल्ली, 1974	6897 16-4-79	ग्राम शिशावा, ता. बोरार, जिला खेड़ा।
1219.	चन्द्र कान्त पारिख नागर दास	डी. एस. ए. एम., गुजरात वि. वि., 1966	2125 1-8-66	जोदिया गवर्नमेंट अस्पताल, ग्राम जोदिया, जिला जामनगर।
1220.	चन्द्र कान्त पारिख दहि्या भाई	डी. एस. ए. एम., गुजरात आयु. वि. वि., 1979	7887 14-11-80	नजदीक लवधारा, ग्राम नवाली, ता. आनन्द, जिला खेड़ा।
1221.	चन्द्र कान्त पटेल धोरी भाई	डी. एस. ए. एम., फै. आफ आ. एण्ड यू. सि. आफ मेडी., बम्बई, 1955	532 1-8-55	4-1-269, रूप बाजार, ग्राम हैबरबाघ।
1222.	चन्द्र कान्त पटेल मंगन लाल	डी. एस. ए. एम., फै. आफ आ. एण्ड यू. सि. आफ मेडी., बम्बई, 1958	533 2-3-59	छनिया पार, लिम्बाड़ी, जिला सुरेश्वर नगर।
1223.	चन्द्रकान्त पटेल चुबी लाल	डी. एस. ए. एम., गुजरात आयु. वि. वि., 1972	3775 9-2-73	बन्ध बाधकी, ग्राम पियलाग, ता. तवियाड, जिला खेड़ा।
1224.	चन्द्र कान्त पटेल गन्दा लाल	डी. एस. ए. एम., गुजरात आयु. वि. वि., 1975	5442 25-6-76	मार्फत गान्धालाल तरोत्तम दास, ग्राम मेड़ावार, ता. कावी, जिला मेहसाना।
1225.	चन्द्र कान्त पटेल बाबू भाई	डी. एस. ए. एम., गुजरात आयु. वि. वि., 1982	9076 29-6-84	ग्राम ताराकानी, पो. आ. अनावल, ता. महुवा, जिला सूरत।
1226.	चन्द्र कान्त पटेल भीखू भाई	डी. एस. ए. एम., गुजरात आयु. वि. वि., 1984	9465 10-1-86	23, अमरगक सोसायटी, धनीचिया रोड, ग्राम बड़ौचा-19।
1227.	चन्द्र कान्त पटेल दह्या भाई	आयुर्वेद शिक्षक, नि. भा. आयु. वि., दिल्ली, 1973	7034 20-6-79	कबीर फालिया, नजदीक परबाड़ी, ग्राम रास, ता. बोरसाद, जिला खेड़ा।
1228.	चन्द्र कान्त रावल कान्ती लाल	आयुर्वेद मध्यमा, श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौचा, 1979	9246 12-3-85	सी-104, राजेन्द्र नगर मोसायटी, ग्राम राज- पिपाला, जिला बरोच।

1	2	3	4	5
1229.	चन्द्र कान्त शाह रमन खाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1964	1501 31-7-64	रमन भवन, रारेखपोरी, देवगाधबरिया, वाया पिपलबोद, जिला पंचमहल ।
1230.	चन्द्र कान्त शाह अमृतलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	7018 16-5-79	ग्राम और पो० आ०—जिन्दवा, ता०— दहिगाम, जिला अहमदाबाद ।
1231.	चन्द्र कान्त शुक्ल प्रभू शंकर	आयुर्वेद विशारद, भ० सि० वि० वि०, बड़ीबा 1953	2146 9-10-53	गोठ काली पं० 2, ग्राम जामनगर ।
1232.	चन्द्र कान्त शुक्ल कृष्णलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4560 19-10-74	62, सर्वोदय नगर, शाहपुर गेट के बाहर, अहमदाबाद ।
1233.	चन्द्र कान्त सोलंकी भगवानजी भाई	आयुर्वेद विषयक, वि० भा० आयु० वि०, दिल्ली, 1975	6690 3-3-79	बालनन्द शेरी, ओम निवास, ग्राम मोराबी, जिला राजकोट ।
1234.	चन्द्र कान्त सोलंकी जीवा भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7357 29-10-79	ग्राम और पो० आ०—पालेज, ता० और जिला बरोच ।
1235.	चन्द्र कान्त सोनी नरजीवनदास	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7132. 19-7-79	91, गजराज सोसायटी, चान्दलोविया, अहमदा- बाद ।
1236.	चन्द्र कान्त सुगार प्रभू दास	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8942 17-2-84	ग्राम भाता अंकीवालिया, ता० खलसर जिला, सुरेन्द्र नगर—362110 ।
1237.	चन्द्र कान्त ठाकर दयाशंकर	डी० एम० ए० सी०, कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1962	277 22-6-62	ग्राम मुजपुर, ता० सामी, जिला मेहसना ।
1238.	चन्द्र कान्त ठाकर नटवर खाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	7070 30-6-79	ग्राम तोराना, ता० कपाड़ वन्त, जिला खेड़ा ।
1239.	चन्द्र कान्त ठाकर दहियाभाई	डी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4833 8-5-75	मार्फत ए० बी० ठाकर, भायसरवाड़, ग्राम अहमदाबाद, जिला खेड़ा ।
1240.	चन्द्र कान्त त्रिवेदी विद्याराम	डी० ए० एम० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई, 1952	307 5-9-52	मेडीकल आफिसर, चित्तल डिस्पेसरी, ग्राम चित्तल, जिला अमरेली ।
1241.	चन्द्र कान्त त्रिवेदी मोहन लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3134 20-2-71	सुखनाथ रोड, ग्राम उपलेटा, जिला राजकोट ।
1242.	चन्द्र कान्त त्रिवेदी भाई शंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4008 17-8-73	सामने नया कोर्ट, ग्राम सिहौर, जिला भवनगर ।
1243.	चन्द्र कान्त त्रिवेदी भाई शंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5006 20-10-75	ग्राम खास, वाया रनपुर, जिला अहमदाबाद ।
1244.	चन्द्र कान्त त्रिवेदी प्रह्लाद भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6871 3-4-79	ग्राम रनोली (धर्माजी) ता० दोरसाव, जिला खेड़ा ।
1245.	चन्द्र कान्त वैष्णव हरगोविन्द दास	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8155 3-9-81	ग्राम शापुर (सोथं) ता०—वन्थाली, आजाद चौक, मैन बाजार, जिला जूनागढ़ ।

1	2	3	4	5
1246.	चन्द्र कान्त बेन पटेल पुनी लाल	आयु० भिषक, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली, 1972	9149 1-10-84	ग्राम और पो० आ०— सावली, बाया नसवाड़ी, ता० तिलकवाड़ा, जिला बड़ौदा ।
1247.	चन्द्र मलिका ओजा रती लाल	जी० एफ० ए० एम०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, गुजरात, 1960	82 25-9-62	9, निरंजन सोसायटी, मेमनगर, अहमदाबाद ।
1248.	चन्द्र मणि मिश्राई हेम चन्द	डी० ए० एम० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई, 1954	1631 1-2-54	अवनिका पार्क, ब्लॉक, 36, खानपुर रोड, अहमदाबाद ।
1249.	चन्द्र मौली गोरी प्रमोद शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7676 18-4-80	मार्फत जे० आर० लिबीसी, 17/180, बेस्युनायर फ्लैट, नजदीक हिम्मतपार्क, अहमदाबाद ।
1250.	चन्द्र प्रभा शर्मा ज्ञान चन्द	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5590 27-10-76	30/310, तृतीय तल, 4, सरयमगर, उधभा, सूरत-394210 ।
1251.	चन्द्र प्रताप कर्ण धन पति	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9004 28-3-84	ग्राम और पो० आ०— महेन्द्रगढ़, जिला सरगुजा (महाराष्ट्र) ।
1252.	चन्द्र शंकर जोशी हरशिवर वस	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1960	8139 21-8-81	ग्राम और ता० सिहोर, जिला भावनगर ।
1253.	चन्द्रशंकर श्याम गोरी शंकर	आयुर्वेद विशारद, भ० सि० वि० वि०, 1941	2484 3-6-41	ग्राम अनास, ता० आनख, जिला खेड़ा ।
1254.	चन्द्र सिंह जाला जयवन्त सिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4064 26-9-73	ग्राम सन्धाल, ता० और जिला मेहसना ।
1255.	चन्द्र ववन बैद्य नाना लाल	डी० एस० ए० सी०, कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात, 1961	1067 23-10-61	मार्फत मना लाल जी, बैद्य, ग्राम—मियागाम, ता० कर्जन, जिला बड़ौदा ।
1256.	चन्द्र ववन बैद्य जयश्री चाल	डी० एस० ए० सी०, कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1964	4 23-11-64	हाथी पोल, बड़ौदा ।
1257.	चन्द्र ववन भट्ट बालू शर्मा	डी० ए० एस० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई, 1953	818 16-6-65	शान्ती निवास, घुतलिया पोल, ग्राम सादिया, जिला खेड़ा ।
1258.	चन्द्र ववन भट्ट रमेश चन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6288 20-9-78	ग्राम और पो० आ०— विदारवा, बाया जेटलासर, ज० रामकाका शेरी, लक्ष्मी निवास, ग्राम जामनगर-360360 ।
1259.	चन्द्र ववन पांड्या हरी शंकर	डी० ए० एस० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई, 1950	745 26-2-51	मेडीकल आफिसर, जिला पंचायत डिस्पेंसरी, ग्राम मंगरोल, जिला सूरत ।
1260.	चन्द्र ववन पांड्या शिव प्रसाद	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4043 10-9-73	ग्राम संसोली, बाया दिरोल, जिला पंचमहल ।

1	2	3	4	5
1261.	चन्द्रवदन शाह शान्ती लाल	बी० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3840 2-3-73	ग्राम सोमा, ता० कालोण, बाया बेरोल, जिला पंचमहुल ।
1262.	चन्द्र वदन सुधार गोवर्धन दास	बी० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5499 17-8-76	ग्राम मराद, ता० हलोल, जिला पंचमहुल ।
1263.	चन्द्रेश कुमार यागनिक हेमन्त भाई	बी० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6301 27-9-78	ब्लॉक नं० 30/2, सेक्टर नं० 28, ग्राम और ता० और जिला गांधीनगर ।
1264.	चन्द्र शंकर दवे मनहर लाल	बी० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1968	2841 18-9-69	ग्राम कासिम्हा, ता० बाघरे, जिला अहमदाबाद ।
1265.	चन्द्रभा जाला सजुभा	बी० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3619 26-9-72	5, रणछोदपाड़ा, ग्राम गाकवेर, जिला राजकोट ।
1266.	चन्द्रू भाई पटेल जिना भाई	जी० ए० ए० ए०, फं० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, गुजरात, 1961	941 28-2-63	जूना नगरबास रोड, 2/14, लक्ष्मी एस्टेट कीआण- रेटिव सोसाईटी के सामने, अन्धेरी, स्टेट बम्बई- 400062
1267.	चन्द्रू भाई मास्टर राम भाई	डी० ए० ए० ए०, कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1967	2580 3-1-8-67	ग्राम कालोषी, ता० पेटलाब, जिला खेड़ा ।
1268.	चन्द्रू भाई प्रजापति शाना भाई	बी० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3812 21-2-73	बाकोर रोड, ग्राम अलिम्हा, ता० नावियाड़, जिला खेड़ा ।
1269.	चन्द्रू भाई ठाकर सोहन भाई	बी० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4966 4-10-75	ग्राम कमलापुरा, पो० आ० लिमाड़ा ता० बघोविया, जिला बड़ौदा ।
1270.	चन्द्रू लाल अशार शामजी	बी० ए० ए० ए०, गुजरात वि० वि०, 1964	1492 27-7-64	ग्राम बावरी, बाया जमकधोरना, सौराष्ट्र ।
1271.	चन्द्रू लाल बाबरिया हंसराज भाई	बी० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	8897 10-1-84	मार्फत एच० ए० गरिया, जेपुर रोड, अवेवा ओक, ग्राम धोराजी, जिला राजकोट-360410 ।
1272.	चन्द्रू लाल भाइला भवानी शंकर	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० वि० वि०, 1973	6780 21-3-79	ग्राम पाटा (बेब), ता०—पोरबन्दर, जिला जूनागढ़ ।
1273.	चन्द्रू लाल भट्टी लामू भाई	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली, 1972	7038 20-6-79	ग्राम तरम्बा, जिला राजकोट ।
1274.	चन्द्रू लाल दावडा पुरुषोत्तम दास	बी० ए० ए० ए०, फं० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन बम्बई, 1955	353 1-12-65	ग्रामकोट (गंगड़), ता० धोलका, जिला अहमदा- बाद ।
1275.	चन्द्रू लाल दवे बहेधर लाल	आयुर्वेद विशारद, प० सि० वि० वि०, बड़ौदा, 1944	1967 31-7-44	ग्राम सेवासो, ता० भीर जिला बड़ौदा ।
1276.	चन्द्रू लाल दवे पुन्जी राम	बी० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4473 30-8-74	ग्राम नाना देवाड़ा, ता० खेदबिहमा, जिला सौराष्ट्र ।

1	2	3	4	5
1277.	चन्द्रू लाल खे गौरी शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5496 17-8-76	फुलबाड़ी रोड, ग्राम भरोल, जिला जामनगर ।
1278.	चन्द्रू लाल गामिती नाथा जी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3307 6-1-72	ग्राम कमथादिया, पो० आ०— ताकटुका, ता० भीलोवा, जिला साबरकण्डा ।
1279.	चन्द्रू लाल जोशी लाभ शंकर	डी० एस० ए० सी०, कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1963	1400 24-1-64	मानवदार हिल्य सेक्टर, जोरावर बाग, मानवावार ।
1280.	चन्द्रू लाल करिया निराजी भाई	बी० ए० एम० एम०, कानपुर वि० वि०, 1973	4609 13-1-75	ग्राम बखराला, बाया पोरबन्धर, जिला जूनागढ़ ।
1281.	चन्द्रू लाल कवाधिया बाबा भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6190 5-7-78	ग्राम सारंगपुर, पो० आ० बोबंगी, बाया सुनी- धर, ता० कुकवाथ, जिला अमरेली ।
1282.	चन्द्रू लाल रंयानी पर्वत भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4675 21-3-75	ग्राम वीरपुर (जालाराम), ता०— जैतपुर, जिला राजकोट
1283.	चन्द्रू लाल रावन भोगी लाल	डी० ए० एस० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई, 1948 एल० ए० एम०, यू० पी० आयु० महावि०, पाटन (बड़ौदा राज्य), 1942	976 10-6-66	14, मोना नगर सोसाईटी, सुरेश मंगलदास रोड, सामने नेहरू नगर, अहमदाबाद ।
1284.	चन्द्रू लाल शाह सोमा लाल	आयुर्वेद शिक्षक, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली, 1947	2039	नजदीक बाड़ी, पो० आ०, बड़ौदा ।
1285.	चन्द्रू लाल सोनी रनी लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5071 15-12-75	ग्राम नान उभावा, ता० विरामगाम, जिला अहमदाबाद ।
1286.	चन्द्रू लाल उपाध्याय शंकर लाल	एल० ए० एम०, यू० पी० आयु० महा० वि०, पाटन (बड़ौदा राज्य), 1942 ए० बी० बी०, नि० महाराष्ट्र विद्यापीठ, पूना, 1942	5470 22-7-76	मेडीकल आफिसर (आयु०), डी-10, ई० एस० आई० एस०, चमनपुरा, अहमदाबाद ।
1287.	चन्द्रू लाल बाजा गोविन्द भाई	बैद्य विशारद, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली, 1964	7099 10-7-79	प्लॉट नं० 161 ए, बकील सोसाईटी के पीछे, बेर्बासिंग सुख बाड़ी, सरदारनगर, ग्राम भावमगर ।
1288.	चन्द्रू लाल विभाकर बृज लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आफ वि० वि०, 1974	4658 15-3-75	मार्फत के० डी० विभाकर, ग्राम नवगाम, बाया गोमाता, ता० गोदावल, जिला राजकोट ।
1287.	चतुर भाई पटेल जेठा भाई	डी० ए० एस० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई, 1950	528 31-8-50	ग्राम पिपलौड, ता० देवगाथबरिया जिला पंच- महल ।
1290.	चतुर भाई पटेल मंगल भाई	डी० एस० ए० सी०, कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात, 1966	2372 20-1-67	ग्राम और पो० आ० दवोल, ता० धोरमाद, जिला खेड़ा ।

1	2	3	4	5
1291.	बाबुर भाई पटेल अम्बा लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7621 20-3-80	2/1, कामेश्वर अपाट, एम० एस० रोड, अहमदाबाद।
1292.	बाकलता पटेल महेन्द्र कुमार	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8253 24-12-81	24, रवि पार्क सोसाईटी, सामने स्वामी अरब सोसाईटी, नजदीक राणा पार्क, अहमदाबाद।
1293.	बाकलता रावल धनश्याम राय	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3552 18-8-82	कृष्णा निवास, ग्राम ओबा, ता० द्वारका, जिला जामनगर।
1294.	बाकलता रावल महाशंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3553 18-8-72	मार्फत बंधु मनुभाई रावल, 2, राजपुटापुरा रोड, ग्राम जामनगर।
1295.	बाकलता सुभार शारंगी लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4929 8-8-75	मार्फत शान्तीलाल एम० सुभार, एच० फालोनी, 74/2, नजदीक भूता सचिवालय, अहमदाबाद।
1296.	बाबुर सिंह परमार मेला भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1966	2922 9-3-70	ग्राम रामेश्वर, ता० हालोल, जिला पंचमहल।
1297.	बाबर सिंह जाणा भाईजी सिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3096 22-1-71	ग्राम कुवत्रा लोवरा, ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा।
1298.	चेतन जोशी जयशुभ लाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9574 23-9-86	बन्द फाली, सगछाबी, विरिञ्चग नजदीक पंचेश्वर टावर, ग्राम जामनगर।
1299.	चेतन पारिख तनशुभ लाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9660 31-12-86	मार्फत पारिख टी० पी०, 32, अंजनी सोसाईटी, 5, मेहरू नगर, ग्राम राजकोट।
1300.	चेतन पटेल केसर भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8683 3-3-83	847 सी, फर्टिलाईशर नगर, बड़ौदा।
1301.	चेतनाबेन मेहता परिमल कुमार	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	4138 15-12-73	5/बी, हीरा हाउस सोसाईटी, मणिनगर, पूर्वी अहमदाबाद।
1302.	चेतना बेन पांड्या भानु प्रसाद	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5334 3-4-76	15, गणेश सोसाईटी, आर० बी० वेसाई रोड, ग्राम-बड़ौदा।
1305.	चेतनाबेन भयाम अमृत लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	7203 20-8-79	नजदीक बस स्टेशन, जोधपुरगतरा, अहमदाबाद।
1304.	चेतनबाला वेसाई लाल भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1968	3232 26-8-71	मार्फत डी० बी० प्राध्या सेतन फासिया, गोपीपुरा, ग्राम सूरत।
1305.	चेतन कुमार पटेल मिठा लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7204 20-8-79	सी-18, ईश्वर नगर सोसाईटी, बल्लभवाड़ी, मणिनगर, अहमदाबाद।
1306.	चेतन कुमार त्रिवेदी जुवन्त भाई	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9650 31-12-86	ज्योति इलेक्ट्रिक स्टोर, टावर बाजार, ग्राम और ग्राम और ता० आतल, जिला खेड़ा।
1307.	छवील दास वजे मोहन लाल	एल० ए० एम०, यू० पी० आयु० महा वि०, पाठन, (बड़ौदा राज्य), 1941	354 18-10-41	आजाद सोसाईटी, अम्बावाड़ी, इरिलिश ब्रिज, अहमदाबाद।

1	2	3	4	5
1308.	छगन भाई पटेल बृथावन वाम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7787 19-8-80	ग्राम छत्राली, ता० जोतपुर, पाथी, जिला बड़ौदा ।
1309.	छगन भाई सबानिया गोकुल भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4987 17-10-75	ग्राम बोडोवार, ता० धोलाजी, जिला राजकोट ।
1310.	छगन लाल देवमुरारी पोपट लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8910 24-1-84	ग्राम नावा उजावा, बाया ता० कुमकावा, जिला अमरेली ।
1311.	छगन लाल हिम्पाड़ा गरसी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3767 7-2-73	मार्फत पटेल खिलजी बीरजी, बहारपाड़ा, ग्राम मानवदार, जिला जूनागढ़ ।
1312.	छगनप्रताप जेठुर गोकुल वाम	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1987	7499 17-1-80	अभारती फ्लैट सोसाईटी, पीछे कंस सोसाईटी के पीछे लाम्हे हनुमान रोड, सूरत: 6 ।
1313.	छगन लाल जिबानी नेवाजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3439 14-3-72	बहारपाड़ा, प्लाट, ग्राम-पालीतना, जिला भावनगर ।
1314.	छगन लाल खुंट सावणी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6001 7-12-77	ग्राम चावनी, बाया लोधिका, जिला राजकोट ।
1315.	छगन लाल बेया बावनजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	5660 3-2-77	ग्राम जामतिबाड़ी, ता० उपलेदा, जिला राजकोट ।
1316.	छगन लाल मारा कल्याण जी	वैद्य विशारद, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1985	7953 17-1-81	ग्राम भाद, ता० पोरबन्दर, जिला जूनागढ़ ।
1317.	छगन लाल मरवाणिया रत्नछोद	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2804 2-8-69	ग्राम राजवार (बामवार लेन), बासा मोरबी, जिला राजकोट ।
1318.	छगन लाल म्वाणी करमणी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4679 24-3-75	स्ट्रीट प्लाट, राम मण्डिर गली, ग्राम धोराजी, जिला राजकोट ।
1319.	छगन लाल परवार केशव लाल	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1964	6733 12-7-79	ग्राम गालुकाद, ता० पालीताना, जिला भावनगर ।
1320.	छगन लाल पटेल हरीदाम	डी० ए० एस० एफ०, फै० आफ० आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1947	1522 27-10-47	ग्राम भीलपुर, ता० दाभोदा, जिला बड़ौदा ।
1321.	छगनलाल पटेल शिव राम	डी० ए० एस० एफ०, फै० आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1948	534 31-12-48	ग्राम-डाभी, स्ट० उनावा, ता० सिद्धापुद, जिला-नेहसाना ।
1322.	छगनलाल सिकोजिया हरजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	5897 20-9-77	ग्राम गाना, बाया सरदारगढ़, ता० मानवदार, जिला जूनागढ़ ।
1323.	छतरसिंह सोलंकी नाथसिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3102 3-2-71	ग्राम दभौड़ा, ता० और जिला गांधीनगर ।

1	2	3	4.	5
1324	छगनलाल धुम्बेर नरसी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3082 13-1-171	ग्राम बोड़का (बाबना) बाया लुसावा, पो० आ० भानापिपावी, ता० बरभाणी, जिला जूनागढ़।
1325	छानुकलाल कपाड़िया शिव लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० 1967	2610 14-12-67	इन्दरपुरा, जालीबाड़, सुरत।
1326	छतरसिंह हाबा रामसिंह	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5324 2-4-76	ग्राम हिमाला, स्ट्रीट अनाश, ता० दहोद, पंचमहाल।
1327	छाया भावसार चन्द्रकांत	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7584 11-3-80	9, रूपमाथुरी, सोसाईटी, द्वितीय रेलवे क्रासिंग, नारंगपुरा, अहमदाबाद।
1328	छाया चौकसी अनिल कुमार	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9648 31-12-86	लिमडा शेरी, ग्राम बड़डोली-394 601, जिला सुरत।
1329	छामा देसाई जितेश्वर कुमार	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8372 17-3-82	7, नवरूप कालोनी, शास्तीनगर, बादज, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद।
1330	छाया शाह चन्द्रकांत भाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9489 24-3-86	गायासा पोल्, बुमाराब बाजार, ग्राम नावियाड- 387 001, जिला खेड़ा।
1331	छायानेन शाह धनसुखलान	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9065 25-5-84	15, राजलक्ष्मी हाऊसिंहग सोसाईटी, बागमिया बड़ोदा।
1332	छैल शंकर दबे लाभ शंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3447 17-3-72	मार्फत लाभशंकर के० दबे, करणबावबोरी, अरुणार, कच्छ।
1333	छैलशंकर शास्त्री भानुशंकर	डी० ए० एम० एफ० फै० भा० आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1957	1115 2-9-57	मार्फत भानुशंकर पी० शास्त्री, बड़ी फालिया, मेम रोड, ग्राम सुरेश्वरनगर।
1334	छोटालाल चौहान कानाजी	आयुर्वेद भिषक् नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1976	7611 18-3-80	ग्राम बाबरा भयानी, ता० कुकबाव, जिला अमरेली।
1335	छोटालाल जोशी अम्बाराव	आयुर्वेद भिषक् नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1972	7116 16-7-79	नजदीक हंस सेक्टर, ग्राम प्रभासपूरान, ता० वेरावल, जिला जूनागढ़।
1336	छोटालाल सोबकी लाल जी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9077 29-6-84	मार्फत दाराजी आदमाराम रावजीभाई, सरदार, बाराकुवा, ग्राम सरखेज, ता० मिटी, जिला- अहमदाबाद।
1337	छोटालाल ठाकर देवकृष्णा	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8197 12-10-81	ग्राम बायोगरी, बाया कुटियावा, जिला जूनागढ़।
1338	छोटेलालसिंह राजपूत रामराजसिंह	बी० एम० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7981 20-2-81	24, हिम्मतलान पार्क, मणिनगर, अहमदाबाद।
1339	छोटुभाई पटेल रेवा भाई	ए० बी० बी० तिलक महापञ्च विद्यापीठ, पूना 1941	535 3-11-41	रेवनदास बादकी, ग्राम नासरा, जिला खेड़ा।

1	2	3	4	5
1340.	छोट्टाभाई पटेल लख्नु भाई	जी० एफ० ए० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1959	536 1-7-59	ग्राम श्छापुर, बाया भाटा, जिला सुरत ।
1341.	छोट्टाभाई पटेल त्रिभुवनदास	बी० ए० एम० ए० ए० गुजरात वि० वि० 1961	537 17-1-62	ग्राम सेनपुरा, पो० आ० करजान, जिला बड़ौदा ।
1342.	छोट्टाभाई पटेल जीवा भाई	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3730 17-1-73	ग्राम शिहोरा, पो० आ० निरमाकी, ता० कपाड़वेज, जिला खेड़ा ।
1343.	छोट्टाभाई वलान्द फूलचन्द	डी० ए० ए० ए० सी० कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1964	1455 29-6-64	नजदीक पंचायत आफिस, ग्राम अमोद, ता० पेटलाद, जिला खेड़ा ।
1344.	चिमनलाल जालेव खेमणन्दभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4406 12-6-74	ग्राम सुधिया, ता० खेरालु, जिला मेहसना ।
1345.	चिमनभाई वैद्य रामभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6008 10-1-78	ग्राम उमेदगढ़, ता० इंदार, जिला साबरकंठा ।
1346.	चिमनभाई लेखिया बल्लभ भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6397 27-10-78	ग्राम मनीसरा, बाया सोनगढ़, ता० गिनोर, जिला भावनगर ।
1347.	चिमनभाई परमार मोहन भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5751 1-4-77	ग्राम अखडोल, ता० नादियाड, जिला खेड़ा ।
1348.	चिमनभाई परमार फकीरचन्द	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7828 25-9-80	सामने पुस्तकालय ग्राम धिनोज, ता० जनसमा, जिला मेहसना ।
1349.	चिमनभाई परमार छीताभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7331 15-10-79	ग्राम मोतीयापुरा, पो० आ० सोखाड़ा, ता० और जिला बड़ौदा ।
1350.	चिमनभाई पटेल अमी चन्द	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8418 17-4-82	ग्राम सरदारपुर, पो० आ० फालासन, ता० इंदार, जिला साबरकंठा ।
1351.	चिमनभाई शर्मा गान भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5290 23-3-76	ग्राम मोवाज, ता० अहमदाबाद, जिला खेड़ा ।
1352.	चिमनभाई सावळिया साधा भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8852 6-10-83	47/1110, मेघानी नगर, जी० एच० बी० कावोनी, अहमदाबाद-16
1353.	चिमनलाल भीमाजी भाई,	वैद्य विशारद नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1961	7142 24-7-79	ग्राम बडाली, ता० उपलेटा, जिला राजकोट ।
1354.	चिमनलाल भमानी कर्मजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3464 30-3-72	ग्राम जमनपुर, पो० आ० भवानिया, बाया मोराबी, जिला राजकोट ।
1355.	चिमनलाल ब्रह्मभट्ट कुमाई भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	56698 15-2-77	ग्राम मोरोल, ता० बयाव, जिला साबरकंठा ।
1356.	चिमनलाल थापी कुबेरदास	एच० पी० ए० पो० प्रे० ट्रेनिंग सेंटर इन आयु०, जामनगर 1966	2368 27-7-62	14, सैनिक सोसाईटी, ग्राम पोरबन्दर, जिला जूनागढ़ ।

1	2	3	4	5
1357.	चिमनलाल देवे हरद्वजी	आयुर्वेद विशारद भ० सि० वि० वि०, बड़ौदा 1944	1938 7-7-44	ग्राम शंभालपुर, ता० चानसमा, जिला मेहसाणा
1358.	चिमनलाल गौहान विसा भाई	आयु० मध्यमा नि० भा० आयु० वि०, विल्ली 1978	7065 21-6-79	ग्राम अम्पालियासन स्टेशन, ता० और जिला मेहसाणा
1359.	चिमनलाल अयसवाल मोहनलाल	डी० एस० ए० सी० कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1752 5-7-65	वि अयसवाल फ्लोर, राईस मिल, ग्राम बसाई, ता० इबार, जिला साबरकंठा
1360.	चिमनलाल जोशी कुम्हारदास	ए० एम० एम० बनारस हि० वि० वि० 1948	1542 4-11-65	पो० भा० काटामन रोड, ता० विरामगाम, जिला अहमदाबाद
1361.	चिमनलाल पांड्या गोकलदास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3788 15-2-73	ग्राम और पो० आ० पोर, वाया अक्लाज, जिला गांधीनगर
1362.	चिमनलाल पारिख अमृतलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2818 22-8-69	अमोदवाला चौकसी, अम्बर जैन स्टेशन, ग्राम-- पालोज, जिला बड़ौदा ।
1363.	चिमनलाल पारिख न्याल चन्द	बी० ए० एस० एफ० के० भाफ आ० एण्ड यू० सि० भाफ मेडीसिन, बम्बई, 1956	680 1-5-67	मार्फत मोरि वा, पो० आ० मूली, जिला सुरेन्द्रनगर
1364.	चिमनलाल पटेल नानीलाल	डी० एस० ए० सी० कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1963	1368 12-12-63	ग्राम बाधोल, ता० जिला गांधी नगर
1365.	चिमनलाल पटेल हरजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3248 21-9-71	ग्राम सरकच, वाया भोटालिलिया, जिला अमरेली
1366.	चिमनलाल पटेल मोहनलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3180 16-4-71	ग्राम प्रेमपुर, ता० हिममतनगर, जिला साबरकंठा
1367.	चिमनलाल पटेल जेठाभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4069 26-9-73	ग्राम राम, ता० बोरसाव जिला खेडा
1368.	चिमनलाल पटेल मोरार दाम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4043 19-4-74	ग्राम उनावा, ता० सिद्धापुर जिला मेहसाणा
1369.	चिमनलाल पटेल मनी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4504 12-9-74	ग्राम-गौरीयाव, ता० पावरा, जिला-बड़ौदा,
1370.	चिमनलाल पटेल अम्बा लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	8271 31-12-81	ग्राम और पो० आ० गम्भू, ता० चाप्समा, जिला मेहसाणा
1371.	चिमनलाल प्रजापति पुरुषोत्तमदास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8048 27-4-81	ग्राम और पो० आ० मोदासर, वाया बावला, ता० और जिला अहमदाबाद
1372.	चिमनलाल पुरोहित नारन जी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6296 20-9-78	मार्फत पुरोहित नारनजी के० आचार्य शिशु भारती, स्कूल, ब्राह्मण गौरी, ग्राम उना, जिला जुनागढ़
1373.	चिमनलाल राज्य गुरु विश्वनाथ	आयुर्वेद मिथक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1963	8229 24-11-81	आयु० डिस्पेंसरी, ग्राम निकवा, ता० कालावाद जिला जामनगर ।

1	2	3	4	5
1374.	चिमनलाल साबलिया प्रमथू प्रसाद	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4231 27-2-74	गोपाबाड़ी, खेदपाड़ा, ग्राम जतपुर
1375.	चिमनलाल सोजिला ठाकरश्री	वैद्य विहारद नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1960	8814 29-7-83	लुहार शैरी, ग्राम डामनगर, ता० नाठी, जिला अमरेली
1376.	चिमनलाल बबेराव नरसिंह भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4497 9-9-74	मार्फत एन० के० वघेला, सामने जैन ट्रेडर, गांधी रोड, ग्राम जाम भनवाड़, जिला जामनगर
1377.	चिमनलाल ग्राम गिरधर लाल	आयुर्वेद चिकित्सक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1961	8859 1-11-83	गिरिचिहार, ग्राम जूनागढ़ ।
1378.	चिन्नु भाई मोघ गोरखन भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7030 16-6-79	ग्राम लाखाबाद, ता० जिला मेहसाणा
1379.	चिन्नु भाई पटेल दशरथ भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	3383 10-5-76	ग्राम चम्पीमार, ता० धोलाका, जिला अहमदाबाद
1380.	चिन्नुभाई पटेल सोमा भाई	श्री० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8648 10-2-83	ग्राम और पो० आ० हिलोल, ता० दाहेगाम जिला साबर कंठा
1381.	चिन्ना ठाकर उमिया शंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8790 16-6-83	सैयादबाड़ा, लिमाडा चौक, ग्राम जूनागढ़
1382.	चितरंजन बागोट खाम्बरसू	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7865 16-10-80	सुलतानपुरा, गोलवाड़ा, ग्राम बड़ौदा
1383.	चितरंजन ग्राम कपिल राम	डी० ए० एस्० एफ० पी० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1954	1085 1-10-54	बारडोली अस्पताल, ग्राम फालिया, ग्राम बार- डोली, जिला—सूरत
1384.	चोटन दाम मंधानी बासु मल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4631 1-3-75	ग्राम बन्धाभी, जिला जूनागढ़
1385.	चुनी लाल बहादुर दत्त	आयुर्वेद अलंकार आयु० का० गुरुकुल वि० वि० कांगड़ी, हरिद्वार 1939	795 27-5-40	आर्या औषधालय, ग्राम सवासी, जिला बड़ौदा
1386.	चुनीलाल पटेल नारस भाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० 1961	531 5-12-61	चौकसी बाजार, ग्राम मेहसाना
1387.	चुनील पटेल गोरखन ग्राम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3457 29-3-72	ग्राम मोती मराड़ा, ता० भोरजी, जिला राजकोट
1388.	चुनी लाल राज्यगुप्त विष्णु राम	वैद्य विहारद नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1968	7304 20-9-79	ग्राम मोटा हासराणा, ता० माहवा, जिला भावनगर
1389.	चुनीलाल रायचारा जमनादास	बी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० 1965	1759 5-7-65	रघुनाथ भुवन, ग्राम कोटियान, जिला जूनागढ़

1	2	3	4	5
1390.	सुनी लाल त्रिवेदी छोटालाल	आयुर्वेद विषयक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1964	7415 29-11-79	ग्राम देवगाना, ता० सिहीर, जिला भावनगर
1391.	सुनीलाल भ्याम रुद्रथा शंकर	आयुर्वेद विशारद भ० सि० वि० वि०, बड़ौदा 1946	2651 18-9-46	ग्राम टनखाला, ता० नसवाड़ी, जिला बड़ौदा
1392.	दहीबेन पटेल शरकेर लाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2783 4-8-69	एन० गुज० पटेल सोसाईटी, विभाग-1, क्लक नं० 10, असारवा, अहमदाबाद
1393.	घहिया बगन भगवान जो	डी० ए० ए० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० मि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1955	803 1-2-56	स्टेशन रोड, ग्राम बिलीमोरा, जिला-वलसाड
1394.	दहियाभाई भट्ट भीखा भाई	आयुर्वेद विशारद भ० सि० वि० वि० 1944	20000 2-3-44	ग्राम सोळडा, स्ट्रीट पिलोल, ता० और जिला बड़ौदा
1395.	दहियाभाई देमाई प्राण भाई	डी० ए० एम० यू० पी० आयु० महाविद्यालय, पाटन 1935	2645 1-10-53	नजबोक जैन मन्दिर पटेल फालिया, ग्राम-काटर- ग्राम, ता० चोरवाणी, जिला-सूरत
1396.	दहियाभाई गुण्टादारिया नरथू भाई	डी० ए० ए० एफ० फै० आ० एण्ड यू० मि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1946	158 4-7-52	ग्राम शिपान, बाया स्याम, जिला-सूरत
1397.	दहियाभाई पटेल नागजीभाई	डी० ए० ए० सी० कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोस, गुजरात 1961	553 17-1-62	ग्राम मियासारापोत, ता० आमोब, जिला-बरोच
1398.	दहियाभाई पटेल नरोत्तम भाई	जी० एफ० ए० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, गुजरात 1963	552 12-9-63	आगा वाड़, सैय्यपुरा, पुलिस चौकी, सूरत
1399.	दहियाभाई पटेल भगवानदास	डी० ए० ए० सी० कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोस, गुजरात 1965	1658 15-5-65	ग्राम हुसनपुर, पो० आ० आगाबोव, ता० बीजापुर, जिला-मेहसाना
1400.	दहियाभाई पटेल हरमोविन्द दास	एम० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5019 28-10-75	ग्राम माधो, ता० बीजापुर, जिला-मेहसाना
1401.	दहियाभाई पटेल अम्बालाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5210 26-2-76	होली चौरुला, ग्राम सप्रेर, ता० पाटन, जिला- मेहसाना
1402.	दहियाभाई पाठक किशोर लाल	आयुर्वेद विशारद म० सि० वि० वि० 1947	3250 30-8-47	सुलतानपुरा, देसाई पोस, ग्राम बड़ौदा
1403.	दहियाभाई प्राहृपति सोमा भाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9305 6-6-85	ग्राम रसूलपुर, पो० आ० सलाल, ता० प्राणतीजी, जिला-बानसकंठा
1404.	दहियाभाई बंध कालीदास	डी० ए० ए० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1955	1813 29-9-65	बैस माध, बीजापुर, जिला-मेहसाना
1405.	दहियालाल जगानी दोसा भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4269 18-3-74	मार्फत दोसपुष्पा जागानी, मजदीक राम मन्दिर स्टे० प्लाट, ग्राम धीराजी, जिला राजकोट

1	2	3	4	5
1406.	दहियालाल जोशी जेठालाल	बी० ए० बी० लो०। तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुना 1944	235 31-3-44	ग्रामलवाट शेरी, ग्राम बीजापुर, जिला—मेहसाणा
1407.	दहियालाल जोशी छोटालाल	बैद्य विशारद नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1962	7119 16-7-79	ग्राम वाघस्टा (पुराना) बाया कुशाब, जिला— अमरेली
1408.	दहियालाल लिम्बासिया सावजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6151 4-5-78	गोदारपाड़ा स्टेशन रोड़, ग्राम चित्तल, जिला— अमरेली
1409.	दहियालाल पटेल लारसनभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3325 31-1-72	ग्राम दभानिया पो० आ० धारवा, ता० उमरला जिला—भावनगर
1410.	दहियालाल रावल सीलाधर	बी० ए० एम० एफ० फै० अफ भा० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1952	4956 3-11-75	ग्रामतूकुटीर, ग्राम वाड़ागाम, ता० मोबासा, जिला साबरमती
1411.	दहियालाल रावल मंगललाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5717 4-3-77	ग्राम—भासुसणा, ता०—खेराजू, जिला—मेहसाणा
1412.	दलाजी भाई देसाई पाटू भाई	बी० ए० एम० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9122 23-8-84	पाणियोबास, देसाई वासी, ग्राम—और पो० आ० ता०—खेराजू, जिला—मेहसाणा
1413.	दलपटाई पटेल हरगोविन्द भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4885 24-3-75	445/10, जीवराम मुख चाली, सामने उषा टोकल, ग्रामतीपुर, अहमदाबाद
1414.	दलसीख राय धने रेबा शंकर	बैद्य विशारद नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1964	7449 21-12-79	धने निवास, बागेश्वर रोदी, ग्राम—धगसरा भयानी
1415.	दलपत भाई बासनी रावजी भाई	आयुर्वेद विशारद बोर्ड आफ इण्डियन मेडीसिन, सौराष्ट्र 1960	2313 12-4-60	ई० एस० टो०, डिस्पेंसरी, बी-42, पालवी, अहमदाबाद-7
1416.	दलपत राय उवाध्याय लाम शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	8228 1-3-76	ग्राम—खाम्भा, जिला अमरेली
1417.	दलपत सिंह चावड़ा नाथू सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3117 11-2-71	ग्राम—मानिकपुर, ता० बीजरपुरा जिला मेहसाणा
1418.	दलसुख भाई पटेल ठाकरशी दास	बैद्य विशारद नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1971	7115 16-7-79	दल भापू बंगला, शिवशक्ति, नाडीकंठा, ग्राम जोरबरनगर, जिला सुरेन्द्रनगर
1419.	दलसुखलाल मुखानन्दी जामन शम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3499 4-5-72	ग्राम खीरसारा (बेब) बाया केशोब, जिला जुनागढ़
1420.	दमजी घोक्रिया गोकुल भाई	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० वि० वि०, दिल्ली 1961	8948 17-2-84	शेरी नं० 4, बाहूर पाड़ा, ग्राम मानवदार, जिला जुनागढ़
1421.	दमजी भाई गांधेयारिया कादवा भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	6285 20-9-78	ग्राम और पो० आ० सानरा बाया कावाबाड़, ता० कलाबाड़, जिला जामनगर

1	2	3	4	5
1422.	बमजीभाई कुकेविया पुरुषोत्तमभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1975	5755 7-4-77	ए/1, प्राकृतविषय को० आ० हाउ० सोसाईटी, वरछा रोड, सूरत।
1423.	बमजी भाई पटेल बाबू भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5222 27-2-76	ग्राम-रामपुर, ता० भेमत, जिला-जूनागढ़।
1424.	बमयन्ती कावीबर रमेश चन्द्र	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7710 17-5-80	मार्फत भगवानजी हरीभाई कावीबर, सुभाष रोड, ग्राम आम जोधापुर, जिला-जामनगर।
1425.	बमयन्ती मन्धालिया बालाजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5791 30-4-77	नजदीक स्वामीनारायण मन्दिर, हेठान फालिमा, सुरेन्द्रभाई टीकानी का घर, ग्राम जूनागढ़।
1426.	बमयन्ती बैद्य अमृत राव	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3879 20-3-75	7, गवर्ने० भवन, भाद्रा, अहमदाबाद।
1427.	बामीदरवास लिवेदी लाल शंकर	बैद्य विशारद नि० भा० आयु० वि० वि०, दिल्ली 1984	7442 31-12-79	रूम नं० 374/5, बी० नं० 16, आमवनगर, ग्राम-भावनगर।
1428.	दामजी रांगा जेराम भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4321 8-4-74	ग्राम-मार्धावा, बाया कालावाड, (शिताला) जिला-जामनगर।
1429.	दामजी भाई वधानी पुरुषोत्तम भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4834 8-5-75	सेय्ब पाड़ा, राजाबाड़ी, धुकी शेरी, ग्राम सूरत।
1430.	दामोदर नाई लालजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4998 17-10-75	ग्राम-रामपुर (भांकोटा) ता० घीरामगाम, जिला-अहमदाबाद।
1431.	दामोदर पाण्डे मधुरादत्त	एच० पी० ए० पो० ग्रे० ट्रेनिंग सेन्टर इन आयु०, जामनगर 1961	8750 19-4-83	ए-4, आयु० कालोनी, जामनगर-361008।
1432.	दामोदर पंडित गौरधनप्रसाद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5469 22-7-76	129, कम्प सरदार बाजार, अहमदाबाद।
1433.	दानी धारिया शंकरदास कृष्ण दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8588 3-11-82	ग्राम-बीजापुर, बाया और जिला-जूनागढ़।
1434.	दार्शक भट्ट जसवंत लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9348 21-8-85	ए० एम० 172/9, रंछोष निवास, कोचराव, शुभिमन्त्रिज, अहमदाबाद-6।
1435.	दर्शना राज्यगुरु रसिक लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9304 6-6-85	23/बी०, इस्टनगर सोसाईटी, नव तारदा मन्दिर, अहमदाबाद-7।
1436.	दर्शन शाह मीहन लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8286 31-12-81	वल्लभ निवास, पालावी, अहमदाबाद।
1437.	दर्शन सोनी वासुदेव भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7656 28-3-80	वनप्रियामनगर नीलकण्ठ वरणी सोसाईटी, अड्डू 10, सुभाष त्रिज नाका, अहमदाबाद।
1438.	दर्शन व्यास मनहर लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3597 15-9-72	भालेशु, प्राग सोसाईटी, पालावी, अहमदाबाद।

1	2	3	4	5
1439.	दशरथ पटेल शंकर लाल	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7750 30-6-80	10/1, उत्तर गूल पटेल मोसाईटी, अमारवा, अहमदाबाद ।
1440.	दशरथ भाई पारिक बीसा भाई	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7880 14-11-80	6, उमियागर सोसाईटी, चमनपुरा, अहमदाबाद ।
1441.	दशरथ भाई पटेल मणि लाल	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3554 21-8-72	124, सर्वोदयनगर, बाहुर शाहपुर गेट, अहमदाबाद ।
1442.	दशरथ भाई पटेल केशवलाल	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4723 1-4-75	ग्राम-छतराल, ता०-कालोल, जिला-मेहसाणा ।
1443.	दशरथ भाई पटेल पुरुषोत्तम दाम	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8720 19-4-83	ग्राम-और पो० आ०-दाभो, ता०-पेटलाद, जिला खेड़ा ।
1444.	दशरथ भाई पटेल नारन भाई	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8731 19-4-83	1401, मुमानबाव, सारसपुर, नाबनीबासनबोरी, अहमदाबाद ।
1445.	दशरथ लाल अग्रवाल जेठी राम	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3727 10-1-73	ग्राम माधवपुर (पेट्टु) ता० पोरबन्दर जिला जूनगढ़ ।
1446.	दशरथ लाल गौर निरयानन्द	ए० बी० बी० तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पूना 1943	3069 3-11-41	ग्राम-दवाव, जिला साबरकंधा ।
1447.	दशरथलाल पांड्या सोमेश्वर	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1973	6632 21-2-79	ग्राम-ब्राह्मणवाड़ा, ता०-सिडापुर, जिला-मेहसाणा ।
1448.	दशरथ भाई पटेल खेमा भाई	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9373 2-9-85	ग्राम-और पो० आ०-टेटोडा, ता०-विसा, जिला बी० के० ।
1449.	दशरथलाल पटेल मगन लाल	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3215 3-8-71	ग्राम-सोरवाड़, ता०-बीजापुर, जिला-मेहसाणा ।
1450.	दशरथ लाल शाह मानिक लाल	जी० एफ० ए० ए० ए० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1960	1160 2-1-60	ग्राम-चेतरमुम्बा, ता०-धासरा, जिला-खेड़ा ।
1451.	दशरथलाल शाह पूतम चम्ब	जी० एफ० ए० ए० ए० फै० आफ आ० एण्ड सि० आफ मेडीसिन, गुजरात 1968	2694 30-7-68	ग्राम-जामबुडी, बाया आमना, ता०-हिम्मतनगर, जिला-साबरकंधा ।
1452.	दशरथ लाल शाह हीरा लाल	बी० ए० ए० ए० ए० पूना वि० वि० 1966	2783 4-6-69	कृष्णा कलिनिक, बावाजी पोत, ग्राम-अहमदाबाद जिला-खेड़ा ।
1453.	दशरथसिंह गौहिल केयु भा	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9183 11-12-84	ग्राम-खेड़ा, बाया लिम्बासी ता०-खाम्बाहट, जिला-खेड़ा ।
1454.	दशरथ सिंह बनेले रत्न सिंह	बी० ए० ए० ए० ए० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1953	1008 15-7-53	ग्राम-चालामाली, बाया केसिनडा, ता०-जबूराम, जिला-बड़ोदा ।

1	2	3	4	5
1455.	वत्सराज काला दामोदर	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	4342 18-4-74	भाजार्थ वाली, नवा बाजार, ज्ञान बड़ीवा-3 ।
1456.	दत्ता त्रेया बवे देवी प्रसाद	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8978 12-3-84	राधाकृष्णा पोल, ग्राम और पो० आ० सरभान, ता० आमोद, जिला-बरोच 392035 ।
1457.	दत्ता तराव गिरि तरामबाक	बी० आई० एम० एम० बी० ई० मेडीसिन, लखनऊ 1951	5516 13-9-76	बी-2, कलास 1 आफिसरस प्लैट, एल० बी० इंजी० कालेज, कैम्प नयारंगपुरा, अहमदाबाद ।
1458.	दत्ताराम बीर कन्नड पुरी	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6009 11-1-78	ग्राम निवोन, ता० पालमाला, जिला-सूरत ।
1459.	दत्तात्रय ओसी श्रीधर	एल० ए० एम० यू० पी० आयु० महाविद्यालय, पाटन 1938	233 27-5-40	ग्राम सोयाद, ता० प्राणतीज, जिला साबरकण्डा ।
1460.	देवेन्द्र कुमार काजे गोमदा लाल	बी० ए० एम० एम० इन्जीर वि० वि० 1974	6418 18-11-78	प्रभात क्लिनिक, ग्राम कलराबाहा, जिला प० निमार ।
1461.	दास जी लोधी रत्नबाजी	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2883 22-1-70	मार्फत रोमों फौजदी केदारल, पो० आ० कामबर (गिर) ग्राम माधवपुर, ता० तलाला, जिला जुनागढ़ ।
1462.	दास रंजन भट्ट केसव राव	बी० एल० ए० सी० कलेजी आरु गुजरात आयु० कोर्स, गुजरात 1959	630 21-1-63	ग्राम-सोराबला, ता० सावखेड़ा, जिला-बड़ौदा ।
1463.	दास भट्ट मणिल कुमार	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3824 27-2-73	7, गुज० सिद्धानार्थ सोसाईटी, नजदीक पुराना मन्दिबालय इन्डियनमिडिल, अहमदाबाद ।
1464.	दास भिलागिभा चन्द्र कांत	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5701 24-2-77	जैन पब्लिक डिस्पेंसरी, लोधीपुरा मेन रोड, सूरत ।
1465.	दास धार्वेण जेठा लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	6591 7-10-86	8, सिविल अस्पताल, डाक्टर्स क्वार्टर्स, ग्राम-मेहसाना ।
1466.	दास मेहता मणि लाल	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5440 25-6-76	ग्राम खराणा, ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा ।
1467.	दास निरंजी गोरक्षम दास	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8178 22-9-81	परवेसी फालिया, मदन बाग्या रोड, ग्राम- बड़ौदा-2 ।
1468.	दास मोदी जुमी लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9537 28-7-86	25-बी, कश्मी सोसाईटी, ग्राम और ता० हिम्मतनगर, जिला बी० के० ।
1469.	दास पांड्या भायु मसाव	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3892 27-3-73	मनेश सोसाईटी, ब्लॉक नं० 15, जैन विद्यालय, खण्डेराव रोड, ग्राम बड़ौदा ।
1470.	दास पटेल नरान भाई	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5653 18-1-77	मार्फत पटेल कीर्ति कुमार, 13, म० नं० 2272, भाण्डेरी पोल, कालुपुर, अहमदाबाद ।
1471.	दास पटेल अशोक कुमार	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8700 16-3-83	मार्फत पटेल, ए० बी० सरदार पटेल काकोनी, 1, विखोदरवाला बंगलो अमूल बेरी रोड, अनाद जिला खेड़ा ।

1	2	3	4	5
1472.	वसु पराधीन राजकी कान्त	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8121 17-7-81	12, उत्तर गुज० पटेल सोसाईटी, विभाग-2 नगिया, सिमाही, अहमदाबाद
1473.	वसु परमार अमित कुमार	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4452 26-8-74	1976, पुष्पाकरण पोल, बाल हनुमान, बाविया, अहमदाबाद
1474.	वसु रामनत दिलीप	बी० ए० एम० एम० पूना वि० वि० 1973	6152 4-5-78	19. जयगुज सोसाईटी, शाहीबाग, अहमदाबाद
1475.	वसु राणा प्रवीण कुमार	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9192 1-10-84	17, कृष्णा नगर सोसाईटी, पीछे तालुका पंचायत ग्राम-बरोच
1476.	वसु सेठ नटवर लाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5724 15-3-77	6, प्रतिभा नगर सोसाईटी, मणिनगर, अहमदा- बाद
1477.	वसु त्रिवेदी लाल शंकर	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5921 17-10-77	101, गुरुनाथनगर सोसाईटी, वारछ रोड, धोली कुई ककातमाका, सूरत-6
1478.	वसु उमारागिया महेश कुमार	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	9057 25-5-84	तिरुपति नगर, स्ट्रीट नं० 2, पीछे बबानी कालोनी, सामने हनुमान माधी, ग्राम राजकोट
1479.	वसु उपाध्याय परमेश चन्द्र	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8759 11-5-83	हाऊस नं० 81, टी० ए० रेलवे क्वार्टर्स, ग्राम- उद्याना स्ट्रीट, जिला बलसाब
1480.	वसुबेन देसाई रामचन्द्र भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3946 17-5-73	5, जामख को० माप० हाऊस सोसाईटी कान्टेन्ट बाड़ा, बाविया बाजार, ग्राम बड़ीवा
1481.	वसुबेन पटेल दिलीप कुमार	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7643 20-3-80	57, पटेल सोसाईटी, ग्राम-बरोच
1482.	वसुबेन पटेल पुरुषोत्तम भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8270 31-12-81	नाथाभाई चावकी, ग्राम और पो० जा० ककरोली, ता० नावियाब, जिला खेड़ा
1483.	वसुबेन पटेल ईश्वर लाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8579 21-10-82	मेन रोड, ग्राम और ता० पालसमा, ग्राम पालठान, जिला-सूरत
1484.	वसुबेन सुभार मूल शंकर	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3328 2-2-72	तिपा सोसाईटी, बाविया, हिम्मतनगर, जिला- साबरकण्ठा
1485.	वसुबेन उपाध्याय बुद्धी प्रसाद	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4953 30-9-75	कबीर मण्डिर, ग्राम बड़ीवा
1486.	वसुबेन देसाई महेश कुमार	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5415 4-8-76	सामने कोठी कावेरु रावपारा, बड़ीवा
1487.	वसुबेन पटेल कानुजी	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5165 13-2-76	सेक्टर नं० 28, ब्लॉक नं० 34/1, चा टाइट गांधी नगर
1488.	वसुबेन जैन परार चन्द्र	ए० एम० बी० एस्० बी० आर्क ई० मेरीसिन, लखनऊ 1980	3027 12-8-70	मुरलीधर कला० हाउस सोसाईटी, अहमदाबाद

1	2	3	4	5
1489.	दयालजी धन्धारराजा गोकुल दास	आयु० मध्यमा श्रावणमास वसिष्ठा परीक्षा, समिति, बक्रीवा 1973	7129 18-7-79	ग्राम-मेघापुर, बाया लाटीपुर, ता० जोधिका, जिला-जामनगर
1490.	दयालजी वसिया कांजी	डी० ए० एस० एफ० कै० आफ आ० एच यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1956	381 1-8-56	ग्राम-पानेली मोती, जिला राजकोट
1491.	दयाल जी पांड्या भानजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4551 5-10-74	ग्राम-पिपारला, पो० आ० बवाड़ा बाया अपाव, जिला-भावनगर
1492.	दयालजी परमार माखजी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2770 17-4-69	बाजार सैम, ग्राम-दैंकर्स, ता० नीरजी, जिला- राजकोट
1493.	दयालजी संभेला नरसिंह	आयुर्वेद विषय नि० आ० भा० वि०, दिल्ली 1957	7500 17-1-80	ग्राम-धानापिकानी, बाया जुनाला, जिला- जुनागढ़
1494.	दयाराम बम्भाणिया सनाजी भाई	आयुर्वेद विषय नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1974	7446 21-12-79	ग्राम-कोटाड़ा, ता० जुटियाणा, जिला-जुनागढ़
1495.	दसा भाई श्रीहाम गोरा भाई	आयुर्वेद उत्तमा श्रा० मास वसिष्ठा परीक्षा समिति, बक्रीवा 1973	6575 16-2-79	9, अमृतनगर, हाऊस० सोसाइटी, नं० 2, बहुरामपुर, अहमदाबाद
1496.	दीक्षतराय देसाई नगर जा }	एल० ए० एम० यू० पी० आयु० महावि०, पाटन 1939	412 26-10-40	मोती पोल, ग्राम एयर, बाया नवसारी, जिला बलसाव
1497.	दमयन्ती बेम चौहान पुरुषोत्तम भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4041 10-9-73	ग्राम विनोद, ता० मगरोल, जिला-सुरत
1498.	दामोदर शाहाने नीलधर	डी० एल० ए० सी० कमेटी आफ मुद्र आयु० कोर्स, गुजरात 1963	1113 10-6-63	जे-6, पीछे मेडीकल होस्टल, म्यू सिविस अस्पताल, कम्पाउण्ड, अहमदाबाद-16
1499.	दाभा चावड़ा लेखा	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6193 15-7-78	16, सुबारियर, पो० आ० बेवाला, बाया कापुर, ता० बम्धानी, जिला-जुनागढ़
1500.	डोरी लाल बीक्षित	एच० पी० ए० पो० ग्रे० ट्रे० सेंटर इन आयु०, जामनगर 1966	3120 16-2-71	आर० एम० ओ० गवर्न० आयु० अस्पताल ग्राम तलाजा, जिला-भावनगर
1501.	दसालभाई बाजी कैराभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3068 13-11-70	ग्राम सगासर, पो० आ० ओटाखिया, ता० घाम्भुका, जिला-अहमदाबाद
1502.	दशरथ भाई पटेल बेचरवाल	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8341 27-2-82	कोट० पीछे मन्दिर, ग्राम जुबान, ता० कावी, जिला-मेहसाना
1503.	देवजी देतरीजा मूलजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7873 14-11-80	ग्राम ताना रामपार, पो० आ० तामितपद, बाया और ता० मोरावी, जिला-राजकोट
1504.	देवजी करिया तुल्सी दास	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	5297 29-3-76	12, विद्या मेश्वर कोलोडू, भुज कच्छ
1505.	देवजी भाई कुम्हार दादा भाई	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	6405 18-11-78	ग्राम और ता० मेडई वारा, जामना, जिला जुनागढ़

1	2	3	4	5
1506.	देवजी भाई रोहित मावजी भाई	आयु. भिषक नि. भा. आयु. वि., दिल्ली 1974	8905 10-4-70	ग्राम रोहितवास, ता. और जिला बुधईवा
1507.	देवराज सिंह सोलंकी जयमल सिंह	बी. ए. एम. एस. गुजरात आयु. वि. वि. 1985	9616 21-11-86	17/101, गुज. हाउस नो. 1, नजदीक कपाली टाकीव रनवेर रोड, मूरत
1508.	देवजी भाई सवालिया प्राणजी भाई	बी. एस. ए. एम. गुजरात आयु. वि. वि. 1974	5799 30-4-77	सैयदपुरा, भोबी सेरी, ग्राम सूरत-3
1509.	दशरथ जाली नाथ लंकर	बी. एस. ए. एम. गुजरात आयु. वि. वि. 1980	8332 17-2-82	प्लाट, जाम बन्धाली, ता. और जिला जामनगर
1510.	देबागिनी छाया प्रद्युम्न राम	बी. एस. ए. एम. गुजरात आयु. वि. वि. 1973	4472 30-8-74	नगरवाड़ा, ग्राम जामभालिया, जिला-जामनगर
1511.	देवांग दवे शिव प्रसाद	बी. ए. एम. एस. गुजरात आयु. वि. वि. 1983	9429 2-12-85	19, पी. एंड टी. सोसाइटी, मणिनगर पूर्वी, अहमदाबाद-8
1512.	देवसो भाई पटेल पुंज भाई	एम. ए. एस. एफ. प. नं. आयु. परिषद्, कलकत्ता 1975]	9448 23-12-85	ग्राम कनेहपुर, ता. प्राणित्त, जिला एम. के.
1513.	देवराज भाई पटेल जिबराजी भाई	बी. ए. एम. एस. गुजरात आयु. वि. वि. 1985	9525 1-7-86	ग्राम मेखाल कापे, पो. आ. मेखाल, ता. खेदनाहम, जिला-एम. के.
1514.	देवीयाबेन पटेल हरीकांत भाई	बी. ए. एम. एस. गुजरात आयु. वि. वि. 1984	9390 23-9-85	जमना अर्द्धमंड, नजदीक रेलवे स्टेशन, ग्राम पावरा, जि. न. बुधईवा
1515.	देवाजी पाटोलिया भानाजी	बी. एस. ए. एम. गुजरात आयु. वि. वि. 1972	4025 30-8-73	ग्राम सिमानी, बाया नुवाला, ता. मेखरदा, जिला जनागढ़
1516.	देवाजी भाई सोलपारा नामजी भाई	बी. एस. ए. एम. गुजरात आयु. वि. वि. 1975]	5739 25-3-77	ग्राम सन्तनापुर, ता. बन्धाली, जिला जनागढ़
1517.	देवाजीभाई पवशाला पोपट भाई]	बी. एस. ए. एम. गुजरात आयु. वि. वि. 1978	8623 13-1-83	ग्राम पनलीडा, बाया बाबरा, जिला अमरेली
1518.	देवयानी अट्ट जस भाई]	बी. एस. ए. सी. कमेटी आफ युव आयु. कोर्स, गुजरात 1965	1683 28-5-85	नारायण निवास, दशान भसि कन्वो, राजमहल रोड, बुधईवा
1519.	देवयत राम] सरमम]	वैद्य विज्ञान नि. भा. आयु. वि., दिल्ली 1979	6960 4-5-79	ग्राम मागीचना, ता. मंगरोल, जिला जनागढ़
1520.	देवचन्द पटेल मावजी भाई	बी. एस. ए. एम. गुजरात आयु. वि. 1979	7996 25-2-81	मार्कट एल. डी. पाटारिया, 2/2808, सगरामपुरा, ग्राम सूरत-2
1521.	देवचत दवे] शिव कुमार]	बी. एस. ए. एम. गुजरात आयु. वि. वि. 1975	5716 4-3-77	1307, मिठ्ठावाली, श्री खरवाला मार्ग, इल्लिश त्रिज, अहमदाबाद
1522.	देववत पिपारिया जिना भाई	बी. एस. ए. एम. गुजरात आयु. वि. वि. 1970	3088 13-1-71	ग्राम खोदापिपार, बाया और ता. पन्नावरी जिला-राजकोट

1	2	3	4	5
1523.	देवेन्द्र रावल जयश्री लाल	आयुर्वेद मध्यमा श्रावणमास वजिणा परीक्षा समिति, बड़ोवा 1978	6543 12-2-79	75, नन्दवान सोसाइटी, बह्मण सेक्टर, साहपुर, अहमदाबाद
1524.	देवेन्द्र भाचार्य विठ्ठल दास	बी० ए० ए० सी० कमेटी आफ गुड आयु० कोर्स, गुजरात 1964	1440 11-6-84	म० न० 1038, बनारसपुर, ठोकरता पोला, अहमदाबाद
1525.	देवेन्द्र पांड्या मणि लाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4708 29-3-75	सामने मोधानजन महाराज, बारोड रोड, ग्राम भावनगर
1526.	देवेन्द्र रावल मटवर लाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3839 2-3-73	ई-8, गवर्न० आकिसस कालोनी, पीछे मया पागल का अस्पताल, अहमदाबाद
1527.	देवेन्द्र व्यास बादी लाल	बी० ए० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9438 23-12-85	29 ए, बालदेवी आनन्द नगर, ग्राम -394601 जिला सुरत
1528.	देवेन्द्रबामा मारीचामिया ब्रम्हकलास	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4856 15-3-75	महालक्ष्मीया, ग्राम बधावन सिटी, जिला सुरेन्द्र नगर
1529.	देवेन्द्र कुमार धने हरशद राय	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7335 15-10-79	मार्फत एन० के० दवे से इंडियन ओपिकर ग्राम पिठायिया, ता० जैनपुर, जिला राजकोट
1530.	देवेन्द्र कुमार विवाकर मुंशी राम	आयुर्वेद मध्यमा श्रावणमास वजिणा परीक्षा, समिति, बड़ोवा 1973	8497 1-2-79	100, अपीक नगर सोसाइटी, नया मस्टल रोड, अहमदाबाद
1531.	देवेन्द्र कुमार जोशी विद्याराम	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5885 20-9-77	वाववा, जिजाववाली गेरी, ब्राह्मणवाला, कडानवा, ग्राम-भावनगर
1532.	देवेन्द्र कुमार मालविया कनिया लाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3752 6-2-73	1055, जीवनपोल, पंचवट्टी, कालुपुर, अहमदाबाद
1533.	देवेन्द्र कुमार मेहता धामु प्रसाद	बी० ए० ए० ए० सी० कमेटी आफ गुड आयु० कोर्स, गुजरात 1963	1360 22-11-63	ग्राम भाद्रवा, ग्राम सावली, जिला-बड़ोवा
1534.	देवेन्द्र कुमार पांड्या नवनीत राम	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4460 27-8-74	ग्राम बोलाव, पो० आ० अनीता बाया किम, जिला-सुरत
1535.	देवेन्द्र कुमार पटेल चतुर भाई	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6002 27-12-77	ग्राम मुकास, ता० सीनोर, जिला-बड़ोवा
1536.	देवेन्द्र कुमार पाठक बापू लाल	अथ विचारक मि० आ० आयु० वि० वि० 1972	7077 30-6-79	धामीवरजी, फाविया, ग्राम खोस्ताड, जिला जुनागढ़
1537.	देवेन्द्र कुमार साहू गुनैया लाल	बी० ए० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7889 14-11-80	पीछे [न्यू धर्मशाला, स्टेशन रोड, ब्रम्ह कालोक जिला-मेहसाणा
1538.	देवेन्द्र भाई पंजा बाबू लाल	बी० ए० ए० ए० सी० कमेटी आफ गुड आयु० कोर्स, गुजरात 1963	736 7-8-63	ग्राम कुमैसा, ता० वाधोई, जिला-बड़ोवा
1539.	देवेन्द्र कुमार मुन्शी हरी भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3107 5-2-71	मार्फत मुक्ता हरीभाई, अथवा अकर, चवैरकर श्रीक शाला मेहता गेरी, ग्राम कडालक सिटी, जिला सुरेन्द्र नगर

1	2	3	4	5
1540.	देवेश्वर प्रसाध मट्ट नर्मदा शंकर	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ भा० एफ० यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1948	831 29-8-46	ऊजी नेरी, ग्राम आममट, जिला खेड़ा
1541.	देवेश्वर प्रसाध भट्ट छगन लाल	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4350 23-4-74	ग्राम अम्बोक, ता० दाधीई, जिला बड़ोदा
1542.	देविशर्मा रमेशचन्द्र	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7734 6-8-80	अग्रमणि रोड, अश्रम रोड, ग्राम नादियाड़, जिला खेड़ा
1543.	देवीदास सिधाम मकनदास	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5861 30-8-77	बड़ेबर-2, ग्राम-जावनगर
1544.	देवीका देसाई जयन्ती लाल	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3708 1-1-73	पुराना तोपखाना, कप्तान फाविया, राणपुरा, ग्राम-बड़ोदा
1545.	दशरथजीव शाह रमन लाल	आयुर्वेद मध्यमा श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ोदा 1978	8582 20-10-82	सूरजबा गबर्न० आयु० अस्पताल ग्राम० और पो० भा० अम्बोलाज, ता० आनन्व, जिला खेड़ा
1546.	देवी प्रसाध ओजा हर गोविन्द दास	आयुर्वेद विशारद डोई आफ इण्डियन मेडीसिन, लौरास्ट्र 1960	2240 12-4-60	मग्धाजी शेरी, ग्राम दाविडाना, जिला भावनगर
1547.	देवी प्रसाध पंसेरा पोपट लाल	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3732 25-1-73	पटेल लाला, करसान देला, ग्राम उपदेला, जिला राजकोट
1548.	देवी प्रसाध बर्मा रामचन्द्र	डी० ए० एम० एम० द्वितीय वि० वि० 1976	6671 28-2-79	71, मोटर स्टैण्ड ग्राम पंचोड, जिला अम्बर (म० प्र०)
1549.	देवी रानी बारोट काशरपरसू	आयुर्वेद मध्यमा श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ोदा 1972	7883 14-11-80	मार्कल खानवपरसू छतर बासिह रोड, मुस्तापपुरा गोलबड़, ग्राम-बड़ोदा
1550.	देव शंकर भराड रमछोड	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3131 20-2-71	ग्राम आम्भा बाया पलाला, जिला अमरेली
1551.	देव शंकर बने देवा शंकर	आयुर्वेद विशारद म० सि० वि० वि० 1941	2709 8-10-41	ग्राम खानपुर, ता० जूनाबाड़ा, जिला-पंचमहल
1552.	देव शंकर जोशी लाल शंकर	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5337 8-4-76	ग्राम नावा अम्बर, बाया देलबाड़ा, जिला जुनागढ़
1553.	देव शंकर मिस्त्री मणि लाल	डी० एस० ए० सी० कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1963	946 12-8-63	ग्राम माहेलोल, ता० गोधारा, जिला पंचमहल
1554.	देवशी मर्जागा मेधाजी	डी० एस० ए० सी० कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2413 3-3-67	ग्राम बोधी, ता० मतारबनिया, ता० मलिया हतीना, जिला जूनागढ़
1555.	देवशी बाजा जीवा शर्मा	वैद्य विशारद मि० मा० आयु० वि० वि० 1972	6672 28-2-79	ग्राम धानपुरी, ता० माधिया रतिना, जिला- जूनागढ़

1	2	3	4	5
3788.	कृष्णकुमार कश्यप नारायण	बी० ए० एम० एस० वि० वि० वि०, उज्जैन 1976	7218 23-8-79	83, लकड़ बाजार, ग्राम खण्डवा पूर्वी, निमार म० प्र० ।
3789.	कृष्णकुमार ठाकुर [जयसिंह	आयु० मध्यमा श्र० व० प० समिति, बड़ौदा 1979	8881 4-1-84	डी-144, पद्मावतीनगर, नारीवा, अहमदाबाद
3790.	कृष्णकुमार तिवारी [शुभ नारायण	एम० बी० (आयु०) गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9227 19-2-85	ग्राम व पो० सुलैमानपुर, जिला—बिस्वा (उ० प्र०) ।
3791.	कृष्णमोहन शर्मा सुधरालालजी	ए० एम० बी० एस०, एच० पी० ए० बी० व० मे० लखनऊ, पो० ग्रे० ट्रे० से० आयु०, जामनगर 1959	29 22-12-64	ओ-9, राज० अधिकारी कानोनी, मेकमीनगर, अहमदाबाद-16 ।
3792.	कृति देसाई गणवत राय	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9436 23-12-85	5 टैंक भवन, टी० एच० टी० बी० हार्ड स्कूल, ननपुरा, ग्राम सूरत
3793.	कृष्णालाल चौहान भगतदयाल सिंह	बी० ए० एम० एम० इन्दौर वि० वि० 1976	6107 18-11-78	चिकित्सा अधिकारी, जलता फिरता प्रीवधारण ग्राम उमारा (अवादसा), जिला—कुरेह ।
3794.	कुबेर भाई पटेल [मानभाई	डी० ए० एस० एफ० पी० आ० यू० सि० मे० बम्बई 1954	519 3-9-54	ग्राम जना, ता० कंकराज, जिला—बानसकांठा ।
3795.	कुलभूषणलाल सोंगी	विषयाचार्य मास्त्री रा० आ० यू० सि० कानेज, जयपुर 1979	6589 16-2-79	बी० न० 152, सी० नई रेलवे कानोनी, भावसगर ।
3796.	कुलवीरकुमार जोशी प्रमोदराय	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	9010 28-3-84	जोशी निवास, धुन्धियाबादी, ग्राम पालनपुर, जिला—बानसकांठा ।
3797.	कुलेजी भाई पटेल तनाशी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4322 8-4-74	ग्राम खोरावा, ता० दसादा, जिला—सुरेन्द्रनगर ।
3798.	कुलिनकुमार जोशी [भकरलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3251 25-9-71	द्वारा भादकभाई संस्कृत वैदिक पाठशाला, सावने स्टेशन, ग्राम पौराबखर, जिला— जूनागढ़ ।
3799.	कुलिन कुमारे पटेल धीरू भाई [बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9326 25-7-85	ग्राम एवं पो० वेलनजा, 394150, ता० कामराज, जिला—सूरत ।
3800.	कुलवतसिंह सुदन सन करतार सिंह	बी० ए० एम० एस० जम्मू एवं कश्मीर वि० वि० 1988	7968 18-2-81	पी० टी० एस० शास्त्रा, शालक्य विभाग, गुजरात आयु० वि० वि०, जामनगर ।
3801.	कुमनदास देबमुरारी [जमनाधाम ।	आयु० मध्यमा श्र० व० प० समिति, बड़ौदा 1973	7130 19-7-79	भानूमनपाड़ा, ग्राम विसावादर, जिला— जूनागढ़ ।
3802.	कुमारभाई मेहता मोहनलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2767 17-4-69	राज० आयु० औषधालय, ग्राम भन्वुरी, ता० मेलिया हातिना, जिला—जूनागढ़ ।
3803.	कुम्भाभाई बाकुजा नजाभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5283 15-3-76	द्वारा अमरईन, जे० सान्वा, राज० अस्पताल, मिडबाइफ क्वार्टर्स, ग्राम केशीव, जिला— जूनागढ़ ।

1	2	3	4	5
3804.	कुमकुम सैनी किशोरीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6334 4-10-78	पानेज बंगला, नजरीक पावर हाउस, माबरमती अहमदाबाद ।
3805.	कुमुद देसाई [बंसतराय]	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7009 16-5-79	दाबे जी० देसाई, सेक्टर, न० 30/ब/5/4 गांधीनगर ।
3806.	कुमुद जोशी [गिजू]	वैद्याचार्य नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1970	8362 11-3-82	द्वारा श्री ए० सी० बंकर, 3-जी, रेगन भवन लाल दरवाजा, सूरत ।
3807.	कुमुद शाह मनीनबन्ध	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9337 9-8-85	"पुवसाथ", 49 मंगल मन्दिर सोसाईटी, मुमानपुरा, ग्राम बड़ोदा-309007 ।
3808.	कुमुदबाला आचार्य [भानुप्रसाद]	वैद्याचार्य नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1974	9522 1-7-86	रेलवे कालोनी, 98/ए, ग्राम गांधीग्राम (कच्छ) ।
3809.	कुमुदबेन पाण्ड्या [विनेशचन्द्र]	आयु० सध्यमा श्र० द० ए० समिति, बड़ोदा 1974	6720 9-3-79	गोपालकुपा, फतेहपुरखार रास्ता, ग्राम बड़ोदा ।
3810.	कुमुदबेन पटेल नरया भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	5168 [16-2-76]	1, गीता भारत सोस ईटी, पादेख एष टेलीग्राफ क्वार्टर्स, दानीविमादा, अहमदाबाद-22 ।
3811.	कुमुदचन्द्र वणे [भईशंकर]	डी० ए० एस० एफ० फै० आ० यु० सि० मे० बम्बई 1948	1540 31-7-48	सामने धोरबाजार, कंकारया, अहमदाबाद ।
3812.	कुमुदचन्द्र देसाई [चिमनलाल]	डी० ए० एस० एफ० फै० आ० यु० सि० मे० बम्बई 1955	398 1-11-56	दलिया पोख बावी, बड़ोदा ।
3813.	कुमुदचन्द्र गांधी गिरधारीलाल	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० यु० सि० मे० बम्बई 1960	2048 1-7-60	द्वारा गिरधारीलाल ओचांगनलाल, दलालबादा, ग्राम कापडबन्ज, वाया नाधियाड, जिला— खेडा ।
3814.	कुमुदिवी जोशी [मधुसूदन]	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	6065 8-3-78	लोकमान्य सोसाईटी, वारसिया रोड, बड़ोदा-6
3815.	कुमुद मेहता [अमरलाल]	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० यु० सि० मे० गुजरात 1964 ¹	1595 27-1-65	गणिकुम्ज, नजरीक सेंट टी० शिपो, नलमर ।
3816.	कुमुदशाह [जेठालाल]	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2995 13-7-70	23, महालक्ष्मी सोसाईटी, [एलिसब्रिज, अहमदाबाद ।
3817.	कुमुद मुर [भीमजीभाई]	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4950 23-9-75	बी० बी० बोरा प्लॉट, ग्राम धोरजी, जिला— राजकोट ।
3818.	कुमुदबेन पटेल [चिनुभाई]	डी० एस० ए० एम० क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1963	2037 6-6-66	द्वारा डा० चिनुभाई के० पटेल, ग्राम मियागाम कर्जल, जिला—बड़ोदा ।
3819.	कुमुदबेन राजोल [हिममतसिंहजी]	एच० पी० ए० पी० ग्रे० ट्रे० स० आयु० ज्ञाननगर 1965	2482 6-5-67	13/डी, ज्योति पार्क, मेन्टल अस्पताल रोड, करोली नगर बड़ोदा

1	2	3	4	5
3820.	कुम्बलता उमरानिया नरोत्तमबास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु वि० वि० 1980	9156 1-10-84	6/31, कसारा नाना फालिया, ग्राम भुजाकण्ठ
3821.	कुन्तीभाई वटेल मणलभाई	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० यू० सि० मे० गुजरात 1965	1798 13-9-65	पो० साईपुर, ता० बोरसाव, जिला--नरौर ।
3822.	कुन्बिनी करमारकर भास्कर	डी० एम० ए० सी० फै० आयु० यू० सि० मे० बम्बई 1957	992 1-10-58	श्री निवास कारासिया रोड, फतेहपुरा, सामने, पी० इन्फ्यू० डी०, बर्कशाप, बड़ोदा ।
3823.	कुरालकुमार भगत कासिलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु वि० वि० 1974	4910 9-7-73	ग्राम कोसिन्धा, ता० सखेडा, जिला--बड़ोदा
3824.	कुराजीभाई तारपाड़ा मेधाजीभाई	डी० एस० ए० सी० क० यू० आयु कोर्स, गुजरात 1963	299 19-7-63	ग्राम गोपालग्राम भाया चलावा, जिला-- अमरेली ।
3825.	कुराजीभाई मेधाजी शामजीभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु विषय० वि० 1973	4581 28-11-74	रगनापुरा, मोटाला सेरी, एच० 6, सुरत ।
3826.	कुसुमबेन पटेल छोटूमल	डी० ए० एस० एफ० फै० आ० यू० सि० मे० बम्बई 1954	518 1-3-55	399/बी० फारमुशन रोड, बर्नी, बम्बई-16 ।
3827.	कुसुम भट्ट कंचनलाल	डी० ए० एस० एफ० फै० आयु यू० सि० मे० बम्बई 1956	813 1-8-56	डा० कुसुमबेन के० भट्ट, आर० पी गड, ग्राम जम्बूसर, जिला--नरौर ।
3828.	कुसुम जोशी प्राणलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु वि० वि० 1973	4153 15-1-74	ब्राह्मण सेरी नजदीक मनुमानडेरी द्वारा मातुबेन एच० जोशी, ग्राम भयावावर, जिला-- राजकोट ।
3829.	कुसुम जोशी चम्बूलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु वि० वि० 1974	4659 17-3-75	द्वारा डा० प्रफूल बी० आचार्य, कालिका प्लॉट, शक्ति टाइल्स के पीछे, सामने क्विंट आटा चक्की, ग्राम मोरजी, जिला--राजकोट ।
3830.	कुसुम रावल विनेशचन्द्र	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु वि० वि० 1978	7916 3-12-80	लिमावा चौक, ग्राम जामजोधापुर, जिला-- जामनगर ।
3831.	कुसुम शास्त्री रतिलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु वि० वि० 1975	5232 1-3-76	हवाई चौक, नजदीक सारा कुआ, ग्राम जामनगर ।
3832.	कुसुम त्रिवेदी दुर्लभजी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु वि० वि० 1974	5111 2-1-76	54, दिग्विजय प्लॉट, स्टेट बैंक के पीछे, ग्राम जामनगर ।
3833.	कुसुम उदेशी सावजी	बी० ए० एम० एल० गुजरात वि० वि० 1963	1434 4-5-64	203, साहूकार निकेतन, ग्लाक न० 25, बदावा, बम्बई-31 ।
3834.	कुसुम ब्यास हीराजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु वि० वि० 1972	6455 29-12-78	द्वारा वैद्य डी० एम० परमार, ग्राम छतर, ता० कलावा, जिला--जामनगर ।
3835.	कुसुमकांत वडे नरेशकुमार	आयु मध्यमा श० व० प० समिति, बड़ोदा 1979	9009 28-3-84	द्वारा डा० जनार्दन एन० वडे, सामने विजय मिल नरोडा रोड, अहमदाबाद-25 ।

1	2	3	4	5
3836.	कुसुम वैद्य प्रह्लादराय	बी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० 1967	2564 10-8-67	34, शारदा नगर, विठ्ठलेश्वर, एलिसब्रिज, अहमदाबाद ।
3837	कुसुमबाला खन्ट रंछोदभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7617 16-5-79	बादलीचौक, ग्राम महेन्द्र, जिला—जूनागढ़ ।
3838.	कुसुमबेन बुद्धदेव श्यामजीभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4680 24-3-75	द्वारा जादवजीभाई पी० बुद्धदेव, पुसनी शाक बाजार, राबरोवाडा, ग्राम केशोद, जिला— जूनागढ़ ।
3839.	कुसुमबन दवे मोहनलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4714 31-3-75	छाराकुआ भवानीशंकर देल, ग्राम नादियाड, जिला—खेडा ।
3840.	कुसुमबेन दोषी शान्तिनलाल	आयु० मध्यमा श्र० द० प० समिति, बड़ौदा 1977	6721 9-3-79	4/19, सफालिया एम्बेसिडमन, मेन रोड, ग्राम उधाना, ता० छोरयाप्पी, जिला—सूरत ।
3841.	कुसुमबेन त्रिवेदी जमनादास	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4266 18-3-74	2, गोमतीपुर, पटेल स्मॉलर्टी, अहमदाबाद ।
3842.	कुसुमबेन त्राशी रानेहोदजी	बी० एम० ए० एम० इन्दौर वि० वि० 1977	6312 27-9-78	ग्राम एब पी० सनवादी, ता० गणदेवी, जिला—वलसाड ।
3843.	कुवारभाई पटेल मकनजीभाई	डी० ए० एम० एफ० फै० अ० यू० सि० मे० बम्बई 1958	1838 2-1-58	धिकाता, हरिपुरा, सूरत-3 ।
3844.	लाभकुवर पंत्सूर्या केशवजी	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6445 28-12-78	मार्फत एन० के० येसिया, ग्राम अंकोलवाड़ी, (गीर) ता० तलाला, जिला—जामनगर ।
3845.	लाभशंकर आचार्य गिरजाशंकर	डी० ए० एम० एफ० फै० आफ० आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1956	52 2-1-56	हरीहर निवास बुद्धवावाई शेरी, लखाधीर, वास, ग्राम मोराबी, जिला—राजकोट ।
3846.	लाभशंकर भट्ट शामजी	वैद्याचार्य नि० भा० आ० वि०, दिल्ली 1971	6912 16-4-79	भट्ट पालिया, ग्राम केशोद, जिला—जूनागढ़ ।
3847.	लाभशंकर जोशी अम्बा शंकर	डी० ए० एम० एफ० फै० आफ० आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, 1955	2364 17-10-55	मेडिकल आफिसर, माजेवाड़ी डिस्पेंसरी, ग्राम माजेवाड़ी, जिला—जूनागढ़ ।
3848.	लाभशंकर जोशी देवशंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3999 10-8-73	नजदीक जिमखाना छान्या पोरबन्दर,- 360 575 ।
3849.	लाभशंकर पांड्या राजाराम	आयु० भिषक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1948	7954 17-1-81	नानी बाजार मेन रोड, वाकनेर नेट, सामने रावल हाउ०, गायत्रीकृपा, ग्राम मोराबी, जिला—राजकोट
3850.	लाभ शंकर रावल सुनी लाल	डी० ए० एम० एफ० फै० आफ० आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1955	985 1-12-55	शम्भू शेठ मघ, ग्राम उनावा, ता० सिद्धपुर, जिला—मेहसाना ।
3851.	लाभ शंकर भाई शंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3414 3-3-72	मार्फत गुज० आयु० विकास बंडल, सवशर प्लॉट, मेन रोड, मोराबी, जिला—राजकोट ।

1	2	3	4	5
3852.	साधनशंकर शुक्ल प्रेम शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3350 9-2-72	ग्राम और पो० आ० गफ, ता० घांघूका, जिला—अहमदाबाद ।
3853.	साधन शंकर शुक्ल मंगल लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4146 3-1-74	ग्राम मोतीसाई, ता० धोरजी, जिला राजकोट
3854.	साधन शंकर ठीकर जायवजी	बी० एस० ए० सी० कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1963	1347 15-11-63	बैद्य निवास, नजदीक स्टेशन मणिनगर, अहमदाबाद
3855.	साधन शंकर उपाध्याय अमून लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3246 16-9-71	देवला गैट, सामने मिश्री शी मिल, ग्राम साबर— कुम्हका, जिला भावनगर ।
3856.	साधन शंकर व्यास बापा लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2847 8-10-69	ग्राम जलराल, ता० बीजापुर, जिला मेहसाना
3857.	साधन शंकर व्यास विश्वनाथ	बैद्य विशारद मि० मा० आयु० वि० वि०, दिल्ली 1958	2904 16-4-79	ग्राम जाम बन्याली, ता० और जिला जामनगर
3858.	साधन भाई गोरानी प्रेमजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3573 4-9-72	ग्राम रूपवती, बाया घारीयाघर, ता० पालीटना, जिला भावनगर
3859.	साधन भाई कौटरोविया जिना भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5626 15-12-76	रामपुरा, बाली शंरी, सामने पाटीवर भवन, श्रीजी कृपा, ग्राम सूरत ।
3860.	साधन भाई शेलाविया रामजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4167 5-2-74	ग्राम भाद, ता० खाम्मा, जिला अमरेली
3861.	साधन लाल कक्कड़ भारीवास	बैद्य विशारद मि० मा० आयु० वि०, दिल्ली 1967	6503 1-2-79	भद्राकाली रोड, ग्राम पोरबन्दर, जिला जूनागढ़
3862.	साधन भाई मोरी पर्वत भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6370 13-10-78	मार्फत मोरी कानाभाई एन०, ग्राम और पो० आ० मोरेभर, बाया भानवाड़, जिला जामनगर ।
3863.	साधन भाई साब सानी प्रेम जी भाई	डी० एफ० ए० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, गुजरात 1960	1633 1-2-60	ग्राम मानवदार, जिला जूनागढ़
3864.	साधन भाई बालन्ध कृष्ण भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4223 21-2-74	ग्राम चागन्डा, ता० खाम्मा, जिला खेड़ा
3865.	साधन जी आचरा पिताम्बर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2872 9-1-70	मार्फत श्रीमती मंगलजी पिताम्बर, डा० तख्त सिंह जी रोड, ग्राम मोरबी, जिला राजकोट ।
3866.	साधन जी बांगेसाल शामजी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5374 30-4-76	ग्राम रागनु बाया मेंवारवा, जिला जूनागढ़
3867.	साधन जी जैसानी साधु भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7793 19-8-80	ग्राम बैदा देवाड़ी, धी गैट, ता० बैद्य, जिला अमरेली ।

1	2	3	4	5
3868.	लालजी लोघिया गिरधर भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5915 11-10-77	ग्राम मालपारा बाया घासा, जिला भावनगर
3869.	लालजी कृष्णिया नाडा भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7438 12-12-79	मार्फत कृष्णा आयल मिल, नजदीक बस स्टैंड, ग्राम केसौद, जिला जूनागढ़
3870.	लालजी रूपवाटिया लक्ष्मण	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7312 20-9-79	ग्राम और पो० आ० लिकार बाया मानवदार, जिला जूनागढ़ ।
3871.	लालजी व्यास भगवान जी	वैद्याचार्य नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1965	6967 4-5-79	नगर चकलो, सचिकर जेरी, ग्राम जामनगर
3872.	लालजी भाई गोन्डालिया बल्लभ भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8895 10-1-84	ग्राम और पो० आ० सजियावदार, ता० और जिला अमरेली
3873.	लालजी भाई कफाडिया प्रणजी भाई	बी० ए० एम० एस्० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8957 12-3-84	2/22, सतधरनगर, पो० आ० लीवियार नगर, अहमदाबाद-382352
3874.	लालजी भाई लम्भानी रामजी भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4095 17-10-73	मार्फत सोमी रणजी नारम शरफ बाजार, ग्राम कुटयाला, जिला जूनागढ़
3875.	लालजी भाई प्राणलिया माथुर भाई	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1979	7708 2-5-80	ग्राम कठारिया, ता० लिमाड़ी, जिला सुरेन्द्र नगर ।
4876.	लालजी भाई पटेल सोमा भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5347 14-4-76	ग्राम चकलाबी, ता० नादियाद, जिला खेड़ा
3877.	लालजी भाई पटेल जीमानी भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7176 7-8-79	रामनगर पीछे मद्रासी मण्डर नतकेसर, महादेव, अहमदाबाद ।
3878.	ललित चन्द्र बैद्य मूलचन्द्र जी	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6007 10-1-78	ग्राम बाड़ी कोसम्बा, (आर० एस्०) जिला सुरत
3879.	ललित चन्द्र धवे नर्मदा लंकर	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० वि० दिल्ली 1962	7110 13-7-79	76, भिषक सोसाइटी, ग्राम राजकोट-2
3880.	ललित चन्द्र सारवा धोलाभाई	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1961	6970 4-5-79	नागोड़ी पाली, तात बाड़, ग्राम जामनगर
3881.	ललित चन्द्र व्यास सोमनाथ	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1979	9425 2-12-85	बाहुर कुवावाली पोल, ताहपुर, ग्राम अहमदाबाद
3882.	ललित कुमार आदेव उका भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5052 26-11-75	ग्राम जामरावल, ता० कल्याणपुर, जिला जामनगर ।
3883.	ललित कुमार मिस्त्री गंगा राम	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6303 27-9-78	ग्राम और पो० आ० उन्नीकेनाल, ता० बीरवाड़ा जिला महेसाणा
3884.	ललित कुमार पटेल बाहेबर भाई	बी० ए० एम० एस्० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9273 2-5-85	सरवार पोल, ग्राम कुण्जपुरा, पो० आ० सिपोर, ता० खेराजू, जिला महेसाणा-384335

1	2	3	4	5
3885.	ललित कुमार राययानी प्रेमजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971 ¹	3571 2-9-72	ग्राम-मेवला, वाया जिल्ला, जिला-जूनागढ़
3886.	ललित कुमार उपाध्याय प्राण शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5953 27-10-77	ग्राम-जिनुडा मोता, ता०स्सावरकुमवाला, जिला- भावनगर
3887.	ललित कुमार बसोया धर्म सिंह भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4949 23-9-75	भजराजपारा, नजदीक पीर अम्बाली, ग्राम-गोंदल, जिला-राजकोट
3888.	लखु भाई पटेल नारायण दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975]	5543 28-9-76	ग्राम-योगालु, ता०-प्राणतीज, जिला-साबरकण्ठा
3889.	लाल सिंह चौधरी कमनजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5409 25-5-76	ग्राम-जोटरवा, ता०-अ्यारा, जिला-सूरत
3890.	लाल शंकर बने हरगोविन्द	जी० एफ० ए० एम०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1960	2260 1-5-60	ग्राम-मोघुका, ता०-प्राणतीज, जिला-सागरकंधा
3891.	लाल शंकर शास्त्री रामकृष्ण	एल० ए० एम०, यू० पी० आयु० महाविद्यालय, पाटन 1938	1830 19-11-41	नगरकुवा, पेटलाद, जिला खेड़ा
3892.	ललिया लाल गोयानी मोहन लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4263 15-3-74	2, सतधर नगर, ठक्कर बापा नगर, अहमदाबाद
3893.	लता पटेल नरनदास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8535 14-9-82	हाई कोर्ट, नजदीक रेलवे क्रासिंग, हिन्दुस्तान गैरेज, खान्वा, नवरंगपुरा, अहमदाबाद
3894.	लालेन कुमार पटेल हीरा लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8590 3-11-82	22 पुण्य कुंज सोसाइटी, सुमुल डेरी रोड, ता०-चौरयासी, जिला-सूरत
3895.	लावजी मकवाना मोहन भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7285 20-9-79	ग्राम-सामधियाला (गीर) थाया मेंवाराहा, जिला-जूनागढ़
3896.	लावजी भाई बालघा मानजी भाई	बी० एस० ए० एम०, वि० भा० आयु० वि०, दिल्ली]] 1966	7053 21-6-79	ग्राम-देवगाम, ता०-कुकाबाव, जिला-अमरेली
3897.	लावजी भाई मकरानी साधा भाई	डी० एस० ए० सी०, कमेटी आफ दूड आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2077 27-6-66	महेन्द्र निवास, बारछा रोड, जिला-सूरत
3898.	लावजी भाई पटेल केदार भाई	पी० एफ० ए० एम०, फै० आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1957	631 2-6-58	होली चकला, ग्राम-कपाड़बंज, जिला खेड़ा
3899.	लव कुमार गोहिल केसव सिंह जी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3289 24-11-71	वसन्त भवन, ग्राम-लाभी, जिला-अमरेली
3900.	लज्जत कुमार पोस्वामी जाति भाई	आयर्वेद शिषक, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1960	7412 29-11-79	आयु० डिस्पेंसरी, ग्राम-मोहम्बतपुरा, ता०-मंणघोली जिला-जूनागढ़

1	2	3	4	5
3901.	लक्ष्मण चिखलिया जीवा भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3362 16-2-72	ग्राम-कोलाकी, बाया और ता०-उपलेटा, जिला- राजकोट
3902.	लक्ष्मण जामनस अमर भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5808 24-5-77	ग्राम-मधाव, ता०-बाघवन, जिला-सुरेश्वर नगर
3903.	लक्ष्मण मजैठी रमन भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3950 17-3-73	ग्राम-सरदिया, पो० आ०-अरमठ, बाया बुन्दवा, जिला-जुनागढ़
3904.	लक्ष्मण माली शिवनाथ	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8921 8-2-84	ब्लॉक नं० 343/1756, भापू नगर, अहमदाबाद- 380024
3905.	लक्ष्मण मोरी गंगा बास भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4875 4-6-75	ग्राम-लिम्बुडा, बाया बुन्दवा, ता०-मानवदार जिला-जुनागढ़
3906.	लक्ष्मण राकत रामजी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6081 15-3-78	ग्राम-कुधिया, पो० आ०-निमदिया, ता०-जाम कल्याणपुर, जिला-जामनगर
3907.	लक्ष्मण भाई अबनी देवशी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	2986 24-6-70	अनराईवाड़ी, सत्यनारायण नगर, सामने कड़ी- बासा बाली, अहमदाबाद
3908.	लक्ष्मण भाई रामोसिया खोदा भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8832 1-9-83	मार्फत बसोया हरीभाई मानजीभाई, ग्राम-अमरनगर ता०-जैतपुर, जिला-राजकोट
3909.	लक्ष्मण भाई तोलिया भागा भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4617 29-1-75	ग्राम-कुचियावाव, पो० आ०-कुवाडा, जिला- राजकोट
3910.	लक्ष्मण दास साधु खानदास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5158 7-2-76	ग्राम-कुश्वर, ता०-पाटन, जिला-मेहसाणा
3911.	लक्ष्मण दास तेकबानी होला राम	बैचासायरी, नि० सा० आयु० वि० वि०, दिल्ली, 1974	6851 2-4-79	28-एफ, बाई कुबेर नगर, अहमदाबाद
3912.	लक्ष्मी खोरा बन्धु दास	जी० एफ० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1966	3927 19-4-73	12, तेजपाल, सोसाईटी फतेहपुरा, बस स्टाप, अहमदाबाद
3913.	लक्ष्मीबेन पटेल सोमा भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8878 1-12-83	ग्राम और पो० आ०-पुराल, ता०-हिम्मत नगर, जिला-सागरकंधा
3914.	लक्ष्मीबेन शाह दाम जी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	5137 27-1-76	मार्फत प्रवीण कुमार डी० जरीवाला, 11 दर्शन, सोसाईटी, तिमालिया बाड, मानपुरा, घूरत
3915.	लक्ष्मी दास गोबानी बालाजी भाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	8905 21-1-84	मार्फत बालाजी जादव गोबानी, पीछे यूको बैंक, सुपेरी, ता०-धोराजी, जिला-राजकोट
3916.	लक्ष्मी राम कारबानी अर्जुन भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3689 20-11-72	ग्राम-धिमोरा, बाया उपलेटा, जिला-राजकोट
3917.	लक्ष्मी दास लचक सावजी	ए० बी० बी०, तिलक महाराज विद्यापीठ, पूना, 1944	1309 28-3-44	आर० एम० ओ० गबर्न० आयु० अस्पताल, ग्राम-सुरेश्वर नगर

1	2	3	4	5
3918.	लक्ष्मी कान्त मेहता बुर्गाशंकर	आयु० मध्यमा, श्रावण मास वक्षिणा परीक्षा स.मति, बड़ौदा 1977	6540 3-2-79	मेहता आयु० औषधालय, ग्राम-पनाभी, वावा बल्लभी पुर, जिला-भावनगर
3919.	लक्ष्मीकान्त रावल लाम शंकर	जी० एफ० ए० एम०, फै० आयु० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1965	1730 18-6-65	ग्राम-बोरुआ, कर्जन, जिला-बड़ौदा
3920.	लक्ष्मी कुमार भट्ट दिनकर राम	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7524 15-2-80	मार्फत योगेश डी० भट्ट बी० 128, पेद्रो केमिकल टाउनशिप, ग्राम-बड़ौदा
3921.	लक्ष्मी नारायण मालविया बामू लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3198 21-5-71	निमवालेन प्रताप खोटेज राजपुतपुर शेरी, नं० 2, जामनगर
3922.	लक्ष्मी नारायण ओजा नर्मदा शंकर जी	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3934 25-4-73	ए/37, विश्वकृमा सोसाईटी, जोधपुर, चार रास्ता, अहमदाबाद
3923.	लक्ष्मी नारायण शर्मा राखे श्याम	बैद्याचार्य, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1971	7144 24-7-79	आनन्द प्लाट 27/5, मलिके साहेब, बापू नगर, अहमदाबाद
3924.	लक्ष्मी पति पुरोहित केशव प्रसाद	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1968	2894 2-2-70	ग्राम-मोधेरा, ता०-चानसीप, जिला-मेहसाना
3925.	लक्ष्मी शंकर दवे जटा शंकर	आयु० विषक, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1958	8744 19-4-83	पिपरटोडा, डिप्लेंसरी, ग्राम-पिपरटोडा, ता०- दलपुर, जिला-जामनगर
3926.	लक्ष्मी शंकर व्यास लाम शंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5327 2-4-76	प्रणामकुंज, पटेल कालोनी, ग्राम-जामनगर
3927.	लीना सुटा चितरंजन	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9387 23-9-85	"समरपेन" बिल्डिंग मदन जापा रोड, ग्राम- बड़ौदा-390001
3928.	लीना दवे नरेश कुमार	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9294 23-5-85	58/टैगोर पार्क, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद-15
3929.	लेखा शंकर जितेन्द्र कुमार	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3799 19-2-73	ग्राम-हड़वाड, ता०-राटोव, जिला-भावनगर
3930.	लेखा सेठ वीरचन्द्र भाई	जी० एफ० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1963	1588 19-1-65	मार्फत शशिकांत एच० शाह ग्राम-पो० आ०- जाहेर, ता०-कपाड़बंज, जिला-कैरा
3931.	लेखराज पाण्ड्या रमन लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5888 20-9-77	कैलाश आश्रम, ग्राम-राजूपुरा, ता०-सवाली, जिला- बड़ौदा
3932.	लीला मेहता रमछोद जी	डी० ए० एम० एम०, फै० आक आ० एण्ड यू० सि० आक मेडीसिन, बम्बई 1955	924 2-1-56	मार्फत रमछोदजी प्राणजी मेहता, कमार फालिया, आनन्द पुरा, ग्राम-बड़ौदा
3933.	लीला पटेल शरद चन्द्र	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4205 18-2-74	म० नं० 2447, पखली पोल, रामपुर, अहमदाबाद

1	2	3	4	5
3934.	लीला पटेल मयन भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	5394 13-5-76	मार्फत डा० बंकर पी० पटेल, धन्वस्तरी डिस्पेंसरी, न्यू टावर, ग्राम-बड़ौदा
3935.	लीला त्रिवेदी सुकैतू	जी० एफ० ए० एम०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ, मेडिसिन, बम्बई 1957	770 1-8-57	मार्फत डा० एस० आर० त्रिवेदी बन्दी, अया, रामलाल बसाई, बाम्बा, ग्राम-बड़ौदा
3936.	लीलाबेन चौधरी बन्नी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5927 17-10-77	ग्राम-कोवधा, ता०-मन्वेडी, जिला-सूरत
3937.	लीलाबेन पटेल शिवलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8092 4-6-81	प्राईमरी हेल्थ सेंटर, ग्राम-कटवरा, ता०-बड़ौदा, जिला-बंजमहल
3938.	लीलाधर चौधरी रामभजजी	बी० एस० ए० सी०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1966	2087 7-7-66	3, मेरिट नर्सरी क्वार्टर न्यू सिविल अस्पताल अहमदाबाद
3939.	लीलाधर मकवाना नामा जी	आयु० शिषक, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली, 1972	6624 21-2-79	ग्राम-शाहपुर, ता०-बम्बाली, जिला-जुनागढ़
3940.	ललित कुमार भट्ट महादेव प्रसाद	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3910 3-4-73	जनाना अस्पताल, बन्बा० ग्राम-धारणवर, जिला- पुरेन्द्र नगर
3941.	ललित कुमार जावव उका भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5052 26-11-75	ग्राम-जमरवाल, ता०-कल्याणपुर, जिला- जामनगर
3942.	ललित कुमार वेण्णव हिम्मत राम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4752 7-4-75	मेडिकल आफिसर आयु० डिस्पेंसरी, ग्राम- बरतिया, ता० और जिला-जामनगर
3943.	लीलाबती शाह मूलचन्दजी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3299 20-12-71	श्रीबन औषधालय, ग्राम-कोसाम्बा (जार० एस०) बंगरोल
3944.	लिम्बा भाई पटेल कुशरजी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	2814 19-8-69	ग्राम-घांभू (बानपुर) बाया मोरबी, जिला- राजकोट
3945.	लिनाबेन साहू रवीन चन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1968	2781 3-6-69	डा० डी० एम० देसाई, ग्राम-हिम्मतनगर, जिला-साबरकांवा
3946.	मदनलाल जोशी कुर्भाशंकर	डी० एस० ए० सी०, क० यू० आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1868 6-12-65	श्री रेणुका निवास, 5/1018, सामने इले सबस्टेशन गुंजर फालिया, हृदिपुरा, जिला-सूरत-395003।
3947.	मदनलाल रोडा कृष्णलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7824 24-9-80	मार्फत डा० के० डी० मोरा, 23 साबन सोसाईटी बतवा रोड, मणिनगर, अहमदाबाद।
3948.	मदनलाल व्यास गणपतिशंकर	डी० ए० एस० एफ०, फै० आ० यू० वि० प०, बम्बई 1947	1101 5-6-47	ग्राम-कारवलिया, ता०-महुवा, जिला-सूरत।
3949.	मदनमोहन अग्रवाल रामकृष्ण	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6215 3-8-78	240/2, जयहिन्द कालोनी, सासने नासयान मिल, राकियाल रोड, अहमदाबाद।
3950.	मदनमोहन शर्मा जयलाल शास्त्री	आयुर्वेद विशारद, नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1961	8047 27-4-81	बी० नं० 4, कमरा नं० 1, आनन्द फ्लैट, बापू नगर, अहमदाबाद।

1	2	3	4	5
3951.	माधव गिरी गोविन्द	बी० ए० एस्० एफ०, फै० आ० यू० सि० मेड्री०, बम्बई 1951	154 4-7-52	ग्राम-केरा, ता०-भुज, जिला-कच्छ ।
3952.	माधव पाटिल, मंगल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	5094 22-12-75	ग्राम-साड, ता०-शाहवाडा, जिला-धुलिया
3953.	माधवी अन्धारिया जयन्तीलाल	बी० ए० एम० एस्०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9551 18-8-86	2058, प्रेमनगर सोसाईटी, तालाजा रोड, ग्राम-भावनगर-364002 ।
3954.	माधवजी कारसागरा रघुजी भाई	आयु० भिषक, नि० भा० आ० विद्यापीठ, विल्पी 1964	7155 25-7-79	ग्राम-रणाखिरशारा, बाया रणालव, जिला-जुनागढ़ ।
3955.	माधवलाल दाक्षानिया काशी भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	2964 6-6-70	ग्राम-हनुवा, बाया सरवार गड, ता०-मानावावर, जिला-जुनागढ़ ।
3956.	माधवलाल त्रिवेणी केरावलाल	एल० ए० एम०, यू० पी० आयु० महा०, पाटन (बड़ोदा) 1941	1550 3-11-41	15, सत्यनारायण सीसाईटी, जिवराजपाक, अहमदाबाद-51 ।
3957.	माधवलाल वैद्य शंकर लाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5713 4-3-77	ग्राम-गुन्धारा ता०-बीजापुर जिला-मेहसाणा ।
3958.	माधव प्रसाद आचार्य	एम० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	2985 23-6-70	जिनेन्द्र चैम्बर्स, आयु० भवन मार्ग, आयकर विभाग, अहमदाबाद ।
3959.	मध्यकान्त पटेल ईश्वर लाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6116 5-4-78	प्राईमरी स्वास्थ्य केन्द्र लाचारस, ता०-राजपिपला जिला-बरोच ।
3960.	मधु मोहन रतिलाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	5966 18-11-77	मार्फत आर० सी० मोहेल ए/6/4, नोवाकरी नगर, प्लॉट विभाग 2, वासना, अहमदाबाद ।
3961.	मधु मोठारी जयकाश भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4387 28-5-74	मार्फत मेहता मधुबेन अनिलकुमार, 3 माइकल दस स्ट्रुवेट, बी/32, पोरे, कलकत्ता ।
3962.	मधु पटेल बच्चू भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8420 17-4-82	सामने कानपुर दरवाजा, मजदीक गायत्री साँच कानपुर, अहमदाबाद ।
3963.	मधु पटेल नरेन्द्रलाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	9293 23-5-85	मार्फत आचार्य यशोदाबान, स्नातिका आर्यकन्या महाविद्यालय, करेलीबाग, बड़ोदा ।
3964.	मधुकाला कम्बानिया अमृतलाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3766 7-2-73	मार्फत बी० एल० जोशी, 21-सेक्टर, ब्लॉक नं० 103/3, सी-टाइप, गांधीनगर ।
3965.	मधुकाला पटेल भूलाभय	बी० एस्० ए० एम०, कानपुर वि० वि०, 1975	5801 24-5-77	मार्फत भूलाभय बी, पटेल, ग्राम-रंछोवपुर, ता०-बीजापुर, जिला-मेहसाणा ।
3966.	मधुबेन मोस्वाभी काशीभरामधी	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8887 27-12-83	32, मंकर नगर सोसाईटी, दूधजसागर हैती के सामने, जिला-मेहसाणा ।
3967.	मधुबेन नावक रमेशचन्द्र	बी० ए० एस्० एफ०, फै० आ० यू० सि० मेड्री०, बम्बई 1954	2347 27-12-66	स्टेशन रोड, ग्राम नावसारी, जिला-वालसाड ।

1	2	3	4	5
3968.	मधुबेन रेशमिया लीलाधर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात वि० वि०, 1973	4582 3-12-74	मार्फत ए० बी० पोपत, 32, जालाराम सोसाईटी, ग्राम जूनागढ़ ।
3969.	मधुबेन रीबदिया देवजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात वि० वि०, 1976	6201 28-7-78	स्टेशन रोड, ग्राम व पो० बिलखा, ता० एवं जिला--जूनागढ़ ।
3970.	मधुबेन बरू मनजीभाई	डी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	7333 15-10-79	मार्फत एन० जी० बाबेला, बाल्लभ निवास, 4, बाबी प्लोट, ग्राम पोरबन्दर, जिला-- जूनागढ़ ।
3971.	मधुभाई लिम्बासिया कंजीभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात वि० वि०, 1971	3320 25-1-72	ग्राम-करज, ता०-ओलपद, जिला-सूरत ।
3972.	मधुभाई पटेल बलभाई	जी० एफ० ए० एम०, फैक० आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1962	602 27-6-62	ग्राम-आट, ता०-नवसारी, जिला-वलसाद ।
3973.	मधुभाई बंसिया खान भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6029 16-2-78	ग्राम-अकोलघाटी गिर, ता०-सलाला, जिला- जनागढ़ ।
3974.	मधुभाई बोरा तुलसीभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात वि० वि०, 1981	8405 5-4-82	ग्राम-अमृतवेश-महुवा, बुन्वास, बाया एवं ता०- महुवा, जिला-भावनगर ।
3975.	मधुकान्त जितनिया जेकिशनदास	डी० ए० एस० एफ०, फैक० आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1953	2593 1-7-53	वासन्दाबाद, ग्राम एवं ता० खान्भाल, जिला- खेडा ।
3976.	मधुकान्त गीन्वासिया कंजीभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1981	9272 2-5-85	1/64, रम्बाग सोसाईटी, अभिषेनी कुमार, सूरत-8 ।
3977.	मधुकान्त जानी मनसुख खाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1969	2941 4-4-70	वेरा बाजार, टंकसाल, बाला, खंभा, भावनगर ।
3978.	मधुकान्त जानी कान्तीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4917 15-7-75	जैन धर्मशाला, कमरा नं० 17, स्टेशन के सामने, ग्राम मिहोर, जिला-भावनगर ।
3979.	मधुकान्त पंघया भागवानजी	एस० पी० ए०, पो० प्रे० ट्रे० से० आ० जामनगर 1962	765 18-9-62	डी/4, ई० एस० आई० डिस्पेंसरी स्टाफ क्वार्टर नजदीक बम्बई गरज शाहीबाग, अहमदाबाद ।
3980.	मधुकान्ता पटेल मंगुभाई	डी० ए० एस० एफ०, फैक० आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1956	603 1-8-56	कहूलीबाद, जुनधाना, ग्राम-नवसारी, जिला- वलसाद ।
3981.	मधुकान्ताशाह श्री.मालाल	डी० ए० एस० एफ०, फैक० आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1955	2695 1-12-55	जिला-पंचायत ऑफिस कम्पाउन्ड, ग्राम- हिम्मतनगर, जिला--साबरकन्था ।
3982.	मधुकान्त शेटे प्रियवन्ध	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1967	2629 10-1-68	बारबगढ़ चौक, ग्राम-उपलेटा, जिला- राजकोट ।
3983.	मधुकान्तेन व्यास प्रमोदराय	आयुर्वेद मिषक, नि० भा० आय० विद्यापीठ, दिल्ली 1966	6959 4-5-79	धीरनानी बंगलो, ग्राम धौर जिला- पुरेन्द्रनगर ।
3984.	मधुकर नेनुजी सेवाराम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	5032 11-11-75	ग्राम मधरबाद, बाया लुशाला, जिला- जूनागढ़ ।

1	2	3	4	5
3985.	मधुकर ओक बलवन्त	डी० ए० एस० एफ० फैक० आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1951	78 6-5-52	शिवराजप, 11/बी, अमर ज्योती लाल बूंग रोड, बड़ोदा ।
3986.	मधुकर शाह चम्पक लाल	डी० ए० एस० एफ०, फै० आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1959	1534 1-7-59	एच-1, स्वामी विश्वकानन्द कॉ-धो० हाऊस सोसाईटी, नजदीक जोधपुरचार रास्ता, सेटेसिट रोड, अहमदाबाद ।
3987.	मधुकर वकील चम्पक लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4793 21-4-75	4/89, विट्ठल भवन, माली फासिया, हरिपुर, सुरत ।
3988.	मधुलिका काबोलिया प्रभूलाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9599 23-10-86	जे/8, सरकारी क्वार्टर, सबजेल के पीछे, जे० पी० रोड, सुरत-2 ।
3989.	मधुमती मुञ्जपरा कनजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	7336 10-10-79	साफत बोनीलाल, एस० बोरा, ग्राम- सिभाबादी, खोजबान स्ट्रीट, बाहेलपारा, जिला-सुरेन्द्रनगर ।
3990.	मधुमलाती शाह रमेश	जी० एफ० ए० एम०, फैकल्टी आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1966.	7324 10-10-79	शान्ति बसाहत, प्रताप रोड, रवपुरा, ग्राम-बड़ोदा ।
3991.	माधुरिका करभाती शान्ती लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	5009 20-10-75	गीता, जशीबावसे, बिल्डिंग, रामटेकारी रोड, ग्राम-पोरबन्दर ।
3992.	मधुसिंह गहेल बामसिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4515 20-9-74	सिविल हॉस्पिटल स्टाफ क्वार्टर, ग्राम - पोरबन्दर, जिला--जुनागढ़ ।
3993.	मधुसूदन भट जसवन्त राम	आयुर्वेद विद्यार्थ, म० सि० वि० वि०, 1944	2112	साफत आ० कालेज, अजवा रोड बड़ोदा ।
3994.	मधुसूदन भट जयन्तीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3859 8-3-73	स्टोडिया शेरी, ग्राम-गोंवाल, जिला - राजकोट ।
3995.	मधुसूदन बेसाई बह्याभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	8113 17-7-81	बैसाई वागे, नव धारा, ग्राम-नवीयाब, जिला - खेडा ।
3996.	मधुसूदन बवे सोमनाथभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1980	8888 2-1-84	ग्राम व पो० शिहीरी, ता०-कांकिरेज, जिला--जनासकम्भा ।
3997.	मधुसूदन जोशी मनीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4412 19-6-74	कालीबास मोराजी बिल्डिंग 2, बाडी प्लोट, ग्राम-पोरबन्दर, जिला--जुनागढ़ ।
3998.	मधुसूदन जोशी भाईकाकर ।	आयुर्वेद शिक्षक नि० भा० आय० विद्यापीठ, दिल्ली 1973	6706 9-3-79	विद्यालय शेरी नं० 2, पनपीठ, के सामने, बरेयोगली, ग्राम-राजकोट ।
3999.	मधुसूदन कपाडिया मठवरलाल	डी० ए० एस० एफ०, फैक० आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1954	102 3-1-55	बाजार स्ट्रीट, ग्राम-खैरगाम, जिला - बालसाद ।
4000.	मधुसूदन बे श्रीराम	बी० ए० एम० एम०, इन्दीर वि० वि०, 1977	6415 18-11-78	355, धनमन्डी, ग्राम महेश्वर, वेरु निमार ।

1	2	3	4	5
4001.	मधुसूदन मन्जार कान्तीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	5884 20-9-77	लिडीबाजार, बिबोडी फाली ग्राम जामनगर
4002.	मधुसूदन पंचभाई देवीदास	एम० एम० ए० एम०, फैक० आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1972	7489 17-1-80	ग्राम पधराई पोस्ट कान्हा ता० नन्ददरवार, जिला—भुले ।
4003.	मधुसूदन बंठि. पुरषोत्तम प्रसाद	जी० एम० ए० एम०, फैक० आ० यू० सि० मेडी०, गुजरात 1962	735 23-11-82	वैद्य निवास, स्टेशन रोड, ग्राम कान्हा, जिला—खेड़ा ।
4004.	मधुसूदन बालासाहेब रावेश्याम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	7853 10-10-80	ग्राम और पोस्ट घनटन ग्राम, ता० सागवाडा जिला—भुण्ड (राजस्थान) ।
4005.	मधुसूदन पटेल मनीभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4490 6-9-74	ग्राम सरसा, ता० आनन्द, जिला—खेड़ा ।
4006.	मधुसूदन पाठक कमलकलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	5422 4-6-76	ग्राम खारेडा, वाया मोराभाई जिला— राजकोट ।
4007.	मधुसूदन रावल ललीत कुमार	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1968	2824 25-8-69	ग्राम आद्रीयाहा वाया खारा चेडा, ता० पतदी, जिला—सुरेन्द्रनगर ।
4008.	मधुसूदन शुक्ल नारायण लाल	आयुर्वेद विज्ञान म० सि० वि० वि०, बड़ोदा 1953	1995	ग्राम पिपलालिया, ता० वाणहोदिया, जिला— बड़ोदा ।
4009.	मधुसूदन शुक्ल गंदाबहाल	डी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	5942 26-10-77	भागवतपारा शुक्ल निवास, सरकारी अस्पताल के पीछे, गोंडाल—360311 ।
4010.	मधुसूदन तिवारी धूपनारायण	बी० ए० एम० एम०, बिहार वि० वि० 1983	9530 28-7-86	धरलाभाई पटेल चाली, कमरा नं० 95, बिकरम मिल के पीछे, अहमदाबाद—21 ।
4011.	मधुसूदन त्रिवेदी शुनीलाल	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आ० कोर्स, गुजरात 1964	1460 29-6-64	कुणकुज, पेंटर गाडन के सामने दिल्ली गेट से बाह्य अहमदाबाद ।
4012.	मधुसूदन त्रिवेदी गुणवन्ती	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3527 21-7-72	गौरीसदन, बडफाली नं० 2, नजदीक पंचेश्वर टावर जिला—जामनगर ।
4013.	मधुसूदन उपाध्याय विरजामकर	डी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आ० कोर्स, गुजरात 1963	68 10-6-63	ग्राम अमालेश्वर, ता० एव० जिला—बड़ोदा ।
4014.	मधुसूदन वैद्य मनीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1969	3624 11-8-70	अमूल डेरी रोड, नजदीक कर्णिक दुग्धालय, ग्राम आनन्द, जिला—खेड़ा ।
4015.	मधुसूदन विक्रम वसन्तराय	डी० ए० एम० एम०, फैक० आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1955	1015 1-8-55	रमेशचन्द्र फूलचन्द बंदी, कर्णिक रोड, ग्राम मंगरोल, वाया केशोड, जिला— जुनागढ़ ।
4016.	मधुसूदन व्यास जावेरीलाल	जी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4596	स्वामी नारायण मन्दिर के सामने, कुपेन्द्र रोड ग्राम राजकोट ।
4017.	मधुसूदन व्यास शान्तीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1974	4969 15-10-75	स्वामीनारायण मन्दिर के सामने, कुपेन्द्र रोड, ग्राम राजकोट ।

1	2	3	4	5
4018.	मदनमोहन पटेल भगवान भाई	बी० एस० ए० सी०, क० शुद्ध आ० कोर्स, गुजरात 1965	1770 21-7-65	ग्राम कुवरपुरा, ता० सोखेड़ा, जिला बड़ोदा
4019.	मफत लाल जानी अम्बा शंकर	आयुर्वेद विशारद, एम० एस० वि० वि० 1953	2144	ग्राम कहोडा, ता० सिद्धापुर, जिला मेहसाना
4020.	मफतलाल मोदी हरमोचिन्द दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1972	4036 4-9-73	ग्राम मेमावपुर, ता० बबगाम, जिला शानाकन्ठा
4021.	माफतलाल पटेल बल्लेश्वर दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974]	4806 25-4-75	मन्दिर दास, ग्राम एधोर, ता० सिद्धापुर, जिला मेहसाना
4022.	मफत लाल साधु साधव दास	आयुर्वेद भिषक नि० सा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1972	6703 9-3-79	ग्राम दालसाना ता० बिरमगाम, जिला अहमदाबाद
4023.	मफतलाल सुधार गणपत लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5754 1-4-77	ग्राम पिमावाई, ता० बीजापुर, जिला मेहसाना
4024.	मगन पाटिल नरसाई	डी० एस० ए० सी० क० शुद्ध आ० कोर्स, गुजरात 1966	2064 21-6-66	ग्राम व पोस्ट वेन्दा, ता० निजार, जिला सूरत
4025.	मगन पाटिल दत्त	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3039 1-9-70	ग्राम शिन्दे, ता० नन्दुरवार, जिला धुलिया
4026.	मगनभाई चौधरी बमभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6252 2-9-78	ग्राम और पोस्ट बोर्खादी, ता० व्यारा जिला सूरत
4027.	मगनभाई धारवा, मलु भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात वि० वि० 1975	5269 9-3-76	ग्राम मन्हुपुरा, पो० चन्द्रगढ़ बाया पर्वत गढ़, जिला जूनागढ़
4028.	मगनभाई पटेल गोबर दास	पी० एफ० ए० एम० फैक० आफ यू० सि० मेडिसिन, गुजरात 1961	601 27-3-62	ग्राम वाववाली, ता० चान्समा, जिला मेहसाना
4029.	मयन शमल बाफ लिपारथ भागजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6051 8-3-78	ग्राम खालरोया ता० बाबरा, जिला अमरेली
4030.	मगन लाल भबरवा काहजी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1973	4428 8-7-74	ग्राम भावसार, ता० मालिया, जिला राजकोट ।
4031.	मगनलाल बाट्रेसिया प्रभुभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3424 8-3-72	ग्राम एब पो० परतापुर बाया राजसीतापुर, जिला सुवेन्द्र नगर
4032.	मगनलाल चौहान बाहु भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1977	6333 4-10-78	ग्राम जमाका (मनाना) बाया में उर्डी, ता० एब जिला जूनाग
4033.	मगनलाल धाड़क मोहभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7728 29-5-80	ग्राम वारखादिया, ता० मदाकुडल, जिला भाव- नागर
4034.	मगनलाल कीला मोहन लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1974	5783 30-4-77	ग्राम वजलपुर, ता० मालिया मियाना, जिला राजकोट

1	2	3	4	5
4035.	मगन लाल कुद्रेसा भीमजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1976	6162 16-5-78	प्राईमरी हेल्थ सेंटर, ग्राम भारी ता० घाटी, जिला अमरेली
4036.	मगन लाल लाम्बा कर्णज भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1971	3714 1-1-73	ग्राम मोविया, ता० गोन्वाल, जिला राजकोट
4037.	मगनलाल लावानी भीमजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1971	3361 16-2-72	हरीभाई पर्वया हाऊस नजबीक तालुकशाला, ग्राम अटकोट, जिला राजकोट
4038.	मगनलाल मन्डसिया बालजी	वैद्याचार्य नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1974	8858 1-11-83	रेलवे स्टेशन प्लाट, जनता डिस्पेंसरी, मार्ड बाड़ा, ग्राम एव पो० तलाल चतरा, जिला जूनागढ़
4039.	मगनलाल माधवानी दाजी भाई	वैद्य विशारद नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1957	6898 16-4-79	आशुतोष, नजबीक वाटर टैंक, जमादार फाड ग्राम सवारकुण्डला, जिला भावनगर
4040.	मगन लाल निमावत कांतिलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1974	5480 31-7-76	ग्राम सालादी, ता० लिलिया, मोटा, जिला अमरेली अमदेसी
4041.	मगन भाई पैठा जगजीवन	वैद्य विशारद नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1967	7702 29-4-80	ग्राम चारनिया बाया वैद्य देवाली, ता० जेटपुर, जिला राजकोट
4042.	मगन लाल पटेल जिनाभाई	ए० बी० वी० नि० म० विद्यापीठ, पूना 1942	3474	गांधी चौक, ग्राम पड़ारा, जिला बड़ौदा
4043.	मगन लाल पटेल बालजी भाई	डी० ए० एस० एफ० फै० आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1946	600 2-9-46	ग्राम आट, बाया नावसारी, जिला वलसाड
4044.	मगनलाल पटेल पुसपोत्तम	बी० ए० एस० एफ० फै० आ० यू० सि० मेडी० बम्बई 1955	599 2-4-56	मेह्दिधारपुर, जावकाहदी, सुरत-3
4045.	मगनलाल पटेल गंगा राम दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1978	7437 12-12-79	ग्राम जिन्वी, ता० सिद्धापुर, जिला मेहसाना
4046.	मगन लाल पटेल रेवा भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1981	8687 3-3-83	141, सामिर सोसाइटी, मेम्को टोलनका, नजबीक मसुसुवन मिलल, नरोडा रोड, अहमदाबाद- 380025
4047.	मगनलाल सोलंकी परागजीभाई	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1972	6656 28-2-79	ग्राम लिलिया रेवा, जिला अमरेली
4048.	मगन लाल ठाकर अमृतलाल	डी० ए० एस० एफ० फै० आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1953	2294 25-9-53	ग्राम शापुर, ता० बन्धाली, जिला जूनागढ़
4049.	मगनलाल श्रीधरानी, रामजी भाई	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० यू० सि० मेडिसिन, गुजरात 1963	1404 13-2-64	मार्केत रामजी भाई लालजी वैशानी, ग्राम भाय- बादर (सौराष्ट्र)
4050.	महादेव जा रत्नेश्वर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1982	8813 29-7-83	रांघोदजी मन्दिर, असरवा बाकला, अहमदाबाद- 16
4051.	महावीर सिंह चौदासमा रघुवीर सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1972	4131 1-12-73	ग्राम जाशका ता० घाटुका, जिला अहमदाबाद

1	2	3	4	5
4052.	महावीर सिंह गोहिल हरि सिंह	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1972	3852 8-3-73	ग्राम गाधुला, पोस्ट सनोसरा, जिला भावनगर
4053.	महावीर सिंह मेवा शामन्त सिंह	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1978	7801 5-9-80	ग्राम सेवानिया, ता० देवगढ़, बारिया, जिला पंचमहल
4054.	महावीर सिंह रावलजी महेन्द्र सिंह	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8831 1-9-83	ग्राम एवं पो० घर्मपुर, जिला बालसाब ।
4055.	मीहमद युसुफ लखानी अहमदभाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9079 29-6-84	दरबारी कोथार रोड, शौलाशा पीर, दरगाह जिला भावनगर ।
4056.	महमेद फारुक हकीम गनी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8877 1-12-83	असर्वा, चमाहपुरा, चाकला, अहमदाबाद ।
4057.	महन लाल अमरावत सालदास	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8502 27-8-82	ग्राम पिपराला, बाया तानामा, पो० भारोली, जिला भावनगर ।
4058.	महाराजीदास बुधाभाट्टी गोवर्धन दास	आयुर्वेद शिक्षक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली, 1958	6771 21-3-79	छाया बाजार, अवधिया शेरी, जुनागढ़ ।
4059.	महार्णकर भट्ट लक्ष्मी शंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3577 4-9-72	ग्राम चारखावी, ता० गोन्दाल, जिला राजकोट ।
4060.	महार्णकर मेहता अम्ना शंकर	आयुर्वेद शिक्षक नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली, 1965	6625 21-2-79	टोटानियाना, पो० रेहिसा, बाया मिंगला ज०, । ता० वल्लभी पुर, जिला भावनगर ।
4061.	महार्णकर शुक्ल अमृत लाल	बी० ए० एम० एफ०, फैक० आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1949	1281 31-3-49	ग्राम मिंगपुर, ता० भोंगाध, जिला सूरत ।
4062.	महामिखलाल बाचिशी लक्ष्मी चन्द	ए० बी० बी० ति० म० विद्यापीठ, पूना, 1942	787 22-10-42	खारी पोले रोड, नजदीक पटवा प्रेंस, नादियाड़ ।
4063.	महेन्द्र अधिया जमना दास	आयुर्वेद मध्यमा श्रा० व० प० स० बड़ीरा 1978	7926 12-12-80	भार्कत शरव जामनादास अधिया, । 908, त्रिवेणी अर्थाटमेड, नानपुरा, ग्राम सूरत ।
4064.	महेन्द्र बेसाई रामनलाल	जी० एफ० ए० एम०, फैक० आ० यू० सि० मेडिसिन, गुजरात 1962	429 18-12-62	नाना पारसी बाद, बलमाव ।
4065.	महेन्द्र जोशी चमन लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1982	9289 7-5-85	3/धानम थैक रोसाईटी, कासिज कम्पाई, ग्राम पालनपुर, जिला धनसाकंठा ।
4066.	महेन्द्र किनाजी मोहन दास	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1976	5787 30-4-77	ग्राम राजनीमवा, बाया जिनियामोटा, जिला अमरेली ।
4067.	महेन्द्र मेहता रति लाल	डी० एम० ए० एफ० फैक० आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1977	5833	गुरूकःसा, धारेश्वर बार रोड, ग्राम सरधार, जिला राजकोट ।

1	2	3	4	5
4068.	महेन्द्र पटेल छोट्ट भाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9185 11-12-84	ग्राम भालगाम, ता० भोलपाव, जिला सूरत ।
4069.	महेन्द्र पुणेख आरमा राम	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4187 12-2-74	मुखी शेरी, खारकुवा, ग्राम सरखेज, ता० मिटी, जिला अहमदाबाद ।
4070.	महेन्द्र शाह हीरालाल	जी० एफ० ए० एम०, फैक० आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1961	1227 10-7-62	किर्तीकुम्भ सोसाईटी, प्लॉट नं० 23, आरमा राम रोड करेली बाग, ग्राम बड़ौचा ।
4071.	महेन्द्र शाह नया लाल	जी० एफ० ए० एम०, फैक० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1960	1201 2-1-60	सिविल कोर्ट के सामने, दाहेगाम, जिला अहमदाबाद ।
4072.	महेन्द्र शास्त्री महार्णकर	डी० एम० ए० सी०, क० शुद्ध आ० कोर्स, गुजरात 1965	1676 25-5-65	646 लोबेयवर पोल, रेलिक रोड, अहमदाबाद ।
4073.	महेन्द्र शास्त्री रमने लाल	डी० एम० ए० सी०, क० शुद्ध आ० कोर्स, गुजरात 1966	2091 11-7-66	सांकवी शेरी, खिजावा, पोले म० नं० 984, अहमदाबाद ।
4074.	महेन्द्र व्यास नटवर लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3555 21-8-77	गांधी आश्रम, अहमदाबाद ।
4075.	महेन्द्र भाई मिस्त्री चैमन भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5220 26-2-76	ग्राम रास, ता० बोस वि, जिला खेड़ा ।
4076.	महेन्द्र भाई पटेल शमाल भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4228 22-2-74	ग्राम सार्गी, ता० संबाडा, जिला बड़ौचा ।
4077.	महेन्द्र भाई पटेल पूनम भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4568 4-11-74	ग्राम वादु, ता० पादरा, जिला बड़ौचा ।
4078.	महेन्द्र भाई पटेल छगन भाई	बी० एम० ए० एम०,] गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7556 29-2-80	ग्राम शिली, ता० आनन्द, जिल्हा खेड़ा ।
4079.	महेन्द्र देव शर्मा मंत्र प्रसाद	आयुर्वेद शिक्षक नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1961	7501 17-1-80	444, आनन्द नगर, भावनगर-5 ।
4080.	महेन्द्र कुमार बजाज अम्बा लाल	बी० ए० एम० एम०, विक्रम वि० वि०, 1977	7168 3-8-79	टाउन हाल के पीछे, ग्राम खंढवा, जिला हुंस्त मिमाड (एम० पी०) ।
4081.	महेन्द्र कुमार बशीर जैठा लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	2907 19-2-70	पंचमातरी, ग्राम ता० एब, जिला खेड़ा ।
4082.	महेन्द्र कुमार भट्ट लक्ष्मी शंकर	डी० ए० एम० एम०, फैक० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1955	849 1-2-56	मा फत लक्ष्मीशंकर के ० भट्ट पब्लिक डिस्पेंसरी, ग्राम मेहोलाल, ता० नादियाड, जिला खेड़ा ।
4083.	महेन्द्र कुमार बायिणी मन सुख लाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1967	2622 29-12-67	5, मनिशी को० हाऊस सोसाईटी, सुरेन्द्र नगर के पीछे, अंकुर रोड, नारायणपुरा, अहमदाबाद ।
4084.	महेन्द्र कुमार प्रभाकर नरेश लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6875 3-4-79	ग्राम अनारा, ता० कपाडवेज, जिला खेड़ा ।

1-	2	3	4	5
4085.	महेन्द्र कुमार चौधरी मगन लाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	6255 2-9-78	ग्राम रुवाचर्मपुर, पो० आ० खोज पारावी, ता० बारवाली, जिला सुरत ।
4086.	महेन्द्र कुमार दवे रमन लाल	पी० ए० ए० ए० ए०, फैक० आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1964	1463 29-9-74	समावी चकला, ग्राम सोजिया, जिला खेड़ा ।
4087.	महेन्द्र कुमार दवे हरिहर प्रसाद	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4478 2-9-74	प्लॉक नं० 1, गणेश सोसाइटी, शाहपुर गेट के बाहर, अहमदाबाद ।
4088.	महेन्द्र कुमार दवे केशव लाल	आयुर्वेद मध्यमा श्रा० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1976	6616 21-2-79	ग्राम कन्नासा (गिर) वाया मालियामुटीना, जिला जूनागढ़ ।
4089.	महेन्द्र कुमार दवे शांति लाल	आयुर्वेद शिष्यक नि० भ्रा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1961	7610 18-3-80	अनानबाव चाकला, पाठक पालिया, ग्राम जामनगर ।
4090.	महेन्द्र कुमार देवावरिया भारायण भाई	आयुर्वेद मध्यमा श्रा० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6519 1-2-79	ग्राम सनेसरा, ता० शिहोर, जिला भावनगर ।
4091.	महेन्द्र कुमार फिनाव कश्रमभाई	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3811 21-2-73	कपाद बापरी, मार्फत पटेल बी० ए० ए० मोती बाजार, ग्राम गोंडाम, जिला राजकोट,
4092.	महेन्द्र कुमार गौदानी हरी लाल	डी० ए० ए० ए० सी० क० मूड आ० कोर्स, गुजरात 1966	2283 29-11-66	1362, बसनभेरी सारसपुर, अहमदाबाद ।
4093.	महेन्द्र कुमार गौदानी छगन भाई	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1970	3241 9-9-71	5/54, इन्द्रा नगर, अमराववादी, अहमदाबाद ।
4094.	महेन्द्र कुमार जैन पद्मा लाल जैन	बी० ए० ए० ए० ए० विक्रम वि० वि० 1976	6553 12-2-79	6, उमियादेवी को-आप-हाउस सोसाइटी, नं० 2, नजदीक वेना बैंक, अमराववादी, अहमदाबाद
4095.	महेन्द्र कुमार जोगानपुत्रा ब्रजलाल	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4888 17-6-75	ग्राम नायक, ता० मसार, जिला खेड़ा
4096.	महेन्द्र कुमार जोशी मुकुतलाल	आयुर्वेद मध्यमा, श्रा० द० ए० ए० ए०, बड़ौदा 1973	6621 21-2-79	ग्राम खारेदी, वाया घोराजी, ता० कालवा, जिला जामनगर
4097.	महेन्द्र कुमार जोशी शिव नारायण	वैद्य विशारद नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1971	8423 1-5-82	शेठ मूलचन्द भवन हाऊस, ग्राम नाविनाल, ता० मुंडरा, जिला कच्छ
4098.	महेन्द्र कुमार कपाडिया धरू भाई	डी० ए० ए० ए० ए० फैक० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1954	2321 3-9-54	ग्राम वासाद, ता० अनाद, जिला खेड़ा
4099.	महेन्द्र कुमार माजिठिया छगन लाल	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1972	4447 20-8-74	जुहार रोरी ग्राम जाम सालवा, जिला जामनगर
4100.	महेन्द्र कुमार मेहता सम्बकलाल	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1974	4996 25-3-75	प्रेरणा, साधना सोसाइटी, ग्राम सावर कुन्दला, जिला भावनगर
4101.	महेन्द्र कुमार मेहता लक्ष्मी शंकर	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7361 29-10-79	मेघवास, ग्राम नारायपुर, ता० कालो, जिला मेहसाना

1	2	3	4	5
4102.	महेन्द्र कुमार मोदी मोहन लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6562 12-2-79	श्री भास्तीनगर सोमाइटी, ब्लॉक 37, ग्राम मेहमाना
4103.	महेन्द्र कुमार मोदी भोवा भाई	आयुर्वेद उत्तम श्री० द० प० स०, बड़ौदा 1973	6785 21-3-79	ग्राम उपोरा, ता० साधापुर, जिला मेहमाना
4104.	महेन्द्र कुमार मुछाला शांति लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० 1965	1778 2-8-65	माफत शांति लाल बी० मुछाला, ग्राम धारी, जिला अमरेली
4105.	महेन्द्र कुमार जीवन लाल	आयुर्वेद माध्यमा श्री० व० प० स० बड़ौदा 1973	6890 12-4-79	भोजक सेरी, ग्राम वाचनागर, जिला मेहमाना
4106.	महेन्द्र कुमार निर्मल विभुवन दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1973	4280 20-3-74	ग्राम खोबु, ता० वाघवाम, जिला सुरेन्द्र नगर
4107.	महेन्द्र कुमार ओजा जीवन लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8501 27-8-82	सब पोस्ट मास्टर, ग्राम लादोल, ता० बीजापुर, जिला मेहमाना-382840
4108.	महेन्द्र कुमार पाराया नर्मदा शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4357 26-4-74	ग्राम रांधेजा, ता० एबं जिला गांधी नगर
4109.	महेन्द्र कुमार पांड्या भोगी लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8580 21-10-82	ग्राम एवं पो० बोलन्दा, ता० मोवास, जिला साबरकंठा
4110.	महेन्द्र कुमार पटेल गोर्दामभाई	जी० एफ० ए० एम० फैक० आ० यू० सि० मेडीमिन, गुजरात 1962	606 29-6-62	मोती खादकी, ग्राम समरखा, ता० आनध्व
4111.	महेन्द्र कुमार पटेल अम्नालाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4857 22-5-75	ग्राम मंगरोल, ता० कर्जन, जिला बड़ौदा
4112.	महेन्द्र कुमार पटेल जोरा भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1975	5231 1-3-76	ग्राम चापव, ता० एबं जिला बड़ौदा
4113.	महेन्द्र कुमार पटेल अम्ना लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6024 16-2-78	ग्राम फनिया, ग्राम नाथीयाड, जिला खेड़ा
4114.	महेन्द्र कुमार पटेल विठ्ठल भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8179 22-9-81	ग्राम अमोवरा (रामपुर) ता० प्रान्तिज, जिला साबरकंठा
4115.	महेन्द्र कुमार पटेल छागन भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० 1978	8210 2-11-81	ग्राम और पोस्ट मोभा, ता० पदाग, जिला बड़ौदा
4116.	महेन्द्र कुमार पटेल मनहर लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8941 17-2-84	ग्राम एवं पो० सालहया, ता० गालमीना, जिला खेड़ा
4117.	महेन्द्र कुमार पटेल शंकर लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9159 17-10-84	मेहता वेस, ग्राम रामपुर (भानकेडा) ता० विरमगाम जिला अहमदाबाद
4118.	महेन्द्र कुमार पारेख व्यालाल	आयुर्वेद विगारद, बोर्ड आफ इं० मे०, सीराष्ट्र 1958	2212 15-3-58	बजीरवाली शेंरी, दिवानपर रोड, ग्राम भावमगर

1	2	3	4	5
4119.	महेन्द्र कुमार पारेख नरिसाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि० 1978	7283 15-9-79	श्री कृष्ण भवन, बिलनाथ शेरी, ग्राम बिलाख, ता० एब' जिला जूनागढ़ ।
4120.	महेन्द्र कुमार पाठक पार्वती शंकर	बी०एस०ए०सी० क० शुद्ध आ० कोर्स, गुजरात 1962	705 25-6-62	निजामपुरा (छानी रोड) ग्राम बड़ौदा-2 ।
4121.	महेन्द्र कुमार फागट भावन सिंह	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6278 20-9-78	ग्राम एब' पो० खैदीपाड़ा, ता० वेदियापाड़ा, जिला बड़ौदा ।
4122.	महेन्द्र कुमार प्रजापति सालाभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि० 1972	4891 17-6-75	ग्राम पामसपार, पो० जोधपुर, ता० बाल सिनोर, जिला खेड़ा
4123.	महेन्द्र कुमार राणा छांग लाल	डी० ए० एस० एफ० फैक० आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1953	1553 1-6-53	मार्फत सी० डी० राणा, कायस्था शेरी, ग्राम भुज, कच्छ ।
4124.	महेन्द्र कुमार राठी प्रागजी	आयुर्वेद विशारद बोर्ड आफ ई० मे०, सौराष्ट्र 1961	2279 23-6-61	1497, कृष्ण नगर, ग्राम भावनगर ।
4125.	महेन्द्र कुमार रावल उमेश भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि० 1976	5899 20-9-77	ग्राम गधडा, ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा ।
4126.	महेन्द्र कुमार रावल बल्लभदास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि० 1968	2760 8-4-69	ग्राम सतापुर, ता० जाम जोधपुर, जिला जामनगर ।
4127.	महेन्द्र कुमार रावल अम्बालाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि० 1977	6362 4-10-78	छिया चौक, ग्राम राधेजा, जिला गांधीनगर ।
4128.	महेन्द्रकुमार शाह मटवरलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1974	4385 20-5-74	ग्राम बकपुर, ता० हिमनगर, जिला साबरकन्धा ।
4129.	महेन्द्रकुमार शुक्ल महार्णकर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि० 1975	5542 28-9-76	ग्राम व पो० रूपाल, मुक्ता मण, ता० एब' जिला गांधीनगर ।
4130.	महेन्द्र कुमार सोनी बाबिलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि० 1976	5766 14-4-77	सोसाइटी नगर, नजदीक केवल भुज, ग्राम हिम नगर, जिला साबरकन्धा ।
4131.	महेन्द्र कुमार सोनी काशीलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1984	9356 21-8-85	ग्राम एब' पो० आ० हाहबास, ता० महेन्दाबाद, जिला खेड़ा-387140
4132.	महेन्द्र कुमार तिवारी शिवकुमार	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि० 1975	5776 26-4-77	तिवारी भवन, नजदीक बलवातिका, मनीनगर, अहमदाबाद ।
4133.	महेन्द्रकुमार त्रिवेदी बापलाल	आयुर्वेद विशारद, बोर्ड आफ ई० मे० सौराष्ट्र 1960	2236 6-5-60	26026 2, गजारिया पोल, शाहपुर, अहमदाबाद ।
4134.	महेन्द्रकुमार त्रिवेदी हेमचन्द्रभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि० 1976	5789 30-4-77	29, विगविजय प्लोट, किरत, ग्राम जामनगर।
4135.	महेन्द्रकुमार उपाध्याय नर्मदाशंकर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि० 1975	5260 8-3-76	ग्राम गणबत, साल कर्जन, जिला बड़ौदा ।

1	2	3	4	5
4136.	महेन्द्रकुमार वैद्य जगजीवनदास	आयुर्वेद विशारद, बोर्ड आफ्. ई० मे० सीराष्ट्र 1958	2348 16-5-58	10, पंचसुंगला, गुलाबन टंकरा, अहमदाबाद।
4137.	महेन्द्रकुमार वैद्य विठ्ठलदास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि०। 1974	4827 2-5-75	ग्राम बावपुरा, ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा
4138.	महेन्द्रकुमार वासमी (रामजी)	बी०ए०एम०एस०, गुजरात आ० वि० वि० 1985	9552 18-8-86	ग्राम मेटोडा-360003, पो० चिरसाटा (रामलजी) ता० सेधिका, जिला राजकोट।
4139.	महेन्द्रकुमार व्यास हरिकृष्ण	बी०एस०ए०सी०, क०शु०आ० कोर्स, गुजरात 1966	2488 12-5-67	ग्राम किल्लपार्वी, ता० पार्वी, जिला वलसाड।
4140.	महेन्द्रलाल षट अम्बालाल	बी०एस०ए०सी०, क०शु०द्विभा० कोर्स, गुजरात 1961	850 5-12-61	ग्राम भूवेल, ता० आम्पाल, बाया आनम्ब, जिला खेड़ा।
4141.	महेन्द्रलाल बनसिंघवा हीरासाल	बी०ए०एम०एस०, गुजरात वि० वि० 1968	2735 10-2-69	सरदारनगर, नं० 49, स्टेशन रोड, सुरत।
4142.	महेन्द्रप्रसाद पानी वियानम्ब	आयुर्वेद मिषक, नि०भा०आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1958	6740 15-3-79	शान्तिनाथ सोसाईटी, स्टेशन रोड, ग्राम प्राप्तीज, जिला सागरकन्था
4143.	महेन्द्रप्रसाद पंडित प्रभूभाई	बी०एस० ए०सी०, क०शु०आ० कोर्स, गुजरात 1962	733 18-12-62	डा० पी० जे० पंडित, अनुपम एच० सोसाईटी, परिजातक, ग्राम हलाल, जिला पंचमहल।
4144.	महेन्द्रप्रसाद पटेल वहियासाल	आयुर्वेद मध्यमा आ० द० प० स०, बड़ौदा 1984	9398 19-10-85	10/बी, जीवन ज्योति सोसाईटी, लाल क्लब, माकपुरा रोड, ग्राम बड़ौदा।
4145.	महेन्द्रप्रसाद व्यास भानुशंकर	वैद्य विशारद, नि०भा०आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1961	7615 18-3-80	जेरामभाई हा०, गेंडा शेरी, ग्राम बंभली, जिला जूनागढ़
4146.	महेन्द्रपुरी गौस्वामी धर्मपुरी	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1969	2869 9-1-70	ग्राम टंकरा, ता० मोर्बी, जिला राजकोट।
4147.	महेन्द्रराय त्रिवेदी रविशंकर	बी०ए०एम०एस०, गुजरात वि० वि०, 1961	326 30-4-62	मार्कंडेय त्रिवेदी आर० जे० सुवर्ण कुटीर, भाया तालव, ग्राम भावनगर।
4148.	महेन्द्रसिंह अतोहारिया रामसिंह बाबा	बी०ए०एम०एस०, गुजरात आ० वि० वि०, 1983	9310 2-7-85	ग्राम एच० पो० खरत-394120, इत्या कोसाम्बा, ता० हासोम।
4149.	महेन्द्रसिंह चौहान पुपुसिंह	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5273 12-3-76	ग्राम बामाभाबा, बाया बावनगर, जिला मेहसाणा।
4150.	महेन्द्रसिंह चावडा मनुभा	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6390 27-10-78	ग्राम एच० पो० सधेबा, ता० कन्याव, जिला सागरकन्था
4151.	महेन्द्रसिंह जावेजा प्रद्युमन सिंह	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1968	2801 25-7-69	ग्राम खारचिया, बाया मोर्बी, ता० ओदिया, जिला जामनगर।
4152.	महेन्द्रसिंह जडेजा गजुभा	बी० एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1982	8841 6-9-83	ग्राम एच० पो० चांगोर, बाया वरव, जिला जामनगर।

1	2	3	4	5
4153.	महेन्द्रसिंह कथवाविया जयसिंह	बी०एस० ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1976	6382 27-10-78	ग्राम कथवावा, पो० बेनछा, बाया कोसम्बा (भार० एस०), बाया मंगरेल, जिला सूरत ।
4154.	महेन्द्रसिंह बाघेला गगुमा	आयुर्वेद भिषक, नि० पा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1965	6839 31-3-79	ग्राम छाबमार, ता० जिला अहमदाबाद ।
4155.	महेन्द्रसिंह वासविया जयसिंह	बी०एस० ए०एम० गुजरात आ० वि० वि० 1979	7834 30-9-80	ग्राम तारसावी, पोस्ट कोसम्बा, जिला सूरत ।
4156.	महेन्द्रसिंह जलाल बलवन्त सिंह	बी०एस० ए०एम० गुजरात आ० वि० वि० 1973	4180 11-2-74	3, गिरीशकुंज सोसाईटी, नजदीक जय विजय सोसाईटी, नारायणपुरा, अहमदाबाद ।
4157.	महेन्द्रपुरी गोस्वामी सहमणपुरी	बी०एस० ए०एम० गुजरात आ० वि० वि० 1975	6729 15-3-77	ग्राम असारोदा, पो० रामपुरा, तह० प्राणतिज, जिला साबरकन्धा ।
4158.	महेश बबु धीलराय	जी० एफ० ए० एम० फैक० आ० यू० सि० मेडी०, गुजरात 1961	789 23-10-61	डी० बी० एक्स०, 24, अविपुर, कच्छ ।
4159.	महेश देसाई मटवरलाल	डी०ए० एस० एफ०, फैक० आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1953	430 15-7-53	ग्राम मोतमिया मंगरोल, जिला सूरत ।
4160.	महेश मिम कृष्णलाल	डी०ए० एस० एफ० फैक० आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1950	943 1-3-55	मेंटल अस्पताल, ग्राम एबं जिला जामनगर ।
4161.	महेश पंडित अम्नतराय	आयुर्वेद भिषक, नि० पा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1975	7038 20-6-79	पंडित निवास प्लेस रोड, ग्राम राजकोट ।
4162.	महेश पटेल भाबजी	बी०ए० एम० एस०, गुजरात आ० वि० वि० 1985	9590 7-10-86	35, जयरामनगर, अश्विनीकुमार, ग्रा सूरत-395008, ता० चोथीसी, जिला सूरत ।
4163.	महेश रायकर रामचन्द्र	डी०एस० ए० सी०, क० शु० आ० कोर्स, गुजरात 1966	2060 21-6-66	बाधीवादी, रावपुरा, बड़ौदा ।
4164.	महेश शाह अम्बालाल	जी० एफ० ए० एम०, फैक० आ० यू० सि० मेडी०, गुजरात 1961	1204 18-12-61	नजदीक महादेव, केलाबादी, घाटीयाली, पोल बड़ौदा ।
4165.	महेशगानू शाह रमलाल	बी०एस० ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1968	2782 3-6-69	6/68, नव निर्माणनगर, नजदीक प्रगति नगर नवावदाज, अहमदाबाद
4166.	महेशभाई पटेल चम्पूभाई	बी०ए० एम० एस०, गुजरात वि० वि० 1966	2333 12-12-66	चन्द्र निवास, पटेल सोसायटी, ग्राम नावियाड, जिला खेड़ा ।
4167.	महेशभाई संकरभाई	बी०ए० एम० एस०, इम्बौर वि० वि० 1972	7917 12-12-80	6-ए, सर्वोदय सोसाईटी, अमूल डेरी रोड, ग्राम आनन्द जिला खेड़ा ।
4168.	महेशचन्द्र देसाई खानपुराई	बी०एस० ए०एम०, ¹ गुजरात आ० वि० वि० 1975	5115 8-1-76	31, भूलेखवर सोसाईटी, मनिनगर, अहमदाबाद ।
4169.	महेशचन्द्र पाटे सहमतराय	एम०डी० (आ०) गुजरात आ० वि० वि० 1979	7400 27-11-79	ग्राम तालोड, ता० प्रान्तीज, साबरकन्धा ।

1	2	3	4	5
4170.	महेशचन्द्र गोस्वामी जगजीवन	बीच विशारद राज० आ० का० पटियाला, 1969	8749 19-4-83	9945, गली नारसिंह पास, अमृतसर (पंजाब)
4171.	महेशचन्द्र हीरानी अरविन्द भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7737 6-6-80	6, ज० प्लोट, ग्राम राजकोट
4172.	महेशचन्द्र कानुनगो गौरी शंकर	बी० ए० ए० ए० ए०, विक्रम वि० वि०, 1977	7477 5-1-80	52, विवेकानन्द नगर कालोनी, फिंगंज, ग्राम उज्जैन (एम० पी०)
4173.	महेशचन्द्र मेहता बृजलाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात वि० वि०, 1967	2521 19-6-67	कचुभा रोड, न्यू पिलटर के सामने, उपनौर प्लॉट 6, ग्राम भवनागर
4174.	महेशचन्द्र नायक अम्बेलाल	डी० ए० ए० ए० ए०, फै० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1954	477 1-12-54	मार्फत जितेन्द्र ए० नायक, म० न० 954, पाठ- शाला भोरी, अमासिरान
4175.	महेशचन्द्र पट्टिण्ट मतीलाल	एम० डी० (आयु०), गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	8072 4-5-81	ग्राम लोहरा, ता० बीजापुर, जिला मेहसाना
4176.	महेशचन्द्र पाखिया हरि प्रसाद	डी० ए० ए० सी०, क० शुद्ध आ० कोर्स, गुजरात, 1964	1453 29-6-64	नजदीक पुनबरी, मालतबाबा, बड़ौदा
4177.	महेशचन्द्र पटेल सुरजैम	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4669 20-3-75	ग्राम एवं पो० देरोल, बड़ौदा
4178.	महेशचन्द्र पटेल नागिन भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7568 29-2-80	ग्राम बालेश्वर, ता० पाससना, जिला सूरत
4179.	महेशचन्द्र पुरोहित रमन लाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4995 17-10-75	स्टेशन रोड, ग्राम पाडरा, जिला बड़ौदा
4180.	महेशचन्द्र शुक्ल प्रकाश नारायण	बी० ए० ए० ए० ए०, विक्रम वि० वि०, 1975	9035 16-4-84	मार्फत बी० जे० शास्त्री, 124 एन० फार्डिलेन्ड गंज, ग्राम दाहोड, जिला पंचमहल
4181.	महेशचन्द्र ठेकर भूपत राय	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3334 7-2-72	गायत्री कृपा, स्टेशन प्लॉट न० 13, गोंडाल, जिला राजकोट
4182.	महेशचन्द्र उपाध्याय शानी लाल	डी० ए० ए० सी०, क० शुद्ध आ० कोर्स, गुजरात, 1965	1849 26-11-65	मार्फत गिरिजा शंकर पी० उपाध्याय, शारवा कुटीर, जागरूकी को श्री हा० सोसाईटी, मनीनगर, अहमदाबाद
4183.	महेशचन्द्र व्यास मनु शंकर	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4865 29-5-75	केवल पारि के सामने, मधु, ग्राम भावसमा, जिला मेहसाना
4184.	महेश कुमार अग्रानी अमृत लाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1984	9242 12-3-85	बिन्न कुट सोसाईटी, ग्राम धारा, ता० फंकरेज, जिला बनसिकन्या
4185.	महेश कुमार भट रतीनाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात वि० वि०, 1967	2618 19-12-67	रानिका, सिसवाहीवाली सवाक, कविकांत रोड, ग्राम भावनगर
4186.	महेश कुमार भट नन्ध लाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3139 25-2-71	प्लॉट न० 868, कुम्भनकुंज, लैबीज कालेज के पीछे, ग्राम भावनगर

1	2	3	4	5
4187.	महेश कुमार मंड मुलाजी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7398 21-11-79	ग्राम चौरादा, ता० मियागान कर्जूर, जिला बड़ौदा ।
4188.	महेश कुमार भवसार चाकू लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4755 7-4-75	ग्राम माऊ, ता० भिलोडा, जिला साबरकन्धा ।
4189.	महेश कुमार चतुर्वेदी	बी० ए० एम० एम०, द्वन्द्वीर वि० वि०, 1976	8466 3-8-82	मार्फत उमाकांत जी० जोशी सत्यनरायण स्ट्रीट, वासवाड, राजस्थान ।
4190.	महेश कुमार ववे भैनालभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4520 23-9-74	ग्राम सानोसरा, ता० शिहोर, जिला भावनगर ।
4191.	महेश कुमार दवे मोहन लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8008 17-3-81	कम्बो, मोती खादकी, ग्राम पेटलाड, जिला खेड़ा ।
4192.	महेश कुमार ववे रती लाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	8933 17-2-84	मोती खादकी, ग्राम नरोडा, ता० मिटी, जिला अहमदाबाद ।
4193.	महेश कुमार वेसाई वसन्तराय	आयुर्वेद मध्यमा, श्रा० व० ए० ए० बड़ौदा, 1978	7790 19-8-80	मार्फत भारगवराय एम० देसाई, 49/316, इलोरा पार्क, ग्राम बड़ौदा ।
4194.	महेश कुमार डांगर नागद भाठ	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8621 13-1-83	“वाववेरा” कृष्ण नगर, ग्राम वारवाल, जिला जुनागढ़ ।
4195.	महेश कुमार जाली माया शंकर	बी० एम० ए० एम०, क० शुद्ध आ० कोर्स, गुजरात 1963	1371 19-12-63	प्लॉट नं० 1336, घोघ साईकल, भावनगर ।
4196.	महेश कुमार जानी रसिक लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5287 23-3-76	ग्राम झोरी, ता० राजपीताला, जिला बड़ौचा ।
4197.	महेश कुमार जानी नर्मदा शंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5357 20-4-76	बाहरपारा, नजदीक तुहारवाड, ग्राम पालिताला, जिला भावनगर ।
4198.	महेश कुमार जानी प्रीतम लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	7854 10-10-80	हरीहर निवास साबर, राजकोट ।
4199.	महेश कुमार जोशी कांती लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3276 29-10-71	ग्राम इवार, असोपानव स्ट्रीट, जिला साबरकन्धा ।
4200.	महेश कुमार कामरा अम्बा लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3763 6-2-73	कालका पोले, कामरा बाजार, ग्राम नावियाडा ।
4201.	महेश कुमार माली हीरा लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8287 25-1-82	९/63, राज० जी० काफोनी, मुकमराम नगर, अहमदाबाद ।
4202.	महेश कुमार मेहता जटा शंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5246 5-3-76	ग्राम गाफ, ता० धान्युका, जिला अहमदाबाद ।
4203.	महेश कुमार मेहता जयश्री लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7532 15-2-80	शोकमिवाजार, ग्राम चान्दोद, ता० बाभोई, जिला बड़ौदा ।

1	2	3	4	5
4204.	महेश कुमार मोदी कानि पाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9538 28-7-86	13/भाग्योदया सोसाइटी, मार्केट यार्ड के पीछे जिला मेहसाना ।
4205.	महेश कुमार नायक वलमुख राम	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3322 29-1-72	जुवासीजी मन्दिर के पीछे, सरदार नाग के सामने, ग्राम भावनगर ।
4206.	महेश कुमार नायक अम्बामाल	आयुर्वेद मध्यमा, श्रा० द० प० स०, बड़ौदा 1973	6951 1-5-79	4/1024, कुनिया मछ, ग्राम भावनगर, ता० खैरालू, जिला मेहसाना ।
4207.	महेश कुमार पांड्या वृजलाल	बी० एम० ए० सी०, क० गुरु आ० कोर्स, गुजरात 1966	2379 25-1-67	ग्राम तालगंजरावा, ता० महुवा, जिला भावनगर ।
4208.	महेश कुमार पांड्या बह्यापाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7960 31-3-80	साँकदी वाव, बी० जी० कला, हा० ग्राम महुवा, जिला भावनगर ।
4209.	महेश कुमार पांड्या भानूभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8653 10-2-83	ग्राम रामधारी, ता० मिहोर, जिला भावनगर ।
4210.	महेश कुमार परमार कुर्नभजी	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1984	9313 2-7-85	94/2, धनवधाम नगर, आगुलोष, बरन्वा रोड, सूरत-6 ।
4211.	महेश कुमार पटेल रविजी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4227 22-2-74	13, स्वासतिक सोसाइटी, गोबारी रोड, ग्राम पलानपुर, जिला बनासकंठा ।
4212.	महेश कुमार पटेल वामनजी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5305 29-3-76	मार्केट आर० एन० पटेल, आई० के० रोड, जिला मेहसाना ।
4213.	महेश कुमार पटेल वीरचन्द दास	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	5661 3-2-77	ग्राम हुंसा, तालविसगर, जिला मेहसाना ।
4214.	महेश कुमार पटेल प्रह्लाद जी	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5872 2-9-77	ग्राम ट्रेन्ड, ता० विरमगाम, जिला अहमदाबाद ।
4215.	महेश कुमार पटेल कन्दा पाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7713 17-5-80	ग्राम नेनपुर, ता० अहमदाबाद, जिला खेड़ा ।
4216.	महेश कुमार पटेल विठ्ठल भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8709 16-3-83	ग्राम खिजासपुर, ता० घासरा, जिला खेड़ा
4217.	महेश कुमार पटेल गोर्धन भाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	8934 17-2-84	4, सत्यनारायण सोसाइटी, ग्राम नरोडा, ता० सिटी, जिला अहमदाबाद ।
4218.	महेश कुमार रावल रतीलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5279 12-3-76	मार्केट आशायी आर० के० एम० गणेश कालिया, शासक, ग्राम जूनागढ़ ।
4219.	महेश कुमार रावल विनोद गाय	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7425 12-12-79	5, गीता नगर, सोसाइटी, ज्योति, ग्राम राजकोट-2 ।
4220.	महेश कुमार रावल नटवर लाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9349 21-8-85	ग्राम बाजपुर-382870, पो० संघपुर, ता० बिजापुर, जिला मेहसाना ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4221.	महेश कुमार शाह जेट लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1969			3047 18-9-70				ग्राम श्रावण ता० आमोद, जिला बड़ौचा
4222.	महेश कुमार शाह नवनीत लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978			7554 29-2-80				वाघ भोरी, पाटा पोले, ग्राम नादिया, जिला खेड़ा
4223.	महेश कुमार शाह मनी लाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984			9389 23-9-85				आर० आर० पार्क सोसाइटी, ब्लॉक नं० 1, गांधी पार्क के सामने, हरामी रोड, बड़ौचा
4224.	महेश कुमार शाह चिमन लाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984			9444 23-12-85				ग्राम एन० पो० मेघसन, ता० मोदसा, जिला एत० के०
4225.	महेश कुमार शुक्ल चन्द्रशंकर	डी० एम० ए० एम० क० श० आ० कोर्स, गुजरात 1966			2383 3-2-67				दुकान नं० 14, एम० के० बायी, विजय रोड, भादूप, बम्बई
4226.	महेश कुमार शुक्ल शंकर लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978			7344 29-10-79				ग्राम पूर्व पोस्ट बीजापुर, ता० बालसिमोर, जिला खेड़ा
4227.	महेश कुमार तालबिया खमाजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978			7781 1-8-80				ग्राम चारखादिया, ता० सावरकुण्डला, जिला भावनगर
4228.	महेश कुमार उपाध्याय धीरज लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976			5685 24-2-77				म० नं० 1496/1, मोती बासनहेरी, सारसपुर, अहमदाबाद
4229.	महेश कुमार उपाध्याय बलवन्त राय	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984			8324 25-7-85				गोपाल भूषण, गिरी स्कूल के सामने, स्टेशन प्लाट, ग्राम धारी, जिला अमरेली
4230.	महेश कुमार व्यास परमानन्द	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1978			7210 28-8-79				ग्राम बोलुसाहरा, ता० सोमा, जिला सागरकंधा
4231.	महेश कुमार यागनिक विष्णु प्रसाद	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1968			2931 24-3-70				नारायण वैद्य शंख, ग्राम मनमा, ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा
4232.	महेश सिंह अशोक	बी० एम० ए० एम० कानपुर वि० वि० 1974			4630 24-2-75				मार्फत राजपाल सिंह, पट्टनी नगर, कमरा नं० 94/3, चमनपुरा, अहमदाबाद
4233.	महेश्वरी भट जय नारायण	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1977			6867 2-4-79				32 भूलाभाई कालोनी, इंडोफ मावेरू पुल, नवरंगपुरा, अहमदाबाद
4234.	महियान कुमार भट चन्द्रपाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1973			4466 29-8-74				स्वामी नारायण मन्दिर, ग्राम धमना, ता० आनन्द, जिला खेड़ा
4235.	महिनद्र कुमार छाता भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979			8051 27-8-81				खडक । विधानी, ता० सोंगाध, बाया व्यारा, जिला मूरत
4236.	महिनत कौरिया वाणू राम भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1977			7329 15-10-79				ग्राम जापोदा, बाया बन्धाली, जिला जुनागढ़
4237.	महिनत राम अशोक विठ्ठल राम	डी० ए० एम० एफ० कै० ऑफ आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1954			43 1-3-56				गांधी रोड, ग्राम कुतियाता, जिला जुनागढ़

1	2	3	4	5
4238.	महिपत राम मेहता बुर्गा गंकर	आयुर्वेद मध्यमा श्रा० द० प० स० बड़ौदा 1978	6682 3-3-79	मार्कन मेहता आ० श्रोत्रघिया, ग्राम पानवी, बाया बाल्लभीपुर, जिला भावनगर
4239.	महिपत सिंह रोलजी शिख सिंह	बी० ए० एम० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1984	9423 2-12-85	जुगराज फण्ड ग्राम एवं पो० आ० कोताम्भा, ता० नांगरोल, जिला सुरत
4240.	महिपत सिंह सरकाहिया धनुभा	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1975	5967 21-11-77	ग्राम दया बया तालालजब, जिला भावनगर
4241.	महिपत सिंह सयानिया मोहन सिंह	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7961 3-2-81	ग्राम एवं पो० आ० बाकवेर, त० वडोली, जिला सुरत
4242.	महोबत सिंह अजय सिंह	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7625 20-3-80	ग्राम एवं पो० आ० धुवारन, ता० खम्मत, जिला, खेड़ा
4243.	महोबत सिंह सिध भीष्मभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8650 10-2-83	ग्राम कौठ, ता० धीरुका, जिला अहमदाबाद
4244.	मयसामली भइ हमन भाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9395 23-9-85	ग्राम जेठीपुरा-383110, पो० आ० जावर, ता० हवार, जिला एम० के०
4245.	मकरन्द पारखी सवाई लाल	डी० ए० एम० एफ० कै० आ० यू० वि० प०, बम्बई 1951	2180 10-10-51	भूमदी गैट रोड, नागरबादो, ग्राम एवं पोस्ट पाठम जिला मेहसाना
4246.	मकमुल्लुसेन शोब गुलाम हुसैन	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1973	4465 29-8-74	बाहोबवि, ग्राम अलिना, ता० नदिपाड जिला खड्डा
4247.	मखुबा जाला रानिभा	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1981	8565 20-10-82	ग्राम मोटा घाबिया, पो० जानजाखा, ता० घान्धुका जिला अहमदाबाद
4248.	माँडे बाजा राजा	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1980	8808 21-7-83	ग्राम मन्दिरा माधवपुर (घेड) ता० पोरबन्दर, जिला जूनागढ़
4249.	मालती अजबानी सुमन राय	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1981	8715 16-3-83	4, प्रणव सोसाईटी, श्री विजय टाईप क्लास, जवाहर चोक, मनी नगर, अहमदाबाद
4250.	मालती भट उमाकाश	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1973	4325 8-4-74	महात्मा गांधी रोड, कानसार बाजार, ग्राम बड़ौदा
4251.	मालती कनोजिया दसन्त राय	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1974	5001 17-10-75	पंचेश्वर चौक, लक्ष्मी नारायण मन्दिर, ग्राम जामनगर
4252.	मालती शाह रमन लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1983	8983 12-3-84	10, श्री बुधा सीसाईटी, 'भिरिराज' हलार रोड, ग्राम वाससाद-396001
4353.	मालती थानकी वल्लभ बास	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1972	3915 7-4-73	महाप्रभुजी बेटक, महात्मा गांधी रोड, पोरबन्दर, जिला जूनागढ़
4254.	मालती थ्यास मनसिंह लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1971	3407 1-3-72	उमांग परिवार सोसाईटी, बस स्टैण्ड के पीछे, वासना, अहमदाबाद

1	2	3	3	5
4255.	मालतीबेन मेहता जय नन्व	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1970	5462 14-7-76	बिवाली पोमे, ग्राम नाविय 1, जिला खेडा
4256.	मालतीबेन पटेल ठाकोर भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1978	7384 19-11-79	ग्राम कचक, ता० बा दौली, जिला सूरत
4257.	मालविका नायक रणजीत राय	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1973	4628 17-2-75	105' नवमीत भूबन' पुरानी पुलिस चौकी के सामने' मनी भगर, अहमदाबाद
4258.	मालविका निस्ती नवनीत लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1977	6242 19-8-78	म० नं० 521, राणेश्वरजी, मोहल नवसारी, जिला वससाद
4259.	मालविका वामन बालकृष्ण लाल	डी० ए० एस० एफ० फैक० आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1955	1010 1-7-55	मेतामिया, मेगरोल, जिला सूरत
4260.	मालदान देवहातिका हृषभाई	एच० प्री० ए० पो० प्रे० ट्रे० से० अ०, जामनगर 1966	2434 17-3-67	प्रिसिपल बंगला, हार्ड कोर्ट रोड, मो० आ० के सामने, भावमगर
4261.	मलिका शाह सराभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1977	6669 28-2-79	मकोडी पोले' मागजीभादर पोले, मण्डली पोले, अहमदाबाद
4262.	मल्लिकान्त बंध मनीलाल	डी० ए० एस० एफ० फैक० आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1955	2468 3-1-55	1082, लुहार पोले, मछीपिटा, ग्राम सूरत
4263.	ममता निमबाई हनुभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1979	8555 16-9-82	ग्राम थिकटर, ता० राजूल ' जिला अमदेली
4264.	ममता पापेरी कातिभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1981	9573 23-9-86	'ममता' 9, विजय प्लाट, ग्राम व जिला राजकोट
4265.	ममता पान्क्या कृष्ण लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1981	8385 24-3-82	7, अराधना पार्क, जबाहर चौक, साबरमती, अहमदाबाद
4266.	ममवेणी व्यास नारसिंहर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1978	6271 11-9-78	मार्फत बी० एन० व्यास, क्या वासमजी बिल्डिंग 12, 3 ज० प्लाट राजकोट
4267.	मनहर भाई पटेल जीवन भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1977	7472 2-1-80	ग्राम बीरपुर ता० बालसिमोर, जिला खेडा
4268.	मनहर दान लखड़ीर राजभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1975	5545 28-9-76	कफिया प्लाट नजदीक भाविया कुवा, ग्राम जेट ३ र जिला राजकोट
4269.	मनहर लाल जामी मगन लाल	डी० ए० एस० एफ० फैक० आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1954	201 1-6-55	23, पुष्प कुंज सोसाइटी, भालेज रोड ग्राम जानन्द जिला खेडा
4270.	ममबर लाल निमबत रामलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1978	7403 27-11-79	गंजीबाव ग्राम सिवबादर जिला जूनागढ़
4271.	मनहर लाल शाह भाई लाल भाई	जी० एफ० ए० एम० फै० आफ यू० वि० प०, गुजरात 1962	1200 14-8-62	प्लॉक नं० 13/3/1, सर्वोदय सोसाइटी शाहपुर गेट से बाहर, अहमदाबाद

1	2	3	4	5
4272.	मनहर लाल शुक्ल आठ शंकर	एल० ए० एम० यू० पी० आ० महाविद्यालय, पाटन (बड़ौदा राज्य) 1937	1529 18-8-43	मोती कान पोल, ग्राम खम्भात, जिला खेड़ा
4273.	मनसोलयाम अडवा शुषि	एल० ए० पी० म० आ० बो०, जईबलपुर 1959	7819 17-9-80	मिस रोड ग्राम नाईबाद, जिला खेड़ा
4274.	मनसुख कोठारी मोहन लाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1976	5943 26-10-77	ग्राम भाभर, ता० वियोदार जिला बानसकंधा
4275.	मनसुख लाल गजेरा काबाभाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1980	8150 3-9-81	ग्राम सुखपुरा, बाया बावल, (सीराथ) जिला जूनागढ़
4276.	मनसुख लाल घोषासार गोधीन भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1978	7225 23-8-79	ग्राम कोयाली, बाय सापुर, जिला जूनागढ़
4277.	मनसुख लाल जोषी छगन लाल	डी० ए० ए० एफ० फैक० आ० यू० सि० मेडो०, बम्बई 1954	250 1-3-55	धोली कुई, ग्राम कपदबाज, जिला खेड़ा
4278.	मनछाराम गोंडानिया मरनदास	बी० ए० ए० एम० गुजरात आ० वि० व० 1971	3676 2-11-72	ग्राम लापमिया, ता० एवं जिला अमरेली
4279.	मनरंज कुमार मुनरिया जशवंत लाल	बी० ए० ए० एम० बम्बई वि० वि० 1982	9164 17-10-84	स्मृति मवन, बीरवेय, ग्राम नवसारी, ता० एवं जिला बलसाघ
4280.	मनराजिनी मट शिकर राव	बी० ए० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1971	3337 7-2-72	मार्फत डा० डी० वी० पट्टाट म० 486 स्वारा- राय, शिशु विशार के पास, कृष्ण नगर, भावनगर
4281.	मन्दाकिनी कामतेकर गोपाल राव	डी० ए० ए० एफ० फैक० आ० यू० सि० मेडो०, बम्बई 1949	106 25-4-51	सरभाई मोठा, मध धालवास, ग्राम पावनपुर जिला बानसकंधा
4282.	मनकसाव दवे हरी लाल	डी० ए० ए० एफ० फैक० आ० यू० सि० मेडो०, बम्बई 1949	2590 20-2-49	डिसेंसरी, ग्राम कार्बेज, बाया शिहोर, जिला भावनगर
4283.	मनेकलाल रावण सकल चन्ध	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5412 4-6-76	ग्राम पालुडरा, ता० प्रांतिज, जिला साबरकंधा
4284.	मंगल व्यास मणिसंकर	डी० ए० ए० एफ० फैक० आ० यू० सि० मेडो०, बम्बई 1945	1100 3-11-41	दारू फालिया, गोपीपुरा, सुरत-2
4285.	मंगला श्रीकांठे जगन्नाथ	डी० ए० ए० एम० फै० आ० यू० आ० मेडो०, बम्बई 1946	1297 31-5-48	तिबि राहुत बंजल, ग्राम एवं जिला सुरेन्द्र नगर
4286.	मंगल राम भिल्लो बाबल दास	बी० ए० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1963	1334 2-1-64	ग्राम अविधा, बाया अकलेश्वर, जिला बरोच, (बड़ौचा)
4287.	मंगलदास रावल वल्लू राम	बी० ए० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1971	3372 16-2-72	ग्राम भांगरीदिया, पी० मगरवाडा, ता० वादगाम, जिला साबरकंधा
4288.	मंगला पुंजानी जेठा लाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1977	8276 16-1-82	मार्फत आर० जे० पुंजानी, पटेल कालोनी, सेरी न० 6, डा० नन्काद के सामने, ग्राम नमगरा

1	2	3	4	5
4289.	मंगलनन्वजी स्वामी विद्यानन्व जी	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1968	2789 17-6-69	गीता मन्दिर, अहमदाबाद
4290.	मंगल सिंह गोहिल अभुभा	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1977	6281 20-9-78	ग्राम व पो० पाडोली, ता० पेतलाद, जिला खेड़ा
4291.	मंगीलाल पाषिघार मदानिश	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1972	3921 13-4-73	ग्राम व पो० दान्ता, जिला धानसकन्धा
4292.	मंगललाल किसानी पुरुषोत्तम भाई	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1970	3154 11-3-71	ग्राम भाङ्गारिया बाया धासा, जन० ता० गधरडा, जिला भावनगर
4293.	मनाजी भाई बाराहया सुरमा भा	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1978	7513 15-2-80	ग्राम मोती मीयादो, ता० मेघराज, जिला साबर- कन्धा
4294.	मनजी भाई बाधसिया मोहन भाई	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1978	7747 30-6-80	नजवीक बस स्टैंड, ग्राम धोर ता० गारिघार, जिला भावनगर
4295.	मनहर भाई जोशी रत्नीलाल	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1974	4828 8-5-75	ए० सी० सी० सीमेंट फ०, ग्राम सेवासिया, ता० धासरा, जिला खेड़ा
4296.	मनहर भाई कोली कंचम भाई	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1982	9151 1-10-84	ग्राम व पो० कालरामी, ता० जेटपुर, पाभी, जिला बड़ौदा
4297.	मानक चन्द पट्टिकर बालू राम	बी० ए० ए० ए० इन्दौर वि० वि० 1974	6211 3-8-78	ग्राम व पो० लोभारा, जिला खर्गोने
4298.	मनहर भाई पटेल हेसाई भाई	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1976	5676 24-2-77	ग्राम तारगिया, पो० जगादी, ता० धासरा, जिला खेड़ा
4299.	मनहर कुमार पटेल मणिलाल	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1984	9450 23-12-85	ग्राम व पो० आ० कामिल, ता० विन्दापुर, जिला मेहसाना
4300.	मनहर लाल मेहता, नागिन बास]	जी० ए० ए० ए० फैर० आ० यू० मि० मेडो०, बम्बई 1960	915 23-10-61	मार्फत डा० हरमोहन दास ज० मेहता, महाराष्ट्र पोल, विरमगाम
4301.	मनहर लाल पटेल छोटा लाल]	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1971	3683 13-11-72	ग्राम व पो० गंगाधर, ता० पोलसाना, जिला सूरत
4302.	मनहर लाल पटेल रामजी भाई	बी० ए० ए० ए० कानपुर वि० वि० 1975	5798 30-4-77	परा धौरी, ग्राम गोम्बाल, जिला राजकोट
4303.	मनहर लाल पटेल मोहन लाल]	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1980	8775 16-6-83	ग्राम व पो० उधरान, ता० मालपुर, जिला साबरकन्धा
4304.	मनहर लाल पटेल कानिलाल	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1984	9329 9-8-85	ग्राम व पोस्ट आ० सालेईया, ता० बालसिमोर, जिला खेड़ा
4305.]	मनहर लाल रामनुज सन्तोशराम	डी० ए० ए० सी० क० शु० आ० कोर्स, गुजरात 1966	2142 17-9-66	ग्राम मांढव, बाया धोला जन० ता० गधाडा, जिला भावनगर

1	2	3	4	5
4306.	मनहूरलाल राजवं खाशु भाई	डी० ए० ए० ए० ए० कै० आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1954	984 3-1-55	ग्राम धारगाम, ता० शिखोली बायां एवं जिला बलसाद
4307.	मनहूर लाल ठाकर फूल शंकर	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1953	8167 10-9-81	मार्फत फुलशंकर लक्ष्मी शंकर वैद्य, मकनानी शरी, शरी, ग्राम टांकरा, ता० मोराबी जिला राजकोट
4308.	मनहूर लाल त्रिवेदी शिमन लाल	डी० ए० ए० सी० क० यु० आ० कोर्स, गुजरात 1961	325 13-10-61	आर० ए० पाठस्कर हाऊस, वेवला खानवा नवा बाजार, बड़ौदा
4309.	मनहूर लाल वैद्य अम्बा लाल	आयुर्वेद विशारद एम० ए० वि० वि० 1941	1926 3-11-41	नरसिजी पोल, दासा पटेल, पोल बड़ौदा
4310.	मनहूर सिंह गेहेल जालम सिंह	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1979	7934 29-12-80	ग्राम एवं पो० हरमविया बायां भीरवल ता० कोडी नार, जिला अमरेली
4311.	मनीबेन देवदा बलदेव जी	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1978	8996 28-3-84	हिरमा खावाकी, खोखरा, अहमदाबाद-8
4312.	मनीभाई पटेल वह्या भाई	डी० ए० ए० ए० ए० कै० आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1965	1791	ग्राम गड़ौदा, ता० आनन्द, जिला खेड़ा
4313.	मनीभाई पटेल केयाब लाल	डी० ए० ए० सी० क० यु० आ० कोर्स, गुजरात 1966	2096 12-7-66	अल्देसन, ता० कादी, जिला मेहसाना
4314.	मनी भाई पटेल खोघरास	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1973	6996 7-5-79	टाबर रोड, ग्राम बोसाद, बायां आनन्द, जिला खेड़ा
4315.	मनीभाई वैद्य नारायण भाई	आ० विशारद नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1955	9109 3-7-84	हाथी पोल, राज माहाल रोड, ग्राम बड़ौदा
4316.	मनीलाल ब्रह्मभाई कालीदास	ए० ए० ए० ए० यू० पी० आ० महाविद्यालय, पाटन (बड़ौदा रा०) 1938	794 12-2-41	भोठयू० पी० आयु० रिसर्च कालेज ज, बड़ौदा
4317.	मनी लाल चौहान सोमचन्द्र	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1978	5727 15-3-77	1252, पट निवास, मजपौर के पास, जामलपु अहमदाबाद
4318.	मनीलाल दवे शं नभाई	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1977	6046 24-2-78	ग्राम मनसा, ता० बीजापुर, जिला मेहसाना
4319.	मनीलाल गोहिल बरुभाई	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1974	5000 17-10-75	10-बी, गौतम नगर सोसाइटी, अहमदाबाद
4320.	मनीलाल जोशी धनराम	आयुर्वेद मध्यमा श्रा० द० प० स०, बड़ौदा 1975	6521 1-2-79	उदय आयुर्वेद चिकित्सालय, लक्ष्मी नगर, मानसरीबर रोड, ग्राम पालन मध्यमपुर, जिला बानसकन्था
4321.	मनीलाल कक्कड़ हरीदास	वैद्य विशारद नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1970	6501 1-7-79	ग्राम बालेसूज, बायां माधवपुर, (फेड) ता० पोर- बन्धर, जिला जुनागढ़
4322.	मनीलाल कक्कड़ गोर्जन भाई	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1977	6834 22-3-79	ग्राम आकोलवादी (गिर) ता० तालावा गिर, जिला जुनागढ़

1	2	3	4	5
4323.	मनीलाल पटेल द्वारका दाम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1988	2948 6-4-70	ग्राम कार्मपुर, पो० धुधार ता० द्विमत नगर, जिला साबरकन्धा
4324.	मनीलाल पटेल हरजीवन दाम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3801 19-2-73	ग्राम मनुव ता० पाटन, जिला मेहसाणा
4325.	मनीलाल पटेल पुंजी राम दास	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1976	5050 26-10-77	ग्राम मोर्करा, ता० घनस्मा, जिला मेहसाणा
4326.	मनीलाल तिलावत जमना दाम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1977	6335 4-10-78	ग्राम वावला, ता० सनायदार, जिला जूनागढ़
4327.	मनीलाल बाँकर लालाजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1981	8499 27-8-83	ग्राम ब पो० छेलबनत, ता० छोटा उदयपुर, जिला बड़ोदा
4328.	मनिन्द्र कुमार श्याम अनन्त लाल	बी० ए० एम० एम० विश्वम वि० वि० 1978	7807 9-9-80	गुज० आ० वि० वि०, बी० पी० जी० टी० आर० होस्टल, ग्राम जामनगर
4329.	मनीराम लक्ष्मी नरसिंग दाम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1977	6978 7-5-79	ग्राम खावला, जिला गेड ता० मावरकुण्डल, जिला भावनगर
4330.	मनीराम त्रिवेदी भानू शंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1977	6396 27-10-78	माफत बी० जे० त्रिवेदी, टाटा केमिकल्स लि०, ग्राम ब पो० मियपुर, ता० जोखमडल, जिला जामनगर
4331.	मनीषा छत्रपति कासिक लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8637 28-1-83	150, एम० आर्डी० जी० शास्त्री नगर, ग्राम ब जिला भावनगर
4332.	मनिशा पोपत नारन दाम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1974	4641 8-3-75	माफत के० पी० बायीवाली, नवापारा, ग्राम खम्भातिया, जिला जामनगर
4333.	मनिशा ठाकर कनुभाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1984	9393 23-9-85	पी 26, टाक्डर क्वार्टर, जैल रोड, ग्राम गडौदा— 390001
4334.	मनिशा उवाध्याय रजनी कान्त	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8564 20-10-82	2, सनमान सोसाइटी, ग्राम ब पो० तालोद, ता० प्रांतिज, जिला साबरकन्धा
4335.	मनजारी बैद्य प्रफुल्ल भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7326 15-10-79	1, आदर्श सोसाइटी, अथवा सूत, ग्राम सुरत
4336.	मांजी भाई कट्टोडिया शामजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1970	3197 18-5-71	भाई रावनाथ रोड, ग्राम गारीवाधर, जिला भावनगर
4337.	मंजूला भंड द्विमत लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1973	4398 6-6-74	वादी, सोनी पोल नं० 4, ग्राम गडौदा
4338.	मंजूला मेहता अम्बा शंकर	एम० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4650 12-3-75	रज० आ० काली ज, ग्राम गडौदा
4339.	मंजूला पान्थ, मा रसिकलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4365 30-4-74	26, मेघनूत सोसाइटी, करेली बाग, ग्राम गडौदा

1	2	3	4	5
4340.	मंजुला पटेल गम्भू प्रसाद	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1979	7943 17-1-81	16, योगीराज को० आ 2 द्वा० सोमावटी, रतिप, अहमदाबाद
4341.	मंजुला शाह हसमुबला	बी० ए० ए० पी० कै० आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1951	1208 1-10-54	मखार चौक, ग्राम नवापुर, जिला (महाराष्ट्र)
4342.	मंजुला शाह मनीमाल	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1980	8286 24-1-82	ग्राम न पो० कुराल, ता० पाडरा, जिला बड़ौदा
4343.	मंजुला शाह शांति लाल	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1978	8582 3-11-82	योगशैम पाबी पोल, रावपुरा, बड़ौदा
4344.	मंजुला तेराईया पुन्योत्तम	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1972	5638 21-12-78	काशी विश्वनाथ, रोड, स्टै० प्लॉट ग्राम गौल, जिला राजकोट
4345.	मंजुलाबेन गोदिल राम सिंह	बी० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8578 21-10-82	ग्राम माणोव, पो० पुना-शुम्भारिया, जिला सूरत
4346.	मंजुलाबेन पटेल प्रवीण कुमार	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1981	8635 28-1-83	91, शांति नगर, सोमावटी, वारडा रोड, सूरत-6
4347.	मंजुलाबेन पटेल रायसिंह भाई	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8853 6-10-83	ग्राम न पो० नवनाद ता० वासन्दा जिला खानसाब ।
4348.	मंजुलाबेन प्रजापति भिक्षाभाई	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि०, 1979	7911 3-12-80	ग्राम ए० पो० भानेर, तौ० नादियाड, जिला खेड़ा ।
4349.	मंजुलाबेन राबेरबाला नाथुभाई	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1969	3002 17-7-70	मार्केट भांकेर बी० पटेल कमरपोल बादी चोखाडी, बड़ौदा ।
4350.	मंजुल अहमद मेमान अलिभाई	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1978	7424 12-12-79	ग्राम उमाला, धाया मंजुलेश्वर, जिला बड़ौदा ।
4351.	मनोहर नन्दुरभारकर लक्ष्मणराव	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1978	5811 24-5-77	ग्राम वासो, धाया नादियाड, जिला खेड़ा ।
4352.	मनोहर पाटिल रोहिणिस	बी० ए० ए० ए० पूना वि० वि० 1974	5078 15-12-75	ग्राम ब्रह्मपुर, ता० शाहावा, जिला धुलिया ।
4353.	मनोज मेहता रसिकलाल	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1981	8310 5-2-82	शांति भुवन, स्टै० पालनपुर पोछे, जिला। खानसकन्या ।
4354.	मनोज कुमार कामवार हसमुबलाय	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1984	9507 12-6-86	8/स्टेशन प्लॉट, तातफालिया हुसमान के सामने, ग्राम गोन्डाल-360311 ।
4355.	मनोज कुमार पाण्ड्या गणपतराय	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1979	7881 14-11-80	धाया फालिया, धभां, ता० नादियाड, जिला खेड़ा ।
4356.	मनोज कुमार पटेल पद्मभाई	आयुर्वेद विशारद, बोःडं आफ ई० मे० सीराष्ट्र, 1961	2270 24-3-61	शास्त्रीनगर, एम० आई० जी०, 132, ग्राम भावनगर ।

1	2	3	4	5
4357.	मनोज कुमार पटेल हिम्मतलाल	बी० ए० एम० एम० इन्दोर वि० वि०, 1976	5805 24-5-77	2, गुम्हावादी, ग्राम राजकोट ।
4358.	मनोज कुमार पाठक जयशंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7520 15-2-80	ग्राम बिजोवरा ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा ।
4359.	मनोज कुमार शैठ कान्ती लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1968	2808 13-8-69	1173, सालबी पोस्ट, रायबाब अहमदाबाद ।
4360.	मनोज कुमार उपाध्याय किशोर चन्द्र	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1985	9548 18-8-86	“कल्याण कंज” स्टेशन रोड, जमना बैंक के नजदीक, ग्राम व ता० धानुका, जिला अहमदा- बाद ।
4361.	मनोरमा भट्ट यशवन्तराय	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6388 27-10-79	“केशवकुटीर”, पुराना मनीकवादी, ग्राम भावनगर
4362.	मनोरमा कुमारी जीवरी अर्जुन सिंह	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	8028 10-4-81	ग्राम व पो० लोटरवा, ता० ध्यारा, जिला सूरत ।
4363.	मनोरदास निमावत केशवदास	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5781 30-4-77	ग्राम ईश्वरिया, बाया लुमिघर, ता० कुकबाब, जिला अमरेली ।
4364.	मनोहर वैष्णव जयन्तिलाल	जी० एफ० ए० एम०, फैक० अ० यू० सि० मंडी० गुजरात, 1962	1066 29-8-63	अहमपुर, जे० पी० वैष्णव हाऊस, ग्राम भुज, जिला कच्छ ।
4365.	मानसांग मोहित रतनसांग	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1980]	8170 10-9-81	सुभाष नगर, अम्बियर, साबरमती, ग्राम- अहमदाबाद ।
4366.	मनसांग परमार जैठभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	5018 28-10-75]	ग्राम मोटा सूरत, बाया सिहोर, जिला भाव- नगर ।
4367.	मानशर लाल कोसाविया रमन लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5489 11-8-76	ग्राम कोमाद, बाया उजान, ता० चार्यसी, जिला सूरत ।
4368.	मनसिखालाल अमरेलिया माल्जी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3567 30-8-72	ग्राम सारंगपुर, ग्राम रेवनाम, ता० कुकबाब, अमरेली ।
4369.	मनसिखालाल दाम्भादिया केजब	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4215 19-2-74	गलिबाब (गिर) ता० ताकाल, जिला जूनागढ़
4370.	मनसिखलाल भोरा भाबू लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3809 21-2-73	मार्शल खोदिदासभाई पटेल, हाबाबाता रोड, नजदीक वाटरटैंक, ग्राम राजकोट ।
4371.	मानसिंह गामित ठाकोरभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8512 27-8-82	ग्राम इनामा, पो० मुन्हाडा, ता० बाणोद, जिला सूरत ।
4372.	मानसिंह भाई भामन वल्लभभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	6036 16-2-78	ग्राम गाडा, ता० सात्सगामपुर, जिला पंचमहल ।
4373.	मान सुब्बाकिरी गोस्वामी महाराजगिरी	बी० एम० ए० एम०, आ० वि० वि०, 1973	4439 6-8-74	ग्राम चारवादी, बाया गौमता, ता० मोन्हाल, जिला राजकोट ।

1	2	3	4	5
4374.	मानसुखकुमार बेकरिया विराजीभाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1984	9372 2-9-85	"अवधेश" गांधीग्राम, ग्राम जूनागढ़-382001।
4375.	मनसुखलाल अभावत वरूजदास	बी० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1985	7452 21-12-79	ग्राम गिरगघाडा, ता० उता, जिला जूनागढ़।
4376.	मनसुखलाल आर्देशना माकनभाई	बी० एम० ए० एम०, ¹ गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3955 1-6-73	ग्राम देवाडा, बाया कृतियाना, जिला जूनागढ़।
4377.	मनसुखलाल भट जगजीवनदास	एल० ए० एम०, यू० पी० आ० महा० पाठन (बढ़ीया राज्य) 1935	847 2-12-52	582/बी, धन्वन्तरी प्लोड मानेकवाडी, भावनगर।
4378.	मनसुखलाल भट प्रभुलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3660 19-10-72	ग्राम साधोसर, बाया घारफडा, ता० नाम जोधपुर, जिला जामनगर।
4379.	मनसुखलाल भट जयन्ती लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, ¹ 1973	4835 8-5-75	ग्राम नानी मानपरी, बाया विसबाबा, जिला जूनागढ़।
4380.	मनसुखलाल भालरा पोपटलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, ¹ 1968	2764 10-4-69	ग्राम टांकरा, ता० मोर्बी, जिला राजकोट।
4381.	मनसुखलाल भान्नाडिया परमोत्तमभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3896 27-3-73	माफत जीवनलाल के० गोवानी, ग्राम सुपेरी, ता० धोराजी, जिला राजकोट।
4382.	मनसुखलाल भायनी णम्भूभाई	बी० ए० एम० एम०, ¹ गुजरात आ० वि० वि०, 1984	9383 23-9-95	ग्राम मोटा कोटाडा-382020, बाया भेसन, ता० विसबाबर, जिला जूनागढ़।
4383.	मनसुखलाल चौहान कानजीभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8312 5-2-82	ग्राम-पो० सुधोस्त, बाया अमरान, ता० जोधिया, जिला जूनागढ़-383855।
4384.	मनसुखलाल दवे नन्दुनाथ	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली, 1975	6629 21-2-79	देवीकटूपा, नीलकण्ठ मिनेमा के पीछे, ग्राम राजकोट।
4385.	मनसुखलाल देमाई मोहनलाल	बी० एम० ए० एम०, क० शु० आ० कोर्स, गुजरात, 1962	431 27-6-62	ग्राम वासवाडा तालगोनडाल, जिला राजकोट।
4386.	मनसुखलाल गोधानी देवगिभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3983 31-7-73	ग्राम लोलाकी बाया उलोटा, जिला राजकोट।
4387.	मनसुखलाल जोशी प्राजिवन	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली, 1973	8097 20-6-81	ग्राम कोठारिया, ता० वांकनोर, जिला राजकोट।
4388.	मनसुखलाल कबा रामजी	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3858 8-3-73	नमदीक ग्राम कुवा, ग्राम व पो० जामबन्धसी, ग्राम जामनगर।
4389.	मनसुखलाल कामगारा लाधभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	6077 15-3-78	ग्राम व पो० धांक, बाया घायाधदार, ता० उपलेटा जिला राजकोट।
4390.	मनसुखलाल मधुकिया गोकलदास	बी० एम० ए० एम०, ¹ गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3751 6-2-73	विजय चौक, ग्राम कागसारा (मेथानी), ता० बीघ, जिला अमरेली।

1	2	3	4	5
4391.	मनसुखलाल मेवाणिया पोपटखाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6219 3-8-78	प्राईमरी हेल्थ सेंटर, ग्राम चारवा, ता० विजापुर, जिला मेहसना ।
4392.	मनसुखलाल मोतेरिया अर्जनभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4796 24-4-75	मार्फत ए० के० मोर्ये, डेरा खेरी, ग्राम राजकोट ।
4393.	मनसुखलाल नाकरानी गोविन्द भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8617 13-1-83	ग्राम जामबोधोधापुर, नया प्लोट, जिला जामनगर ।
4394.	मनसुखलाल पधवर नरथाभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3868 13-3-73	ग्राम धाक, बाया भायवदार, ता० उपलेटा, जिला राजकोट ।
4395.	मनसुखलाल पांड्या जटाशंकर	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1966	2340 17-12-66	मार्फत डा० जे० बी० पांड्या ग्राम बपो० कोलकी, बाया उपलेटा जिला राजकोट ।
4396.	मनसुखलाल पुरोहित बासुराम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4674 21-3-75	ग्राम माजिवन, बाया बागवदार, ता० पोरबन्दर, जिला जूनागढ़ ।
4397.	मनसुखलाल पुरोहित नरथालाल	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली, 1963	7952 17-1-81	ग्राम बपो० कालवानी, ता० केशोड, जिला जूनागढ़ ।
4398.	मनसुखलाल रानिया शिवलाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1983	9003 28-3-84	थाल बाजार, ग्राम गारीयाधार, जिला भावनगर ।
4399.	मानसुखलाल रमणी मोहनलाल	आयुर्वेद मध्यमा, आ० व० ए० ए०, बड़ोया, 1978	6571 16-2-79	ग्राम कालसारी, बाया बिस्वादार, जिला जूनागढ़ ।
4400.	मनसुखलाल राणा लालभाई	डी० एम० ए० सी०, क० शा० आ० कोर्स, गुजरात, 1963	1359 22-11-63	फटा तालव, ग्राम बड़ोया ।
4401.	मनसुखलाल सारखाईया पनावरद	आयुर्वेद विशारद, बोर्ड ई० के० सोराष्ट्र, 1961	2205 20-3-61	लखनका आय० डिस्पेंसरी, ग्राम माखनवार, बाया खादनालिया, जिला भावनगर ।
4402.	मनसुखलाल शोलाविया मधुभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5446 15-7-76	ग्राम हगनाथपुर, बाया भोटा-मामघियाला, जिला अमरेली ।
4403.	मनसुखलाल शेठ नरथालाल	डी० ए० एस० एफ०, फैक० आ० यू० सी० मेडि० बम्बई, 1954	1290 1-4-54	ग्राम छोटवाणी, बाया एब० जिला जूनागढ़ ।
4404.	मनसुखलाल सोहेनिया मरसिंह दास	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली, 1964	6687 3-3-79	कोटाक खेरी, ग्राम पावधारी, जिला राजकोट ।
4405.	मनसुखलाल तारवावी यादवभाई	डी० एस० ए० सी०, क० शु० आ० कोर्स, गुजरात, 1963	290 17-9-63	ग्राम नाजार, ता० निजार, जिला सुरत ।
4406.	मनसुखलाल त्रिवेदी ओघवजी	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली, 1972	6630 21-2-79	ग्राम खेड़ा, ता० बारवाल, जिला जूनागढ़ ।
4407.	मनसुखलाल जलावाविया गोवीन	एम० ए० एम० एफ०, ज० का० स्टे० फौ० आफ० मेडिसिन, प० बंगाल अंब व० व० आफ० प० कलकत्ता, 1972	7163 2-8-79	खिजवा खेरी, ग्राम भयवदार, ता० उपलेटा, जिला राजकोट ।

1	2	3	4	5
4408.	मनसूर भेड़ियानी मवलवीनभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8838 6-9-83	प्लॉक नं० जी-15 (21671), रणजीत नगर ग्राम-जामिनगर।
4409.	मनुबेन सोवकी गोमोन भाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9576 23-9-86	गायत्री सोसाइटी, ग्राम-सयान, ता०-ओलपा, जिला-सूरत।
4410.	मनुभाई अलानी कृष्ण भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4540 5-10-74	अलानीपारा, ग्राम-विछिया, ता० जाशवान, जिला-राजकोट।
4411.	मनुभाई मिदीभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6063 8-3-78	काजुरिया स्ट्रीट, वकानबारा, (टिब) सौराष्ट्र।
4412.	मनुभाई भट कृष्णशंकर	आयुर्वेद अर्थकार आ० का० गुणकुल वि० वि० कांगड़ी (हरिद्वार) 1937	848 10-4-41	जैन धर्मशाला के सामने, ग्राम-वलसाद।
4413.	मनुभाई भट जटाशंकर	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आ० विद्यापीठ, विल्ली, 1963	584 3-11-82	बकभावन सोसाइटी, जनता आईस रोड, सुरेन्द्रनगर।
4414.	मनुभाई बाभी भगवानभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	8112 17-7-81	कमरा नं० 107, गुज० मलाम्ब बोर्ड, ग्राम भावनगर।
4415.	मनुभाई घने प्राणभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6440 15-12-78	मार्फत बीपकभाई दावे, नीलकण्ठ नगर, वि० वि०, रोड, राजकोट।
4416.	मनुभाई बेनाई मोहनभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3958 13-6-73	ग्राम पानिया कानुबेना, बागसर, ता० व जिला अमरेली।
4417.	मनुभाई गोबानी तुलसीभाई	बी० एम० ए० एम०, क० गु० आ० कोर्त, गुजरात 1964	1466 30-6-64	पब्लिक डिस्पेन्सरी, बस स्टैंड के सामने, ठाकुर- बापनगर, अहमदाबाद।
4418.	मनुभाई गोहिल नारणभाई गोहिल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	8183 22-9-81	ग्राम गोहिल खान, ता० कोबिनार, जिला अमरेली।
4419.	मनुभाई कपोपरा वल्लभभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8640 28-1-83	ग्राम गिरगवाडा, ता० उना, जिला जूनागढ़
4420.	मनुभाई माझावाधिया नरसिंह	बी० ए० एम० एम०, कानपुर वि० वि०, 1972	4409 12-6-74	रसिकभवन, महादेव वादी, जिला गोंडा-1, जिला राजकोट।
4421.	मनुभाई मेहता मंगलाल	बी० ए० एम० एम०, फैक० आ० यू० सि० मेडि०, बम्बई, 1954	917 1-7-54	प्लॉक नं० 5, पहली मंजिल, मनीशा, भान्धारवाडा, रांग्रे रोड वावर, बम्बई-28
4422.	मनुभाई मेहता अम्बालाल	जी० एफ० ए० एम०, फैक० आ० यू० सि० मेडि०, बम्बई, 1959	916 1-7-59	ग्राम गावात, धया धानसुरा, ता० काथद जिला साबरकन्था।
4423.	मनुभाई पंचाल मनोबाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3371 16-2-72	ग्राम बपो० नाथीपोरा, ता० बापाव, जिला साबरकन्था।
4424.	मनुभाई प्रकाश ईश्वरलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6124 5-4-78	जननाय शाखा के सामने, नजदीक बगसियाक्षेत्र ग्राम बपो० आभोव, जिला बड़ौचा।

1	2	3	4	5
4425.	मनुभाई पटेल, अम्बालाल	डी०एस०ए०सी०, क०गु०आ० कोर्स, गुजरात, 1966	2093 11-7-66	ग्राम ध पो० बुन्देली, ता० पेटलाव, जिला खेड़ा।
4426.	मनुभाई पटेल हरमानभाई	डी०एस०ए०सी०, क०गु०आ०कोर्स, गुजरात 1967	2529 26-6-67	ग्राम ध पो०, संजय, ता० पटिलाव, जिला खेड़ा।
4427.	मनुभाई पटेल भगवानजी	डी० ए० एम० एफ० फैक० आफ० यू० सि० मेडी०, बम्बई, 1961	3012 1-8-70	कानपुर मसन, मोलेन्द्र रोड, अग्नीपाडा, बम्बई-11
4428.	मनुभाई पटेल पुरुषोत्तम दास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1976	6066 15-3-78	एल० आई० जी० युप शाखागर, ब्लॉक नं० 220, तारलिरुड, बडोदा -6
4429.	मनुभाई पटेल कालीदास	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	6754 15-3-79	ग्राम ओरान, ता० प्रतिज, जिला साबरकण्ठा
4430.	मनुभाई पटेल पावाभाई	बी०एस०ए०एम, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	8052 27-4-81	ग्राम ध पो० राजपुर, ता० हिम्मतनगर, जिला साबरकण्ठा
4431.	मनुभाई पटेल खीविवाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8743 11-5-83	197, कमल पार्क, माताबादी, बरछा रोड, ग्राम सुरत।
4432.	मनुभाई शाह सराभाई	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1980	7234 29-8-79	110, उम्दी झेरी कासुम्बावाव वासिवावा. पोल, कालपुर, अहमदाबाद।
4433.	मनुभाई सावसिया छगनभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5809 24-5-77	विराज स्वामी रोड, वारियाली, बाजार खजूर बादी, ग्राम सुरत-3
4434.	मनुभाई बाधसिया कुरीजीभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1974	5152 4-2-76	ग्राम बालकाव, बाया सोनगाव, जिला साबरनगर।
4435.	मनुभाई खानकर जीवभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	7458 21-12-79	ग्राम पिकलाई, ता० खम्भात, जिला खेड़ा
4436.	मनुशंकर भ्यास प्रभाशंकर	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली, 1965	7640 20-3-80	ग्राम जेटालपुर, ता० वासरोड, जिला अहमदाबाद
4437.	मानय प्रसन्न दावे नाथुराम	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3887 23-3-73	ग्राम मिथिरियल, ता० कामसमा, जिला मेहसाणा।
4438.	मारगनितो पटेल रमनलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4832 8-3-75	15, गांधीपार्क, नजवीक सी० कालीनी, रलिया पुल, अहमदाबाद।
4439.	मारिराम नैनुजी माधवदास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1975	8337 27-2-82	ग्राम चौबान्दा, बाया भांनोद, जिला-आमनगर।
4440.	मारियाम बेगम जामी महुमद	बी०एस०ए०एम०, कानपुर वि० वि०, 1976	5803 24-5-77	मार्फत डा० एम० एच० जामी, ग्राम बेइमा ता० नाभासारी, जिला वासनादा।
4441.	मरकन्दगिरी गोस्वामी प्रभुनिरी	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1970	3309. 7.1-72	म० नं० 27-28, महालक्ष्मी सोमाईटी, पाणोरी, अहमदाबाद।

1	2	3	4	5
4442.	मरकण्डेय पांड्या अश्वरत्नभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1982	8916 24-1-84	मार्कट हा० सी० कार० पोवया 'कस्तूरी' 17/स्टेशन, प्लोट, ग्राम गोन्दास., जिला राजकोट।
4443.	मरकण्डेय मुक्ल चामचन्द्र	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1969	3028 13-8-70	ग्राम महेशाल ता० गोधरा जिला पंचमहल
4444.	मायदुला पटेल शाशित लाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात अ० वि० वि०, 1971	3726 10-1-73	ग्राम फायरवर्क्स हारानी रोड, ग्राम बडोवा 6
4445.	महतकुमार पाठक, जयेंद्र राय	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1968	2774 12-5-69	पीछे हनेली, ग्राम ब जिला जूनागढ़।
4446.	मासरीभाई भाई रामभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1987	6814 22-3-79	ग्राम भावुरी, ता० मालिया हातिम, जिला जूनागढ़।
4447.	मस्तुराम मिमबाक अम्बाराम	बी०एस०ए०एम०, क०यू० आ० कोर्स, गुजरात, 1966	2871 18-8-67	ग्राम मोतसुर्मा बाया सोनगढ़, ता० सिहोर, जिला भावनगर।
4448.	मासुभाई शाह प्रेमचन्द्र	ए०बी०पी०, सि० म० विद्यापीठ, पूना 1943	1206 31-5-49	ग्राम भिम्बा रोड, ता० गोधरा, जिला पंचमहल।
4449.	मासुरभाई रुंदानी गोविन्दभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	8824 13-1-83	चैशली प्लैट नं० 60, कमरा नं० 812, नवा बापुनगर, चार रास्ता, निवास रोड अहमदाबाद -24
4450.	मायुवास लाछानी बाछी	डी०ए०एस०एफ०, फैक आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई, 1958	991 1-7-58	ग्राम केवोव जिला जूनागढ़।
4451.	माथुर दास बारवाविया गोविन्द भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1970	3308 7-1-72	ग्राम दासराना, ता० मेंडाई जिला जूनागढ़।
4452.	माथुर दास राभी विघनदास	डी०ए०एस०एफ०, फैक आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1956	2326	ग्राम बांगा, बाया आमण ता० पेटलाव, जिला खेडा।
4453.	माथुर दास रायकुण्डलिया बाबूलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि० 1978	7206 20-8-79	के/1 लालपतक प्लैट, नूरानपुर, मिश्रभिका रोड अहमदाबाद।
4454.	माथुर दास सोधा बुजलाल	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1972	6655 28-2-79	ग्राम गोरबनाधी बाया प्रभास पातन, ता० वीरवल, जिला जूनागढ़।
4455.	मथुरेश पंडित राधावल्लभ	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4176 11-2-74	मार्कट पंडित राधावल्लभ श्यामलाल ब्रजवासी श्रीधरालय, बाधवाली शिरी ग्राम ब जिला खेडा।
4456.	मावजीभाई सोधा बाकभाई	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1960	7103 13-7-79	काठियावड, भाभिकाली शिरी, ग्राम-हमनगर
4457.	मवनीव जानी मनीलाल	बी०एस०एम० एस० गुजरात, वि० वि०, 1964	2608 30-11-67	ग्राम लाधोल ता० बीजापुर, जिला मेहसाना
4458.	माया शास्त्री स्वरस्वतीचन्द्र	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1982	9088 29-6-84	आनेस्ट टेलर, मेन रोड कारागम, ग्राम सूरत।

1	2	3	4	5
4459.	माया शाह बालुभाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1983	9234 12-3-85	शानिया वाड, ग्राम ब पो० बहारी. त० वालोज जिला, सुरत-3946430
4460.	मायाबेन पांड्या वीरज लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1978	7782 1-3-80	नजदीक रेलवे स्टेशन गा० न० टी० 11 ग्राम जेटालमार जम० ता० जेटपुर, जिला राजकोट।
4461.	मायाबेन पटेल भगनभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1981	9672 23-9-86	सुधाबाई, ग्राम ब पो० बारा अजामा-39640 06, ता० नवसारी जिला बलसाद।
4462.	मायाबात साधू शम्भेरदास	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1971	3418 7-3-72	श्री कबीर मठिबर, संकाजी शिरो अहमदाबाद।
4463.	मयंक उपाध्याय महादेव प्रसाद	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7699. 29-4-80	8 1998 हूमालिराम, बापी फालिया सुरत।
4464.	मयंक कुमार भट जयन्तिलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1972	4164 23-1-74	प्लोट न० 1340, बोधा सर्कल, नजदीक बुद्धाश्रम ग्राम भावनगर।
4465.	मयूरचन्द्र मार्फक हिम्मतलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4461 27-8-74	1032/2, बाबेयवरी पोल, रायपुर, काकला, अहमदाबाद।
4466.	मयर, नजजसिंह जी आजा विलासरासिंह जी	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1970	3713 1-1-73	ग्राम कामपुर, पो० चौरबीर, जिला सुवेन्द्र- नगर।
4467.	मयूरिका नायक नरूपभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7397 21-11-79	10 रविबीरम सोसाइटी, ग्राम सिनेमा के सामने जिबराजपार्क बेजालपुर, रोड अहमदाबाद।
4468.	मयूर कुमार शाह शांति लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5158 21-2-76	17-बी, मोतीराम भिकाभाई कालोनी, स्ट० नाबी हाई स्कूल रोड, नजदीक पोस्ट, अहमदाबाद।
4469.	मयूर कुमार शाह कन्हैयालाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1983	9598 23-10-86	मार्फत डा० के० एम० शाह, जनरल हास्पिटल स्टेशन, रोड, ग्राम दाकौर, जिला खेडा।
4470.	मेगाजीभाई भापा जेराभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1978	7358 29-10-79	ग्राम जेशार ता० साबर कुंछ्या, जिला भावनगर।
4471.	मेधाविवी किशोरी प्रणयसंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1974	5940 26-10-77	81/1, एच० कालोनी, पोली टेक्नीक, के० सामने, अहमदाबाद।
4472.	मीना मुत्तानी मजीबकमार	बी० ए० एम० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1984	9271 9-4-85	ए/9, "जीवन मंगल" जनसत्ताकर्मस नजदीक जालराम मठिबर, राजकोट-360001
4473.	मकरम हीरारानी मनालजीभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1973	4480 2-9-74	ग्राम हपा (ग्राम), बाया बेवा, जिला- जामनगर।
4474.	मीमाक्षी मेहता विमलेशाल	पेठ विहारद नि० भा० आयु किष्वापीठ, दिल्ली 1972	7447 21-12-79	मार्फत रश्मीकांत एम० गेट, 21, महाबीर सोसायटी, ग्राम मोराबी, जिला राजकोट।
4475.	मीमूला हमिरका हसन	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	6997 7-5-79	खोजा गेट, घाटा मिल के सामने, ग्राम जामनगर।

1	2	3	4	5
4476.	मेसानकुमार मेहता कान्नीलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि० 1976	6052 8-3-78	मार्फत डा० कान्तिखाल बी० मेहता ग्राम ब पो० व सा बावगाम, जिला बनसकन्था।
4477.	मिलन शाह रसिक लाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि० 1981	8817 11-8-83	13, किरननगर, शाहपुर गेट से बहार, अहमदाबाद-1
4478.	मिलनकुमार मकवाना मंदम	बी०एस० ए एम० गुजरात आ० वि० वि० 1976	5881 20-9-77	ग्राम कीयाना, बाया राता कान्धोराना, जिला जूनागढ़।
4479.	मीना बेशामी बन्नुभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि० 1981	8419 17-4-82	मार्फत बाबुभाई भावन बेशामी, देश बाहुरपारा, धाननिका, ग्राम अमरेली।
4480.	मीना बाबुसार शेखतराम	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8671 16-2-83	13-बी, बलाल कालोपी नजदीक अराधना हाई स्कूल, मानीनगर, अहमदाबाद-8
4481.	मीना भुजबाला जयसिंह	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आ० वि० वि० 1984	9570 23-9-86	नागेश्वर पार्क मोसायटी, बादीबाग के नजदीक, रेलवे स्टेशन रोड, ग्राम भुज, जिला-कच्छ।
4482.	मीना ब्रह्मचंद्र रमन लाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8632 28-1-83	बादा फालियू, ग्राम महिसा, ता० नादियाह, जिला खेड़ा।
4483.	मीना खत्री. विनुभाई	बी०एस० ए०एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1977	7067 30-6-79	7, जयमंगल सोसाइटी, मसनपुर ग्राम के के पीछे, मीराम्बीक, रोड, अहमदाबाद।
4484.	मीना मनियार धरनीधरभाई	बी०एस० ए०एम० गुजरात आ० वि० वि० 1974	4880 12-6-75	3, बिकरमनगर, आर्य कान्या के पीछे, करेलीबाग, बड़ोदा।
4485.	मीना मनशारामनी हीरा	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि० 1978	3845 11-3-82	मार्फत एच० के० मानशारामानी यूनाइटेड इण्डिया सोया रेस कं० लि०, वैशाली सिनेम, भावनगर-364001
4486.	मीना नायक ईश्वरलाल	बी०एस०एम०एस० गुजरात आ० वि० वि० 1983	9047 10-5-84	नानी महेशवाड, ग्राम बालसाद-396001
4487.	मीना सोनी प्रवीणलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1980	8163 10-9-81	14/164, बालकृष्ण, कृष्णागर, के सामने, संजपुरबोधा, ग्राम अहमदाबाद।
4488.	मीना आस विश्यालाल	बी०एस० ए०एस० गुजरात आ० वि० वि० 1972	3861 8-3-73	देसाईनगर, प्लॉट नं० 39, भावनगरपारा, ग्राम भावनगर।
4489.	मीना.बेन दयानी विजयभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि० 1975	5826 5-7-77	महाबीर सोसायटी, ब्लॉक नं० 5, कनार ग्राम, सुमुख डेरी रोड, सुरत-4
4490.	मीनाबेन मेहता मनुभाई	बी०एस० ए०एम० गुजरात आ० वि० वि० 1979	7822 24-9-80	8/1715, डिप्टी बंगला, गोपीवरा, सुरत।
4491.	मीनाबेन पटेल देसाईभाई	बी०एस० ए०एम० गुजरात आ० वि० वि० 1981	8426 1-5-82	भगवान स्मृति सा० बालविनोर, जिला खेड़ा।
4492.	मीनाल शिवेदी शिरीश कुमार	बी०एस०एम०एस० गुजरात आ० वि० वि०, 1985	9821 21-11-86	16, ब्रिजकम पार्क मोसायटी, बासना, अहमदाबाद

1	2	3	4	5
4493.	मिनाक्षी भावे रामचन्द्र	एम०एफ०एम०ए० फौक० आ० यू० सि० मेडि० बम्बई 1971	8561 12-10-82	217, बहुशारंगपुर, मोती डीई, मिल के सामने बेंब रोड, पो० त्रिगामपोरे, जिला सुरत।
4494.	मिनाक्षी गांधी प्रभुलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4853 22-5-75	नजदीक सारंगपुर रोड, खानर खावकी, म० न० 1067/1, अहमदाबाद।
4495.	मिनाक्षी जाटविया इमनाबयास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4273 20-3-74	6, नई बेदी प्रथम बजिल, दाड़ी मेठ, अगिबारी सेन, बम्बई-400002
4496.	मिनाक्षी जोशी चम्पूलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि० 1977	6745 15-3-79	नई रेलवे कालोनी, [एस०-599, बी-साबरमती, अहमदाबाद।
4497.	मिनाक्षी लालपुरा दाकूलेश	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7923 12-12-80	मार्फत बी०बी० लालपुरा, मानियाबाब, नजदीक स्कूल ग्राम भुज, जिला-कच्छ।
4498.	मिनाक्षी मेहता भालचन्द्र	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	6012 21-1-78	म० न० 1292, सारसपुर, मोती वासन मेरी रगदकी, अहमदाबाद।
4499.	मिनाक्षी नालवाला पुरषोत्तम वास	जी०एफ०ए०एम०, फौक० आ० यू० सि० मेडि०, गुजरात 1962	484 12-7-82	12, भाईजी मारणजी सेन, ठाकुर धारवार रोड, बम्बई-2।
4500.	मिनाक्षी ओजा विनकरराय	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	7973 20-2-81	पनाभातावी कोथबाव, पो० भूज-कच्छ।
4501.	मिनाक्षी पंचोली बसन्तराय	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1979	8022 3-4-81	15, सन्दीप सोसाईटी, ग्राम व ता० व जिला—जामनगर।
4502.	मिनाक्षी राणा [नकर लाल]	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8356 15-6-82	55-डी, बाल्लभनगर, सोसाईटी व रचा रोड, सुरत-6।
4503.	मिनाक्षी शुक्ल जेटालाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	5876 8-9-77	88, दत्त निवास सरदारकुंज-सोसाईटी, साहपुर भाई सेंटर अहमदाबाद।
4504.	मिनाक्षी ठक्कर छगनलाल	बी०एस०ए०सी०, क० यू० आ० कोर्स, गुजरात 1966	2161 5-9-66	बी कांत टावर, सुसिला सदन, ग्राम बड़ौचा।
3405	मिनाक्षी त्रिवेदी भास्कर भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1974	5045 20-11-75	38/320 गर्नेटग्राह एफ कालोनी आलम टोलनाका, गीतामण्डिर रोड, अहमदाबाद।
4506.	मिनाक्षी बालेरा भुवनेश्वरभाई	बी०एस०एम०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1983	9196 9-1-85	अस्पताल रोड, विजय महल, ग्राम जामनगर।
4507.	मिनाक्षी व्यास रमेशचन्द्र	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1970	3454 28-3-72	मार्फत आर०एम० व्यास, लिमाचिडुई, गोपिपुरा, सुरत-2।
4508	मिनाक्षी व्यास संभूवलाल	बी०एस०एम०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	7915 3-12-80	मार्फत संभूवलाल, व० व्यास, 57, महीदेवनगर सोसाईटी, सत्रामपुर सुरत।

1	2	3	4	5
4509.	मिनाक्षीबेन कृपाश्रिया देवजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4503 12-9-74	बकाल स्ट्रीट, रविर, सुरत ।
4510.	मिनाक्षीबेन पटेल बुनीलाल	बी०एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4840 9-5-75	ग्राम मिना सरधान, ता० अमोद, जिला— बड़ौदा ।
4511.	मिनाक्षी बेन पटेल [भीखाभाई]	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5156 7-2-76	मोती खावकी, ग्राम महोलाल, ता० नावियाड, जिला—खेड़ा ।
4512.	मीनाक्षीबेन पटेल [रामभाई]	बी०एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5397 13-5-76	पम्पारिदा कालोनी सेक्टर-43, बी-112 उकाया ग्राम, ता० सोमगढ़, जिला— सुरत ।
4513.	मिनाक्षी बेन पटेल मनुभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	8096 20-6-81	संगलम बुंगल, महावीरमगर सोसाईटी के पीछे, ग्राम हिम्मतनगर, जिला—साबरकन्धा
4514.	मिनाक्षीबेन शाह नागिनदास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6872 3-4-79	29, कैलाशनगर सोसाईटी, बाधोदिया रोड, ग्राम बड़ौदा ।
4515.	मीराबेन गुप्ता रामभाबू	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1972	4093 15-10-73	19/222, नेताजी नगर, मेघानिनगर, अहमदाबाद ।
4516.	मीराबेन ठकर लक्ष्मीकान्त	एम० एम० ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	5997 27-12-77	मार्फत कमलाबेवी ए० ठकर राम मंदिर, भीत्र भाजन, ग्राम जामनगर ।
4517.	मीरामकशाना जीवनलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6660 28-2-79	ब्राह्मण निवास, खानपुर, अहमदाबाद ।
4518.	मीरा सांघवी रतीलाल	आयुर्वेद बिहारद, डो० इ० मे०, सौराष्ट्र, 1961	2201 23-2-61	डी-2, भाई० एस भाई एस बावड, अहमदाबाद ।
4519.	मीता पाठक कान्तिनलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1982	9100 31-7-84	मार्फत डा० वासुदेव जी० पटेल, ग्राम ब पो० गोघना, ता० ओलपाद, जिला— सुरत ।
4520.	मीता उपाध्याय महेशचन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1982	8530 14-9-82	मार्फत डा० एम० एम० उपाध्याय, शेटज सी० के० अस्पताल, ग्राम सानन्द, जिला— अहमदाबाद ।
4521.	मीठालाल बोलाेरिया [देवजी]	आयुर्वेद शिक्षक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ दिल्ली 1971	6990 7-5-79	ग्राम बीरबल, जिला—जूनागढ़ ।
4522.	मोहम्मदसिंह जाला मोपाजी	बी०एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3716 1-1-73	2/1, बीनापरत सोसाईटी, पटलोधिपा, अहमदाबाद ।
4523.	मोहम्मद जामी बीनहसन	बी०एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	4031 30-8-73	मेम बाजार, ग्राम बेरना, ता० नवसारी, जिला बलसाद ।
4524.	मोहम्मदअली पंथभैया मोहम्मदजमाल	बी०एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	5993 19-12-77	नागिना शोरी, नानी महोलत, ग्राम हिम्मतनगर, जिला साबरकन्धा ।
4525.	मोहम्मदअली सोराधिया महैराली	बी०एस० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1964	1620 8-3-65	मार्फत महैली आर, ग्राम धरका, वाया पन्तली मोती, ता० जामजोधपुर, जिला—जामनगर ।

1	2	3	4	5
4526.	मोहम्मद-आरिफ लखानी अहमदाबाद	बी० ए० एम० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1984	9484 10-1-86	स्टेशन रोड, कौठार के सामने, ग्राम : भावनगर
4527.	मोहम्मद हबीब शेख आमिर अमी	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6336 4-10-78	मार्केट ए० ए० रोड, पो० आ० ग्राम जोटाव, जिला भावनगर ।
4528.	मोहम्मदरफिक मारीया उम रबाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1983	8915 24-1-84	मार्केट आ० आर० यू० मारीया, "रफिक" सबन सोसाइटी, ग्राम साबरकुन्दा जिला- भावनगर
4529.	मोहम्मद विद्याशंकर राजाराज	बी० ए० ए० ए० ए०, फैक० आ० यू० सि० मैत्री, गुजरात 1959	174 1-12-89	मार्केट ए० आर० विद्याशंकर, म० नं० सी०/ 1734, पारसिबाव, ग्राम बड़ोव ।
4530.	मोहम्मद पाटिल सुपावू	बी० ए० ए० ए० ए०, भायपुर वि० वि०, 1974	4861 28-5-78	ग्राम पावलाव, ता० शाहवा, जिला वृन्धिय ।
4531.	मोहम्मद पटेल मंगलभाई	बी० ए० ए० ए० ए०, फैक० आ० यू० सि० मैत्री, बम्बई 1955	610 2-1-86	ग्राम व ता० वाचोदिया, जिला वृन्धिय ।
4532.	मोहम्मद पटेल मंगलदास	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4814 30-4-75	ग्राम रघनकुवा, बाया बीरपुर, ता० बालसिधोर, जिला खेड़ा ।
4533.	मोहम्मद पटेल मनभाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	5979 28-11-77	ग्राम मोहमा ता० पर्वी, ता० बालसाद
4534.	मोहम्मद पटेल अम्बालाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7465 21-12-79	ग्राम व पो० भीमसैन ० रापुर, जिला कच्छ
4535.	मोहम्मद बसाली बालाजीभाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3897 27-3-73	कनोल रोड़ी, ग्राम हापज, ता० तालवा, जिला- जिला-भावनगर ।
4536.	मोहम्मद गोरसाई मखननगर	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8687 16-2-83	ग्राम व पो० गंगाबी, ता० झोलवा, जिला- अहमदाबाद ।
4537.	मोहम्मद सिद्दिक जावेजा राजेन्द्रसिद्दिक	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4744 5-4-73	स्नेहसदन, ग्राम बिरपुर (जागराम) ता० जेठपुर जिला-राजकोट ।
4538.	मोहम्मद गोस्वामी ठाकुरसिद्दिक	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1970	3173 13-4-71	ग्राम माटिया, पो० सविन, जिला सुरत ।
4539.	मोहम्मदलाल भाकटा गोपालजी	बी० ए० ए० ए० ए०, क० सु० आ० कोर्ट, गुजरात 1963	798 22-7-83	ग्राम धमन, बाया बीमा, ता० बडसारी, जिला- बलसाद
4540.	मोहम्मद बाल बारावा जामदास	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1980	8211 2-11-81	ग्राम बारा, ता० ककरोड, जिला बामनकावा
4541.	मोहम्मद लाल बाबिसा सिन्हाभाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	6180 15-6-78	ग्राम मोती पावडी, बाया डाटलसारा अम०, जिला राजकोट
4542.	मोहम्मदलाल भट्ट प्रभासकर	बी० ए० ए० ए० ए०, क० सु० आ० कोर्ट, गुजरात 1963	852 1-7-83	पीठे दरवार बड़, ग्राम पासिदना, जिला- भावनगर

1	2	3	4	5
4543. मोहनलाल षट नागेश्वर	डी०एस०ए०सी०, क०ब०आ०ब० कोर्से, गुजरात, 1964	1499 30-7-64	अनासिरा, पो० कनकपुरा, जिला- जूनागढ़	
4544. मोहनलाल षट काशीराम	बीच विहारवा नि०भा०आ०ब० विद्यापीठ, दिल्ली 1961	7609 18-3-80	जिला पंचसक-स० डिपेंडरी, कनकपुरा, बाबा बेरी, जिल, अमरेली	
4545. मोहनलाल भावनी पोपटलाल	बीच विहारवा, नि०भा०आ०ब० विद्यापीठ, दिल्ली 1967	6881 12-12-83	मार्फत सारणीय पुस्तकालय कोरिस, काठ- न.जब.डी, जिला जूनागढ़	
4546. मोहनलाल भूगणिका लालजीभाई	डी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	3624 30-9-72	सालुत बाजार, ग्राम नदीसक, जिला- जूनागढ़	
4547. मोहनलाल कोठारिया बलजीभाई	डी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3456 28-3-72	ग्राम बाही, ता० व जिला- जूनागढ़	
4548. मोहनलाल मधुनी देवीदास	डी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	8156 3-9-81	ग्राम रामपुर देकरा, ता०-कनकपुरा, जिला- कच्छ ।	
4549. मोहनलाल हृदयेश्वर जीवनभाई	डी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5547 26-9-76	ग्राम सुलतानाबाद, बाबा-कनकपुरा, जिला- जूनागढ़	
4550. मोहनलाल जाधिका बलक नाम	डी०एस०ए०सी०, क०ब०आ० कोर्से, गुजरात 1962	204 28-6-62	ग्राम निकवा, बाबा कानकाबाद, जिला-कनकपुरा	
4551. मोहनलाल कनका विद्याजीभाई	डी०एस०ए०एम०, गुजरात-आ० वि० वि०, 1974	4969 17-10-76	ग्राम कोठारिया, बाबा-कनकपुरा, जिला- जूनागढ़	
4552. मोहनलाल कोठारिया काजीभाई	डी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3611 19-9-72	ग्राम कनकाबा, पो० कनकपुरा, जिला- जूनागढ़	
4553. मोहन लाल कापुआ कवाभाई	डी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3938 2-3-73	ग्राम बाणबाबी, बाबा-कनकपुरा, ता०-कनकपुरा, जिला-राजकोट	
4554. मोहनलाल कामपात्री भुमीदास	डी०एस०ए०एम०, गुजरात-आ० वि० वि०, 1973	4534 4-10-74	बाबाव चौक, बाबा-कनकपुरा, कनकपुरा, जिला-जूनागढ़	
4555. मोहनलाल मारुत बंजीभाई	डी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3815 26-2-72	ग्राम मोती मरुत, ता०-कनकपुरा, जिला- राजकोट ।	
4556. मोहन लाल कोठारिया विमजी	बीच विहारवा, नि० भा० आ०ब० विद्यापीठ, दिल्ली 1965	7244 30-8-79	बहादापारा, ग्राम-मालवपुरा, जिला-जूनागढ़	
4557. मोहन लाल कोठारिया रणजी भाई	बीच विहारवा, नि० भा० आ०ब० विद्यापीठ, दिल्ली 1970	6846 2-4-79	विमल 5, मन्ड, किछोर सोबाईटी, अखिलनगर, स्टेशन, ग्राम-राजकोट ।	
4558. मोहन लाल सादविया मिरछर लाल	आयुर्वेद विभाग, नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1961	7090 6-7-79	बाबा-कनकपुरा, नजदीक बाबी कुई, कनकपुरा, जिला- नगर ।	
4559. मोहन लाल पनारा- देवजी भाई	डी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3649 11-10-72	पुरानी मस्जिद के नजदीक, ग्राम-काहपुर, ता०- कनकपुरा, जिला-जूनागढ़ ।	

1	2	3	4	5
4560.	श्रीहृदयःशालःपटेल भद्रू भाई	बी० ए०एम० एस्०, गुजरात बि० बि० 1966	2042 8-6-66	ग्राम व पो० पीलाकी, बाया एवं ता० उपमेडा, जिला राजकोट।
4561.	श्रीहृदयःशालःपटेल. रत्नछोदभाई	एम० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० बि० बि०, 1973	4018 24-8-73	वाचला फालिया, ग्राम मुन्नावा, ता० जालोद, जिला पंचमहल।
4562.	श्रीहृदयःशालःरावबल्लभ वयाराम	आयुर्वेद शिक्षक, नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1957	6955 3-5-79	ग्राम भेववान, ता० धरोल, जिला जामनगर।
4563.	श्रीहृदयःशालःरावबल्लभ माधवजी	आयुर्वेद शिक्षक, नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1961	7088 6-7-79	वैद्यनव हबेली, ग्राम मानववार, जिला जूनागढ़
4564.	श्रीहृदयःशालःबकशी नरसिंभाई	डी० एस्० ए० सी०, क० शु० अ० क्लेर्स, गुजरात 1964	1489 21-7-64	वाघानी सौरी, ग्राम गारीघर, बाया दामनगर।
4565.	श्रीहृदयःशालःश्यामल मनिमलकर	आयुर्वेद शिक्षक, नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1981	8252 24-12-81	ग्राम व पो० अरकोट, ता० जासवान, जिला राजकोट।
4566.	श्रीहिरी शोचानी कृष्ण चन्दा	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० बि० बि० 1976	6392 27-10-78	"भास्मन" महावीर जैन सोसाईटी, ग्राम अमदाबाद गोधरा, जिला पंचमहल।
4567.	श्रीहिरी गुजर वासुदेव	बी० ए० एम० एस्०, पूना बि० बि०, 1981	8489 9-8-82	मार्फत बी० एल० गुजर, एडकोट, गुलबघ टोकरा, सी-1, पंच बंगला, पोलिटिकलिक, अहमदाबाद
4568.	श्रीहिरीःशुक्लजी जाला मनहराखिडू	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० बि० बि०, 1977	6453 30-12-78	14, संजीवनी सोसाईटी, रतनपुर, जिला सुरेश- नगर।
4569.	श्रीहिरीःमिमांसा रसूलमिया	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० बि० बि०, 1977	7189 17-8-79	ग्राम पालेज, ता० व जिला बड़ौचा, बड़ौचा।
4570.	श्रीहृदयःशालःशुक्लकुमार रजनी कान्त	बी० ए० एम० एस्०, गुजरात आ० बि० बि०, 1983	9138 10-9-84	महालक्ष्मी माता मन्दिर के सामने, मेम बाजार, ग्राम पो० व ता० सस्तरामपुर, जिला पंचमहल-389260।
4571.	श्रीहिरीःशुक्लजी शोचानी अबदुररशीम	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० बि० बि०, 1976	6026 16-2-78	ग्राम खोद्य, बाया अकलेश्वर, जिला बड़ौचा।
4572.	श्रीहृदयःशालःशुक्लकुमार श्रीहृदयःशालःदलीप	बी० ए० एम० एस्०, गुजरात आ० बि० बि०, 1983	8965 12-3-84	श्रीक गोठ बिल्डिंग, पीली प्राउण्ड, ग्राम हिम्मत नगर, जिला साबरकन्था
4573.	श्रीहृदयःशालःपटेल सुनी भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० बि० बि० 1982	9930 17-2-84	19, माहुरा सोसाईटी, करेलीबाग, ग्राम-बड़ौचा
4574.	श्रीहृदयःशालःपटेल कमलाकर	बी० ए० एम० एस्०, इन्स्टीट्यूट बि० बि०, 1974	6414 18-11-87	ग्राम व पो० उत (बारगाव), जिला बेस्ट निमाण
4575.	श्रीहृदयःशालःपटेल माधव भाई	बी० ए० एस्० एस्०, कैक० आ० यू० सि० सेडी०, बम्बई 1956	2601 25-10-67	ग्राम सप्पुरा, बाया ओराना, ता० कामराज, जिला सूरत।
4576.	श्रीहृदयःशालःपटेल अम्नाबाब	जी० एफ० ए० एम०, कैक० आ० यू० सि० सेडी०, बम्बई 1958	961 1-7-58	5, कांकर पार्क, म्युनिसिपल मार्केट के सामने, खोद्यरा, श्रीहृदयःशालः, मतीनगर, अहमदाबाद-8

1	2	3	4	5
4577.	मोसरवान शामल शक्तिदान	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3753 6-2-73	ग्राम वाकगुपुर, बाया बुडा, जिला सुरेन्द्र नगर।
4578.	मोतीबेग गामित रावतियाभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1972	4090 12-10-77	ग्राम चिखालवाव, ता० ब्यासा, जिला सुरत।
4579.	मोतीराम कुबेर दारानी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1979	7789 19-8-80	ग्राम जाम्बू-नाम, ता० जेटपुर पापी, जिला बड़ौदा।
4580.	मोतीरामबैद्य धीरजराज	भायुर्वेद विशारद, म० सि०, वि० वि०, 1953	2013	ग्राम ब पो० बापी, ता० पारवी, जिला बालसाह
4581.	मोती सिंह जाध भानरूप सिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5320 31-3-76	ग्राम कराय, ता० जालोव, जिला पंचमहेश।
4582.	मुदुला वने मगनलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5238 5-3-76	मार्फत महेश्वर सी० ब्यास, भावेश्वर, निकेतन, 1- पलोर, फ्लैट नं० 6, गोबलिया टैंक रोड, बम्बई- 26।
4583.	मुदुला गुजर सोमभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	6108 28-3-78	तपोवन, कौवा रोड, आई० सी०, कैंड्री के सामने साबरमती
4584.	मुदुला जोशी काशिलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4965 4-10-75	बैरी रोड, प्लॉट सं० 673-ए, ग्राम भावनगर।
4585.	मुदुला कुबावत बन्सी लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	8615 13-1-83	मार्फत देवमुरारी, एस० एच०, कल्लणपारा, रोड, ग्राम ब पो० आ० बादिया देवाली, जिला अमरेली
4586.	मुदुला पांड्या शुभिलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3449 21-3-72	भावसार बक्ला, ग्राम ब जिला-जामनगर।
4587.	मुदुला पारिख प्रवीन चन्ध	जी० एफ० ए० एम०, फैक० आ० यू० सि० सेडी०, गुजरात 1963	1249 15-10-63	पारिख भुवन, "8" स्वासी मारायण कालोनी, लालभाई लाजपतराय रोड, कंकरिया, अहमदाबाद।
4588.	मुदुला शाह महेश लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3434 14-3-82	668, नवीनीरमगिनगर, मजदीक प्रगतीनगर, नबाववाज, अहमदाबाद।
4589.	मुदुला शेट महेश्वर कुमार	आयुर्वेद मध्यमा, आ० व० प० स०, बड़ौदा 1979	9377 23-9-85	सी० 12, ग्रामिन को०हा० सोसाईटी, गुलबाय टंकरा अम्बावापी, अहमदाबाद।
4590.	मुदुला वैद्यक, पुरुषोत्तमदास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7172 7-8-79	33, नया अशोक नगर, राजपुर, गोमतीपुर, अहमदाबाद।
4591.	मुदुलाबैन बालर नारायण भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6298 27-9-78	"पटेल हाउस", कादियावाव चौप, ग्राम जामनगर
4592.	मुदुलाबेन भाह विनेश चन्ध	एम० एफ० ए० एम०, फैक० आ० यू० सि० सेडी, बम्बई 1970	7475 2-1-80	डेरारोरी, ग्राम बासे, जिला खेडा।
4593.	मुदुला कुमार जोशी त्रिपुरारी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7749 30-6-80	मार्फत डा० एन० टो० जोशी (बकील) बाबजी फालिपू, ग्राम खेदनादा, जिला साबरकन्धा

1	2	3	4	5
4594.	भुवुल कुमार नागरखेठ मनुभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3739 1-2-73	रानीबाग जिला पंचायत स्टाफ इकाई के सामने, बभान भागोल रोड, ग्राम नादियाड।
4595.	मुकुलाल मेहता हिम्मतलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4348 23-4-74	प्लॉट नं० 480, बाली स्मृति, गिरगुमिहार के नजदीक, ग्राम भावनगर।
4596.	मुनालिनी अप्पे उल्लास	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1968	2675 31-5-68	प्रतिप खिला, पंडित नेहरू मार्ग, ग्राम जामतगर
4597.	मुनालिनी बुच उत्तम लाल	बी० एस० ए० सी०, क० मु० आ० कोर्न, गुजरात 1966	2273 24-11-66	ए-1, कर्मचारी नगर सोसाईटी, घटलेडिया रोड, नारणपुरा, अहमदाबाद।
4598.	मुनालिनी चोकासी हसमुख राय	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	4120 17-11-73	निजामपुर, नजदीक रणछोवजी, मन्विर, षडौदा
4599.	मुगतलाल निम्बार्क अम्बाराम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8796 5-7-83	ग्राम व पो० मोतसुरका, ता० मिनोर, जिला भावनगर।
4600.	मुनेन्द्र किशनो हृषीविराय	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1963	112 29-8-63	हुतकेश्वर लेन नागर रोड, जुनागढ़।
4601.	मुकेश्वर कुमार बुच अजीतराय	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	5047 20-11-75	वालवादी चाली, अमूलडैरी, रोड, ग्राम आनख, जिला खेड़ा,
4602.	मुकेश कुमार शाहूपट अरिजभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	7798 4-9-80	भालेराव टेकरी, बारीवाच रोड, नजदीक जी० पी० ओ०, ग्राम बड़ौदा
4603.	मुकेश कुमार भट रमाकाश	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1980	8437 31-5-92	ग्राम व पो० बालेश्वर, ता० पालसना जिला सूरत
4604.	मुकेश कुमार बबे अम्बालाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1985	9644 31-12-85	राजमहल रोड, ग्राम दास्ता, भावनगर, जिला बी० के०।
4605.	मुकेश कुमार बबे महादेव प्रसाद	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6378 27-10-78	नजदीक नाना भट खोरा, ग्राम पालिताना, जिला, भावनगर।
4606.	मुकेश कुमार इस्तवाला हरगोविन्द दास	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1983	8977 12-3-84	एल० डी० ए० सोमनाथ रोड, वेसरा, ग्राम गिलि- मोरा-396321।
4607.	मुकेश कुमार जोगी मधुसूदन	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1982	8868 1-12-83	नजदीक सिविल कीर्ट, ग्राम व पो बोरसाव, जिला खेड़ा।
4608.	मुकेश कुमार जोगी बाबू लाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1984	9442 23-12-85	“अम्बे सुवन” अम्बोिक नगर, ग्राम व पो० एर्ष ता० दिसा, जिला बी० के०-385535।
4609.	मुकेश कुमार मेहता बन्धु लाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1984	9487 24-3-86	ग्राम व पो० आ० वादाली-383231, ता० इदार, जिला, साबरकन्था।
4310.	मुकेश कुमार विमात्र विट्ठल दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8573 20-10-82	मोथमीनगर, ब्लॉक सं० 89, जुनागढ़-362001

1	2	3	4	5
4611.	मुकेश कुमार पांड्या अपस्ती लाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1983	9040 10-5-84	बाजार, ग्राम बासो, ता० नादिमाड, जिला खेड़ा
4612.	मुकेश कुमार पांड्या प्रफुल चन्द	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1984	9388 23-9-85	28, मजुमदार सोसाइटी, बी० 2, सेंद्रपुर रेलवे स्टेशन के सामने, सारदारनगर, अहमदाबाद।
4613.	मुकेश कुमार पटेल मोहन लाल	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1980	8631 28-1-83	सुखनाथ प्लोट, ग्राम न बो० नारिब क्व, जिला बावनगर।
4614.	मुकेश कुमार राव मनुभाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	8091 4-6-81	मार्केट डा० एम० एम० एम० एम०, होस्पिटल, बुवा राम, 388010।
4615.	मुकेश कुमार रावल उमीयाशंकर	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4355 26-4-74	ग्राम होडा, ता० बावनपुर, जिला अनासपल्ला
4616.	मुकेश कुमार सांघवी रमन लाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1985	9534 28-7-86	मार्केट रमन लाल जोशीलाल सांघवी, "सांघवी" ग्राम, वसाल विस्त्रिप, के पी०, नववीक तार, ग्राम ताजोड, ता० पटवती विना एम० के०- 383215।
4617.	मुकेश कुमार शाह संजुनाल	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	6325 2-4-76	विलास अस्पताल, ता० बाघमी, ता वैटलाव, जिला खेड़ा।
4618.	मुकेश ब्रह्म भट अम्बालाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1983	8945 17-2-84	21, ज्योति कालोमी, बाहू अलन, टोलका, अहमदाबाद; -22।
4619.	मुकेश गांधी कृष्ण कान्त	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7564 29-2-80	15, लीवर्टी, अपार्टमेंट, नववीक-बाघमी सोसाइटी, ग्राम सूरत।
4620.	मुकेश पटेल मगन लाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1983	9058 25-5-84	69, नरखा सोसाइटी, सुखल-डैरी रोड, ग्राम सूरत-4
4621.	मुकेश शाह नरेन्द्र भाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1983	8938 17-2-84	2/0, विनाम, सोसाइटी, प्रभुदास टणकर कालेज रोड, पालवी, अहमदाबाद-7।
4622.	मुकेश तालती ओछावलाल	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5363 22-4-76	10, राजानपुर, सोसाइटी, नैराबनन रोड, अहमदाबाद।
4623.	मुकेश उपाध्याय चन्द्र देव	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7268 11-9-79	बी-14, सैनका पार्क, सोसाइटी, हरनी रोड, ग्राम बड़ौदा-6।
4624.	मुकेश वैद्य ब नरेव बल	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8318 10-2-82	लाल कोर्ट के सामने, राजमहल रोड, सेंट्रल बैंक, बड़ौदा।
4625.	मुकेश चन्द्र पानेरी भवानी शंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6359 4-10-78	469, माकेशी गौरी, बी० डी० कालेज के सामने, अहमदाबाद।
4626.	मुकेश चन्द्र शाह काशिश लाल	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7618 18-3-80	ग्राम दुजबाद, ता० पाचरा, जिला बड़ौदा।
4627.	मुकेश चन्द्र सुझार नारायण दास	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	7227 29-8-79	ताजुका पंचायत, कवाडर ग्राम बालसा, जिला बालसा।

1	2	3	4	5
4628	मुकेश चन्द्र उपाध्याय चाण्डुलाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3588 29-8-72	नव निर्माण अग्रम निगम सोसाईटी, मनीमगर, बल्हा रोड, नवदीक आमन्व बैवी, अहमदाबाद।
4629	मुक्तता भालोदिया अर्जुन भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5580 18-10-76	4/2, छाया सोसाईटी, भीष्मनाका, एस्० टी० रोड बम्बई-71
4630	मुकेशचैन पटेल अर्जुन भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	7868 16-10-80	प्लॉक नं० 423, कमरा नं० 2400, बापुनगर, अहमदाबाद।
4631	मुक्ति लाल त्रिवेदी प्रभू लाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5738 25-3-77	ग्राम त्रैवाड, ता० कांकरज, जिला बामनकम्भा।
4632	मुकुन्द राय राबल भारती लाल	बी० एस्० ए० सी०, क० शु० आ० कोर्स, गुजरात 1963	1672 25-5-65	ग्राम मोजिदाब, ता० लिमडी, जिला सुरेन्द्र नगर
4633	मुकुन्द प्रजापति विठ्ठल राम	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1978	7650 28-3-80	नवदीक ग्राम पंचायत आफिस, बस्तरपुर, अहमदाबाद।
4634	मुकुन्द भाई पुरोहित हरी प्रसाद	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1969	2897 12-2-70	भाजाव चौक, ग्राम घर्मज, जिला खेडा।
4635	मुकुन्द दास शाह नाथु भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4846 14-5-75	मार्फत एम० सी० शाह, ग्राम मन्सरी, ता० बीजापुर जिला भेहसाना।
4636	मुकुन्द कुमार पटेल गन्धा लाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8654 10-2-83	35, रिद्वीशबर सोसाईटी, नवा बावज रोड, अहमदाबाद-13।
4637	मुकुन्द लाल पांड्या हिम्मतलाल	बी० एस्० ए० सी०, क० शु० आ० कोर्स, गुजरात 1959	786 23-10-81	गामकी कृपा डिस्ट्रिक्टरी, अय्यरतनचार रास्ता, कुसारबायी, मदान ज्वापा रोड, बड़ोवा।
4638	मुकुन्द प्रसाद ठकर त्रयस्ती लाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3402 25-2-72	ग्राम ब पो० सार्बेड, ता० व जिला पांडीनगर।
4639	मुकुन्द राय भट खुशाल राय	बी० ए० एम० एफ०, फैक० आ० यू० सि० मैडि०, बम्बई 1953	851 16-6-53	एम० ओ० जी० एम० एस्० कलास-2, पुलिस हॉस्पिटल अहमदाबाद-4।
4640	मुकुन्द राय भवसार मोम भाई	बी० एस्० ए० सी०, क० शु० आ० कोर्स, गुजरात 1962	875 4-7-62	मार्फत भावसर मुकुन्द राय एस्०, ग्राम रुबल, बाया नादियाड, जिला खेडा।
4641	मुकुन्द राय दवे मुगत लाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	5840 25-7-77	संगानाथ रोड, कासी कलाब गो रुम, ग्राम जुनागढ़।
4642	मुकुन्द राय जोशी मनसिंह लाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1970	3285 8-11-71	अलिबाबादा, जिला बामनगर।
4643	मुकुन्द राय लाभीनारा संगल लाल	बी० ए० एम० एफ०, फैक० आ० यू० सि० मैडि०, बम्बई 1956	993 2-6-58	ग्राम ब ता०, कालबा, जिला जामनगर
4644	मुकुन्द राय पांड्या गिरजाशंकर	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5769 28-4-77	मार्फत डा० भी० भी० पांड्या, हाफली नगर, बगर, एल० आई० जी०-184, ग्राम भांबनगर।

1	2	3	4	5
4645	मुकुन्दराय रावण रवीलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	4068 26-0-73	5, हरीसिद्धा नम्बर, II ग्लोड, इतकम टैमम, आश्रीम रोड, अहमदाबाद।
4646	मुकुन्द राय ब्राह्मण नारयण गंकर	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ दिल्ली 1947	7337 16-10-79	नवपारा चौक, ग्राम पालिताना, जिला भावनगर।
4647	मुकुन्द राय पबे मनसुखलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5423 4-6-76	ग्राम अम्बारादी, बाया मोती मेगामी, ता० गोंडाल जिला राजकोट।
4648	मुकुन्दराय ब्रेशाई यशवंत राय	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7327 15-10-79	6, स्वामी सोसाईटी, भातर रोड, मजदीक नहर, सूरत-4।
4649	मुकुन्द राय रावण कान्ति लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4510 17-9-74	बिरामी स्ट्रीट, ग्राम लिलिया मोटा, जिला अमरेली।
4650	मुकुन्दराय ठंकर अमृतलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4976 15-10-75	मार्केत आर० जी० ब्यास, सहाना, खावकी, मंगलनाथ स्ट्रीट, ग्राम जूनागढ़।
4651	मुकुन्द भाई भारतीय शिवराम भाई	जी० एफ० ए० एम०, फैक० आ० यू० सि० मेंबी०, गुजरात 1962	873 28-9-62	ग्राम ब पो० गोलमा, बय्या तारापुर, जिला खेड़ा।
4652	मुस्ताफी कुचवा मनाजी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	7004 16-5-79	भानवभारी क्लिनिक, मजदीक भावपारा, सरदार चौक, ग्राम ब पो० जुटपुर, ता० ब जिला राजकोट।
4653	मुलाजी सिद्धपुरा बिनाजी	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1969	2928 18-3-70	ग्राम सुर्बा (गिर०) बाया अकेल बाड़ी, जिला जूनागढ़
4654	मुलाजीभाई पटेल भापुर भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5644 30-12-76	ग्राम जटाबी, ता० सुखवाडा, जिला पंचमहल।
4655	मुलाजी भाई दावरी वास भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7664 10-4-80	ग्राम कानिसा, ता० बामनत, जिला खेड़ा।
4656	मुलाजी भाई राधोड कामभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1980	7979 20-2-81	ग्राम शापुर, (सोरथ), ता० बान्वाजी, जिला जूना- गढ़।
4657	मुलाजी भाई शम्भू लक्ष्मी राम	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5581 18-10-76	ग्राम अजरपुरा, ता० आपनव, जिला खेड़ा।
4658	मुलाजी भाई कृष्णारिया कनाजी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3467 1-4-72	ग्राम दुधला, ता० मोतिघारी, जिला अमरेली।
4659	मुलाजी भाई लिसानी मोहनभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3984 31-7-73	ग्राम वाबादी, (नोस्थानी), बाया कालबाद, (बितालाल), जिला आमनगर
4330	नूत चन्द शाह चन्दनम दास	एल० ए० एम०, ए० पी० आ० महा शाहन, (मड़ोदा), 1941	1644 13-8-41	मार्केट शाह बरखभ दास मापुर ग्राम, ग्राम साहे- लाथ, ता० पट्टेडाह, जिला काईरा, (पाटन),
4331	नूत चन्दन प्रभात शंकर भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3481 17-4-72	ग्राम अदास, ता० आपनव, जिला खेड़ा।

1	2	3	4	5
4662.	मूल राज वैद्य जैठा पाल	डी० एम० ए० सी०, क० शु० आ० कोर्स, गुजरात 1964	18 14-12-64	3 ए. चन्द्र कालोनी, ला कॉलेज, ए०सी० क्रीज, अहमदाबाद ।
4663.	मूल शंकर जोशी भीमा भाई	डी० ए० एम० एफ०, फैक० आ० यू० सि० मेडी० बम्बई 1945	252 2-7-45	ग्राम जाकवासी, ता० नदीयावाँ जिला बरेली ।
4664.	मूल शंकर जोशी मोहनदास	डी० एम० ए० सी०, क० शु० आ० कोर्स, गुजरात 1966	2275 25-11-66	2224, गुम्हीबाद, रायपुर, अहमदाबाद ।
4665.	मूल शंकर गण्डेय मनसुखराम	आयुर्वेद विशारद, म० स० वि० वि०, 1945	2025 6-8-45	ग्राम भारवाना, पो० कजैव, जिला बड़ौदा
4666.	मूल विह्व राधोद केजर विह्व	डी० ए० एम० एफ०, फैक० आ० यू० सि० मेडी० बम्बई 1955	969 1-9-55	ग्राम उम्वेव गड्ड, ता० हयार, जिला भाबरकवा
4667.	मूल भाई सुभोग ओझाभाई	आयुर्वेद मध्यमा, आ० ए० ए० स०, बड़ौदा 1977	6578 16-2-79	ग्राम मायानोनी, ता० साबरकण्डला, जिला साबरमती ।
4668.	मुमनाज सयानी राजबली भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	8529 3-2-79	ग्राम ब ता० मालिया नियाव, जिला राजकोट ।
4669.	मुमनाज सुगल जामलभाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1984	9252 9-4-85	खोजवाड, कुमुम निवास, आमतगर ।
4670.	मुमनाजनु मेखानी अब्दुल करीम	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1984	9643 31-12-86	बी 0, मोधी नगर, ग्राम राजकोट-6
4671.	मुन्दाव वासु मंजतान	बी० ए० एम० एम०, वि० बी० आ० यू० सि० मेडी० महाराष्ट्र 1969	3664 24-10-72	सोनवाडा, भाजी फाभिया, पो 01गरा, वाया बुंगारी, जिला बालसाद ।
4672.	मुनीशवार जोशी गौरीशंकर	आयुर्वेद विशारद, म० स० वि० वि०, 1938	1953 28-4-38	ग्राम बाबापुर, ता० जिला झरदेली ।
4673.	मुन्नी देवी शर्मा सुशी पाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3777 9-2-73	ब्लाक नं० 74, म० नं० 580, गुज० हा० कालोनी, जयमपुरा, आर्वावा, अहमदाबाद ।
4674.	मुरार पाटिल भान	एम० एफ० ए० एम०, फैक० आ० यू० सि० मेडी० बम्बई 1972	7373 29-10-79	ता० निजार, ग्राम विचोवा, जिला सुरत ।
4675.	मुरारी त्रिवेदी गोविन्द प्रसाद	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981।	8674 16-2-83	985/4, प्रताप बिल्डिंग, रामनगर, साबरमती, अहमदाबाद-5
4676.	मुरलीधर जोशी नरेश्वर कुमार	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4787 16-4-75	अम्बिका संस्कृत कालेज, ग्राम अम्बाजी, ता० दस्ता, जिला बनासकन्धा ।
4677.	मुस्ताफा अहमद मीर मूर मोहम्मद	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1985।	9809 10-11-86	2776, जुलायबाद, साहपुर अहमद मीर अहमदाबाद-1
4678.	मुन्नीके कर्णी कावेरी हीयार अहमद	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1985।	9314 1-7-86	मार्फत, आर० एम० कॉलेज, शांतीनगर-4; नजदीक सिन्धी स्कूल, ग्राम राजकोट-360001

2	3	4	5
4679. नचिकेत भाई भाऊ यसस्त लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०। 1977	6823 22-3-79	बी-1, गवनेमेंट विकास मण्डल फ्लैट, मार्चेंटनगर के सामने, अम्बवाडी, अहमदाबाद।
4680. नागजी पोपत वासनजी	बैशाखार्म, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1989	6903 16-4-79	ग्राम कजापी, ता० बन्वाली, जिला जूनागढ़
4681. नागजी भाई डोगा रावब भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7756 16-7-80	ग्राम जामवाला (गिर) बाया बीरवल, ता० उना, जिला जूनागढ़।
4682. नागजी भाई पटेल गंभीर भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7597 17-3-80	ग्राम जोरीवारा, ता० नकगरदाल, बाया केसम्बा, जिला सूरत।
4683. नागजी भाई रावरी गैमरभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4901 26-6-75 }	ग्राम वादनगर, नदी के सामने, ता० खेरजू, जिला मेहसाणा।
4684. नागर लाल पांखा त्रिदुल जी	बैद्य विशारद, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1983	8795 5-7-83	ग्राम कुमल, बाया नागेनवरी, ता० जाफराबाद, जिला अमरेली।
4685. नागेलाल मूर्ती अंजनय	एम० डी० (आयु०) गुजरात आ० वि० वि०, 1978	6462 15-1-79	बाला आयु० कार्लेज लोडरा, ग्राम लोडरा, ता० बीजापुर, जिला नैसानी।
4686. नागेश कुमार जामी कान्ति लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7786 19-8-90	9, शक्तिनगर सोसाइटी, ग्राम नैसानी।
4687. नागेश कुमार वास्त्र्या इन्द्र जीन	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4306 2-4-74	चितेबाग गली, रैडीवाट रोड, ग्राम बड़ौदा।
4688. नागिन भाई कपिरिया नेवाजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7551 29-2-80	ग्राम नाना बरछा, ता० चोर्पासी, सूरत।
4689. नागिन भाई पटेल भीखा भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	5706 24-2-77	ग्राम मोसा, ता० पारा, जिला बड़ौदा।
4690. नागिनभाई पटेल अम्बालाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6120 5-4-78	ग्राम ब पो० जगमाद, ता० जामदुतार, जिला बड़ौदा।
4691. नागिनशम अम्बालेरिया जीवराजभाई	आयुर्वेद शिक्षक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1980	6995 7-5-79	ग्राम श्रीवदार, ता० हदार, जिला नाबरकण्ठा।
4692. नागिनशम त्रकुतरी जाटशंकर	डी० एस० ए० सी०, क० शु० आ० कोर्स, गुजरात 1966	2094 11-7-66	कादवाजार, ग्राम वाराजी, जिला राजकोट।
4693. नागिनदास सोमद्वय प्रमोद	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3376 4-9-72	ग्राम कुटियावा, जिला जूनागढ़।
4694. नागिनदास शोरा हरीलाल	जी० एफ० ए० एम०, फैक० आ० यू० सि० म० बी० गुजरात 1963	1098 15-10-63	फतेनगर, मार्च रोड, पारसी, अहमदाबाद-7।
4695. नागिन कुमार मालविया कुशास चन्द	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1964	15 11-12-64	मार्फत के० एच० मालवीय, मोटर स्टैंड, ग्राम पोरबन्दर, जिला जूनागढ़।

1	2	3	4	5
4696.	सागजी रैयानी कांजी	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1967	2537 6-7-67	ग्राम ब पो० सुल्तान पुर, बाया बीच देवाधी, राजकोट।
4697.	नागोजीभाई बंगा बिमाजी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	7013 16-5-79	ग्राम मोती बाबणी, प्रो० धुमोराधी, बाया कालवा बाया कालवाच, धितला, ता० कालवाच, जिला जामनगर
4698.	सागसिंह चावडा अमबाजी	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4423 2-7-74	ग्राम ब पो० सुदसना, ता० बौराजू, जिला मेहसाणा
4699.	नैमिक बैद्य चन्द्र मुब	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7596 14-3-80	1631 ए/2, ठाकेरवाम, नवरंगपुरा, अहमदाबाद
4700.	नैमिक कुमार हथिला चुनीलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8792 16-6-83	ग्राम गिराबोडी, ता० आलोड, जिला पंचमहल।
4701.	नैशाध बैद्य नरायणदास	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8644 1-2-83	ग्राम ब पो० गोजरिया, ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा
4702.	नजामाई मुछायिया लखमन भाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1983	9155 1-10-84	नवा थोराना मेन रोड, बम्बई बिल्डिंग-1, ग्राम राजकोट-3
4703.	नरुलंगनाथ बाबा बाबीनाथ	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1969	3041 9-9-70	ग्राम ब पो० ट्रेस्ट, ता० बिरमगाम, जिला अहमदाबाद।
4704.	नगीन घट धीरजलाल	जी० एफ० ए० एम०, फैक० आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1965	2950 14-4-70	31 252, आनन्द पार्क, राजकोट-2
4705.	नलिन बच्चराजमी कुर्गाराम	डी० ए० एम० एफ० फैक० आ० यू० सि० मेडी० बम्बई 1955	1000 2-1-56	बी० बी० बैड एम० -17 ग्राम गाँधीधाम जिला कच्छ।
4706.	नलीनचन्द्र धारोट भाववत राम	डी० एम० ए० एम० न० यू० आ० कोर्स, गुजरात 1966	2074 24-6-66	गाँधी चौक, देवा बैंक सामने ग्राम पाडरा, जिला बड़ोदा
4707.	नलीनचन्द्र ध्यास बीहूत लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1970	3137 24-2-71	ग्राम अजनावत कौक, ता० कमाडबल्ल जिला-बोदा।
4708.	नलिनी बसे प्रभाकर	बैद्य बिहार, वि० धा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1967	7468 21-12-79	आबर्न सोसाईटी, रोयान-2 के सामने बंगला, नजदीक मण्डिर, ग्राम ब ता० बीरवल, जिला जुनागढ़।
4709.	नलिनी पारिब कृष्ण कान्त	बी० ए० एम० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1964	1464 29-6-64	इंस्ट्रुक्शन पार्क पब्लिक्स, ब्लाक सी- 4/5 मेमनागर अहमदाबाद।
4710.	नलिनी गाँधी अक्षतलाल	जी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3489 18-4-72	बोकुल गाँधी सोसाईटी ग्राम सावरकुण्डल, जिला भावनगर।
4711.	नलिनी कारिया जयन्ती लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6093 21-3-78	सेक्टर नं० 22, सी० एच/5/4, गाँधीनगर।
4712.	नलिनी रवींद्र वरावजी भाई	डी० एम० ए० एम०, न० यू० आ० कोर्स, गुजरात 1966	2496 26-8-67	1497, कृष्ण नगर ग्राम भावनगर।

1	2	3	4	5
4713	मलिकी शाह बन्सी लाल	डी० ए० ए० ए०, फैक० आ० यू० सि० मेडो, गुजरात 1965	1783 11-8-66	कुसुम, विस्मा, स्वामी विवेकानंद रोड, चोरवादा कार, बम्बई-52।
4714	मलिकी बख्श प्रभा शर्कर	डी० ए० ए० ए० सी, क० यू० आ० सी०, गुजरात 1964	1613 22-2-66	गुस्ता विश्वना, नमलीपोरी, मोहपुरी अहमदाबाद
4715	मलिकी ठाकर रमेश चण्ड	डी० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7642 20-3-80	गायत्री, 5, बास्कीकी सीसाईटी, पानीगेट के बाहर, नाकोशिया रोड, ग्राम बड़ौदा
4716	मलिकी बेंग पटेल रामन भाई	डी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि०, 1974	5069 15-12-75	तीगीर इन्फान, ता० कंचेडा, जिला बड़ौदा
4717	मलिकी कान्त बन्सी हास्ता राम	डी० ए० ए० ए०, फैक० आ० यू० सि० मेडो, बम्बई 1956	782 3-9-86	मोड के सामने, बाडी, जवाहर रोड, ग्राम जूनागढ़
4718	मलिकी कान्त राम साबाई लाल	डी० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1963	1660 8-12-65	प्लॉक नं० 3, नागर बाथी, ता० भुज विद्या- कण्ड
4719	मलिकी कान्त शाह श्रीधरनदास	डी० ए० ए० ए०, फैक० आ० यू० सि० मेडो, बम्बई 1949	2567 2-7-49	ग्राम ब पो० साजोव, ता० अंकलेश्वर, जिला बड़ौदा
4720	मलिकी कुंभार पार्श्वी बाबजी	डी० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4182 11-2-74	1, उजा दीप सीसाईटी, पीछे ए० डी० इन्ज, कालेज, डा० रामाकृष्ण रोड, गुलाबी ठंकरा, अहमदाबाद।
4721	मलिकी बेंग देसाई धीरू भाई	डी० ए० ए० ए०, फैकल्टी आ० यू० सि० मेडोसिन, बम्बई 1954	415 1-7-54	देसाई बाव, ग्राम विद्यापी, जिला-बलसाड
4722	मलिकी कुंभार रामील नटवरलाल	डी० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5257 9-3-76	दीनपुर रोड, ग्राम निमबन्धी, जिला सुरेन्द्रनगर।
4723	मलिकी कुंभार शाह अमृतलाल	डी० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1980	8193 12-10-81	16, श्रीनगर, मोसाईटी, सुभाषपुर, ग्राम-बड़ौदा-3
4724	मलिकी कुंभार शाह कान्तिलाल	डी० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1984	9285 2-5-85	ग्राम ब पो० आ० गोराल, ता० हवार, जिला साबरकण्ठा-383411
4725	मनजी भाविका तापुभाई	आयुर्वेद शिक्षक, नि० भो० आयु० विद्यापीठ, विस्ली 1958	7440 21-12-79	ग्राम ब पो० मेन्वारावा, जिला जूनागढ़।
4726	मनजी भाविका मोहन	डी० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	8262 31-12-81	ग्राम नामी मोहवारी, ता० विनवादा, जिला- जूनागढ़।
4727	मनजी भाई नोवा जीवभाई	डी० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	8005 17-3-81	मध्यम अपार्टमेंट, राधकेश रोड, देरसार थल, ग्राम नवमारी, जिला बलसाड।
4728	ननपो भाई तीर्थाजी बेनभाई	डी० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8487 6-8-82	ग्राम जालिया (अंकलेश्वरी), पो० रतनपुर, तह० पामिताना, जिला भावनगर।
4729	ननराज भाविका धीरजलाल	डी० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	6763 15-3-79	नजदीक बालघ चौरा, ग्राम जीराणी, जिला- राजकोट।

1	2	3	4	5
4730.	नननाल दाबे नर्मेशकर	एल० ए० एम०, यू० पी० आ० माहापाटन (बहीवा राज्य) 1941	380 31-7-41	फीजिसियन अकामन्व भान्द आयु० अस्तमान, अहमदाबाद ।
4731.	नननाल सान्वालाल धूरालाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1975	5786 30-4-77	ग्राम देवगना, तह० भीहोर, जिला भावनगर
4732.	नननाल जोशी माधवजी	वैद्यार्थी, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1965	7141 24-7-79	वैद्यकीय अधिकारी, जिला प्रचार्या डिप्लोमरी, बाया राजुला, ग्राम वाबेरा ।
4733.	नननाल राजव भानुशंकर	डी० ए० एम० एफ०, कै० आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1952	980 2-1-53	मेडिकल आफिसर, ग्राम सार्दगढ़, बाया मानकच-दार, जिला जूनागढ़ ।
4734.	नननाल राधोद भीनाभाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1969	2910 24-2-70	ग्राम भोरी बावदी, बाया दामनगर, तह० गरियाघर, जिला भावनगर ।
4735.	नननाल शेट मातलाल	आयुर्वेद शिक्षक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1974	6683 3-3-79	ग्राम गार्बल, ता० वाब, जिला दामनकाटा
4736.	नननाल पाठक महादेव	एस्० ए० एम०, यू० पी० आ० माहापाटन, (बहीवा राज्य) 1934	704 18-10-41	बहापुरी, ग्राम भुज-कच्छ ।
4737.	नन्दा मोरंकी दानसिंह	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1976	6259 2-9-78	मार्फत दानसिंह, बी० कोलकी, 18/बी, सोमनाथ सोसाइटी, चर्च मनीनघर के सामने, ईस्ट महमदाबाद ।
4738.	नन्दीनी पामड्या भालचंभर	एस्० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1973	4487 4-9-74	बाजवाडा सोली, कुई, चक्रविद्यापोल, बहीवा ।
4739.	नन्दीनी बाह नटवरलाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5680 24-2-77	प्लॉक नं० 6, जयदास सोसाइटी, अम्बावादी, महमदाबाद-165
4740.	नन्दीनी बेंन व्यास विनेशचंद्र	आयुर्वेद मध्यमा आ० व० ए० ए० ए०, बहीवा 1977	6709 9-3-79	कमरा नं० 4, सननिव सोसाइटी, करेतीबाग, बहीवा ।
4741.	नन्दिनीशोर दाबे अमृतलाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5329 3-4-76	ग्राम वानावार, तह० वाघोई, जिला-बहीवा ।
4742.	नन्दिनीशोर जोशी मंगीलाल	बी० ए० एम० एस्०, इन्डोर वि० वि० 1975	6210 3-8-78	ग्राम भारती बाधम, ग्राम क.पो० तामबाई, ता० मानवाप, जिला-दार ।
4743.	नन्दिनीशोर राजल दयाशंकर	आयुर्वेद शिक्षक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1939	8191 12-10-81	ग्राम गोत्रारिया, तह० बीजापुर, जिला मेहसान ।
4744.	नन्दिनीशोर शाह नन्दालाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1974	5104 1-1-76	टी० एन० शाह, मजूर यशवंत डिप्लोमरी, कानपुर, अहमदाबाद ।
4745.	नन्दिनाल गोदानी शिवलाल	डी० एम० ए० सी०, क० यू० आ० कोर्स, गुजरात 1964	1459 29-6-64	पुस्तकालय चौक, पुस्तकालय के सामने, ग्राम-ऊता, जिला-जूनागढ़ ।
4746.	नन्दिनाल केवडिया जीवराजभाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1981	8586 3-11-82	प्लॉक नं० 12/2, ए. इन्डियनगर सोसाइटी, बरछा रोड, सुरत-3

1	2	3	4	5
4747.	नन्दलाल शाह मेनकनाम	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1983	9121 23-8-84	ब्लॉक नं० 2, महात्मा गांधी गंज, ग्राम बोसदिव, तह० बोसदिव, जिला खेड़ा ।
4748.	नन्दलाल धानकी पुष्पोत्तम	वैद्यविहारव, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली; 1968	7045 21-6-79	लिमवा लाहन, के० डी० जेठ हा० ग्राम जामनगर ।
4749.	नन्दगंकर पांड्या चुनीलाल	आयुर्वेद विहारव म० मि० वि० वि०, 1955	2339 8-7-52	ग्राम भुवल, पो० हीरपुर, ता० बाणोरोई, जिला अहमदाबाद ।
4750.	नन्दुबेम नारिया परवानभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	7964 3-2-81	भाईत उकाभाई पी० नारिया, ग्राम व पो० समता, तह० जा०-जोधपुर, जिला जामनगर ।
4751.	ननीलाल केवडिया गामजीभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8643 1-2-83	ग्राम सोती कावडी, बाधा पारंबी, तह० नारिया बर, जिला जामनगर ।
4752.	ननजी बालाई सुबलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	5038 13-11-75	बिकरम मिला, कस्तुरीलाल बाली, सरसपुर, अहमदाबाद ।
4753.	ननजी कोवडिया शामजी	बी० ए० एम० एम०, कानपुर वि० वि०, 1973	4397 3-6-74	स्टेशन रोड, ग्राम बावल, जिला जूनागढ़ ।
4754.	ननजी कुतडिया बर्मजी	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	5150 4-2-76	ग्राम नारेण, ता० जाम कश्मोरला बाया नाम बाहर जिला राजकोट ।
4755.	ननजीभाई बीवरिया जुलजीभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	5056 28-11-75	ग्राम बितला, ता० नारी, जिला अमरेली ।
4756.	ननजी भाई हरबानी जुदाभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4170 5-2-74	ग्राम नीलकण्ठपुर, तह० नारी, जिला अमरेली ।
4757.	ननजीभाई कल रिवा जीवभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	4077 4-10-73	ग्राम बीरवाडी, बाया मिलाबा, जिला जूनागढ़ ।
4758.	ननजीभाई रमाणी नंजीभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	4150 7-1-74	ग्राम पुष्पवदार, ता० लिखियाकोटा, जिला अमरेली ।
4759.	नागसिंहभाई चौधरी मखाभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	5841 3-8-77	बेडी कालिया, ग्राम माडी, तह० नारी, जिला सुरत ।
4760.	नागुभाई कपीपारा बावभानूभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8414 5-4-82	ग्राम गिरावादा, तह० उना जिला जूनागढ़ -382630 ।
4761.	नागुभाई साव जुलभाई	बी० ए० एम० एफ०, कै० आ० यू० सि० मेडी० बम्बई 1954	984 1-7-54	ग्राम नूगरी, जिला वलसाड ।
4762.	नारण भारतवा सकाभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4349 23-4-74	ग्राम विचराना, बाया कामोद, तह० नंगरोक, जिला जूनागढ़ ।
4763.	नारणभाई बारद मोहनभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8728 19-4-83	ग्राम व पो० देवाली, ता० कोविकार, जिला अमरेली ।

1	2	3	4	5
4764.	नारणभाई भाठिया जाधवभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	5108 2-1-76	ग्राम जालापपुर (मन्ववा), ता० गांधाडा, (स्वामिना), जिला भावनगर ।
4765.	नारणभाई कस्तनिया बाशारामभाई	बैद्यविचारक, मि० ना० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1968	6627 21-2-79	ग्राम लाधिया, मोयलना, पो० कालवाडी, ता० केजोव, जिला जूनागढ़ ।
4766.	नारणभाई गोलकिया जालनाथभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	5995 19-12-77	ग्राम संघवाखरा, वाया सोंगध, ता० भरीयाखार, जिला भावनगर ।
4767.	नारणभाई पटेल बाबलदास	बी० एस० ए० सी०, क० जू० आ० बी०, गुजरात 1963	569 10-7-63	ग्राम व पो० मालना, ता० पावनपुर, जिला नामसकन्धा ।
4768.	नारणभाई पटेल मनुभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3607 18-9-72	विलियमपुर, काल बंगला, ग्राम व पो० देरोल ता० कालोल, जिला पंचमहल ।
4769.	नारणभाई पटेल मनीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3965 7-7-73	ग्राम अकोदाक, ता० हिममतनगर, जिला साबरकन्धा ।
4770.	नारणभाई पटेल बहुनाभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	5127 23-1-76	ग्राम बातोली, पो० कालवा, ता० नंगरीक, जिला सूरत ।
4771.	नारणभाई पटेल जेसंगदास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6317 27-9-78	ग्राम व पो० कारनगर ता० कावी, जिला मेहसना ।
4772.	नारणभाई पटेल, मंगलदास	जी० एफ० ए० एम०, फैक० आ० जू० सि० मेडी०, गुजरात 1963	22 18-12-64	ग्राम नार्दीपुर, ता० कालोल, जिला मेहसना ।
4773.	नारणभाई पटेल अमीचन्दाभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8662 10-2-83	ग्राम व पो० ह्यरवा, ता० ह्यार, जिला साबरकन्धा ।
4774.	नारणभाई राधोक धयाभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6157 9-5-78	ग्राम प्रजनवाध, तह०] बीरजल, जिला जूनागढ़ ।
4775.	नारणभाई पटेल प्रभुदास	जी० एफ० ए० एम०, फैक० आ० जू० सि० मेडी०, गुजरात 1964	23 18-12-64	डी/21, ई० एस० आई० डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के पास, बापूनगर, महमदाबाद-21 ।
4776.	नारणभाई धयाभाई	आयुर्वेद मध्यमा, आ० व० प० समिति०, बड़ौदा 1980	9083 29-6-84	ग्राम रासनगपार, पो० ना० मजिया (मिवावा) जिला-राजकोट ।
4777.	नारणदास धारी रामजीभाई ।	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1969	2925 12-3-70	कुहावा फाली, खजावाध, ग्राम बरवाक, जिला-जूनागढ़ ।
4778.	नारणदास, गोविन्दराम	आयुर्वेदविश्वक, मि० ना० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1962	7151 25-7-79	ग्राम-अरनियाल वाया जूनागढ़, जिला जूनागढ़ ।
4779.	नारणदास निजामत मोहनदास	बि० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3789 16-2-73	ग्राम-मेवालो भाई वाधा कोलाडी, तह० उपसेटा जिला राजकोट ।
4780.	नरेशकुमार पांडव प्रहलाद जी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5527 17-9-76	पुलिस स्टेशन के नजदीक, ग्राम बेवडाह, जिला साबरकन्धा ।

1	2	3	4	5
4781.	नरसिंह भाई प्रभापति सोमभाई	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1963	8768 11-5-83	ग्राम-बेट्टोज, तह० बीरमगाम, जिला अहमदाबाद।
4782.	नारायण बबे मंगलाल	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1963	7193 17-8-79	ग्राम-मोती बनसारी, तह० केसोद, जिला कृष्णमड।
4783.	नारायण मुन्शी रामदास	बी० ए० एम० एम०, इन्दौर वि० वि०, 1974	5825 5-7-77	28, छोटाभाई तारक हाऊस, बकराबादी, हाक मार्केट, बाबी के तखवीक, ग्राम-बड़ौदा।
4784.	नारायण पटेल धंगसदास	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1970	3128 17-2-71	अमराईबादी, नवीवास अहमदाबाद।
4785.	नारायण रावल नटवरदास	बी० एफ० ए० एम०, फैक० आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1960	981 23-10-61	मार्केट एम० जे० रावल, बी/5, बर्मनगर कालोनी, साबरमती, अहमदाबाद-5।
4786.	नारायण भिषनागिया त्रिभुवन भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7662 10-4-80	जयन्त साईकिल सचिव के सामने, मेन रोड, केवड़ा बादी, ग्राम-राजकोट-2।
4787.	नारायण आधर भाईलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1970	3162 20-3-71	मार्केट बाधेर भाईलाल हरिभाई, हुबेली के सामने, ग्राम-ठंकरा तह०, मोर्बी, जिला राजकोट।
4788.	नारायण बैद्य नर्मदा शंकर	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1965	1827	पार काकिवा, तबसारी, जिला-बाजसाद।
4789.	नारायण यादव	बी० ए० एम० एम०, इन्दौर वि० वि०, 1978	6169 20-5-78	मार्केट, एम० झो० गुप्ता, ग्राम हखपार, तह० मंडवी, जिला-कच्छ।
4790.	नारायण भाई शाहबी प्रभुदास	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6430 2-12-78	ग्राम ब पो० बागनपुत, तह० गोधरा, जिला पंचमहल।
4791.	नारायण भाई मोदी ईश्वरभाई	बी० एफ० ए० एम०, फैक० आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1968	955 2-3-59	ग्राम सोजा, तह० कलोल, जिला मेहसाण।
4792.	नसिनीबेन परमार भीष्मभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6827 22-3-79	सोतिया बागोल, प्रीतबायन, गणी मं० 6, ग्राम आनन्द, जिला खेड़ा।
4793.	नारायण भाई पटेल माधवलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4745 7-4-75	ग्राम मोभासन, पो० हंस, तह० कलोल, जिला मेहसाण।
4794.	नारायण भाई पटेल खैठाभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4712 29-3-75	ग्राम विरबपुर, तह० चांसभा, जिला मेहसाण।
4795.	नारायण भाई बबे बनाभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	7983 25-2-81	नरिबन ब्राह्मणवास, ग्राम उबसवि, तह० ब जिला गांधीनगर।
4796.	नारायण भाई जोशी मधुभाई	एल० ए० एम०, यू० पी० आ० महा० पाटन (बड़ौदा राज्य) 1940	238 15-3-48	मकरदास देसाई, खडाकी, ग्राम मन्दीयाड।
4797.	नारायण भाई पटेल हरीशंकरदास	डी० एम० ए० सी०, क० यु० आ० कोर्स, गुजरात 1964	1471 3-7-64	ग्राम देतरोज, तह० बिरमगाम, जिला अहमदाबाद।

1	2	3	4	5
4798.	नारायण दास आचार्य पुलसीबास	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	5784 30-4-77	ग्राम नागनेश, बाया बरगपुर, तह० जिंजावी, जिला सुरेन्द्र नगर ।
4799.	नारायण मोरे हुण्णा	बी० ए० ए० ए० ए०, विदर्भ बोर्ड आफ्ना० यू० सि० येडीसन, महाराष्ट्र 1968	2825 26-8-69	ग्राम टंकारी बम्बर, तह० जामपुर, जिला बड़ोच ।
4800.	नन्दकमल बकाली मणलाल	बी० ए० ए० ए० ए०, वि० आ० आ० वि० वि० वि० वि० वि०, 1964	6784 21-3-79	माही मन्दिर के सामने, बालद गौरी, ग्राम पाभीडना, जिला जामनगर ।
4801.	नरेश्वरसाई पटेल जीवनसाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7320 10-10-78	जैन देरदार के नजदीक, ग्राम तुडाकेसबर, बाया किम, तह० मन्वपी, जिला सुरत ।
4802.	नरदाबेन कपाडिया राजनीकाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7379 7-11-79	पंचमुखी मातुमन धले, बाबाबोठा, ग्राम सुरत ।
4803.	नरेश्वरकुमार बाडियाजी, प्राणजीवनदास	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4726 1-4-75	उपाली बाजार, ग्राम बारोवजी, जिला सुरत ।
4804.	नरेश्वरभागले नामदेव	बी० ए० ए० ए० ए०, पुणे वि० वि०, 1982	9205 30-1-85	26, चन्द्रलोक सोसाइटी, भोवासर, अहमदाबाद ।
4805.	नरेश्वरकुमार भावसर अमृतलाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	7783 19-8-80	ग्राम टंकल, बाया रंजुबा, तह० जिंजावी, जिला बलसाव ।
4806.	नरेश्वरशुद्धजीव जगजीवन दास	बी० ए० ए० ए० ए०, क० यू० आ० कोर्स, गुजरात, 1971	9230 19-2-85	ग्राम पेठापुर, तह० व जिला गांधीनगर ।
4807.	नरेश्वरजीव नरेश्वरदास	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1982	8524 27-8-82	ग्राम व पो० मेभरोड, तह० पाडरा, जिला खबीदा ।
4808.	नरेश्वरदे नरीसंकर	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1982	8505 27-8-82	ग्राम व पो० नवादरा, घोसका, बाया कोटा पंगद, जिला अहमदाबाद ।
4809.	नरेश्वरपरिखर रसिकलाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	5932 19-10-77	सुख निवास कालोनी, ब्लॉक नं० सी/2, कोलबठर बंगला रोड, जमरेली ।
4810.	नरेश्वर पटेल पानजीबाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1984	9476 28-2-86	परेश बुधन, कृष्णकुम्भ, सोसाइटी, प्रताप बाजी के सामने, स्टेशन रोड, ग्राम विधा, जिला बी० के० ।
4811.	नरेश्वरराव प्राणसंकर	बी० ए० ए० ए० ए०, कै० आ० यू० सि० येडीसन, बम्बई 1959	2104 3-9-59	महालक्ष्मी सोसाइटी, ब्लॉक नं० 4/2, कालेज रोड, ग्राम जूनागढ़ ।
4812.	नरेश्वरविद्याजी कमलदास	बी० ए० ए० ए० ए०, कै० आ० यू० सि० येडीसन, बम्बई 1956	988 3-9-56	सरदारराज, डिस्टेंसरी, ग्राम गांधीग्राम, जिला कच्छ ।
4813.	नरेश्वरवीर ठकरदास	बी० ए० ए० ए० ए०, क० यू० आ० कोर्स, गुजरात 1962	1036 18-7-62	ग्राम व पो० आ० उन्दाडी, स्टेशन इंगरी, तह० बालसाव ।
4814.	नरेश्वरसाई लख प्रमानन्द	आयुर्वेद शिक्षक, नि० आ० आ० वि० वि० वि० वि०, 1976	6500 1-2-79	6, जगन्नाथ आड, जीमलान रोड, ग्राम राजकोट ।

1	2	3	4	5
4815.	नरेन्द्रकुमार भट मुख्यकार	बी०एस०ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1970	3247 21-9-81	ग्राम गजौर, तह० जामनगर, जिला अहमदाबाद
4816.	नरेन्द्रकुमार बीनसी विमलनाथ	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1968	2734 10-2-69	हरीपुरा, धर्मबाग रोटी, सूरत।
4817.	नरेन्द्रसिंह जड़ीजा बानुबा	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3453 28-3-72	ग्राम बिरवावा, बाया दाहिसरा, तह० मोरवी, जिला राजकोट।
4818.	नरेन्द्रकुमार जोशी शंकरलाल	बी० ए० एम० एम०, के० आ० यू० सि० मेडीसन, बम्बई 1950	237 31-7-50	ग्राम वासवा, जिला सुरेन्द्रनगर।
4819.	नरेन्द्रकुमार जोशी बलसुखभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3938 2-5-73	मार्केट बससुखभाई जोशी, 1966, ग्राम ताजना, जिला जूनागढ़।
4820.	नरेन्द्रकुमार जोशी बालकृष्ण	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6276 20-9-78	ग्राम व पो० कालवारा तह० वागदा, जिला बड़ोदा।
4821.	नरेन्द्रकुमार मेहता प्राणशंकर	बी० एम० ए० एम०, के० आ० यू० सि०, मेडीसन, गुजरात 1962	907 27-12-62	मदबर्दासिहजी अस्पताल, मिस पारा, ग्राम पोरबन्दर।
4822.	नरेन्द्र कुमार मेहता; रतीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5515 2-9-76	डिगवाड, पंच नदाबी, ग्राम बड़ोदा, ग्राम बड़ोदा।
4823.	नरेन्द्रकुमार मोरवाधिया बेचारभाई मु	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०] 1974	5110 2-1-76	82, बी० कुम्भलगुण्ड, मिमलनगर, ई० एस० भाई० डिस्टेंसरी कि सामने, जिला भावनगर।
4824.	नरेन्द्रकुमार माक रामजीभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	7493 17-1-80	ग्राम व पो० गानपुर, तह० कुकवाच, बाया बगलारा, जिला अमरेली।
4825.	नरेन्द्रकुमार पंचवली [मनीमचन्द्र]	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1968	2792 25-6-69	ग्राम गन्नाड स्वामीना, भावसी रोड, जिला भावनगर।
4826.	नरेन्द्रकुमार पांड्या गुजरात]	मायुर्वेद विषयक, नि० आ० मायु० विद्यापीठ, दिल्ली 1975	6910 16-4-79	पटेल राजजी मावजी हाउ० फेब्रुवरी मन्दिर के नजदीक, ग्राम राजकोट।
4827.	नरेन्द्रकुमार पटेल काशीदास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3700 30-11-72	ग्राम कोसिमदा, तह० लखौदा, जिला बड़ोदा।
4828.	नरेन्द्रकुमार पटेल अम्बालाल]	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, [1984	9374 2-9-85	ग्राम टेंडोडा, तह० विसा, जिला बी० के०।
4829.	नरेन्द्रकुमार राजल काशिलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3893 27-2-73	मार्केट के० जे० रावक, बी०-२, ई० एस० आर० ई०, अस्पताल, नजदीक बाहुरियावा, असर्वा, अहमदाबाद।
4830.	नरेन्द्रकुमार राजल [रविशंकर]	मायुर्वेद प्रणयना, आ० व० प्र० स०, बड़ोदा 1978	6566 12-2-79	हा० आर० बी० राजल, ग्राम-उ० सो० झरीपुर, ता० बीरांगाम, जिला अहमदाबाद।
4831.	नरेन्द्रकुमार राजल [रविशंकर]	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1980	8154 3-9-81	ग्राम व पो० लोहरा, तह० बीजापुर, जिला मेहसाणा।

1	2	3	4	5
४८३२.	नरेश्वर सिंह रावत गनसिंह	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० १९७५	५७२२ १६-३-७७	मार्फत फतेहसिंह बाबिसिंह, बागियाहू, मिल नं० २, गोमतीपुर रोड ।
४८३३.	नरेश्वरकुमार प्रसाह साफलस	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, १९८१	६०४३ १९-४-८३	ग्राम कानन, तह० महमदाबाद, जिला अहमदाबाद ।
४८३४.	नरेश्वरकुमार प्रसाह साफलस	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, १९८१	६७३३ १९-४-८३	मार्फत कुमारी कञ्चैयालाल एम० शाह, ग्राम, पो० ए० तह० बयाद, जिला साबरकण्ठा
४८३५.	नरेश्वरकुमार सुकल गीतम प्रसाद	आयुर्वेद मध्यमा, आ० व० परीक्षा, समिति, बड़ौदा १९७८	६७१३ ९-३-७९	रणजीत हाऊस, कासोपी, ब्लॉक नं० बी-८ फ्लैट नं० ३४०, हाथी कासोपी के सामने, ग्राम जामनगर ।
४८३६.	नरेश्वरकुमार ताम्बोली नामभाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, १९८३	९२०८ २-२-८५	मार्फत डा० बी० एन० ताम्बोली, साई मिलनिक, अदाजनगाम, जिला सुरत ।
४८३७.	नरेश्वरकुमार त्रिवेदी प्रभाशंकर	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, १९७४	४६३३ १-३-७५	प्रोनाजी डाक्टर, शोरी, मज्जीक गोठी गेट, ग्राम पालिटाना, जिला भावनगर ।
४८३८.	नरेश्वरकुमार त्रिवेदी जयशंकर	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० १९७५	६१९७ १५-७-७८	ग्राम बपो० जगमा, तह० पासनपुर, जिला बनासकण्ठा ।
४८३९.	नरेश्वरकुमार पटेल मयनलाल	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, १९७९	७८९२ १४-११-८०	ग्राम बपो० पना (कुम्भरिया), तह० चाधसि, जिला सुरत ।
४८४०.	नरेश्वरकुमार उमाध्याय रतिलाव	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, १९७५	५१६० १२-२-७६	गंगाजी पटेल, हाऊस, ग्राम बुधुल, जिला भावनगर ।
४८४१.	नरेश्वरकुमार श्याम महेश्वर	बी० ए० ए० सी०, क० शु० आ० कोर्स, गुजरात १९६६	२४६१ १३-४-६७	राधाशम, फार्म सर्वोद्वीन प्राणकुवर्वा भवन, महादेव बारी, गोन्डाल, जिला राजकोट ।
४८४२.	नरेश्वरकुमार शैव श्रीधरलाल	आयुर्वेद विचारक, [मोर्टे] आफ इ० मे०, सीराधु १९६२	२२४९ १४-२-६२	एच० एच० स्ट्रीट, हरीहरेश्वर माहोली, ग्राम प्रास्तिक, जिला साबरकण्ठा ।
४८४३.	नरेश्वरकुमार आरमा रामभाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, १९८२	८५५८ १६-९-८२	चारकुवा, मुकली, शोरी, सारखोज ग्राम, तह० सिटी, जिला अहमदाबाद ।
४८४४.	नरेश्वरकुमार, पटेल संकलचन्द्र	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, १९८५	९६१५ २१-११-८६	ग्राम बपो० आ० कुशल, तह० काकोल, जिला मेहसाणा ।
४८४५.	नरेश्वरकुमार शोषी शोषीनवास	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, १९७२	४०८३ ८-१०-७३	ग्राम भावभाषीजाविया, तह० कालबाव जिला जामनगर ।
४८४६.	नरेश्वर कुमारा हीरालाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, १९६३	१६२५ २५-३-६५	जुमागाम फोर्ट, सोगाव, जिला सुरत ।
४८४७.	नरेश्वर कुमारा, बहालाल	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, १९८२	९४३४ २३-१२-८५	मार्फत बी० डी० पांड्या, हाथी शोरी, सिटी सर्वे आफिस के मज्जीक, जिला भावनगर, सिंहहर-३६४२४० ।
४८४८.	नरेश्वर कुमारा काशीनाथ	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, १९७७	६३९१ २७-१०-७८	रनेहायजी, मखर बाबेहा मज्जीक सुबेरा, बागोल, ग्राम बपो० गोधरा, जिला वंचमहल ।

1	2	3	4	5
4849.	नरेश ताम्बेकर रघुनाथ	बी० ए० ए० ए० ए०, फैक० आ० यू० सि० मे०, बम्बई 1958	3315 20-1-72	ताम्बेकर निवास, गोखले रोड, वाघर, बम्बई-28।
4850.	नरेशचन्द्रभट धीरजलाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1970	3181 16-4-71	हरदास मन्दिर, ग्राम चावरन, ता० बोसां, जिला खेड़ा।
4851.	नरेश कुमार भाचार्य विठ्ठलराम	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6315 27-9-78	28, बिरबकुंज, कालोनी, नजदीक पुरामा सोर बाजार, वालीयाक रोड, अहमदाबाद।
4852.	नरेशकुमार अशास्त्री समीलाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6945 26-4-79	बाजार, ग्राम पडोबी, जिला सुरेन्द्रनगर।
4853.	नरेशकुमार वषे सुकुम्भराय	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1982	8890 4-1-84	ग्राम व पो० जाम्बुवा, वाया पुनाथ तह० व जिला जामनगर।
4854.	नरेशकुमार पाला मोहनलाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	5857 23-8-77	जिनगर, 2, दुष्कोसमभाई बाणी, ग्राम सूरत।
4855.	नरेशकुमार पटेल आशाभाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि० 1978	5269 11-9-78	कावर्तिसोसाईटी, ग्राम पालना, तह० नाथियाड, जिला खेड़ा।
4856.	नरेशकुमार पटेल रांछोवभाई	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8734 19-4-83	ग्राम व पो० कुवसाथ, वाया किम, तह० मोलपाव जिला सूरत।
4857.	नरेशकुमार माह अमृतलाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि० 1977	6833 22-3-79	98, कार्दारकंगार सोसाईटी, रोड रोड, सूरत।
4858.	नरहरी दावे प्रभाकर	बी० ए० ए० ए० ए०, क० यू० आ० कोर्स, गुजरात 1985	1686 16-5-85	रामनिवास पुलिस चौकी के नजदीक।
4859.	नरहरी दावे कान्तिलाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7687 22-4-80	ग्राम मोडावर, तह० पालिताना, जिला भावनगर।
4860.	नरहरी जामी भीखालाल	आयुर्वेद मध्यमा, आ० व० प० स०, बड़ोवा 1978	6579 16-2-79	वाघवा, भाववार नैरी, ग्राम भावनगर।
4861.	नरहरीभाई पाठक बिभूवन दास	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3929 19-4-73	ग्राम कोसिन्ना, तह० धोरसाथ, वाया संकसव, जिला खेड़ा।
4862.	नरहरीलाल भट मोहनलाल	आयुर्वेद विचार्य, म० सि० वि० वि०, 1941	2325 3-11-41	ग्राम टान, तह० पहरस, जिला बड़ोवा।
4863.	नारीबेन दासधा पीबिन्दुभाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1980	8444 31-5-82	ग्राम अमृतपुर, पो० जामन, तह० पकेश्वर, जिला बड़ोवा।
4864.	नटवरलाल सुयार दुष्कोसम दास	आयुर्वेद मध्यमा, आ० व० प० स०, बड़ोवा 1978	6678 3-3-79	ग्राम वनामपुर, तह० व जिला मेहसना।
4865.	नारीबरा दावे छैलाचंकर	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7522 15-2-80	11/129, भावर्जनगर, नजदीक विजयनगर नारनपुर, अहमदाबाद।

1	2	3	4	5
4866.	नरहरीलालभट फूलसंकर	आयुर्वेद विभागात्, म० सि० वि० वि० 1949	2156 1-9-47	ग्राम मंजुसार, तह० साबली, जिला बड़ौचा
4867.	नार्यरी प्रसाद धन्वालाल	आयुर्वेद विभागात् म० सि० वि० वि०, 1943	2292 3-11-41	वापी, छेली पोले, ग्राम बड़ौचा ।
4868.	नरहरप्रसाद दवे गटवरलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1973	4217 19-2-74	मोटा अदाव, घोबी टेकरा, ग्राम आमल, जिला बेडा
4869.	नरहरप्रसाद गोड्डालिया रतीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	5827 5-7-77	मार्फत डा० आ० जी० गोंडालिया, जीम वारा ग्राम जेटपुर, जिला राजकोट ।
4870.	नरहरीप्रसाद पांड्या छोडालाल	बी० ए० एस० एफ०, फैक० आ० यू० सि० मेडीसन, बम्बई 1955	751 2-1-58	ग्राम दावाव, ता० इंदार जिला सबरकण्ठा
4871.	नरसिम नाथिबाला हबीबभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8772 12-5-83	शहीगारा बेरी, जयेश्वर मन्दिर, जाकरिया, मंजिस, ग्राम घोराभी, जिला राजकोट-380410
4872.	नरसिंभाबेन मिस्री इच्छाराम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1970	3479 14-4-72	7, बी, मुरलीधर सोसाइटी, मीठव, अमदावाद
4873.	नर्मदा संकर राजल आटसंकर	आयुर्वेद उल्लमा, आ० ए० ए० ए०, बड़ौचा 1987	6477 1-2-79	संस्कृतम, कोमल कालीज के सामने, ग्राम वावणगर
4874.	नरोत्तम पटेल नोर्बिनभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7855 28-3-80	ग्राम बालभा, ता० विश्वावर, जिला मेहसाणा
4875.	नरोत्तमभाई पटेल केवलदास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	8094 4-6-81	ग्राम काहीपुर, ता० बेरजु, जिला मेहसाणा
4876.	नरोत्तम दास रामिना मोहन लाल	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० यू० वि० ए०, गुजरात 1964	1772 21-7-85	ग्राम बन्तवा, जिला जुनागढ़
4877.	नरोत्तम दास कुमावत नरामैराम	आयुर्वेद भिषक, नि० आ० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1968	7082 21-6-79	ग्राम छाया, ता० पीरबन्दर, जिला जुनागढ़
4878.	नरपत सिंह सयाणिया प्रगवान सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7664 28-3-80	ग्राम लुना, ता० बालिया जिला बड़ौचा
4879.	नरपत सिंह बाभोर मुराजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1980	8349 11-3-82	ग्राम ध पी० वंकरपुरा, ता० जालोड, जिला वंच- महल
4880.	नरसंग बेडिया हरिजीवन	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1973	4477 2-8-74	ग्राम वार, माया केसोड, जिला जुनागढ़
4881.	नरसिमभाई चौतालिया नारण भाई	आयुर्वेद भिषक नि० आ० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1975	6504 1-2-79	ग्राम बोलरा, जिला राजकोट
4882.	नरसिंह मोचरा रवजी भाई	बी० ए० एम० एम०] गुजरात आ० वि० वि० 1984	9320 25-7-85	444, हुंस सोसाइटी, वरळा रोड, ग्राम सुरत

1	2	3	4	5
4883.	नरसिंह गोपसारा मदनभाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1972	3966 7-7-73	ग्राम हरिपुर, ता० तालासा, जिला जूनागढ़
4884.	नरसिंह कोहेस प्रमूदास	आयुर्वेद शिक्षक मि० आ० आ० विद्यापीठ, विल्ली 1966	7137 24-7-79	ग्राम गौघर, ता० व जिला जूनागढ़
4885.	नरसिंह पाटिल विठ्ठल	बी० एस्० ए० सी० क० सु० आ० कोर्ट, गुजरात 1963	701 4-8-63	ग्राम कोरित, पो० प्रकाश, ता० मन्जुभास्कर जिला सुलिया
4886.	नरसिंह राजा सुमान सिंह	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1968	2786 7-6-68	ग्राम पंनसोली, ता० कापिथा, जिला अकोल
4887.	नरसिंह राजोड रूप सिंह	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1970	3289 25-10-71	ग्राम अनोविया, ता० बीखपुर, जिला देहसागा
4888.	नरसिंह योशिका कल्याणभाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1970	3291 24-11-71	ग्राम प्रमवाघ, ता० जेटपुर, जिला राजकोट
4889.	नरसिंह भाई पटेल दुर्गभाई	बी० ए० एस्० एफ० फे० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1950	566 26-2-51	ग्राम पूना (कुम्भारिया), ता० कोर्नाडी, जिला सुपल
4890.	नरसिंह भाई पटेल शाह भाई	बी० एस्० ए० एफ० क० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1950	565 24-1-51	ग्राम बापलपुर, ता० बोर्साव, जिला कोटा
4891.	नरसिंह भाई पटेल मोहन लाल	बी० एस्० ए० सी० क० सु० आ० कोर्ट, गुजरात 1968	2184 5-10-66	जिला पंचायत आयुर्वेद डिस्पेंसरी, ग्राम लखोडी, ता० जोतिला, वाया बकानेर, जिला कुरोलनगर
4892.	नरसिंह भाई पाकिवार मोहन भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1971	3494 24-4-72	ग्राम पिलुवरा, ता० जमबुसर, जिला अकोल
4893.	नरसिंह भाई पटेल ईश्वर भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1974	4978 15-10-75	ग्राम महमवपुर, ता० सिडी, जिला बहमनवाघ
4894.	नरसिंह भुवी जेठवानी देवपुरी	वेद्य विज्ञानज्ञ मि० आ० आयु० विद्यापीठ, विल्ली 1976	6527 3-2-79	ग्राम अवरियाण, ता० पन्नाडी, जिला कुरोलनगर
4895.	नाजीर अहमद पाकिवार अहमद भिया	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1972	4047 15-9-73	ग्राम जमला, ता० जागलिया, जिला अकोल
4896.	नरसिंह पटेल रतन	बी० एस्० ए० सी० क० सु० आ० कोर्ट, गुजरात 1966	2083 4-7-66	ग्राम व पो० आ० सरवाले, ता० विजय, जिला सुरत
4897.	नरसिंह पटेल शंकर लाल	बी० एस्० ए० सी० क० सु० आ० कोर्ट, गुजरात 1963	568 12-6-63	बबूतरा के नजदीक, ग्राम लखीका, जिला देहसागा
4898.	नशामाई गडोशिया बलराम भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1975	5449 5-7-76	ग्राम मैकवाडा, वाया बकानेर (भराली) जिला अमरेली
4899.	नशामाई बाकरीया हरिभाई	आयुर्वेद शिक्षक बोर्ड ऑफ़ इं० मे०, सोराष्ट्र 1961	2218 20-6-61	ग्राम भोलाडी वाया साबरमुक्ता, जिला साबरमर

1	2	3	4	5
4900.	नथालाल बंगेडा जीवाभाई	आयुर्वेद चिकित्सक वि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1972	9105 31-7-84	ग्राम हसनबदार पो० अछिन्दा बाया शेरबाग, ता० बीरबल, जिला जुनागढ़
4901.	नथालाल बंगारिया पोपत भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1981	3241 9-12-81	ग्राम व पो० सूरबा, (गिर) ता० तालसा, जिला जुनागढ़
4902.	नथालाल निमावत रामकृष्ण	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1974	5082 15-12-75	513/3, मघाकवासा, मोती रंगीलापोसे के पीछे शाहपुर, अहमदाबाद
4903.	नथा लाल गोहिल हीराजी भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1975	5691 24-2-77	ग्राम इतभमवारा, ता० सालकुन्डल, जिला भाव- नगर
4904.	नथालाल जनबा प्रेमजी भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1972	3764 7-2-73	ग्राम नानी बराल, बाया मोर्बी, ता० मलीहा- तिता, जिला राजकोट
4905.	नथालाल काडेवाल अम्मा भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1974	4811 30-4-75	ग्राम कानपुर, पो० बीरनगर, ता० जवाबा, जिला राजकोट
4906.	नथालाल मावनिव्या जादव जी	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1971	3518 14-6-72	पुराना सिनेमा रोड, ग्राम धम्बाली, जिला जुनागढ़
4907.	नथालाल पांड्या प्राणजीवत	वैद्याचार्य, वि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1967	6911 16-4-79	ग्राम बालगाम बाया केबोड, जिला जुनागढ़
4908.	नथालाल रावोड पोट भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1973	4587 12-12-74	धरवार गढ़ के पीछे, मसी शुक्ला के सामने, ग्राम पोरबन्दर, जिला जुनागढ़
4909.	नथालाल सोलंकी वह्याभाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1973	4374 8-5-74	ग्राम अडेलाई, (भाल) पो० बावलीयारी, बाया धोलारा, पोर्ड, जिला भावनगर
4910.	नथुभाई मोघरिया] मुलाजी भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1971	3427 9-3-72	ग्राम गजेरा, ता० धानगधरा, जिला सुरेन्द्र नगर
4911.	नथु भाई पटेल मुलाजी भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1973	4607 13-1-75	ग्राम भीलोडा, जिला साबरकन्डा
4912.	नथु भाई पटेल मालजी भाई	बी० एस्० ए० एम०] गुजरात आ० वि० वि०] 1976	5913 11-10-77	ग्राम भरला, ता० न जिला बड़ौदा
4913.	नथु राम दुधरेजिया केशव लाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०] 1975	5747 31-3-77	ग्राम भावथाल, ता० जाम आम्भलिया, जिला जामनगर
4914.	नथु भाई वेमाई दयाल जी	जी० एफ० ए० एम०] फै० आ० यू० सि० मे०, बम्बई 1959	417 1-3-60	अगा० बाघ, सैयबपुर, सूरत-3
4915.	नटवर लाल गुजराती विष्णु बास	जी० एफ० ए० एम०] फै० आ० यू० सि० मे०, गुजरात	1536 1-12-59	मेडीकल आफिसर सरकारी डिस्पेंसरी, सचम्बा, बाया बायब, जिला एस० के०
4916.	नटवर लाल उकानी वह्या भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1975	5778 26-4-77	माफत वह्याभाई के० पटेल, पुष्पकर, 15-बी, पंचवटी सोसाइटी, राजकोट -1।

1	2	3	4	5
4917.	नटथु भाई पांदया भानु भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1972	4074 4-10-73	ग्राम रामभाई, पो० अमरगढ़, ता० सिहोर, जिला भावनगर
4918.	नटथु भाई पटेल, धनजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1978	7600 17-3-80	ग्राम सुखला ता० भारमपुर, यामा माना पोम्बा, जिला बलसाद
4919.	नटथु भाई वैद्य नरसिंह भाई	आयुर्वेद विशारद म० वि० वि० वि० 1947	2103 30-9-47	गजानन्द कालोनी, ब्लॉक नं० 3, दक्षिणी सोसाइटी बस स्टैंड के पीछे, मनीनगर, अहमदाबाद
4920.	नटवर भाई पटेल सोहन भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1970	3201 30-6-71	ग्राम खेरोल, पो० उज्जैनिया ता० प्राग्जि, जिला साबरकण्ठा
4921.	नटवर भाई पटेल पुरुषोत्तम दाम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4204 15-2-74	ग्राम ब पो० पारियेज, ता० सतार, जिला खेड़ा
4922.	नटवर भाई पटेल भीखामाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1975	5387 10-5-76	मार्फत पटेल भीखामाई टी०, सज्जनपुर, ग्राम मरसा, ता० बीजापुर, जिला मेहसाना
4923.	नटवर भाई पटेल ओहल राम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1975	5479 31-7-76	ग्राम किद्रोल, ता० विजापुर, जिला मेहसाना
4924.	नटवर भाई पटेल राम जी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1977	6400 10-11-78	ग्राम महामन्दिर, ता० ब पो० निम्मतनगर, जिला साबरकण्ठा
4925.	नटवर भाई पटेल सोमभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1978	7680 22-4-80	ग्राम श्रावकन, ता० प्राग्जि, जिला साबरकण्ठा
4926.	नटवर भाई पटेल ईश्वर भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1980	8441 31-5-82	ग्राम ब पो० अगोल, ता० कादी, जिला मेहसाना
4927.	नटवर भाई बालम्ब मगन भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1972	4023 30-8-73	ग्राम जनाश्री, ता० जाम्बुमार, जिला बड़ौचा
4928.	नटवर जी राधोड फुल्जी	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1972	3793 16-2-73	ग्राम राधोडपुर, पो० खाडा, ता० विमननगर, जिला मेहसन
4929.	नटवर लाल भट नन्द लाल	एल० ए० एम० यू० पी० आ० महा० पाठन (बड़ौचा) 1941	834 18-10-41	जय नेशनल सोसाइटी, ब्लॉक नं० 8, नारनपुर, धररास्ता, अहमदाबाद
4930.	नटवर लाल भट प्रभूदास	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1974	5149 4-2-76	नजदीक बागेश्वर शोरी, ग्राम बागसरा, ता० कुकवाव, जिला अमरेली
4931.	नटवर लाल सोपड़ा भगवान दाम	बी० ए० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1965	1902 28-12-65	मार्फत भगवान लाल बाधजी पटेल, नजदीक रबाभी नारायण मन्दिर, ग्राम साबरनुडाला, जिला भाव- नगर
4932.	नटवर लाल गुलाब राय	आयुर्वेद शिपक मि० भी० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1960	7160 2-8-79	ग्राम गनबाव, जिला जूनागढ़
4933.	नटवर लाल जानी मार्फत लाल	आयुर्वेद विशारद ग० म० महाविद्यालय, बड़ौचा 1955	1622 8-3-65	ग्राम धोल, ता० कादी, जिला मेहसाना

1	2	3	4	5
4934.	नटवर लाल जोशी प्रेम शंकर	आयुर्वेद विशारद म० सि० वि० वि० 1952	1663 20-5-65	नवा बडोदा प्रस्टेज, मयाइया भावन, वरछा, गेड ग्राम सूरत
4935.	नटवर लाल जोशी छोटा लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1971	3691 13-11-72	ग्राम विथलपुर, ता० तालजा, जिला भावनगर
4936.	नटवर लाल जोशी हरखजी	एम० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1973	4470 30-8-74	ग्राम धारपीपल, बाया रानपपर, ता० मन्धुका, जिला अहमदाबाद
4937.	नटवर लाल जोशी अम्बा लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1974	4709 29-3-75	ग्राम बर्धगि, ता० लुनवाडा, जिला पंचमहल
4938.	नटवर लाल काच पुंज भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1972	8394 24-3-82	ग्राम वपो० चतवाड, ता० कोडीनार, जिला अमरेली
4939.	नटवर लाल कगडा हरजीवन दास	आयुर्वेद भिवक नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1972	6658 28-2-79	नजदीक उडानी निवास, ग्राम जेरवा नगर, जिला सुरेन्द्र नगर
4940.	नटवर लाल मशरू भीमजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1975	6228 4-10-78	ग्राम जाम रावल, जिला जामनगर
4941.	नटवर लाल मेहता जग जीवन दास	डी० ए० एम० एफ० फै० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1951	908 1-2-52	मेहता खादकी, ग्राम कडलाल बाया० सावियाड, जिला खेड़ा
4942.	नटवर लाल मेहता मनसांग	वैद्य विशारद नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1964	6956 3-5-79	अस्वताल रोड, महाराज ट्रांसपोर्ट के सामने, ग्राम पोरगबदर, जिला भुवनाई
4943.	नटवर लाल निमाबत धीरज लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5965 18-11-77	ग्राम भाद, ता० बाम्भा, जिला अमरेली
4944.	नटवर लाल प्रजापित्त छगन भाई	आयुर्वेद भिवक नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1978	7707 2-5-80	ग्राम कामकी, ता० सिद्धपुर, जिला मेहसाणा
4945.	नटवर लाल पाल्सा मबदीभाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० 1965	1764 16-7-65	ग्राम हर्शावपुर, ता० जामनगर
4946.	नटवर लाल पटेल रुन छोददास	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1975	5407 25-5-76	ग्राम अलवा, पो० कास्ता समय, जिला बड़ोच
4947.	नटवर लाल पारिख ननलाल	डी० ए० एम० एफ० फै० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1955	2254 3-12-55	प्राथमिक आयोग्य सेटर, ग्राम चराध ता० वीजापुर जिला मेहसाना
4948.	नटवर लाल पांड्या प्रभा शंकर	आयुर्वेद विशारद बोर्ड इं० में, मसूर, सौराष्ट्र 1961	2244 20-3-61	ग्राम गयल, बाया तनसा, जिला भावलपुर
4949.	नटवर लाल पांड्या रतीलाल	डी० एम० ए० एम० क० यू० आ० फोर्स, गुजरात, 1966	2436 23-3-67	नवपारा साली, खन्ना, भूपत सिंह बाली भाई बालीभाई हाऊस, भावनगर
4950.	नटवर लाल पटेल आरमा राम	डी० ए० एम० एफ० फै० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1956	567 2-1-57	ग्राम कलोस, जिला मेहसाणा

1	2	3	4	5
4951.	नटवर लाल पटेल चतुर्भाई	बी० ए० ए० ए० ए० फैक० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1959	581 2-1-60	ग्राम लाडोल, ता० भीजापुर, जिला मेहसाना
4952.	नटवर लाल पटेल भीखाभाई	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1977	7031 16-6-79	पटेल नसिग होम, ग्राम व पो० कमलपुर, ता० इवार, जिला साबरकण्ठ
4953.	नटवर लाल पाठक प्राणशंकर	आयुर्वेद विशारद बोर्ड ऑफ़ मे०, सोराष्ट्र 1943	1822 7-10-65	ग्राम नकनपुर, ता० गोधरा, जिला पंचमहल
4954.	नटवर लाल रावल चतुर्भुज	बी० ए० ए० ए० ए० फैक० आ० यू० सि० मे०, बम्बई 1946	978 3-11-41	बाबवाली रोरी, ग्राम व जिला खेडा
4955.	नटवर लाल रावल गिरजाशंकर	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1974	4819 2-5-75	ग्राम बिरला, ता० बनसमा, जिला मेहसाना
4956.	नटवर लाल शाह अमृत लाल	बी० ए० ए० ए० ए० फैक० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1956	2604 29-8-53	ग्राम धारा, ता० कंकरेज, जिला बनासकण्ठ
4957.	नटवर लाल शाह जय चन्द्र	बी० ए० ए० ए० ए० फैक० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1956	1168 3-9-56	ग्राम कौचवाड़ा, पो० कलवावा, ता० एवं जिला वालसाद
4958.	नटवर लाल शिंदेरा रवजी भाई	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1978	7791 19-8-80	ग्राम बिलखा, ता० एवं जिला जामागढ़
4959.	नटवर लाल श्रीमती नरेश चन्द्र	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1979	7907 3-12-80	ग्राम एवं पो० भन्वर, ता० बिसनगर, जिला मेहसाना
4960.	नटवर लाल शुक्ल हरजीबम	बैद्य विशारद नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1956	7810 9-9-80	46, जीतेन्द्र पार्क, शंकर आश्रम, पालवी, नारायण नगर रोड, अहमदाबाद
4961.	नटवर लाल सोनी छगन लाल	जी० ए० ए० ए० ए० फैक० आयु० सि० मेडीसिन, गुजरात 1960	1734 22-6-65	ग्राम व पो० आ० मवार, ता० इवार, जिला साबरकण्ठ
4962.	नटवर लाल त्रिवेदी विश्वनाथ	ए० टी० आ० महा० अहमदनगर 1941	293 14-19-41	ग्राम कुकरनाथ, ता० गिजार जिला सुरत
4963.	नटवर लाल ठक्कर विश्वनाथ	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1973	4384 20-5-74	शुक्लाया ग्राम निम्बावी, जिला सुरेश्वर नगर
4964.	नटवर लाल त्रिवेदी माधव लाल	बी० ए० ए० ए० ए० क० शु० आ० कोर्न, गुजरात 1965	1666 21-5-65	6/पुनिना सोसाइटी, प्रैरव नाथ रोड, अहमदाबाद
4965.	नटवर लाल त्रिवेदी हरखलभ	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1971	3691 21-11-72	सोनी फ़ालिया, शारिका नाथ जी, हवेली, ग्राम मंगरोल, जिला जामागढ़
4966.	नटवर लाल त्रिवेदी दत्तनाथ	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1973	4292 27-3-74	ग्राम पुनाडी, नाया गरीयाप्रद, जिला भावनगर
4967.	नटवर लाल जोशी हरगोविन्द	आयुर्वेद विशारद बोर्ड ऑफ़ मे०, सोराष्ट्र 1958	2281 15-3-58	ग्राम चरना, ता० भारी, जिला अमरेली

1	2	3	4	5
4968.	नटवर लाल बंध गिरधारी लाल	डी० एस० ए० सी० क० शु० आ० कोर्स, गुजरात 1963	1037 10-6-63	नजदीक किकभातिम पोल, गुमसाबाद, दरियापुर, अहमदाबाद
4969.	नटवर लाल बेण्याव नरोत्तम वाम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1971	3503 4-5-72	जे-6, राज० आकिसर कालोनी, नवा सेंटल, अहमदाबाद-16
4970.	नटवरलाल बामेथा हीरभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1969	2993 6-7-70	बेबा रोड आकत नाका, ग्राम भाषनगर ।
4971.	नटवरसिंह बारिया रूपसिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	8104 20-6-81	ग्राम न पो० रामपुर ता० गीधरा, जिला-- पंचमहल ।
4972.	नटवरसिंह भाडुबी भागवतसिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6059 8-3-78	ग्राम न पो० पंजाब, ता० जाम्नात जिला-- मेहसाणा ।
4973.	नटवरसिंह गोषणा प्रभातसिंह	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1965	2162 5-9-66	ग्राम करसाव पी० रेसद ता० बाभिया, जिला--बड़ौचा ।
4974.	नटवरसिंह सोलंकी दोलतसिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7751 30-6-80	ग्राम सानिया कौंडे आर० एम० एम०/3 ता० चोयाली जिला--सूरत ।
4975.	नटवरसिंह जाला श्रीमान सिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3792 16-2-73	बेडुराम मन्दिर ग्राम बबना ता० आनन्द जिला--बेदा ।
4976.	नीलाव बालमी सबकुमारी भाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1983	8964 12-3-84	"भिरव" ग्राम न पो० परवी ता० लोडिका जिला--राजकोट-360002 ।
4977.	नीतमलाल मठ शान्तिलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4511 20-9-74	कदुबुधारा ग्राम बजाल ता० धारी, जिला--अमरेली ।
4978.	नीतमलाल तिलक दयाराम	बी० एस० ए० सी०, क० शु० आ० कोर्स गुजरात 1966	2268 21-11-66	विश्वीन ता० नखतंपना जिला--कच्छ ।
4979.	नीतमलाल ठकर सुभाराम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3473 10-4-72	गुनववादी नरी नं० 319 ग्राम राजकोट ।
4980.	नवलकिशोर दास रघुनाथ	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1984	9486 24-3-86	सैजपुर बोधा धनुषयाधारी सोसाईटी, स्वामी भागवतार्याय बाभम के सामने, अहमदाबाद ।
4981.	नवल किशोर बंध राधावल्लभ	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	5829 6-7-77	वाववकी शरी ग्राम न जिला बदा ।
4982.	नवलकुमार पटेल श्रीकमलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5553 4-10-76	मार्फत विनुभाई टी० पटेल ग्राम मवादी, ता० एवं जिला-राजकोट ।
4983.	नवलकुमार सोलंकी देवभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1982	8532 14-9-82	ग्राम वावव, ता० एवं जिला--जामनगर ।
4984.	नवलराम रेसाई इछाराम	ए० ए० एम०, यू० पी० आ० महा० पाटन (बड़ौचा राज्य), 1941	416 18-10-41	ग्राम काकोड, ता० बाबोली, जिला--सूरत ।

1	2	3	4	5
4985.	नवलशंकर दवे प्राणवल्लभ	आयुर्वेद विशारद, बी० ए० मेडिसिन सीराष्ट्र 1959	1882 8-12-65	आश्रम औषधालय, बरगाटे, भावनगर ।
4986.	नवलशंकर ठकर जटाशंकर	वैद्य विशारद, नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1972	6795 21-3-79	ग्राम भांडुरी, ता० मालिमाहतिना, जिला-- जुनागढ़ ।
4987.	नवलशंकर मेहता शम्भूप्रसाद	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1957	9104 31-7-84	ग्राम बंमजलिया, ता० जमजोखपुर, जिला-- जामनगर ।
4988.	नवलसिंह राधोब देवीसिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	4005 17-8-73	ग्राम सारा, वाया हासवाव, जिला--सुरेन्द्रनगर ।
4989.	नवीनभाई त्रिवेदी शांतिलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1980	8415 5-4-82	ग्राम रंगपुर, ता० खंभात, जिला--खेड़ा ।
4990.	नवीनचन्द्र अश्वपाल अमृतलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	7820 24-9-80	मार्फत ए० बी० अश्रवात, जवाहर रोड, ग्राम जुनागढ़ ।
4991.	नवीनचन्द्र षट मेनकमाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3339 8-2-72	4 क्वार्टर, ग्राम ता० उमरखा, जिला-- भावनगर ।
4992.	नवीनचन्द्र दवे तुस्सीवास	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1965	1890 15-12-65	मार्फत जी० के० द्विवेदीसरी, सुतरवाव, पोरबंदर
4993.	नवीनचन्द्र फिखायिया नटवरलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8577 21-10-82	ग्राम वाभा, ता० लखातर, जिला--सुरेन्द्रनगर ।
4994.	नवीनचन्द्र देसाई जेठालाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5656 11-10-77	ग्राम मोरा, ता० गोधरा, जिला--सूर्यनगढ़ ।
4995.	नवीनचन्द्र दोशी जेठालाल	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1961	7637 20-3-80	ग्राम शीयानी, ता० लिबासी, जिला सुरेन्द्रनगर ।
4996.	नवीनचन्द्र गोर कचरशंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	5916 11-10-77	ग्राम वावद, ता० हवार, जिला--साबरकण्ठा ।
4997.	नवीनचन्द्र जोशी बलबन्तराव	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	6125 5-4-78	बैद्य सवन, पुरानी डेरी रोड, नंगलपुरी नाम के सामने, अहमदाबाद ।
4998.	नवीनचन्द्र शाह पनाचल	डी० ए० एम० एफ०, फैक० आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1954	1171 2-1-54	ग्राम मोरवा, जिला--बड़ोवा ।
4999.	नवीनचन्द्र शाह मोहनलाल	डी० ए० एम० एफ०, फैक०, आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1955	1170 3-1-55	ग्राम बदेजा, ता० वासरोय, जिला-- अहमदाबाद
5000.	नवीनचन्द्र शाह सकरचन्द	जी० एफ० ए० एम०, फैक० आ० यू० सि० मेडिसिन, गुजरात 1964	1817 6-10-65	भस्यखाना, विरमगाम, जिला--अहमदाबाद
5001.	नवीनचन्द्र षट नवलशंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5772 28-4-77	ग्राम गुंडरगौर, वाया एब ता० एब जिला-- जुनागढ़ ।

1	2	3	4	5
5002.	नवीनचन्द्र मोलात रंजीत लाल	डी० ए० एस एफ० फैक० आ० यू० सि० मेडीसन, बम्बई 1957	1294 1-7-57	सी-7, पुरेश्वर टेनामेन्ट गुलबाई टेकरा, अम्बाबावी अहमदाबाद ।
5003.	नवीनचन्द्र मसलिया शिवनलाल	जी० एफ० ए० एम०, फैक० आ० यू० सि० मेडीसन बम्बई 1958	942 1-7-58	मंगलवार पेठ, ग्राम व ता० और जिला--पूणा।
5004.	नवीनचन्द्र ओजा हर्षवराय	डी० एम० ए० सी०, क० शू० अ० कोर्स, महाराष्ट्र 1963	84 26-6-63	स्वामीनारायण रोड, ग्राम बड़ोदा ।
5005.	नवीनचन्द्र केवलिया अमृतलाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1964	1482 14-6-64	30, दिग्विजय प्लोट राधा निवास जामनगर।
5007.	नवीनचन्द्र शाह कान्तिनलाल	जी० एफ० ए० एम० फैक० आ० यू० सि० मेडीसन बम्बई 1960	2719 19-12-68	पटेल वादी पालवी, अहमदाबाद
5006.	नवीनचन्द्र पांड्या मंगनलाल	वैद्य विभावर, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1969	7418 29-11-79	ग्राम शिवा, वाया जाम जोधपुर, ता० भवाव, जिला जामनगर,
5008.	नवीनचन्द्र परमार मोहनलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1979	7874 14-11-80	ग्राम व पो० नरकोई, ता० मोदासा, जिला नाबरकण्ठा
5009.	नवीनचन्द्र पटेल रामदास	जी० एफ० ए० एम०, फैक० आ० यू० सि० मेडीसन, गुजरात 1961	564 3-5-62	ग्राम व पो० आ० कालसी पो० व जिला-- बड़ोदा ।
5010.	नवीनचन्द्र पटेल गंवाभाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1967	2888 4-7-68	ग्राम झूरो ता० व जिला--वलसाड ।
5011.	नवीनचन्द्र पटेल भीखाभाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1968	2693 24-7-68	ग्राम भाग्यना, पो० केसाव, ता० चायासी, जिला--सुरत ।
5012.	नवीनचन्द्र पटेल विठ्ठल भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4484 3-9-74	ग्राम बाघोदिता कस्तीर्वा फालिमा,
5013.	नवीनचन्द्र पटेल कान्तिनलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	5025 29-10-75	65-वी आनन्द फ्लेट नजदीक लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम बापूनगर, अहमदाबाद ।
5014.	नवीनचन्द्र रायगुरू ममालाल	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1972	7448 21-12-79	गायत्रीशेरी 17 लक्ष्मीवादी ग्राम राजकोट ।
5015.	नवीनचन्द्र शाह नागरदास	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1962	1172 14-9-62	स्टेशन रोड ग्राम बीरवल,
5016.	नवीनचन्द्र पूजरा भगवानजीभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3376 16-2-72	ग्राम व पो० पालियाद ता ब्रोटाड, जिला - भावनगर ।
5017.	नवीनचन्द्र राजोर धोलानाथ	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5241 5-3-76	ग्राम दाबहाव ता० खेरालू, जिला -मेहसाणा
5018.	नवीनचन्द्र सुधात अम्बालाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1976	6179 15-6-78	सुधारफाली, ग्राम व पो० रसमोल, ता० आनन्द जिला -खड़ग ।

1	2	3	4	5
5019.	नवीनचन्द्र वैद्य बाबीलाल	बी० ए० एस० एफ फैक० आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1948	1040 28-2-49	ग्राम कम्डारी बाया मियाग्राम ता० कर्जन जिला--बड़ौदा ।
5020.	नवीनचन्द्र वैद्य नटवरलाल	बी० ए० एस० एफ०, फैक० आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1956	1039 1-10-56	मोमनाबासनका रैबर, अहमदाबाद ।
5021.	नवीनचन्द्र व्यास रन्तिलाल	जी० एफ० एस० एफ० फैक० आ० यू० सि० मेडिसिन बम्बई 1958	1092 2-8-58	मेडीकल आफिसर खेर्वा डिस्पेंसरी, ग्राम खेर्वा, जिला--मेहसाणा ।
5022.	नवनीत झोलकिया, कान्दिलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4892 17-6-75	ग्राम लठ, ता० उपलेट, जिला--राजकोट ।
5023.	नवनीत शाह बनध्यामलाल	जी० एफ० ए० एम०, फैक० आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1965	2154 29-8-66	सटर रॅलवे खेल मैदान के सामने, बी नार० अम्बेडकर पारेल (ईस्ट) बम्बई ।
5024.	नवनीतभाई पटेल केशवलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	8068 4-5-81	ग्राम सोनसान, ता० प्रान्तिज जिला-- साबरकण्ठ ।
5025.	नवनीतभाई पटेल रतीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8638 28-1-83	प्रथम तल मिनूकेतन रावपुर के सामने, जागीवास-विठल पोल, बड़ौदा ।
5026.	नवनीत कुमार पांड्या जैठाराम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	6017 2-2-78	ग्राम वंछरा, ता० पाडरा जिला--बड़ौदा ।
5027.	नवनीतकुमार शाह बन्धुकांत	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4739 3-4-75	मार्फत शाह बी० सी० 2232, मोमनाबाद पोल शाहपुर अहमदाबाद ।
5028.	नवनीत प्रसाद दवे नटवरलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	4079 4-10-73	शिवसदन जम्बा पीक बसर्वा, अहमदाबाद ।
5029.	नवनीतलाल दवे हिम्मतलाल	डी० एस० ए० सी०, क० यू० आ० कोर्स, गुजरात 1962	359 26-11-62	ग्राम ब पो० लिम्बर्वा, ता० सिनोर, बाया मियाग्राम कर्जन, जिला--बड़ौदा ।
5030.	नवनीतलाल पांड्या बडीनाथ	डी० ए० एस० एफ०, फैक० आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1946	752 31-1-46	198, बबानीलकर रोड, गंगाश्रम कमरा नं० 26 दावर, बम्बई-28 ।
5031.	नवनीतलाल पारेख बेभारलाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आ० वि० वि०, 1967	2501 2-6-67	मार्फत बी० के० पुरेख, नन्व बाया जेरी, सोनी बाणार, राजकोट ।
5032.	नवनीतलाल पटेल मंगललाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	8268 31-12-81	ग्राम ब पो० पंसारी, ता० प्राणजी, जिला-- साबरकण्ठ ।
5033.	नवनीतलाल ठकर चिमनलाल	जी० एफ० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1965	1738 22-6-65	3 विजयबाग, कु० हाकसिंग सोसाईटी, डेरी रोड, दूधसारथ, ग्राम भावनगर ।
5034.	नवनीतलाल ठकर प्राणलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1968	2756 1-4-69	मार्फत धन्वन्तरी प्रसाद श्रीयधालय पो० आ० रोड, ग्राम ब जिला--जूनागढ़ ।
5035.	नवनीतलाल उपाध्याय अम्बालाल	डी० एस० ए० सी०, क० यू० आ० कोर्स, गुजरात 1963	66 30-5-63	1521, मन्डाविनी पोले शठनी पोल, अहमदाबाद ।

1	2	3	4	5
5036.	नवनीतराय भट्ट नवलाल	आयुर्वेद विशारद, बोर्ड ई० मे० सोराष्ट्र 1958	2265 15-3-58	आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, ग्राम 'कारखानि', ता० गोंडाल, जिला—राजकोट ।
5037.	नवनीतराय मेहता नरनैराम	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3333 7-2-72	ग्राम 'पो० अन्ना, ता० बंभाली, जिला—जुनागढ़ ।
5038.	नवनीतराय पुरोहित हरीनाथ	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7305 20-9-79	रवतेश्वर मर्मालय, ग्राम ब ता० बिलाखा, जिला—जुनागढ़ ।
5039.	नमछोबाली चोलेरी जुसाभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4242 6-3-74	ग्राम कारेवी, बाया छोराजी, जिला—जामनगर ।
5040.	नयन भट्ट प्रभाकर	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1983	9028 16-4-84	जोसपूर्णा के धाहूर, पंचायत क्वार्टर, ग्राम ब पो० जामखम्भालिया, जिला—जामनगर ।
5041.	नयनबैन भवनार बाधीनाथ	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	7846 10-10-80	10/6, तुलसी क्याम फ्लेट, भीमजीपुर, वाडज, अहमदाबाद ।
5042.	नयन आचार्य मोरारवास	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	7295 20-9-79	मार्कित आचार्य मोरारवास, शिबलाल, बिगबिजय फ्लेट, झेरी, न० 29, श्रीराम निवास, ग्राम जामनगर ।
5043.	नयना भट्ट दितकरराम	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1980	8224 18-11-81	20, विश्वबन्धु सोसाइटी, नवा किकासगृह, पलाडी, अहमदाबाद ।
5044.	नयन महिषा ईश्वरसिंह	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8779 18-6-83	ग्राम ब पो० गोथन, ता० ओलपाव, जिला— सूरत ।
5045.	नयन मोठी बन्धु लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	5702 24-2-77	न० न० 1944, सुन्दरिया पोल, जमालपुर बकला, अहमदाबाद ।
5046.	नयन पटेल जगभाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1984	9332 9-8-85	14 श्रीनाथजी मोसायटी, स्टेनम के पीछे, ग्राम नावियाड ।
5047.	नयना रावल हनुमन्दास	पी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8844 19-9-83	नगर पंचायत के पीछे, पंचय फालिया, ग्राम ब ता० लुनावाडा, जिला—व्यंजमहल ।
5048.	नयना शाह प्रेमानन्द	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	4850 15-10-74	873/2, हजीरा पोल, गिरिजाशंकर जोशी हाऊस, राजपुर, अहमदाबाद ।
5049.	नयना शर्मा मणीशंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6802 21-3-79	सजदीक जुना सचिवालय, नया सिद्धार्थ सोसाइटी, अहमदाबाद ।
5050.	नयना खिबेरी जिबकुमार	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1980	8320 10-2-82	कस्तुरी श्री विकासगृह, केतन, जामनगर ।
5051.	नयनाबैन पटेल संणयकुमार	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1983	9202 30-1-85	ए-10, राम जारोका, 3 फ्लोर, (तृतीय तल) एम० बी० रोड, अंजोरी (वेस्ट), बम्बई- । 400068 ।
5052.	नयनाबैन गोस्वा भरतकुमार	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4531 27-9-74	मन्तकुंज 14, गोपालनगर, राजकोट ।

1	2	3	4	5
5053. नयनकुमार मट्ट बामोदर दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	4003 10-8-73	श्याम चांभर, ता० ब० जिला—बड़ौदा ।	
5054. नयनकुमार ओषो मिहमकुमार	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6074 15-3-78	एच, फ्लैट फिरोज—फ्लैट, ज्ञानपुर, अहमदाबाद ।	
5055. नयनकुमार पांड्या विष्णु प्रसाद ।	बी० एस० ए० सी०, क० ए० आ० कोर्स, गुजरात 1965	1687 15-5-65	36 ए, मोपी निवास परितकुम्भ सोसाइटी, मजबीक भाई सेंटर ब्राह्मपुर, अहमदाबाद ।	
5056. नयनकुमार पाठक जयशृण्ण	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	8082 27-4-81	श्याम बालसाह, ता० आभय, जिला—बेड़ा ।	
5057. नयनकुमार झा मिहहरलाल ।	बी० ए० एम० एम०, हन्वीर वि० वि०, 1976	5867 14-5-77	मार्फत मदनलाल ताराचन्द; धूमिसिपक कारपुरमन के सामने, जेज्ज रोड, ग्राम राजकोट ।	
5058. नयनकुमार झा हिम्मतलाल ।	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1984	9302 6-6-85	19 विमलनाथ सोसायटी, मजबीक ज्योसर पार्क, बसस्टैंड, नारायणनगर रोड, पालवी, अहमदाबाद-7 ।	
5059. नयनाबेन पुरोहित राज शंकर ।	आयुर्वेद मध्यमा । आ० ब० ए० एम०, बड़ौदा 1977	6787 21-3-78	सिकरूपा, 51 बी, धमलधमी कालोनी, नं० 1, करोली बाग, बड़ौदा ।	
5060. नजाय अहमद बेबला महमदुलमान	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7683 22-4-88	2/407, अरूमी स्ट्रीट, मोती बाहोरबाद, ग्राम नियामत नगर, जिला साबरमती ।	
5061. नजीम हुसैन साबुगर अशुल रज्जाक	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1985	9645 31-12-86	अकुसिनी फाली, मोती बाहोरबाद, ग्राम हिम्मत नगर-383001, जिला एस० के० ।	
5062. नजीर हुसैन हावैय अस्नारख भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1968	2777 30-5-69	मजबीक फल्का पोभे, पंचपति, कालुपुर, अहमदाबाद ।	
5063. नेमनयिनी मट्ट शान्ति लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7857 10-10-80	1/बी, सीताबाग सोसाइटी, मजबीक जय हिन्द स्कूल, मनीनगर, अहमदाबाद ।	
5064. नेत्र प्रसाद दवे कृष्ण प्रसाद	जी० सी० भाई० एम०, बी० स्ट० ई० जेडीसिन, बंगलौर 1964	3895 27-3-73	29, ए केशव बाग कालोनी, ग्राम नगर, राम बाग रोड, साबरमती, अहमदाबाद ।	
5065. निहारिका दवे नारायण भाई ।	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9253 9-1-85	मार्फत दवे एन० एम० टी० बी० ओ०, ग्राम तिलकबाड़ा, जिला बड़ौदा ।	
5066. निकेता मोवी हरीशचन्द्र मोवी ।	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9021 28-3-84	मार्फत हरीशचन्द्र मोवी, राम निवास, तिषल रोड, ग्राम बरसाव ।	
5067. निखिल जोशी रमेश चन्द्र	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1983	8868 12-3-84	ए-6, गांधी नगर सोसाइटी, ग्राम बाहोली, जिला सुरत ।	
5068. निखिलचन्द्र मट्ट नटवर लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5223 27-2-76	मजबीक वारही माला, मजबीक चक्रर, तीर्थ घाट, ग्राम चन्दोव, ता० दापोई, जिला बड़ौदा ।	
5069. निखिलेश पांड्या मूनदेव प्रसाद	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4502 12-9-74	ब्रह्म पोल, ग्राम बासो, ता० नादिदाह, जिला बेड़ा ।	

1	2	3	4	5
5070.	निखिल कुमार पांड्या जगदीश चन्द्र	बी० एस० ए० सी० क० शु० आ० कोर्स, गुजरात 1982	755 13-7-62	पांड्या निवास, कामटेंकर बाड़ा, प्रो० मेनकरवजी रोड, इन्डिया बाजार, बक्रीवा ।
5071.	निखिल भाई पटेल सोम भाई	बी० एस० ए० सी० क० शु० आ० कोर्स, गुजरात 1986	2278 25-11-66	ग्राम बाहरवपुर, बाया भानुद, ता० काधी, जिला मेहसाणा ।
5072.	निकुंज कुमार शाह मदी लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1972	3741 2-2-73	3, महालक्ष्मी कालोमी, नजदीक पुराना रेलवे कासिंग, मनी नगर, अहमदाबाद ।
5073.	निकुंज बरोज केसव लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1979	7885 14-11-80	सुल्तानपुर, गोलवाव, बक्रीवा ।
5074.	निकुंज बाला जोगी चन्द्रकांत	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1975	7313 20-9-79	जोगी क्लिनिक, बरोती बाजार, ग्राम बरनागर, मेहसाणा ।
5075.	निकुंज बेंन देसाई कोर लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1983	9097 31-7-84	ग्राम बपो० अम्बावा, ता० भक्साही ।
5076.	निला भट्ट महेशचन्द्र	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1973	4421 26-8-74	प्लॉट नं० 868, कुल्वाकुंज, महिला काभिक के पीछे, भावनगर-1 ।
5077.	निला जोगी नवीनचन्द्र	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1978	7470 21-12-79	म० नं० 428, नरसाही, शरवणगर, सोसाइटी, ग्राम बक्रीवा ।
5078.	नीलम रावल रेव शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3355 15-2-72	32, नूतन सोसाइटी, पासदी, अहमदाबाद ।
5079.	नीता त्रिवेदी मनु भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1977	6685 4-3-79	वासना बस स्टैंड, वासना ग्राम, अहमदाबाद ।
5080.	निला त्रिवेदी गुलाब राय	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1972	4026 30-8-73	रनिका, सोतीगर, बेंरी, ग्राम भावनगर ।
5081.	निला त्रिवेदी चन्द्रकांत	बी० एस० ए० सी० क० शु० आ० कोर्स, गुजरात 1984	1496 29-7-84	39, रतना सागर कु० ओ० हा० सोसाइटी, पैटलाड रोड, प्राइवेटियाड, जिला बेंरी ।
5082.	नीलाबेन रावल शाम शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1973	4410 19-8-74	ग्राम चौराबरा, ता० कर्जण, जिला बक्रीवा ।
5083.	नीलाबेन सूर्यवंशी जयशंखी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1981	9521 1-7-86	बी/2, दिव्य ज्योत अपार्टमेंट, अस्कापुरी सोसाइटी के पीछे, सुमुल बेंरी रोड, ग्राम धूरत ।
5084.	निकाबेन ठक्कर बनसयास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1975	5226 27-2-76	बराय माता, बंबा राजमहल रोड, मायबी, बक्रीवा ।
5085.	निल कुमर ठक्कर हरी प्रसाद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1978	7342 16-10-79	मार्केट एम० पी० ठक्कर, बोधीबास बिल्डिंग के सामने, तीलावती मेनशन, ग्राम जोरवार नगर, ता० एबं जिला सुरेन्द्र नगर ।
5086.	नितेश भाह मनहर कुमार	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1980	8182 2-9-81	19, राजवाट सोसाइटी, फतेहनगर, ग्राम अहमदाबाद ।

1	2	3	4	5
5087.	निदेशचन्द्र त्रिवेदी ग्रामशक्ती	बी० ए० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1972	3890 26-3-73	ग्राम शापर, बाया बयसामा, भयानी ।
5088.	निदेशचन्द्र पटेल मनी शर्मा	बी० ए० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1981	8681 3-3-83	ग्राम एच पो० बालेज, ता० आलम, जिला खेड़ा ।
5089.	निदेश कुमार अमिन कांति लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1983	9265 9-4-85	मोती बावकी, ग्राम ब पो० आ० सुमथ, ता० पेठलाह, जिला खेड़ा ।
5090.	निलिमा बेसाई दिलीप कुमार	बी० ए० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1978	7761 16-7-80	5, सूर्या सदन, तन्त्रीक बसन्त मैदान, सूरत-3 ।
5091.	निलिमा मोवाणी पद्मेाकर	बी० ए० ए० एम० । गुजरात आ० वि० वि० 1977	7008 16-5-79	मार्फत पी० के० मोधी, अपाकी मेरी, ग्राम सिद्धापुर, जिला मेहसाणा ।
5092.	निलिमा शाह रमेश चन्द्र	बी० ए० एम० एम० । गुजरात आ० वि० वि० 1983	9171 13-11-84	दूल्हाकरुपा, बाबबजो नास, ग्राम काकोल, जिला मेहसाणा ।
5093.	निदेश बेसाई श्रीरज लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1984	9353 21-8-85	674/1, गोपतिया बाह, ग्राम ब ता० तबसारी, जिला बलसौर ।
5094.	नील कमल वैद्यनाथ कान्धिलाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1981	8602 13-12-82	मार्फत सर्वोदय डिस्पेंसरी, ग्राम कुतिनाग, जिला राजकोट ।
5095.	नीलकण्ठ प्रसाद भट्ट मानुशकर	एम० बी० (आयु०) गुजरात आ० वि० वि० 1977	6164 16-5-78	9, पटेल होस्टल, क्वा० आयु० कालिज, कैम्पस, नाथियाह, जिला खेड़ा ।
5096.	नील कण्ठ राय जोशी रती लाल	आयुर्वेद विहार कोर्टेज् मे०, सी० ए० 1958	2220 1-5-58	ग्राम पालिमाह बाजार, ता० खेताह, जिला भावनगर ।
5097.	नीलमणि शाहजी भगवान शास	बी० ए० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1972	3851 8-3-73	नवा पो० आ० के सामने, कोलकी रोड ग्राम-अपनेटा, जिला राजकोट ।
5098.	तिसतरा अणारजी धयापर	आयुर्वेद विषय वि० आ० आयु० विद्यापीठ दिल्ली 1972	7603 18-3-80	ग्राम किदरवा, पो० बावडी ता० शोरवल, जिला पुनामड ।
5099.	निदेश कुमार त्रिवेदी । चन्द्र कांत	बी० ए० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1979	8032 10-4-81	खिन्न कुटीर, 18/216, मेहसाणा नगर, मेहसाणा नगर, अहमदाबाद ।
5100.	नीला मेहता, एन बरन शर्मा	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9385 23-9-85	मार्फत डा० के० पी० जोशी, ग्राम-ब पो० आ० नावनी-383235, ता० हवार, जिला एत० के० ।
5101.	नीला पारीज विपुल शास ।	बी० ए० ए० एम० । गुजरात आ० वि० वि० 1979	7966 3-2-81	मार्फत एम टी० पारिज, सी०-25, वैदिक कैम्पस, ग्राम भावनगर ।
5102.	हीमा शाह । प्रवीण शर्मा	बी० ए० एम० एम० । गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9255 9-4-85	द्वारा पी० सी० शाह, सर्वोदय बाबन, ग्राम- बाबापुर, जिला अमरेली ।
5103.	विराज जोशी । कांतिबाह ।	बी० ए० ए० एम० । गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6263 2-8-78	62 दूल्हाकरुपा, विरम बंगला के पीछे, सरदार- नगर, ग्राम भावनगर ।

1	2	3	4	5
5104.	निरंजन पटेल बीराम भाई	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6241 19-8-78	बी० नं० 5, नूनी स्टाफ क्वार्टर्स सावानर- बाप, ता० बैरवाडी, बुरत ।
5105.	निरंजन ताप रावण केसव बाल	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3875 16-3-78	ग्राम कण्ठा, ता० सिद्धापुर, जिला मेहसाणा ।
5106.	निर्मला बाबला तापूभाई	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8474 3-8-82	नई काजोनी, कुवाबवा, ता० एच जिला रावकोड ।
5107.	निर्मला बिबाकर कतीस चण्ड	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	8416 17-4-82	ग्राम बरहण, जिला भागलपुर ।
5108.	निर्मलबेन पटेल बिमल बाल	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8137 21-8-81	ग्राम एच पी० खोलवाब, ता० कामराव, जिला बुरत ।
5109.	नीक पटेल हसनुब भाई	आयुर्वेद मन्थना नं० द० प० समिति, बड़ोवा 1972	6539 3-2-79	बी रंग भारी, 14/83 आगव प्लैट, कपडीक विजय नगर, कारगपुर, अहमदाबाद ।
5110.	नीक परमार सोमाभाई	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8451 15-6-82	चौहान सोसाइटी, फतेहपुर, बड़ोवा-6 ।
5111.	नीरुपमा जोशी मटवर लाल	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6144 19-4-78	द्वारा एन० एच० जोशी, बड़ोवाब, अमरेली ।
5112.	नीरुपमा बेन पाण्ड्या रमण भाई	बी० ए० एम० एल० सागर वि० वि० 1972	8186 12-10-81	बी नं० सी/15, राज अधिकारी कालोनी, सिबिस अस्पताल के पीछे, अहमदाबाद ।
5113.	निर्मला मालम कामाथा भाई	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7850 10-10-80	द्वारा कामाजी भाई, जे० मालम, सोनीबाब, ग्राम बोरकबर, जिला खूनागढ़ ।
5114.	निरंजन बेन पटेल अम्बा लाल	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7695 29-4-80	द्वारा अम्बा लाल बाबा भाई पटेल, आर० टी० वेसाई का हाउस, रावलबाबो, ग्राम नाथियाद, जिला खेड़ा ।
5115.	निरंजन कुमार काका मूल शंकर	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7187 17-8-79	मोते दरवाबो, सुवर्ण काकाजी, ग्राम सरसा, ता० मातल, जिला खेड़ा ।
5116.	निरंजन शत्रु रति लाल	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4173 5-2-74	राधिक, कथिकांत रोड, ग्राम नाथनगर ।
5117.	निर्मला पटेल बादीलाल	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4216 19-2-74	नूवाजी पारेखपोख, बाधीगाम, अहमदाबाद ।
5118.	निरंजन बाणी मनहर लाल	बी० ए० एम० एल० वि० प्रो० आ० यू० वि० प्रो०, महाराष्ट्र 1969	4154 15-1-74	कपडीक नुरानी शंकी, ग्राम ताटापुर, ता० खन्वड, जिला खेड़ा ।
5119.	निरंजन कुमार आचार्य धरानी शंकर	बी० एल० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2911 24-2-70	द्वारा वैद्य कवानी शंकर नंवाकर आचार्य, [शक्ति मिशन, स्टेसन रोड, ग्राम बोरकबर, जिला खूनागढ़ ।

1	2	3	4	5
5120.	निरंजन कुमार महु महामांकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3873 15-3-73	ग्राम जावर, ता० हवर, जिला साबरमती ।
5121.	निरंजन आचार्य भायुर्मांकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3634 5-10-72	द्वारा श्री कानुसाई बी० आचार्य हेमकुमार, भाववा कार्यालय, पनवाड़ी रोड, भावनगर ।
5122.	निरंजन पारिख बहुया लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3594 14-9-72	8/13, कनकुवा का बाँध, भटवेवा बादी, ग्राम बड़ीवा ।
5123.	निरंजन दवे सोमभाष भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2978 17-6-70	द्वारा बी० एम० महु, मानी बाजार, ग्राम जोरवी, जिला राजकोट ।
5124.	निरंजना राजल फालमांकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4113 13-11-73	द्वारा डा० श्री जी० एल० शोमव, स्टेशन रोड, ग्राम बागसारा, ता० बाधिया, कुकावड, जिला अमरेली ।
5125.	निरंजन भाई पटेल साधुभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3072 21-11-70	ग्राम थिलोवारा, पो० कोसिया, ता० संबीदा, जिला बड़ोदा ।
5126.	निरंजन कुमार महु कशिभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8134 10-9-84	द्वारा महु कशि भाई एम० मंगलया निधि, मजरीक तापुका पंचायत कारिरी, ग्राम बरलेजीपुर, जिला भावनगर ।
5127.	निरंजन कुमार शास्त्री महामांकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3189 27-4-71	648, लम्बेश्वर पोल, रिलीफ रोड, अहमदाबाद ।
5128.	निर्मला देवस बाकाशभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3483 18-4-72	तोनेबन वार० बाउ, बजीरपाड़ा, गारजी चौक, जामनगर ।
5129.	निर्मलाबेन जजेजा बलवंत सिंह	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9878 23-9-86	द्वारा जजेजा बी० टी० सिटी पुलिस लाइन नं० बी/5, इबिन अस्पताल रोड, सामने, साधुबा अस्पताल, ग्राम जामनगर ।
5130.	निरंजना मंकाव दिलीप राय	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2848 8-10-69	द्वारा बी० बी० मंकाव, 32/2 एम० कालोनी, एलिस बिज, अहमदाबाद ।
5131.	निरंजन बरीट बहुया भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2842 3-10-69	बरोट सहिब की हुबेली, सामने पंचसारा, ग्राम पाटन, जिला मेहसाणा ।
5132.	निरंजन जोशी हिम्मत लाल	बी० एस० ए० सी० क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1675 25-5-65	मोता अन्कारिया, बाया जूनिघर, जिला अमरेली ।
5133.	निरंजन साहू जीवन लाल	बी० एस० ए० सी० क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1964	1807 3-2-65	'मुवास' 4 आदमी को० आ० एम० एलिस सोसायटी, बास एम० पो० हलोव, थिलत पंचसहल ।
5134.	निरंजन रेसाई वीरत राय	बी० एस० ए० एम० क० आयु० प्र० सि० मे०, बम्बई 1960	418 16-10-62	द्वारा बी० एम० रेसाई, हरि निवास, जाजाव लेन, अंधेरी, बम्बई-58
5135.	निर्मला श्रीवती श्रीजी राम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	5708 4-3-77	बी० नं० 240/1, कोरकन्धु मंज, ग्राम बड़ोव, जिला पंचसहल ।

1	2	3	4	5
5136.	निर्मला पावाशिया पोपट लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5243 5-3-76	डारा असीशक मारिपाराय , गढ़, पोखोड रोड, अठाथा लाहन, सूरत
5137.	निर्मला सोलंकी गोपास बास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8765 11-5-83	हेड वाटर व मर्स, वरुच, ग्राम सूरत-395006
5138.	निरंजन भाई पटेल गोर्धन भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4942 7-8-75	ग्राम कातिपुरा, बाया धनपुरा, ता० बायव, जिला जिला साबरकंठा
5139.	निरंजन पटेल दयाल जी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5082 2-12-75	ग्राम आधन, ता० गन्धेवी, जिला वलसाव
5140.	निरंजन शिवेदी नरवर लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5026 11-11-75	गायत्री निवास, प्लाट नं० 565, सरपाटनी रोड महावेंबी, ग्राम भावनगर
5141.	निरंजन आमिन विनोद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5180 18-2-76	21, जयश्री सोसाइटी, कारेंवी बाग, बड़ीबा
5142.	निशा उपाध्याय राजेश	एम० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9566 31-12-86	पंचवटी, इच्छानगर, जहांगीरपुरा, रण्डर रोड, ग्राम सूरत
5143.	निसि कांत रंजिबे विक्रम राम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4314 3-4-74	सगतोव, आनन्दपुरा, ग्राम बड़ीबा
5144.	निसिकांत जाह नरनीत लाल	बी० ए० एम० एम० नागपुर वि० वि० 1974	4938 4-8-75	ग्राम बिहान, जिला सूरत
5145.	निस्ताबेन गदोबिया रंजोब बास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० 1972	3805 21-2-73	पावर हाक्स के पीछे, ग्राम राजुला, जिला अमरेंली
5146.	नीता भट्ट जयंती प्रसाद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8342 27-2-82	डार डा० जै० पी० भट्ट, लाल बाग, ग्राम जूनागढ़ -362001
5147.	नीत भट्ट जयंती भाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9203 30-1-85	25, सरदार नगर सोसाइटी, विठ्ठल रोड, ग्राम ग्राम एब जिला
5148.	नीत ब्रह्मचर्य अभय सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8367 18-3-82	10, आराधना पार्क, जवाहर चौक, साबरमती अहमदाबाद
5149.	नीता जोस्वामी कांति लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5938 24-10-77	2172, राधवलालजी का पोल, रायपुर, अहमदाबाद
5150.	नीत ठक्कर भास्कर राय	अ.युवेंद विभक्त मि० मा० आ० विशापीठ, विलवी 1976	8251 24-12-81	4, शक्ति नगर सोसाइटी, पंचमील राजकोट- 360002

1	2	3	4	5
5151.	नीता काह भगवत प्रसाव	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6117 5-4-78	21-ए, किर्ती कुंज सोसाइटी, काह आलम, टीसलाका, अहमदाबाद
5152.	नीता काह भगवत प्रसाव	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	8037 16-4-81	श्री हरिधाम कालोनी, नवजीवन, ग्राम बड़ीवा
5153.	नीताबेन माहिदा नरपत सिंह	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9481 10-1-86	ग्राम न पो० आ० गोथान, ता० घोलापाद, जिला सूरत
5154.	नीताबेन पटेल ईश्वर काव	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9043 10-5-84	बी०-9 नवजीवन कालोनी, महादेव नगर, ग्राम शिमिमोरिया, ता० मन्वेरी, जिला बलसाड
5155.	नीताबेन काह नटवर काव	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7918 12-12-80	किरन क्रीमिस्ट, कापव बाजार, ग्राम कापवबन्ध, जिला खेड़ा ।
5156.	नीता कुमारी रूपेरा जगजीवन दात	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6384 27-10-78	ठारा ए० जे० रूपेरा, प्रमित नगर सोसाइटी, भार० नं० 68, जमी बड़ीवा
5157.	नीतेश कुमार सामू नरनारायण	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7461 21-12-79	ग्राम ए० पी० करमनगर, ता० काशी, जिला मेहसाणा
5158.	नीतेश कुमार व्यास मयन काव	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6273 11-9-78	जैन देवासर के पीछे, ग्राम ए० पी० कारवेसिया, बाबा बरखोली, जिला सूरत
5159.	नीतेश जामी ईश्वर काव	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8452 15-6-82	नववीक खेजा अस्पताल ग्राम मन्वेरी जिला कच्छ-370468
5160.	नीते क कुमार पटेल जोतमार्	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9653 31-12-86	बी/13/3 सरकारी पत्तक विमिन रोड अहमदाबाद
5161.	नितिन काह हृदयकाव	बी० ए० ए० ए० ए० बम्बई वि० वि० 1982	9182 11-12-84	ग्राम नागलपुर मन्वेरी कच्छ ।
5162.	नितिन बेन पञ्जिवा केसवलकाव	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9081 29-6-84	60, सरदार सोसाइटी बन्जल रोड, ग्राम सूरत
5163.	नितिन काव मार् काव	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7592 14-3-80	ग्राम व्यास (अम्बाली) ता० बाबोविया जिला बड़ीवा ।
5164.	नितिन कुमार देसाई मानुमार्	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	8520 14-8-76	ग्राम करमाला बाबा काव, ता० जोलापाद, जिला सूरत ।
5165.	नितिन कुमार दोबी अवती काव	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9557 3-9-86	बाबाली पोड, ब्रह्मपोड ग्राम झोल-381210 जिला जामनगर

1	2	3	4	5
5166.	नितिनकुमार पंचोली जयंतीलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3715 1-1-73	ग्राम धातियान, ता० सनवाहर जिला जूनागढ़ ।
5167.	नितिन कुमार पावेल ठाकुर लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9315 2-7-85	22/कल्याणनगर सोसाइटी, नजदीक मिसन सिनेमा, तरसापुर, अहमदाबाद-18
5168.	नितिन कुमार सुन्दर लाल	बी० ए० एम० एम० गजरात आयु० वि० वि० 1984	9254 9-4-85	“नितिन” नजदीक शिरोलाकला ज० ग्राम एच पो० आ० बोदेवी ता० संबेदा जिला बड़ौदा
5169.	नितिन कुमार पाठक भगवत प्रसाद	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8170 20-6-81	1, कार्तिक सप्ती सोसाइटी, बाहरी जाहपुर गेट, अहमदाबाद ।
5170.	नितिन कुमार जाह ठाकुर लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8969 12-3-84	17, पंचवटी सोसाइटी नजदीक उभाप जक- तनाका हज्जामाप रोड, ग्राम सुरत-7 ।
5171.	नितिन कुमार शाह अम्ना लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9298 6-6-85	“मिल्लुछायो” रंगीला पोल, ग्राम कापडवाण- 387620 जिला खेड़ा ।
5172.	नितिन कुमार ठक्कर चन्द्र लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8968 12-3-84	5-बी, गीताभारती कालोनी, शाहवालय, अहमदाबाद ।
5173.	नितिन कुमार ठक्कर इन्दु लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9539 28-7-86	भाटिया शेरी, सामने जैन दरार, ग्राम बाब नगर-385355 ।
5174.	नितिन कुमार बंध मनसुख लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4539 5-10-74	ग्राम गधेवी, ता० नवसारी, जिला बलसाव ।
5175.	नितिन कुमार जोशी हरगोविंदभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6425 18-11-78	ग्राम निगाला, ज० ता० गुवाठ, जिला नावभनर
5176.	नितिन कुमार जोशी रघु प्रसाद	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7433 12-12-79	पंजीराम जोशी ग्राह्य, तुमसी मन्दिर, ग्राम वावनगर, जिला मेहसाणा ।
5177.	नितिन कुमार बंध कन्हैया लाल	आयुर्वेद माध्यमा श्र० द० प० समिति, बड़ौदा 1976	6641 26-2-79	6/877, जापारिया शेरी, मोहिनपुर, ग्राम सुरत ।
5178.	भूर मोहम्मद मुंशी गुलाम चन्व	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1967	2535 5-7-67	द्वारा मुंशी एन० जी०, जडिबाव, ग्राम जूनागढ़ ।
5179.	नीवाजबा कुरैशी भाखतबा	डी० एम० ए० सी० क०शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1968	2274 25-11-86	पालासानी, ता० मसबा, जिला बड़ौदा ।
5180.	निवेदिता चौधरी शान्ति लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4951 23-9-75	ग्राम खरबादा, ता० विसनगर जिला मेहसाणा ।
5181.	निवेदिता पाठक हरकांत राय	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5975 28-11-77	23, समित सागर, तीसरी मंजिल, सिमानिया बाब ननपुर, ग्राम सुरत ।

1	2	3	4	5
5182.	दियंता पाठक राणीकांत	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5453 6-7-76	वेबभूषण, स्टेसन रोड, ग्राम पोरजन्वर, जिला जुनागढ़।
5183.	नरूपत सिंह परमार कुमान सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4449 20-8-74	ग्राम सौर, ता० कर्जत जिला, बड़ौदा।
5184.	गुलन व्यास मानु प्रसाद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9180 11-12-84	एल० आई० जी०-2, नं० 4, जी० आई० बी० सी० ओषध, अहमदाबाद।
5185.	गुलनबेन संभवी चम्पक लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6433 2-12-78	मेला बाजार, ग्राम बलसाब।
5186.	ओछाबलाल भट्ट छपा बंकर	एल० ए० एम० यू० पी० आयु० महावि०, पाटन (बड़ौदाराज्य) 1936	808 3-11-41	जुबीली स्ट्रीट, ग्राम उमरथ, जिला खेड़ा।
5187.	ओछाबलाल मेहता कालीबास	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ् आ० एण्ड यू० सि० आफ् मेडिसिन, बम्बई। 1946	895 2-9-46	ग्राम-लिमविया, ता० जुनाबादा, जिला पंचमहल
5188.	ओछाबलाल शाह लियुवन बास	जी० एफ० ए० एम० फै० आफ् आ० एण्ड यू० सि० आफ् मेडिसिन गुजरात 1961	1130 3-4-62	ग्राम-बन्धानी, ता० पठलाव, जिला खेड़ा।
5189.	ओषधजी गंगाधरिया मनसुखलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4614 24-1-75	ग्राम-वेदिधा, वाया बरेवी, पो० आ० पिपार, ता० कालाबाई, बीवला, जिला जामनगर।
5190.	ओमकार पांड्या इन्डू प्रसाद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7212 20-8-79	ग्राम सुनसोली, ता० कासोल, जिला पंचमहल।
5191.	ओमप्रकाश पारिक बाबर लाल	बी० ए० एम० एस० बि० क्रम वि० वि० 1977	7951 17-1-81	ग्राम और पो० आ०-मरुवावास, ता० बालचोड़ा, जिला मुठा, (म० प्र०)।
5192.	ओम प्रकाश बिरला शुभी लाल	एम० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	3993 7-8-73	ग्राम गणवोदा, वाया हावसारी, जिला बलसाब।
5193.	ओम प्रकाश भास्ती जनक्याम बास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4070 26-9-73	स्वामीनारायण मन्दिर, काजुपुर, अहमदाबाद।
5194.	ओमिल भुजपुरिया इरीक भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5666 3-2-77	वावा बापूनगर, नार रास्ता, बी० नं० 8/88, अहमदाबाद।
5195.	ओपवीनचन्द्र पटेल रामभाई	आयुर्वेद मध्यमा श्रावण मास धक्षिणा परीक्षा समिति बड़ौदा 1978	6886 12-4-79	गौरीकुंज भालोरवा केकारा, आरीबाब, ग्राम-बड़ौदा।
5196.	ओपवीनचन्द्र सुबार मारमेराम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6801 21-3-79	ग्राम बंरासावा, ता० इवार, जिला ताबरकवा।

1	2	3	4	5
5197.	पद्मा देसाई दयाल जी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6103 28-3-78	मार्फत डी० बी० देसाई, ई-6, महावीर कुटीर सोसाईटी, सामने बम्बई गेरिज, शाहीबाग, अहमदाबाद
5198.	पद्मा शाह रमनलाल	जी० एफ० ए० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, गुजरात 1964	1614 5-3-65	कानसानो पावो, ग्राम पाटन, जिला मेहसाना
5199.	पद्माबेन महावाकिया केशव लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7745 30-6-80	क्वा० नं० बी०-3, ई० एस० आई० एस० 18, सरसपुर, अहमदाबाद
5200.	पद्माबेन साईकलवाला धीरजलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	7065 30-6-79	हाउस नं० 4/510, बनी शेरी पीछे बड़वासी शेरी, ग्राम सूरत
5201.	पद्मागौरी भट्ट जय कृष्ण	वैद्य विशारद] नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1965	7956 17-1-81	मार्फत पाठक शशिकान्त प्रभाशंकर ग्राम और पो० आ० कुम्भान, वाया महुवा, जिला भावनगर
5202.	पद्माकान्त शाह अमृतलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4824 2-5-75	मार्फत ए० एल० शाह सायाजी अस्पताल, ग्राम पेटलाद, जिला खेड़ा
5203.	पद्मावती शाह हुरली	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	5690 24-2-77	445, शुक्रवार पेठ, तालेगांव, बभावा, बी आर० ता० मवाड़, जिला वृता
5204.	पल्लवी चित्तानिया शिव मन्व भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9455 10-1-86	सी-115, ओ० एन० जी० ती० कालोनी, ग्राम बड़ौदा-9
5205.	पल्लवी मजहा बन्शीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4441 6-8-74	नगर फालिया, गज्जर फाली, 10/516, ग्राम सूरत
5206.	पल्लवी जोशी हरी वदन	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8290 5-2-82	हाथी शेरी, ओम श्री त्रिकम कुटीर, जामनगर
5207.	पल्लवी पोंड्या जयन्ती लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8693 3-3-83	दिवाली पोल, ग्राम और ता० भादियाड़, जिला खेड़ा
5208.	पल्लवी ठाकर रमेशचन्द्र	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5584 18-10-76	262, मधुपार्क, शक्तिनगर, ग्राम बरोच
5209.	पनाचन्द गिरधर लाल	वैद्य विशारद नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1968	7242 30-8-79	ग्राम पिछोर, ताक, मलियानतीना, जिला जुनागढ़
2510.	पद्मुरंग भेल कौतिक	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3468 1-4-72	ग्राम-पहोरा, ता०-घालीगाव, जिला- जलपाव

1	2	3	4	5
5211.	पन्दुरंग शालका नारायण राव	बी० ए० एम० एम० विदर्भ बो० आफ आ० ए० यू० सि० आफ मेडीसन, महाराष्ट्र, 1964	6105 28-3-78	ग्राम एवं पो० आ० बरसोदा, ता० बीजापुर जिला मेहसाना
5212.	पंकज भट्ट नारी वदन	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	6607 21-2-79	जी० ए० फलावर कुंज सोसाईटी, नव रंगपुरा, अहमदाबाद
5213.	पंकज जोशी नरमेराम भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8176 22-9-81	सामने शाकमाफिट, ग्राम मानवदार, जिला जूनागढ़
5214.	पंकज शुक्ल हरी प्रसाद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9244 12-3-85	पटेल बिल्डिंग, ग्राम गिहोर-364240 जिला भावनगर
5215.	पंकज वैद्य नाशु भाई	आयुर्वेद मध्यमा श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा, 1978	6715 9-3-79	5/710, नारीपारा भवानी गढ़, ग्राम सूरत
5216.	पंकजवेन उपाध्याय हिम्मत भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5964 18-11-77	नजदीक तीन गेट, ग्राम, धोराजी, जिला राजकोट
5217.	पंकजभाई पाठक बाल कृष्ण	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6230 10-7-78	ग्राम और पो० आ० कोबा, ता० ओलपाव, जिला सूरत
5218.	पंकजकुमार अण्णवत महीपतराम	आयुर्वेद शिक्षक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1976	8074 4-5-81	ग्राम और पो० आ० कुटियाना, जिला जूनागढ़
5219.	पंकज कुमार बक्षी रामप्रसाद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3259 8-10-71	मार्फत आर० जे० बक्षी, गवर्न० डिस्पेंसरी, ग्राम गिरगाधडा, ता० उना, जिला जूनागढ़
5220.	पंकजकुमार बक्षी जयस्ती लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3450 21-3-72	सरदार चौक, ग्राम विशिया, ता० जसावन, जिला राजकोट
5221.	पंकज कुमार मधुसूदन	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5848 16-8-77	4/2722, बेगमपुरा, बनिया शेरी, सूरत
5222.	पंकजकुमार जोशी शास्ती लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4820 2-5-75	मनहर प्लॉट शेरी, नं० 2, ग्राम राजकोट
5223.	पंकजकुमार जोशी प्रोगी लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9187 1-12-84	240, वीनव्यास सोसाईटी, पालनपुर रोड, सूरत-1
5224.	पंकजकुमार मेहता अमृतलाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9452 28-1-86	सगरामपुरा, ग्राम सूरत

1	2	3	4	5
5225.	पंकज कुमार पारिख शान्ती लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9474 28-2-86	लिनबू शेरी महिधरपुरा, 6/2145, सुरत-395003
5226	पंकजकुमार पटेल शंकर लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7012 16-5-79	ग्राम और पो० आ० बीरपुर, ता० बाल- शिनोर, जिला खेड़ा ।
5227.	पंकजकुमार पटेल त्रिभुवनदास	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8872 1-12-83	“पदमाविला” धर्मनगर बस स्टेण्ड, साबरमती; अहमदाबाद-5
5228.	पंकजकुमार राठी भूलाभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6247 19-8-78	ग्राम अस्तन, पो० आ० और ता० बड़डोली, जिला सुरत ।
5229.	पंकजकुमार शाह खेमचन्द भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8247 23-12-81	1035, चौक शेरी, सरखेज ग्राम ता० सिटी; जिला अहमदाबाद ।
5230.	पंकजकुमार शाह बाबूभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8633 28-1-83	नगर पालिका रोड, मार्फत बाबूभाई भीखाभाई व्वावेपारी, नजदीक पन्जारा पोल, ग्राम मेहसाना ।
5231.	पंकजकुमार शाह हरगोविन्ददास	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8806 5-7-83	51, यशकमल सोसाईटी, सामने लक्ष्मण सोसाईटी, बसना, अहमदाबाद-7
5232.	पंकजकुमार सुतारिया पीतमबर भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5773 26-4-77	ग्राम धनधोदा ता० छोटा उबेपुर, जिला बड़डोदा ।
5233.	पंकजकुमार व्यास वीरेन्द्र कुमार	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8144 3-9-81	क्यू/29/बी डा० क्या० यावतेश्वर कम्पाउण्ड; जेल रोड, बड़डोदा ।
5234.	पन्ना भट्ट विनय कान्त	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3071 21-11-70	उमेदवील; ब्लॉक नं० 8, प्लॉट नं० 7-8 ; विश्वभारती कु० हा० सो०, जूहलेन अन्धेरी; प० बम्बई-58
5235.	पन्ना मणियार अंरविन्द भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4719 21-3-75	ब्रह्मामनशेरी, ग्राम ऊंजा, ता० सिद्धापुर, जिला मेहसाना ।
5236.	पन्ना मेहता रमणिक लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8094 12-10-81	मार्फत आर० जे० मेहता, 3/4 गवर्न० आफिसर कालोनी, अल्कापुरी, ग्राम बड़डोदा ।
5237.	पन्ना पटेल शान्तीलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8920 8-2-84	ग्राम और पो० आ० साधली, ता० शिनोर; जिला बड़डोदा ।
5238.	पन्ना बेन बारीठ गोविन्द भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9213 19-2-85	528 शारवानगर, ग्राम सतमाली, बड़डोदा-9

1	2	3	4	5
5239.	पन्नाबेन बोशी हरीचन्द्र	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	5174 16-2-76	नाथू बेसाई मध बाजार, ग्राम बीजापुर, जिला मेहसाना ।
5240.	पन्नाबेन उपाध्याय अनन्तकुमार	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8871 1-12-83	बी० नं० 3, सदाशिवनगर सोसाईटी, अहमदाबाद ।
5241.	पनयुनकर बंधका जगजीवन	एल० ए० एम० यू० पी० आयु० महा० वि० पाटन (बड़ौदा स्टेट) 1933	780 3-11-41	ई० एस० आई० डिस्पेंसरी, 39, नजदीक कोल्ड प्लोट डेरी कंकरिया, अहमदाबाद ।
5242.	पापत पाटोरिया शामजी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8203 12-10-81	ग्राम और पो० आ० खोदियार, ता० मोन्दराड़ा, जिला जूनागढ़ ।
5243.	पारसमणि अषार मोहनलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3977 25-7-73	मार्फत डा० एम० एम० अषार, ग्राम कलवाड़, (शिताला) जिला जामनगर ।
5244.	प्रभातभाई बेकारिया हरदास भाई	डी० एस० ए० सी० कमेटी फॉर शुद्ध आयु० कोर्स गुजरात 1966	2171 21-9-66	मार्फत पी० जी० टी० सी० अस्पताल, जुबुली, अस्पताल-1 कम्पाउन्ड रुम नं० 10, ग्राम जामनगर ।
5245.	प्रभु भाई भोरालिया मोहन भाई	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० वि० दिल्ली 1978	7870 14-11-80	ग्राम भानका, पो० आ० बेरवाड़ा, ता० लखतार, जिला सुरेन्द्रनगर ।
5246.	पारिख मखवाना पुंजालाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8278 16-1-82	23, गांधीनगर सोसाईटी, आश्रम रोड़, नजदीक शान्तीनगर, जुनावादन, अहमदाबाद ।
5247.	पारिष पटेल अनूभाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9347 21-8-85	“कृष्णकृपा” मावजीपुरा, पीछे सरखेज रेलवे स्टेशन ग्राम सरखेज-382210, ता० सिटी, जिला अहमदाबाद ।
5248.	पारिष तेबर मोतीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	8093 4-6-81	पाम भालोद, ता० जगायिवया, जिला बरौच ।
5249.	पारिष कुमार दवे जयस्ती लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4239 5-3-74	आनन्द भवन 2, खाद्यतनगर, शहलाम, मीलमकुंज अहमदाबाद
5250.	पारिष कुमार पारिख कान्ती लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2921 7-3-70	32 अजनाथ सोसाईटी, सामने वाटरटेंक, करेसीबाग, बड़ौदा ।
5251.	पारिषकुमार पटेल शिव भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7780 1-8-80	ग्राम लाठोड़ ता० सखेड़ा, जिला बड़ौदा
5252.	पारिष कुमार भाह रमनलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5639 24-12-76	ग्राम ब्याध, जिला साबरकंधा

1	2	3	4	5
5253.	परीमल वेसाई पुष्करलाल	जी० एफ० ए० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1960	422 15-1-63	सामने जिला लाइब्रेरी (जिला पुस्तकालय) लीटी प्लाट, सुरेन्द्रनगर
5254.	परीमल जोशी योगेश कुमार	बी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० 1967	2626 6-1-68	ग्राम वीराली मोती ता० नाखटराणा कच्छ
5255.	परीमल ठाकर सक्ष्मीकान्त	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	35 7-6-72	राममन्दिर, सामने भीदभास्जा हनुमान, ग्राम जामनगर
5256.	परीमलकुमार दवे अरविन्धभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5945 26-10-77	शरजी कृपा, नजदीक वैजनाथ महादेव, ग्राम महुधा, जिला खेड़ा
5257.	परीमलकुमार धोलाकिया जामियतराय	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3971 20-7-73	मार्फत बी० बी० धोलाकिया, जयकच्छ प्रैस, नगर चकला, ग्राम भुजकच्छ
5258.	परीमलकुमार मेहता मनुप्रसाद	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3230 21-8-71	5-बी, फीरा हाउ०, मणीनगर ह्स्ट, अहमदाबाद-8
5259.	परीनाथ बरवे बामनराव	वी० ए० एम० एम० इन्दौर वि० वि० 1971	7257 5-9-79	ग्राम भरमराय, ता० कौकशी, जिला धार (म० प्र०)
5260.	परीक्षित जोशी नटवरलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5714 4-3-77	ग्राम कुकरवाडा ता० बीजापुर जिला मेहसाना
5261.	परीक्षित व्यास मनसुखलाल	डी० ए० एम० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन बम्बई 1952	1093 6-2-52	ग्राम पिजरात, ता० ओलपाव, जिला सुरत
5262.	परमानन्द वैद्य चतुरभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5531 17-9-76	सामने कन्याशाला, ग्राम बावा ता० धोलका जिला अहमदाबाद
5263.	प्राण मेहता जयन्ती लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9005 28-3-84	पंचनाथ प्लाट, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड, ग्राम राजकोट-360001
5264.	परशोत्तम गोखार मूलाजी भाई	वैद्य विशारद नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1968	7410 29-11-79	ग्राम भांदुरी, वाया मलिया मटिता, जिला जुनागढ़
5265.	परशोत्तम पटेल शामजी	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3401 25-2-72	श्री शंकर विजय शो मील लक्कड़ कोट, स्टे० रोड़, सुरत
5266.	परशोत्तम फनसूर्या मावजी	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4940 4-9-75	ग्राम सावोबर, ता० जाम जोधापुर, जिला जामनगर

1	2	3	4	5
5267.	परशोत्तम वैद्य बाबाभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4422 2-7-74	ग्राम खिजाविया (टहाना) जिला जामनगर
5268.	परशोत्तमभाई पटेल धोल भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4285 25-3-74	ग्राम नटरंग, ता० वलिया, जिला बरोच
5269.	परशोत्तमभाई पटेल गोवाभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4808 25-4-75	ग्राम मनुन्द, ता० पाटन, जिला मेहसाना
5270.	परशोत्तमभाई पटेल वेनाभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6361 4-10-78	ग्राम और पो० आ० जजारा, ता० प्राणतीज जिला साबरकंधा
5271.	परशोत्तम भट्ट उमाशंकर	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1938	9657 31-12-86	ग्राम सोलावी ता० धसंगधरा, जिला सुरेन्द्र नगर
5272.	परशोत्तम देसाई दह्याभाई	डी० एस० ए० सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स गुजरात 1964	1458 29-6-64	पटेल स्ट्रीट, नजदीक जैन मन्दिर, ग्राम कदारगाम, जिला सूरत
5273.	परशोत्तम दोराव दह्याभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3205 20-7-71	ग्राम राबरीका, ता० उपलेटा बाया खालिजालिया, जिला राजकोट
5274.	परशोत्तम कसुन्दा अम्बाभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3206 26-7-71	ग्राम और पो० आ० बीरपर (मधुकान्था) बाया और ता० मोरबी, जिला राजकोट
5276.	परशुराम रावल जयशंकर	डी० ए० एस० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बंबई 1949	982 10-2-50	मेडी० आफि०, गबर्न० डिस्पेंसरी, ग्राम अजाब बाया कशाद, जिला जूनगढ़
5276.	परशुबेन देसाई शोबिन्दजी	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9513 1-7-86	57, मुविधा कालोनी, ग्राम और पो० आ० अतुन-396020, जिला वलसाड
5277.	परूल जोशी अनिलकुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9080 29-6-84	60, दत्त सोसायटी, सरखेज रोड, अहमदाबाद,
5278.	परूल पांड्या रमेश भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9634 5-12-86	9 "वीपी" बैंक आफ इण्डिया, सोसायटी, नं० 3 गुलबाईटिकरा हल्लिशत्रिज, अहमदाबाद-7
5279.	परूल पटेल छानम लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8438 31-5-82	मार्फत सी० एस० पटेल, आफिसर्स कालोनी, सी-12, रेस कोर्स रोड नजदीक आल इण्डिया रेडियो, जिला राजकोट
5280.	परूल शास्त्री मधुसूदन	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9500 12-5-86	गेट नं० 3, जिमुबिलिज मील, बाहर दरिया- पुर, अहमदाबाद-10

1	2	3	4	5
5281.	परुल व्यास वासुकी प्रताप	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8202 12-10-81	1781, देसाई पोल्, खादिया, अहमदाबाद
5282.	पार्वतीबेन अत्रा लावजी भाई	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1975	7181 9-8-79	विपुल, भरुवनगर, नजदीक भरुव फ्लैट, सामने अमरपाली टाकिज ग्राम राजको
5283.	पार्वतीबेन पटेल रायलभाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5621 3-12-76	ग्राम रावपुरा बहेवा, पो० आ० घानी, ता० व्यारा, जिला सूरत,
5284.	पार्वती शंकर त्रिवेदी मूल शंकर	डी० ए० एस्० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1944	316 6-5-52	शंकादी शेरी, मानक चौक, अहमदाबाद
5285.	प्रवीण हीरपारा शम्भू भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7758 16-7-80	मार्फत वैद्य पन्तरवासु ए/2, केपिटल कार्मशियल सेंटर, आश्रम रोड, अहमदाबाद
5286.	प्रवीणचन्द्र मेहता धिमनलाल	जी० एफ० ए० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन-गुजरात 1961	912 28-12-61	बेगमपुरा, ब्राह्मन शेरी, सूरत
5287.	प्रवीणचन्द्र पाठक भोतीलाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	6132 12-4-78	ग्राम और पो० आ० सामेवा ता० और जिला मेहसाना
5288.	पशरथ भाई शर्मा रायजी भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7231 29-8-79	पटेल चोरा, ग्राम दकोर, ता० वासर, जिला खेड़ा
5289.	पशाभाई परमार अराखभाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8033 10-4-81	ग्राम बन्साडोल, ता० हवार, जिला साबर- कंधा
5290.	पतनजली पाला क्षिभुवन	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1975	7895 14-11-80	मार्फत त्रिभुवन योगनकराम, हाथीखाना रोड, राजकोट-1
5291.	पथीभाई आचार्य पसिकलाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3213 30-7-71	मार्फत रसिकलाल आर, आचार्य, देरी नाक रोड नजदीक चबूतरा, ग्राम टंकारा, जिला राजकोट
5292.	पीनाकिन भाटिया केशवलाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4644 12-3-75	गधियासी पोल्, पिपाला शेरी नाका ग्राम बड़ोदा
5293.	पिनाकिन शुक्ल भानूशंकर	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7785 16-8-80	ग्राम-सालवा, ता० वाधरा नगर, हवेली
5294.	पिनाकिन शुक्ल मनहरलाल	बी० ए० एम० एस्० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9123 23-8-84	मार्फत पिनाकिन बी० एच०, 33, जिला पंचायत सोसाइटी, जोशीपुरा, ग्राम जूनागढ़

1	2	3	4	5	
5295.	पिनाकिन त्रिवेदी अहिपत राय	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1973	4358 26-4-74	62, देवबाग इन्द्रप्रस्थ सरोवर, रोड, ग्राम भावनगर	गौरीशंकर
5296.	पिनाकिन त्रिवेदी विष्णू प्रसाद	आयुर्वेद संसथा श्रावणभास पक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ीवा 1977	6567 15-2-79	सेक्टर नं० 19, बी० नं० जी० एच० 66/3, ग्राम श्रीर जिला गांधी नगर	
5297.	पियुष पारिख जम्पक लाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4825 2-5-75	भाफंत सी० जी० पारिख, ग्राम बोदबहुय, जिला साबरकंठा	
5298.	पियूषचन्द्र वैद्य नानूभाई	डी०एस०ए०सी०, क०शु०आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2382 3-2-67	आयु० स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम साधा, साध, ता० सावली, जिला बड़ौदा	
5299.	पियुष कुमार पाण्ड्या भाई शंकर	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5028 11-11-75	हिंगोलजी फालिया, ग्राम जूनागढ़	
5300.	पियूष कुमार शुक्ल फूल शंकर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3565 29-8-72	नाजिरत पागा, मूटबी जापा, पुलिस लाइन के पीछे, हीरभाई घाटी घर, ग्राम बड़ीवा	
5301.	पियूष कुमार व्यास सावली लाल	बी०ए०एम०एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9417 2-11-85	राजकावाडो, केशुमोठ पोल, ग्राम पाटन- 384256, ता० पाटन, जिला मेहसाना	
5302.	पियूष कुमार यागनिक अम्बालाल	डी०एस०ए०सी० क०शु०आयु० कोर्स, गुजरात 1964	1450 29-8-64	जिला पंचायत औषधालय, ग्राम धोलका, ता० धोलका, जिला अहमदाबाद	
5303.	पोपट पटोलिया मानाजी	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	6260 2-9-78	ग्राम अम्बाला, ता० विसावाडर, जिला जूनागढ़	
5304.	पोपटभाई गोघानी लालाजी भाई	बी०ए०एम०एस० गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9141 10-9-84	ग्राम टाना, ता० गिहोर, जिला भावनगर	
5305.	पोपटभाई पटेल पाशाभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4454 26-8-74	ग्राम नाननपुर, ता० प्रान्तिज, जिला साबरकंठा	
5306.	पोपटभाई पटेल खोवाभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	8188 22-9-81	ग्राम एच० पो० आ० अनियाद, ता० प्रान्तिज, जिला साबरकंठा	
5307.	पोपटलाल बालार प्रोधवजी	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5817 6-6-77	द्वारा एच० बी० आचार्य, हेमकुन्ज बाबवा, पाचारिया वादी, ग्राम भावनगर	
5308.	पोपटलाल बैया हीरालाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5538 23-9-76	म० नं० 2081, काटकीयावाड, पंचापति, कासूपुर, अहमदाबाद	

1	2	3	4	5
5309.	पोपटलाल दोलाबाविया लीराभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि०, 1971	3612 19-9-72	ग्राम हावियाना ता० जोविया, जिला- जामनगर ।
5310.	पोपटलाल गाजेरा घुसाभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि०, 1972	3771 8-2-73	7, हुसमान गली, ग्राम एबं ता० भेंसम जिला जमानगढ़
5311.	पोपटलाल कारिया हरजीवन	जी०एफ०ए०एम०, फै०आ०यू०सि० मेडी०, गुजरात 1962	109 23-11-62	जूनी शाक बाजार गली, ग्राम कैशीद, जिला जमानगढ़ ।
5312.	पोपटलाल कोलाविया तालकचन्द	डी०ए०एस०एफ०, फै०आ०यू०सि० मेडी०, गुजरात 1952	123 1-2-52	द्वारा कपिलभाई कोलाविया, ग्राम- हिम्मतनगर, जिला-साबरकंठा ।
5313.	पोपटलाल कुम्भानी मनिाजीभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि०वि०, 1974	4925 4-8-75	ग्राम हामापुर, वाया, बाग सारा भयानी, ता० कूकावव वैध, जिला अमरेली
5314.	पोपटलाल मंगोलिया बालजीभाई	डी०एस०ए०सी०, क०शु०आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1918 21-1-66	पंच तालावादा, वाया दनमगर, ता०- जिलिया (लाथी) जिला-अमरेली ।
5315.	पोपटलाल पादारिया जीवाभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि०वि०, 1972	4045 12-9-73	ग्राम-गनोड, वाया उपलेता, जिला-राजकोट ।
5316.	पोपटलाल पाण्ड्या नर्मदाशंकर	(1) आयुर्वेद विशारद, बो०ई०मे० सौराष्ट्र, 1960 (2) एच०पी०ए० पो०ग्रे०ट्रे० सेंटर, इन आयुर्वेद, जामनगर	2314 27-5-60	जिला-आयु० शोधालय, द्वारा आयु० आयु० नियामक काचेरी, गुजरात राज्य, नई सिविल अस्पताल, अहमदाबाद-16
5317.	पोपटलाल पटेल त्रिभुवन दास	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि०वि० 1970	3475 11-4-72	ग्रामसंकरा ता० हरिज, जिला-मेहसाणा ।
5318.	पोपटलाल पाण्ड्या प्रभाशंकर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि०, 1971	3720 8-1-73	बारिस वास, होली चकला, ग्राम-कलोल, जिला मेहसाणा ।
5319.	पोपटलाल पटेल अम्बालाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1971	3654 12-10-72	ग्राम-मण्डाला (सी० ए० डी० एच०) ता० पालमपुर, जिला-जामनगर ।
5320.	पोपटलाल पटेल छोटाला	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि०, 1972	3830 28-2-73	ग्राम-कन्जू, ता० वीरमगाम, जिला- अहमदाबाद ।
5321.	पोपटलाल रावल सीमनाथ	बी०एस०ए०एस० गुजरात आयु० वि०वि०, 1979	8116 17-7-81	ग्राम एबं पो०-पिलूद्रा, ता० प्रान्टिज, जिला-साबरकंठा ।

1	2	3	4	5
5322.	पोपटलाल सादानी जगजीवन	वैद्याचार्य नि.भा.आ. विद्यापीठ, दिल्ली 1967	7237 29-8-79	अम्बाडी प्रौद्योगिकी, ग्राम-बोधा, ता.- भाचक्र, जिला-कच्छ ।
5323.	पोपटलाल वैद्य दौलतराम	डी.ए.एस.एफ., फै.आ.यू.सि.मे., बम्बई 1941	1042 3-11-41	ग्राम-डेमानी, ता. बायव, जिला-साबरकण्ठ ।
5324.	पोपटलाल वैद्य छोटालाल	डी.ए.एस.एफ., फै.आ.यू.सि.मे., बम्बई 1953	1041 2-1-54	निवासधर, सर्जन बाबू अस्पताल, ग्राम एवं पो.-नवासारी, जिला-बलसाद ।
5325.	प्रभा यादव रतनदेव	बी.एस.ए.एम., गुजरात आयु. वि.वि., 1981	8681 3-3-83	ग्राम एवं पो.-कोटावा (जादोदर), ता. नखसरता ।
5326.	प्रभाकर भट्ट चुन्नीलाल	डी.ए.एस.एफ., फै. आ. यू. सि. मे. बम्बई 1950	835 31-12-50	नजदीक वेरारी माता, ग्राम-चन्वोध, ता. दभाई, जिला-बड़ौदा ।
5327.	प्रभाकर भट्ट जयशंकर	डी.ए.एस.एफ., फै.आ.यू.सि.मे., बम्बई 1950	836 26-2-51	ग्राम-ब्यारा, टी. बी. रेगवे, जिला-सूरत ।
5328.	प्रभाकर बाबूगुजर दयाराम	बी.ए.एम.एस. वि.बो.आ.आ.यू.सि.मे., महाराष्ट्र -1968	2999 14-7-70	चिकित्सा अधिकारी, डी. पी., ग्राम- वाहेज, ता. वागरा, जिला-बरोच ।
5329.	प्रभाकर गोखले त्रिम्बकराम	आयुर्वेद मध्यमा श्र.व.प. समिति, बड़ौदा 1969	7904 14-11-80	सुवर्णा अपार्टमेंट्स, क. नं. 5, नई खान्देराव रोड, गुडलक कारखाना के सामने, ग्राम बड़ौदा ।
5330.	प्रभाकर हरदिकर दत्तात्रेय	डी.एस.ए.सी. क.यू.आयु. कोर्स, गुजरात 1961	1335 23-10-61	पिरामितर रोड, बांबिया बाजार, बड़ौदा ।
5331.	प्रभाकर शास्त्री अम्बालाल	डी.ए.एस.एफ., फै. आय.यू.सि.मे., बम्बई 1949	1116 31-5-49	खारीकुई, ग्राम-बम्भट, जिला-खेड़ा ।
5332.	प्रभाकर शास्त्री विनायक प्रसाद	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1981	8804 5-7-83	वासम्बा कुई, ग्राम पेटलाद, जिला- खेड़ा-388450 ।
5333.	प्रभाकर सोलंकी दुर्लभ भाई	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1974	5042 20-11-75	ग्राम एवं पो.-काबोली, वाया अमालसाद, जिला-बलसाद ।
5334.	प्रभाकर सूपे किशन	बी.ए.एम.एस. नागपुर वि.वि. 1984	9594 23-10-86	177, हरिमगर कालोनी, ग्राम-सधाना, जिला-सूरत ।
5335.	प्रभाकर उर्लंगवार सदाशिवराव	बी.ए.एम.एस., वि.वी.आ.यू.सि.मे. 1985	2780 3-6-69	ग्राम एवं पो.-मधुबेन कालोनी, काराद डी. पी. वाया बापी, जिला- बलसाद

1	2	3	4	5
5336.	प्रभाकर कोरा धनश्याम लाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1971	3331 4-2-72	नजदीक हाटकेबर महादेव, बाहर- कोट, ग्राम-मंगरोल, जिला-जूनागढ़।
5337.	प्रभाशंकर जाती गनपतराम	डी०ए०एस०एफ०, फै०आ०यू०सि०मे० बम्बई 1954	199 1-1-54	ग्राम-पोलरपुर, ता० धन्धुका, जिला- अहमदाबाद।
5338.	प्रभाशंकर जोशी त्रिभुवन	बी०एस०ए०एम० कानपुर वि०वि०, 1976	5804 24-5-77	ग्राम-भोता कलाबाद, बाया बाराद, ता० भानवाव।
5339.	प्रभाशंकर मेहता कृष्णजी	डी०ए०एस०एफ० फै०आ०यू०सि०मे० बम्बई 1955	911 1-8-55	द्वारा डा० प्रवीण कुमार मेहता, 127, निर्मल नगर, ग्राम-भावनगर।
5340.	प्रभात बा जावव शिवा भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1975	5510 25-8-76	नजदीक तालुका स्कूल, सुतार गली, ग्राम-सुरेन्द्र नगर।
5341.	प्रभात भाई पटेल बकोर भाई	डी०ए०एस०एफ० फै०आ०यू०सि०मे०, बम्बई 1956	582 2-1-58	चिकित्सा अघकारी, ग्राम-खामपुर, ता० लुमावाडा, जिला-पंचमहल।
5342.	प्रभात शोभा पटेल सत्यम भाई	जी०एफ०ए०एम० फै०आ०यू०सि०मे० गुजरात 1964	1596 27-1-65	मानव फ्लैट, एच० एल० कालेज के पीछे, नबरंगपुरा, अहमदाबाद।
5343.	प्रभात सिंह बुवासामा मेघाजी	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि०वि०, 1976	5920 17-10-77	ग्राम-हरियार, ता० बालपुर, जिला- जामनगर।
5344.	प्रभात सिंह मंगरोला प्रताप सिंह	डी०ए०एस०एफ० फै०आ०यू०सि०मे०, बम्बई 1955	935 1-12-55	राजपुर फालिया, ग्राम-राजपिपसा, जिला-बरीच।
5345.	प्रभात सिंह वानसिया विजयसिंह	बी०ए०एम०एस० गुजरात आयु० वि०वि० 1963	1660 18-5-65	ग्राम एवं पो०-सचिन, जिला-सूरत।
5346.	प्रभावती उकानी विठ्ठल दास	आयुर्वेद भिषक, नि०भा०आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1972	6913 16-4-79	बतसाल, 15-ए, पंचवटी सोसाइटी, कलाबाद रोड, ग्राम-राजकोट।
5347.	प्रमोदचन्द्र जोशी दलपतराम	डी०एस०ए०सी० क०यू०अयू० कोर्स, गुजरात 1965	1805 28-9-65	जोसवाल मोहल्ला, गोपी पुग, सूरत- 2
5348.	प्रभूभाई भाकटा माकन भाई	आयुर्वेदाचार्य नि०भा०आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1942	6908 16-4-79	10, साधना सोसाइटी, बाराछ रोड, ग्राम-सूरत।
5349.	प्रभू भाई पटेल मुरार भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1969	3053 30-9-70	ग्राम-बावाबाणी, ता० भानसाम, जिला- मेहसाना।

1	2	3	4	5
5350. प्रभू भाई पटेल मोती भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1981	8778 16-6-83	ग्राम—असाई वासाना, पो० असाई, ता० हदर, बाया बावली, जिला—साबरकंठा।	
5351. प्रभू दास लक्ष्मीराम	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1969	2901 16-2-70	ग्राम—कंकावव मोती, ता० कंकावव, जिला—अमरेली,	
5352. प्रभूबास मकवाना नारनदास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1970	3115 10-2-71	महा० गुजरात फुटवीथर कं०, मोशी बाजार, ग्राम—जूनागढ़।	
5353. प्रभू दास मोगपुरा सावजी भाई	बी०ए०एम०एस० गुजरात आयु० वि०वि० 1984	9351 21-8-85	द्वारा डा० बी० एस० मोगपुरा, ओरधो—पेठिक अस्पताल महात्मा गांधी रोड़, जित्ताखामा चौक, ग्राम—जूनागढ़—362001	
5354. प्रभूदास पटेल पुरुषोत्तम दास	डी०ए०एस०एफ० फै०आ०यू०स०मे० बम्बई 1953	577 1-8-53	नाबी पोल, नवधाराव, ग्राम—करमसाव, जिला—खेड़ा।	
5355. प्रभू दास पटेल जीवन दास	डी०एस०ए०सी० क०शु०आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2378 24-1-67	ग्राम—संबर, ता० पाटन, जिला—मेहसाना।	
5356. प्रभू दास प्रजपति पुरुषोत्तमदास	डी०एस०ए०सी० क०शु०आयु० कोर्स, गुजरात 1963	1426 14-4-64	ग्राम—सिपोर, ता० खेरालू, जिला—मेहसाना।	
5357. प्रभू दास पटेल साखी दास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1971	3621 26-9-72	ग्राम—वरधारी, ता० लू माबाडा, जिला—पंचमहल।	
5358. प्रभू दास रामवेपुत्र दुर्लभदास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1972	4009 17-8-73	ग्राम—गोविन्दपुर, ता० बाहेरी, जिला—अमरेली।	
5359. प्रभू दास रत्नपारिया बाशराम	बी०ए०एम०एस० गुजरात वि०वि० 1965	1878 8-12-65	नजदीक तेज भगत मन्विर, ग्राम—धोरणी, जिला—राजकोट।	
5360. प्रभू दास सोधा देव चन्द	वैद्य विशारद नि०पा०आ०विद्यापीठ, दिल्ली 1964	6819 22-3-79	ग्राम—कबेनगर, जिला—जूनागढ़।	
5361. प्रभू दास लम्बाधिया देवशी भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1976	6338 4-10-78	दिमकर भाई वासवादा, मकान, नगरचौक अम्बिका चौक, जूनागढ़।	
5362. प्रभू दास कुदिबाल जैठालाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1974	4948 23-9-75	ग्राम भावपार ता० मोराबी, जिला—राजकोट।	
5363. प्रभू दास पंजित जैठालाल	डी०ए०एम० यू०पी०आयु० महाविद्यालय, पाटन (बड़ौदा राज्य) 1941	2672 17-5-41	अनुपम हाउसिंग सोसाइटी, ग्राम—हलील, जिला—पंचमहल।	

1	2	3	4	5
5364.	प्रभूलाल पटेल शिवलाल	बी.ए.एम.एस. गुजरात वि.वि. 1966	2030 6-6-66	ग्राम चाराववा, बाया हलावांद, जिला -- सुरेन्द्रनगर
5365.	प्रभूलाल उपाध्याय त्रिकमजी	बैद्याचार्य दि.भा.आ. विद्यापीठ, दिल्ली 1967	7184 9-8-79	ग्राम रोशनपुर, ता. लालपुर, जिला-- जामनगर
5366.	प्रभू शरण दास शास्त्री नारनखन्त्र	बी.ए.एम.एस. गुजरात आयु. वि.वि. 1974	5046 20-11-74	स्वामीनारायण मन्दिर, खुलपुर, अहमदा- बाद
5367.	प्रद्युमन वेसाई नानू भाई	धायुर्बेद विशारद बी.ई.मे. सीराष्ट्र 1961	2195 17-3-61	किला वेसाई गली, ग्राम कटरगाम, जिला सूरत
5368.	प्रद्युमन वाकाहरिया भोगीलाल	बी.ए.एम.एस. गुजरात वि.वि. 1965	1946 25-2-66	1/387, भाया बेरी, नामपुरा, सूरत
5369.	प्रद्युमन कुमार त्रिवेदी भोछवलाल	ए.वी.बी. दि.म. विद्यापीठ, पूना 1941	324 3-11-41	कुबेरनगर बंगला, बस स्टॉप के सामने, अहमदाबाद
5370.	प्रद्युमन सिंह मोहिल लाखूभा	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1973	4613 24-1-75	जागृति श्रमजीवी सोसाइटी, बी. सं. 47/बी., धामेश्वर मन्दिर के पीछे, राजकोट
5371.	प्रदीप पारास्कर मुरलीधर	बी.ए.एम.एस. गुजरात आयु. वि.वि. 1983	8958 12-3-84	"दल प्रसाद", 9-ए, स्वामी नारायण- नगर सोसाइटी प्रताप नगर, बडौदा- 390004
5372.	प्रदीप ठक्कर लालजी भाई	बी.ए.एम.एस., गुजरात आयु. वि.वि. 1985	9571 23-9-86	ग्राम रापर (बागाद), कच्छ-370163
5373.	प्रदीपकुमार बवे विश्वनाथ	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1975	5204 26-2-76	सरदारपाड़ा प्लाट, ग्राम जूनागढ़ .
5374.	प्रदीप कुमार वेसाई अजित भाई	बी.ए.एम.एस. बम्बई वि.वि. 1983	9512 12-6-86	1/सी. जी. पी. के. पार्क होमियोपैथी कालेज मार्ग, भाटर रोड, सूरत
5375.	प्रदीप कुमार पटेल नटवरलाल	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1981	8542 14-9-82	ग्राम एवं पो. उभरन ता. मालपुर,-- जिला साबरकण्ठा
5376.	प्रदीप कुमार मेहता मनसुख लाल	बी.ए.एम.एस. गुजरात आयु. वि. वि. 1983	9096 31-7-84	मेहता निवास, वेसाई मोरी, सोनी बाजार, ग्राम मोरवी
5377.	प्रदीप कुमार सूर्यवंशी जसवंत राव	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि. वि., 1977	6224 10-8-78	ग्राम एवं पो. उनाई, बाया बिलिमोरा, ता. वासन्या, जिला वलसाड

1	2	3	4	5
5378.	प्रदीप कुमार सुथर कृपाशंकर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6075 15-3-78	द्वारा श्री के० जे० सुथर, आर० नं० 345/41, राज० जी० कालोनी, सुब्रराम पेगर, अहमदाबाद।
5379.	प्रदीप कुमार ठक्कर मणिकान्त	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4226 22-2-74	वसंतकुंज, 3, सर्वोदय नगर, वादिया रोड, ग्राम पोरबन्दर।
5380.	प्रदीप कुमार त्रिवेदी जागेशचन्द्र	बी०ए०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9322 25-7-85	17, करीम भाई की चाली, जोरादी गेट, कृष्णानगर, ग्राम भावनगर— 364001
5381.	प्रदीप कुमार यागनिक जयंती लाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5291 23-3-76	140, संकादी शेरी, ग्राम मंधुका, जिला अहमदाबाद।
5382.	प्रदीप कुमार यागनिक दन्तु लाल	बी०ए०एम०एस० गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9559 3-9-86	“आशुतोष” उमानगर, ग्राम कन्दसान, ता० कापी जिला मेहसाना।
5383.	प्रद्युमन कादिया बेला भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8030 10-4-81	गानजी, उन्नी फाली माघ, ग्राम एवं पो०, विसानगर, जिला मेहसाना।
5384.	प्रद्युमन पाण्ड्या वृजलाल भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3832 28-2-73	वाकवा जोरा, काकाती मंदिर ग्राम भावनगर, सौराष्ट्र।
5385.	प्रद्युमन शर्मा हरिशंकर	बी०ए०एम०एस० इन्दौर वि० वि०, 1976	6299 27-9-78	सोनवारिया बाजार, एम० जी० रोड, ग्राम एवं जिला साजीपुर।
5386.	प्रद्युमन उपाध्याय नर्मदा शंकर	आयुर्वेद विशारद, म० सि० वि० वि०, 1948	2337 24-8-48	जनता औषधालय, ग्राम गावासाद, ता० पावरा, जिला बड़ौदा।
5387.	प्रद्युमना भट्ट प्राण लाल	बी०ए०एम०एस० इंदौर वि० वि०, 1368	5573 13-10-76	गौतम निवास, हूनासवादी, काला-नाला, ग्राम भावनगर।
5388.	प्रदूषण कुमार भट्ट चम्पकलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6181 15-6-78	ग्राम धन्धाली, वाया शिनोर, जिला भावनगर।
5389.	प्रफ़ील चन्द्र जोशी ईश्वरजी	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3617 25-9-72	द्वारा नाथू भाई जोशी, भगत पोंरी, ग्राम कोदिनार, जिला अमरेली।
5390.	प्रफ़ील चन्द्र जोशी चिमम लाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5024 29-10-75	3489, शाहपुर बरवाजा, खांचा, संकादी शेरी, अहमदाबाद।
5391.	प्रफ़िल्ला मेहता नवल चन्द	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3885 23-3-73	बिलीप निवास, सतवारा वाद, ग्राम जाम खम्भालिया, जिला जामनगर।

1	2	3	4	5
5392.	प्रफुल्ल देसाई दिनेश्वर राय	जी०एफ०ए०एम० फै० आयु० यू० सि० मे० बम्बई 1962	423 21-5-62	51, मनिबाग सोसाईटी, कुंजागली के सामने, गोपाला बाँदी, कटरगाम रोड, सुरत-4।
5393.	प्रफुल्ल राशानिया मोहनलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5859 30-8-77	सुरागपाड़ा, ग्राम बादिया, जिला- अमरेली।
5394.	प्रफुल्लबाला पटेल भीबाभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7673 18-4-80	मोती वादाकी ग्राम महोत्तल, ता० तादिया, जिला खेड़ा।
5395.	प्रफुल्ल भाई वैद्य बापालाल	डी० ए० एस० एफ० फै० आ० यू० सि० मे०, बम्बई 1951	1043 24-7-51	गोपीपुरा, सुरत-2।
5396.	प्रफुल्लचन्द्र आचार्य विष्णु प्रसाद	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3686 15-11-72	कालिका प्लाट शक्ति टाइल्स के पीछे, शक्ति आटा चक्को के सामने, ग्राम मोरबी, जिला राजकोट।
5397.	प्रफुल्ल चन्द्र दवे बाल कृष्ण	बी०एस०एम०एस० गुजरात वि० वि०, 1963	1369 13-12-63	लाल बाग के सामने, आयु० औषधालय, जामनगर
5398.	प्रफुल्ल चन्द्र जोशी रतिलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5079 15-12-75	ग्राम तारियाला, बाया वरनाज, जिला भावनगर।
5399.	प्रफुल्ल चन्द्र कसागरा हरिभाई	बी०एस०एम०एस० कानपुर वि० वि०, मुंबई 1976	5641 24-12-76	नगर बोरादी चोरा, ग्राम वनथाली, जिला जूनागढ़।
5400.	प्रफुल्ल चन्द्र मण्डलिया मोहनलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3724 8-1-73	जाला जाल, खारी कुई, लक्ष्मी भवन, ग्राम जामनगर।
5401.	प्रफुल्ल चन्द्र मेहता नर्मदाशंकर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4688 24-3-75	राजेश्वरी निकेतन, पुरानी मानेकवादी, ग्राम भावनगर।
5402.	प्रफुल्ल चन्द्र पाण्डेया भानु प्रसाद	डी० ए० एस० एफ० फै० आ० यू० सि० मे०, बम्बई 1956	756 24-1-57	लाल दरवाजा, ग्राम एवं जिला खेड़ा।
5403.	प्रफुल्ल चन्द्र पटेल शामल दास	डी० एस० ए० सी० क० शु० आयु० कोर्सा, गुजरात 1963	593 10-6-63	ग्राम एवं पो० मिश्रामतार, ता० अमोद जिला वरोच।
5404.	प्रफुल्ल चन्द्र रावल मनसुख लाल	बी०एस०एम०एस० गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5468 22-7-76	1/ए, कविज कुंज, सोसाईटी, नारनपुर, शामिग, अहमदाबाद।
5405.	प्रफुल्ल चन्द्र रिन्दानी अमृतलाल	डी० ए० एस० ए० फै० आ० यू० सि० मे०, बम्बई 1958	1832 1-3-58	अमृत निवास, अक्षयनाथ रोड, जामनगर
5406.	प्रफुल्ल चन्द्र माद मुखलाल	बी० ए० एस० ए० इन्दौर वि० वि० 1973	6998 7-5-79	ग्राम एवं पो० भाखुविधा, ता० भन्वाड बाया रापर, जिला कच्छ।

1	2	3	4	5
5407.	प्रफुल्ल चन्द्र शेट केशव लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4635 5-3-75	द्वारा के० पो० शेटा, ग्राम मोती कंका- वय, जिला-अमरेली ।
5408.	प्रफुल्ल चन्द्र सोजित्वा वीराजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8601 13-12-82	ग्राम एवं पो० धरेस्वर, ता० राजुला, जिला अमरेली ।
5409.	प्रफुल्ल चन्द्र सोनी रमन लाल	बी० एस० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4937 4-9-75	पंचवटी, ग्राम सावली, जिला बड़ौदा ।
5410.	प्रफुल्ल चन्द्र त्रिवेदी धिमनतराम	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० यू० सि० मे०, गुजरात 1961	320 23-10-61	45 बेंकूमान्जी, लोन, चिकपेट, कास, बंगलौर ।
5411.	प्रफुल्ल चन्द्र वैद्य धिमन लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5703 24-2-77	ग्राम मामर रोड, ता० पान्ना, जिला बड़ौदा ।
5412.	प्रफुल्ल चन्द्र व्यास चिन्तामणी	बी० ए० एस० एफ० फै० आ० यू० सि० मे० बम्बई 1955	1049 1-10-55	चिकित्सा अधिकारी, ग्राम कुण्डबाना, ता० ओलपाद, जिला सूरत ।
5413.	प्रफुल्ल कुमार ठाकर नानू भाई	बी० एस० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4573 5-11-74	इन्द्रजीत टेनामेन्ट, विभाग सी/5, डाय- मण्डल सिक मिल्ल के सामने, निकोल रोड, नजदीक बापू नगर, अहमदाबाद
414.	प्रफुल्ल भट्ट जयंती लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4920 15-7-75	15, देवाशीष सोसाईटी, नवा वदाज, अहमदाबाद ।
5415.	प्रफुल्ल ववे मनु भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4492 6-9-74	प्लॉट नं० 1016, कृष्णा नगर, ग्राम भावनगर ।
5416.	प्रफुल्ल गोपानी जयंती लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6100 21-3-78	द्वारा जेटी, गोपानी, शरदाना नगर सोसाईटी, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद ।
5417.	प्रफुल्ला शाह भोला भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8547 14-9-82	वादी गजरावादी, मंगल पार्क सोसाईटी, डी० नं० 46 परस, बड़ौदा ।
5418.	प्रफुल्ल बेन चौधरी बालू भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7997 25-2-81	द्वारा प्रकाश ऑटो गैरेज, उनानी रोड, चार रास्ता पोस्ट एवं ता० ध्यारा, जिला सूरत ।
5419.	प्रफुल्ल बेन वैद्य जयंती भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7271 12-9-79	द्वारा डा० जयंती लाल वैद्य, ग्राम बघोरा पो० बिगारी, ता० गन्देवी, जिला वलसाद ।
5420.	प्रफुल्ल कुमार जोशी केशवलाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात वि० वि०, 1966	2357 8-1-67	नूतन नगर, द्वारा डा० के० डी० जोशी जिला जामनगर ।

1	2	3	4	5
5421.	प्रागजी भाई मोहनलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6264 2-9-78	ग्राम एवं पो० केरला (भार), ता० सावरकुण्डाला, जिला भावनगर ।
5422.	प्रागजी भाई रूपावाटिया भगवानजी भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3865 13-3-73	ग्राम सानाला, वाया कुकावन्न, जिला अमरेली ।
5423.	प्रगता पटेल नानजी भाई	एम० डी० (आयुर्वेद) गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8146 3-9-81	द्वारा नई पूर्वी चिकित्सा एवं प्रोविजन स्टोर, नया विकास गढ़ रोड, धामकेतू मार्ग, पालादी, अहमदाबाद ।
5424.	प्रगता बेम पंडित विष्णुप्रसाद	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4945 16-9-75	ब्रह्मपोल, ग्राम सिद्धापुर, जिला मेहसाना ।
5425.	प्रगता रावल परमानन्द भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8431 17-5-82	द्वारा डा० अम्बालाल प्रसाद वैद्य, 76, रूघेयवर सोसाईटी, अजवा रोड, बड़ोदा ।
5426.	प्रगता शाह अरविन्द भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5380 10-5-76	द्वारा शाह अरविन्द भाई एम० बजवावा, भोई घाटा पंचमहल के सामने, ट्रांसपोर्ट, ग्राम बड़ोदा ।
5427.	प्रागजी परमार वासाजी	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5182 18-2-76	ग्राम जीवापार, ता० एवं जिला जामनगर ।
5428.	प्रगता जोशी शरद चन्द्र	बी०एम०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4545 9-10-74	1800, सोनी खांचा, देवाई पोल, खादिया, अहमदाबाद ।
5429.	प्रगता केटेचा प्रभुवास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3721 8-1-73	29, दिग्विजय प्लाट, ग्राम जामनगर ।
5430.	प्रगता पुरोहित लाभ शंकर	बी०एम०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4797 24-4-75	पुर्णिमा स्टेडियो, नजदीक महिला विद्या- लय, ग्राम भावनगर ।
5431.	प्रगता वैधनव उषाकांत	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	8390 24-3-82	12, अशोकनगर, मिलन सिनेमा के सामने, ग्राम सुरेन्द्रनगर ।
5432.	प्रगता वाजिर हृदयकरानन्द	बी०एम०एम०एस० गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9596 23-10-86	चाहिलपुरा, 5/986, जवाखादी, ग्राम सुरत-3 ।
5433.	प्रगता बेम दवे अम्बालाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7949 17-1-81	54/2, सेक्टर नं० 12, ग्राम एवं जिला गांधीनगर ।
5434.	प्रगता कुमार शाह जयंतीलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3742 2-2-73	नगरवादा, जागरोआ पोल, स्टेशन रोड, ग्राम नादियाड, जिला खेड़ा ।

1	2	3	4	5
5435.	प्रह्लाद भाई पटेल खादी दास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5368 30-4-76	ग्राम मिथिधरीलाल, ता० खानसाभा, जिला मेहसाना ।
5436.	प्रह्लाद भट्ट चुनी लाल	डी०एम०ए०सी० क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1806 28-9-65	45, स्वामी नारायण चाल, रुग- नाथपुरा, सूरत-3 ।
5437.	प्रह्लाद भाई खेमचन्द भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3346 8-2-72	ग्राम कमलपुर, पो० जंतराल, ता० बीजापुर, जिला मेहसाना ।
5438.	प्रह्लाद भाई पटेल हरजीवनदास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5466 22-7-76	ग्राम शिवपुरा, ता० वीरमगाम, जिला अहमदाबाद ।
5439.	प्रह्लाद भाई पटेल हरगोविन्द दास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5683 24-2-77	ग्राम आनन्दपुरा, पो० छाबालिया, ता० खैराल, जिला मेहसाना ।
5440.	प्रह्लाद भाई पटेल पुरुशोत्तम दास	आयुर्वेद उस्मा, श्र० द० प० समिति, बड़ौदा 1976	6729 9-3-79	ग्राम ब्रह्मान्दा, ता० सिद्धापुर, जिला मेहसाना ।
5441.	प्रह्लाद कुमार त्रिवेदी मगन लाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3534 1-8-72	ग्राम फिकाव, ता० सावरकुण्डल, जिला भावनगर ।
5442.	प्रह्लाद सिंह चाथदा भवानी सिंह	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3280 2-11-71	ग्राम विलोदारा, ता० कलोल, जिला मेहसाना ।
5443.	प्रह्लाद अग्रवाल रूप दास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8912 24-1-84	ग्राम अगदा, वाया उना, जिला, जूनागढ़ ।
5444.	प्रह्लाद राकेश प्रजाराम	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1972	9656 31-12-86	प्लॉट नं० 18, मानकवादी, राध भावनगर ।
5445.	प्रह्लाद बंछ भाम्कर राव	डी०एस०ए०सी० क० शु० आ० कोर्स, गुजरात 1962	1044 29-6-62	2/1061, भाई दास, मेहता शेरी, सभ्राम पुरा, सूरत ।
5446.	प्रह्लाद भाई चौधरी फूजी भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3598 15-9-72	ग्राम वासना, ता० विसनगर, जिला मेहसाना ।
5447.	प्रह्लाद भाई चौधरी राम संन भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	4196 15-2-74	ग्राम खातोदा, पो० सुधिया, ता० खैरालू, जिला मेहसाना ।
5448.	प्रह्लाद कुमार जोशी कान्तिबाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4372 8-5-74	ग्राम बल्लीभपुर, वाया धोवा, जं०, जिला भावनगर ।
5449.	प्रकाश भट्ट दहिना भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3172 17-2-71	52, सरकीबाद, सारानगर, अहमदाबाद ।

1	2	3	4	5
5450.	प्रकाश भट्ट आनन्वी	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4122	नजदीक लालगरबावा की मठ, भागा, 26-11-73 तालाव, ग्राम भावनगर ।
5451.	प्रकाश भट्ट जयंत भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5849	द्वारा डा० जयंत भाई भट्ट, दिग्विजय प्लॉट, शेरी नं० 10 ।
5452.	प्रकाश जोषी देवनन्द	बी० एम० ए० एम०, एम० डी० (आयु०) गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5143	प्रेम कुटी, द्वारकापुरी रोड, ग्राम जामनगर । 30-1-76
5453.	प्रकाश मोदी नत्था लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8949	द्वारा शाह धीरजलाल एस०, 17-2-84 1/बराज अपार्टमेंट नारायण नगर रोड, पालाडी, अहमदाबाद ।
5454.	प्रकाश पटेल मंगेश	बी० ए० एम० एस० इन्दौर वि० वि० 1977	6461	द्वारा श्री मदन लीमाजी पटेल, ग्राम एवं 15-11-79 पो० मगवारा, जिला बरौच ।
5455.	प्रकाश मारवती मधु कान्त	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9197	वसंत कुई, मुनी अस्पताल के सामने, ग्राम 30-1-85 पेटसाद, जिला खेड़ा ।
5456.	प्रकाश शिवाला शारदा चन्द्र	बी० ए० एम० एस० विक्रम वि० वि०, उज्जैन 1977	8147	48, बनियावादी, ग्राम धार (म० प्र०) । 3-9-81
5457.	प्रकाश सोलंकी दिनकर राय	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4738	भाबर की शेरी, गौरी फालिया, श्याम 3-4-75 कुन्ज, ग्राम भावनगर ।
5458.	प्रकाश स्वायत्त हिम्मत लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1986	9555	नालिया, ग्राम बधवान शहर, ता० बधवान 3-9-86 शहर, जिला सुरेन्द्रनगर ।
5459.	प्रकाश त्रिवेदी रमणीक लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4027	ग्राम बागसारा (मेघानी) ता० वादिया, 30-8-73 जिला अमरेली ।
5460.	प्रकाश उपाध्याय मनहर लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7334	आनन्द, नटराजनगर, विश्वविद्यालय रोड, 15-10-79 ग्राम राजकोट ।
5461.	प्रकाश भाई भवसार ईश्वरलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	6266	द्वारा भगत होटल, ग्राम पेक्षापुर, 9-3-76 ता० एवं जिला गांधीनगर ।
5462.	प्रकाश भाई पटेल गरबादभाई	बी० ए० एम० एम० पूना वि० वि० 1976	5657	ग्राम कोशिनदरा, ता० संखेडा, जिला 18-1-77 बड़ौदा ।
5463.	प्रकाशभाई पटेल भगवान भाई	बी० ए० एम० एस० पूना वि० वि० 1976	5736	ग्राम कोशिनदरा, ता० संखेडा, जिला 25-3-77 बड़ौदा ।

1	2	3	4	5
5464.	प्रकाश चन्द्र भट्ट शंकर लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5157 7-2-76	द्वारा एस० एम० भट्ट, ग्राम नारनपुर, ता० भुज, जिला कच्छ ।
5465.	प्रकाश चन्द्र भट्ट देवा शंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5693 24-2-77	द्वारा डी० एन० हाई स्कूल, ग्राम आनन्द, जिला खेड़ा ।
5466.	प्रकाश चन्द्र जोशी देवणकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6753 15-3-79	ग्राम जादर, ता० इदर, जिला साबरकण्ठ ।
5467.	प्रकाश चन्द्र जोशी सुरेन्द्र भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7363 29-10-79	अम्बाजी माता की मन्दिर, ग्राम पावरा, जिला बड़ौदा ।
5468.	प्रकाश चन्द्र मेहता कंधन लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6155 4-5-78	ग्राम एवं पो० नासवादी, ता० हासवादी, जिला बड़ौदा ।
5469.	प्रकाश चन्द्र नायक चानू लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7385 19-11-79	ग्राम कानपुर, ता० इदर, जिला साबरकण्ठ ।
5470.	प्रकाश चन्द्र पटेल हीरालाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5871 2-9-77	द्वारा डा० एच० एम० पटेल, येना बैंक के पीछे, ग्राम काचो, जिला मेहसाना ।
5471.	प्रकाश चन्द्र पटेल विक्रम भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7634 20-3-80	ग्राम एवं पो० एवं ता० वाधोविया, जिला बड़ौदा ।
5472.	प्रकाश चन्द्र पटेल दाबू भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8812 29-7-83	पन्जारा पोल के सामने, सज्जनपुरा, ग्राम मानसा, ता० बीजापुर, जिला मेहसाना ।
5473.	प्रकाश चन्द्र शाह चूनीलाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9376 2-9-85	ग्राम एवं पो० चित्रोदा, ता० इदर, जिला साबरकण्ठ ।
5474.	प्रकाश चन्द्र शर्मा कमलाशंकर	बी० ए० एम० एस० इन्दौर वि० वि० 1974	5575 18-10-78	ग्राम सयान, ता० ध्रोलपाव, जिला सूरत ।
5475.	प्रकाश चन्द्र शर्मा नारायण दत्त	वैद्य विशारद नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1965	7096 10-7-70	42/999, मेघानी नगर, अहमदाबाद ।
5476.	प्रकाश चन्द्र शुक्ल प्रवीण कुमार	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3522 27-6-72	ग्राम गावदा, ता० बीजापुर, जिला मेहसाना ।
5477.	प्रकाश चन्द्र शुक्ल जनार्दन भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8407 5-4-82	16, मधु सूदन सोसाइटी, टाउन हाल के पीछे, आनन्द, जिला खेड़ा ।

1	2	3	4	5
5478.	प्रकाश चन्द्र सोनी रमन लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5498 17-8-76	नरसिंह जी पोल, दाला पटेल खांचा, ग्राम बड़ौदा
5479.	प्रकाश चन्द्र शुक्ल मनहर लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8604 13-12-82	मोती तारन पोल, ग्राम खम्भट, जिला खेड़ा
5480.	प्रकाश चन्द्र त्रिवेदी भाई शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4375 8-5-74	उच्चान शेरी, राम रज चौक, ग्राम प्रभास, पाटन, जिला जूनागढ़
5481.	प्रकाश चन्द्र उपाध्याय भगवान जी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3413 3-3-72	नागरपाड़ा, शेरी नं० 2, नजदीक देवीवास, जामनगर ।
5482.	प्रकाश चन्द्र वैद्य मपतलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6166 20-5-78	बालन्द शेरी, दरवार रोड, ग्राम बिसनगर जिला, मेहसाणा ।
5483.	प्रकाश चन्द्र बालेरा रतिलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4065 26-9-73	संघामिया बाजार, ग्राम जामनगर ।
5484.	प्रकाश चन्द्र वैद्य रतिलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7666 10-4-80	म० नं० 4343, जामपोलीपोल, ग्राम कपादवन्ज, जिला खेड़ा ।
5485.	प्रकाश चन्द्र धामी धनसुख लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8078 7-5-81	पो० दिदोली, बाया उधाना, ता० चोरयासी, जिला सूरत ।
5486.	प्रकाश चन्द्र जिन्जूवाधिया नटवरलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8995 28-3-84	कनसारा बाजार, ग्राम नादियाड, जिला खेड़ा ।
5487.	प्रकाश कुमार भट्ट दिनेश्वर राव	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7431 12-12-79	486-बी, स्वासराय, शिशु विहार गीरियल, ग्राम भावनगर ।
5488.	प्रकाश कुमार मेहता कांतिलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8136 21-8-81	शबोरिवाली शेरी, महालक्ष्मी मन्दिर के सामने, ग्राम पालीटामा, जिला भावनगर
5489.	प्रकाश कुमार संघवी निता लाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9629 5-12-86	लुहार कोथ, ग्राम पिज, ता० नादियाड, जिला खेड़ा ।
5490.	प्रकाश कुमार शाह चन्लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9074 29-6-84	नाला की भाल, ग्राम कथापाल, ता० कपादवन्ज, जिला खेड़ा ।
5491.	प्रकाश कुमार शेट मगनलाल	बी० ए० एम० एस० बी० इ० मे० सौराष्ट्र 1970	3898 28-3-73	महेश निवास, 28, प्रह्लाद प्लॉट, ग्राम राजकोट ।

1	2	3	4	5
5492.	प्रकाश कुमार उपाध्याय मनहरलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8313 6-2-82	ग्राम एवं पो० तन्ता, भुराबिया कृपा, याया एवं ता० शिहोर, जिला भावनगर— 364260 ।
5493.	प्रकाश कुमार वैद्य अम्बालगल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7296 20-9-79	ग्राम एवं पो० बदोद, ता० आनन्द जिला खेड़ा ।
5494.	प्रकाश चन्द्र पाण्ड्या प्रभू प्रसाद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4179 11-2-74	द्वारा पाण्ड्या पी० ए० शेट, डी० यू० रेकरान अस्पताल, ग्राम इंदर, जिला साबरकंठा ।
5495.	प्रमन्द भानूशाली जेठालाल	डी० ए० एस० ए० एफ० फै० आ० यू० सि० मे० बम्बई 1956	2605 2-1-56	चिकित्सा अधिकारी, प्राथमरी स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम वरमादी, ता० मण्डवी, जिला कच्छ ।
5496.	प्रमोद राय शाह रमण लाल	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० यू० सि० मे० बम्बई 1959	1184 1-5-59	ग्राम इटादारा, ता० बीजपुर, जिला मेहसाना ।
5497.	प्रमिला तिबारी प्रद्युमन	बी० ए० एम० एस० इन्वीर वि० वि० 1976	6463 15-1-79	द्वारा पी० एम० शर्मा, चिकित्सा अधिकारी डी० पी० औषधालय, ग्राम कादय, जिला कच्छ ।
5498.	प्रमोद पुराहित मधुसूदन	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7999 25-2-81	9/1685, कोलापीठ, मेन रोड, ग्राम सूरत-3 ।
5499.	प्रमोद सोंगवंधाला हीरालाल	एम० एफ० ए० एम० फै० आ० यू० सि० मे० बम्बई 1974	7074 30-6-79	अमृतनगर, सिलवासा रोड, ग्राम वापी ।
5500.	प्रमोद बाला भट्ट बलवंत राय	डी० एस० ए० सी० क० शु० आयु० कोर्स गुजरात 1966	2525 22-6-67	ग्राम कामराज, वाया सयाना, ता० काम- राज, जिला सूरत ।
5501.	प्रमोद बेन व्यास नटवरलाल	आयुर्वेद माध्यमा श्र० द० प० समिति, बडौदा 1977	7240 30-8-79	ग्राम कोशिनदरा, वाया आनन्द अंकालव, ता० बोरसाद, जिला खेड़ा ।
5502.	प्रमोद पटेल सोमाभाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4468 29-8-74	त्रिकमजी मन्दिर, ग्राम पादारा, ता० पादारा, जिला बडौदा ।
5503.	प्रमोदिनी दवे गुलाब शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3774 9-2-73	द्वारा जी० जे० दवे, गाजर फाली, रामू कुवा, ग्राम जामनगर ।
5504.	प्रमोद कुमार भट्ट चन्दूलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5907 28-9-77	ग्राम बामोदाना, ता० एवं जिला मेहसाना ।
5505.	प्रमोद कुमार दाराजी रतिलाल	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	9073 29-6-84	ग्राम एवं पो० पाण्डवा, ता० बालाशिनोर, जिला खेड़ा ।
5506.	प्रमोद कुमार जाम्नी प्रभा शंकर	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3059 12-10-70	सादु आचाराज की खाशकी उपासी सोरी, ग्राम सिद्धापुर, जिला मेहसाना ।

1	2	3	4	5
5507.	प्रमोद कुमार मेहता मणिलाल	डी० एस० ए० सी० क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2065 22-8-86	14/बी/2, दिलखुश सोसाइटी, स्टेडियम रोड, लाखुवी तालावादी के सामने, पो० नवजीवन, ग्राम अहमदाबाद ।
5508.	प्रमोद कुमार मेहता तुलजाशंकर	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6395 27-10-78	शिव शक्ति सदन, केशव नगर, साबरमती, अहमदाबाद ।
5509.	प्रमोद कुमार पटेल बाबकुमाई	डी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9541 18-8-86	ग्राम दरजीपुरा, पो० आ० सायाजीपुरा, ता० एवं जिला बड़ोदा ।
5510.	प्रमोद कुमार साधु भगवान दास	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3833 10-3-73	ग्राम नवा संगपुर, ता० वीजापुर, जिला मेहसाना ।
5511.	प्रमोद कुमार उपाध्याय जय शंकर	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3270 25-10-71	ग्राम रतनपुर, ता० गोधारा, जिला पंचमहल ।
5512.	प्रमोद कुमार वैद्य राम शंकर	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3768 7-2-73	ग्राम आरू, ता० नवसारी, जिला वलसाड ।
5513.	प्रमोद राय दवे मगन लाल	आयुर्वेद विशारद बी० ई० मे०, सौराष्ट्र 1958	2252 15-3-58	कोटावा पिथि आयु० औषधालय, ता० बाबाच, जिला अमरेली ।
5514.	प्रमोद राय पाठक नटवर लाल	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3920 13-4-73	जरोला बागो, ग्राम दभोई, जिला बड़ोदा ।
5515.	प्रमोद राय रावल गुणवंत राय	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3207 26-7-71	जोशी फाली, पो० नालाबाद, जिला सुरेन्द्रनगर ।
5516.	प्रमोद राय त्रिवेदी गणपत राम	डी० एस० ए० सी० क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1782 11-8-65	आयु० औषधालय, स्टेशन रोड, पाण्ड्या भवन, अमरेली ।
5517.	प्रमोद राय त्रिवेदी वासुदेव	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6231 10-8-78	ग्राम एवं पो० पालसाना, ता० धन्धुका, जिला अहमदाबाद ।
5518.	प्रमोद राय व्यास ननलाल	डी० ए० एस० एफ० फै० आ० यू० सि० मे० बम्बई 1954	1095 2-8-54	19, सुनाहिने, 78-बी, डा. एनी बेसेन्ट रोड, बरेली, बम्बई-18 ।
5519.	प्रमोद राय चौवाटिया त्रिभुवन	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6289 20-9-78	10, भगवतपाड़ा, ग्राम गोण्डलय, जिला राजकोट ।
5520.	प्रामथेश कुमार भट्ट जयंती लाल	डी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8066 4-5-81	गोरवादा होली चकला, ग्राम कपाडबंज, जिला खेड़ा ।

1	2	3	4	5
5521.	प्राणव कुमार वैद्य सुमन भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8788 16-6-83	बी० एन० एन० अस्पताल, ग्राम ता० धेरालू जिला मेहसाणा।
5522.	प्राणव कुमार दवे पदमशंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7290 20-9-79	ए-9/4, गोदावरीनगर, 1, वासना, गोदावरी फ्लैट्स के पीछे, अहमदाबाद।
5523.	प्राणजी गोखिया मगजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3561 23-8-72	ग्राम लक्ष्मी निवास, पो० बांजानिया, धाया मोरबी, जिला राजकोट।
5524.	प्राण जीवन पटेल शिव भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6034 18-2-78	द्वारा पटेल शिव भाई काशी भाई, ग्राम सरसा, ता० आनन्द, जिला खेड़ा।
5525.	प्राण शाल मरानी पीताम्बर	बैघाचार्य नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1967	7043 21-6-79	नजदीक पुलिस स्टेशन, ग्राम पोखरन्दर, जिला जूनागढ़।
5526.	प्राण शंकर भट्ट गिरिजा शंकर	आयुर्वेद विशारद बो० इ० मे० सौराष्ट्र 1981	2317 22-3-81	राज० औषधालय, ग्राम सरसा, ता० मोटाद, जिला भावनगर।
5527.	प्राण शंकर जोशी जीवराम भाई	आयुर्वेद विशारद बो० इ० मे० सौराष्ट्र 1960	2217 6-4-81	पो० राभावा, ग्राम माधिया, धाया-कुंवर, जिला भावनगर।
5528.	प्राण शंकर पाण्ड्या जता शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3159 20-3-71	ग्राम सेन्दरवा, ता० महुधामन्दर, जिला भावनगर।
5529.	प्रार्थना विवेकी पिनाकिन	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4729 1-4-75	सैक्टर नं० 29, बी० नं० घ० 66/3, ग्राम गांधीनगर।
5530.	प्रार्थना कुमार आचार्य मगनलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7857 29-2-80	कृष्णा तालाब, ग्राम अमालसाव, ता० गणदेवी, जिला वलसाड।
5531.	प्रसन्न कुमार वैष्णव धोरू भाई	आयुर्वेद विषक नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1964	7094 7-7-79	पो० डी० वैष्णव, वैष्णव औषधालय, नजदीक पुराना बस स्टैंड, ग्राम बागरा, जिला अमरेली।
5532.	प्रशान्त पारिख रमणलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8039 10-4-81	3, प्रशान्त सोसाईटी, सरकार पटेल स्टेडियम, नवजीवन, अहमदाबाद।
5533.	प्रशान्त कुमार जामी बाल्मीक भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8258 24-12-81	ग्राम धोकवावा, ता० उना, जिला जूनागढ़।
5534.	प्रशान्त शुक्ल देव कृष्ण	डी० ए० एस० एफ० फौ० आ० यू० सि० मे० बम्बई 1946	1278 4-12-46	ग्राम सारस, ता० ओलफाड, जिला सुरत।

1	2	3	4	5
5535.	प्रकाश भाई ठाकरिया हर्षत भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3831 28-2-73	अनन्द नगर, कालोमी, म० नं० 340 ग्राम राजकोट ।
5536.	प्रकाश राम दवे पीताम्बर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3866 13-3-73	ग्राम राणासिकि, पो० सतलुकी, ता० गण्डवाल, जिला राजकोट ।
5537.	प्रकाश राम आनी नारस दास	आयुर्वेद चिकित्सक, नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1947	6991 7-5-79	सविता सदन, भट्ट अम्बाली, ग्राम जामनगर ।
5538.	प्रतापराय जोशी निम्मत स्वस	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7766 16-7-80	नगर शेरी, भानवंतराय, ग्राम गोण्डाज, जिला राजकोट ।
5539.	प्रतापराय मकवाना विठ्ठल दास	डी० एस० ए० सी० क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1963	1406 14-2-84	ताहातेखर प्लॉट, महेन्दुभुवन, ग्राम भाव नगर ।
5540.	प्रतापराय रावल शांतिनाथ	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० यू० सि० मे० बम्बई 1960	1773 23-7-85	बुदा जाल्हे स्टेशन रोड, ग्राम राजपुर, ता० वाहम्युका, जिला अहमदाबाद ।
5541.	प्रताप राय रावल जयतीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4843 14-5-75	रावल शेरी, ग्राम धानगट, ता० चोटियाला, जिला सुरेन्द्रनगर ।
5542.	प्रतापराय लखारी विठ्ठलदास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	6000 27-12-77	ग्राम भण्डारिया, बाया सरघार, जिला राजकोट ।
5543.	प्रतापराय मेहता ममसुखलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4681 24-3-75	शेरी पिथ की मोहल्ला, मानियार शेरी, ग्राम भावनगर ।
5544.	प्रतापराय सगस्की बाबूलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8406 5-4-82	गोकूल निवास, एम० डी० एस० कालेज के पीछे, कावल्याबाड, जूनागढ़ ।
5545.	प्रतापसिंह सोलंकी उम्रेश सिंह	डी० ए० एस० एफ० फै० आ० यू० सि० मे० बम्बई 1952	1325 18-3-52	मेन रोड, ग्राम ओलपाड, जिला सुरत ।
5546.	प्रतिभा मोड मुकेश	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8595 3-11-82	डॉर एम० आर० मोड, गुण्डी फालिया, ग्राम मुन्नाकण्ड-390421 ।
5547.	प्रतिभा अग्निहोत्री जयशंकरदास	आयुर्वेद चिकित्सक नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1973	6838 31-3-79	{1/5, मुनी, अधिकारी फ्लैट, पुरानी धोर बाजार, कंकारिया, अहमदाबाद ।
5548.	प्रतिभा दवे मोहन लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4469 29-8-74	धेला रामजी की मन्दिर, नजदीक भावजी राज कन्याशाला, ग्राम राजकोट ।

1	2	3	4	5
5549.	प्रतिभा जैक जयंत	बी० एस० ए० एम० क० शु० आयु० कोर्स, महाराष्ट्र 1974	6176 6-6-78	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम जैसावावा, ता० बहोद, जिला पंचमहल ।
5550.	प्रतिभा शुक्ल जयंतीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6387 27-10-78	292/93, वासन मानेर, खावाकी, नावीग्राम दुरिसपुर, अहमदाबाद ।
5551.	प्रतिभा सूबेवार प्रमोद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	6452 28-12-78	ए० के० जमाल भवन, आयु० छात्रों का छात्रावास, नं० 2, अस्पताल रोड, जामनगर
5552.	प्रतिभा म्यास धीरजलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3907 3-4-73	द्वारा हरिजिन मिल कं०, ग्राम बटवा, ता० महाबादर, जिला जूनागढ़ ।
5553.	प्रतिभा बेन राठोड फतेह सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8381 24-3-82	बोकव फालिया ग्राम एवं पो० रण्डर, ता० चौरयासी, जिला सूरत ।
5554.	प्रतिभा वेंकी जडेजा महेन्द्र सिंह	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9502 12-5-86	द्वारा डा० महेन्द्रसिंह जी० आर० जडेजा, "स्नेहसदत" ग्राम वीरपुर (जालाराम), ता० जेतपुर, जिला राजकोट ।
5555.	प्रतिभावेकी जानी जयंतीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6126 5-4-78	मायरेहम्या काशेज रोड, गिरिराज कालोनी, नावियाड, जिला खेडा ।
5556.	प्रतिभा बलवंतराम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	6528 3-2-70	ग्राम शिमलगाम, बाया भारोशी, बाजार,— जिला बलसाड ।
5557.	प्रतिभा भट्ट वलपतराम	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1963	1413 24-2-64	मणि निवास, 2135, अताभाई रोड, ग्राम भावनगर ।
5558.	प्रतिभा देसाई प्रगट शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3035 25-8-70	द्वारा लालभाई बी० देसाई, नगरवाडा, ग्राम एवं ता० महुवा, जिला भावनगर ।
5559.	प्रतिभा द्विवेदी [मनशंकर	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8955 12-3-84	रेक्टर का बंगला, डी० केबिन कासेज, ग्राम जामनगर,—360008 ।
5560.	प्रतिभा कपाडिया हीरा लाल	बी० एस० ए० एम० बम्बई वि० वि० 1979	9491 14-3-86	278, जाबजी दावाजी रोड, 17वीं मंजिल, ब्लॉक नं० 67, भाटिया अस्पताल के सामने, बम्बई—400067 ।
5561.	प्रतिभा मेहता जयंती लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3244 13-9-71	द्वारा डा० एम० एन० जोशी, 22 गणेश सोसायटी, बाहरी शाहपुर अहमदाबाद ।
5562.	प्रतिभा मेहता अम्पकलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8007 17-3-81	5, गिरिकुंज, यमुना बाग, चुस्ता बाजार, ता० चौरयासी, सूरत
5563.	प्रतिभा शाह नागिनबास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4661 17-3-75	हरियासा, प्लॉट नं० 96, माकवादी, भावनगर

1	2	3	4	5
5564.	प्रतिमाबेन शुक्ल बापासाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8374 17-3-82	सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय, ग्राम एवं पो० खेरवा ता० एवं जिला मेहसाणा
5565.	प्रवीण टंक सुलसीबास	बी० ए० एम० एस० बम्बई वि० वि० 1981	9071 15-6-84	द्वारा डा० टंक टी० के०, नजदीक कामा- दिया की कुवा ग्राम धोराजी, जिला राजकोट
5566.	प्रवीण त्रिवेदी नटवरलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6329 4-10-78	“लहरीकुंज”, 13, सदाशिवनगर, रामिप' अहमदाबाद
5567.	प्रवीण बेसाई मोती भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4970 15-10-75	गुरुकुला, बड़ौदा बैंक कालोमी, मिळामपुरा ग्राम बड़ौदा
5568.	प्रवीणा पटेल भरत कुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9611 10-11-86	ग्राम कामाली, ता० सिद्धापुर, सरदार पोल, जिला मेहसाणा
5569.	प्रवीणा रावल वासुदेव	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6432 2-12-78	322/बी, रेलवे कालोमी, रेलवे पुरानी श्रीधरालय के पीछे, ग्राम मेहसाणा
5570.	प्रवीणा उपाध्याय मणिलाल	बी० एस० ए० सी० क० शु० आयु० कोर्स, महाराष्ट्र 1970	8067 4-5-81	जितेन्द्र निवास, रामजी मन्दिर के सामने सोनीबावो ग्राम एवं पो० मेवासा, जिला साबरकण्ठ
5571.	प्रवीणा बेन व्यास मानेकलाल	डी० एस० ए० सी० क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2238 24-10-66	18, श्रीनाथ कृपा सोसायटी, बैरवनाथ रोड, मणिनगर स्वामी विवेकानन्द हाई स्कूल, अहमदाबाद
5572.	प्रवीण भाई पटेल चतुर्भाई	डी० एस० ए० सी० क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1963	1357 21-11-63	ग्राम सेजाकुवा, ता० पावरा, जिला बड़ौदा
5573.	प्रवीण भाई पटेल नरसिंह भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5845 30-12-76	ग्राम पीपालता, ता० नादियाड, जिला खेड़ा
5574.	प्रवीण भाई पटेल अन्तोळ भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5793 30-4-77	ग्राम माण्डवा ता० सिनोर जिला बड़ौदा
5575.	प्रवीण भाई पटेल हर्षद भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7436 12-12-79	5/बी० बल्लभनगर सोसायटी 4थी मन्जिल करोली बाग, ग्राम बड़ौदा
5576.	प्रवीणभाई पटेल राजाजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8692 3-3-83	सरदार पोल, ग्राम कलसारा ता० वासरा, जिला खेड़ा

1	2	3	4	5
5577.	प्रवीण भाई पटेल भक्तिभाई	बी०ए०एम०एस० गुजरात आयु० वि०वि० 1984	9394 23-9-85	नरसिंहपुरा वास ग्राम एवं पी० आ० नारदीपुर-382735 ता० कलसाल जिला मेहसाणा
5578.	प्रवीणभाई बाराछिया चन्द्रसिंह	बी०ए०एम०एस० गुजरात आयु० वि०वि० 1983	8975 12-3-84	ग्राम एवं पी० आ० कंटवा वाया कोसाम्बा ता०मंगरोल जिला सुरत
5579.	प्रवीणचन्द्र आर्य धानजीभाई	डी०एस०ए०सी० क०शु०आयु० कोर्स गुजरात 1966	2495 24-5-67	ज्योति मेशन कटारवाड, नमपुरा सुरत-1
5580.	प्रवीणचन्द्र भट्ट सन्मेशराम	ए०बी०बी० ति०म०विद्यापीठ पूना 1942	840 20-10-44	ग्राम संचेली ता० थासरा जिला खेडा
5581.	प्रवीण चन्द्र भट्ट सजलाल	डी०एस०ए०सी० क०शु०आयु० कोर्स गुजरात 1965	1774 23-7-65	रूपापारी गेट मणियार स्ट्रीट, ग्राम- भावनगर
5582.	प्रवीणचन्द्र भट्ट देवशंकर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1973	4432 28-7-74	डा० जी०पी० भट्ट, आचार्य सर्वोदय स्कूल, ग्राम जेथाली ता० बाला- सिनोर, जिला खेडा
5583.	प्रवीण चन्द्र बार अनजीवन भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1981	8805 5-7-83	जोरावरपाडा ग्राम जुडा ता० सिम्बाही जिला सुरेन्द्रनगर
5584.	प्रवीणचन्द्र चोदालिया मूलचन्द भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1970	3119 12-2-71	महावीर स्टेनरी स्टोर्स नजदीक बस स्टेण्ड ग्राम राजुवा गहू जिला- अमरेली
5585.	प्रवीणचन्द्र सवे मफसलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1975	5484 11-8-76	ग्राम वरसोदा ता० बीजापुर जिला- मेहसाणा
5586.	प्रवीण चन्द्र बोधी जेठालाल	वेद्य विशारद नि०भा०आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1965	6707 [9-3-79	पटेल चौक ग्राम बन्धाली जिला- जुनागढ़
5587.	प्रवीण चन्द्र जानी रत्नलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1971	3463 303-72	ग्राम भिलाडी ता० विस्वा, जिला- वानसकंट
5588.	प्रवीण चन्द्र जानी मोहिनिलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1973	4500 9-9-74	ग्राम प्रतापनगर ता० बीजापुर जिला- मेहसाणा
5589.	प्रवीण चन्द्र जोशी ध्याकजी	एल०ए०एम० यू० पी० आयु० महाविद्यालय, पाटन बडोदा 1941	239 3-11-41	भाया खावाकी ग्राम करमसाव जिला- खेडा
5590.	प्रवीण चन्द्र जोशी भानुशंकर	डी०एस०ए०सी० क०शु०आयु० कोर्स गुजरात 1965	1848 23-11-63	बोरवाड, ग्राम चिहलस जिला अमरेली

1	2	3	4	5
5591.	प्रवीणचन्द्र जीशी प्रभु लाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1975	5239 5-3-76	ग्राम जाम बन्धाली, जिला जासनगर
5592.	प्रवीणचन्द्र कल्नीजिया मंडंग	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1975	5326 2-4-76	ग्राम भट्ट सिमारोली, वाया केशाद, जिला जूनागढ़
5593.	प्रवीण चन्द्र मेहता बाह्या लाल	आयुर्वेद भिषक नि०भा०आ० विद्यापीठ दिल्ली 1975	6582 16-2-79	कल्याण सोसाइटी मेहता सदन, ग्राम राजकोट
5594.	प्रवीण चन्द्र मेहता अम्बाराम	आयुर्वेद भिषक नि०भा०आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1960	6917 16-4-79	द्वारा हरिवदन, एस०, जोशी-अधेश-श्री त्रिकम कुटीर नाथी श्री, जामनगर
5595.	प्रवीणचन्द्र मोटेरिया अर्जुन भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1969	2915 4-3-69	मोती बाजार, ग्राम मोण्डल, जिला राजकोट
5596.	प्रवीणचन्द्र नालानी जयतीलाल	आयुर्वेद भिषक नि०भा०आ० विद्यापीठ, दिल्ली	7282 15-9-79	नेमीबेन हाउस सुतार-मसी-अम्बाराम रोड, ग्राम सुरेन्द्र नगर
5597.	प्रवीण चन्द्र निमावत दिलसुख राम	वैद्य विभागाध्यक्ष नि०भा०आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1965	7185 9-8-79	द्वारा मावाजी मरिभाई पटेल, जिन मिल कं०, ग्राम असुर, जिला जूनागढ़
5598.	प्रवीणचन्द्र निमावत बाबूभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1978	7925 12-12-80	ग्राम एवं पो० गरमाली (जियानी) ता० घारी वाया भाखना जिला- अमरेली
5599.	प्रवीणचन्द्र पीजा प्रजसाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1972	3810 21-2-73	बेदीपाड़ा घरमजीवी सोसाइटी चामबुधा, निवास ग्राम राजकोट
5600.	प्रवीण चन्द्र पाण्ड्या ओछावल	डी०एस०ए०सी० क०गु०आयु० कोर्स गुजरात 1965	1724 15-6-65	एच०एच० श्रीरित, ग्राम प्रास्टिज, जिला साबरकण्ठ
5601.	प्रवीणचन्द्र पारेख लक्ष्मीदास	आयुर्वेद भिषक नि०भा०आ० विद्यापीठ दिल्ली 1972	6420 16-4-79	मालीवाड़ा रोड सलतवाड़ा ग्राम जूनागढ़
5602.	प्रवीणचन्द्र पटेल गोविन्द भाई	बी०एस०एम०एस० गुजरात वि०वि० 1968	2673 18-5-68	29/30 स्नेह स्मृति सोसाइटी एम्बर- रोड सूरत-9
5603.	प्रवीणचन्द्र पाठक पुरुषोत्तम दास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1973	4598 1-1-75	ग्राम जारोड ता० वाघोबिया जिला बड़ौदा
5604.	प्रवीण चन्द्र प्रजापति पुरुषोत्तम दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1982	8845 19-9-83	ग्राम एवं पो० मोदासर ता० सनद जिला अहमदाबाद-382220
5606.	प्रवीणचन्द्र पुरोहित रविशंकर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1972	4127 26-11-73	ग्राम बोडल ता० बोराव जिला बोरा

1	2	3	4	5
5606.	प्रवीणचन्द्र पुरोहित शामाजी	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1974	4926 4-8-75	पुरोहित क्लीनिक सुखनाथ चौक ग्राम जूनागढ़
5607.	प्रवीणचन्द्र राजाजीशिवाला जमनाबास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1980	8350 11-3-82	द्वारा डा० जे० पी० बेंच नवापुरा पटनानाबास सूरत
5608.	प्रवीणचन्द्र राज्यगुरु पुरुषोत्तम बास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1977	6376 15-1-79	द्वारा बी० आर० राज्यगुरु ग्राम एवं पी० वधंवास शहर जिला- सुरेन्द्रनगर
5609.	प्रवीणचन्द्र राठी जयन्ती लाल	बी०ए०एम०एस० गुजरात आयु० वि०वि० 1983	9045 10-5-84	द्वारा राठी जयन्ती लाल जीवाराज भखानशा रोड, सतवारा रोड ग्राम उपलेटा जिला राजकोट-350490
5610.	प्रवीणचन्द्र शाह जमनाबास	जी०एफ०ए०एम० फ०आ०यू०सि०मे० गुजरात 1962	1189 4-6-62	वासवाबाबो ग्राम पाटन जिला मेहसाना
5611.	प्रवीणचन्द्र शाह मुल्कीभार्ई	एम०एस०ए० एस० गुजरात आयु० वि०वि० 1973	4166 5-2-74	ग्राम कोठारा ता० अतवावासा जिला- कच्छ
5612.	प्रवीणचन्द्र त्रिवेदी पंजालाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1974	5142 30-1-76	ग्राम एवं पी० समाजी ता० कन्नोड, जिला पंचसहल
5613.	प्रवीणचन्द्र त्रिवेदी बाबूलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1975	5823 14-6-77	ग्राम पंचपिपला गायत्री औषधालय बाया पल्डीटाना जिला भावनगर
5614.	प्रवीणचन्द्र त्रिवेदी जेठालाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1981	8727 19-4-83	द्वारा डा० जी० जे० त्रिवेदी, आनन्द क्लीनिक सामने पन्जारा पोल बोटद जिला भावनगर
5615.	प्रवीणचन्द्र उपाध्याय मूलसंकर	बैद्य विभागाद, सि०भा०आ० विद्यापीठ दिल्ली 1964]	7408 29-11-79]	ग्राम टाना ता० शिहोर जिला भावनगर
5616.	प्रवीण चन्द्र वैद्य गणपति शंकर	डी० एस० ए० सी० फ० शु० आय० कोर्स, गुजरात 1963	1045 4-6-63	सोनी फालिया, मेन रोड, सूरत
5617.	प्रवीण चन्द्र वैद्य जेठा लाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात वि० वि०] 1965	1905 31-12-65	सलबतपुरा मेन रोड, तबवाली मस्जिद के सामने, सूरत
5618.	प्रवीण चन्द्र व्यास दिमानीशंकर	डी० ए० एस० एफ० फ० आ० यू० सि० मे०, बम्बई] 1948	1096 30-9-48	व्यास फालिया, ग्राम बारोवोली, जिला सूरत
5619.	प्रवीण चन्द्र व्यास मोतीराम	डी० ए० एस० एफ० फ० आ० यू० सि० मे० बम्बई 1955	1097 1-8-55	बाजार गली, ग्राम सरखेज, ता० मिठी, जिला अहमदाबाद

1	2	3	4	5
5620.	प्रवीण चन्द्र व्यास पोपट लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4296 27-3-74	ग्राम गोजूरिया, ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा ।
5621.	प्रवीण चन्द्र बालकृष्ण मेहता बालकृष्ण	डी० ए० एस० एफ० फै० आ० यू० सि० मे० बम्बई 1955	913 1-7-55	18, प्रतिमा नगर, सोसायटी, जूना रेलवे क्रासिंग, मणिनगर, अहमदाबाद ।
5622.	प्रवीण गिरि गोस्वामी भद्रमण गिरि	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4523 23-9-74	ग्राम समाधियाला, वाया सोनगढ़, जिला भावनगर ।
5623.	प्रवीण कुमार अम्बालाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5882 20-8-77	76, दूधेश्वरनगर, सोसायटी. अजवा रोड, बड़ौदा ।
5624.	प्रवीण कुमार भण्डारी मावाजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8388 24-3-82	ग्राम पिधादिया, वाया जामवंधाली, ता० कलावा, जिला जामनगर ।
5625.	प्रवीण कुमार मट्ट जमना दास	आयुर्वेद उरुतम श्र० ब० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1976	6863 2-4-78	3, कंचन नगर, नजदीक चाबला सोसायटी, दक्षिणी क्रासिंग, मणिनगर, अहमदाबाद ।
5626.	प्रवीण कुमार ब्रह्माकससिय बाबीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6163 16-5-78	ग्राम रुयालाल, ता० कपावडंज, जिला खेड़ा
5627.	प्रवीण कुमार देसाई जकशी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8215 2-11-81	ग्राम महीता, ता० नादिया, जिला खेड़ा
5628.	प्रवीण कुमार घोषी जोतराम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4089 10-10-73	नई रेलवे कालोनी, म० नं० 484/2, रेलवे अस्पताल के पीछे, साबरमती अहमदाबाद ।
5629.	प्रवीण कुमार घोराजिया लावाजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8004 17-3-81	सत्यम अपार्टमेंट, राई चण्ड रोड, बेभसर चाल, ग्राम नवासारी, जिला पलसाद ।
5630.	प्रणव कुमार वीरभक्त महेन्द्र कुमार	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	9162 17-10-84	शास्त्री बंगला, एरोड्रोम रोड, ग्राम अहमदाबाद ।
5631.	प्रवीण कुमार पाण्ड्या प्राण लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4532 1-10-74	ग्राम पीपालब (भाशापुरी) ता० पेठलाद, जिला खेड़ा ।
5632.	प्रवीण कुमार पंचोली भगवान जी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	6060 8-3-78	जीवाराज पाक, ग्राम भकराबा, ता० मिटी, जिला अहमदाबाद
5633.	प्रवीण कुमार पाण्ड्या गोरधन दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	6345 4-10-78	कृष्णा कृपा, 15, गोपालनगर, ग्राम राजकोट -

1	2	3	4	5
5634.	प्रवीण कुमार पाण्ड्या केशवलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6439 15-12-78	अश्विन कुमार, विसदराज, मोबारो रोड, ग्राम सूरत ।
5635.	प्रवीण कुमार पटेल पुरुषोत्तम दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3560 23-8-72	प्रवीण कुंज, नजदीक जैन देरासर, ग्राम देहगाम, जिला अहमदाबाद
5636.	प्रवीण कुमार पटेल कालिदास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5983 30-11-77	1492/1, मोती वासनाबेरी, सरसपुर, अहमदाबाद
5637.	प्रवीण कुमार पटेल चन्डूलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7426 12-12-79	ग्राम बानाज, पो० वामर, ता० वाभोई, बाया कर्जम, जिला बड़ौदा
5638.	प्रवीण कुमार पटेल धुला भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8076 7-5-81	ग्राम एवं पो० पीपलता, ता० नादियाद, जिला खेड़ा
5639.	प्रवीण कुमार पटेल हरि भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8520 27-8-82	91, शक्तिविजय सोसायटी, वाराछ रोड, सूरत-6
5640.	प्रवीण कुमार रावल धिनलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4250 11-3-74	2/258, मंगल कुटीर, शुक्ला गली, ग्राम बऊमासिया, जिला जामनगर
5641.	प्रवीण कुमार शुक्ला लाम शंकर	बी० ए० एस० एफ० फै० आ० यू० सि० मै० गुजरात 1953	1828 2-2-53	वासाई (वधला) ता० बीजापुर
5642.	प्रवीण कुमार सोलंकी विठ्ठलदास	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8990 12-3-84	पी-6, विक्रम अपार्टमेंट भव्यस क्रासिंग के पीछे, अहमदाबाद-15
5643.	प्रवीण कुमार सुघर रंछोवलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6813 21-2-79	227, रायपुर पासोहालाकी, की पोल, अहमदाबाद
5644.	प्रवीण कुमार टोक धारा सिंह भाई	बी० ए० एम० एस० रविशंकर वि० वि० 1975	6510 1-2-79	द्वारा कालन्धी मेवा टोक ग्राम शिनुषा, ता० अन्जर, जिला कच्छ
5645.	प्रवीण कुमार त्रिवेदी लीलाधर	बैचाचार्य नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1965	7443 21-12-79	भाटिया बाजार, ग्राम पोरबंदर, जिला जूनागढ़
5646.	प्रवीण कुमार त्रिवेदी धीरजलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7939 17-1-81	2, आदर्श सोसायटी, पैलेस रोड, ग्राम पालिटाना, जिला भावनगर
5647.	प्रवीण कुमार व्यास गंगाराम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7548 22-2-80	दानोदारिया वास, नाथाजी शेरी, ग्राम भिमोज ता० बानमा, जिला मेहसाना

1	2	3	4	5
5648.	प्रवीण पारी गोसाई अमृतपारी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	5294 23-3-78	ग्राम अमरापुर (शेटा) ता० जामजोगपुर, जिला जामनगर
5649.	प्रवीण सिंह बोबाना बबतसिंह	बी० ए० एम० एस० गुजरात वि० वि० 1966	2172 21-9-66	खारावास, बीरभाई गेट, ग्राम पालनपुर, जिला बानासकंठ
5650.	प्रवीण सिंह फोहिल मोतीलाल	आयुर्वेद मध्यमा श्र० व० परीक्षा समिति बड़ौदा 1972	6473 1-2-79	50, भमरकुंज सोसायटी, बोधोद रोड, सारोला वाडी, ग्राम सूरत
5651.	प्रवीण सिंह जडेजा नन्दा	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3125 17-2-71	ग्राम कुंतासी, ता० भासिया, जिला राजकोट
5652.	प्रवीण सिंह खाराधिया बाधर सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7349 29-10-79	ग्राम बानासोली, ता० वालिया, जिला बरोच
5653.	प्रवीण सिंह परमार छजसिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5864 30-8-77	ग्राम उना (मेसमान) बाया उधामा जिला सूरत
5654.	प्रवीण सिंह सोलंकी हरि सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5951 26-10-77	ग्राम बाधोविया, पाठक फालिया, जिला बड़ौदा
5655.	प्रेमा पाटिल बलिराम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4434 22-7-74	दक्षिणी सोसायटी, ब्लॉक नं० 8, मणिनगर अहमदाबाद
5656.	प्रेमाजी भाई सपावाधिया शंकर भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8619 13-1-83	ग्राम धानद, ता० लखतार, जिला सुरेन्द्रनगर
5657.	प्रेमाजी भाई सिनोजिया छगन भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	9125 23-8-84	ग्राम मानगड़ पो० अजित गड़, बाया हुलवाध, जिला सुरेन्द्रनगर
5658.	प्रेमचन्द्र शर्मा नारायण दत्त	वैद्य विशारद नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1965	6840 31-3-79	कृष्णानगर हाउसिंग कालोनी, बी० नं० 20, कमरा नं० 236, सैजपुर, बोधा, अहमदाबाद
5659.	प्रेमदास जी महंत माधव दास जी	आयुर्वेद मध्यमा नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1960	8098 20-6-81	कबीर आयु० औषधालय, कुम्हार सेरी, ग्राम मोरबी, जिला राजकोट
5660.	प्रेमेति बेन नाकुस अभय सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8536 14-9-82	राजपुर फालिया, ग्राम एष पो० जवाधिया, बाया अंकलभमार, जिला बरोच
5661.	प्रमिला रावत नालाबन्त सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5537 23-9-76	बी/14/114, राजकीय जी० कालोनी, राजपुर, गोमतीपुर, अहमदाबाद

1	2	3	4	5
5662.	प्रमिला बेन बेहमभट्ट रघुनाथ भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5330 3-4-76	ग्राम जालसन, ता० खम्भट, जिला खेड़ा
5663.	प्रेमजी देसाई शिवलाल भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5598 17-11-76	ग्राम बंकावा, ता० मोरबी, जिला राजकोट
5664.	प्रेमजी कपाडिया रामजी भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9565 23-9-86	ग्राम एवं पो० कोटादा, पिठादा, ता० बाबरा जिला अमरेली
5665.	प्रेमजी भाई चौधरी धेमर भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3265 13-10-71	ग्राम दाघियल, ता० विसानगर, जिला मेहसाना
5666.	प्रेमजीत कुमार असवार मेवाजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5295 29-3-76	ग्राम पावना, ता० लालपुर, जिला जामनगर
5667.	प्रेमलता गुप्ता हरीश चन्द्र	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4859 28-5-75	राजपुर टोलनाका, सामने नागरी मिल, जगदीश पान घर, ग्राम अहमदाबाद
5668.	प्रेम शंकर जोशी रंछोद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8833 1-9-83	ग्राम जालंधर, (गीर) बायां मालिया-हासिना जिला जूनागढ़
5669.	प्रेरणा बेन पटेल छगन लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8322 10-2-82	सेक्टर नं० 19, ब्लॉक नं० 230/3, जी-1 गांधीनगर
5670.	पूति बेलानी रविचन्द्र भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9274 2-5-85	14/वीरभद्रनगर सोसायटी, सामने नीलमबाग, भावनगर-364002
5671.	पूति दवे रामराय	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9532 28-7-86	1926, श्री अरविन्दोर, इपानी के पीछे, ग्राम भावनगर-364001
5672.	पूति देसाई ममू भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9603 10-11-86	बी/4, जीवन प्रभा, कदमपल्ली रोड, नान- पाड़ा, ग्राम सूरत-395001
5673.	पूति नानावती सुखवंतराय	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4294 27-3-74	द्वारा सुखवंतराय एवं नानावती, अम्बाई कालिया, नागरवादा, ग्राम जूनागढ़
5674.	पूति नायक हरीश भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7594 14-3-80	16/20 अष्टापक निवास, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद
5675.	प्रीतिमा ठक्कर दिनकर राय	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3391 21-2-72	19, नायकनगर, नजदीक सरदार पटेल क्रॉसिंग अहमदाबाद

1	2	3	4	5
5676.	श्रीति प्रिया उपाध्याय प्रवीण चन्द्र	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8454 15-6-82	काला नोनोयन, बकीलवादी, सामने एल० जी० अस्पताल, मणिनगर, अहमदाबाद
5677.	प्रिय वदव साहू शान्तिनाथ	बी० ए० एस० एफ० फै० आ० यू० सि० मे० बम्बई 1957	2470 1-8-57	जोगीदास विट्ठल पोत, रावापुरा, ग्राम बड़ोवा
5678.	प्रिय बाला गांधी महेन्द्र	एम० एफ० ए० एम० फै० आ० यू० सि० मे० बम्बई 1970	7928 29-12-80	चौकी भेरी, मानपुरा, ग्राम सूरत
5679.	प्रियदर्शना भवसार जसवंत लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3502 4-5-72	मोती छिवाव, भद्र कचहरी के सामने, ग्राम बड़ोवा-6
5680.	प्रियकांत चम्पानेती मणि लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4698 4-10-75	ग्राम बजना ता० वासदा जिला सुरेंद्र- नगर
5681.	प्रियवदन वैद्य हरिलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7669 10-4-80	हन्वापुरा, अन्बावादी, कालीपुल, मेन रोड, बिलेश्वर माहा देव के सामने, ग्राम सूरत
5682.	प्रियबन्दाबेन पाण्ड्या नवनीतलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4286 25-3-74	नवनीतलाल सी० पाण्ड्या, तखवीक पोस्ट आफिस, ग्राम बोरियावी, ता० आनन्द जिला खेड़ा
5683.	प्रमिला पाटिल राजभान	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7743 6-6-80	द्वारा त्रिजय पी पाटिल, प्रतापनगर, पुलिस क्वार्टर्स ए० केन्द्र बी० नं० 324, ग्राम बड़ोवा
5684.	प्रेमो हृद पाटीदार पंजजी	बी० ए० एम० एस० विक्रम वि० वि० 1978	7056 21-6-79	ग्राम डोगरगाव, ता० एवं जिला खेरोम, म० प्र०
5685.	पूजा मनानी हसमुख भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7753 3-7-80	रामनगर, भगवती कृपा, ग्राम राजकोट
5686.	पुष्पराज रामचन्द्र	बी० ए० एम० एस० वि० बी० आ० यू० सि० मे० महाराष्ट्र 1967	2863 12-12-69	खानखारीपुरा, ग्राम एवं ता० तारलू, जिला उज्जैन (म० प्र०)
5687.	पूनागागेरा श्रीकृ	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4111 9-11-73	ग्राम लखावादर, बाया सुनिधर, ता० कुकाव, जिला अमरेली ।
5688.	पूनाभाई लखानी नागजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6983 7-5-79	ग्राम जूता रतनपार, ता० बल्लभीपुर, जिला भावनगर ।
5689.	पूनाभाई बाबोदारिया त्रागजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9145 10-8-84	द्वारा डा० पी० पी० बाबोदारिया ओपि- यारनगर रोड, वाराण रोड नवजीवन क्लीनिक, भट्ट बादी के सामने, ग्राम सूरत

1	2	3	4	5
5690.	पूना भाई पटेल जमनाबास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1978	6089 21-3-78	ग्राम एवं पो० कासोवी, ता० बासासिनोर जिला खेडा ।
5691.	पूना भाई बालम्ब सता भाई	डी०एस०ए०सी० क०शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1962	1013 12-7-62	लाल गेट, ता० भागम्ब, जिला खेडा ।
5692.	पुनिमाकुमार जोशी चिमनलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1976	6091 21-3-78	ग्राम एवं पो० होण्ड, ता० बिखाली, जिला वलसाद ।
5693.	पूनीता शुक्ल शान्तीलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1979	7866 16-1-80	कमल भवन, जगमल, चौक, ग्राम जूनागड़
5694.	पंजा भाई परमार सोमन भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1978	7310 20-9-79	ग्राम लोदरा, ता० वीजापुर, जिला मेहसाना
5695.	पंजा भाई पटेल प्रणि जी भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1971	3693 23-11-72	ग्राम कंकरोल, ता० हिम्मतनगर जिला साबरकंठा ।
5696.	पंजा भाई पटेल रतनलाल	आयुर्वेद मध्यमा अ०ध० परीक्षा समिति, बड़ोदा 1978	7128 18-7-79	ग्राम कुवास, ता० सिनोर, जिला बड़ोदा ।
5697.	पंजा भाई पटेल मानक भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1979	7901 14-11-80	ग्राम एवं पो० हालिसा ता० दाहेगाम, जिला अहमदाबाद ।
5698.	पंजा भाई पटेल विट्ठल भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1980	8164 10-9-81	ग्राम अकोवारा, पो० अनमोडा, ता० हिम्मत नगर, जिला साबरकंठा ।
5699.	पंजाजी बाबेलाल सोनधाज	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1970	3263 12-10-71	ग्राम बिहार, ता० वीजापुर, जिला मेहसाना
5700.	पंजालाल सावसानी नरशी	आयुर्वेद भिषक नि०भा०आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1966	7281 15-9-79	द्वारा खिमाजी एम० आलाबादिया घर, बाहरपाडा, ग्राम मानाबाद, जिला जूनागड़
5701.	पुनर्वासू अग्निहोत्री गिरीश कांत	आयुर्वेद मध्यमा अ०ध० परीक्षा समिति, बड़ोदा 1979	9033 16-4-84	शंकर फार्मोसी अम्बाली पोल रायपुर, अहमदाबाद ।
5702.	पुणिमा आचार्य लक्ष्मी चन्द	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1976	6087 21-3-78	195/3. बाईबाली एस्टेट, अम्बर कालूपुर रेलवे पुल, अहमदाबाद ।
5703.	पुणिमा दामानिया जयंतीलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1971	3505 5-5-72	बाला एच० आयु० कालेज, ग्राम लोदरा, ता० वीजापुर जिला मेहसाना ।

1	2	3	4	5
5704.	पूणिमा होप इमे नयूयल	एम०डी० (आयु०) गुजरात आयु० वि०वि० 1977	6019 2-2-78	श्री जी० पार्क, नजदीक डा० ठाकुर नर्सि होम मणिनगर, अहमदाबाद ।
5705.	पूणिमा मावेद जितेन्द्र	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1978	7913 3-12-80	6, नई फलपतरू सोसाइटी, नवजीवन, अहमदाबाद ।
5706.	पूणिमा मेहता विलीपकुमार	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1974	4883 12-6-75	तिरुली भाई अपार्टमेंट ब्लॉक 26, 6थी मन्जिल वफतरी रोड, मालाद (पूर्वी) बम्बई-64
5707.	पूणिमा बेन पटेल अम्बालाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1973	4311 2-4-74	लिमादो चौक, ग्राम उत्तरसोन्दा, ता० नावियाड, जिला खेड़ा ।
5708.	पुरूषोत्तम अभानी शम्भू	आयुर्वेद भिषक नि०भा०आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1964	7143 24-7-79	ग्राम मोथा, पो० संखेडा, ता० उमा, जिला जूनागढ़ ।
5709.	पुरूषोत्तम अण्णावत आनन्द राम	आयुर्वेद भिषक नि०भा०आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1962	7959 3-2-81	राणावक, चौक ग्राम जूनागढ़ ।
5710.	पुरूषोत्तम भादजा जीवराज	आयुर्वेद भिषक नि०भा०आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1962	7095 10-7-79	ग्राम खाद, पिपली ता० मन्डई, जिला जूनागढ़ ।
5711.	पुरूषोत्तम चावदा मीमजी	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1971	3651 11-10-72	उत्तरी भण्डार रोड, वीरवी, ग्रामपोरबन्द जिला जूनागढ़ ।
5712.	पुरूषोत्तम हरवानी फुल्लामन	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1981	8611 28-12-82	1, मुरली अपार्टमेंट, धावाज, नजदीकर शिवाजी मन्दिर, अहमदाबाद ।
5713.	पुरूषोत्तम जानी हेमराज	आयुर्वेद भिषक नि०भा०आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1958	7170 3-8-79	श्रवण कानूभाई का घर, माखा विद्यालय केर पीछे, ग्राम सावरकुण्डला, जिला भावनगर ।
5714.	पुरूषोत्तम जोशी नत्थालाल	आयुर्वेदाचार्य धन्वन्तरि आयुर्वेद एवं यूनानी लि० का०, दिल्ली 1941	2708 8-3-44	हन्साभाई पटवर्धन का घर, मीरावात टेकारा नवा बाजार, बड़ीवा ।
5715.	पुरूषोत्तम कपाडिया उजार्मसिंह भाई	आयुर्वेद मध्यमा श्र०व० परीक्षा समिति, बड़ीवा 1974	7133 19-7-79	8-ए/86, कृष्णानगर, नरीदा रोड, सैजपुर बोधा, अहमदाबाद ।
5716.	पुरूषोत्तम मिस्त्री प्राणजी भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1964	8216 2-11-81	9/740 अमालीराम नाका, गुलाब प्रेम माल, ग्राम सूरत ।
5717.	पुरूषोत्तम निम्बाफां बाबू	आयुर्वेद भिषक नि०भा०आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1952	7475 2-1-80	श्री धन्वन्तरि आंख एवं दांत का निदान केन्द्र, ग्राम भिनमाल, जिला जालोर (राजस्थान) ।

1	2	3	4	5
5718.	पुरुषोत्तम पटेल देवीदास	डी.एस.ए.सी. कं.मु.आयु. कोर्स, महाराष्ट्र 1957	571 1-7-58	ग्राम एवं ता. निगार, जिला मुरत ।
5719.	पुरुषोत्तम पटेल केशवलाल	ई.आ.आ. वि.भा.आ. विद्यापीठ, दिल्ली 1962	6650 28-2-79	214, प्रदमा पोल, बादिगाम, बादिगाम, दरियापुर अहमदाबाद ।
5720.	पुरुषोत्तम पाटोलिया गोकलदास	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1978	7668 10-4-80	ग्राम छावावादी, ता. मेसन, जिला जूनागढ़
5721.	पुरुषोत्तम रावल बाललाल	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1971	3563 29-8-72	ग्राम लावानाज, ता. एवं ग्राम एवं जिला मेहसाना ।
5722.	पुरुषोत्तम वैष्णव प्रभुदास	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1970	3294 1-12-71	ग्राम रामपुरा, बाधा जोराबरनगर, ता. बघवान जिला सुरेन्द्रनगर ।
5723.	पुरुषोत्तम भाई गाधिया रामजी भाई	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1973	4260 15-3-74	ग्राम शाहपुर, ता. वन्वुका, जिला— अहमदाबाद ।
5724.	पुरुषोत्तम भाई पटेल भैलाभाई	डी.एस.ए.सी. कं.मु. आयु. कोर्स, गुजरात 1963	575 1-2-63	ग्राम ध्यारा, ता. वाघोदिया, जिला— बड़ोदा ।
5725.	पुरुषोत्तम भाई पटेल लालजी दास	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1971	3657 18-10-72	ग्राम कावाजीसन, ता. काशी, जिला मेहसाना ।
5726.	पुरुषोत्तम दास निमावत मोहन दास	आयुर्वेद भिषक नि.भा.आ. विद्यापीठ, दिल्ली 1968	7276 15-9-79	ग्राम मेळातिम्बि, बाया कोलाकी, ता. उंपलेटा, जिला राजकोट ।
5727.	पुरुषोत्तम दास पटेल कतुर भाई	डी.एस.ए.सी. कं.मु. आयु. कोर्स, गुजरात 1963 एच.पी.ए. पो.प्रे.ट्रै.से. आयु. जामनगर	576 26-6-63	ग्राम पो. वीरपुर, ता. बालाशिनोर, जिला खेड़ा ।
5728.	पुरुषोत्तम गिरि सुन्दरगिरि	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1969	2884 23-1-70	नई कुम्भारवावा, गिरिमिवास, ग्राम पोरबन्दर, जिला जूनागढ़ ।
5729.	पुष्कर ब्रह्मभट्ट मगनलाल	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1971	3478 11-4-72	ग्राम लालपुर, ता. सिद्धापुर, जिला मेहसाना ।
5730.	पुष्पा चौधरी तुकाराम	डी.एस.ए.सी. कं.मु. आयु. कोर्स, महाराष्ट्र 1963	2935 30-3-70	ग्राम मुक्ला तीरब, ता. एवं जिला बरोच ।
5731.	पुष्पा गानावा प्राणीवनदास	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1976	6010 21-1-78	74, शिवनगर सोसाइटी, भाटकोदिया रोड, अहमदाबाद ।

1	2	3	4	5
5732.	पुष्पा जोबन पुत्र महेन्द्र कुमार	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1975	5430 18-6-76	4, जयविमल सोसाइटी, गोधासर, मणिनगर, अहमदाबाद ।
5733.	पुष्पा मनछानी भागोचन्द्र	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1975	5302 29-3-76	गुस्तानक बलाघ स्टोर, टावर चौक, ग्राम कटियाण, जिला जनागढ़ ।
5734.	पुष्पा पटेल जीवराज भाई	जी.एफ.ए.एम. फौ.आयु.सि.मे. गुजरात 1962	581 17-9-62	पोदार गली, सान्ताक्रूज, बम्बई-54 ।
5735.	पुष्पा टेल नरसिंह भाई	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1973	4211 19-2-74	ध्रुव निवास, चार रास्ता, मणिनगर, अहमदाबाद ।
5736.	पुष्पा शाह फूलचन्द्र भाई	डी.एस.ए.सी. क.ए. आयु. कोर्स, महाराष्ट्र 1959	1176 31-3-60	14, पंकज सोसाईटी, आनन्द नगर, सरखज रोड, पालादी, अहमदाबाद-7 ।
5737.	पुष्पा बेन भट्ट राम शंकर	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1970	3147 5-3-71	द्वारा एस.पी. पुरोहित, जी-7; बलेम्बिक कालोनी बड़ौदा-6 ।
5738.	पुष्पा बेन जोशी देव दत्त कुमार	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1977	6267 11-9-78	39, नीलकमल सोसाईटी, निजासपुरा, बड़ौदा-1 ।
5739.	पुष्पा बेन जोशी मार्तन्वराय	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1975	5408 25-5-76	हाथीपोल, डाण्डिया बाजार, (बड़ौदा) ।
5740.	पुष्पाबेन पटेल सोमा भाई	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1976	5990 19-12-77	37, ठक्करबापा कालोनी, नजदीक आयु. कालेज, पानी गेट, बड़ौदा ।
5741.	पुष्पा कुमार पाण्ड्या दहिया लाल	आयुर्वेद मध्यमा श्र.द. परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6723 9-3-79	ग्रामा विवादा, ता. मण्डवी, जिला कच्छ ।
5742.	पुष्करानन्द ब्रह्मेहारी रघुनाथ दास जी	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1971	3415 6-3-72	श्री बाला हनुमान, सोदेरा, ता. बीजापुर, जिला मेहसाना ।
5743.	पुष्पा जोशी वीरेन्द्र	आयुर्वेद भिषक नि.शा.आ. विद्यापीठ, दिल्ली 1972	6566 15-2-79	66, मालखिया नगर, गौडल रोड, राजकोट ।
5744.	पुष्पा बेन शाह बलवंत राय	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1971	4928 5-8-75	11, विराट सोसाईटी, नई शारदा मन्दिर रोड, अहमदाबाद ।
5745.	पुष्पा बेन सोनी दहिया लाल	आयुर्वेद उन्मा श्र.द. परीक्षा समिति, बड़ौदा 1976	6570 16-2-79	गायत्री आयु. क्लीनिक, नजदीक कन्या विद्यालय, उन्मा-384170 ।

1	2	3	4	5
6746:	पुष्पा कुमार शाह सम्बक लाल	डी.ए.एस.एफ. फै.आं.यू.सि.मे. बम्बई- 19	1177 1-3-55	ग्राम बलसाद (बाजार), ता. ग्रानिद, जिला, बड़ोदा।
5747.	पुष्पेन्द्र भट्ट हरि लाल	डी.ए.एस. यू.बी.आयु.महा. पाटन, (बड़ोदा) 7-6-40 1979	6674	1619, राजा सुपर की पोल, किहीफ रोड, अहमदाबाद।
5748.	राधा चौहान सुमानसिंह	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1974	5134 27-1-76	24, बर्मी सोसाईटी, ग्राम-आगरा, जिला- बड़ोदा।
5749.	राधारानी गुप्ता रवीचन्द्र	बी.एस.ए.एम. गुजरात अ.यु. वि.वि. 1978	8049 27-4-81	60-ए, रेलवे क.मोनी, ग्राम-कूचनडा
5750.	राधिकलाल वैद्य नन्नालाल	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1969	3023 7-8-70	10, गांधी पार्क, हरणीरोड, बड़ोदा।
5751.	राधारानी पांड्या हरि वल्लभ	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1977	7000 7-5-79	मार्फत मुखियाजी वैद्य, 3/188/189, रोशन मोहल्ला, ग्राम-आगरा (उ.प्र.)।
5752.	राधेश्याम शाह अम्बालाल	जी.एफ.ए.एम. फै. आफ आ. एण्ड यू. सि. आफ मेडीसिन, गुजरात 1965	1781 6-8-65	ग्राम-सादरा, जिला-अहमदाबाद।
5753.	राधेश्री मेहता कृष्ण प्रसाद	बी.ए.एम.एस. बम्बई वि.वि. 1980	9229 19-2-85	मार्फत भट्ट सुधीर एच. अदालाजा हाउस, द्वितीय तल, रस कोस, बड़ोदा।
5754.	समिन्दरी मकवाना खीशल	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1975	5193 25-2-76	बी. नं. 1, अलाप को. हा. सोसाईटी, नगदीक पारबाड़ी, आश्रम रोड, शांतीनगर, अहमदाबाद।
5755.	रहेमातुल्ला रतनानी बहादुर अली	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1975	5460 14-7-76	हिफाजल मंजिल, वदका बाक्सोरा कृपा, ग्राम-भावनगर।
5756:	राधेश्याम अश्रावत रघुनाथदान	आयुर्वेद भिषक नि.भा. आयु. वि., दिल्ली 1961	7093 7-7-79	राम मन्दिर (बाड़े) अलियाबाड़ा, ता. श्रीर जिला-जामनगर।
5757.	राधेश्याम चतुर्वेदी	बी.ए.एम.एस. इन्दौर वि.वि. 1975	6200 28-8-78	मार्फत पी. एन. चतुर्वेदी ग्राम-स्वगाव, जिला-खरगाव (एम.पी.)।
5758.	राधेश्याम वदनेरस रघुवीर	बी.एस.ए.एम. इन्दौर वि.वि. 1976	8254 24-12-81	तलवाड़ा, वाड़ी, नजदीक स्वामी नारायण मन्दिर, बड़ोदा।
5759.	राधिका मेहता इन्दुकुमार	बी.एस.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1977	6360 4-10-78	रामनगर सोसाईटी मणीनगर, अहमदाबाद।

1	2	3	4	5
5760	राजव दोमादिया दया लाल	डी०एस०ए०सी० कमेटी आफ मुद्र आयु० कोर्स गुजरात 1966	2034 6-6-66	ग्राम नावा बन्दर, पो०० देलवाड़ा, जिला—जूनागढ़ ।
5761.	राजव भाईसेन्टा शामजी भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5599 17-11-76	ग्राम—गुन्दराना, ता० - महुवा, जिला— भावनगर ।
5762.	रघुनाथ पाटिल छगन	बी०ए०एम०एस० मागपुर वि० वि० 1976	5830 6-7-77	ग्राम—ब्राह्मणपुरा, ता०—शाहड़ा, जिला— छलिया ।
5763.	रघुनाथजी नायक जीनाभाई	आयुर्वेद अलंकार, गुरुकुल आयु० कालेज वि० वि० कांगड़ी, हरिद्वार 1927	479 31-3-41	ग्राम—इटीला, ता० श्रीर जिला—बड़ौदा ।
5764.	रघुनाथसिंह वम्सडिया करण सिंह	डी०ए०एस०एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1955	1012 2-1-56	गोलवाड़, ग्राम—नवसारी ।
5765.	रघुराम मेसवानिया तुलसीदास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3943 7-5-73	ग्राम—सन्दरावा, पो० आ०—अगरतारा, जिला—जूनागढ़ ।
5766.	रघुराम त्रिवेदी दलसुखराम	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4298 27-3-74	ग्राम—धेरा, ता० - कंकरेज, जिला— बनासकंधा ।
5767.	रघुवीर जोशी अयन्तीलाल	बी०ए०एम०एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9200 30-1-85	मार्फत वी० जे० जोशी ई० एल० सी० (टी० एल०) ग्राम—हापा, जिला—जामनगर ।
5768.	रघुवीर कपाडिया तुलसीदास	जी०एफ०ए०एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1958	2649 1-7-58	मार्फत मांगश के० बालासरी, सेतान फालिया, ग्राम—सूरत ।
5769.	रघुवीरदास तिलावल प्रभूदास	वैद्य विहारद मि०भा०आयु० वि०, दिल्ली 1977	7607 18-3-80	धनश्याम प्लाट, ग्राम—वेरावल, जिला जूनागढ़ ।
5770.	रघुवीरसिंहजी शुवास्मा तबूभा	डी०एस०ए०सी० कमेटी आफ मुद्र आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2130 5-8-66	मार्फत एम० टी० चौवासमा सोनी शेरी, ग्राम श्रीर पो० आ०—बरवाला (बेलगा) ता०—आंधुका ।
5771.	रागिनी पटेल रमछोवलाल	बी०ए०एम०एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9264 9-4-85	143, पारास प्लापालवालाल बांचो, नन्तसालवीवाड़ सारसपुर, अहमदाबाद-18 ।

1	2	3	4	5
5772.	रागिनी बैद्य ललितकुमार	बी.ए.एम.एम. बम्बई वि.वि. 1983	9524 1-7-86	ग्राहा निवास 60/एस.वी. रोड अम्बेरी, (वेस्ट) ग्राम-बम्बई-58।
5773.	रागिनी कुमार पटेल भाईलाल भाई	बी.एम.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1981	8682 3-3-83	गोलीनावा ग्राम-उत्तरसोन्दा, ता.- नाशिका, जिला खेड़ा-387 370।
5774.	रहीम गनियानी अलीसमद	बी.ए.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1979	8217 2-11-81	द्वितीय अ.हमान विल्डिंग हाउ., सामने साल्ट रिस्र्व, ग्राम-भावनगर।
5775.	राहुल अन्तानी किशोर चन्द्र	बी.एम.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1974	4725 1-4-75	मार्फत बी.भी. अन्तानी नगर, चाकला, ग्राम भुज, जिला-कच्छ।
5776.	राहुल दवे नारीबहन	बी.एम.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1984	9292 7-5-85	जी/92/1104, शिवाम अपार्टमेंट, नावा बादज, अहमदाबाद-13।
5777.	राजाभाई अवाली आक्षमाली	आयुर्वेद भिषक नि.भा.आयु.वि., दिल्ली 1963	6705 9-3-79	ग्राम-दिवा, ता.-आन्कोषावर, जिला- बरोच।
5778.	राजन सोनी भोषालाल	बी.एस.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1981	8366 17-3-82	सी.एल.एफ., बी.नं. 5, नक्षत्रीक इजानोरी कचेरी, डा. यागनिक रोड, राजकोट।
5779.	राजन उपाध्याय दिनकर	बी.एस.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1974	4700 29-3-75	रामजी विल्डिंग, चार रास्ता, मोरा भागोला, पो.आ.-रनदार, सूरत-5।
5780.	रजनी गोहिल प्रेमजी	बी.एस.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1975	6160 16-5-78	नजदीक गनेश इक्ष डेरी, एन.खारेवा रोड, ग्राम-पोरबन्दर, जिला-जूनागढ़।
5781.	रजनी जोशी भानुप्रसाद	एम.डी. (आयु.) गुजरात आयु. वि.वि. 1978	6692 3-3-79	मार्फत बी.के. जोशी, बाला हनुमान मन्दिर, ग्राम-लोदरा, ता.-बीजापुर, जिला- मेहसाना।
5782.	रजनी कश्यप खोद्दुभाई	बी.एस.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1973	4841 9-5-75	4, कृष्णा चौधरी विल्डिंग, 9, चन्दनसार रोड, वीराद (ईस्ट) ता.-वसाय, जिला थाना।
5783.	रजनीकान्त वल्लभदास	वैद्य विभागाध्यक्ष नि.भा.आयु.वि., दिल्ली 1972	7275 15-9-79	पिपाली चोरा, ग्राम-मंगरोल जिला- जूनागढ़।
5784.	रजनीकान्त भट्ट चन्द्रकांत	बी.एस.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1977	6344 4-10-78	15, कामदुर्गा सोसाईटी, नारायणपुरा, अहमदाबाद-13।
5785.	रजनीकान्त दवे श्रीरज लाल	बी.एम.एम. गुजरात आयु. वि.वि. 1978	7559 29-2-80	रुग्णतथपारा, मैन रोड, शुक्ल निवास, ग्राम-सूरत-3।

1	2	3	4	5
5786.	रजनीकान्त देवे रवीशंकर	बी०एम्०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1977	7698 29-4-80	पन्जारापोल, पोपटनदानी, शेरी, ग्राम— राजकोट—3।
5787.	रजनीकान्त गोरिया इरीलाल	बी०ए०एम०एम० गुजरात वि०वि० 1967	2505 7-6-67	मार्फत एच सी० गोरिया जिल्प्लाट, ग्राम— धोराजी, जिला—राजकोट।
5788.	रजनीकान्त जानी कमलाशंकर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1970	3220 9-8-71	मार्फत राधास्वामी सक्कानबाग, विन्दु सरोवर रोड, ग्राम—सिद्धापुर, जिला—मेहसाना।
5789.	रजनीकान्त जोशी मगनलाल	डी०एस०ए०सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1673 25-5-65	ग्राम—धानक, ता०—उपलेटा, बाया भायावाडा, जिला—राजकोट।
5790.	रजनीकान्त जोशी लल्लू राम	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1975	5570 13-10-76	10, योगीकृपा सोसाईटी, आनन्दनगर, अहमदाबाद।
5791.	रजनीकान्त जोशी मोहनलाल	वैद्य विशारद नि०भा० आयु० वि०, दिल्ली 1965	7274 15-9-79	ग्राम—भालगाम, बाया बागासारा (भयानी) ता०—विशवादर, जिला—जूनागढ़।
5792.	रजनीकान्त महाजन छोटाजाल	आयुर्वेद विशारद बोर्ड आफ इण्डियन मेडीसिन, सौराष्ट्र 1962	2206 25-4-62	एस०एम०पी० दोहिल, ग्राम—गोधीब, बाया सुखसार, ता०—सौतरनपुर, जिला— पंचमहल।
5793.	रजनीकान्त मेहता भाईचन्द	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1972	3944 8-5-73	ग्राम—बदाल, ता० और जिला—जूनागढ़।
5794.	रजनीकान्त मेहता लभाशंकर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1974	4655 15-3-75	नगर शेरी ग्राम और ता०—धरोल, जिला— जूनागढ़।
5795.	रजनीकान्त पटेल बपालाल	डी०एस०ए०सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1961	624 8-12-61	30, स्वास्तिक सोसाईटी, नजवीक नकनाडा स्कूल, ग्राम—मेहसाना।
5796.	रजनीकान्त पटेल भगवान भाई	बी०ए०एम०एस० गुजरात वि०वि०, 1966	2155 31-8-66	18, रामदास सोसाईटी, स्टेशन रोड, ग्राम—सिहोर, जिला—भावनगर।
5797.	रजनीकान्त पटेल मगन भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4606 8-1-75	ग्राम समारका, ता० आनन्द, जिला खेड़ा।
5798.	रजनीकान्त पटेल बहि्या भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4640 6-3-75	कप.सिया हल, ग्राम पालेज, जिला—बरीच।
5799.	रजनीकान्त पटेल रेवान दास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5748 31-3-77	ग्राम आनन्दपुरा, बाया खेरबड़ी, ता० संखेड़ा, जिला बड़ौदा।

1	2	3	4	5
5800.	रजनीकान्त पाठक विश्वनाथ	आयुर्वेद माध्यमा श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1976	6948 1-5-79	नवलखा हवेली, बाजवाड़ा, ग्राम बड़ौदा ।
5801.	रजनीकान्त पटेल चुन्नीलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि०, 1979	7931 29-12-80	नवाघरा, गा० और पो० आ० नवाली, ता० आमन्व, जिला खेड़ा ।
5802.	रजनीकान्त रावल क्रान्ती लाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3998 10-8-73	पामोल, ता० बीजापुर, जिला मेहसना ।
5803.	रजनीकान्त शाह मोहन लाल	डी०ए०एस०ए०एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1955	1213 1-8-55	मार्फत मोहनलाल एस० शाह, ग्राम- खेलवाड़, बाया म्यान, जिला सूरत ।
5804.	रजनीकान्त शाह लक्ष्म भाई	जी०एफ०ए०एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1958	210 1-12-58	54, बालासिनेर, सोसाईटी, जी० जी० रोड़, बम्बई-67 ।
5805	रजनीकान्त शुक्ल शास्ती लाल	डी०एस०ए०सी० कमेटी फार गुरु आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1826 21-10-65	शुक्ला निवास, रगनाचपुरा रोड़, सूरत-2
5806,	रजनीकान्त शुक्ल सुर्गा शंकर	वैद्य विशारद, नि०भा०आयु० वि०, दिल्ली 1974	6512 1-2-79	श्री निवास, 13, रामकृष्णा नगर, ग्राम राजकोट
5807.	रजनीकान्त शुक्ल जयन्ती लाल	वैद्याचार्य नि० भा० आयु वि० दिल्ली 1966	7196 17-8-79	भोजेश्वर प्लाट, ग्राम पोरबन्दर, जिला जुनागढ़
5808.	रजनीकान्त सोलंकी जगजीवन दास	बी०एफ०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7307 20-9-79	ग्राम और पो० आ० रंगपुर (भाल) बाया घांघुका, ता० लिमाड़ी, जिला सुरेन्द्रनगर
5809.	रजनीकान्त सोनी शिमन लाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4056 19-9-73	ग्राम कसिन्दा, ता० संबेडा, जिला बड़ौदा
5810.	रजनीकान्त लालसी शास्ती लाल	जी०एफ०ए०एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, गुजरात । 1961	295 23-10-61	वाड़ावली बाल, पीछे कृष्णा सिनेमा, पंजारा पोल, अहमदाबाद ।
5811.	रजनीकान्त ठाकुर लक्ष्मशंकर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि०, 1975	5258 8-3-76	ग्राम सरसिया, बाया धारी, जिला अमरेली ।
5812.	रजनीकान्त वैद्य बाल मुकन्द	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6042 16-2-78	7/2602, सैदापुरा, अमरपुरी, ग्राम सूरत ।

1	2	3	4	5
5813.	रजनीकान्त वासनी हाजी जीवन	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5262 8-5-76	ग्राम कोटाड़ा, पीठा बाबरों जिला। अमरेल।
5814.	रजनीकान्त उपाध्याय हरी भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4711 29-3-75	ग्राम—साल्द, ता० और जिला बड़ौदा
5815.	रजनीकर पटेल पुरुषोत्तम दास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4229 22-2-74	ग्राम—राजबदाली ता० जैतपुर, पावी जिला—बड़ौदा।
5816.	रजनी शंकर कुमार भनानी अर्जुन भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5760 14-4-77	ग्राम—बालीभा, वाया धोरल, जिला जामनगर।
5817.	राजेनभाई भगत रमेश भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6196 15-7-78	ग्राम और पो० जा० कसिनद्रा, ता० संखेड़ा, जिला—बड़ौदा।
5818.	राजेन्द्र प्राचार्य कान्ती लाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8960 12-3-84	4, अमरकुंज सोसाईटी, नं० 2, पीछे विनेश मील, नजवीक नेहरू पार्क, ग्राम बड़ौदा—18।
5819.	राजेन्द्र भवसार बाबल दास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4706 29-3-75	23 सर्वोदय गवर्न० सोसाईटी ग्राम— मेहसाना।
5820.	राजेन्द्र चौधरी हरी सिंह	बी०ए०एम०एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9640 5-12-86	10 / गुरुकुल सोसाईटी, बी० नगर रोड़, ग्राम मेहसाना—384001
5821.	राजेन्द्र जोशी कनु भाई	बी०ए०एम०एस० पूना वि० वि० 1971	3772 8-2-73	ग्राम कुकरवाडा, ता० बीजापुर जिला मेहसाना।
5822.	राजेन्द्र हाथी नटवरलाल	मिषणाचार्य, राज० आयु० विभा० परीक्षा मंडल, अजमेर 1965	7617 18-3-80	गवर्न० आफिसर्स आलोपी बी० नं० टी 5: पीछे न्यू मेंटल अस्पताल अहमदाबाद।
5823.	राजेन्द्र हाथी कोशिक राय	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	3491 19-4-72 1971	1, गणेश सोसाईटी ग्राट० बी० देशाई रोड़, बड़ौदा।
5824.	राजेन्द्र पटेल चतुरभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5514 2-9-76	ग्राम० रास ता० नोरसाद जिला— खेड़ा।
5825.	राजेन्द्र रावल राम प्रसाद	आयुर्वेद मध्यमा श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति बड़ौदा 1977	6809 22-3-79	34 ए उद्योग नगर सोसाईटी गवर्न० आयु० कालेज, आजवा रोड़ बड़ौदा।
5826.	राजेन्द्र सगावी अमृतलाल	बी०ए०एम०एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1966	2356 6-1-67	संचानिया बाजार, सुखनाथ चौक ग्राम जूनागढ़।

1	2	3	4	5
5827.	राजेन्द्र ठाकर छोटालाल	डी एफ ए एम फै ऑफ आ एण्ड यू सि आफ मेडिसिन, बम्बई 1960	273	1163 मातृविनी पोल सामने हाम- लपुर पागडिया अहमदाबाद ।
5828.	राजेन्द्र ठाकर कान्ती लाल	बी ए एम एम गुजरात आयु वि वि 1985	9566 23-9-86	"बरअही-कुना" पटेल कालोनी 4/5 रोड नं 2 ग्राम-जामनगर ।
5829.	राजेन्द्र यशारिया केवल चन्द	डी ए एम एम फै ऑफ आ एण्ड यू आफ मेडिसिन, बम्बई 1957	999 1-8-57	गेरी नं 4 छाया प्लाट, ई एस आई डिस्पेंसरी के सामने ग्राम पोरबन्दर जिला जूनागढ़ ।
5830.	राजेन्द्र यादव रामलखन	बी एम ए एम गुजरात आयु वि वि 1981	8264 31-12-81	नटवरलाल चाल, पीछे अहलकिया मील मणिनगर अहमदाबाद ।
5831.	राजेन्द्र भाई राज गुल भाई	बी एम ए एम गुजरात आयु वि वि 1981	8570 20-10-82	जोशी फालिया ग्राम मेहोवाल ता नादियाद जिला-खेड़ा ।
5832.	राजेन्द्र कुमार देसाई अमृतलाल	आयुर्वेद माध्यमा गवणभास दक्षिणा परीक्षा समिति बड़ौदा 1978	6487 1-2-79	57 महादेव फालिया ग्राम-उधना ता चार्यशी जिला-सूरत ।
5833.	राजेन्द्र कुमार देसाई रमन लाल	बी एम ए एम गुजरात आयु वि वि 1981	8732 19-4-83	ग्राम दखखानवाड़ा पो ऑ - देवाध, थाया उधाम- जिला सूरत ।
5834.	राजेन्द्र कुमार जानी किशोर चन्द्र	बी एम ए एम गुजरात आयु वि वि 1981	8479 3-8-82	वदवा पदार दोवाडी भवसार शेरी मानौखलान देला भावनगर ।
5835.	राजेन्द्र कुमाई जोशी भागीरथ प्रसाद	बी एम ए एम इन्दौर वि वि 1975	5845 3-8-77	डी नं 111 आर नं 572 वापू नगर अहमदाबाद ।
5836.	राजेन्द्र कुमार मेहता मोहन लाल	बी एम ए एम गुजरात आयु वि वि 1977	6083 15-3-78	नेशनल मेडीकल एण्ड प्रोविजन स्टोर्स ग्राम और इदार- जिला-नावरक्या ।
5837.	राजेन्द्र कुमार परमार केशव लाल	बी एम ए एम गुजरात आयु वि वि, 1985	9642 31-12-86	मार्फत के एल परमार 2/8 आदर्श सोसाईटी, पवनचाकी रोड, ग्राम नादियाड, जिला-खेड़ा ।
5838.	राजेन्द्र कुमार पटेल वसराम भाई	डी एफ ए एम, फै ऑफ आ आयु वि आफ मेडिसिन, बम्बई 1960	627 1-7-60	ग्राम और ता गरियाधर, जिला- भावनगर ।
5839.	राजेन्द्र कुमार पटेल भैया भाई	बी एम ए एम, गुजरात आयु वि वि, 1977	6217 3-8-78	पिल्लु भावा वैल, ग्राम और पो आ वध्रासी, ता आनन्द, जिला खेड़ा

1	2	3	4	5
5840.	राजेन्द्र कुमार पटेल छतु भाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7427 12-12-79	कड़वा पाटीदार नाथ, ग्राम-गोधवा, ता०-बीसानगर, जिला-मेहसाना ।
5841.	राजेन्द्र कुमार पटेल पुरुषोत्तम दास	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	7813 15-9-80	पटेल पालिया, ग्राम-वासना, ता० संखेड़ा, जिला-बड़ौदा ।
5842.	राजेन्द्र कुमार पटेल गन्तपत भाई	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9404 19-10-85	भोजक भवन, 24, सूर्यकुंज सोसाईटी, घटलोदिया, अहमदाबाद ।
5843.	राजेन्द्र कुमार पटेल कान्तीलाल	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9597 23-10-86	ग्राम और पो० आ० मोवती, ता० इदार, जिला-साबरकंधा ।
5844.	राजेन्द्र कुमार रावल प्रहलाद भाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	7066 30-6-79	ग्राम-नेवामाली, ता० इदार, जिला साबरकंधा ।
5845.	राजेन्द्र कुमार रावल जयदेव प्रसाद	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7990 25-2-81	आर्या सदन, पो० आ०-थापी, ता० वादगन, जिला-बनासकंधा ।
5846.	राजेन्द्र कुमार शाह कान्ती लाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5221 27-2-76	142, परबदी पोल, रायपुर चाकलु, अहमदाबाद ।
5847.	राजेन्द्र कुमार शाह जयवन्त लाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5902 20-9-77	ग्राम-बरेजा, ता० सोसेरोई, जिला अहमदाबाद ।
5848.	राजेन्द्र कुमार शुक्ला भोगीलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	7882 14-11-80	ग्राम और पो० आ०-मेऊ, ता० और जिला-मेहसाना ।
5849.	राजेन्द्र कुमार सोलंकी शम्भू प्रसाद	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6984 7-5-79	ग्राम-लिलीया मोटा, ता० और जिला अमरेली ।
5850.	राजेन्द्र कुमार बन्तूलाल शाह बन्तूलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3618 25-9-72	ग्राम-लिम्बाशी, ता०-मातर, जिला खेड़ा ।
5851.	राजेन्द्र कुमार त्रिवेदी कुन्दन लाल	आयुर्वेद शिक्षक, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1978	8799 5-7-83	तेरना 11, रजनीस्मृती सोसाईटी, सामने अपंग मानव मंडल, वेत्रापुर रोड़, अहमदाबाद ।
5852.	राजेन्द्र कुमार त्रिवेदी कन्हैया लाल	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9132 10-9-84	मार्फत के० के० त्रिवेदी, ग्राम और पो० आ०-चदन, ता०-मेहमदवाड़, वाया नादियाद जिला-खेड़ा ।
5853.	राजेन्द्र कुमार वैद्य गोविन्द लाल	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8854 6-10-83	सामने परबाड़ी बाजार, ग्राम अंकलाव, ता० बोरसद, जिला खेड़ा-388510

1	2	3	4	5
5854.	राजेन्द्र कुमार व्यास वृषलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8664 16-2-88	सिनेमा रोड, ग्राम-भीलाडी, ता०- दिसा, जिला-बनासकंधा ।
5855.	राजेन्द्र कुमार व्यास हरशदराय	आयुर्वेद माध्यमा, श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1979	9036 10-5-84	2829, पिपारडी पोल, रामपुर, अहमदाबाद ।
5856.	राजेन्द्र प्रसाद भट्ट केशव लाल	एल०ए०एम०, यू०पी० आयु० महावि०, पाटन बड़ौदा स्टेट) 1939	857 30-4-41	बनिया शेरी, ग्राम-पलसता, वाया मरोली, जिला-वलसाड ।
5857.	राजेन्द्र प्रसाद भट्ट नीरा लाल	आयुर्वेद उत्तमा, श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1966	7145 24-7-79	शामल बहोबर पोल, डा० चन्द्रकान्त दीक्षित खादकी, ग्राम-बड़ौदा ।
5858.	राजेन्द्र प्रसाद भटनागर भगवान वांस	वैद्य विशारद नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1976	9641 8-12-86	ई/61, अदिनाथ नगर मामनगर, अहमदाबाद-52
5859.	राजेन्द्र प्रसाद जानी नटवर लाल	डी०एस०ए०सी कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स गुजरात 1966	2769 17-4-69	ग्राम कहेडा, ता०-सिद्धापुर, जिला मेहसाना ।
5860.	राजेन्द्र प्रसाद जोशी हरी शंकर	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3271 26-10-71	ग्राम उभेरान, ता०-मालापुर, वाया घांसुरे, जिला-साबरकंधा ।
5861.	राजेन्द्र प्रसाद मेहता जयदेव भाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6824 22-3-79	ग्राम-कोट (गन्गाड) ता०-धोलका, जिला-अहमदाबाद ।
5862.	राजेन्द्र प्रताप पटेल बाबूभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5999 27-12-77	ग्राम-बनिप्राव, ता०-सिनोर, जिला बड़ौदा
5863.	राजेन्द्र प्रसाद पुरानी धीरज लाल	डी०ए०एस०एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1955	718 2-1-56	बहोरवाड नाका, ग्राम-कपाडवंज, जिला-खेड़ा ।
5864.	राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल नरथ हरी शंकर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4639 6-3-75	ग्राम-दहोज ता० वागरी जिला- बरोच ।
5865.	राजेन्द्र प्रसाद त्रिवेदी रेवा शंकर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3404 25-2-72	ग्राम-पो० आ० स्टेशन पंसार पि- पल्या ता०-कलोज, जिला-मेहसाना,
5866.	राजेन्द्र सिंह बीरास्त्रिया प्रताप सिंह	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8761 11-5-83	ग्राम और पो० आ०-बहेली, ता० बलिया, जिला-बरोच ।

1	2	3	4	5
5867.	राजेश सिंह प्यार जयसिंह	बी०ए०एम०एस० इंदौर वि० वि० 1972	8231 24-11-81	77, जवाहर मार्ग, बरवाह, ता०- बरवाह, जिला खरगौद (म० प्र०)
5868.	राजेश सिंह प्रभात सिंह	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8061 27-4-81	दरबार खादकी, ग्राम भूमल, ता० नादियाड, जिला-खेडा ।
5869.	राजेश सिंह करमरिया उमेश सिंह	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6104 28-3-78	ग्राम और पो० आ० खेलवाड, ता० कामरेज जिला-सूरत ।
5870.	राजेश सिंह परमार सजन सिंह	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8240 9-12-81	ग्राम और पो० आ० धीवा ता०- अंकलेश्वर, जिला-बरोच ।
5871.	राजेश सिंह जाला विलवर सिंह	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6246 19-8-78	सर्वोदय सोसाईटी, ग्राम धान, ता० चोटिला, जिला-सुरेन्द्र नगर ।
5872.	राजेश आनन्दजीवाला धनश्याम भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7730 29-5-80	एम ई/47, प्रगति नगर, पीछे विजय नगर, नारनपुरा, ग्राम-अहमदाबाद ।
5873.	राजेश दवे पिनाराम	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7888 14-11-80	5, न्यू उमिया विजय सोसाईटी, नज- दीक रजना पार्क, घटलोदिया, अहमदाबाद ।
5874.	राजेश सिंगला धीरज लाल	बी०एस०एम०एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8900 24-1-84	27, सदगुरु सोसाईटी, नजदीक फोब हाउस, आयु० चिकित्सा रोड, ग्राम जामनगर ।
5875.	राजेश कुमार दवे कुमुदेहराज	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6316 27-9-78	ताज बिल्डिंग, नजदीक शाहलाम गेट, मणिनगर अहमदाबाद ।
5876.	राजेश कुमार जोशी हनुमन्त राज	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6214 3-8-78	मार्फत मनाज जोशी, आर्थोपैडिक सर्जन, वास राजेश्वर फ्लैट, नजदीक कोठावाला बिल्डिंग प्रीतम नगर अहमदाबाद ।
5877.	राजेश कुमर जोशी मधुवसुत	बी०एस०एम०एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8279 16-1-82	दानी फाली बोराडी बाजार, विराम- गाम, जिला-अहमदाबाद ।
5878.	राजेश कुमर जोशी सुरेश कुमर	बी०एस०एम०एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8989 12-3-84	ग्राम और पो० आ० खारकसा, ता० चोरयासी, जिला-सूरत-384210
5879.	राजेश कुमार कनवरजी भाई	बी०एस०एम०एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9336 9-8-85	7/ ए, 2133, भरत नगर, भावनगर ।
5880.	राजेश कुमार पटेल जयराम भाई	बी०एस०एम०एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5188 21-2-76	ग्राम चित्तल, जिला-अमरेली ।

1	2	3	4	5
5881.	राजेश कुमार पाठक बालकृष्ण भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8992 28-3-84	स्टेशन रोड, नजदीक चिथारिया हुनु- मान, ग्राम सिहोर, जिला-भावनगर
5882.	राजेश कुमार शाह चिमन लाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6250 23-8-78	ग्राम और पो० आ० राहेड़ा, ता०- हवार, जिला-साबरकंधा ।
5883.	राजेश कुमार शाह ननूभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6947 25-4-79	ग्राम-मारोली, ता०- बसरोई, जिला- अहमदाबाद
5884.	राजेश कुमार शाह हीरालाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8311 5-2-82	माली फालिया, ग्राम और पो० आ०- नार, ता० पोटलाद, जिला खेड़ा- 388550
5885.	राजेशकुमार वैद्य गजानन्द	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8787 16-6-83	मार्फत डा० गजानन्द बी० वैद्य, ग्राम- गणदेवी, जिला वलसाड
5886.	राजेश कुमार व्यास प्रीतमलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6820 22-3-79	ग्राम- रनपुर, ता०- घाघुका, जिला- अहमदाबाद ।
5887.	राजेश कुमार व्यास रमनलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9451 23-12-85	ग्राम और पो० आ०- मन्दिर, वाया वेवछा, जिला-वलसाड
5888.	राजेश्वरी मेहता मयूर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6143 19-4-78	मार्फत सूर्यकांत एम० मेहता, 6, निवासत बजाज रोड, विलेपार्लै, ग्राम, बम्बई -56
5889.	राजेश्वरी तलसानिया मुगुतलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6930 17-4-79	26, अमरकुंज, सोसाइटी, रामनगर, साबरमती, अहमदाबाद ।
5890.	राजेश्वरी हेबाले रामचन्द्र	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8863 1-11-83	सं० 92, सातवीं, शेरी, लोअर पालिस रोड, ओरचड़ ग्राम, बंगलौर-3
5891.	राजेश्वरी वैद्य रमाकांत	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4999 17-10-75	सुलतानपुरा देसाई कन्ठा, ग्राम-बड़ीवा
5892.	रजीतसिंह सोलंकी बलसिंह	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8298 5-2-82	ग्राम और पो० आ०- अमोडा, ता० बयाद, जिला-साबरकंधा-383331
5893.	राजकमल पुरनिक राजेशप्रसाद	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8998 28-3-84	श्री अरविच चन्द्र सत्यजाम तिपाल रोड, ग्राम वलसाड
5894.	राजकुमार गौयल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	5707 24-2-77	बी०-1, आयु० कालोनी, ग्राम जामनगर ।

1	2	3	4	5
5895.	रजनीका जोशी कंचनलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1971	3559 23-8-72	लक्ष्मीनारायण सोसाइटी, ब्लॉक नं० 80, मणिनगर, अहमदाबाद
5896.	रजनीकांत भट्ट भीष्माभाई	डी०ए०एस०एफ० फै० आफ० आ० एण्ड यू०सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1953	854 1-7-53	कल्पना अनुपम सोसाइटी, ग्राम कालोक्ष जिला पंचमहल
5897.	रजनीकांत भट्ट शुक्लीलाल	डी०ए०एस०एफ० फै०आफआ० एण्ड यू०सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1955	853 1-3-56	ग्राम चंचवेश, ता० वागरा, जिला बरोच
5898.	रजनीकांत भट्ट मनसुखलाल	डी०एस०ए०सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2061 21-6-66	धन्वन्तरि, 562-बी०, मानकवादी, नजवीक अखाडा, भावनगर
5899.	रजनीकांत भट्ट चिम्नलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1968	2766 17-4-69	रानी बाजार, ग्राम मोर्चबी, जिला— राजकोट
5900.	रजनीकांत शाह जेठालाल	डी०एस०ए०सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1965	2005 19-4-66	ए/6/1, शास्त्री पार्क, करोली बाग, बरोच-18
5901.	रजनीकांत कुमार पाठक मूलशंकर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1979	8009 17-3-81	ग्राम और पो० आ० साधी ता० पडुरा, जिला बड़ोदा
5902.	राजकुमार जोशी चन्नुलाल	बी०ए०एम०एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9238 12-3-85	मार्फत प्रकाश प्रिंटिंग प्रैस, ग्राम और पो०आ० मन्सा, ता० बीजापुर, मेहसाना;- 383845
5903.	राजकुमारी वर्मा भगवान सिंह	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1981	8668 16-2-83	46/47, जयन्ती लाल चुनीलाल शाउस, चमनपुरा
5904.	राजकुमार राबल कुमुदचन्द्र	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1978	7697 29-4-80	जोशी फालिया, आशा पुरी रोड, ग्राम धुज-कच्छ
5905.	राकेश शाह सूर्यकांत	बी०ए०एम०एस० गुजरात आयु० वि०वि० 1983	9317 25-7-85	रंगमगर सोसाइटी, ग्राम अमरोली, स्टे० उत्तराणा, ता० थोरसासी, जिला सूरत
5906.	राकेश शास्त्री अन्नीप्रसाद	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1977	6330 4-10-78	23, तपोवन सोसाइटी, अम्बाबाड़ी अहमदाबाद
5907.	राकेश सेठ बालकृष्ण	बी०ए०एम०एस० गुजरात आयु० वि०वि० 1984	9388 23-9-85	14/ए, जय कृष्णा सोसाइटी, रामबाड़ी बस स्टैण्ड, इसानपुर, अहमदाबाद
5908.	राकेश कुमार जैन शेखरचन्द्र	बी०ए०एम०एस० गुजरात आयु० वि०वि० 1983	8939 17-2-84	6, उमियावेवी सोसाइटी, देवी नं० 2, नजवीक गोपालनगर, अमरापवाड़ी; अहमदाबाद-26

1	2	3	4	5
5909.	राकेशकुमार जैक नाहेंद्रकुमार	बी०ए०एम०एस० गुजरात आयु० वि०वि० 1984	9311 2-7-85	9/101, नेताजी नगर, मेघनादी, अहमदाबाद-16
5910.	राकेशकुमार पाठक मधुसूदन	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1977	8141 19-4-78	सोनी फालिया, नवरीक लखर, भौर पो० आ० एण्ड तह० काधोदिया, जिला बड़ोदा
5911.	राकेशकुमार पाठक रमन्माल	आयुर्वेद मध्यमा श्रावणमस्तकक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ोदा 1979	9588 23-9-86	ग्राम कण्ठारिया, ता० बोरसाद, जिला खेडा
5912.	राकेशकुमार ठाकुर खतराभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1982	8822 11-8-83	ग्राम जशवस्तपारा, पो० आ० सनाली वाया अम्बाजी, तह० दस्ता, जिला बनासकंधा
5913.	राकेशकुमार त्रिवेदी नवीनचन्द्र	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1977	7001 16-5-79	मुनलीघट, नजदीक स्टेट बैंक, ग्राम हिम्मतनगर, जिला साबरकंधा
5914.	रमा बोरा हंसराजभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1971	3477 11-4-72	डा० रमाबेन आर० एस० पानेलिया, कुड़िया लेन स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र ग्राम गोन्डल, जिला राजकोट
5915.	रामा मेहता भानुप्रसाद	डी०ए०एस०एफ० फै० आफ० आ० एण्ड यू०सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1953	920 2-1-54	तोजन कुम्भार वास) पेसओ रोड, राजकोट
5916.	रमा नन्दानिया भोजा	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1976	6237 19-8-78	ग्राम मानज, ता० हंगरोल, जिला जूनागढ़
5917.	रमाबेन जादव णमनजीभाई	आयुर्वेदमिषक नि०भा०आयु० वि०, दिल्ली 1958	7239 30-8-79	कड़ियावाड़ लखानी शेरी, ग्राम जामनगर
5918.	रमाभाई पटेल भयनभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1970	3149 6-3-71	ग्राम बुंगारी, ता० इदार, जिला साबरकंधा
5919.	रामभाई जेकाभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1974	7399 27-11-79	ग्राम महुदी, ता० बीजापुर, जिला मेहसाना
5920.	रामभीलाण पांडे वासुदेव	डी०एस०ए०सी० कमेटी फारवार्ड आयु० कोर्स, महाराष्ट्र 1960	2459 1-5-60	आयु० डिस्पेंसरी, ग्राम कहादा पो०-आ० हालमती, जिला राजकोट
5921.	रामजीशुभा धाकरजीभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1975	8341 4-10-78	ग्राम और पो० आ० सुस्तान पुर, ता० गोण्डल, जिला राजकोट
5922.	रामजीभाई काकरिया जादवभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1976	6223 10-8-78	ग्राम दावकी गाफाल, ता० जेतपुर, जिला राजकोट

1	2	3	4	5
5923.	रमाकान्त मेहता रामकृष्ण	डी०ए०एस०एफ० फै०आफ०आ०एण्ड०यै०सि० आफ०मेडिसिन बम्बई 1955	921 1-9-55	बालकृष्ण भवन 4 पटेल सोसाइटी इस्लामा ब्रिज, अहमदाबाद
5924.	रमाकान्त रायगुरु मूलशंकर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1974	4716 31-9-75	20 मारी हर सोसाइटी सामने स्वामी नारायण मन्दिर मणि नगर अहमदाबाद
5925.	रमाकान्त रॉबेले मणिशंकर	डी०ए०एस०एफ० फै०आफ०आ०एण्ड०यु०सि० आफ०मेडिसिन बम्बई 1953	2577 15-7-33	स्टेशन रोड ग्राम बैरावल पोर्ट जिला जूनागढ़
5926.	रमाकान्त शाह हिसाबाल	ड०ए०एस०एफ० फै०आफ०आ०एण्ड०यु०सि० आफ०मेडिसिन बम्बई 1945	2395 3-11-41	लाकदर्जीठा रोड शान्ता देवी टाकीज बड़ौदा
5927.	रमनपाटिल छगल	बी०ए०एम०एस० नामपुर वि०वि० 1973	4538 4-10-74	ग्राम पादलादा ता० शाहवा जिला धुलिया
5928.	रमनभाई चौधरी छनियाभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1975	5903 29-2-76	ग्राम काहेर ता० बालोच जिला सूरत
5929.	रमनभाई बोधी शंकर भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1972	4044 12-9-78	ग्राम वाडू ता० पवारा जिला बड़ौदा
5930.	रमनभाई बिस्वी रामभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1971	3702 30-11-72	ग्राम काबिलपोर जिला बलसाद
5931.	रमनभाई पटेल नारनभाई	डी०एस०ए०सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कौंसिल गुजरात 1966	2120 22-7-66	ग्राम ओर पो० आ० अन्नाजील, ता० नादियाद, जिला खेड़ा
5932.	रमनभाई पटेल नारनभाई	डी० एस० ए० सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कौंसिल गुजरात 1966	2473 3-5-67	ग्राम बरोलिया, ता० धरमपुर, जिला बलसाद
5933.	रमनभाई पटेल मूलजीभाई	डी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1970	3148 5-3-71	ग्राम बेतरोज, ता० भीरामगाम, जिला अहमदाबाद
5934.	रमनभाई पटेल खेमदास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1971	3959 25-2-72	ग्राम लाधनज, ता० भीर जिला मेहसाना
5935.	रमनभाई पटेल बहेचरभाई	बी० एस० ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3862 19-10-72	ग्राम दाभी, ता० पटलाद, जिला-खेड़ा

1	2	3	4	5
5936.	रमनभाई पटेल बेसता भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1972	3987 7-8-73	ग्राम और ता० अहवा, जिला डांग
5937.	रमनभाई पटेल छगनभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1975	5625 15-12-76	ग्राम लसनपोर, वाया अनावल, ता० महभा, जिला सूरत
5938.	रमनभाई पाटनी अमथाभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1976	6068 15-3-78	असारवा, चमनपुरा, पटानीनगर, सोसाईटी, अहमदाबाद
5939.	रमन भाई पटेल बबीलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1976	5898 20-9-77	ग्राम करणपुरा, ता- कावी, जिला- मेहसाना
5940.	रमनभाई पटेल काशीभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1973	6325 4-10-78	ग्राम और पो० आ० जोशीपुरा, ता० - ता० बोरसाद, जिला खेड़ा
5941.	रमनभाई पंचानी मगनभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1976	6458 15-1-79	ग्राम और पो० आ०- मन्डवा बसरगा, ता० अंकलेश्वर, जिला बरोच
5942.	रमनभाई पटेल राधबभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1977	6755 15-3-79	ब्लाक सं० 685/ 4495, नावा बापू नगर, अहमदाबाद
5943.	रमनभाई पटेल इ चन्नुभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1982	8967 12-3-84	ग्राम और पो० आ० बलवाका, ता० महुवा वाया करचेलिया, जिला सूरत
5944.	रमनभाई ठक्कर भिखाभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1969	2939 3-4-70	ग्राम गोरवा बाजार, बड़ीवा
5945.	रमनभाई बलान्द रमनभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1978	7663 10-4-80	ग्राम और पो० आ० पुन्सारी, ता० प्राणसीज जिला साबरकंथा
5946.	रमन पाटिल नीलकण्ठ	बी०एस०एम०एस० विदर्भ कोर्ड आफ एण्ड यू०सि० आफ० मेडिसिन महाराष्ट्र 1975	3705 1-1-72	ग्राम बदनोवा, ता० चोपाड़ा, जिला जलगांव
5947.	रमणीकलाल बलानी शामजीभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1975	5914 11-10-77	पटेल शेरी, ग्राम-भयावदार, ता०- उपलेटा, जिला राजकोट
5948.	रमणीकलाल भट्ट कन्जीभाई	बी०एस०ए सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, महाराष्ट्र 1961	3292 26-11-71	श्री गुरुप्रसाद कां० हाउ० सोसाईटी, ब्लाक नं० 20, मालवीय नगर गोंडाला रोड, जिला राजकोट
5949.	रमणीक लाल भट्ट जेठालाल	आयुर्वेद मिषक, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1960	7111 16-7-79	सेन्ट्रल बैंक बिल्डिंग, भट्ट फाली, ग्राम, जामनगर ।

1	2	3	4	5
5950.	रमणीकलाल भोजानी भगवानजी	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3236 1-9-71	मार्फत भोजानी कोटाजा एण्ड कं० सरकार रोड़, ग्राम-मोरबी, जिला- राजकोट ।
5951.	रमणीकलाल चदसमा मोहन लाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6280 20-9-78	ग्राम और पो० आ०-मवाना (कच्छरा- वालू) ता०-लालपुर, जिला जामनगर ।
5952.	रमणीकलाल दमानिया गंदा भाई	एल०ए०एम० यू० पी० आयु० महावि० पाटन, (बड़ौदा स्टेट) 1950	2011 8-10-41	ग्राम और पो० आ०-गोदसम्बा, ता० मन्दावी, जिला-सूरत ।
5953.	रमणीकलाल दवे सुन्दरजी	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3360 15-2-72	साल्पीपालिया, ता०-पट्टारी, जिला राजकोट ।
5954.	रमणीकलाल गांधी मूलजीभाई	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ दिल्ली 1958	7771 17-7-80	स्टेशन रोड़, ग्राम-वाकोर, ता०-धोकारा, जिला-खेड़ा ।
5955.	रमणीकलाल जरसानिया माधवजीभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5734 15-3-77	ग्राम-मोती मारड, वाया धोराजी, जिला-राजकोट ।
5956.	रमणीकलाल जोशी मोतीलाल	डी०ए०एस०एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू०,सि०आफ मेडीसिन, बम्बई, 1946	243 30-10-46	सरकार, ब्लॉक नं० 2, हीराचन्द देसाई रोड़, बम्बई-77 ।
5957.	रमणीकलाल जोशी जयशंकर	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3926 19-4-73	ग्राम-जोरा रोड़, ता०-सावरकुण्डाला जिला-भावनगर ।
5958.	रमणीकलाल जोशी गुलाबराव	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1961	7092 7-7-79	ग्राम-रनावन, जिला-जूनागढ़ ।
5959.	रमणीकलाल कलारिया कन्जीभाई ऊजज	बी०ए०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9511 12-6-86	ग्राम और पो० आ०-गिनानी, न्यु प्लॉट-360530, वाया जमजोधपुर, जिला जामनगर ।
5960.	रमणीकलाल कनबर केशवजी	वेद्याचार्य, नि० भा० आयु० विद्यापीठ दिल्ली 1971	6798 21-3-79	ग्राम-वीरादी, ता०-मलिया मंदिना, जिला-जूनागढ़ ।
5961.	रमणीकलाल मारादिया ओधावजी	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	5476 31-7-76	ग्राम-रयादी, ता०-जसकन्दोराना, जिला-राजकोट ।
5962.	रमणीकलाल मोशी कालीदास	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	--- 17-8-72	ग्राम-सन्धा वाया केशोद, ता०- मंगरोल, जिला-जूनागढ़ ।

1	2	3	4	5
5963.	रमणीकलाल पटेल चुनीलाल	डी०ए०एस०एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसन, बम्बई 1955	615 1-3-56.	भोगीलाल कट्टर बन्नाल कंकरिया रोड, सामने जुनी मिल्क डेरी, अहमदा- बाद ।
5964.	रमणीकलाल पटेल रनछोदभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4624 17-2-75	ग्राम—नावागाम, ता०—कालेबाब शितला, जिला—जामनगर ।
5965.	रमणीकलाध राठी छगनलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	2885 23-1-79	मार्फत मेमंस शेरी, ग्राम—टंकारा, जिला राजकोट ।
5968.	रमणीकलाल माह खालचन्द भाई	जी०एफ०ए०एम०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसन, गुजरात	1218 31-9-60	ग्राम—वधाई, ता०—अहमदाबाद, जिला— वांग ।
5967.	रमणीकलाल शैलादिय कुलेभजी	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5759 14-4-77	ग्राम—रंगनाथपुर, बाया चालाला, ता० खम्मा, जिला—अमरेली ।
5969.	रमणीकलाल अकर धीरजलाल	आयुर्वेद भिषक, वि० भा०, आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1956	6894 12-4-79	आयु० डिस्पेंसरी, ग्राम—हापुर, पो० आ०—बैठ, जिला—जामनगर ।
5969.	रमणीकलाल उपरध्याय वृजलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3745 2-2-73	नजदीक मस्जिद, ग्राम—महिका, बाया बाकनेर, जिला—राजकोट ।
5970.	रमणीकलाल पारिख हरजीवन दास	जी०एफ०ए०एम०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसन, बम्बई 1963	2332 9-12-66	लायबेरी रोड, ग्राम और ता०भाथी जिला—अमरेली ।
5971.	रमणीकलाल वाराजी सोमनाथ	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5418 4-6-76	मेघानी नगर, बी० नं० 82, आर० नं० 1958 अहमदाबाद ।
5972.	रमणीकलाल जोशी आदित्यराम	ए०वि० बी०, तिलक महाराज विद्यापीठ, पूना 1946	241 1-10-46	4/ए, सूदामापुरी, सोसाईटी, माकलपुर रोड, बडोदा ।
5973.	रमण लाल परमार पन्ना भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8944 17-2-84	ग्राम और पो० आ०—सेमोदा ता० पालनपुर जिला—बनासकांवा ।
5974.	रमणलाल पटेल हरीभाई	डी०ए०एस०एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसन, बम्बई 1953	1547 1-10-53	ग्राम—चलाला जिला—अमरेली ।
5975.	रमणलाल पटेल दयालजीभाई	डी०एस०ए०सी०, कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात	620 17-1-62	ग्राम—ता.केशवर ग्राम—किम, जिला सूरत ।

1	2	3	4	5
5976.	रमनलाल पटेलभाई शंकरभाई	डी० एस० ए० सी० कमेटी फ़ार आयु० वि० वि०, 1963	614 9-7-63	ग्राम—कोचिन्द्रा ता०—सन्खेड जिला—बड़ोदा ।
5977.	रमनलाल पटेल ईश्वर दास	आयुर्वेद मध्यमा श्रावण मास बक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ोदा 1978	7025 15-6-79	श्री जय प्रकाश सोसाईटी, अमराववाड़ी, अहमदाबाद ।
5978.	रमनलाल पटेल नागजीभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7684 22-4-80	4/31, गुजरात हाउ० बोर्ड, पीछे न्यू सिविल अस्पताल, अहमदाबाद-16
5979.	रमनलाल शाह छोटालाल	जी०एफ०ए०एम०, फ़ै० आफ़ आ० एण्ड यू० सि० आफ़ मेडीसन, बम्बई 1958	1212 2-8-58	ग्राम—टोताना, वायस पालनपुर, सा० कंकरेजा, जिला—बनासकंथा ।
5980.	रमनलाल शाह चन्डूलाल	जी०एफ०ए०एम० कमेटी फ़ार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1962	2572 21-8-67	धारी रनवाव बिल्डिंग, राम नगर, सावरमती, अहमदाबाद ।
5981.	रमनलाल त्रिवेदी कल्या शंकर	आयुर्वेद भिषक् नि०भा० आयु० विद्यापीठ, विल्ली 1972	6965 4-5-79	ग्राम जामका, ता०—धारी, जिला— अमरेली ।
5982.	रमनलाल वीर नाथू शंकर	डी०ए०एस०एफ०, फ़ै० आफ़ आ० एण्ड यू० सि० आफ़ मेडीसन, बम्बई 1948	1052 —	ग्राम और पो० आ०—बाड़ी, वाया नवसारी, जिला—वलसाड ।
5983.	रमनलाल वीर चन्डूलाल	डी०ए०एस०एफ० फ़ै० आफ़ आ० एण्ड यू० सि० आफ़ मेडीसन, बम्बई 1950	1051 30-12-50	ग्राम—मोभा रोड, ता०—पावरा जिला— बड़ोदा ।
5984.	रमनलाल व्यास गणपतराम	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4333 16-4-74	ग्राम—वानसोल, ता०—खेराचू, जिला मेहसाना ।
5985.	रम्भावेन राठीड़ लालजीभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8605 13-12-82	सिद्धार्थ चौक, दखोली, ग्राम—सूरत ।
5986.	रामभाई खूश्रान सिद्धीभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5613 3-12-76	ग्राम—खामभालासी, पो० आ०— रानपुर, ता०—मेसान, जिला—जूना- गढ़ ।
5987.	रामभाई गोटाडिया करमशी	बी०ए०एम०एस० गुजरात वि० वि० 1967	2510 13-6-67	मार्कस पाठक बेलानी गोकल क०, नजदीक साउथ वाव, ग्राम—केशोद, जिला—जूनागढ़ ।
5988.	रामभाई ओबोद्धा बेजाभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	8284 25-1-82	आयु० लेडीज होस्टल जामनगर ।

1	2	3	4	5
5989.	रामभाई पटेल माथुरभाई	बी०ए०एस०एफ० फ़ी० आफ आयु० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1957	625 1-8-57	मेडीकल आफिसर, ग्राम और ता०- धनारा, जिला-बनासकंधा ।
5990.	रामभाई पटेल छिताभाई	बी०एस०ए एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2930 20-3-70	नवजीवन सोसाईटी, ब्लॉक नं० 5, अजवा रोड, ग्राम-बड़ौदा ।
5991.	रामभाई पटेल ज्योतराम	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2945 6-4-70	ग्राम-हिम्मतनगर, पो० आ०-बाबोर, जिला-साबरकंधा ।
5992.	रामभाई पटेल जेठीदास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3365 16-2-72	ग्राम और पो० आ०-नादीशाला, ता०-विरामगाम, जिला अहमदा- बाद ।
5993.	रामभाई पटेल धुर्लभभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5658 29-1-77	अंदा चौक, सुश्रुत क्लिनिक, ग्राम- खेरगाम, ता० चिखाली, जिला- वलसाद ।
5994.	रामचन्द्र बेलछा साधूमल	वैद्याचार्य बि०भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1972	7667 10-4-80	सिद्धी कालोनी, ग्राम-पोडोच ।
5995.	रामचन्द्र अनन्त सीतारामदास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8192 12-10-81	ग्राम-दबाका, ता० पडारा, जिला- बड़ौदा ।
5996.	रामचन्द्र भट्ट शांतीलाल	वैद्य विशारद बि०भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1967	7148 25-7-79	आयु० डिस्पेंसरी, ग्राम-भुरखिया, बाया जामनगर, जिला-अमरेली
5997.	रामचन्द्र भावे गोपीनाथ	बी०ए०एम० एम० विदर्भ बोर्ड आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, महाराष्ट्र 1967	5427 24-6-76	217, बहुधरनगर सोसाईटी, सामने भोमी डाइंग मिल, वेव रोड, पो० आ० - सिंगर- पोर, सूरत
5998.	रामचन्द्र चौधरी प्रसाद चन्द्र	एच०पी०ए० पो०ने० ट्रेनिंग सेंटर इन आयु०, जामनगर 1955	183 3-5-62	दिवाकर फैमिली एण्ड अस्पताल, योगना श्री चन्द्रनिवास, हरीपुरा, मणि नगर, अहमदाबाद
5999.	रामचन्द्र देव मुरारी जानकीबास	आयुर्वेद भिषक, बि०भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1976	7245 30-8-79	सामने महाजन बाड़ी, रामकृपा भवन, ग्राम-मोती कुकवाव, ता०- कुकवाव, जिला -अमरेली
6000.	रामचन्द्र गवाणवे नारायणराव	बी०ए० एम०एस० विदर्भ बो० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, महाराष्ट्र 1961	1628 9-4-65	ग्राम-गोधरा, ता० मन्दावी, जिला कुच्छ

1	2	3	4	5
6001.	रामचन्द्र जोग त्रिम्बक	बी०एस०ए०सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, महाराष्ट्र 1959	8365 17-3-82	होग हाउस, मावा देवा, नजदीक कन्या, शाला, बरोच-392001 ।
6002.	रामचन्द्र राजपूत धर्म पाल	बी०ए०एम०एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9189 11-12-84	12/54 अहमद सुल्तान चाली सामने गवर्न० जी० कालोनी राजपुर, गोमती- पुर, अहमदाबाद-21 ।
6003.	रामचन्द्र मोर्या रामस्वरूप	आयुर्वेद शास्त्री नि०भा०आयु० वि०, दिल्ली 1979	8606 28-12-82	बचाला फालिया, ग्राम और पो० आ० नन्दाख, वाया बिलीमोरा, जिला-वल- साद ।
6004.	रामदत्त रावल जयन्तीलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5129 23-1-76	75, नन्दन सोसाईटी, बेहाय सेंटर शाहपुर, अहमदाबाद ।
6005.	रामदेववास बैष्णव रामबास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4952 23-9-75	श्री बाला हनुमान आश्रम, ग्राम लोभा जिला-मेहसाणा ।
6006.	रमेश चौधरी विट्ठल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4690 24-3-75	40/1, साधना नगर, करेली बाग ग्राम-बड़ौदा ।
6007.	रमेश जोशी काशीनाथ	बी०ए०एम०एस० विदर्भ बोर्ड आफ आ० एण्ड यु० सि० आफ मेडीसिन, महाराष्ट्र 1967	3957 13-6-73	ग्राम-सिंगपुर, ता०-सोनगध, जिला- सुरत
6008.	रमेश जोशी चुभ्रीलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6358 4-10-78	बी/2/ 42, रावी पार्क, "मधुकरुन्ड" नजदीक आखंगनन्द सोसाईटी, पीछे प्रगतिनगर, घाटलोदिया, अहमदाबाद ।
6009.	रमेश फादके गोपाल राव	आयुर्वेद उत्तमा श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1976	6786 21-3-79	राणाजी मन्दिर पोल, सामने गवर्न० प्रेस, रावपुरा, बड़ौदा-1 ।
6010.	रमेश पंडित रुन्डोवदास	आयुर्वेद उत्तमा श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1976	6494 1-2-79	48 मालवीय नगर, रामानुज, ग्राम-राजकोट ।
6011.	रमेश राठीड़ शान्तीलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	9089 20-7-84	भालगाम गायट, बहेलापारा, ग्राम- लिम्बाड़ी, जिला-सुरेन्द्रनगर
6012.	रमेश तन्ना गोविन्दभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5252 8-3-76	442/ए, सरदारनगर, अहमदाबाद ।
6013.	रमेश त्रिवेदी गौरीशंकर]	बी०ए०एस०एस०] गुजरात वि० वि० 1962	329 30-8-62	कौरेशन शिपिंग एजेन्सी, पोरबन्दर ।

1	2	3	4	5
6014.	रमेश वघेला हीरालाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6750 15-3-79	ग्राम—तरवाडी, जिला-भावनगर ।
6015.	रमेशभाई पटेल नरसिगभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3814 26-2-73	ग्राम—नादियाद, जिला—खेड़ा ।
6016.	रमेशभाई देसाई कान्तीलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3995 7-8-73	ग्राम—लिगाडा, ता०—आनन्द, जिला खेड़ा ।
6017.	रमेशभाई पटेल भीमभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4368 3-5-74	ग्राम—प्रकाश, ता०—शाहवा, जिला— धूलिया ।
6018.	रमेशभाई पटेल चतुरभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4458 27-8-74	ग्राम—कराचिया, ता० और जिला बड़ोदा ।
6019.	रमेशभाई पटेल महीजीभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4979 15-10-75	ग्राम—किखालोल, ता०—नोरसाद, जिला—खेड़ा ।
6020.	रमेशभाई पटेल धानाभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5862 30-8-77	ग्राम—मानजीपुरा, ता०—यसारा, जिला—खेड़ा ।
6021.	रमेशभाई पटेल खानदू भाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6015 2-2-78	ग्राम—कवठमाधी, पो० आ० — फलघारा, ता० और जिला बलसाद ।
6022.	रमेशभाई पटेल रामजीदास	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8172 10-9-81	ग्राम—खानपुरा, पो० आ०—उनाद, ता०—खोरालू, जिला—मेहसाना ।
6023.	रमेशभाई पटेल लल्लूभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9569 23-9-86	सुभाष शेरी, ग्राम—बालम—384310, ता०—वीसानगर, जिला—मेहसाना ।
6024.	रमेशभाई वेकारिया लालाजीभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8073 4-5-81	250, परमानन्द बाल, सामने अमरुती मील, सरसपुर, अहमदाबाद ।
6025.	रमेशभारथी गोसाई त्रिकामभारथी	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7377 29-10-79	ग्राम औरंगल, ता०—वेसोरिज, जिला—अहमदाबाद ।
6026.	रमेशचन्द्र आचार्य देवाशंकर	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5214 26-2-76	बी० नं० 19, साधना सोसाईटी, शाहीबाग, रोड़, अहमदाबाद ।
6027.	रमेशचन्द्र भट्ट भोगीलाल	बी०एस०ए०सी०, कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2432 13-3-67	वाडी, व्यादापोल, मजटीक खेखान्दी, हाउस नं० बीए/2707, बड़ोदा ।

1	2	3	4	5
6028.	रमेशचन्द्र आचार्य मोतीलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3199 9-6-71	ग्राम-पानेठा, ता०-जभादिया, जिला बरोच ।
6029.	रमेशचन्द्र बटवीया अमृतलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7201 20-8-79	ग्राम दुमयानी, बाया सुपेदी, ता०- उपलेटा, जिला-राजकोट ।
6030.	रमेशचन्द्र भक्ता रामभाई	डी०एस०ए०सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1961	799 9-7-62	ग्राम-भेस्तान, ता०-चोरासी, बाया उधना, जिला-सूरत ।
6031.	रमेशचन्द्र भट्ट राज शंकर	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०; 1974	4721 31-3-75	ग्राम-कन्ना, ता०-बन्थाली, जिला जुनागढ़ ।
6032.	रमेशचन्द्र भट्ट केशवलाल	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1945	7338 16-10-79	डा० आर० बी० पटेल चाल, सयाजी गंज, सामने कल्याण होस्टल, ग्राम- बड़ौदा ।
6033.	रमेशचन्द्र भट्ट देव शंकर	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	7738 6-6-80	ग्राम और पो० आ०केमला, ता०- हिम्मतनगर, जिला-साबरकंधा ।
6034.	रमेशचन्द्र चौहान खुबीराम सिंह	आयुर्वेद मध्यमा, श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, 1971	6518 1-2-79	11, आशीष नगर, सामने मेघानी- नगर, अहमदाबाद ।
6035.	रमेशचन्द्र घोकसी रतीबाब	जी०एफ०ए०एम०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, गुजरात 1961	180 15-2-62	डा० आर० एस० चोकसी, सन्त पिपाली, ग्राम-नादियाड, जिला-खेड़ा ।
6036.	रमेशचन्द्र बेसाई मनुभाई	जी०एफ०ए०एम०, फै० आफ आयु० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1957	437 1-7-58	पटेल चाल, नानी मेहता बाड़, जिला- वलसाड ।
6037.	रमेशचन्द्र बेसाई मणीलाल	डी०एस०ए०सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1735 22-6-65	ग्राम-साधली, बाया मियागाम, जिला- बड़ौदा ।
6038.	रमेशचन्द्र रेवानी नारनदास	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6016 2-2-78	गवर्न० गेस्ट हाउस, ग्राम-बागदु, बाया मेंदाराडा, जिला-जुनागढ़ ।
6039.	रमेशचन्द्र बवे मूलशंकर	जी०एफ०ए०एम०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, गुजरात 1961	2603 8-11-67	ठाकर फालिया जालद रोड़, ग्राम- दहेद, जिला-पंचमहल ।

1	2	3	4	5
6040.	रमेशचन्द्र दवे हरीलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5005 20-10-75	जैल रोड़, गजानन्द भवन, ग्राम- मोरबी, जिला-राजकोट ।
6041.	रमेशचन्द्र दवे अम्बालाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5271 9-3-76	9 / 1325, बालाजी रोड़, ग्राम- सूरत ।
6042.	रमेशचन्द्र दुबे जगन्नाथ	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5091 18-12-75	ग्राम-अभाव, वाया वेसू, ता०-बोर,- यासी, जिला-सूरत ।
6043.	रमेशचन्द्र गुप्ता बाबूलाल	ई०ए०एस०एफ० फै० आफ० आ० एण्ड यू०सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1955	155 2-4-56	रामा निकेतन राजहंस सोसाईटी, इल्लिशबिज, अहमदाबाद ।
6044.	रमेशचन्द्र जानी रवीशंकर	डी०ए०एम०एस० गुजरात वि०वि० 1966	2346 26-12-66	रूवापारी गेट कशियाबाव नलियारबन्सी बखार, ग्राम-भावनगर ।
6045.	रमेशचन्द्र जोबनपुत्रा धनाजी भाई	बी०ए०एम०एस० कानपुर वि०वि० 1973	4353 24-4-74	मोघस्ट्रीट, हवेली चौक, ग्राम और ता०- वेरावल जिला-जूनागढ़ ।
6046.	रमेशचन्द्र जोशी बापूलाल	डी०ए०एस०एफ० फै० आफ० आ० एण्ड यू०सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1952	245 1-11-52	जलोद रोड़, ग्राम और ता०- दहोद जिला - पंचमहल ।
6047.	रमेशचन्द्र जोशी भगवानदास	बी०ए०एम०एस० गुजरात वि०वि० 1963	246 7-8-63	10/960, अमलीरान, सूरत-1 ।
6048.	रमेशचन्द्र जोशी जमनादास	बी०ए०एम०एस० गुजरात वि०वि० 1967	2550 19-7-67	पो० आ० रोड़, खम्भालिया, वाया जम जोधपुर, जिला-जामनगर ।
6049.	रमेशचन्द्र जोशी गौरीशंकर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1968	2831 30-8-69	ग्रामा- नवानिया, वाया जोरावर नगर, ता०-मुली, जिला-सुरेन्द्रनगर ।
6050.	रमेशचन्द्र जोशी लाभशंकर	बी०एम०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1968	2771 19-4-69	नजदीक पुनीत आश्रम, पीछे बालवाटिका स्टेट बैंक आफ इण्डिया, खांच मणिनगर, अहमदाबाद ।
6051.	रमेशचन्द्र जोशी मगनलाल	बी०एम०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1971	3718 5-1-73	नात्रागाम, पो० आ०- दिलखा जिला- जूनागढ़ ।
6052.	रमेशचन्द्र जोशी भानू प्रसाद	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1975	5389 13-5-76	वेरावसन, ग्राम-बीजापुर जिला-मेहसाना ।

1	2	3	4	5
6053.	रमेशचन्द्र जोशी कालीदास	आयुर्वेद अध्ययन श्रावणम स दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ीदा 1965	6731 9-3-79	87, निवानानीयल सोसाईटी नारमपुरा, अहमदाबाद ।
6054.	रमेशचन्द्र कदीवार भगवानजी	ए०एस०एफ० जी०सी०एस०एफ० आयु० मेडी० प० बंगाल, (नाच प० बंग आयु० परिषद, कलकत्ता) 1977	8458 15-6-82	चारनी क्लिनिक, पो० आ० - छानी, जिला- बड़ीदा ।
6055.	रमेशचन्द्र लिम्बानी लालजी भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1978	7382 16-11-79	मार्फत डा० बी० आर० लिम्बानी मृत्यु- किशोर, ग्राम-विताल, ता० और जिला- अमरेली ।
6056.	रमेशचन्द्र मकवाना जीवाभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1982	9549 18-8-86	मार्फत मकवाना जीवाभाई कुरजीभाई, ग्राम-जमकंबोराणा - 360405 वाया घोराजी जिला-राजकोट
6057.	रामचन्द्र मालविया पन्नालाल	बी०ए०एम०एस० विक्रम वि०वि० 1977	8109 2-7-81	ग्राम-शालावाड़ा, जिला-खान्दवा, ईस्ट निनार (म० प्र०) ।
6058.	रमेशचन्द्र मिस्त्री हीरालाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1978	7632 20-3-80	2/4445 शिवदास जेवियर शेरी, सगराम- पुरा, ग्राम-सूरत ।
6059.	रमेशचन्द्र मोदी शास्त्रीलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1970	3223 10-8-71	मोदी मेडीकल स्टोर्स, उकाई-वेम, जिला-सूरत ।
6060.	रमेशचन्द्र मोदी कान्तीलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1971	3625 30-9-72	सामने रानीबाग, खेड़ा जिला पंचायत स्टाफ क्वा० नादियाड़, जिला-खेड़ा ।
6061.	रमेशचन्द्र नेतुजी हारकादास	डी०एस०ए०सी कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2492 22-5-67	ग्रामा-कटकौला, ता० - धरवाड़, जिला जामनगर ।
6062.	रमेशचन्द्र नायक जीवनजी	डी०ए०एस०एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1951	482 10-10-51	सिविल अस्पताल, ग्राम ब नवारी जिला- वलसाद ।
6063.	रमेशचन्द्र ओझा । शास्त्रीलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1973	4567 4-11-74	खाराकुवा रोड, नजदीक नाल, ग्राम- सिहोर, जिला-भावनगर ।
6064.	रमेशचन्द्र पांडेया प्रह्लादजी	जी०एफ०ए०एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० मेडीसिन बम्बई 1960	768 23-10-61	23, नवजीवन सोसाईटी नजदीक न्यू गंज बाजार ग्राम-पाटन जिला-मेहसाना ।

1	2	3	4	5
6065.	रमेशचन्द्र पांड्या अम्बालाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1974	4737 3-4-75	जवाहर चौक, पटेल सोसाईटी बी० नं० 31, मणीनगर, अहमदाबाद
6066.	रमेशचन्द्र पांड्या लछाराम	वैद्य विशारद नि०भा० आयु० विद्यापीठ दिल्ली 1967	7083 5-7-79	बातुक स्मृति, नजदीक रेलवे स्ट्रीट, ग्राम- अमरेली
6067.	रमेशचन्द्र पारिख रतीलाल	आयुर्वेद मध्यभा श्रावण मास दक्षिणा परीक्षा समिति बड़ौदा 1973	6726 9-9-79	सत्योन्नतनगर 6/160, नजदीक नगरावेल नसुमान, रखियाल, जिला - अहमदाबाद
6068.	रमेशचन्द्र परमार सुभासीबास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1972	3941 5-5-73	ग्राम-मान्देर, ता० - धारी, जिला- अमरेली
6069.	रमेशचन्द्र परमार सुभासीबास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1979	7863	ग्राम धौर पो० आ० - पिल्लुन्ना ता० - 10-10-80 बड़गाँव, जिला - बनसकांथा
6070.	रमेशचन्द्र पटेल जोईताराम	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1971	3604 15-9-72	ग्राम-मोरवाड़, पो० आ०-डिलिया ता० बीजापुर, जिला - मेहसाना
6071.	रमेशचन्द्र पटेल प्रेमजीभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1974	5017 28-10-75	ग्रामा-मोटा सुरका, बायाशिहोर, जिला- भावनगर
6072.	रमेशचन्द्र पटेल गोकलभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1976	5869 30-8-77	ग्रामा-जम्बूखोड़ा, जिला - पंचमहल
6073.	रमेशचन्द्र पटेल बहूयाभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1976	5959 4-11-77	ग्राम-सोखादखुराडा, ता०-वेवारा, जिला- बड़ौदा
6074.	रमेशचन्द्र पटेल मनूभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1977	7080 5-7-79	गायत्री क्लिनिक, 109/1886, सुन्दरम, नगर, (जी० एच० बी०), रखियाल ता०- नाका, गुज० बोटासिंग, अहमदाबाद
6075.	रमेशचन्द्र पटेल ग्रामसबास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1979	7829 25-9-80	ग्राम- सोनलसन, ता०-प्राणतीज, जिला- साबरकांथा
6076.	रमेशचन्द्र पटेल जीवनजी	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1979	7884 14-11-80	ग्राम धौर पो० आ०- मोटा वेघोदिया, ता०-पारदी, जिला-वलसाड

1	2	3	4	5
6077.	रमेशचन्द्र पटेल रामभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1979	7941 17-1-81	ग्राम और पो० आ० - पन्डवा, ता०-बासा- सिनोर, जिला-खेड़ा
6078.	रमेशचन्द्र पटेल नरथाभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1968	7960 3-2-81	ग्रामा और पो० आ० - कोयावाम, ता०- बासा सिनोर, जिला - खेड़ा
6079.	रमेशचन्द्र पटेल माधवलाल	बी०ए०एम०एस० गुजरात आयु० वि०वि० 1984	9501 12-5-88	गायत्री क्लिनिक, ग्राम और पो० आ०- आदिया, ता०-हरीज, जिला-मेहसाणा
6080.	रमेशचन्द्र पुरोहित फूलशंकर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1974	5014 28-10-79	ग्रामा-करोली, ता० - महेन्दाबाद, जिला- खेड़ा
6081.	रमेशचन्द्र राजगुरू शम्भू प्रसाद	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1971	3478 11-4-72	ग्राम-गधाड़ा, जिला - भावनगर
6082.	रमेशचन्द्र राठी हरगोविन्दवास	आयुर्वेद भिषक नि०भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1978	7117 16-7-79	बाराजी शेरि, नजदीक गवने० डिस्पेंसरी, ग्राम-विछीया, ता०-जेशावन, जिला- राजकोट
6083.	रमेशचन्द्र रावल प्रह्लादजी	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1974	4750 7-4-76	सोनी, फाली, ग्राम-साजोद, ता०-अकेरबद, जिला-बरोच
6084.	रमेशचन्द्र शाह चन्लाल	बी०ए०एम०एस० गुजरात आयु० वि०वि० 1963	1831 19-6-69	नजदीक हाजी बिल्डिंग, जमालपुर चकला, अहमदाबाद
6085.	रमेशचन्द्र शाह मनसुखलाल	जी०एफ०ए०एम० ई० आफ आ० एण्ड यू०सि० आफ मेडीसिन, गुजरात 1963	1379 26-12-83	186, सर्वोदय नगर, आउट साइड, शाहपुर गेट, अहमदाबाद
6086.	रमेशचन्द्र शाह चन्लाल	जी०एफ०ए०एम० ई० आफ आ० एण्ड यू०सि० आफ मेडीसिन, गुजरात 1963	1409 20-2-84	49/बी० अनिलदास सोसाईटी, भीमाजी- पुरा, नावा बड़जा, अहमदाबाद
6087.	रमेशचन्द्र शाह बसन्तलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1973	4267 18-3-74	ग्राम-नवाड़ी, जिला - बड़ोचा
6088.	रमेशचन्द्र शाह बबि लाल	बी०एस०ए०सी० कमेटी फॉर शुद्ध आयु० कोर्स गुजरात 1965	1900 27-12-65	वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामा डिस्पेंसरी, ता०- पटावी, जिला - सुरेन्द्रनगर

1	2	3	4	5
6089.	रमेशचन्द्र शाह रत्तीलाल	बी०एस०ए०सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1968	2397 16-2-67	1/192, अदागरा मौहल्ला, नामपुरा, जिला- सूरत
6090.	रमेशचन्द्र शर्मा धनु रभाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1975	5454 14-7-76	तम्बोली वादो, ग्राम- काधी, जिला-मेहसाणा
6091.	रमेशचन्द्र शाह मोहनलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1975	5836 25-7-77	ग्राम-तालोद, ता०-प्राणतीज, जिला- साबरकंधा
6092.	रमेशचन्द्र शाह सौभाग्यचन्द्र	आयुर्वेद मध्यमा श्रावण मास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6576 16-2-79	पुलिस स्टेशन के सामने, बाजार सानी, ग्राम-मेहसाना
6093.	रमेशचन्द्र शास्त्री यमुनादास	आयुर्वेद उत्तमा नि०भा आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1973	8839 6-9-83	ए०-6/1, गोदावरी नगर फ्लैट, विभाग-1, वासना, पालादी, अहमदाबाद-7
6094.	रमेशचन्द्र शुक्ल छोलेशंकर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1971	3317 21-1-72	सी०-24, रेलवे स्ट्रीट रोड, भावनगर
6095.	रमेशचन्द्र ठाकर गणपतराव	बी०एस०ए०सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, महाराष्ट्र 1960	1555 1-5-60	मालू, ता०-संखेडा, जिला-बड़ौदा
6096.	रमेशचन्द्र ठाकर अम्बालाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1976	5434 18-6-76	ग्राम-धरमपुर, ता० - काटी, जिला- मेहसाना
6097.	रमेशचन्द्र ठाकर मटवरलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1976	6023 16-2-78	ग्राम-पडगाम; पो० आ० - वासम, जिला- बीसनगर
6098.	रमेशचन्द्र ठाकर रामशंकर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1977	6868 28-2-79	कंसारपोल, ग्राम-बीसनगर, जिला- मेहसाना
6099.	रमेशचन्द्र ठाकर नागर दास	वैद्य विशारद नि०भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1968	7405 29-11-79	ग्राम-मालनपुर, ता० - दवाडा, जिला- सुरेन्द्रनगर
6100.	रमेशचन्द्र ठाकर हरगोवनदास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1981	8603 13-12-82	ग्राम-भाभर, ता० - दिवोदर, जिला- बनासकंधा

1	2	3	4	5
6101.	रमेशचन्द्र तिलवत सुलसीवास	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु वि०वि० 1979	7985 25-2-81	ग्राम—रामपुरा (गीर) वाया अंकोलवाडी, ता०—सलाला, जिला—जूनागढ़
6102.	रमेशचन्द्र त्रिवेदी बहुयालाल	डी०ए०एस०एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० लि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1955	5146 1-9-55	ग्राम—नावी सिनोल, ता०—मोदसा, जिला— साबरकंधा
6103.	रमेशचन्द्र त्रिवेदी चन्द्रलाल	डी०एस०ए०सी० कमेटी आफ शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1962	328 15-6-62	मार्फत अरविन्दकुमार सी० त्रिवेदी, रतन खाँवकी, घानासुतार पोल, कालुपुर, अहमदाबाद
6104.	रमेशचन्द्र त्रिवेदी कान्तीलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1969	2998 14-7-70	श्री शंकर बेहूनपोल, ग्राम—गांधी, जिला— खेड़ा
6105.	रमेशचन्द्र त्रिवेदी रतीलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1972	4054 19-9-73	12/2, श्री कृष्णानगर, पाटे 1, नावा बवज, अहमदाबाद
6106.	रमेशचन्द्र त्रिवेदी गोविन्द जी	आयुर्वेद भिषक् नि०भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1961	6586 16-2-79	बी०-4, ई० एस० आई० डिस्पेंसरी, क्वा० मं० जी०/1, नजदीक बम्बई गारिज, शाहीबाग, अहमदाबाद
6107.	रमेशचन्द्र उपाध्याय जगन्नाथ	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1970	3177 16-4-71	ग्राम—अदेश्वर, ता० और जिला—बोच
6108.	रमेशचन्द्र वरु गंगाराम भाई	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1974	4823 2-5-75	वैद्यन्त शेरी, न्यू कार्ट रोड, भुज, कच्छ
6109.	रमेशचन्द्र वैद्य मणिशंकर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1971	3682 13-11-72	गायत्री डिस्पेंसरी, ग्राम—मवादी, जिला— राजकोट
6110.	रमेशचन्द्र बोरा गौरीशंकर	डी०एस०ए०सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1962	1078 7-12-62	संजीवनी अस्पताल, ग्राम—इवार, जिला— साबरकंधा
6111.	रमेशचन्द्र व्यास अमृतलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1970	3135 22-2-71	ग्राम और पो० आ० — खिजविया, ता०— वाकनेर, जिला — राजकोट
6112.	रमेशचन्द्र व्यास रतीलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु० वि०वि० 1972	4033 30-8-73	बाबा शेरी, ग्राम — शिनोर, जिला— भावनगर

1	2	3	4	5
6113.	रमेशचन्द्र व्यास मनिशंकर	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1975	7159 2-8-79	विजय प्लाट, झेरी नं० 9, गायत्री कृपा, ग्राम—राजकोट-2 ।
6114.	रामचन्द्र व्यास गंगाराम	आयुर्वेद उल्लेख, श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1951	7198 20-8-79	ग्राम—खेरनाम, ता० विद्याली, जिला—बलसाह ।
6215.	रमेशचन्द्र व्यास फिरोजजी	बी० एस० ए० एम०, इन्दौर वि० वि०, 1976	8138 21-8-81	व्यास भवन, ग्राम व्यासगढ़, जिला—मनसौर (म० प्र०) ।
6116.	रमेशचन्द्र जिसुवाडिया प्रभूदास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5987 6-12-77	मजदीक स्वामीनारायण मन्दिर, ग्राम पादियाह, जिला—खेड़ा ।
6117.	रले व कुमार बगन मणोलाल	डी० ए० एस० एफ०, फै० आफ आयु० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1954	804 2-8-54	ग्राम—कोसिप्रा, ता० सबोडा, जिला—बड़ौदा ।
6118.	रमेशकुमार पटेल मणीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5467 22-7-76	704 मोतीस मिपारी पोल, बरियापुर, धार रास्ता, अहमदाबाद ।
6119.	रमेशकुमार पटेल रोवामाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8057 27-4-81	मजदीक जूना हाउस, ग्राम कालोल, जिला— मेहसाणा ।
6120.	रमेशकुमार पटेल मणीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8245 24-12-81	माधो कुमारवाड़ी, ग्राम भीर पो० आ० धाकोर, ता० धासर, जिला—खेड़ा ।
6121.	रमेशकुमार पटेल कास्तीनाम	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	8938 17-2-84	गवर्न० “इ” कालोनी, सरसपुर ब्लॉक नं० 77/301, सामने अम्बर, सिनेमा, अहमदाबाद -24
6122.	रमेशकुमार राजल काशीराम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6318 27-9-78	2160, किशोर गलियारा धावकी, बाबट साइड अमटोडिया गेट, अहमदाबाद ।
6123.	रमेशकुमार शर्मा मीनामाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8870 1-12-83	बी० नं० 39, मध्यमवर्ग सोसाइटी ग्राम वाहवाकी गाम, (मजदीक नारोल) ता० सिटी, जिला—अहमदाबाद ।
6124.	रमेशकुमार सोलंकी भीरजीभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	7-5-79	मार्केट डा० बी० एम० सोलंकी, ग्राम बाबडा, ता० साबरकुमवाला, जिला—भावनगर ।
6125.	रमेशकुमार सोनी शंहरलाल	बी० ए० एम० एम०, बोर्ड ई० मेडिसिन, हैदराबाद 1978	8849 6-10-83	ग्राम भीर पो० आ० हवामडी, बाया घडोद, ता० जालोड, जिला—पंचमहल-389 180 ।
6126.	रामेश्वर गुप्ता शंकर लाल	बी० ए० एम० एम० विक्रम वि० वि० 1976	6508 1-2-79	ग्राम लोहारी, ता० नुसकी, जिला धार
6127.	रामेश्वर गुप्ता नारायण भाई	बी० ए० एम० एम० इन्दौर वि० वि० 1974	8459 15-6-82	सववाडा गांधी चौक, पीठे जामनभाई-दिल्लेंसरी, ग्राम बड़ौदा
6128.	रामेश्वर पाटिड भीकाजी	बी० ए० एम० एम० सागर वि० वि० 1974	8128 4-8-81	ग्राम भीर पो० आ० सिगाम, ता० कासरवाड जिला प० निमार (म० प्र०)

1	2	3	4	5
6129.	रमीलाबेन वदेरा बह्याभाई	बी० एस्० ए० एम्० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4883 3-12-74	सर्वोदयनगर खोबरा महमेदाबाद गुज० हाउ० बोर्ड, ब्लाक नं० 164/1293, अहमदाबाद-8
6130.	रमीलाबेन पटेल विनोबकुमार	बी० एस्० ए० एम्० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3344 8-2-72	9/बी गवर्न० कालोमी, दाशबंगला गुलाबी टोकरा, अहमदाबाद
6131.	रामजी कमरिया बीबन भाई	बी० एस्० ए० एम्० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3032 20-8-70	ब्लाक नं० 18, प्लाट नं० 181, आनन्द नगर, कालोमी, राजकोट
6132.	रामजी कोषामी राजजी	बी० ए० एम्० एस्० गुजरात वि० वि० 1963	1777 30-7-65	खलबाद प्लाट, ग्राम क्षेत्राजी, जिला राजकोट
6133.	रामजी मलानी सुराभाई	बी० एस्० ए० एम्० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4024 30-8-73	मार्फत शाह भीमसी मेवाजी, ग्राम लकाडिया, ता० भाची, जिला कच्छ
6134.	रामजी सिद्धापुत्र वासुभाई	बी० एस्० ए० एम्० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4437 1-8-74	ग्राम जमका, वाया मेनदारदा, जिला जूनागढ़
6135.	रामजी वीरादिया लावजीभाई	बी० एस्० ए० एम्० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7794 28-8-80	ग्राम-अमरनगर, वाया वड़िया, ता० जेतपुर, जिला-राजकोट
6136.	रामजी विठानी गोपाल भाई	बी० एस्० ए० एम्० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3645 9-10-72	रामलबास, ग्राम तिगाला जं०, जिला-भावनगर
6137.	रामजी भाई भलानी बाबजीभाई	बी० एस्० ए० एम्० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4736 3-4-75	ग्राम-कल्याणपुर, पो० आ० बल्लभपुर, जिला भावनगर
6138.	रामजी पटेल अनन्यभाई	बी० ए० एम्० एस्० गुजरात वि० वि० 1968	2041 8-8-66	ग्राम-कानपुर, पो० आ० शेठवाहला, वाया मोली पनेली, ता० जमजोधपुर, जिला-जामनगर
6139.	रामकृष्ण दवे जैठालाल	बी० एस्० एम्० एम्० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3584 29-8-72	संस्कृति पाठशाला, नजदीक शंकर आश्रम, ग्राम मोराबी, जिला राजकोट
6140.	रामकृष्ण जोशी बाल शंकर	बी० ए० एम्० एस्० गुजरात वि० वि० 1967	2624 30-12-67	मार्फत बाल शंकर जे० जोशी, ब्राह्मण नमोताभास हनुमान रोड, ग्राम-पालनपुर, जिला बनासकांथ
6141.	रामकृष्ण पाठक महावीर	बी० एस्० ए० एम्० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2788 17-6-69	ई० एस्० आर्जू० एस्० डिस्पेंसरी, डी 36, बलास-2 क्वा० सामने रामजी हाल, जवाहर चौक, मणिनगर, अहमदाबाद
6142.	रामकुमार शर्मा मन्व किशोर	बी० एस्० ए० ए० सी० कमेटी थार बुद्ध आयु० कोर्स महापात्र 1962	21-3-63	आयु० डिस्पेंसरी, ग्राम सेगमा, पो० आ० सिबली, जिला-सूरत
6143.	रामनारायण गुप्ता	बी० ए० एम्० एस्० इन्वीर वि० वि० 1975	6168 20-5-76	एम० ओ० बाला, पार ता० मन्दावी, जिला-कच्छ
6144.	रामनारायण का श्रीकांतलाल	बी० एस्० ए० एम्० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3368 16-2-72	मार्फत श्री सोभाकान्त का, स्वामीनारायण जी, बाबी, नजदीक सिरधरनगर, क्रासिंग अहमदाबाद
6145.	रामनिवासबाई पंफहित वासुकृष्णबाई	बी० एस्० ए० एम्० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3065 21-10-70	ग्राम-दाभाला, 12 वीजापुर, जिला मेहसाणा

1	2	3	4	5
6146	रामप्रसादपुरोहित मुञ्जराय	बैद्याचार्य नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1974	7076 30-6-79	सोमनाथ कालिया, ग्राम चोरबाड़ा, जिला जूनागढ़
6147	रामशंकर जोशी जेशाबाई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3546 16-8-72	ग्राम—हाथड़ा, तालुका जिहोर, जिला भावनगर
6148	रामसिंह बारिया किङ्कियाबाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4287 23-3-74	ग्राम पुडेपुरा, ता० सल्लारामपुर, जिला पंचमहल
6149	रामस्वरूप शिबेवी प्रमोद राय	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4751 7-4-75	हरियाला क्लॉट नं० 68, नजदीक प्रभुसस तलाब, ग्राम—भावनगर
6150	रामभाई धारिया जेशाबाई	एल० ए० एम० मू० पी० आयु० महा० वि० पाठन (बड़ोवा स्टेट) 1940	1531 7-9-40	ग्राम—कस्त रोड़, ता० गोधारा जिला पंचमहल
6151	रामवीर शर्मा रामनरेश	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9263 9-4-85	ग्राम—औरपो० आ० रिदरोल, ता० बीजापुर जिला—मेहसाणा
6152	रामराज गुप्ता बाबूबाब	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8928 8-2-84	कम नं० 90, सोसाईटी नाली, जमरायवाड़ी, रोड़, अहमदाबाद-26
6153	रामाभाई बराड़ श्रीविद्या	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	6760 15-3-79	ग्राम देवाली, ता० कडनोर, जिला—त्रनरेला
6154	राणाप्रताप सिंह फतेहसिंह	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2900 16-2-70	ह्राउ० बीड कालोनी, रोड़ नं० 286, गारी रोड़ कनभारबाड़ा, ग्राम—भावनगर
6155	रंछोव कंसलगरा मानजीभाई	बैद्याचार्य नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1967	6957 3-5-79	ग्राम—राणा खीरसार-ता० राजाबाब, जिला— जुनागढ़
6156	रंछोव सुधार जेशाबाब	एम० एफ० ए० एम० फो० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसन बम्बई 1972	7450 21-12-79	ग्राम जीर पो० आ० जोहल, ता० इषार, जिला साबरकंधा
6157	रंछोवभाई मानेरा बाकुभाई	आयुर्वेद भिषक् नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1974	6776 21-3-79	14, गुण्ठावा, ग्राम—राजकोड
6158	रंछोवभाई बोबारिया शामजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5905 28-9-77	749/5006, बापूनगर, [अहमदाबाद
6159	रंछोवभाई कनाई बेजजी साई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5381 10-5-76	ग्राम—जम्बुवा, जिला भावनगर
6160	रंछोवभाई पटेल गंगाराम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5369 30-4-76	ग्राम—बाखीसना, ता० पाठन, जिला—मेहसाणा
6161	रंछोवभाई पारेषा गंगजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	5083 18-12-75	ग्राम अलीबाड़ा, नजदीक भोरा, ता० भीर जिला भावनगर
6162	रंछोवभाई पटेल रामा भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8220 17-11-81	ग्राम—भीर पो० आ० कोयदास ता०—बासावकर, जिला—खेडा

1	2	3	4	5
6163	रंछोदभाई सिद्धाव मारनभाई	आयुर्वेद उत्तमा श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ोदा 1978 बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	6887 12-4-79	ग्राम-बालोल (भाल) ता० सिमावी, जिला सुरेन्द्रनगर ।
6164	रंछोदभाई सोरधिया भगवानजी भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7354 29-10-79	ग्राम क्षारेदी, बायाभीरणी, जिला राजकोट ।
6165	रंछोदभारती बाबा पसाभारती	आयुर्वेद मध्यमा श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ोदा 1976	6718 9-3-79	ग्राम परपार, ता० काली, जिला मेहसाना ।
6166	रंछोदबाल पांड्या आश्रम	एस्० ए० एम० यू० पी० आयु० महा० वि०, पाटन (बड़ोदा स्टेट) 1938	1525 8-3-44	ग्राम-बछोदिया, जिला बड़ोदा ।
6167	रंछोदबाल त्रिवेदी हरगोविन्ददास	डी० ए० एम० एफ० वे० आर्क भाई एण्ड यू० मि० आर्क मेडिसिन बम्बई 1947	330 31-5-48	ग्राम और ता० खेवराह्या जिला साबरकांवा
6168	रमधीर बेसाई जिवाभाई	आयुर्वेद अनेकार आयु० कालज गुरुकुल, वि० वि० कांगड़ी (हरिद्वार) 1928	435 3-11-41	ग्राम और पो० आ० विजालपुर बाया मबसारी जिल बलमाव ।
6169	रंणधीर मिह प्रतापसिंह	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6799 21-3-79	मेन रोड, ग्राम भोलपाड़ जिला सूरत ।
6170	रानेगहोदभाई पटेल रेवाभाई	आयुर्वेद उत्तमा श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ोदा 1976	6355 12-2-79	वैद्यकीय अधिकारी गवन० औषधालय, बनस्पति एकत्री करण सेंटर, खेवरेहाग ।
6171	रंजन पटेल मनुभाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8325 10-2-82	ग्राम और पो० आ० अलागत, ता० बालीव, जिला सूरत ।
6172	रंजन रील दीपसिंह	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4962 4-10-75	5 उमियादवी सोसाईटी खोबार, महेश्वराबाद अहमदाबाद ।
6173	रंजन ब्यास द्विभक्तलाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3431 14-3-72	प्लॉट नं० 10 रेलवेत हाउस सोसाईटी, भातगर- पारा, भावनगर ।
6174	रंजनबाला कोठारी वनीचन्द भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3632 3-10-72	मार्फत बी० बी० मेहता, नजदीक कायस्थ अम्बाली, महालक्ष्मी चौक, ग्राम-आमनगर ।
6175	रंजनबाला पटेल नाननभाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5213 26-2-76	मार्फत बालूभाई आर० पटेल रामनिवास, प्रणजी मन्डिर, ग्राम नादियाड़, जिला खेड़ा ।
6176	रंजनबाला शेट पुण्यबदन	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	8386 24-3-82	ए-8 सुमनगानम अपार्टमेंटस बरछा रोड, सूरत
6177	रंजनबेन बाहू रसिकलाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5526 17-9-78	ग्राम-और पो० आ० अम्बालियारा ता० बयाद, जिला साबरकांवा ।

1	2	3	4	5
6178.	रंजीतकुमार पारिख मटबरनाथ	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5887 20-9-77	बहेन गली, गोला बाड़ी पीछे जोधफ बाग, ग्राम-बड़ौदा ।
6179.	रंजीतकुमार पटेल अम्बालाल	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9567 23-9-86	ग्राम-लक्ष्मणपुर, पो० आ०-बाधिसु बाया कल्याणपुरी, ता०-काशी, जिला-मेहसाणा ।
6180	रंजीतराय देसाई नारायणजी	आयुर्वेद अलंकार आयु० कानेज गुरुकुल वि० वि० कांगड़ी (हरिद्वार) 1931	434 6-5-40	50 महादेवनगर सगरामपुरा सूरत-2
6181.	रंजीतसिंह चौहान तखतसिंह	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3551 17-8-72	नाभा राजपुर फालिया, ग्राम-बेबगढ़, फालिया, जिला-पंचमहल ।
6182.	रंजीतसिंह जंबेजा भूपतसिंह	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3731 17-1-73	ग्राम-इकमाड़िया, पो० आ०-अदिया ता०- गोथवाल, जिला-रायकोट ।
6183.	रंजीतसिंह सोलंकी दीनतसिंह	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4425 2-7-74	ग्राम-साभिया कंदा, ता०-बोरयासी, जिला-सूरत ।
6184.	रंजीत सिंह सोलंकी जयसिंह	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5643 30-12-76	ग्राम-लिसेट, ता०-जगदिया, जिला-बरीच ।
6185.	रंजीत सिंह बंसिया नटबरसिंह	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात वि० वि० 1965	1749 30-6-65	ग्राम-सचिन, ता०-धोयासी, जिला-सूरत ।
6186.	रंजीतसिंहजी आणु गोविंदसिंहजी	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात वि० वि० 1968	2685 27-6-68	ग्राम-खालपुर, जिला-जामनगर ।
6187.	रंछोवभाई शाह देवधरभाई	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	4-6-76	मार्फत कान्ताबेन डी० सोनी, बाणीबाव, पो० आ० ग्राम-अरारा, जिला-सूरत ।
6188.	रणसांग परनार रतुभाई	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	6270 11-9-78	ग्राम और पो० आ०-इछावाड़ा, ता०-बासड़ा जिला-सुरेन्द्रनगर ।
6189.	रणवहीब बालधा लधाभाई	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	8440 31-5-82	मार्फत धुदभाई जे० शाह, ए० डी० बकरी भवन, सत्यनारायण मणिर रोड़, ग्राम-जामनगर ।
6190.	रसाकभाई पुरोहित मनुभाई	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6765 21-3-79	ग्राम-गवासय, ता०-पावरा, जिला-बड़ौदा ।
6191.	रसबिहारी मुन्शी वासुदेव	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4224 21-2-74	मणीप्रतापरा, आर० बी० देसाई रोड़, अशोक कालोनी, ग्राम-बड़ौदा ।
6192.	रशमी जोगिया रमेशचन्द्र	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9613 21-11-86	शाहपुर बहाय, सेंटर 35, मन्वाम सोसाईटी अहमदाबाद-1
6193.	रशमी मेहता इन्दरबदन	जी० एफ० ए० ए० ए० फ० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1960	4408 12-6-74	137, मान्ती निकेतन सोसाईटी, बड़ल देवाड़ी रोड़, ग्राम-सूरत-3
6194.	रशमीबेन गोपीयानी रसिकलाल	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6343 4-10-78	ग्राम-सुल्तानपुर बाया बैच बोवाड़ी, ता०-गोथवाल, जिला-रायकोट ।

1	2	3	4	5
6195.	राशमीबेन ठाकुर कनैयालाल	बी०एस०ए०एम गुजरात आयु वि०वि० 1977	7348 29-10-79	4, साधना मोसाईटी, बारछ रोड ग्राम-सूरत ।
6196.	रशमीकान्त जोशी मनुप्रसाद	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु वि०वि० 1975	5477 31-7-76	गगल थोट चौक, प्राणक, सामने राम मन्दिर, ग्राम-कल्याण, जिला-धाना ।
6197.	रशमी कान्त मेहता मनमुख लाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु वि० वि० 1978	7389 19-11-79	बोराय शोरी, मेहता निवास, ग्राम-मोरबी, जिला-राजकोट ।
6198.	रशमी कान्त मेहता कान्ती लाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु वि० वि० 1974	4692 24-3-75	मार्फत कान्तीलाल एम० मेहता, नजदीक पटेल मील, ग्राम-आम जोधापुर, जिला-जामनगर ।
6199.	रशमी कान्त पटेल मणीलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु वि० वि० 1980	8133 21-8-81	जुनी मानिकबा डी, कालपुर कछिया हाउस, ग्राम-भावनगर ।
6200.	रशमी कान्त पटेल चम्पूलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु वि० वि० 1981	8678 3-3-83	1-ए, मील कामदार सोसाईटी बखारिया, नजदीक पी जी० आई स्कूल, ग्राम-कालोल- 382721
6201.	रशमीकान्त शाह बापूलाल	जी०एफ०ए०एम० फे०आफ०आ०एण्डयू०सि०आफमेडीसिन, बम्बई 1959	1223 3-8-59	ग्राम-केशम्बा, ता०-मंगरोल, जिला सूरत ।
6202.	रशमीकान्त शाह रमन लाल	आयुर्वेद मध्यमा श्रावणमास वक्षिणा परोक्षा समिति बड़ौदा 1972	8554 14-9-82	दजवाडा, दलजीबेन खावकी, 2 एकानिया, शोरी, ग्राम और पो० आ० बड़ौदा-390001
6203.	रशमीकान्त शास्त्री दयानन्द	बी०ए०एम०एस० सागर वि०वि० 1976	8295 5-2-82	मार्फत नटवरलाल आर० पांड्या, प्रभूपार्क पुनीत मार्ग, मणिलगर, अहमदाबाद ।
6204.	रशमीकान्त सोलंकी प्रोलाबेन गयोरी	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु वि० वि० 1983	9367 2-9-85	निरमल क्लबिक चौक बाजार, ग्राम सूरत - 395003
6205.	रशमीकान्त उपाध्याय प्रेमशंकर	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु वि० वि० 1978	7214 23-8-79	ग्राम भादरिया, ता०-अशावन, जिला-राजकोट ।
6206.	रशमीकर देसाई कुमुदराय	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु वि० वि० 1979	7878 14-11-80	बी०मं० 1/8 गवर्न० क्वा० प्रकाशन ग्राउन्ड ग्राम-जामनगर ।
6207.	रशमिता पटेल जवाहरलाल	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु वि० वि० 1977	7226 23-8-79	11, मोदी स्ट्रीट, जिकोर निवास, द्वितीय फ्लोर, रूम न० 10, फोर्ट, बम्बई-1
6208.	रसीबाबापु मुन्शी अब्दुल रहमान	बी०एस०ए०एम० गुजरात आयु वि० वि० 1976	5896 20-9-77	बुकार फालिया, ग्राम-जूनागढ़ ।
6209.	रसीकान्त पठान दस्तमखान	बी०ए०एम०एस० गुजरात आयु वि० वि० 1985	9610 10-11-86	330, मोटोवास, पीठे पत्थरवाली, मस्जिद, शाहपुर, चाकला अहमदाबाद-1
6210.	रसिका बभानिया नवनीलाल	डी०ए०एम०एफ० फे०आफ०आ०एण्डयू०सि०आफमेडीसिन, गुजरात 1955	2544 1-7-55	18/24 खेमी बाड़ी, 7 गनी, सरवार पटेल रोड बम्बई-4

1	2	3	4	5
6211.	रसिकब्रजन वकील चम्पकलाल	बी० ए० ए० सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1962	997 6-2-63	माली फालिया, हरीपुरा, 4/89 विट्ठल भवन, ग्राम-सूरत ।
6212.	रसिकभाई चौधरी सावजीभाई	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7533 15-2-80	ग्राम-पाठकवाडी, ता० ब्यारा, जिला-सूरत ।
6213.	रसिकभाई मुधार अम्बालाल	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3758 6-2-73	ग्राम-बन्दसाना, पो० आ० बेचाराजी, ता० बनाना, जिला-मेहसाना ।
6214.	रसिकलाल भाचार्य मवलचन्द्र	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3175 13-4-71	मत्स्य निवास, 27, दिगविजय प्लाट, ग्राम-जामनगर ।
6215.	रसिकलाल भट्ट नरसाल	डी० ए० ए० सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1963	1350 18-11-63	ग्राम-विहोर, बाया, एण्ड जिला-भावनगर ।
6216.	रसिकलाल भवमार जगजीवन दाम	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3532 29-7-72	अलुधा बाकला, ग्राम-सिद्धापुर, जिला-मेहसाना ।
6217.	रसिकलाल दवे करुणाशंकर	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	6708 9-3-79	बडिनाका, नाकालंग भोरी, ग्राम-राजकोट ।
6218.	रसिकलाल छेलानी रामजीभाई	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4519 23-9-74	नारीपुरा हकानिया, म० नं० 6/2557, ग्राम-सूरत ।
6219.	रसिकलाल जानी अम्बालाल	डी० ए० ए० ए० सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2385 4-2-67	धान पाल खारकुवा, पोलो अस्टो डिया, अहमदाबाद
6220.	रसिकलाल जोशी मणीलाल	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6064 8-3-78	ग्राम और पो० आ०-बेभारी, ता०-बालासिनोर, जिला-खेडा ।
6221.	रसिकलाल कोठारी जीहलाल	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2966 8-6-70	ग्राम-भुवागना, ता०-खराल, जिला-मेहसाना ।
6222.	रसिकलाल कुवालाल हरीलाल	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5206 26-2-76	ग्राम-हरमादिया, ता०-कोविनार, जिला-अमरेली।
6223.	रसिकलाल मामतोर कामलदास	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1966	2089 7-7-66	विबेशी फाली, तिदी बाजार, जामनगर ।
6224.	रसिकलाल मारू मानजीभाई	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5161 12-2-76	बिनबन्धू कार्मरिटीकल, दुछेश्वर, सांसाईटी, आउट साईड बाली गट, जूनागढ़ ।
6225.	रसिकलाल मेहता अवन्ताथ	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3043 15-9-70	ग्राम-करमड, ता० और जिला-खरीब ।
6226.	रसिकलाल मोटका अमृतलाल	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	9098 31-7-84	ग्राम और पो० आ० खरावा, (जैताना) ता० पटाडी, जिला-सुरखनगर ।
6227.	रसिकलाल पांड्या विमललाल	डी० ए० ए० ए० सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1968	2345 22-12-66	ग्राम-दोला, ता० और जिला-बड़ोवा ।

1	2	3	4	5
6228.	रमिकलाल पटेल सोहलाल	डी० एम० ए० सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1961	619 23-10-61	नावापुरा, बर्धोलिया, जिला-बड़ौदा।
6229.	रमिकलाल पटेल रमनलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4963 4-10-75	मार्फत रमनलाल यू० पटेल, पेधापुर हाई स्कूल, ग्राम-पेठापुर, जिला-गोधीनगर।
6230.	रमिकलाल पटेल केशवलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6561 12-2-79	ग्राम-नेरानिया, पो० आ०-उज्जैनिया, ता०- प्राणतीज, जिला-साबरकंधा।
6231.	रमिकलाल पटेल बेनाभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8545 14-9-82	ग्राम और पो० आ०-हृषीकोल, ता०-हिम्मतनगर, जिला-साबरकंधा।
6232.	रमिकलाल पटेल रामभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8609 28-12-82	दरबाजा, ग्राम और पो० आ०-आरियावाही ता०- आनन्द, जिला-खेड़ा।
6233.	रमिकलाल पटेल केशवलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7645 20-3-88	श्यामकीबाग, ग्राम और पो० आ०-नारकीपुर, ता०-कालोल, जिला-मेहसाना।
6234.	रमिकलाल रावल हीरालाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3310 7-1-72	ग्राम-कोधेरा, ता०-बांसमा, जिला-मेहसाना।
6235.	रमिकलाल रावल सुनवल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3581 7-9-72	पोछे तालुकशाला, ग्राम-मानसवार, जिला-जुनागढ़।
6236.	रमिकलाल खाली दयानंशु भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	7517 15-2-80	ग्राम-सुल्तानपुर, ता०-डकोदाल, धामा धाविया, देवाड़ी, जिला-राजकोट।
6237.	रमिकलाल शाह मोहनलाल	डी० एम० ए० एम० फ० आफ आ० एण्ड यू० गि० आफ मेट्रोपिटन, बम्बई 1953	1221 29-8-53	अशीयात्री, प्लॉट नं० 41, सुतीय लाल आर० ए० रोड, गोरगांव, पूर्व बम्बई।
6238.	रमिकलाल शाह कोटेशलाल	डी० एम० ए० एम० फ० आफ आ० एण्ड यू० गि० आफ मेट्रोपिटन, बम्बई 1956	1220 2-1-56	लक्ष्मण शाहपुर भाई सेंटर, अहमदाबाद।
6239.	रमिकलाल शाह बुजुलाल	डी० एम० ए० एम० फ० आफ आ० एण्ड यू० गि० आफ मेट्रोपिटन, बम्बई 1958	1219 1-12-58	ग्राम-ता०-कौथराज, जिला-साबरकंधा।
6240.	रमिकलाल जामर जयलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7991 25-2-81	ग्राम-और पो० आ०-सरखाव, ता० और जिला- गाधीनगर।
6241.	रमिकलाल त्रिवेदी नर्मदाशंकर	डी० एम० ए० सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2543 11-7-67	ग्राम-मानोमरा, ता०-शिहोर, जिला-साबरकंधा।
6242.	रमिकलाल वामन छपनलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8330 17-2-82	27, स्यू सत्य बिहार सोसाईटी नजदीक अमरपुरा, चन्द्रवाविया, अहमदाबाद।
6243.	रमिका कोटक धरम सिंह	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5353 20-4-76	116-ए, पंकज सोसाईटी, फतेहनगर, पलावी अहमदाबाद।

1	2	3	4	5
6244	रवी कल्लू परमनन्द बाग	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8528 14-0-82	प्लॉट नं० 22, बी० कृष्णानगर, सजदीक रोमा विल्डिग, ग्राम-भावनगर
6245	रवी कल्लू पंकाज बन्धुकराम	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3492 19-4-72	वेदीकृपा, बाड़ी, ब्याघापोल, बड़ोदा
6246	रवी कल्लू उताडयाय हरीप्रसाद	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8002 11-3-81	आयु० कालेज, कम्पाउन्ड, अस्पताल ग्राम नादियाड, जिला-बोड्डा
6247	रवी कल्लू रांडा मणोरकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8430 17-5-82	241, पुष्पकुंज, महानग्दीर रोड, ग्राम-हिम्मत- नगर, जिला-साबरकण्ठा
6248	रवी कल्लू पटेल जेशभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4199 15-2-74	ग्राम-काशीपुरा, ता०-राभी, जेतपुर, बाया मोदिल्ला, जिला-बड़ोदा
6249	रवी कल्लू हरीलाल	डी० ए० एम० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1953	1907	होली पाकला, कपाडबंज, जिला-बोड्डा
6250	रवी कल्लू बंदाईया खडमानभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7459 21-12-79	ग्राम और पो० आ०-नजामपुरा, ता०-धरोल जिला-जामनगर
6251	रवी कल्लू भारदिया विठ्ठलजी	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3650 11-10-72	मार्फत मिस्ट्री कात्तीलाल एम०, ग्राम-रनपुर, जिला-जूनागढ़
6252	रवी कल्लू भवानी नाथूभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4600 1-1-75	ग्राम-नानी भवाड़ी, बाया कलवाड, शीत लाल जिला-जामनगर
6253	रवी कल्लू चोडशडिया देवाशी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5910 17-10-77	ग्राम-केरियाबाद, बाया शिज्या, बदार, जिला- धमरेली
6254	रवी कल्लू जाबिया अर्जुनभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3595 14-9-72	ग्राम-जामडुया, बाया बरतवा, ता०-मासबावार जिला-जूनागढ़
6255	रवी कल्लू जेमबाल हिम्मतलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4898 26-6-75	424, जनहामनगर, रामोले पो० धा०-बठवा, अहमदाबाद
6256	रवी कल्लू जोशी मनसुखलाल	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, विल्सो 1932	7153 25-7-79	ग्राम-अलियाबाड़ा, जिला-जामनगर
6257	रवी कल्लू कलवाडिया हरीभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4198 15-2-74	ग्राम-बोड्डा, पिपालिया, ता० साधी, जिला-अमरेली
6258	रवी कल्लू मनकाडिया मोहनलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3633 3-10-72	प्लॉट श्री नं० 5, पीछे हाई स्कूल, ग्राम-भयाबदार, ता०-उपलेंटा, जिला-भावनगर
6259	रवी कल्लू भवानी सेधजीभाई	डी० एम० ए० सी०, कमेटी फार युद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1963	940 27-6-63	ग्राम-सुरनिवास, ता०-गरीयाधर, जिला-भावनगर
6260	रवी कल्लू मेहता केशवलाल	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, विल्सो 1939	8190 12-10-81	ग्राम-पुराना नगदावास, ता०-मोराबी, जिला- राजकोट

1	2	3	4	5
6261.	रमिकलाय मेहता मूलशंकर	डी० एम० ए० सी० कमेट्री फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1962	923 26-11-82	आयु० डिस्पेंसरी, ग्राम-कृष्णान, बायो मेडुवा, जंबसम, जिला-भावनगर ।
6262.	रतीलाल मायक अम्बेलाल	डी० ए० एम० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1952	481 1-8-52	ग्राम-उधाना, जिला-सूरत
6263.	रतीलाल परमार बाबरभाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9245 12-3-85	ग्राम और पो० आ०-पडोल, ता०-बरसाव, जिला- खेडा ।
6264.	रतीलाल पटेल मोतीभाई	डी० ए० एम० एम०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1952	617 5-9-52	गनेश चौक, लीलोवी, बाजार, ग्राम-जम्बेसोर
6265.	रतीलाल पटेल शामीचरदास	डी० एम० ए० सी०, कमेट्री फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1964	1602 1-8-64	जल्कापुरी, वडीबाड़ी, बड़ोवा ।
6266.	रतीलाल पटेल साजन	डी० एम० ए० सी०, कमेट्री फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2072 24-6-66	न्यू लाहेरीपुरा रोड, बड़ोवा ।
6267.	रतीलाल पटेल भिक्षाभाई	बी० एम० ए० सी०, कमेट्री फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2327 6-12-66	ग्राम-मन्वाना, ता०-बाघासी, जिला-बड़ोवा ।
6268.	रतीलाल पाटिल भीता	बी० ए० एम० एम०, विदर्भ बोर्ड आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, महाराष्ट्र 1970	3628 3-10-72	मेडिकल आफिसर, एवायत डिस्पेंसरी, ग्राम- उमनाल, जिला-सूरत ।
6269.	रतीलाल पटेल भगवानदास	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3636 9-10-72	82, तारगा हिल सोसाइटी, कंब लीमिया, अहमदाबाद
6270.	रतीलाल पटेल दह्याभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4061 21-9-72	अस्पताल रोड, ग्राम-रास, ता०-बरसाव, जिला- खेडा
6271.	रतीलाल पटेल भाई लाल भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4548 15-10-74	ग्राम-मरसा, ता०-आनन्द, जिला-खेडा
6272.	रतीलाल पटेल शिवभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4710 29-3-75	ग्राम-लाटीपुरा, ता०-पवोरा, जिला-बड़ोवा ।
6273.	रतीलाल राजरा रामजीभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3305 1-1-72	ग्राम-लिमबाडी, बाया-बन्टाबा, ता०-मालवदार, जिला-जुनागढ़ ।
6274.	रतीलाल राध्यागुरू दानजीभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4013 24-8-73	ग्राम-हथाला, ता०-सावनवाड, जिला-जामनगर
6275.	रतीलाल बाह नथालाल	डी० ए० एम० एम०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1955	1222 3-1-55	गवर्ने० डिस्पेंसरी, ग्राम-बरबारी, ता०-सूरत, जिला-पंचमहाल ।
6276.	रतीलाल सिनोजिया मगनभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8549 14-9-82	जुना बनभामगढ़, पो० आ०-सूरत, ता०-वींगवाड, जिला-सुरतमण्डल ।

1	2	3	4	5
6277.	रतीलाल खिन्नेदी शंकरलाल	ए० वी० बी०, तिलक महाराज विद्यापीठ, पूना 1943	331	वैद्य भवन, ग्राम-वकोर, जिला-बेडा ।
6278.	रतीलाल वैद्य सोमनाथ	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5379 10-5-76	ग्राम-कोलवाडा, ता०-बीजापुर, जिला-मेहसाना
6279.	रतीलाल म्यास जगजीवनवास	ए० वी० बी०, तिलक महाराज विद्यापीठ, पूना 1942	3688 20-11-72	ग्राम-हलघरवास, ता०-महेवाबाद जिला-बेडा ।
6280.	रत्नप्रभा मट्ट साधवलाल	डी० एस० ए० सी०, कमेटो फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1962	855 17-4-63	घण्टोडा, नजदीक बैंक आफ बीकानेर, गांधी गेट, बड़ौदा ।
6281.	रतनभी गजनी गोकल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6606 21-2-79	ग्राम-समाधियाला (गीर) बाधा मेमदारदा, जिला-जूनागढ़ ।
6282.	रावजी शिन्वासिया सावजी	आयुर्वेद भिषक, नि० धा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1965	7311 29-11-79	कड़ियाबाद, कृष्णकंज, जिला-अमरेली
6283.	रावजी रावदिया शामजीभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8122 17-7-81	ग्राम और पो० आ०-बारीवाला, बाधा नधिया- देवाली, ता०-कुंकवडीया, जिला-अमरेली ।
6284.	रावजीभाई चावड़ा अलाभाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9219 19-2-85	ग्राम और पो० आ०-खारवा, ता०-दरल, जिला- जामनगर
6285.	रावजीभाई पटेल हंसराजभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5372 30-4-76	ग्राम-खानपुर, ता०-धार डा, जिला-बनासकां
6286.	रावजीभाई पटेल दौभाभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8071 4-5-81	ग्राम और पो० आ०-रतमपुर, ता०-इवार, जिला- साबरकंध
6287.	रावजीभाई बासना हाबीभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8676 10-2-83	ग्राम-अभरापुरा, पो० आ०-धीरजाई, ता०-कर्जन जिला-बड़ौदा ।
6288.	रावलाल राजपारा बाकुभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3451 21-3-72	ग्राम-धीरपुर (मल्लकान्या) ता०-मोरबी, जिला- राजकोट
6289.	रेवाशंकर जोशी मोमीलाल	एच० पी० ए०, पो० प्रो० ट्रेनिंग सेंटर इन आयु० जामनगर 1963	2342 2-5-63	डी-2, बुद्धेश्वर डिस्पेंसरी, बुद्धेश्वर रोड, अहमदाबाद
6290.	रबीचन्द्र शाह मोहनलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1968	2775 20-5-69	9, प्रतिभा सोसाइटी, जवाहर चौक, धाबरमती, अहमदाबाद
6291.	रबीलाल मेहता वीरचन्द्र	ए० वी० बी०, तिलक महाराज विद्यापीठ, महाराष्ट्र 1943	922	सैयबपुरा, ग्राम-मन्वावी, जिला-कच्छ
6292.	रविन्द्र नानावती छोटासल्लभ	डी० ए० एस० एफ०, वै० आफ आयु० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1946	468 1-10-46	मार्फत एम० सी० ओइम, राजा मेहता पोल, कालुपुर, अहमदाबाद

1	2	3	4	5
6293.	रविन्द्र मोनार भानराव	बी० ए० एम० एम०, पुना वि० वि०, 1984	9497 26-1-86	ग्राम-दोंबेया, जिला-मुलिया ।
6294.	रविन्द्र सूरजकर मूलाजीभाई	आयुर्वेद उल्लभा, श्रावणमाम प्रतिष्ठा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1977	6544 12-2-79	चित्रा बिकास कालोनी, 5, पालम रोड, ग्राम- रात्रिपाला, जिला-जरीब ।
6295.	रविन्द्र वैष्णव प्राणजीवन	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5002 20-10-75	गुजरात हाउसिंग बोर्ड, टूर्नामेंट, 82, मारुति बानपुरी, तालव, ग्राम-रात्रकोट ।
6296.	रविन्द्र कामनवाला बाबूलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	7020 16-5-79	एम/12, अरिहस्तनागफ सोसा रोड, तजदीक भुजंग देव, सोसाईरी, मोमनगर, अहमदाबाद ।
6297.	रविन्द्र कुमार बराद भगवानभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5904 28-9-77	ग्राम-वजालका, ता०-धोलका, जिला-अहमदाबाद
6298.	रविन्द्र कुमार जामी नटवरलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5013 20-10-75	325, नवटाक पोल, चिकता, अहमदाबाद
6299.	रविन्द्र कुमार जोशी शास्त्रीलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5649 5-1-77	ग्राम-वालम, ता०-बीमनगर, जिला-मेहसाणा ।
6300.	रविन्द्र कुमार हुमनिश बालकृष्ण	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3379 16-2-72	बी० नं० 9, सदाशिवनगर, रानिप, साबरमती, अहमदाबाद
6301.	रविन्द्र कुमार पांड्या मुकुन्दराय	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7701 29-4-80	नानी भोगोल, वैद्य बेरी, पीछे माता, ग्राम और पो० आ० ता०-प्राणतीज, जिला-साबरकंठा
6302.	रविन्द्रनाथ भट्ट रमनलाल	जी० एफ० ए० एम०, पै० आफ आ० एण्ड यू० वि० आफ मेडीसन, बम्बई 1954	856 2-6-58	ग्राम-गावत, ता०-ब्यार, जिला-सुरत ।
6303.	रविन्द्रनाथ पटेल नरोत्तमबास	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	7989 20-2-81	ग्राम और पो० आ० ता०-निशार, बाया तन्दुरवार, जिला-सुरत ।
6304.	रविन्द्रराय शास्त्री पुरुषोत्तम	डी० एम० ए० सी०, कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात, 1967	2595 5-10-67	श्री एन० विप्रे० आश्रम, ग्राम-चण्देव, ता०- वधोई, जिला-बड़ौदा
6305.	विरान देवपुरागी भक्तिराम	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8208 2-11-81	ग्राम-तहासा, ता०-श्राधा, जिला-भावनगर
6306.	रविशंकर दवे रतीलाल	आयुर्वेद विशारद, बोर्ड आफ इण्डियन मेडीसन, मीरापूर, 1960	2231 30-3-61	आयु० डिस्पेसरी, ग्राम-ओठा, बाया मुहुवा, जिला-भावनगर ।
6307.	रविशंकर पुरोहित अमनलाल	आयुर्वेद विशारद, एम० एम० विद्यापीठ, वि० वि०, 1941	1994 8-10-41	शिवकुमा धननश्री, कालोनी 1/51-बी, पीछे आर्य कन्या महाविद्यालय, कारीवबाग, गजोदा ।
6308.	रविशंकर शर्मा कमलशंकर	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3178 16-4-71	ग्राम-मयान, जिला-सुरत ।

1	2	3	4	5
6309.	रविशंकर श्याम अमृतपाल	बी० एम० ए० सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, महाराष्ट्र 1959	1104 27-9-82	3/29, रघुवंशी सोसाईटी, मणिनगर, नजदीक रेलवे क्वार्टर, अहमदाबाद ।
6310.	राजजी गोत्रानी भीमा	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5779 26-4-74	ग्राम भलागाम, बाया बेंगलरा, जिला जूनागढ़ ।
6311.	राजजी फेकार भुवार	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2805 2-8-69	ग्राम अडेपुर, बाया भीर गा० मोरबी, जिला राजकोट ।
6312.	राजजी कनेना केनाजी	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4974 15-10-75	ग्राम-मुनीघार, जिला-अमरेली ।
6313.	रसा शक्का कमलसल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4618 29-1-75	हारकापुरी मन्दिर, ग्राम-जामनगर ।
6314.	बबे रसा शास्तीअल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6821 22-3-79	बी-53/854, कृष्णनगर, रंजपुर बोधा, नरोधा, अहमदाबाद ।
6315.	रसा माह बिपिनचन्द्र	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9396 23-9-85	मानापोर चाकला, ग्राम दभोई-391110, जिला बड़ोदा ।
6316.	रसा श्याम गस्तनकुमार	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8413 5-4-82	ग्राम-धिकारिया, पो० आ० पाभेज, जिला-बरोदा ।
6317.	रसानेन माह धनसुखलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7353 29-10-79	राजनक्षी सोसायटी वरसी वा, ग्राम बड़ोदा ।
6318.	रायसिंह माई बबेला मंकरमाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5360 22-4-76	नजदीक होसी, चाकला, ग्राम-चाकलासी, जिला-बोधा ।
6319.	रैहना धरोलिया हतीम माई	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9251 9-4-85	कालाबाड़, गैट रोड, बगानी पाली, ग्राम-जामनगर ।
6320.	रेखा मट्ट रतीलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5122 15-1-76.	36, अरुणाडे सोसाईटी, अल्हापुरी, बड़ोदा ।
6321.	रेखा मट्ट जगदीशचन्द्र	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6764 21-3-79	बश्मीनारायण मन्दिर, बैंक रोड, मन्दावी, ग्राम- बड़ोदा ।
6322.	रेखा मट्ट अमृतलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7588 14-3-80	मार्फत एम० पी० दवे, 78, गोटमर्कनगर, नवयुग कालोनी के सामने, रुन्डर रोड, सूरत-9 ।
6323.	रेखा पाटिया गोविन्दराम	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9118 23-8-84	182/2 पुराना रेलवे कालोनी, साबरमती, अहमदाबाद ।
6324.	रेखा मट्ट नारायण चन्द्र	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8378 18-3-82	मुरली भवन कपिल प्रिंटिंग प्रेस सजपुर, अहमदाबाद ।
6325.	रेखा गज्जर मूलाजी माई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5216 26-2-76	चतुर लक्ष्मी निवास पुनीत आश्रम मणिनगर, अहमदाबाद ।

1	2	3	4	5
6326.	रेखा शंभादिवा प्रवीण भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु वि० वि०, 1975	5428 14-6-78	स्वाधाम कुटीर, नजदीक मिलन शोख, ग्राम ननु, जिला, सिरोजी।
6327.	रेखा जयदीविवा इन्द्रचरण	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु वि० वि०, 1983	9050 10-5-84	गांधी पोस, अहमदाबाद बाजार अम नाथियाड, जिला बड़वा।
6328.	रेखा मीदी विमललाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि० 1965	1898 23-12-85	मार्फत डा० अनिसकुमार शाह स्टेसन रोड, बिसीनोरा, जिला बलबसाब।
6329.	रेखा पटेल रामभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु वि० वि०, 1972	4106 2-11-73	मार्फत विनोदचन्द्र आर० पटेल, सुरलाधुनी, क्या० ब्लाक नं० 62/2, आउट साइड, साहपुर गेट, अहमदाबाद।
6330.	रेखा पोपट भाभाजीभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु वि० वि० 1978	7381 16-11-79	मार्फत बी० पी० पोपट, सकताबाड़ा, रान बोरी प्रभुतिवास, ग्राम-जुनागढ़।
6331.	रेखा साह धोपटवाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु वि० वि०, 1978	7659 31-3-80	27, अजनापार्क सोसाईटी आउट साइड साहपुर गेट, अहमदाबाद।
6332.	रेखा शुभल अयलकुमार	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु वि० वि०, 1979	8001 25-2-81	ओमकार, 1/2, लक्ष्मीबाड़ी, ग्राम राजकोट।
6333.	रेखा ठाकर रमनलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु वि० वि०, 1982	8531 14-9-82	सी-29, 383, कृष्णानगर, सैजपुर बौद्ध, नरोवा रोड अहमदाबाद।
6334.	रेखा वसा बन्धुभाई,	जी० एफ० ए० एम०, फं० माफ आ० एंड यू० सि० माफ मैडीसिन, बम्बई 1966	2846 3-10-69	मार्फत सतील अस्पताल, ग्राम छोटो जवेपुर, जिला बड़वा।
6335.	रेखाबैन पंड्या, रतीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु वि० वि०, 1977	6661 28-2-79	इण्डिया कालोनी जी-1/41, ठाकर बापूनगर, नजदीक निकोल तौलमाकला, हार्डि० सोसाईटी, अहमदाबाद।
6336.	खाबैन पटेल भगवतप्रसाद	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु वि० वि० 1976	5730 15-3-77	214, सरदारनगर सोसाईटी, छापी रोड, बड़वा।
6337.	रेखाबैन पटेल हसनभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु वि० वि० 1981	8616 13-1-83	ग्राम और पो० आ० 'निखार (गोजी) बाबा सरकोन, तह० बड़वोली, जिला सुरत।
6338.	रेखाबैन साह भास्तीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु वि० वि०, 1973	4444 16-8-74	1/3787, मोती बेसाई पोस, ग्राम सुरत।
6339.	रेखाकुमार नाथबानी धुनीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु वि० वि०, 1976	6122 5-4-78	गवर्न डिपेंसरी, ग्राम कसोट, जिला-जुनागढ़।
6340.	रेखाकुमारी जोषा अनन्तराव	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु वि० वि०, 1970	3398 24-2-72	रेसिड सान, प्लाट नं० 17/4, किलीनगर, भावनगर।
6341.	रेणुका बने हरहरीभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु वि० वि०, 1973	4435 22-7-74	12, सरदार पटेल कालोनी, स्टेडियम अहमदाबाद।
6342.	रेणुका जोशी विष्णुप्रसाद	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु वि० वि०, 1977	6383 27-10-78	मार्फत बी० सी० जोशी, कविराव पोस, मोनाहनुमान, बाधिया, अहमदाबाद।

1	2	3	4	5
6343.	रेणुका शोभा कीर्तिकुमार	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3757 6-2-73	1172, रंगोली, मेघानी मार्ग, अम्बावाड़ी रोड, हृष्णानगर, भावनगर ।
6344.	रेणुका पटेल मोहनलाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8801 5-7-83	3, नरसिंहनगर सोसाईटी, नणवीक पंचायतनगर, पुराना, वाथण, अहमदाबाद-13 ।
6345.	रेणुका बिल्ली प्रेमजीभाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4388 28-5-74	मार्फत प्रेमजीभाई, ए० बिनोबी, अमर ज्योति, सामने, न्यू जैल, ग्राम अजमेर ।
6346.	रेणुका व्यास भूपत भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9308 2-7-85	मार्फत जे० पी० भट्ट, गिरिदाज कालोनी बी० नं० 18/ए, "गुणवतीत ज्योति" अम्बावाड़ी, पंचवटी द्वितीय, लैन, इस्तिश- बिज, अहमदाबाद-6 ।
6347.	रेणुका बेन मजूमदार कृष्णन्त कुमार	बी० ए० ए० ए० ए०, सागर वि० वि० 1978	8886 27-12-83	लालभाई पंत, कोठारी स्ट्रीट, ग्राम करौब ।
6348.	रेणुका बेन पंचाल अम्बालाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4420 26-6-74	3307, पटेल पोल, दरियापुर, चार रास्ता, अहमदाबाद
6349.	रेबाभाई पटेल कृष्णवास	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3354 15-2-72	रतनपोल ग्राम और पो० बा० बाजीसभा, ता० पाटन, जिला मेहसाणा ।
6350.	रिखी शिवेदी विनकरराय	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8442 31-5-82	मार्फत डी० पी० शिवेदी, कमाल्हर बंगला, सामने, तहत 'ए'-शुर्बाव होटल, भावनगर-364002 ।
6351.	रीतल ओराविया बाजरसभाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	8136 19-4-78	मार्फत नील ओगास्टिन, बरईया मिशन हाउस सुरेसीसारा, सुरत ।
6352.	रीता जोशी कनकाचन्द्र	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9357 21-8-85	12/ए, अनविश्राम, सोसाई, पीछे सहजानन्व कालेज, अहमदाबाद-15 ।
6353.	रीतानायक ठकरीवाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9382 23-9-85	9, गोविन्दबाग, देसारा रोड, ता० गणवोदी, जिला बलसाव ।
6354.	रीता शुक्ला भूपेन्द्रभाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8778 18-6-83	हाऊस नं० 8/1958, गोपीपुरा, सामने गोविन्दजी मण्डिर, ग्राम सुरत ।
6355.	रीता पटेल रमनलाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9370 2-9-85	मार्फत डी० विजय अर० पटेल, सामने गांधी पार्क, ग्राम अदुरीव-307026 जिला सिराही (राज०) ।
6356.	रीता आंबबी प्रमोदचन्द्र	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9333 9-8-85	बन्दा फानी, संचाकी बिल्डिंग, ग्राम आमनगर ।
6357.	रीता व्यास राधेन्द्रा	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9443 23-12-85	"सिबाग" 37, अजीतनगर, विनेस मील रोड, बडोदा-390 065 ।
6358.	रीताबेन पांड्या विनेशचन्द्र	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7774 1-8-80	मार्फत विनेशचन्द्र ए० पांड्या, ग्राम-संतोषी, तह० काकोल, जिला पंचमहल ।
6359.	रीताबेन बोरा बालजी भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9220 19-2-85	अलफम सोसाईटी, गायत्री, ग्राम जूतागढ़ ।

1	2	3	4	5
6360.	रोहितकुमार वैद्य काशीराम	मायुर्वेद मन्थना श्रवण मास दक्षिण परीक्षा समिति, बड़ौचा 1978	6858 2-4-79	17, संस्कार सोसाईटी, नजदीक बहाई टेंटर माहपुर, अहमदाबाद ।
6361.	रोहिणी भट्ट गोवर्धनदास	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978]	7539 20-2-80	23, मल्लबाबाई सोसाईटी, जीवराज पार्क, अहमदाबाद ।
6362.	रोहिणी कुटमुडिया बिठ्ठलदास	जी० एफ० ए० एम०, फै० आ० आयु० एण्ड यू० सि० आ० मेडीसिन, गुजरात 1961	113 23-10-61	श्रीजी भवन, द्वितीय तल, नजदीक पार्क बीरा बाजार, बम्बई-2 ।
6363.	रोहिणी पटेल पुरुषोत्तमदास	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8306 5-2-82	27, कौतिकुंभ सोसाईटी, करोलीबाग, बड़ौचा ।
6364.	रोहिणी व्यास श्रीराजलाल	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6005 10-1-78	2, सुरसंभम को० आ० हाउस सोसाईटी, सामने प्रभुदास ठाकुर कालेज, पलाडी, अहमदाबाद ।
6365.	रोहिणी बा जड़ेजा कल्याणसिंह जी	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9327 25-7-85	ग्राम और पो० आ० चकार (आश्रम) - 370105, तह० भुज-कच्छ ।
6366.	रोहित शाह श्रीरजलाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9344 21-8-85	12/हृषिकेश पार्क, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, रोड, अहमदाबाद-380014 ।
6367.	रोहितकुमार भट्ट अम्बालाल	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5978 28-11-77	20, एम गुजरात हाउसिंग बोर्ड, अजबा रोड, बड़ौचा ।
6368.	रोहितकुमार जोशी कृष्णलाल	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8100 20-6-81	शिवकृपा हंसराजनगर, पीछे रिफेजी काशीजी, ग्राम राजकोट ।
6369.	रोहितकुमार कपाडिया मनसुखलाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9328 9-8-85	मार्फत के० एम० भवसार, सामने मिस्त्री स्टूडियो स्टेशन रोड, ग्राम-बिलीमोरा-396321, तह० गन्धारी, जिला वलसाड ।
6370.	रोहितकुमार पटेल पुरुषोत्तमभाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8670 16-2-83	ग्राम और पो० आ० सिसोदिया, बरनाज तह० आनन्द, जिला खेड़ा ।
6371.	रुद्रयनारायण हुवे विक्रमधारी	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4715 31-3-75	63, सोनी चाली, नजदीक अक्षितपीस, रक्षियाल रोड, अहमदाबाद ।
6372.	रुद्राकाश पांड्या मणीलाल	डी० ए० ए० एम०, कमेटी फॉर शुद्ध आयु० कोर्स, महाराष्ट्र 1960	769 23-10-61	रुद्रकृपा कुटीर सीमनाथ रोड, ग्राम संखेडा, जिला बड़ौचा ।
6373.	रुद्रनाथकुमार जीवराज	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1968	7562 29-2-80	ग्राम चमरावी, तह० नावरा, जिला अमरेली ।
6374.	रुद्रनाथ सेजपाल वामजी	बंध विद्यारथ वि० आ० आयु० विद्यापीठ, विल्डी 1964	7150 25-7-79	ग्राम अमरपुर (गीर) तह० मलिया, मनीमा जिला जुनागढ़ ।
6375.	रूपा भट्ट हृदयवदन	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9647 31-12-86	6/43, नित्यानन्द नगर नजदीक आसावेधी, ग्राम-बरडोसी-394601, जिला सूरत ।
6376.	रूपा देसाई ठाकरभाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9441 23-12-85	'हरी निवास', हलर कास रोड, ग्राम बनसाद- 396001 ।

1	2	3	4	5
6377.	रूपकुमार श्याम मनुभाद्र	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6232 10-8-78	बिनाल मोहल्ला भम्पा निवास, ग्राम और पो० आ०-भावासारी, जिला बलसारा।
6378.	रूपेन्द्र लालबाणी बोमेन्द्र	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6832 22-3-79	बाई नं० 6, रूम नं० 194, कुर्बैरनगर अहमदाबाद।
6379.	रूपेन्द्रकुमार भवसार जयशंकरलाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	3199 25-2-76	भोती छिपवाड़, नजदीक भद्रा, काबोरी, बड़ोवा।
6380.	रूपिकेश पांड्या अनन्तराय	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	9016 16-4-84	मार्फत डा० आर० के० पांड्या, "गायत्री", प्रसाध, स्टेशन प्लाट-10, ग्राम गम्वाल, जिला राजकोट।
6381.	रूपिकेश शुक्ल नरहरीप्रसाद	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4649 12-3-75	वादीबड़ी, अल्हापुरी, बड़ोवा।
6382.	रूपा मारफतिया बालुकेणमार्ड	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9560 3-9-86	50/रुणकुंज सोमार्डीटी, नजदीक पुलिस ग्राउन्ड, आठवीं लेन, ग्राम सूरत-395 007।
6393.	रुद्र राज पांड्या दीनुमार्ड	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8680 3-3-83	मार्फत श्री० पी० पांड्या, (एच० आई०), 17-बी, रेलवे स्टाफ कालेज, सालबाग, बड़ोवा।
6384.	रुषीकुमार मेहता जयन्तीलाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5705 24-2-77	निम्डा, लेन, देवाड़ा, सैशन, ग्राम जामनगर
6385.	रुखसान सूबेदार गुक्रमलमल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5235 1-3-76	3, मुस्लिम सोमार्डीटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद।
6386.	रुचोव सिंह बानमिया रणवीर सिंह	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8016 3-4-81	ग्राम कारमाद, तह० एवं पो० बालिया, जिला बरीच।
6387.	सादरुद्दीन रतनानी गुनाम हुसैन	आयुर्वेद चिकित्सक, नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1974	6964 4-5-79	ग्राम उखाराला (पाक्षराजना), तह० घोषा, जिला भावनगर।
6388.	साधना शाह नवनील लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8879 12-12-83	3/633, नवपुरा, कारवा रोड, ग्राम सूरत-1
6389.	साधना देसाई सुनील चन्द्र	बी० एस्० ए० सी०, क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1963	438 26-7-63	द्वारा डा० एस्० एम० देसाई, आजाद सैशन, बड़ोवा।
6390.	सदाशिव शर्मा के०	एच० पी० ए०, पो० प्रो० ट्रे० से० इन आयु० जामनगर 1958	2404 27-2-67	अक्षय आयु० कालेज, अहमदाबाद।
6391.	सविन्द्र राय वैद्य शशिकांत	बी० एस्० ए० सी०, क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1964	1446 11-6-64	39, वैद्य विला, इवल कालोनी, मणिनगर, अहमदाबाद।
6392.	सजी मोहम्मद सैयद मीर सादिक	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5936 19-10-77	एस्० टी० स्टैंड के सामने, पी० यू० जाल इस्टेट, ग्राम मोदासा, जिला सक्षरकंठ।
6393.	सालर भाई देसाई मीरा भाई	आयुर्वेद चिकित्सक, क० व० परीक्षा समिति, बड़ोवा 1978	6959 2-4-79	ग्राम बोकरवावा, तह० भीलानगर, जिला मेहसाणा।

1	2	3	4	5
6394.	सतारमल जेठानी भागीरथ प्रसाद	कामुर्बंद बिहार, बो० इ० मे० सोराष्ट्र 1974	8798 5-7-83	बी० नं० 149, कमर० नं० 1164, कमलपुरा हाउसिंग बोर्ड, अहमदाबाद।
6395.	साहेबजी जजेजा केशुभा	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5814 8-6-77	ग्राम धाफा, तह० जाम जोधपुर, जिल्ला जामनगर
6396.	शैलेश भीमान नटवर सिंह	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9235 12-3-85	फ्लैट नं० 4, विश्राम अकलमैड, घोडोड ग्राम सुरत।
6397.	शैलेश गांधी कानिधाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9046 10-5-84	ग्राम एब पो० राजीवल, तह० साहेबनगर, जिला अहमदाबाद-382315
6398.	शैलेश महाजनी शालजी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5878 8-9-77	द्वारा डा० बी० एस० महाजनी, रामनोबाण बिधि, तिजामाबाद, अ० प्र०।
6399.	शैलेश कुमार जरीवाला, विनेश कश्यप	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9190 11-12-84	11, दर्शन सोसाईटी, तिजामाबाद, गान्धुदा सुरत।
6400.	शैलेश कुमार भाई मूलाजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8229 18-11-81	श्रीजी, कुज, नवा बाजार, जम्बू ग्राम, तह० शेतपुर, पाणी, जिला बड़ोदा।
6401.	शैलेशकुमार भाई मनु भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8256 24-12-81	12, गलाजीवन सोसाईटी, कलोकनकरके सामने, रामिध, अहमदाबाद।
6402.	सज्जदा बुदेसमा, शुक्रभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	6430 28-12-78	ग्राम पछोवन, तह० बल्ली धीपुरा जिला धामनगर।
6403.	सज्जदा जजेजा प्रसंगजी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3956 1-6-73	ग्राम भाचवा, तह० जाम कलकली, जिला सुरत।
6404.	सखाराम पाटिल शालजी	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1989	3026 11-8-70	द्वारा पूर्ति मण्डार, ग्राम-काहलू, जिला-धुलिम।
6405.	समला इमार अमृत्लालाम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5275 12-3-76	जमाल भवन, नजदीक नवाराव की बस्ती, ग्राम बनपाणी, जिला जूनागढ़।
6406.	समीर अमृत्लाल इस्लामी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8522 27-8-82	मन्नेसा गली, ग्राम केसवा (का० ए०), ता० मंगरोल, जिला सुरत-1
6407.	साधन सिंह-काला श्रीजी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5954 27-10-78	ग्राम बमरोली, ता० बीरसमंड, जिला अहमदाबाद।
6408.	समरचंदन महेश [अम्बावन]	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8089 4-8-81	द्वारा ए० बी० गडुबी, मास्तिनगर सोसाईटी, हिल्सरेड, बी० नं० 16, ग्राम भाचनगर।
6409.	समरचंदन महेश अमरसंग	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4968 9-7-75	ग्राम जट पिपली, तह० वातवा, जिला सुरेन्द्र नगर।
6410.	समीर अम्बाक, अयकार लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8830 1-9-83	संगोलीग भवन, संगला रोड, नजदीक कालवा कोष ग्राम जूनागढ़।

1	2	3	4	5
6411.	समीर कुमार ख्याल अमर कुमार	बी० ए० एम० एस्०, गुजरात आयु० वि० वि, 1983	9094 31-7-84	धेबर फालिया, कुण्डी जेरी, ग्राम जूनागढ़ - 362001
6412.	सनत कुमार भट्ट प्राण संकर	डी० एस्० ए० सी०, क०यू० आयु० कोर्स, गुजरात 1967	2453 30-3-87	द्वारा सी० एम० मेहता, 570, एयरोड्राम रोड, भावनगर ।
6413.	सनत कुमार भट्ट विल नाथ भाई	डी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4282 21-3-74	8, शिबनगर, नजदीक रेलवे क्रॉसिंग, अहमदाबाद
6414.	सनत कुमार दवे बम्बालाल	डी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	3066 4-11-70	सिम्पूजी पोल, ग्राम नादियाह, जिला खेड़ा
6415.	सनत कुमार दवे हरिहर प्रसाद	डी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	6767 21-3-79	1, गणेश सोसाइटी, बाहरी ग्राहपुर रोड, अहमदाबाद ।
6416.	सनत कुमार जोशी वृज लाल	डी० ए० एम० एस्०, दुसरो वि० वि० 1976	5828 5-7-77	गुरुकुल रोड ग्राम सावरकुण्डला जिला भावनगर
6417.	सनत कुमार राजल प्रवीण चन्द्र	डी० ए० एम० एस्०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9279 2-5-85	केसरियाजी बस स्टैंड के सामने, शाबुल सोसाइटी घार रास्ता, वासना, अहमदाबाद-7
6418.	सनत कुमार ठक्कर पूज संकर	डी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2806 5-8-69	ग्राम टंकारा ता० मीरबी, जिला राजकोट
6419.	सनत कुमार उपाध्याय कान्तिशाल	डी० ए० एम० एस्० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8972 12-3-84	द्वारा डा० आर० एस्० अनन्त ग्राम एच० पी० बाबका ता० पावरा, जिला बड़ोदा
6420.	संध्या फतेल चन्द्र कान्त	डी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6098 21-3-78	3/ए सुधाच नगर सोसाइटी, माय कर बपतर के पीछे अहमदाबाद
6421.	संध्या बहादुरास सुनशी लाल	डी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8075 16-2-83	परिश्रम भवन, ता० मजाली संकरवाडी, फौकन फालियावाडी बड़ोदा-390017
6422.	संध्या बिचवा कान्ति लाल	डी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7994 28-2-81	जम्पलजार, मेन रोड, ग्राम सूरत
6423.	संध्या अनेरब वत्सलक्ष्य	डी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3962 15-6-73	द्वारा डी० एम० दवे, एम/5, विक्रम अपार्टमेंट, शैयन रेलवे क्रॉसिंग, अम्बावाडी अहमदाबाद
6424.	संध्या भट्ट रविशंकर	डी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	6123 5-4-78	के० एम० जैन बिचवाडी गृह बरीदा रोड अमरेली
6425.	संध्या गदे मिनाजी राज	डी० ए० एम० एस्०, गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9354 21-8-85	नजदीक देवी की मन्दिर, जम्बेनेट, डाब्रिया बाजार ग्राम बड़ोदा-390001
6426.	संध्या ओक मधुकर	डी० ए० एस्० एफ०, फै० आ० यू० सि० मे० बम्बई 1951	79 4-7-52	शिवरंजन II -बी अमर ज्योति सोसाइटी, लाल बाग रोड बड़ोदा
6427.	संध्या शाह विठ्ठल भाई	डी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7571 2-3-80	द्वारा जे० टी० शाह, ग्राम वालोद, जिला सूरत

1	2	3	4	5
6428.	संभ्या बेंग सेठ नखुरिजाज	बी० एल० ए० एम०, गुजरात भाषु० वि० वि० 1979	7862 10-10-80	16, सैनी सोसाइटी सुस्तानपुर, बड़ीवा-7
6429.	संभ्या पादिल सखाराम	बी० एल० ए० एम०, गुजरात भाषु० वि० वि० 1977	6186 26-6-78	33-एम/138, प्रगति नगर, नारनपुरा, अहमदाबाद
6430.	संभ्या बेंग पाण्ड्या वीनू भाई	बी० एल० ए० एम०, गुजरात भाषु० वि० वि० 1971	3591 14-9-71	बनार रोरी, भागा तालाब, ग्राम भावनगर.
6431.	संगम बोरा बाबिलास	बी० एल० ए० एम०, गुजरात भाषु० वि० वि० 1980	9174 13-11-84	तपोवन संस्कारघाम, ग्राम धारागिरी पो०, कबीर- पुर ता० नवसारी, जिला नवलसाह,
6432.	संगीता भाबू मनहरलाल	बी० एल० ए० एम०, गुजरात भाषु० वि० वि० 1974	5021 28-10-75	23, बी, अमरकुंज सोसाइटी, कफारिया, (कमलेश सोसाइटी के सामने), अहमदाबाद
6433.	संगीता बेंग राजल नमोक कुमार	बी० एल० ए० एम०, गुजरात भाषु० वि० वि० 1974	4862 29-5-75	द्वारा डा० ए० एल० राजल, ग्राम-बरवाला, वेलासा, ता० धन्नुका, जिला अहमदाबाद
6434.	संगम भाई बीबरी बाबू भाई	बी० एल० ए० एम०, गुजरात भाषु० वि० वि० 1972	4130 1-12-73	ग्राम उनावा, ता० सिद्धापुर, जिला मेहसाणा,
6435.	सामिता मारजबान सतुन भाई	बी० एल० ए० एम०, गुजरात भाषु० वि० वि० 1978	6268 11-9-78	ग्राम मसार रोड, ता० दावरा, जिला बड़ीवा
6436.	संजय जयसवाल देवीचन्द्र	बी० ए० एम० एल०, गुजरात भाषु० वि० वि० 1984	9381 23-9-85	'उल्लास निवास, नजबीब अहमदाबादी बुकान, ग्राम नावियाड, जिला खेडा
6437.	संजय कुमार भाबवा राजू जी	बी० एल० ए० एम०, गुजरात भाषु० वि० वि० 1980	8351 11-3-82	ए-2/21, कृष्णा नगर, सैजपुर, अहमदाबाद
6438.	संजय कुमार ववे हरि प्रसाथ	बी० एल० ए० एम०, गुजरात भाषु० वि० वि० 1982	9103 31-7-84	बाह्यण बाबा, ग्राम एच पो० जमोद, जिला पंचम -389170
6439.	संजय कुमार मलियार जितेन्द्र भाई	बी० ए० एम० एल०, गुजरात भाषु० वि० वि० 1984	9277 2-5-85	25/सातसात सोसाइटी, अम्बावादी, मियो काम- नगर अहमदाबाद-15
6440.	संजय कुमार पाण्ड्या दन्तू प्रसाथ	बी० ए० एम० एल०, गुजरात भाषु० वि० वि० 1984	9240 12-3-85	दाजबाबा, समायी पोला, बड़ीवा-390001
6441.	संजय कुमार पटेल वीनू भाई	बी० एल० ए० एम०, गुजरात भाषु० वि० वि० 1975	5851 23-8-77	ग्राम बालासा, जिला बरोच
6442.	संजय कुमार पटेल नगन भाई	बी० एल० ए० एम०, गुजरात भाषु० वि० वि० 1977	7267 11-9-79	हनुमान फाकिया, गुसा बाजार, ग्राम मियाणाम- कूर्जग, जिला बड़ीवा
6443.	संजय कुमार बोरा बिलय राय	बी० एल० ए० एम०, गुजरात भाषु० वि० वि० 1979	8042 27-4-81	प्रेम पराग, जालाराम मखिर के सामने, ग्राम एच पी० नलिया, ता० अबादसा, जिला कच्छ
6444.	संजीवनी गोम्बेकार जामन्य राव	बी० एल० ए० एम०, गुजरात भाषु० वि० वि० 1976	6590 16-2-79	2, सदानन्द विठ्ठल सोसाइटी, मदनजापा रोड, बड़ीवा

1	2	3	4	5
6445.	संकाशोई चौधरी राम भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5172 18-2-76	ग्राम-सोलिया, ता० बीजापुर, जिला-मेहसाणा
6446.	संकाशोई पटेल शुभेरावास	बी० एस० ए० सी० क० गु० आयु० कोर्स, गुजरात 1965	2008 20-4-66	कमलपुर, ता० एच० पो०-आंतिज, जिला- साबरकण्ड
6447.	संकरलाल राजपूत मोहन लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3856 12-10-72	स्टेशन नागिनजीवन चाली, कमरा नं० 90 ग्राम-नवारी, जिला-वलसाड
6448.	संकाशोई पटेल गीतेश भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8974 12-3-84	ग्राम एच० पो० पूना (कुम्हारिया), ता० चौरवासी जिला-सूरत
6449.	संकाशोई लाल गुजरा बनसुख लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3146 30-1-76	बालगिया का मोहल्ला, माहिकपुर, सूरत
6450.	संतोषकुमार जोशी सुर्षा बन्धु	बी० ए० एम० एस० बिस्म वि० वि० 1976	7471 2-1-80	द्वारा के० एम० जोशी 89/4, माधव क्लब रोड, उज्जैन (म० प्र०)
6451.	सौरा भाई साहू छोटा लाल	जी० एफ० ए० एम० कै० आ० यू० सि० मे०, गुजरात 1962	1250 21-8-62	जूना सुधार बाग, सावेला, जिला-मेहसाणा
6452.	संकाशोई राजाजी करतार सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4450 20-8-74	वकील कालोनी, ग्राम-आहवा, जिला-हिंग।
6453.	सरला देसाई मोती भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3687 18-11-72	द्वारा महेश भाई पी० पटेल, बजरंग चौक मजबीक स्वामी नारायण भस्मिर, ग्राम-भर्मज ता० पेठलाघ, जिला-खेड़ा
6454.	सरला देसाई सहृदय	जी० एफ० ए० एम० कै० आ० यू० सि० मे०, गुजरात 1961	1247 23-10-61	ग्राम-समी, काथ हारिज, जिला-मेहसाणा
6455.	सरला देसाई सुलभा भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8397 5-4-82	ग्राम-बडिया, पो० नाणठिया, वाया कमवासी जिला-जुनागढ़।
6456.	सरला देसाई अर्धम भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	7933 29-12-80	ग्राम एच० पो०-बोडिनार, जिला-अमरेली
6457.	सरला देसाई नाथ लाल	बी० ए० एस० एफ० कै० आ० यू० सि० मे० बम्बई 1949	188 2-8-49	गीताश्री बतस्य सहकर सोलाहटी, सेंट भाई हाई स्कूल, पो० नवजीवन, अहमदाबाद
6458.	सारधुलभाई कलावाला वामा भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6785 30-4-77	नगरवाड़ा, गैर, पत्रिका ग्राम-बड़ोवा।
6459.	सारेज भाई बने सम्भू प्रसाद	बी० एस० ए० सी० क० गु० आयु० कोर्स, गुजरात 1986	2084 4-7-66	7, विजय सोसाइटी, सोमजीपुर, अहमदाबाद
6460.	सारेज केन-बारिया रति लाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात वि० वि० 1966	2451 30-3-67	सी/5 जी० बी० आर्कि० क्लब, ग्राम एच० पो० विजवा कापोनी, जिला-पंचमहल
6461.	सारेज केन-बेड मौलेन कुमार	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4748 7-4-75	कमलारा बाजार पो० आ० के सामने, ग्राम उमदेव ता० आनन्द, जिला-खेड़ा

1	2	3	4	5
6462.	सरला मेसवानी राम दास,	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4264 16-3-74	द्वारा रामदास देवकरण धीरेश्वर प्लॉट बिचड़ी चौक, रामकुण्ड, ग्राम-शोरबन्दर, जिला-जूनागढ़
6463.	सरोज कांतिलाल भाषार्थ	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	8195 12-10-81	नजदीक बिपिया बासा प्लेस, जूनागढ़ रोड, ग्राम-जूनागढ़
6464.	सरोज बोरव बसन्त राय	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8056 27-4-81	स्टेशन रोड, औषधालय, विजय चौक, ग्राम बागवारा, जिला-अमरेली
6465.	सरोज बलाल भाई दास	बी० एस्० ए० एम० वि० भा० आ० बिद्यापीठ, दिल्ली 1961	8360 11-3-82	द्वारा श्री ए० सी० बंकर, 3-बी, तेहसान बवन, लाल बरबाजा, सुरत
6466.	सरोज बण्डार सुरेश	बी० एस्० ए० एम० फै० आ० यू० सि० में, गुजरात 1961	2864 23-12-69	द्वारा हीरालाल टी० नानावती, 9/1622, केलापिठ रोड, सुरत
6467.	सरोज वंशमिया अश्विन	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3352 11-2-72	द्वारा के० जे० के० बातविया, गढ़ाबजाला बंगला, जेल रोड, भावनगर
6468.	सरोज शुक्ल तुलजा शंकर	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4290 26-3-74	7 बंगाचीनगर भट्टा, सरखज रोड, अहमदाबाद
6469.	सरोज शुक्ल लाभ शंकर	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	251 3-9-79	द्वारा पंतवीर लाभशंकर शुक्ल पुनीत कुटीर, पंकर भाई, चौक, ग्राम राजकोट
6470.	सरोज बाला भाटिया सुरेश नाथ	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3900 31-3-73	द्वारा आर० एन० पटेल, ग्राम-बनाज, ता० कावी जिला-मेहसाणा
6471.	सरोज बेन काजीबालाल नटवर लाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3229 18-8-71	सरोज बेन बी, शुक्ला 17/पटेल फालोनी सिद्धनाथ रोड, ग्राम बड़ीवा
6472.	सरोजबेन पटेल रमण लाल	बी० ए० एम० एस्० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9839 5-12-86	1/बी, आवर्ण सोसाइटी, तिबल रोड, ग्राम वलसाद-396001
6473.	सरोज बाला पटेल प्रकाश भाई	बी० ए० एम० एस्० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9471 11-2-86	'नान्यान्मा' योगीनगर, मेन रोड, ग्राम-गोण्डल- 360311 जिला-राजकोट
6474.	सरोज बेन उपाध्याय शिव प्रसाद	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4878 12-6-75	द्वारा विद्या कृष्ण दास के, ग्राम-रोड, बाया बिचड़ी, जिला-वलसाद
6475.	सरोज चन्द रावल लाभ शंकर	बी० ए० एस्० एफ० फै० आ० यू० सि० में, बम्बई 1953	2498 29-8-53	द्वारा डा० रावल लाभ शंकर जेठालाल, ग्राम एव पी० चान्द, ता० मियागव कर्जन, जिला बड़ोवा
6476.	सरस्वती काशीन हारचन्द	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4664 17-3-75	नजदीक टावर, ग्राम-साधुन्य ता० पाठन, जिला मेहसाणा
6477.	सरोजकुमार दाई काशिमशा	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4849 17-3-75	सब पोस्ट बवन ग्राम-बोराप्री, जिला-राजकोट
6478.	सरसुबाला-बटेल रजोब जी	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6387 13-10-76	ग्राम ए० पी० हाथुका ता० बानोब जिला-सुरत

1	2	3	4	5
6479.	सतीश चन्द्र पाहुर बिनायक	बी० ए० एम० एम० इन्वीर वि० वि० 1974	7287 20-9-79	बूच तलाई पाबेबा रोड, ग्राम-अच्छना, जिला पूर्वी विहार, (प० प्र०)
6480.	सतीश कारोदे बिनायक	बी० एम० ए० एम० पूना वि० वि० 1975	6239 1-3-76	8 सुबनगर हाउसिंग सोसाइटी, बाबोदिना रोड ग्राम-अहोबा
6481.	सतीश चन्द्र माली असमस्त राज	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	6800 21-3-79	ग्राम मोता बाबडिया, ता० पारसी जिला बलसाब
6482.	सतीश चन्द्र मन्सी रमणीक लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2681 22-1-70	दागिया कुली, भिष्ठी बाजार, ग्राम-आमनगर
6483.	सतीश चन्द्र साह पुंजा लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6891 16-2-79	ग्राम-बाहोला ता० बानरा, जिला-अहोबा
6484.	सतीश चन्द्र शर्मा हरि शंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	6879 3-4-79	एम-5/60, 478, शास्त्रीयानगर, नारनपुर अहमदाबाद
6485.	सतीश चन्द्र सोनी रमण लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	6158 3-8-81	14/164 बालकृष्ण कृष्णानगर के सामने, सजपुरबोधा, ग्राम-अहमदाबाद
6486.	सतीश चन्द्र शिवेरी पुंजी लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8381 24-3-82	ग्राम एड पो० अजाना ता० प्रान्तिज, जिला साबरमती
6487.	सतीश कुमार मदन हरिक चन्द्र	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2320 2-12-68	ग्राम एड पो० बी० हिमाल नगर, नजदीक पुरानी कम्पाबासा, नजदीक पुरानी मैट, जिला-साबरमती
6488.	सतीश कुमार पटेल शंकर लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7812 15-8-80	ग्राम-अच्छना, ता० बीजापुर, जिला-मैहसाणा
6489.	सतीश कुमार प्रजापति मंगल लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8655 10-2-83	ग्राम एड पो० कानपुर, ता० इंदूर, जिला- साबरमती
6490.	सतीश कुमार पटेल गोविन्द भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7908 3-12-80	1/बी, पम्बनाम सोसाइटी, रामिप, अहमदाबाद
6491.	सत्यजीत बने नठवर लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9407 19-10-85	"बहारकेस", मुरलीधर सोसाइटी, सरदारवाड़ा, ग्राम-मुनावड़-362002
6492.	सत्यनारायण पण्डित गोवर्धन प्रसाद	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3224 10-8-81	कैम्प, सबर बाजार, अहमदाबाद
6493.	सत्येंद्र अलमोला नठवर लाल	बी० ए० एम० एम० फै० जा० यू० सि० में०, बम्बई 1955	59 1-7-55	बहापुर सुराज, ग्राम-बरीय
6494.	सत्यपाल हीरानी मनबाललाल	आयुर्वेदाचार्य मि० जा० जा० विद्यापीठ, दिल्ली 1970	7841 10-10-80	ग्राम-अकबानगर, ता० वासनापुर, जिला- साबरमती
6495.	सत्यावान शर्मा जैसाराज	आयुर्वेद विद्वान मि० जा० जा० विद्यापीठ, दिल्ली 1961	7288 26-9-79	6-बी, पम्बनाम सोसाइटी, ग्राम-अहमदाबाद [-22

1	2	3	4	5
6496.	शोकत अली मुंसी नफेजली भाई	बी० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6266 2-9-79	मनी खावाकी, ग्राम एवं पो० कने, ता० जम्बासर जिला-बरोच ।
6497.	सुरेन्द्र कुमार धामी मीहन लाल	आयुर्वेद विशारद बी० ई० मे० सौराष्ट्र 1960	2226 6-4-61	करमपुरा किछोरी सिंह जी रोड, धामी पिचात धामाराजकोट ।
6498.	सबा भाई परमार नाथा भाई	बी० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7546 21-2-80	वांकरवास, ता० लोहरा, ता० बीजापुर, जिला मेहुसाणा ।
6499.	सचैल गोहिल वामाजी भाई	बी० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3696 27-11-72	खोडपाड़ा, नजदीक शंकर मन्दिर, ग्राम-जैतपुर, जिला-राजकोट ।
6500.	सावजी देलबाविया कर्शन	आयुर्वेद चिकित्सक नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1963	6889 3-3-79	ग्राम-भातरबाविया, ता० मालिया, हातिना जिला-भुसावळ ।
6501.	सावजी भाई मानावबाविया बेलाजी भाई	वैद्य विशारद नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1964	7089 6-7-79	ग्राम-जपोवर, बाया वनवाणी, जि-वाभुसावळ ।
6502.	सविता परमार बुला भाई	बी० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	6129 12-4-78	ए०/5, ई० ए० भाई० ए० क्ला०, गैरबा, बड़ीवा ।
6503.	सविता सोलंकी सिम्बु प्रसाद	एम० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	4601 1-1-75	ए-सी, आर्यनगर हाउसिंग सोसायटी, कंकारिया रोड, अहमदाबाद ।
6504.	सविताबेन कट्टेसारिया कांतिलाल	आयुर्वेद चिकित्सक नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1963	7644 20-3-80	अनन्त इन्टरनैशनाल, 205, सर्वोदय कर्मचारी, केन्द्र नजदीक बी० पी० पी० के सामने, अहमदाबाद
6505.	सावित्री राठी वलपतराय	बी० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3783 15-2-73	ब्लॉक 9/100, इश्रामनगर, अमराववाडी, मजिनगर अहमदाबाद ।
6506.	सविताबेन व्यास अम्बालाल	डी० ए० ए० सी० क० नु० आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1726 15-6-65	ग्राम-बुवा, पो० बोवासावा, जिला-बारिया ।
6507.	सेज्जम पटेल अम्बालाल	बी० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9067 15-6-84	9-ए, अथय नगर, ग्राम एवं पो० जोरवा, जिला- बड़ीवा ।
6508.	संवागिरि गोसाई बलदेवगिरि	बी० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	6927 17-4-79	ग्राम-बावनावा, ता० बीजापुर, जिला-मेहुसाणा ।
6509.	संबतिलाल शाह अमृतलाल	ए० बी० ए० ए० ब० हि० वि० वि० 1961	6939 17-4-79	बी/31, बी० नं० 411, नरोदा, रोड, पो० कृष्णानगर, (सैजपुरबोवा), अहमदाबाद ।
6510.	सेबल भाई पटेल मरिभाई	बी० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3099 28-1-71	ग्राम-सचबापुर, पो० नवलपुर, ता० द्विम्पत- नगर जिला-साबरमती ।
6511.	शम्बीर हाकिमजी सैयद भाई	बी० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5414 4-6-76	761, जकारिया मस्जिद, रिजीक रोड, अहमदाबाद ।
6512.	शम्बीर अली पलसांविया बल भाई	बी० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9646 31-12-86	ग्राम मेता-385525, ता० बावनाव, जिला- वाचस्पति ।

1	2	3	4	5
6513.	शाहनेस बीबी पठान अब्दुल सलान	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7308 20-9-79	रेलवे स्टा० नं० 834सी, ग्राम जैताससर, नं०, जिला राजकोट
6514.	शाही कला सिहता हुसेन लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4135 10-12-73	महिषपुरा, दालागोया, मोहल्ला, नगर नं० 14, ग्राम सूरत
6515.	शाहिदा हुकीम सरफाराज हुसैन	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3054 30-9-70	गोपीपुरा, कात्री मबान, सूरत
6516.	शाहीन बँच मोहनलाल	जी० एफ० ए० एम० के० भा० यू० सि० मे० गुजरात 1964	1840 5-11-65	ग्राम एब पो० सादोल, ता० बीजपुर, जिला मेहसाणा
6517.	शम्भूगॉर बीसवामी रुगनाथगाम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4335 16-4-74	कालपी भवन, ग्राम बनपानी, जिला जूनागढ़
6518.	शीला पंडित शरद चन्द्र	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5578 18-10-76	द्वारा एस० पी० पंडित-सेक्टर नं० 30, बी० नं० 11/1, गांधीनगर
6519.	शैलेन्द्र कुमार शाह विठ्ठल भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7788 19-8-80	13, महादेवनगर सोसायटी, अजुबा रोड, नजदीक आइस फेक्ट्री पानी गेट, बड़ीवा
6520.	शैलेश चंभे रामनाथ	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7816 17-9-80	द्वारा डा० रामनाथ आई० एम० स्मार्ट क्लीनिक शामल वास गांधी मार्ग, सम जना, जिला : जुनागढ़
6521.	शैलेश कुमार मेहता काति लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7542 21-2-80	द्वारा नितेश कुमार-मेहता, मयवडी-मुंबन कालेज चौक, ग्राम गोण्डल, जिला-दादरा
6522.	शैलेश कुमार पन्डित बिहारीलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6870 3-4-79	कुकाबव बाजार, शैठवाडा, ग्राम कपपचंब, - जिला खैरा
6523.	शैलेश कुमार पटेल अम्बालाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9544 18-8-86	कालस्यावास, ग्राम एब पो० पालियाद, ता० : कलेल, जिला मेहसाणा-382737
6524.	शैलेश कुमार शाह महेश भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8908 24-1-84	द्वारा डा० एम० बी० शाह, नजदीक छत्री चौक ग्राम चोटिला, जिला सुरेन्द्रनगर
6525.	शैलेश कुमार शंभु रमेश भाई	बँच विशारद नि० भा० आ० बिद्यापीठ, दिल्ली 1974	6673 28-2-79	कनसारा बाजार, नजदीक पोस्ट आफिस शाखा ग्राम नमरेव जिला खैरा
6526.	शैलेश कुमार बनकानी अर्जुन	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8906 24-1-84	द्वारा डा० जे० के० बनकानी, "शिवशिवन" पोस्ट आफिस के सामने, ग्राम जसवन, जिला राजकोट
6527.	शाजा मंसानी दीनतराम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	8340 4-10-78	577-बी, नई रेलवे कालोनी, साबरमती, अहमदाबाद
6528.	शाकरा भाई पटेल हापी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3157 20-3-71	ग्राम-पटनाकुवा, ता० बाहुंगम, जिला अहमदाबाद- बाद
6529.	शाकरा भाई पटेल बहि्या भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3780 12-2-73	बाहरी वाव गेट, ग्राम अमसाजू, ता० बीजापुर जिला मेहसाणा

1	2	3	4	5
6530.	शंकरा मोई बैद्य जैताराम	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1988	2810 13-8-69	बाला हनुमान आश्रम, ग्राम-शोबरो, ता० बीजापुर जिला मेहसाणा ।
6531.	शक्ति प्रसाद भट्ट मानक लाल	बी० एस्० ए० सी० क० गु० आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2361 10-1-67	45, अयोक्नगर, बोहरी साहपुर रोड, अहमदा- बाद ।
6532.	शक्ति सिंह जी० सरैया बभ्र सिंह जी०	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5051 26-11-76	ग्राम हाथसानी, ता० फालितापा, जिला भावनगर ।
6533.	शकुन्तला चौधरी मीजी राम	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3843 2-3-73	प्लॉक नं० 240, फिलार्व गंज, ग्राम वेहोच जिला पंचमहल ।
6534.	शकुन्तला गोखले दूम्बक	बी० एस्० ए० सी० क० गु० आयु० कोर्स, गुजरात 1961	161 4-6-63	मुस्लामपुरा, गोबलाब, बोंसिरबाब, बड़ीबा ।
6535.	शकुन्तला पटेल जय प्रकाश	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8718 19-4-83	द्वारा डा० जयप्रकाश आर० पटेल, कारवा क्लीनिक 'गोया बाजार' ग्राम-अकलेबर, जिला-बरीच ।
6536.	शकुन्तला शाह ओछवलाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	27-8-74	बैम्ब फ्लैट नं० 5, राजहंस सोसायटी, के सामने, एलिसब्रिज, अहमदाबाद ।
6537.	शकुन्तला माबल कार बिष्णु	बी० ए० एस्० एफ० कै० आ० यू० सि० मे० बम्बई 1950	939 26-2-51	केवा कुटीर बी० नं० 10, महाराष्ट्र सोसायटी, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-6 ।
6538.	शालम जतिकार सीताराम	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4326 8-4-74	कुमेदन फालिया, राज महल रोड, ग्राम बड़ीबा ।
6539.	शौं शैश जोशी बलवंत राय	बी० ए० एम० एस्०। इन्वॉर वि० वि० 1976	5986 2-12-77	1, सुनीता सोसायटी, अम्बाबादी, एलिसब्रिज, अहमदाबाद ।
6540.	शंलेश कुमार बन्ध गोविन्दलाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5952 27-10-77	ग्राम बिलातनबाबा, ता० सिद्धपुर, जिला मेहसाणा ।
6541.	शामल भाई मोदी भोला भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4327 9-4-74	ग्राम उप्पेरा, ता० सिद्धपुर, जिला मेहसाणा ।
6542.	शामल भाई पटेल भोला भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7722 17-5-80	ग्राम, पोयालू, ता० प्रांतिज, जिला-साबरकण्ठा ।
6543.	शामल भाई पटेल माधा भाई	बी० ए० एम० एस्० बम्बई वि० वि० 1981	8846 19-9-83	ग्राम एव पो०-मेसन, ता० दवर, जिला साबरकण्ठा ।
6544.	शामल बन्ध लखारी मोहन लाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4476 30-8-74	ग्राम मोती बाबादी, बाया पारबादी, जिला । भावनगर ।
6545.	शामलथास पटेल मंगललाल	आयुर्वेद-मिषक नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1946	7616 18-3-80	ग्राम सोनासन, ता० प्रांतिज, जिला साबरकण्ठा ।
6546.	शम्भूभाई बाजार नाचामी भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	5416 4-8-75	ग्राम उगमेदी, ता० गावेंदी, जिला भावनगर ।

1	2	3	4	5
6547.	शम्भू भाई गीवानी पुष्पोत्तम भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5105 1-1-76	1/ए, सुरभीत सोसायटी, ठक्करनगर रोड, अहमदाबाद।
6548.	शम्भू प्रसाद जोशी अयशंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	5819 14-6-77	जुनापुरा, मालीफालिया, ग्राम कलोन, जिला पंचमहल।
6549.	शम्भू भाई कोरत राजपी भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6766 21-3-79	ग्राम मोरा बारोविया, ता० गार्लिचर, जिला भावनगर।
6550.	शम्भू भाई पटेल नारनबास	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7831 26-9-80	309/70, चोकासी की वाली, अमराई बाड़ी, अहमदाबाद।
6551.	शम्भू भारती गोस्वामी नाम भारती	बी० एम० एम० एम० वि० वि० वि० वि० वि० वि० 1965	7849 10-10-80	ग्राम एब पो० मेता केतावा, बाया जेतम, ता० बीसावाघर, जिला जूनागढ़।
6552.	शम्भू लाल ठक्कर नरपत राम	बी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० 1968	2676 7-6-68	आजाद चौक, ग्राम एब पो० भधर, ता० दियावर जिला जामनगर।
6553.	शम्भू नाथ सिंह इन्द्रासन	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7858 10-10-80	कमरा नं० 4988, बी० नं० 7, बापूनगर, अहमदाबाद।
6554.	शामजी भाई पटेल नाथजी भाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1965	1891 15-9-65	ग्राम भोरीनागाड़ा, बाया भावनगर, जिला अमरेली।
6555.	शाना भाई पटेल कालिदास	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5432 18-6-76	कस्तूरबा सेवा आश्रम, कोबाड़ी बीजवालय, ता० मयरोल, जिला सुरत।
6556.	शाना भाई बांकर नरकाहा भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6204 28-7-78	ग्राम ठोकारी, जामत, पो० काण्ठा, ता० पावरा, जिला कड़वा।
6557.	शंकर देव सर्मा	एच० पी० ए०, पो० प्रो० ट्रे० से इन आयु०, जामनगर 1965	2092 11-7-66	छारा गंगाराम शर्मा निरीक्षक आयु० लेखन ग्राम बंगरपुर (राजस्थान)।
6558.	शंकर भाई बांकर काका भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3538 4-8-72	बांकरवास, ग्राम लोहरा, ता० मीजापुर जिला मेहसाणा।
6559.	शंकर भाई मकवाना श्वोतराम	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5532 17-9-76	ग्राम मोबा छारवा, ता० जामनगर, जिला मेहसाणा।
6560.	शंकर भाई पटेल बेरी भाई	आयुर्वेद विभागात्, एम० एस्० वि० वि० 1965	1896 20-12-66	असारिया पोत चौकणी, कड़वा।
6561.	शंकर भाई पटेल हरमोहन दास	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4877 12-6-75	ग्राम सामेला, बाबा मोहेरा, जिला मेहसाणा।
6562.	शंकर भाई पटेल राधा भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6235 19-8-78	ग्राम एब पी० कोलिना, ता० इबर, जिला ताबरकंडा।
6563.	शंकर भाई पाटिल नमवान	बी० ए० एम० एम०, अर्थात् वि० वि०	8983 12-3-84	201, जनेक पार्क सोसायटी, कलाक नगर के सामने संधामपुरा, ग्राम सुरत, ता० बीरवादी, जिला सुरत।

1	2	3	4	5
6564.	शंकर लाल भट्ट बुजसाल	आयुर्वेद विशारद, बी० ई० मे०, सौराष्ट्र 1958	2223 15-3-58	आयु० औषधालय, ग्राम पासबी, ता० तालाजा, जिला भावनगर।
6565.	शंकरलाल वैद्य ताराचन्द	जी० एफ० ए० एम०, कै० आ० यू० सि० मे०, बम्बई 1960	1058 23-10-61	गोविंद चकला, स्टेशन रोड ग्राम बीसानगर, जिला मेहसाना।
6566.	शंकर सिंह बाघेला गांगू सिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3405 28-2-72	माधुपाड़ा पुलिस क्वार्, 11/4, राधि बाग, अहमदाबाद।
6567.	शंकर नारायण सट्ट बैभट्टरमण	एम० बी० (आयु०), गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8598 13-12-82	श्री जी० ए० आयु० कालेज, कार्य चिकित्सा विभाग, जामनगर।
6568.	शास्ता कोलवानी लाधाराम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5080 15-12-75	द्वारा कोटवानी एल० जी० एस० रेलवे स्टे०, ग्राम जाम खम्भासैया, जिला जामनगर।
6569.	शास्ता बेन भीमान कौशल भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5994 19-12-77	ग्राम दोलावन ता० ध्यारा, जिला सुरत।
6570.	शास्ता बेन गोरख गंगजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9505 12-5-85	ग्राम नवगढ़-360370, वाया जेसपुर, राजकोट।
6571.	शास्ता बेन पटेल भाईलाल भाई	डी० ए० एल० एफ०, कै० आ० यू० सि० मे०, बम्बई 1954	642 2-8-54	डा० शास्ताबेन मैट्रिनिटी होम, नजदीक कला मंदिर सिनेमा, टोपीवाला खान्वा, ग्राम बड़ोवा।
6572.	शास्ताबेन बाजा मालदे	वैद्य विशारद मि० मा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1972	8428 17-5-82	ग्राम मजबूरी ता० मासिया-हातिना, जिला जुनागढ़-362 248।
6573.	शास्ता गौरी जोशी बोलत राय	वैद्य विशारद, मि० मा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1969	7498 17-1-80	नजदीक कबीर भाखम, ग्राम पोरबन्दर।
6574.	शास्ता कला कुलकर्णी गणेश	बी० ए० एस० एफ०, कै० आ० यू० सि० मे०, बम्बई 1951	118 1-9-51	बाजार याद, ग्राम हिम्मतनगर जिला-- साबरकांठा।
6575.	शास्ता राम वैद्य नरसिंह राम	एल० ए० एम० यू० पी० आयु० महाविद्यालय पाटन (बड़ोवा) 1941	2408 13-8-41	नाथ आयु० महाविद्यालय, सुरत।
6576.	शास्तिवास गोण्डालिया विष्णु बास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8492 27-8-82	ग्राम एच० पो० राजासर, ता० सिम्बाही, नामा लक्षर, जिला सुरेन्द्रनगर।
6577.	शास्तिगिरि गोस्वामी प्रभातगिरि	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5362 22-4-78	ग्राम काकीदी भोली, ता० उना जिला जुनागढ़।
6578.	शास्तिगिरि गोस्वामी महाजन गिरि	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5667 3-2-77	ग्राम देवगमा, ता० शिहोर, जिला भावनगर।
6579.	शान्तिनाथ अग्रवाल भगवानवास	आयुर्वेद विशारद, बी० ई० मे०, सौराष्ट्र 1959	2214 30-4-59	एक्समा पलेड, बी/2, नवरंगपुरा, अहमदाबाद।
6580.	शान्तिनाथ अजी अम्बाशंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3330 3-2-72	ग्राम आरख (शिशीवारा), वाया वासमा, जिला वलसाड।

1	2	3	4	5
6581.	शान्तिशाल अज्ञी भारीशाल	आयुर्वेद विषयक, मि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1960	7503 17-1-80	ग्राम आडवाणा, ता० पोरबन्दर, जिला— जुनागढ़ ।
6582.	शान्तिशाल बाराद भीबा भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5061 2-1-75	ग्राम सामोसारा, बाया सोनगढ़, ता० शिहोर, जिला—भवनगर ।
6583.	शान्तिशाल पांखर केशवजी	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4414 20-6-74	ग्राम धाना पिपली बाया लुशाला, जिला— जुनागढ़ ।
6584.	शान्ति लाल भट्ट पीपटशाल	एस्० ए० एम०, यू० पी० महाविद्यालय पाटन (बड़ोवा) 1937	862 18-10-41	जुनागढ़ आयु० मेडिकल अस्पताल, जुनागढ़ ।
6585.	शान्तिशाल चौहान लक्ष्मण भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5509 25-8-76	मेता फालिया, रण्डर, ग्राम सुरत ।
6586.	शान्ति लाल वाराजी मंगल भाई	आयुर्वेद मध्यमा, अ० द० परीक्षा समिति, बड़ोवा 1978	6513 1-2-79	बृगविरीक्षक, मेहता ब्लॉक प्रभु रोड, ग्राम गोधारा, जिला—पंचमहल ।
6587.	शान्ति लाल दवे मंगल लाल	डी० ए० एस्० एफ०, ! फै० आ० यू० सि० मे०, बम्बई 1949	370 19-10-49	मजदीक कोयला मजदूर पंचायत आफिस, कोरोडंध पो० धारिया (घनबाद) ।
6588.	शान्तिशाल दवे अम्बाबाबकर	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5602 17-11-76	द्वारा जयराज साहकल कामेज, ग्राम ओराकरनगर जिला सुरेन्द्रनगर ।
6589.	शान्तिशाल दवे मारिकेश	आयुर्वेद विषयक, मि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1960	6770 21-3-79	रामकुवा गली, जाला जार, ग्राम जामनगर ।
6590.	शान्तिशाल देव मुरारी मरिचदास	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7732 6-6-80	कृष्णापाड़ा, मेन रोड, कपाद बाजार, ग्राम बाविया (देवली), जिला अमरेली ।
6591.	शान्तिशाल गांधी गोधन दास	बी० एफ० ए० एम०, फ० आ० यू० सि० मे० गुजरात 1961	150 17-1-62	पाकपुरी, बण्दारी गली, ग्राम तबासारी, जिला धलसाद ।
6592.	शान्तिशाल गोण्डालिया नारनदास	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5774 26-4-77	ग्राम भेलना, ता० मंगरोल, जिला जुनागढ़ ।
6593.	शान्तिशाल गीवाटिया काकभी भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8581 21-10-82	ग्राम एव पो० दंतवा देवादी, बाया बाविया, जिला अमरेली ।
6594.	शान्तिशाल जोशी प्राण बाबकर	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4271 20-3-74	ग्राम हमीरपुर, पो० नेकनाय, ता० मोरबी, जिला राजकोट ।
6595.	शान्तिशाल जोशी बैजा बाबकर	बी० एस्० ए० एम०, मि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1979	6636 21-2-79	ग्राम होधीजी आवावा, ता० जमजोधापुर जिला जामनगर ।
6596.	शान्तिशाल मेहता नरसिंह राय	आयुर्वेद विषयक, मि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1965	8036 10-4-81	जरीफ बावा का बर, पुंजारा पोल गली, ग्राम साधी, जिला अमरेली ।
6597.	शान्तिशाल मेकवान सोमा भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6085 21-3-78	मिल कामवार सोसायटी रेलवे स्टेशन के पीछे, मावियाड ।

1	2	3	4	5
6598.	शान्तिबाल मोरी बल्लभ दास	बी० ए० एम० एम०, इन्वीर वि० वि० 1976	5780 26-4-77	द्वारा बी० के० पटेल, हुस्कर, 15-बी, पंचवटी सोसायटी, ग्राम राजकोट ।
6599.	शान्तिबाल लक्ष्मी गोर्धम दास	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4580 28-11-74	बिटूल बापी कालोनी, 524, ग्राम भावगढ़ ।
6600.	शान्तिबाल परमार बेलजी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3572 2-9-72	ब्लॉक नं० 20, मेघानी नगर, अहमदाबाद ।
6601.	शान्तिबाल पटेल नागरजी	बी० ए० एम० एम०, फै० आ० यू० सि० मे०, बम्बई । 1956	644 1-12-56	ग्राम अमरेली, स्ट्रीट उत्तरान, जिला - सुरत ।
6602.	शान्तिबाल पटेल नरोत्तमदास	जी० एफ० ए० एम०, फै० आ० यू० सि० मे०, बम्बई 1950	643 2-12-57	बिटूल भाई सोसायटी, ग्राम बरीच ।
6603.	शान्तिबाल पटेल माधवदास	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3466 30-3-72	ग्राम रास, ता० बीरव, जिला खेड़ा ।
6604.	शान्तिबाल पटेल काशी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3917 13-4-73	ग्राम मण्डला (मोटो भाग), ता० वडो जिला बड़ोदा ।
6605.	शान्तिबाल पटेल कालिदास	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4735 3-4-75	ग्राम वामर, ता० कर्जन, जिला बड़ोदा ।
6606.	शान्तिबाल पटेल जेशंग भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4958 30-9-75	ग्राम बाधोविया, कस्तूरबा, फालिया, जिला बड़ोदा ।
6607.	शान्तिबाल पटेल कर्मन भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4957 30-9-75	ग्राम बाहेलाम, ता० जम्बूसर, जिला बरीच ।
6608.	शान्तिबाल पटेल काशीदास	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7924 12-12-80	ग्राम राजपुर, पो० ता० बालाशिमोर, जिला खेड़ा ।
6609.	शान्तिबाल रामपुरा बल्लभदास	आयुर्वेद मिषक, नि० आ० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1960	7339 16-10-79	बम्भा शोरी, ग्राम भारागाछरा, जिला सुरेन्द्रनगर ।
6610.	शान्तिबाल सेवनामी लक्ष्मण भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6831 22-3-79	ग्राम हलावावर, जिला जूनागढ़ ।
6611.	शान्तिबाल राजेश मफा लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5587 27-10-76	द्वारा डा० मफालाल, एम० सोनी, पो० सयालाप, जिला सुरेन्द्रनगर ।
6612.	शान्तिबाल पटेल बेलाजी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7755 16-7-80	ग्राम ट्रेस्ट, लक्ष्मीनगर, ता० बीरमगाम, जिला अहमदाबाद ।
6613.	शान्तिबाल शाह मोहनलाल	ए० बी० बी०, सि० म० विद्यापीठ, पूना 1943	1244 3-11-41	28, कैलाश सोसायटी, बाधोविया रोड, ग्राम बड़ोदा ।
6614.	शान्तिबाल शाह अम्बालाल	बी० ए० एम० एम०, फै० आ० यू० सि० मे०, बम्बई 1952	1242 6-2-52	3, बसुधरा सोसायटी, उमा बी०, कालोनी के पोस्ट, बाधोविया रोड, बड़ोदा ।

1	2	3	4	5
6615.	शान्तीलाल सोलंकी सम्पन्न	बी० ए० एम० एस्०, गुजरात वि० वि०, 1965	1888 10-12-66	द्वारा एस्० पी० सोलंकी, कादियावाड़, इजुमेरी शेरी, जामनगर ।
6616.	शान्तीलाल सोलंकी रावजी भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6272 11-9-78	ग्राम खंगरका, ता० झेल, पो० सदमाती नं०, जिला—जामनगर ।
6617.	शान्तीलाल सोनी भनिराम	डी० एस्० ए० सी०, क० यू० आयु० कोर्स, गुजरात 1963	1358 21-11-63	प्रवाजार, ग्राम राधाखपुर, जिला—बानसकंठा ।
6618.	शान्तीलाल साराधिया कपूर लक्ष्म	वैद्य विशारद, नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1974	6962 4-5-79	ग्राम सिंगसर, बाया रामोपाडी बेरावल, जिला—जुनागढ़ ।
6619.	शान्तीलाल सुजाक बहुयालाल	डी० ए० एस्० एफ०,] फ़ै० आ० यू० सि० मेडी०, बम्बई 1954	8027 10-4-81	ग्राम बागरा, ता० कृकासव वैद्य, जिला— अमरेली ।
6620.	शान्ति लाल सुषर महासुख भाई	आयुर्वेद सम्प्रदा अ० व० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1957	7169 3-8-79	74/2, एन० कालोनी, नजबीक पुराना सच्चिदान्य अहमदाबाद ।
6621.	शान्ति लाल शम्बाधिया नरसिंह	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6203 28-7-78	ग्राम पाटनखव ता० उपलेटा, जिला राजकोट ।
6622.	शान्ति लाल त्रिबेदी उमियाशंकर	जी० एफ० ए० एम०, फ़ै० आ० यू० सि० मे०, बम्बई 1960	332 23-10-61	द्वारा उमियाशंकर कालिदास, 8, दिविधजय प्लाट त्रिबेदी निवास, जामनगर ।
6623.	शान्ति लाल उपाध्याय मणिसंकर	आयुर्वेद विशारद, एम० एस्० वि० वि०, 1935	1954 31-5-35	रावकावनाथ रोड, रोवामाथ हनुमान शेंरी के पीछे राम जी की मन्दिर ग्राम बड़ौदा ।
6624.	शान्ति लाल श्याम श्रीम जीवन भाई	आयुर्वेद चिकित्सक, नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1955	8363 11-3-82	ग्राम एबं० पो० छाटादिया, बाया खलाला, ता० धारी, जिला अमरेली
6625.	शान्ति लाल जालावाधिया गोवर्धन दास	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3388 19-2-72	ग्राम भोलीमारद, ता० भोराजी, जिला राजकोट ।
6626.	शान्ति राम अग्रवाल मायाराम	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3192 7-5-71	ग्राम कालामारी, बावा विसादवर, जिला जुनागढ़ ।
6627.	शरद आयसवाल सुमन लाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4124 26-11-73	आनन्द खवन, शियाबाग, मेन रोड, ग्राम बड़ौदा ।
6628.	शरद बारहेट्टे भोजराज	बी० ए० एम० एस्०, नागपुर वि० वि०, 1976	7487 17-1-80	105, नारीनगर कालोनी, नं० 2, ग्राम उखाना, जिला सुरत
6629.	शरद बेसाई शंकर दास	बी० ए० एम० एस्०, वि० बी० आ० यू० सि० मे०, महाराष्ट्र 1967	2947 6-4-70	चिकित्सा अधिकारी, मिजार औषधालय, ग्राम निजार जिला सुरत ।
6630.	शरद श्याम लक्ष्मक लाल	बी० ए० एम० एस्०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1963	1397 22-1-64	पोस्ट आफिस के सामने, कंस रोड, मानीबाद, ग्राम श्याम, जिला सुरत ।
6631.	शारदा आचार्य रसिक लाल	बी० ए० एम० एस्०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1963	1056 11-6-63	सहयोग सोसाईटी, सुमल बावरी, रोड, सुरत-3

1	2	3	4	5
6632.	शारदा पटेल बामाजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8614 13-1-83	अय ससाधार सोसाईटी, ब्लॉक नं० 24, अमित रोड, नजवीक अन्नपूर्णा, सोसाईटी, अहमदाबाद- 24
6633.	शारदाबेन पावालिया गोविन्द भाई	बी० बिशारद नि० भा० आ० विद्यापीठ, विहली 1972	7182 9-8-79	द्वारा डा० मालाजी भाई ई० अघोरा, अमृतनगर ग्राम केशीद, जिला जूनागढ़।
6634.	शारदा साधरकिया गोविन्द भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5761 14-4-77	द्वारा जी० पी० पटेल, सबाँवया श्रम, ग्राम शाहो- धर, ता० बनवासी, जिला जूनागढ़।
6635.	शारदा सावारीया मदन लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5939 24-10-77	सारापुर, चारस्ता, काविया बाबू, म० नं० 799, अहमदाबाद।
6636.	शारदा बेंन पटेल शंकर भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6048 24-2-78	नजवीक रामदेव पीए, ग्राम आजरपुर, ता० आनन्द जिला खेड़ा
6637.	शारदा भाई पटेल हंसवर भाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1966	1771 21-7-65	द्वारा आई० एम० पटेल, ग्राम मन्डेल, ता० वेह- गाम
6638.	शरद चन्द्र बावोले गणपति	बी० ए० एम० एम०, इन्दौर वि० वि०, 1974	8660 10-2-83	67, ब्रह्मपुरी ग्राम खारवा (म० प्र०)
6639.	शरद चन्द्र भट्ट गनानन	डी० एस० ए० सी०, क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1963	1393 20-1-64	चौकी खैरी, सैय्यद पुरा, सुरत-3।
6640.	शरद चन्द्र छाया चन्द्र प्रसाद	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	4256 15-3-74	नजवीक नवा पाड़ा, ग्राम अन्जर, जिला कच्छ।
6641.	शरद चन्द्र दवे कपिल राय	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9136 10-9-84	बी-1, भाशियाना अपार्टमेंट, सरदार नगर, प्रगम भावनगर।
6642.	शरद चन्द्र जोशी मून शंकर	आयुर्वेद विशारद, बी० ई० में सी राष्ट्र 1956	2221 1-5-58	ग्राम सिखाना, ता० साबरकुण्डला, जिला भावनगर
6643.	शरद चन्द्र लम्बोले, इच्छा राम	डी० ए० एम० एम०, नागपुर वि० वि०, 1981	9113 23-6-84	ग्राम एच० पो० गा, ता० भोरयासी, जिला सुरत।
6644.	शरद चन्द्र त्रिवेदी कांति लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3452 21-3-72	द्वारा डा० के० बी०, सिबंदी, ग्राम घाघानी बाया शिभोर, जिला भावनगर।
6645.	शरद चन्द्र उपाध्याय कृष्ण चन्द्र	डी० एफ० ए० एम०, ई० आ० यू० सि० में गुजरात 1960	72 17-1-62	10, भोजराजपुरा, गोण्डल, जिला राजकोट।
6646.	शरद चन्द्र एन० वी० नागू भाई	डी० ए० एस० एफ०, ई० आ० यू० सि० में, बम्बई 1956	1059 30-6-46	कीका भाई रोड, ग्राम गनवेधी, जिला अहमदाबाद
6647.	शारदाबेन पटवर्धन दत्त प्रसाद	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6113 5-4-78	अम्बहतरि बावी, पायसी कालिया, बड़ोबा
6648.	शरद कुमार दूधारेजिया जीवराम भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7538 20-2-80	5/56, नवीमन नगर, नारनपुरा, अहमदाबाद

1	2	3	4	5
6649.	शरद कुमार जानी चम्बुलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5178 31-7-76	वाहरी शाहपुर रोड, फायर ब्रिगेड के सामने, पानेयानुधी, बंगला, अहमदाबाद।
6650.	शरद कुमार पारैख मकर लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8753 11-5-83	ग्राम एवठ, पो० कुम्भारिया, ता० चोरवासी, जिला सुरत
6651	शरद कुमार पटेल बेन्वार भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4802 24-4-75	ग्राम एवठ पो० रानिया, ता० सक्वासी, जिला बड़ौदा।
6652.	शरद कुमार त्रिवेदी मोती लाल	बी० एस० ए० सी०, क० शा० आयु० कोर्स, गुजरात 1963	1352 19-11-63	द्वारा डा० विमललाल सी० त्रिवेदी, नजदीक टैंक ग्राम हूलोद, जिला पंचमहल।
6653.	शरद रंजन बघे शान्ति लाल	एम० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3110 25-12-55	आर० नं० 14, नरनारायण भवन, प्रथम मंजिल स्वामी नारायण मन्दिर के सामने, कालूपुर अहमदाबाद।
6654.	शरद कुमार शुक्ल बापा लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8301 5-2-82	ग्राम पंचारा, ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा।
6655.	शरद कुमार ग्यास शुक्ल दास	डी० ए० एस० एफ०, फे० आ० यू० सि० में० बम्बई 1952	1107 2-12-52	4/4147, बेगमपुरा, पुलिस चौकी के सामने, सुरत।
6656.	शरमिता बेन पटेल इश्वर भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4494 9-9-74	नजदीक पोस्ट आफिस, ग्राम धोरवी, ता० आनन्द जिला खेड़ा।
6657.	शशि बाला सेंदिरता जय दयाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6254 2-9-78	गवर्नमेंट जी० कालोनी, लाल मिल के पीछे, कमरा नं० 130/15, अहमदाबाद।
6658.	शशि बाला सभरवाल दशरथ लाल	डी० एम० ए० सी०, क० शा० आयु० कोर्स, महाराष्ट्र 1964	8161 3-9-81	मार्मैत दर्शन लाल, रोताकू बायारास, बिल्डल उद्योग नगर, ग्राम विद्यानगर, आनन्द, जिला खेड़ा।
6659.	शशि धरन पिल्लई	एम० डी० (आयु०) गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	6022 2-2-78	टूटर, जिला डारवागुन, भाई० पी० डी० टी० एव० पी० गुजरात आयु० वि० वि०, जामनगर।
6660.	शशिकला देसाई महेश कुमार	बी० एस० ए० सी० क० शा० आयु० कोर्स, महाराष्ट्र 1964	5838 25-7-77	49,316, एलोरा पार्क, ग्राम बड़ौदा।
6661	शशिकांत भादालिया गोबर भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5461 14-7-76	द्वारा गोबर भाई देवाभाई, सरदार पाड़ा प्लाट, द्वारा ग्राम जूतागढ़।
6662.	शशि कान्त भट्ट लक्ष्मू भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3826 27-2-73	ग्राम जित्रोवा, ता० इवर, जिला साबरकण्ठी।
6663.	शशि कान्त बघे गणपति लाल	बी० ए० एम० एम०, इश्वर वि० वि०, 1973	8807 5-7-83	द्वारा ग्यास आनन्दी लालाजी, गोपाल गंज, ग्राम प्रताप गढ़, जिला वित्तोड़ गढ़, (राजस्थान)
6664.	शशि कान्त गर्भो शान्ति लाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि० 1963	149 25-6-63	प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्राम प्रभात, पाठन।
6665.	शशि कान्त काविया लाना जी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6614 21-2-79	42, आशा सोसाइटी, लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने नजदीक बीरमाता, मन्दिर, ससामपुर, अहमदाबाद।

1	2	3	4	5
6666.	शशि कांत लखारो शांति लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8894 10-1-84	ग्राम एब० पो० कुटियाणा, जिला जूनागढ़।
6667.	शशि कांत पाण्ड्या गजानन्द	बी० ए० एस० एफ०, फै० आ० यू० सि० मै० बम्बई 1956	773 3-9-56	बी० नं० 8, कैलाश सोसाईटी, ग्राम किम, जिला सूरत।
6668.	शशि कांत पारेख मणि लाल	डी० एस० ए० सी क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1962	713 18-7-62	ग्राम एब० पो० झुंगरी, ता० बलसाब, जिला सूरत
6669.	शशि कांत पटेल बिट्टल बास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3200 24-11-71	ग्राम रास, ता० बोरसाब, जिला खेड़ा।
6670.	शशि कांत पटेल मणि लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5076 15-12-75	ग्राम विखोदरा, पो० कोंसिबरा, ता० संखेड़ा, जिला बड़ौदा।
6671.	शशि कांत पटेल मधुसूदन भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6306 27-9-78	ग्राम चाचाक, पो० दोबोली, ता० जैतपुर, जिला बड़ौदा।
6672.	शांति लाल पटेल शम्भू बास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7485 5-1-80	ग्राम रंछोदपुरा, ता० बीजापुर जिला मेहसाणा
6673.	शशिकांत पटेल रमणलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7601 17-3-80	25, पिकनिक सोसाईटी, नवयुग कालेज के पीछे, रामदर रोड, ग्राम सूरत
6674.	शशि कांत पाठक प्रभाश कर	बैद्याचार्य, नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1965	7955 17-1-81	ग्राम एब० पो० कुम्भान, बाया भाखिया, जिला भावनगर।
6675.	शांति लाल शाह मणिक लाल	डी० ए० एस० एफ०, फै० आ० यू० सि० मै० बम्बई 1948	1243 30-8-48	ग्राम भिलावा ता० भिलावर, जिला साबरकण्ठ।
6676.	शशि कांत शाह मोहन लाल	जी० एफ० ए० एम०, फै० आ० यू० सि० मै०, बम्बई 1960	1239 2-5-62	जेगीबास बिट्टल, पोल, राव पुरा, बड़ौदा।
6677.	शशि कांत शाह हिम्मत लाल	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० यू० सि० मै०, गुजरात 1963	1402 25-1-64	मोघ धर्म की बावी, पटेल बाड़ा के सामने, ग्राम कपाड़बंज।
6678.	शशि कांत शाह विमन लाल	जी० एफ० ए० एम०, फै० आ० यू० सि० मै० गुजरात 1963	1436 7-5-64	डा० एस० सी० शाह शारदा एस्टेट, बाजारनकाका गोराई रोड, बोरोवाली पश्चिम, बम्बई-02।
6679.	शशि कांत शौठ नाथा लाल	डी० एस० ए० सी०, क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1964	1590 19-1-65	आयु० जीषघालय, ग्राम जालिया, बाया राजकोट
6680.	शशि कांत ठक्कर प्रेम शंकर	डी० ए० एस० एफ०, फै० आ० यू० सि० मै०, बम्बई 1956	274 1-10-56	बामोदर जी फालिया, ग्राम चोरबाद, जिला जूना- गढ़।
6681.	शशि कांत त्रिवेदी अमृत लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3335 6-2-72	बदवा, नेहरा, भाभुभाई गर्ब का घर, भावनगर।
6682.	शशि कांत त्रिवेदी हरिहराण	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	7910 3-12-80	ग्राम एब० पो० सोदपुर, ता० नावियाड़, जिला खेड़ा।

1	2	3	4	5
6683.	शशि कांत उपाध्याय भायू भाई	बी० ए० एस्० एफ०, फै० आ० यू० सि० मै०, बम्बई 1955	73 3-1-55	राम रोड, ग्राम मरोली, बाजार, ता० नवासारी, जिला बलसाघ ।
6684.	शशि कांत उपाध्याय प्रभा शंकर	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4189 12-2-74	77, अरुणोदय स्टेट बैंक, विद्यानगर, ग्राम भाव- नगर ।
6685.	शशि कांत वैद्य नरेश	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5233 1-3-76	विद्युत भवन के सामने, रेसियरोस रोड, बड़ीवा
6686.	शशिन भाई पटेल अम्बालाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8300 5-2-82	ग्राम लवोल, ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा ।
6687.	शशुवन दास मिश्रा लक्ष्मण दास	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3886 23-3-73	पाटलि हनुमान, मोगलिसाणा, ग्राम सूरत ।
6688.	शैखर भाई पारेख लाल जी भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5200 25-2-76	ग्राम उत्तरसरहवा, ता० नादियाड, जिला खेड़ा ।
6689.	शिक्षा कुण्डा अधीर कुमार	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6924 17-4-79	द्वारा ए० के० कुण्डा, कवाटर एल० 63/ए, रेलवे स्टेशन के सामने, ग्राम जामनगर ।
6690.	शीला बेसाई रमेश चन्द्र	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6115 5-4-78	बी० नं० बी-33, बाहेरा कालोरी, अकाई सर- बावया योजना, किला सोमगढ़, जिला सूरत ।
6691.	शीला शाह, मोम भव लाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8283 25-1-82	बी/1, मधकुंज सोसाईटी, नजदीक सहायाब, तामान वादी, बड़ीवा
6692.	शीलाबेन शर्मा रामकिशोर	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4323 8-4-74	बी० नं० 52 बी, अम्बिका सोसाईटी, नं० 2, ग्राम कलोल, जिला मेहसाणा ।
6693.	श्रीम ज्ञानी मनहर लाल	बी० ए० एम० एस्०, वि० बी० आ० यू० सि० मैडिसिन, महाराष्ट्र 1971	4202 15-2-74	23, पुण्य कुंज सोसाईटी, मोलैज रोड, आमन्द जिला खेड़ा
6694.	श्रीम शाह नरेश लाल	जी० एफ० ए० एम०, फै० आ० यू० सि० मैडिसिन, गुजरात 1983	1429 18-4-64	अजीत औषधालय, ग्राम बाहेगाम, जिला अहमदा- बाद ।
6695.	श्रीम कुमार मट्ट भृगुदास	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6139 19-4-78	द्वारा बी० आर० मट्ट, 23, जल कल्याण सोसाईटी मजबा रोड, पो० आकिस, ग्राम बड़ीवा
6696.	श्रीम कुमार मट्ट सुखदेव भाई	बी० ए० एम० एस्०, गुजरात वि० वि० 1968	2678 12-6-68	द्वारा डा० सुखदेव भाई खोलेशंकर मट्ट, राम- निवास नवापाड़ा, ग्राम भावनगर ।
6697.	श्रीम कुमार दलाल हीराजाल	जी० एफ० ए० एम०, फै० आ० यू० सि० मैडिसिन, गुजरात 1965	1655 14-5-65	आर० एम ओ० देबी अस्पताल, कृषारा, नवासारी जिला बलसाघ ।
6698.	श्रीम कुमार देवादारिया नारमभाई	आयुर्वेद मध्यमा, श्र० ड० प० समिति, बड़ीवा 1979	9249 9-4-85	हनुमानी शरी, ग्राम सनोसारा, ता० शिमोर, जिला भावनगर ।
6699.	श्रीम कुमार पाण्ड्या भानु शंकर	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5700 24-2-77	ग्राम तिस्तोई, ता० मोदासा, जिला साबरकण्डा

1	2	3	4	5
6700.	शिवीश कुमार पटेल प्रहलाद भाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9614 21-11-86	1/बी, बसन्त बिहार सोसाईटी, 6-1, नजदीक मिथाखाली छ: रास्ता, नबरंगपुरा, अहमदाबाद-91
6701.	शिवीश कुमार उपासानी बालाशंकर	आयुर्वेद उत्तम, श्र० व० परीक्षा समिति, बड़ौचा 1978	7123 17-7-79	घहाह्याम भवन, वादी, अन्तिम पोल, ग्राम बड़ौचा
6702.	शिवाभाई परमार मणि भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4121 17-11-73	ग्राम वाघवानी, ता० महावावा, जिला खेड़ा
6703.	शिवाभाई पटेल कानिवास	डी० एम० एम० सी०, क० वु० आयु० कौंसिल, गुजरात 1982	645 24-8-62	ग्राम एब० पो० मोधेरा, ता० जामसभा, जिला मेहसाणा ।
6704.	शिव भाई पटेल रेखा भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3212 30-7-71	ग्राम प्रेम पुर, ता० हिम्मत नगर, जिला साबरमती
6705.	शिव भाई पटेल नागजी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3807 21-2-73	ग्राम साधाली, ता० गिनोर, जिला बड़ौचा ।
6706.	शिवानन्द कटारिया नैनाजी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7369 29-10-79	49. विविजय प्लॉट, हवा मस्जिद, रोड, ग्राम जामनगर ।
6707.	शिवान नाठाभी महेश्वर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7302 20-9-79	मोनी लाहन, खोडा खावास शौरी, ग्राम मोरवी जिला राजकोट ।
6708.	शिववत्स शर्मा व्यानिधि	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3663 18-10-72	ग्राम राजपिपाला, नवा स्टेशन रोड, नजदीक राव० स्कूल, ता० नासिक, जिला बरोच
6709.	शिवेहारन उमानी	एच० पी० ए, पो० प्र० ट्रे० सेक्टर इन आयु० जामनगर 1959	9248 9-4-85	545, शरव नगर, तारसामी, बड़ौचा
6710.	शिवकुमार जानी कालीवास	आयुर्वेद बिहारव, बी० ई० नैडीसिन, सीराष्ट्र 1958	2233 1-5-58	आयु० औषधालय, ग्राम पानेली, मोती, ता० उपलेटा ।
6711.	शिव कुमार पामबाला अमृतलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8850 6-10-83	जयेश एजुकेशन हार्डि स्कूल, नजदीक इन्दिरा कालोनी, ठक्कर बापानगर रोड, अहमदाबाद ।
6712.	शिव कुमार रावल गिरिजार्शंकर	आयुर्वेद मध्यमा, श्र० व० परीक्षा समिति, बड़ौचा 1977	6679 3-3-79	5, दर्शन, सोसाईटी, ग्राम एब० जिशा मेहसाणा
6713.	शिव कुमार व्याम चन्द्र शंकर	जी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7677 18-4-80	33/385 नेताजी नगर, नजदीक नया मेम्टल, अस्पताल, अहमदाबाद ।
6714.	शिवलाल राज्यगुरु नारनजी	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3906 2-4-73	ग्राम सेजल, बाया सावरकुण्डला, जिला भावनगर
6715.	शिव नारायण गुप्ता नरसिंहलाल	बी० ए० एम० एम०, इन्वीर वि० वि० 1977	9008 28-3-84	ग्राम लखन वास, जिला राजगर (म० प्र०)
6716.	शिवराम गोहेल पोपट लाल	आयुर्वेद बिहारव, बी० ई० नैडीसिन, सीराष्ट्र 1958	2228 15-3-58	ग्राम बिभाड़ा, बाया ओधिका, जिला राजकोट

1	2	3	4	5
6717.	शिवराम पटेल ईश्वर भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3435 14-3-72	काबरवास, ग्राम ए० पो० उनावा, ता० धिक्कापुर जिला मेहसाणा]
6718.	शिवराम उपाध्याय पुंजी राम	डी० एम० ए० सी०, क० गू० आयु० कोर्स, गुजरात 1961	74 19-12-61	डारा शक्ति अमृतलाल टी० आयु० अस्पताल लाल बाजार, कोर्ट रोड, ग्राम बरीच, जिला बरीच
6719.	शिवशंकर मोधा जादवजी	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3590 13-9-72	ग्राम गोरोना, बाया जामरावल, ता० कल्याणपुर, जिला जामनगर।
6720.	शिवशंकर पाल प्रभाशंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5439 25-6-76	ग्राम कारकावी, ता० घोडा, जिला जामनगर।
6721.	शिवशंकर वैद्य जयभाष	एल. ए० एम०, यू० पी० आयु० महापाठन, बड़ौदा) 1939	1057 30-1-41	वारण आफिस, बाधियाड
6722.	शोभा शाह रमण लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3785 15-2-73	गोविन्द केलिबराय, पोल, मंगल पारोड जामना, शाहपुर, अहमदाबाद।
6723.	शोभा शर्मा मोक्षाराम	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5710 4-3-77	261/बी, सरदार नगर, अहमदाबाद।
6724.	शोभना जानी बाल कृष्ण	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	8594 3-11-82	अम्बावावी मधुवन, प्लाट नं० 1205, कृष्णा, नगर, ग्राम सावनगर। ।
6725.	शोभना पटेल मनुभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4303 28-3-84	72, टैगोर नगर, कालोनी, पुरानी रोड, बुडा क्लीनिक, ग्राम बड़ौदा
6726.	शोभनाबेन बकी जीवन लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6030 16-2-78	20, अमृपम सोसाईटी, ग्राम हजोल, जिला पंचमहल
6727.	शोभनाबेन ठक्कर किरण कुमार	डी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9267 9-4-85	जालाराम क्लीनिक, ए० ई० एम० क्षेत्रीय आफिस भागीरथ सोसाईटी, रोड, नारनपुरा, अहमदाबाद- 13
6728.	शोभा त्रैमानी लालजी भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3798 19-2-83	डारा लालजी आनन्द जी चोकस बाजार, ग्राम ए० जिला जूनागढ़।
6729.	श्रेणिकुमार बलाल काशित लाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	2987 2-7-70	70, सरदार नगर सोसाईटी, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-7।
6730.	श्रेणिकुमार घुलिया रति लाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9012 28-3-84	ए-13/145, रणजीत नगर सोसाईटी, ग्राम जामनगर।
6731.	श्रीधर प्रसाद भास नरनारायण	जी० ए० एम० एम० पंजाब स्ट्रे० फौ० आ० यु० सि० मे० चरबीगढ़। 1969	9561 3-9-86	जू लिमावी बाजार, ग्राम वासीक, (बभालाल) 332865, ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा
6732.	श्रीकांत देसाई जयश्रप्रसाद	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8815 11-8-83	देसाई क्लीनिक, ग्राम सिहोर, जिला जामनगर- 364 240।
6733.	श्रीकांत देशपाण्डे लक्ष्मण	एच० पी० ए० पी० प्रे० ट्रे० सैन्टर इन आयु० जामनगर 1967	2668 15-4-68	ग्राम अतपावी, जिला सांगली

1	2	3	4	5
6734.	श्रीकांत ठक्कर चन्द्र बदन	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8302 5-2-82	ग्राम एष० पो० सिद्धापूर, जिला मेहसाना
6735.	श्रीकांत याचन रामकुमार	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8214 2-11-81	31, इन्द्रा नगर हाउसिंग सोसाईटी, संघवी मन्दिर के पीछे, रामेल रोड, ग्राम अहमदाबाद
6736.	श्रीकुमार बघे विमन लाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6145 19-4-78	ग्राम एष० पो० जानियाधारा, ता० बागरा जिला जिला बरोच
6737.	श्रीलेखा उपाध्याय अरुण कुमार	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4741 5-4-75	डारा ए० के० उपाध्याय, साबल पोल्, ग्राम बन्ध जिला खेड़ा।
6738.	श्रीपद रजभोर विश्वनाथ	बैद्य विशारद नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1965	8962 12-3-84	डी-183, राज कबा० शास्त्रीनगर, ग्राम रायकोट
6739.	श्रुति बाहू असंत लाल	बी० एस्० ए० सी०, क० श्रु० आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1701 15-6-65	आसिया भवन, डारा जे० ए० शाह एष० क०, II प्लोर, गण्डे गेट, रोड, बड़ीवा
6739.ए.	श्रीवास्तव विनेश कुमार	बी० ए० एम० एस्०, कानपूर वि० वि० 1972	5818 3-12-76	आयुर्वेद कालेज नादिया, जिला खेड़ा।
6740.	सुनीला पाटीदार लक्ष्मणजी	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5850 23-8-77	ग्राम सुनडल, जिला बुर (म० प्र०)।
6741.	श्याम लाल नक्शा भाबू राम	बैद्यार्थी नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1968	8771 11-5-83	प्लॉट नं० 242, अशोक नगर, रोड नं० 17, ग्राम उदेंपुर-313001
6742.	श्याम लाल पाण्ड्या जयंती लाल	आयुर्वेद मध्यमा अ० द० परीक्षा समिति, बड़ीवा 1979	9117 23-8-84	नजदीक रज्जोव जी मन्दिर, ग्राम बकोर, जिला खेड़ा
6743.	श्याम प्रसाद गुप्ता बाबू लाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5261 8-5-76	8, चौकासी बाल, राखियाल रोड, अहमदाबाद।
6744.	सिमास चन्द्र पाटिल रामदास	बी० ए० एम० एस्०, पूना वि० वि० 1968	3311 10-1-72	चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायत, औषधालय ग्राम थापा, ता० बालिया, जिला बरोच
6745.	श्रीमती राज लमी जयनारायण	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2870 9-1-70	श्री खिजावा, मन्दिर, ग्राम जामनगर
6746.	सिद्धराज सिंह बासाधिया जोरानर सिंह	बी० ए० एम० एस्०, गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9204 30-1-85	ग्राम किम (प्रभुनगर), ता० भोलपाड, जिला सुरत
6747.	सिधिरकुमार जोशी चन्द्र कांत	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4907 9-7-75	बारोती बाजार, ग्राम भावनगर, ता० खेरानु, जिला मेहसाना।
6748.	सीमा धामचौरे विमकर	बी० ए० एम० एस्०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9349 23-9-85	एल/16/188, विजयनगर, हारामी रोड, बड़ीवा-6
6749.	सीमा गांधी हेमेश	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9637 5-12-86	भोरा बासर, मकान नं० 6/1/28, ग्राम बलसाव-396001, ता० एष० जिला बलसाव

1	2	3	4	5
6750.	सीमा कावू उल्हास राव	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9440 23-12-85	नजदीक महाराणी हाई स्कूल, (उत्तर) सुरसगर ग्राम बड़ीवा-1
6751.	सितार सोलंकी इस्माईल भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3351 11-2-72	ग्राम जिना (बभाला), बाया थारी, जिला मोती, अमरेली
6752.	सीतराम विश्वकर्मा, बनवारी लाल	जी० ए० एम० एस०, बिहार वि० वि०, 1978	9149 10-9-84	745/72, सीमेंट की बाली, गोमतीपुर रोड, अहमदाबाद।
6753.	स्लीकुमार कांतिलाल, आचार्य कांतिलाल	बी० एस० ए० सी०, क० यू० आयु० कोर्स, गुजरात 1963	1432 4-5-84	नजदीक बसस्ट टाकीज, ग्राम सूरत
6754.	स्मिता आचार्य गजेन्द्र प्रसाव	बी० ए० एम० एस०, गुजरात वि० वि० 1967	2631 12-1-68	आरोग्यघाम, स्टेशन रोड, ग्राम बिसनगर जिला मेहसाणा।
6755.	स्मिता गलगमी भुकुन्द	बी० ए० एम० एस०, शिवाजी वि० वि० 1983	9447 23-12-85	ग्राम कापदबंज, जिला खेड़ा।
6756.	स्मिता मकवान कांतिलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9052 10-5-84	सिबिल अस्पताल, ग्राम एवं पो० खेड़ा ता० मेहसा- णा, जिला खेड़ा।
6757.	स्मिता मोदी मरिवादन भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8201 12-10-81	22, सबाशिव सोसाईटी, रानिय, अहमदाबाद।
6758.	स्मिता पटेल भाईलाल भाई	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9042 10-5-84	अनन्त बायी, ब्लॉक नं० के-बी/6, नजदीक पट्टण मकान, ग्राम भावनगर-2
6759.	स्मिता फारुख पद्माकर	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9606 10-11-86	26, संसकास सोसाईटी, चंद्र नर रास्ता, ग्राम सूरत, ता० चौर्यासी, जिला-सूरत।
6760.	स्मिता पोपट विमललाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4554 15-10-74	द्वारा डा० एस० पी० उपाध्याय, अरुणोदय प्लॉट नं० 77, विद्यानगर, सामने ला कालेज ग्राम भावनगर
6761.	स्मिता शाह जयन्ती लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	9206 28-7-78	द्वारा जयन्त एम० शाह, सैक्टर नं० 29, ब्लॉक नं० 83/4, गांधीनगर।
6762.	स्मिता डक्कर विजय कुमार	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8238 9-12-81	सामने पाणिपेट, वैट्रोल पम्प, जखोदय - सोसाईटी, नन्दनबत पुण्या, बड़ीवा।
6763.	स्मिता डक्कर भीखाभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4852 14-5-75	द्वारा स्मिता पिचमकिश शाह, 21, सुभद्रा मण्ड, अहमदाबाद।
6764.	स्मिता तिबारी जगदीश चन्द्र	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1986	9662 31-12-86	बी 2, मयूरगंज फ्लैट, बकिणी सोसाईटी, अहमदाबाद 8।
6765.	स्मिता उपाध्याय लमार्णकर रमणलाल	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9369 2-9-85	576, नवोवास, नवा बावज, अहमदाबाद-13
6766.	स्मिता वैद्य विजय कुमार	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9508 19-10-85	मर्मदा ज्योति, एल० एम० पी० के पीछे, सायबी- गंज, ग्राम बड़ीवा-390005।

1	2	3	4	5
6767.	स्मिता म्यास प्रमोदराव	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6150 4-5-78	भारेक चौक, नजबीक पुरवाही, ग्राम बारेजा, जिला अहमदाबाद।
6768.	स्मिता कुमायी भाभोर मूरा भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8723 19-4-83	श्री बाल्मीकि आश्रमशाला, ग्राम एवं पो० संयतताला, ता० देवगाछवारिया, जिला पंचमहल।
6769.	स्मृति भोशी भालचन्द्र	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6595 16-2-79	शिवम, 66 ई, स्वास्तिक सोसाईटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद।
6770.	स्नेहलता पारिक भोगीलाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1966	2107 15-7-66	द्वारा बी० ए, पारेब 7, भोजपाड़ा पिसु बाबन, गोकुल, जिला राजकोट।
6771.	स्नेहलता परमार सोमेश्वर	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8185 22-9-81	मंजूक्षी मिस की बाली, नई बाक, बालिका लिंगावा, भासरावा, अहमदाबाद।
6772.	स्नेहलता गोरखजी रमण शीर	डी० एस्० ए० सी०, क० यू० आ० कोर्स, गुजरात 1966	2311 2-12-66	31, विभवकृपा सोसाईटी, सुमन डेरी रोड, वूरत 395004।
6773.	स्नेहल कुमार बट्ट नरेन्द्र प्रसाथ	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8946 17-2-84	38, रामकृष्ण सोसाईटी, मुजलपुर, ग्राम काबीबा 11।
6774.	सोना भाई परमार शंकरभाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8274 5-1-82	3, किस्मतनगर सोसाईटी, नजबीक ज़ोमनगर, ग्रामा कचनपुरा, अहमदाबाद।
6775.	सोनाभाई परमार मुधा भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6281 23-8-78	तालबोक वांकरबाद, ग्राम एवं पो० कोखरा, ता० बीबापुर, जिला मेहसाणा।
6776.	सोना भाई वझे गंगाराम	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3057 3-10-70	ग्राम सोधारा, ता० चानसमा, जिला मेहसाणा।
6777.	सोनी भाई वझे शिवराम	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4334 16-4-74	ग्राम नन्दासन, ता० काबी, जिला मेहसाणा।
6778.	सोना भाई वझे जोरवास	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4668 29-5-75	ग्राम चवासारा, ता० बीबापुर, जिला मेहसाणा।
6779.	सोना भाई सोनी मणिलाल	डी० ए० एस्० एफ०, फै० अर० यू० सि० मे०, बम्बई 1956	1319 1-8-56	लापर बकवा, ग्राम बावेगाम, जिला अहमदाबाद।
6780.	सोमनाथ सोमनाथ हरमोहनदास	डी० ए० एस्० एफ०, फै० आ० यू० सि० मे०, बम्बई 1953	774 1-7-53	ग्राम जोतना, ता० एवं० जिला मेहसाणा।
6781.	सोमनाथ सोमनाथ कामजी	डी० ए० एस्० एफ०, फै० अर० यू० सि० मे०, बम्बई 1956	960 2-9-57	ग्राम भासवा, जिला कच्छ
6782.	सोमनाथ राजल नारायणदास	डी० ए० एस्० एफ०, फै० आ० यू० सि० मे०, बम्बई 1946	987	ग्राम भासना, ता० बीबापुर, जिला अहमदाबाद।
6783.	सोमल मेहता किशोरचन्द्र	बी० ए० एम० एस्०, गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9546 18-8-86	डी० 18, भ्याकपाता कच्छ०, रेडिक्रॉस क्रॉस, ग्राम जामनगर-361098।

1	2	3	4	5
6784.	सोधा साई पटेल जोएतराम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5114 8-1-76	ग्राम मोती पाड़ा, ता० वीजापुर, जिला मेहसाणा
6785.	सेवती लाल शाह अम्बासाल	जी० एफ० ए० एम०, कै० आ० यू० सि० से०, बम्बई 1959	5084 2-2-59	ग्राम बिलासपुर, ता० ससकोई, जिला अहमदाबाद
6786.	सुभाषी बंधु बिनोद कुमार	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3869 14-3-73	द्वारा बिनोद सी, बैंक, महादेव चौक, ग्राम बवावा ता० धौलका, जिला अहमदाबाद।
6787.	सुभाष चौधरी श्रीकम	बी० ए० एम० एस०, पूना वि० वि० 1980	8473 3-8-82	ग्राम एबं पो० प्रकाश, ता० साहवा, जिला धुलिया
6788.	सुभाष देसाई पुष्पबाबन	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5037 13-11-75	77, मन्वबन्धन सोसाईटी, साहपुर बहाय केंद्र, अहमदाबाद।
6789.	सुभाष जागी ममहर लाल	बी० एस० ए० एम०, वि० बी० आ यू० सि० मै०, महाराष्ट्र 1971	4203 15-2-74	23, पुष्प, कुंज सोसाईटी, मासेज रोड, आनन्ध जिला खेड़ा
6790.	सुभाष पटेल कनैया लाल	एस० ए० पी०, म० आयु० बोर्ड, जबलपुर 1969	6881 3-4-79	ग्राम कुकरमुंदा, ता० मिसाज, जिला सूरत।
6791.	सुभाष पाटिल वेङ्कटसाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6398 10-11-78	ग्राम एबं पो० पाधानावा, ता० साहवा, जिला धुलिया (म० प्र०)।
6792.	सुभाष बाबगर हरिकंकर	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9378 23-9-85	ग्राम बाबोदारा (जाला 362268, पो० सुभा- पाड़ा, थाना बेराबल, ता० बेराबल, जिला धुलिया)
6793.	सुभाष चन्द्र भट्ट शिवकंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6138 19-4-78	सुभाष गौरेज भावबहाग, खम्भासिया, नाका, धाम- नगर।
6794.	सुभाष चन्द्र बने छबिलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5162 12-2-76	गांधी चौक, ग्राम अर्जक, ता० वेदसाध, जिला खेड़ा
6795.	सुभाष चन्द्र देसाई मन्दा लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	6178 15-6-78	टावर फालिया, ग्राम रनीसी, जिला खेड़ा
6796.	सुभाष चन्द्र वेणुपाण्डे नारायण	बी० ए० एम० एस०, इन्वीर वि० वि० 1971	5824 15-9-76	ग्राम कुकर मुंदा, ता० निजादी, जिला सूरत
6797.	सुभाष चन्द्र कीर वीणू साई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8304 5-2-82	ग्राम एबं पो० मधानास (जेमल), ता० बला, जिला धानसतकण्डा
6798.	सुभाष चन्द्र गुप्ता स्वरूप चन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8674 16-2-83	द्वारा स्वरूप चन्द्र गुप्ता, रेजने कवाठर, एम० सी० 193/ए, नजदीक रेलवेज सभ्तामूड, इंडिक कालोमी, ग्राम मेहसाणा।
6799.	सुभाष चन्द्र जोशी आश्लि लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6226 10-7-78	3, बलास सोसाईटी, नजदीक तालीमकाला, बोडारा महेश्व बाब रोड, मजिनगर रेलवे स्टेशन के पीछे मजिनगर, अहमदाबाद।
6800.	सुभाष चन्द्र जोशी नेमचन्द्र	बी० ए० एम० एस० दिकम वि० वि० 1976	7255 5-9-79	द्वारा कालोमी, ग्राम इन्वीर (म० प्र०)

1	2	3	4	5
6801.	सुभाष चन्द्र जोशी हरगोविन्द भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8764 11-5-83	ग्राम अमृतबेल, बाया जीरा रोड, जिला भावनगर
6802.	सुभाष चन्द्र मेहता संकल चन्द्र	जी० एफ० ए० एम०, फै० आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1965	3155 16-3-71	द्वारा नाथालाल यू० पटेल, 120, सरदार पटेल काशीगो, अहमदाबाद-14।
6803.	सुभाष चन्द्र पारिख मोहन लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3620 26-9-72	द्वारा रति लाल सी० शाह सफेद बर, तालाब कांथा, ग्राम सिम्बावी, सुरेन्द्र नगर।
6804.	सुभाष चन्द्र परमार भोक्का लाल	आयुर्वेद मध्यमा, अ० व० परीक्षा समिति, बड़ीवा 1975	6900 16-4-79	ग्राम भावली (भागकचन्द), बाया गांधेवा, स्वाधिन ता० अम्बल, जिला राजकोट।
1805.	सुभाष चन्द्र पटेल शक्ति लाल	एम० ए० ए० ए० एफ० स्टै० फै० आ० यू० सि० मेडिसिन, कलकत्ता 1971	6568 15-2-79	बांदुवा हाउस, 22, नई जगन्नाथ, ग्राम राजकोट
6806.	सुभाष चन्द्र शाह नामिन लाल	आयुर्वेद उत्तमा अ० व० परीक्षा समिति, बड़ीवा 1977	6644 26-2-79	शक्ति निकेतन अस्पताल, ग्राम कायारोहन, ता० पभोई, जिला बड़ीवा
6807.	सुभाष चन्द्र शर्मा जगदीश प्रसाद	आयुर्वेद भिषक, मि० मा० आ० बिद्यापीठ, दिल्ली 1976	9116 23-8-84	72/715, ई० डब्ल्यू० एम० हाउसिंग, सिलवाहा रोड बूंगरा, ग्राम बापी
6808.	सुभाष चन्द्र ठक्कर देवी प्रसाद	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5681 24-2-77	3295, गोविन्द काशीराम पोल, मंगल पारख खांवा, शाहपुर, जिला अहमदाबाद।
6809.	सुभाष चन्द्र वैद्य छोटालाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6094 21-3-78	56, अश्वि बाजनी सोसाईटी, जामपुर, अहमदाबाद
6810.	सुभाष चन्द्र व्यास रति लाल	बी० एस० ए० एम., गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3909 31-7-70	कोठी फालिया, पुंजारा पोल, ग्राम बड़ीवा
6811.	सुभद्रा भारुशाणी गोविन्दजी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7512 15-2-80	बस स्टेशन रोड, ग्राम नखतराना, जिला कच्छ
6812.	सुबोध कुमार रावल रतिलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8219 17-11-81	ग्राम एब० पो० प्रताप नगर, ता० बीजापुर, बाया कलाल-382845।
6813.	सुचिता बेन आमीन वीनू भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4338 18-4-74	श्रीनाथ जी० सवन पटेल फालिया, काठीजामन रोड, ग्राम बड़ीवा।
6814.	सुवामा पाटिल भीमभाई	डी० एस० ए० सी०, क० यू० आयु० कोर्स, गुजरात 1963	702 13-6-63	ग्राम एब० पो० प्रकाश, ता० शाहवा, जिला पश्चिम खैरेश।
6815.	सुधा आगिन नागदीश भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7521 15-2-80	ब्लाक नं० 2, कल्याण नगर, करैशी बाग, ग्राम बड़ीवा
6816.	सुधा गच्छर मूजाजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4206 18-2-74	चतुरलक्ष्मी निवास, नखवीर रामजी का खंभिर मणि नगर, अहमदाबाद।
6817.	सुधा पटेल पुरुषोत्तम दास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8913 -1-84	6, गिरिजर सोसाईटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद- 14।

1	2	3	4	5
6818.	सुधा मेहता भालचन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8585 3-11-82	द्वारा एल० आर० पाण्ड्या, खम्पटी, लिबास, सवाई घर शेरी, भावनगर।
6819.	सुधाबेन पाण्ड्या भाई शंकर	वैद्य विशारद, नि० भा० आ० बिद्यापीठ, पिलखी 1973	6847 2-4-79	ग्राम गोरल, ता० इंदर, जिला साबरकण्ठ।
6820.	सुधा पटेल सोमनाथ	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9364 2-9-85	पठान महाव, नादियोल रोड, ग्राम वाधनगर - 3843551
6821.	सुधा त्रिवेदी वासुदेव	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8771 16-6-83	द्वारा बी० एल० त्रिवेदी, अयास सोसाईटी, ब्लॉक नं० 30, देसकोस के पीछे, ग्राम राजकोट
6822.	सुधा बेन मोदी बलवन्त राय	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	5614 3-12-76	धान निवास चौक बाजार, नया बाजार, सुरत
6823.	सुधा बैन पटेल पुरुषोत्तम वास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8232 24-11-81	भाटपुर, ता० साखेड़ा, जिला बड़ौदा।
6824.	सुधा बेन शाह कालिदास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3881 20-3-73	ई० एस० आई० औषधालय, नं० 17, नजदीक मंछा मस्जिद, सरसपुर, अहमदाबाद।
6825.	सुधा बेन शुक्ल भानुशंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5437 18-6-76	द्वारा डा० बी० ए० शुक्ल, 14, भोज राज पाड़ा, ग्राम पाण्डल, जिला राजकोट
6826.	सुधा बेन बायी नानू भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7561 29-2-80	सामने पोस्ट आकिस, ग्राम अमावसात्र ता० गण देवी, जिला बलसाद।
6827.	सुधा बेनी परमार नस्पी सिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4123 28-11-73	द्वारा राजेन्द्र सिंह एम० बी०एच०, 713, शंकर भवन सामने हरियाबाद पोल, लूमावाड, बरिया- पुर, अहमदाबाद।
6828.	सुधाकर भोसिकर गोविन्द राव	जी० एफ० ए० एम०, फै० आ० यू० सि० मेडिसिन, गुजरात 1962	1421 6-4-64	आनन्द आश्रम, चारबिकार की लेन, रायपुरा, बड़ौदा
6829.	सुधाकर जोशी रमणलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6154 4-5-78	मेबला वाद, ग्राम एर्ब० पो० एर्ब० ता० लूमावाडा जिला पंचमहल।
6830.	सुधानवा पटवर्धन रमेश चन्द्र	बी० एस० ए० एम०, क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1872 6-12-65	बायी पोमाली फालिया, बड़ौदा।
6831.	सुधीर पालेजा हंसराज	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8889 4-1-84	ग्राम एर्ब० पो० कल्याणपुर (मंजल) ता० मच्छत राना कच्छ-370610।
6832.	सुधीर शाह हसमुख लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8855 6-10-83	3, शास्त्री पार्क, सुरेश्वर मंगलवास रोड, जम्ना बायी अहमदाबाद।
6833.	सुधीर सोहानी रामेश्वर	बी० ए० एम० एम०, इन्वीर वि० वि० 1976	6422 18-11-78	द्वारा रामेश्वर सोहानी, 30, बिज्ज सक्क कालवेनी एस्टन रोड, ग्राम चारगोन, जिला पश्चिम तिमारा।
6834.	सुधीर वैद्य वीरजलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7434 12-12-79	वैद्य भवन, सामने बी० एस० अस्पताल, एलिसविल अहमदाबाद।

1	2	3	4	5
6835.	सुधीर भाई पोचाल मंकर भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7718 17-9-80	बांकर बाबो बाबी, नवापुरा, ग्राम बड़ीबा ।
6836.	सुधीर भाई पटेल मंगन भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7569 29-2-80	ग्राम मानरोई, ता० ओलपाड, जिला सुरत ।
6837.	सुधीर भाई पटेल शैल भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9979 12-3-84	ग्राम एव० पो० नारिया, ता० वधोई, जिला बड़ोबा
6838.	सुधीर कुमार भगत कांतिलाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6368 13-10-78	बाजार, ग्राम एव० पो०, साहेरा, जिला पंचसहल
6839.	सुधीर कुमार मट्ट उमंग लाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3252 27-9-71	छत्ता मदन गोपाल बाकीबाबा म. नं० 1124, चांदनी चौक, दिल्ली ।
6840.	सुधीर कुमार भेड़ा विमललाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9063 25-5-84	13, यावर संजल, कावेज कम्पाउण्ड, ग्राम पालनपुर, जिला बानसकंडा।
6841.	सुधीर कुमार जोशी श्याम राव	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6185 26-6-78	35, भ्यास फालिया, पुरानी इन्धौर ।
6842.	सुधीर कुमार उपाध्याय कनैया लाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8988 12-3-84	प्लाट नं० 10 सी, स्वाश्रेय सोसाइटी, सुभाष नगर, ग्राम भावनगर-364001 ।
6843.	सुधीर चन्द्र शाह अंघा लाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6205 28-7-78	ग्राम मालघारवास, ता० महसूबबाव, जिला खेड़ा ।
6844.	सुहास चिदमिस उमाकांत	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9259 9-4-85	प्लाट नं० 1605, बी०, स्वामी के पीछे, रामनगर सोसाइटी, भावनगर-364001 ।
6845.	सुकन्या वैद्य उमाशंकर	बी० ए० ए० ए० सी, क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1959	2698 30-1-60	शाह निवास, स्वामी निवेकानन्द रोड, अक्षेरी बम्बई, 58 ।
6846.	सुखदेवगर गोस्वामी नारनगर	वैद्य निशारद, नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1966	6841 31-3-79	ग्राम अजोबा, ता० बीरावल, जिला जूनागर ।
6847.	सुखदेव सिंह बालगिया रंजीत सिंह	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7711 17-5-80	ग्राम कोसाव, ता० कोरयासी, जिला सुरत
6848.	सुखदेव ठाकुर	आयुर्वेद अलंकार, आ० का० गुरुकुल वि० वि०, कांगड़ी (हरिद्वार) 1957	287 3-8-59	ब्रिक्किस्ता अधिकारी क्वार्टर, जिला पंचायत औषधालय, ग्राम डामा, पो० रामपुरा, जला० विसा, जिला बानसकंडा।
6849.	सुखदेव जोशी केशवजी	आयुर्वेद निबन्ध, नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1959	7104 13-7-79	ग्राम खुली, ता० भागवरा, जिला सुरेन्द्र नगर ।
6850.	सुखदेव प्रसाद शम्भोय नर्मदाशंकर	वैद्याचार्य नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1956	6916 16-4-79	धन्वन्तरि कण्डलिया विद्यालय के पीछे, नवा० शक्ति नगर कलाबाट रोड, ग्राम राजकोट-3
6851.	सुखदेव प्रसाद उपाध्याय शंकर लाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2773 29-4-69	ग्राम शैसा, ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा ।

1	2	3	4	5
6852.	सुलतान खडसार अमृतलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6747 15-3-79	नवा बापू नगर, ब्लॉक नं० 679, कमरा नं० 4447, पारता, अहमदाबाद।
6853.	सुलेखबेन चौधरी मुरजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5128 23-1-76	ठारा एच० एम० त्रिवेदी कोरावादी खावाकी मनुचार्थ ग्राम सलून, जिला खेड़ा, ता० नादिया।
6854.	सुलेखन पटान अमीर खान	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8657 10-2-83	ग्राम एच० पी० कस्बारा, ता० खम्भट, जिला खेड़ा।
6855.	सुलेखन बांतिया मूसाभाई	आयुर्वेद मध्यमा श्र० व० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6893 12-4-79	कलावा गेट, ग्राम पंटादी, ता० दशावा, जिला सुरेन्द्र नगर
6856.	सुलोचना शुक्ल महाविष्णु	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7693 29-4-80	1, श्री नारी सोसाईटी, सामने पेट्रोल पम्प, बाहरी पाणि गेट, ग्राम बड़ौदा।
6857.	सुलोचना बेन शाह विट्ठल भाई	डी० एस० ए० सी० क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2082 1-7-66	6 पापेश सोसाईटी, बाहरी शाहपुर गेट, अहमदा- बाद।
6858.	सुलोचना बेन पटेल पुरुषोत्तम भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5136 27-1-76	ग्राम अलिबरा, वाया सलून, ता० नादिया, जिला खेड़ा।
6859.	सुमन जोशी मनोहर राय	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3954 1-6-73	ग्राम तिमखेड़ा, जिला पंचमहल।
6860.	सुमन बेन कुँ बाल कृष्ण	डी० एस० ए० सी०, क० शु० आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2068 23-6-66	लाल बंगला, स्वामीनारायणरोड, अहमदाबाद।
6861.	सुमन भाई पटेल विक्रम भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4775 10-4-75	ग्राम कोसिधरा, ता० संखेड़ा, जिला बड़ौदा।
6862.	सुमन लाल शाह मानिकलाल	डी० ए० एस० एफ०, फै० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1956	1253 1-8-56	वलाल वाडा, ग्राम कापडबंज, जिला खेड़ा।
6863.	सुमन्त लाल दवे दलसुखराम	आयुर्वेद विचारध, एम० एस० वि० वि० 1953	1984 25-3-66	ग्राम एच० पी० भादर्वा, ता० सावली, जिला बड़ौदा
6864.	सुमन्त लाल दवे हिम्मत लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5218 26-2-76	सिया बाग, मेन रोड, सामने खारादी बंगला, ग्राम बड़ौदा।
6865.	सुमन्त भाई पटेल मोती लाल	डी० ए० एम० एफ० फै० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1947	1523 20-2-47	जूना मोती खाना रोड, जुवली बाग, ग्राम बड़ौदा
6866.	सुमन्त भाई पटेल ईश्वर भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1968	2817 21-8-69	ग्राम काशीपुरा, ता० जयनाम, वाया नमबाशी, जिला बड़ौदा।
6867.	सुमन्त कुमार पंजारा भगवान जी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3385 17-2-72	खेरवा, ता० पानदी, जिला सुरेन्द्र नगर
6868.	सुमन्त राय देसाई मगन लाल	बी० एफ० ए० एम०, फै० आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1964	1594 27-1-65	लीलापुर, जिला बलमर।

1	2	3	4	5
6869.	सुमंधा महाजनी मिथिर	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6981 7-5-79	17, वलिणी सोसाईटी, मणिलगर, अहमदाबाद ।
6870.	सुमित्रा भुगिया वालिया भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7481 5-1-80	द्वारा भूरिया, एम० एम० आय-कर अधिकारी, सर्कल-2, नजरबाग महल, प्रथम मंजिल, मण्डेवी ग्राम बड़ोवा ।
6871.	सुमित्रा पांचान ईश्वर लाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5212 26-2-76	भद्रस अम्बानी पिकाटा रोड, सामने आर० सी० हाई स्कूल, अहमदाबाद ।
6872.	सुमिशा कावेरी विनोद	जी० एफ० ए० एम०, फै० आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1959	265 1-7-59	प्लॉट नं० 1, ग्राजण्ड फ्लोर, बेतारी हाउस, भुशाभाई वेसाई रोड, बम्बई-26 ।
6873.	सुनन्दा पटेल शंकर भाई	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6078 15-3-78	ग्राम एष पो० केसिखरा, ता० खेड़ा, जिला बड़ोवा ।
6874.	सुमयाना पुरोहित मनमुखलाल	बी० ए० एम० एस्०, गुजरात आयु० वि० वि० 1985	9542 18-8-86	द्वारा डा० एम० जे० पुरोहित, सामने मोती सब्जी बाजार, ग्राम पोरबन्दर, जिला जूनागढ़ ।
6875.	सुनिधिकुमार पटेल ठाकुर भाई	बी० ए० एम० एस्०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9278 2-5-85	ग्राम एष पो० बायद, ता० बायद, जिला साबर कंट-383325 ।
6876.	सुनील पाठक चन्द्र बदन	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8641 28-1-83	डी-72, वि० वि० कालोनी, ग्राम बल्लभ विद्यालय ता० आनन्द, जिला खेड़ा ।
6877.	सुनील ठक्कर कनैया लाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8517 27-8-82	4, साधना सोसाईटी, वाराछा, रोड, सूरत-0 ।
6878.	सुनील कुमार वेसाई अरुण चन्द्र	बी० ए० एम० एस्० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9209 2-2-85	द्वारा ए० ए० वेसाई, जिला पंचायत औषधालय, बारडोली, ग्राम बारडोली, जिला सूरत ।
6879.	सुनील कुमार पारिख सत्यनंद भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8824 11-8-83	स्टेशन रोड, ग्राम एष ता० म्यारा, जिला सूरत- 394650 ।
6880.	सुनील कुमार पटेल रावजी भाई	बी० ए० एम० एस्० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9143 10-9-84	ग्राम एष पो० निसराया, ता० बोरसाव, जिला खेड़ा ।
6881.	सुनील कुमार शाह बाबू लाल	बी० ए० एम० एस्० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8907 24-1-84	द्वारा बाबू लाल बी० शाह, गारासिवावाड, ग्राम चोटियासा, जिला सुरेन्द्र नगर ।
6882.	सुनील कुमार शर्मा रमण लाल	बी० ए० एम० एस्० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9343 9-8-85	32/272, राज० 'एफ' कालोनी, पाहासाव टोलनाका अहमदाबाद-380028 ।
6883.	सुनील कुमार साईक ईश्वर लाल	बी० ए० एम० एस्० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9410 19-10-85	'शिवम' फ्लोर रोड, ग्राम बिलिमोरा-396321 ता० गणदेवी, जिला वलसाड ।
6884.	सुनील कुमार पटेल मोती भाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8461 25-6-82	हूपली पोल, ग्राम सरसा, ता० आनन्द, जिला खेड़ा-388365 ।
6885.	सुनीता रावल गण कुमार	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5070 15-12-75	एम० आई० पल्लव, ब्लॉक नं० 2, प्लॉट नं० 128, बुद्धादेव कालोनी, कारेली गाम, बड़ोवा-1

1	2	3	4	5
6886.	सुनीता त्रिवेदी विमल झाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8373 17-3-82	12-जे कल्पतरु फ्लैट्स, मीरामिका रोड, नारलपुरा, अहमदाबाद
6887.	सुमित्रा बेग पटेल मंछा राम	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8529 14-9-82	ग्राम एव पौ० बारटेड, ता० महुवा, जिला सूरत
6888.	सुमित्रा बेंग व्यास ठकर लाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3284 5-11-71	द्वारा हरिहर मंगुलाल पाण्ड्या बाबी भटवाडा, ग्राम बड़ीवा
6889.	सुराजी भाई कटारा कला भाई	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	8787 7-4-77	ग्राम रामेला, पौ० बावेगाम, ता० भिलोडा, जिला जिला साबरकंठा
6890.	सुरंगी शाह मटवर लाल	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9216 19-2-85	द्वारा अम्बुभाई जावेरी, 440, कोलाबाबी, पाटियास पोल, ग्राम बड़ीवा
6891.	सुरासिंह गभामिया बाघर सिंह	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7536 15-2-80	ग्राम कनसोली, पौ० लूना, ता० वासिया, जिला बड़ीवा
6892.	सुरती पटेल रमण लाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	6459 15-1-79	17, अमरकुंज, सोलाहटी, ग्राम नावियाड, जिला खेड़ा
6893.	सुरेखा गांधी जयश्री लाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3608 16-9-72	द्वारा जयश्री लाल जे० गांधी, हाउस नं० 2858, बाहरी ब्रेस गेट, नजदीक वाविलास सोबा फाउन्टेन, अहमदाबाद]
6894.	सुरेखा सैल सुरेख	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7899 14-11-80	एच-5, उनी क्वा० बल्लभ विद्यानगर, ग्राम आनन्द जिला खेड़ा
6895.	सुरेश्वर लाल प्राण लाल	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई	347 29-9-62	बवापाडा, मेन रोड, बरीच
6896.	सुरेश्वर देवे शान्धु राम	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1964	1442 2-6-64	मोगल कोट, ग्राम नावियाड, जिला खेड़ा
6897.	सुरेश्वर देवे छोटा लाल	आयुर्वेद मध्यमा श्र० व० परीक्षा समिति, बड़ीवा 1978	6782 21-3-79	नाबी कालोमी, शैरी नं० 2, ईश्वर कृपा, सुनेरु क्लब ।
6898.	सुरेश्वर खण्डार मणि लाल	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1961	2865 23-12-69	हीरा लाल टी० नाताबटी, 9/1622, कैलापिठ रोड, सूरत
6899.	सुरेश्वर पाठक नागर लाल	बी० ए० ए० एम० फै० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1945	2674	नजदीक टावर, ग्राम पाटन, जिला मेहसाणा
6900.	सुरेश्वर शास्त्री हरिसुख	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1964	1812 28-9-65	कला मेहता की घेरी, संप्रामपुरा, सूरत]
6901.	सुरेश्वर वैद्य वेद व्रत	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1962	1060 16-10-72	5-1205, हरिपुरा, मेन रोड, ग्राम सूरत]
6902.	सुरेश्वर काशील नबमीत लाल	जी० एफ० ए० एम० फै० आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1961	998 25-1-62	समाधी फासिया, ग्राम अंकेवड, जिला बरोच

1	2	3	4	5
6903.	सुरेन्द्र कुमार आले राम राज	बी० ए० एम० एम० इन्दौर वि० वि० 1973	8015 3-4-81	94, ब्रह्मपुरी, ग्राम एवं ता० खगने, जिला पश्चिम निमर (म० प्र०)
6904.	सुरेन्द्र कुमार मेहता पूनम चन्द	आयुर्वेद मध्यमा श्र० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6725 9-3-79	द्वारा एम० पी० मेहता 'मयूर' भीमेश्वर प्लाट, ग्राम राजकोट
6905.	सुरेन्द्र कुमार पुरोहित सोम नाथ	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3422 8-3-72	ग्राम मागवाडा, ता० पतावी, जिला सुरेन्द्र नगर
6906.	सुरेन्द्र कुमार तालावी मोहन लाल	आयुर्वेद मध्यमा श्र० द० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6633 21-2-79	सामने पोस्ट आफिस, ग्राम अम्कालव, ता० भोरवाड, जिला खेड़ा
6907.	सुरेन्द्र कुमार त्रिवेदी अमृत लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7976 20-2-81	ग्राम कांशी, नाया ऊना, जिला जूनागढ़
6908.	सुरेन्द्र कुमार म्यास हर्षव राम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5711 4-3-77	2833, पिपरावी की पोल, रामपुर, अहमदाबाद
6909.	सुरेन्द्र नाथ पटेल शुभीभार्ग	आयुर्वेद अलंकार आ० का० गुरुकुल कांगड़ी वि० वि०, (हरिद्वार) 1938	649 31-3-41	कोठी पोल, रामपुरा, बड़ौदा
6910.	सुरेन्द्र पाल सिंह गौतम धार बाण्डे	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7844 10-10-80	ब्लॉक नं० 102, कमरा नं० 797, गुजरात हाउसिंग कालोनी, बमनपुरा, अहमदाबाद
6911.	सुरेन्द्र प्रसाद जोशी हरि शंकर	बी० एम० ए० एम० क० यू० आयु० कोर्स, गुजरात 1962	258 19-7-62	ग्राम उभारन, बाया बामपुरा, जिला साबरकण्ठा
6912.	सुरेन्द्र पुरी गोसाई मंगलपुरी	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5982 30-11-77	ग्राम सरसा, ता० आनन्द, जिला खेड़ा
6913.	सुरेश बिल्लोरे नारायण	बी० एम० एम० एम० इन्दौर वि० वि० 1973	5-8-79	14, विनोबा नगर, इन्दौर (म० प्र०)
6914.	सुरेश जयवासी नानक राम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7894 14-11-80	ई-145, कुबेर नगर, पो० सरदार नगर, अहमदाबाद
6915.	सुरेश जानी कानिपाल	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1973	6989 7-5-79	द्वारा वैद्यराज कानिपाल जानी, विविधजय प्लाट ग्राम राजकोट
6916.	सुरेश पटेल रमण लाल	बी० एम० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9161 17-10-84	मोती खावकी, ग्राम कथासाल, ता० कापवर्ज, जिला खेड़ा
6917.	सुरेश फिलेसिया रसि लाल	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1974	6631 21-2-79	हाथी खाना, लादीवाडा रोड, जालाराम कृपा, ग्राम राजकोट
6918.	सुरेश म्यास शंकर लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5891 20-9-77	ग्राम नाटी, ता० पटलाड, जिला खेड़ा
6919.	सुरेश भार्गव बलदेव भार्गव	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4340 18-4-74	ग्राम छिपावी, ता० कापवर्ज, जिला खेड़ा

1	2	3	4	5
6920.	सुरेश भाई पटेल उकाजी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4126 26-11-73	नजदीक, पोस्ट आफिस, ग्राम सरसा, ता० आनन्द, जिला खेड़ा
6921.	सुरेश भाई पटेल रंछोड भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974 -	5090 18-12-75	ग्राम गाली, ता० कामरेज, बाया सेडकेमबर, जिला सूरत
6922.	सुरेश भाई पटेल रंछोड भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5314 29-3-76	द्वारा कुमारी एन० के० पटेल, ई० एस० आई० डी/42, पालादी, अहमदाबाद
6923.	सुरेश भाई पटेल वेणू भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5865 30-8-77	ग्राम शिकारुम्या, पो० धनपुरा, ता० मोवसा, जिला साबरकांठा
6924.	सुरेश भाई पटेल धुला भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	6615 21-2-79	ग्राम कोधीयवाडा, ता० विजयनगर, जिला साबरकांठा
6925.	सुरेश भाई पटेल छगन भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7233 29-8-79	50-बी, सेवाश्रम मोसाहटी, रसकोस, बड़ोदा
6926.	सुरेश चन्द्र अग्रवाल मूलावास भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7228 29-8-79	द्वारा बच्चराज एम० एम० अग्रवाल, आयु० औषधालय, आजव रोड, ग्राम जमजोधपुर, जिला जामनगर
6927.	सुरेश चन्द्र भट्ट कांतिलाण	बी० एस० ए० सी० क० शू० आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2291 1-12-66	ग्राम एब० पो० उन्दाभी, ता० खरालू, जिला मेहसाणा
6928.	सुरेश चन्द्र भट्ट भानु प्रसाद	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6244 19-8-78	शक्ति पार्क के पीछे टेकारापर कालेज रोड, ग्राम नावियाड, जिला खेड़ा
6929.	सुरेश चन्द्र भट्ट नागिन लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8409 5-4-82	ग्राम एब० पो० सजोव (गुहार कालिया), ता० अकनेश्वर, जिला बरोच
6930.	सुरेश चन्द्र भोजानी गोविन्द लाल	जी० एफ० ए० एम० फ० आ० वि० मेडीसिन, गुजरात 1964	1788 17-8-65	घनश्याम भवन, मरिता फुंज सोसाईटी, अहमदाबाद-7
6931.	सुरेश चन्द्र दाशनाम शानभूमीर	आयुर्वेद उस्तमा श्र० व० परीक्षा समिति, बड़ोदा 1978	7125 17-7-79	7/1229, अम्बिका सदन के पीछे, अणजया गली, काटरगाम रोड, सूरत-3।
6932.	सुरेश चन्द्र वृज हरि शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7784 19-8-80	द्वेसारा रोड, बिलीमोरा, ता० गणदेवी, जिला बलसाद
6933.	सुरेश चन्द्र ववे बिमल लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3845 2-3-73	जमादार शेरी, बोधा रोड, जलपापाहरबर, ग्राम भावनगर
6934.	सुरेश चन्द्र गाड पुणो भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5824 14-6-77	द्वारा बालाबेन बी० जोशी, एम० 5/41, 331, शास्त्रीनगर, बसाहल, नवावावाज, अहमदाबाद
6935.	सुरेश चन्द्र जोशी प्रदीप चन्द्र	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4660 17-3-75	5-ग, बड़ोदा पिपल सोसाईटी, अल्कापुरी, बड़ोदा
6936.	सुरेश चन्द्र मेहता जीव राम	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1989	2971 15-6-70	गिरिराजनगर सोसाईटी सं० 2, 8लाक सं० 2/41, द्वारा टी० बी० जोशी, रेलवे औषधालय के पीछे, नजदीक कुधा, ग्राम जूनागढ़

1	2	3	4	5
6937.	सुरेश चन्द्र मेहता लक्ष्मीशंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4318 3-4-74	ग्राम सच्चाली, ता० धिनोर, जिला बड़ौदा
6938.	सुरेश चन्द्र पाण्ड्या मूलशंकर	आयुर्वेद विशारद बी० ड० मेडीसिन, सौराष्ट्र 1961	2319 3-5-61	द्वारा पी० बी० पाण्ड्या, प्राक्सि निकेतन, केवादवादी भेत रोड, ग्राम राजकोट
6939.	सुरेश चन्द्र पाण्ड्या सुर्यदेव राय	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3588 13-9-72	नजदीक हातकेबर बाहरकोट, ग्राम मंगरील, जिला जूनागढ़
6940.	सुरेश चन्द्र पाण्ड्या लक्ष्मीशंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6148 4-5-78	ग्राम ए० पी० बंधारा, ता० पावरा, जिला बड़ौदा
6941.	सुरेश चन्द्र पंजाग कांतिलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9027 16-4-84	आजाव चौक, ग्राम भामर, ता० वियोबर, जिला-बानसकंठा
6942.	सुरेश चन्द्र पटेल मीरालाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7350 29-10-79	सोमिया वाड, माहेड, ग्राम बावनगर, ता० खेरालू, जिला मेहसाणा
6943.	सुरेश चन्द्र पटेल नटवरलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8429 17-5-82	ग्राम ए० पी० उभाराम, ता० सालपुर, जिला-साबरकंठा
6944.	सुरेश चन्द्र पाठक गार्गीन्तलाल	डी० एम० ए० सी० फै० आ० यू० सि० मैडीसिन, गुजरात 1966	2967 9-6-70	ग्राम बरसावा, ता० साबली, जिला बड़ौदा
6945.	सुरेश चन्द्र पाठक त्रिभुवन दास	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3614 19-9-72	ग्राम पोएसा (बावी), ता० साबली, जिला बड़ौदा
6946.	सुरेश चन्द्र रावल गार्गीन्तलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	5925 17-10-77	ग्राम सोजीबाव, ता० मिमावी, जिला सुरेन्द्र नगर
6947.	सुरेश चन्द्र राजन जयन्तीलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6044 24-2-78	ग्राम नबीयानी, ता० दाशवा, पो० बनोद, जिला सुरेन्द्रनगर
6948.	सुरेश चन्द्र सोलंकी अजलाल	पी० ए० एम० एम० बी० ड० मेडीसिन, लखनऊ 1974	5192 23-2-76	ग्राम ए० पी० सखेड़ा, बाया उता, जिला जूनागढ़
6949.	सुरेश चन्द्र ठाकर गार्गीन्तलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9414 19-10-85	ग्राम वाडपाग, पो० उज्जैनवाडा, ता० वियोबर जिला बानसकंठा
6950.	सुरेश चन्द्र ठाकर रमणलाल	डी० एम० ए० सी० क० यू० आयु० कोर्स, गुजरात 1964	1629 12-4-65	तिनवन्ती चौक, ग्राम द्वारका
6951.	सुरेश चन्द्र त्रिवेदी बुनो लाल	डी० एम० ए० सी० क० यू० आयु० कोर्स, गुजरात 1962	333 23-11-62	देमाई बागो, नजदीक चोरा, ग्राम माधियाड जिला खेड़ा
6952.	सुरेश चन्द्र बर्मा पूनमचन्द्र	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4030 30-8-73	ग्राम मेता, ता० वादगाम, जिला बानसकंठा
6953.	सुरेश चन्द्र व्यास अमृतलाल	बी० ए० एम० ए० ए० गुजरात वि० वि० 1982	1108 27-11-62	द्वारा अमृतलाल ओधबजी व्यास, स्टेशन रोड मानवदार, जिला जूनागढ़

1	2	3	4	5
6954.	सुरेश कुमार गौड़ कसितलाप	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4147 3-1-74	ग्राम दावाव, ता० इंदूर, जिला साबरकण्ठा]
6955.	सुरेश कुमार कारिया नरसिदास	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5958 4-11-77	भनानी घेरी, बाजार लाइन, ग्राम मोरबी, जिला राजकोट
6956.	सुरेश कुमार नयवानी प्राणजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	4646 12-3-75	धोलानी घेरी, ग्राम धानवाड, जिला जामनगर
6957.	सुरेश कुमार परमार मोहनलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4563 29-10-74	ग्राम सिख वंकरवाड, ता० एबं जिला मेहसाणा
6958.	सुरेश कुमार शर्मा प्रहलाद भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3036 25-8-70	ग्राम जालोवा, ता० घोसका, जिला अहमदाबाद
6959.	सुरेश कुमार सोनी बन्धूलाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	5723 15-3-77	लक्ष्मी निवास अहमिया पुरा, मोहन टाकीज के पीछे, अहमदाबाद
6960.	सुरेश कुमार ठक्कर प्राणशंकर	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9044 10-5-84	सेक्टर 30, 15/5, गांधीनगर
6961.	सुरेश कुमार रावल दशरथ लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5528 17-9-76	ग्राम इसारी ता० मेघराज, जिला साबरकण्ठा
6962.	सुरपाल भाई परमार वासजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4903 3-7-75	ग्राम चौरमाला, पोस्ट रतिनगर, ता० भिलोवा, जिला साबरकण्ठा
6963.	सुरसिंहभाई तावियाड रावजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5402 17-5-76	ग्राम धाना (संजेली), ता० जलोड, जिला पंचमहल
6964.	सुरेन्द्र सिंह जी राठी प्राणजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3392 21-2-72	"हुंमन्त" मजदीक नई जेल, साम्नी कुवारवा, जैन धर्मशाला, जामनगर
6965.	सुर्या कटारिया नारयण दास	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7480 5-1-80	अयूर महल, कार्य भवन, ग्राम जेतपुर, जिला राजकोट
6966.	सुर्यबाला पाण्ड्या मणिशंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	4276 20-3-74	ग्राम अम्बारा, ता० बिजाली, जिला जलपा
6967.	सुर्याबालाबेन दलाल शान्ति लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3876 16-3-73	सुधाकर भवन, तूसरी मणिल, मुटाविचपा, ग्राम मड़ोवा
6968.	सुर्यकांत जोशी बान्धूभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8471 3-8-82	ग्राम पन्डोली, ता० वेठलाव, जिला खेड़ा
6969.	सुर्यकांत जोशी मणिशंकर	आयुर्वेद शिक्षक नि० भा० आयु० वि० दिल्ली 1961	8658 10-2-83	ग्राम ज्ञान - गजगा, जिला - जामनगर
6970.	सुर्यकांत पाण्ड्या मीलशंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7963 3-2-81	ग्राम भीर पो० आ०-भीरहाव बंगलाबन्दी बाया सामन्व, जिला-खेड़ा

1	2	3	4	5
6971.	सूर्यकांत नारायण महाराष्ट्र	डी० एम० ए० एम० गुजरात आर्यु० वि० वि० 1975	6713 4-3-77	14, कीर्ति मंदिर सोसायटी, नारायणनगर, पलाशी, अहमदाबाद।
6972.	सूर्यकांत चंचोली मणीलाल	डी० एम० ए० सी० कनेटी फॉर क्लब आर्यु० सी०, गुजरात 1963	732 7-6-63	37, बैशाली सोसायटी, करेलीबाग, ग्राम बड़ोदा।
6973.	सूर्यकांत तिलक महाराष्ट्र	डी० एम० ए० सी० कनेटी फॉर क्लब आर्यु० सी०, गुजरात 1966	2148 25-8-66	ग्राम नारनपुर, ता० भुज, जिला कच्छ।
6974.	सूर्यकांत ठाकर महाराष्ट्र	डी० ए० एम०, एम० गुजरात आर्यु० वि० वि० 1984	9282 2-3-85	रामदास भवन, काका, फालिया, ग्राम—उत्तर सोडा, ता० नावियाड़, जिला खेड़ा।
6975.	सूर्यकांतसिंह राजपूत सह्यायसिंह	डी० एम० ए० एम०, गुजरात आर्यु० वि० वि० 1975	15455 14-7-76	37, सरदार पटेल कालोनी, अहमदाबाद
6976.	सूर्यकांत पटेल महाराष्ट्र	डी० एम० ए० एम०, गुजरात आर्यु० वि० वि० 1976	6047 24-2-78	मजदीक स्वामीनारायण मंदिर, ग्राम महराम, ता० बोरसाद, जिला खेड़ा।
6977.	सूर्यकांत पटेल महाराष्ट्र	डी० ए० एम० एम०, गुजरात आर्यु० वि० वि० 1984	9355 21-8-85	ग्राम जीर पो० आ० खड्का-387520, ता० खम्भट, जिला खेड़ा।
6978.	सूर्यकांत चंचोली महाराष्ट्र	डी० ए० एम० एम०, गुजरात आर्यु० वि० वि० 1984	9392 23-9-85	ग्राम पिपार, बाया खेरी, ता० कलवाड़, (शिवाला) जिला जामनगर।
6979.	सुबन्तराय पांड्या मोतीलाल	आर्यु० वि० वि०, वि० वि० आर्यु० वि०, दिल्ली 1948	7496 17-1-80	ग्राम पिपालडोड, ता० लालपुर, जिला जामनगर।
6980.	सुसन मत्यु	डी० एम० ए० एम०, गुजरात आर्यु० वि० वि०, 1979	7906 14-11-80	आर० न० हुसेनी बिल्डिंग, जेठ रोड, जूना गढ़।
6981.	सुवमा कपाडिया महाराष्ट्र	डी० ए० एम० एम०, गुजरात आर्यु० वि० वि० 1983	8971 12-3-84	ए-8, गवर्न० क्वा०, मजदीक गवर्न० लेडीज, होस्टल, सुरेंद्र मंगलदास रोड, इलिसाबिज, अहमदाबाद-6।
6982.	सुवमादेन बर्माणी पोकिश्वरलाल	डी० एम० ए० एम०, गुजरात आर्यु० वि० वि० 1981	8593 3-11-82	2563 भाई पोल, ग्राम महेंद्रबाद, जिला खेड़ा।
6983.	सुशीलदेव पटेल अशोकभाई	डी० एम० ए० एम०, गुजरात आर्यु० वि० वि० 1974	6158 16-5-78	राधास्वामी सवाण बाग, बिन्दू सरोवर, रोड, ग्राम सिद्धापुर, जिला मेहसाणा।
6984.	सुशीलगौरी देसाई महेंद्रभाई	डी० एम० ए० एम०, क० आर्यु० एम० एम० सि० आर्यु० मेडीसिन, बम्बई 1960	440 25-10-61	36, परीमल सोसायटी, इलिसाबिज, अहमदाबाद।
6985.	सुशीला पटेल भाग्यदाई	डी० एम० ए० एम०, क० आर्यु० एम० एम० सि० आर्यु० मेडीसिन, गुजरात 1961	2665 3-4-68	60-ए, मंगल ज्योति सोसायटी, करेली बाग, बड़ोदा।
6986.	सुशीला कृष्णा विमललाल	डी० एम० ए० एम०, गुजरात आर्यु० वि० वि० 1975	5558 4-10-76	कीशल करमारी मास्ती, आउटसाइड जमालपुर रोड, मजदीक कालीसो मील, अहमदाबाद।

1	2	3	4	5
6987.	सुलभाबेन सुमुखनम्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5695 24-2-77	सालवतपुरा मैन रोड, ग्राम सुरत ।
6988.	सुशीलकुमार व्यास रमणिकलास	डी० एस० ए० सी०, कमेटी फार गुज आयु० कोर्स, गुजरात 1968	2450 30-3-67	मार्फत भार० एन० व्यास, नूतन नगर, प्लाट नं० 231, स्टेशन रोड, ता० मजीवा, जिला भावनगर ।
6989.	सुभास गोहिल इलेफ	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7534 15-2-80	राजदीप, 5, दीपक सिरील, मणिमगर (ईस्ट), जहमबाबाव ।
6990.	स्वाती बापत श्रीरेखर	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9286 9-4-85	मार्फत बापत, एम० ई० 25, परपुरामनगर, स्वाधीनता बड़ीवा-5 ।
6991.	स्वाती भागवेन जयश्रीलास	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9295 23-5-85	15/बी, हाइलेज पार्क, पीछे पोलिटिकल, जहमबाबाव-15 ।
6992.	स्वातीबेन पटवर्धन सुधानाथन	आयुर्वेद मध्यमा, आवणमास वसिष्ठा परीक्षा समिति, बड़ीवा 1988	6805 21-3-79	अशोकवाड मनुमान फासिया नांका, बाड़ी, ग्राम बड़ीवा ।
6993.	तन्वसिंह परमार अंपलसिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8818 13-1-83	ग्राम बावू, ता० पवार, जिला बड़ीवा ।
6994.	तनसुख गोसाई मीनगर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6877 3-4-79	मार्फत डा० बी० जी० गोसाई, ग्राम पनाबवाड, ता० उपलेटा, जिला राजकोट ।
6995.	तनसुखलाल शरीया नरभेरान	बी० एफ० ए० एम०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, गुजरात 1981	1304 23-10-61-	आदर्श बुधालय, मार्बे रोड, मासाव, बम्बई ।
6996.	तनसुखराय वडे निरधरलाल	डी० ए० एस० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1957-	357 1-7-57	स्टेशन रोड, ग्राम, धिगवर, जिला जूनागढ़ ।
6997.	तपनकुमार वड मधुसूदन	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9001 28-3-84	पंचशील सोसायटी, कालेज रोड, ग्राम नाथिबाड ।
6998.	तारा गरासिया मोतीबाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9509 12-8-86	स्टेशन रोड, ग्राम और पो० डा० व्यारा, ता० व्यारा, जिला सुरत ।
6999.	तारा मीठवानी बालचन्द	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3967 7-7-73	पंचेश्वर टावर, भारत हाइप, ग्राम जाननगर ।
7000.	ताराबेन ठक्कर छपनलाल	पी० एफ० ए० एम०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, गुजरात 1964	1630 12-4-65	मार्फत डा० सी० सी० ठक्कर शशीला लखन, राजपुरा, ठावर, ग्राम बड़ीवा ।
7001.	ताराकुमारी पटेल हरीबाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3539 4-8-72	बल्लभनगर सोसायटी, न्या० नं० 38/बी, करेलीबाग, बड़ीवा ।
7002.	तारामती पटेल लक्ष्मीबाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8981 12-3-84	नेत्रया फासिया, ग्राम और पो० डा० जम्बाव, ता० पारसी, जिला—वलसाव ।

1	2	3	4	5
7003.	सारंगी चौबरी बम्बूबाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5608 24-11-76	ग्राम नबी बसाहत बाबली, ता० बाधोप, जिला सूरत।
7004.	सारंगी चौहान मोमबाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4240 5-7-74	रेमवाड़ा, ग्राम घोसका, जिला अहमदाबाद।
7005.	सारेखरी बंध कणैलाल	बी० एस० ए० एम०, कै० भाक० भा० एण्ड यू० सि० आक मेडीसिन, बम्बई	1639 1-8-67	मार्फत कर्णालाल सी० बंध, सीती भवन, सामने मिर्ची बारी, मंगानाथ रोरी, जूनागढ़।
7006.	तालिका भट्ट नवीन चन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7885 22-4-80	शास्त्री नगर, गवर्न० क्वार्ट०, 20/63 B, अहमदाबाद।
7007.	तालिका भट्ट रामचन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8357 11-3-82	मार्फत जितेन्द्र आर० भट्ट, मिस्त्री कासोनी, बाईी रंगशासा, नजदीक गणपति मन्दिर, बड़ीवा-290017।
7008.	तालिका पारिख शास्त्रीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4507 17-9-74	मार्फत महे शास्त्रीलाल नानावती सुस्तामपुरा, गोलबाद, बड़ीवा।
7009.	तालिका साहू रमनलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4772 9-4-75	67, केशवनगर, साबरमती, अहमदाबाद।
7010.	तालिकाबेन भट्ट रितीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7453 21-12-79	मोतीपासी, ग्राम सिन्धुज, ता० महेबाबाद, जिला खेड़ा।
7011.	तालिकाबेन पटेल टाकुरभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5750 31-3-77	खारीपोलाव रोड, ग्राम नादियाड़, जिला खेड़ा
7012.	तालिका कपाड़िया सुमन्तीलाल	डी० एस० ए० सी०, गुजरात आयु० वि० वि० 1965	1670 21-5-65	50, श्रीमाषी सोसायटी, नबरामपुरा, अहमदाबाद।
7013.	सकलतासाहू कनकराय	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7742 6-6-80	26, शेहलनानी घानपीठ, आदर्श सोसायटी, ग्राम जूनागढ़।
7014.	सकलता व्यास धीरजराज	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1963	1339 13-11-63	मार्फत डा० एस० एल० रावल, ग्राम धिरवा, वाया मियागाम, जिला बड़ीवा।
7015.	सकलताबेन सुरती बिलीफभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7809 9-8-80	अलयाव मुनी, दूनमिष्ठ, बी० न० 8/87, ग्राम भारत, जिला सूरत।
7016.	सकलता गोवर्धनिया मनरजाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4860 28-5-75	शाहपुर बम्बाली बाफा पोप, पुरानी हजूर, अहमदाबाद।
7017.	सकलता सानी काकोरलाल	आयुर्वेद मध्यमा, श्रावणमास वसिष्ठा परीक्षा समिति, बड़ीवा 1977	6574 18-2-79	वरवार रोड, ग्राम राजपिपावा, ता० मोवाद, जिला बरोच।
7018.	सकलता मकवाना मीवाभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5568 13-10-76	15, श्री बिरात सोसायटी न्यू शारदा रोड, संजीवनी अस्पताल, अहमदाबाद।
7019.	सकलता आस्माराम पटेल आस्माराम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4769 9-4-75	जमालपुर, चाकला, कविया रोरी, म० न० 2083, अहमदाबाद।

1	2	3	4	5
7020.	तरुण पटेल अमृतलाल	बी० ए० एम० एस्० गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9638. 5-12-86	ग्राम और पो० आ० चितराडा-383 421, ता० हवार्, जिला साबरकंधा ।
7021.	तरुणकुमार शाह [महेशलाल]	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1977	9593 7-10-86	ग्राम और पो० आ० शिमोल, ता० मोदास, जिला साबरकंधा ।
7022.	तरुणकुमार शुक्ल [मोहनलाल]	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7203 20-9-79	शारदा बिल्दा, नाटाडिया बाजार, ग्राम लूनाबादा, जिला पंचमहल ।
7023.	तरुणकुमार वेद्य वशरथलाल	बी० एस्० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1970	7301 20-9-79	66, साबरमती सोसायटी, साबरमती, (घन नगर) अहमदाबाद ।
7024.	तरुणकुमार जाधे बाजेशकर	डी० ए० एस्० एफ०, फे० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1956	198 1-12-66	ग्राम हुडिया, ता० जोदिया, जिला धामनगर ।
7025.	तरुणकुमार पाठक मंगललाल	डी० ए० एस्० एफ०, फे० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1954	703 2-5-55	कोट रोरी, बाड़ी फालिया, सूरत ।
7026.	तरुणकुमार शाह [मोहनलाल]	बी० ए० एम० एस्०, गुजरात आयु० वि० वि० । 1983	8988 12-3-84	ग्राम और पो० आ० शिमोल, ता० मोदास, जिला साबरकंधा-383 311 ।
7027.	तासंतलाल पटेल मंगललाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8281 16-1-82	ग्राम और पो० आ० खोदरा, ता० जयाप, जिला साबरकंधा ।
7028.	तामबावली शुक्ल भास्करराय	आयुर्वेद उत्तमा, श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	7191 17-8-79	मार्केट बैच नरहरीप्रसाद, अम्बालाल, लास्ट पोन, घनश्याम भवन, ग्राम बड़ौदा ।
7029.	तावजीभाई सोलंकी बैवाभाई	आयुर्वेद विशारद बोर्ड आफ इं० मेडीसिन होराण्ड 1981	2191 22-3-81	आयु रिस्वेसरी ग्राम-अकोलबाड़ी जिला- जुनागढ़
7030.	तेजपाल पटेल जीवाभाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	8087 15-3-78	ग्राम और पो० आ०-खानपुर ता०-बड़ौदा, जिला-अहमदाबाद
7031.	टेकराज पंचोली गिरधरलाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3329 2-2-72	10 शिवदाग शिवकुंज धामनगर
7032.	टेकराज पंथी छविशाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8773 [12-5-83	मार्केट पंथी पुष्पलाल छविशाल काजरावु० काज ग्राम-लोधा ता०-बीजापुर जिला- मेहसाणा
7033.	तेलामकर जैठाराम	आयुर्वेद विशारद एम० एस्० वि० वि० 1942	2101	जिला पंचायत- काचुक हेल्व शाखा-ग्राम- बड़ौदा
7034.	तेमुषा परमार जसबन्तसिंहजी	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आयु० वि०, दिल्ली 1985	7108 13-7-79	हुयानिया, ग्राम-जिला-सुरेश नगर
7035.	ठाकरशी भटसाला अमर सिंहभाई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1970	3086 13-1-71	ग्राम कनवडी, पो० आ० बिडिया, ता० जसवाल, जिला राजकोट ।

1	2	3	4	5
7036.	ठाकरशी बनारिया मोहनभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4383 30-4-74	ग्राम—राजपर, बाया मोराई, जिला—राजकोट
7037.	ठाकरशी धोकिया बालाजी	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3327 2-2-72	ग्राम—समेगा, बाया गन्टवा, ता०—मानबधोर, जिला—भुसावळ
7038.	ठाकरशी लकरानी नानजीभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7870 10-4-80	20, रंगनगर सोसाईटी, बराछ रोड, ग्राम—सूरत
7039.	ठाकरशी राजेंद्र देवशी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	7785 16-7-80	ग्राम—भूना नगर, पो० आ०—नावा मोवा, ता० और जिला—जामनगर
7040.	ठाकरभाई पटेल भाई लाल भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	8354 4-10-78	ग्राम और पो० आ०—वाघजीपुर, ता०—सहौरा, बाया सत्तरोड, जिला—पंचमहल
7041.	ठाकरकुमार शास्त्री कमलेशकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3409 2-3-72	ग्राम और पो० आ०—बरसाल, स्ट० विवळा, बाया अगराणा, जिला—बलसार्
7042.	ठाकरप्रसाद रावल बनारभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3383 17-2-72	ग्राम—काखेली, ता०—नाटर, जिला—खेड़ा
7043.	ठाकरभाई कन्नोपी पुरुषोत्तम	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5253 8-3-76	नावा बाजार, भीरादत टेकारा पटवर्धन हाउस, बड़ौरा
7044.	ठाकोराभाई पटेल भीबाभाई	बी० एम० ए० एम० कमेटी शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1962	550 18-2-63	ग्राम और पो० आ०—सबानी, बाया गुंगाधर, जिला—सूरत
7045.	ठाकोरभाई पटेल छोटाभाई	बी० एम० ए० एम० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1963	1425 14-4-64	ग्राम—बुधबाड़ा, ता०—गुवा, जिला—बड़ौरा
7046.	ठाकोरभाई सोनी गिरधरलाल	बी० एम० ए० एम० फ० आफ० आ० एण्ड यू० सि० आफ० मेडी- सिन, गुजरात 1963	1452 26-6-64	मेटा पेर चाकलासी, धागोल, नावियाड, जिला खेड़ा
7047.	ठाकुर भाई पटेल छगनभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	4647 12-3-75	हाथीभाग, ग्राम—सीबाड़ा, जिला—बड़ौरा
7048.	ठाकुरभाई पटेल मगनभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5310 29-3-76	मीटा धरवाजा, ग्राम—सरस, ता०—आमेण, जिला— खेड़ा
7049.	ठाकुरभाई पटेल मोतीभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7537 20-2-80	ग्राम—मण्डाला, ता०—बभार, जिला—बड़ौरा
7050.	ठाकुरभाई पटेल उदेवभाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8181 22-2-81	ग्राम—और पो० आ०—लिंगाई, ता०—आमण, जिला— खेड़ा
7051.	ठाकुर लाल तेजनान	बी० ए० एम० एम० फ० आफ० जा० एण्ड यू० सि० आफ० मेडीसिन, बम्बई 1945	828 30-3-45	रंछोबजी मन्दिबर, ग्राम—भातर, जिला—खेड़ा

1	2	3	4	5
7052.	ठाकुरलाल वने अचरतलाल	बी० ए० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5821 14-6-77	बिचालमदक पोल, ग्राम-अमरेव, ता०-आनन्द जिला-बड़वा ।
7053.	ठाकुरलाल शिवेवी मोदीराम	डी० ए० ए० ए० ए० कै० आ० आ० ए० ए० ए० सि० आ० मेडिसिन, बम्बई 1955	313 1-6-56	छापागर जेरी सगरामपुरा, ग्राम-सूरत ।
7054.	ठाकुरलाल व्यास बीरजलाल	आयुर्वेद बिहार एम० ए० ए० वि० वि० 1946	1989 19-12-58	ग्राम-भीष, ता०-शायरा जिला-बड़वा ।
7055.	तिलोकचन्द्र मोटवाणी होसाराम	बी० ए० ए० ए० ए० कानपुर वि० वि० 1973	4517 20-8-74	495, ए, सरदार नगर, सिबी कालोनी, अहमदाबाद ।
7056.	तिलोत्तमा भट्ट कमल शंकर	ए० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5366 22-4-76	मार्केड हटचन एम० वने-2 विरवरनगर, साहीबाग अहमदाबाद ।
7057.	तीताबेन भट्ट काशीराम	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7712 11-5-80	रंगमहल बाड़ी-ग्राम-बड़वा ।
7058.	तम्बकलाल भट्ट अम्बाशंकर	आयुर्वेद विषय नि० भा० आयु० वि० दिल्ली 1961	7047 21-6-79	ग्राम-मोवपर (गडवाल) बाया जाम जोडापुर, जिला-आमनगर ।
7059.	तम्बकलाल जोशी देवजीभाई	ए० ए० ए० ए० यू० पी० आयु० महा० वि० बड़वा (स्टेड) 1936	231 13-8-51	66 मालवीय नगर राजकोट ।
7060.	तम्बकलाल भाईभाणिया छोडालाल	ए० ए० ए० ए० ए० यू० पी० आयु० महा० वि० पाटन बड़वा (स्टेड) 1934	483 12-7-41	जनरल ए० पी० हस्पिटल ग्राम- धरंग-धरा-जिला-सुरेन्द्रनगर ।
7061.	तम्बकलाल व्यास लक्ष्मीभाई	बी० ए० ए० ए० ए० कै० आ० आ० ए० ए० ए० सि० आ० मेडिसिन बम्बई 1956	1088 22-9-41	ग्राम-पुंसाटी, ता०-पली, जिला-साबरमती ॥
7062.	तम्बकलाल व्यास गीतमलाल	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6352 4-10-78	ग्राम भीर पो० आ०-फतेहपुर ता०-साबरमती नपुर जिला-पंचमणक ।
7063.	विष्णुचम काचम अम्बादास	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6287 2-9-78	ग्राम भीर पो० आ०-कोवराम, ता०-बड़वा जिला-साबरमती ।
7064.	विक्रमभाई मोहित जादवीभाई	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4158 17-1-74	ग्राम-अम्बावी, ता०-मरिवाकर जिला-साबरमती ॥
7065.	विक्रमभाई मकवाना जादवीभाई	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4698 25-3-75	1766, जीवरामभट्ट, बाल, राजपुर गोनडी पुर, अहमदाबाद ।
7066.	विक्रमदास देवनाथिया नालजीभाई	वेदविहार नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1970	6842 31-3-79	44/ए, मलिका कालोनी हसामपुर, बतवा रोड अहमदाबाद ।
7067.	विक्रमदास दुबारेभिया बाबूदास	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2965 8-6-70	ग्राम-कुसाटी बिबा मोटा वकीसर ता०- साधिया, जिला-राजकोट ।

1	2	3	4	5
7068.	शिकनबी बागापरिया चक्राभाई	डी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4992 17-10-75	नाथी शाहमार्किट रोड ग्राम-कैचीब जिजा- भुनागड ।
7069.	शिकनबीचन्द्र जैत सुन्दरीलाल	ए०एम० एस्० बनारस हिन्दू वि० वि० 1948	2330 7-12-66	सुन्दरगंज अस्पताल रोड, ग्राममथर
7070.	शिकपुरारी नायक जयशंकर	डी० ए० एस्० एफ० फै० आक आ० एण्ड यू० सि० आक मेडीसिन, बम्बई 1947	474 10-1-47	जिला पंचायत डिसेंसरी ग्राम-बलान ता०- हसोट जिजा-बरोच ।
7071.	शिकपुराचंकर दशै कनीबालाल	आयुर्वेद शिक्षक वि० आ० आयु० विद्यापीठ दिल्ली 1941	8171 10-9-81	बकशीबेरी, लखाबीरवास, ग्राम-ओराबी, जिजा राजकोट ।
7072.	शिकसिलादेव नामक नगूभाई	डी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7898 14-11-80	मार्केट डा० फिकोरचन्द्र नगूभाई देसाई,ग्राम. और सरीबद, स्टेट० अमलसाव, पं० रेलवे - 396 310 ।
7073.	शिकुचन बगीहारिया सीरामाई	डी० एस्० ए० सी० कमेटी फार मुद्र आयु० कोर्स बजरात 1966	2848 14-7-67	जिला पंचायत डिसेंसरी ग्राम-डंगराणा, ता०-मोटा शिलिया, बाया रेमनगर, जिजा- जमरेली ।
7074.	शिकुचन बैच दीयालाल	आयुर्वेद शिक्षारण बीई आक इन्डियन मेडीसिन, लौराष्ट्र 1958	2203 15-3-58	बोरानक, ग्राम-जैतपुर, जिजा-राजकोट ।
7075.	शिकिक्रम बद्ध मंगदेववर	डी० एस्० ए० सी० कमेटी फार मुद्र आयु० कोर्स गुजरात 1963	829 1-6-63	बम्बतरि मन्दिर, मोती नगर, इल्लिकविज, पालडी, जहमदाबाद ।
7076.	शिकुपति माह बडीनाक	डी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	8053 27-4-81	10/1, गिरियाज सीसाईटी, पाणि गेड, ग्राम-कडोबा ।
7077.	शिकुपति आचरामी बाबूभाई	डी० ए० एम० एस्० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9257 9-4-85	"लोकधारवी" ग्राम-सपीसारा, ता०-शिहोर, जिजा-आधनगर ।
7078.	शिकुपति मेहता बिकूराय	डी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	3465 30-3-72	मार्केट मेहता बिकूराई डी० शिकोबाग अनामस, ग्लाक न० 4, तबलेवर जिजा-आधनगर ।
7079.	शिकुपति कच्छ नाशिपीकान्त	डी० ए० एम० एस्० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9408 18-10-85	ए/32, सुबना सीसाईटी, हिन्दू विद्यालय मन्दिप, गोपीपुरा, ग्राम-सूरत-395 001
7080.	शिकुराम जीवरी तिसाभाई	डी० एस्० ए० सी० कमेटी फार मुद्र आयु० कोर्स, गुजरात 1961	182 23-10-61	ग्राम-मुकला तीर्थ, ता० और जिजा-बरोच ।
7081.	शुलासंकर जोशी चोपटलाल	एम० ए० एम० यू० पी० आयु० महावि० पाठन बडोबा (स्टेट) 1940	230 3-11-41	5, महात्मागांधी मैथूरल एण्ड आयु० चिकि- त्सालय ग्राम-पाठन, जिजा-मैहसाना
7082.	शुलासंकर बतूरभुज	डी० ए० एस्० एफ० फै० आक आयु० एण्ड यू० सि० आक मेडीसिन, बम्बई 1951	978 1-2-52	मेडीकल आफिसर, ग्राम-बिबावा जिजा-कच्छ

1	2	3	4	5
7083.	सुलसी बाई कवानी बर्मली भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5823 2-4-78	भीराम हेल्व सेटर् पीपल-सुरमकरकाया सोलमड, ता० गरियाघर, जिला-भावनगर
7084.	सुलसी बास बंधेदारिया मीहम लाल	बीदाचार्य नि० मा० अयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1989	6775 21-3-79	भीमवारा भेरी न० 12, आर्न न० 19 काम कोटाला, जिला-राजकोट
7085.	सुलसी बास कीडियाभाई सल्लू भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3737 31-3-73	भीई बाबा नाका, ग्राम-भुधर, जिला-सीवरकंडा
7086.	सुलजा हंकर सुकल गिरिजा शंकर	एल० ए० एम० यू० पी० आर्यु० महा वि०, पाटन, (बड़ोदा स्टेट) 1941	1530 15-3-41	7, गुंवारजी नगर सरखेज रोड, अहमदाबाद ।
7087.	सुलसी बाई मटेल बिक्रम भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4768 9-4-75	ग्राम-सरवारपुर, तट-जीजापुर, जिला-मेहसाणा ।
7088.	सुलसी बास गोन्दासिया छका भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8908 24-1-84	भाऊत यू० एम० गोन्दासिया, शिवराज गढ़, ता० गोन्दास, जिला-राजकोट ।
7089.	सुलसी बास पटेल नाथ भाई	एल० ए० एम० यू० पी० आर्यु० महा वि०, पाटन (बड़ोदा राज्य) 1941	558 20-1-82	सबाबाद, ग्राम-भाविदा, जिला-खेडा
7090.	सुलार सिपाठी हरमय राय	बी० ए० एम० एस० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9291 7-5-85	"सुख सागर हंसा" बलिया कम्पाउण्ड, पीठे राजा प्लाट, नारनपुरा, रेलवे कालिफे, अहमदाबाद-13
7091.	सुलारकाका बाह कवली लाल	बी० ए० एम० एस० इन्वीर वि० वि० 1972	5591 27-10-76	बलिया बाड, ग्राम-मुहारी, ता०-बांलोप, जिला- सूरत ।
7092.	उबाजी जाठी फूलाजी	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4405 12-6-74	ग्राम-राठीपुरा, पो० आ०-कांदा, ता० बीस- नगर, जिला-मेहसाणा
7093.	उदय सिंह जी महिवा रज्जोव सिंह	बी० ए० एस० ए० एम० के० आ० आ० एण्ड यू० सि० आक मेडीसिन, बम्बई 1948	889 31-12-48	ग्राम-ओजान, ता०-बागरा, जिला-सीरीष
7094.	उदेक परमार अपक भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3931 24-4-73	ग्राम-बाडू, ता०-भावरा, जिला-बड़ोदा
7095.	उदा के० राठी कामा	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4732 1-4-75	ग्राम-रामोव हरजीवन दास, बाया गोन्दास, जिला-राजकोट
7096.	उज्जवाल पाठक कमलचन	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8677 3-3-83	बड़ोलीबासा डिस्टेंसरी, स्टेशन रोड, ग्राम-जलालपुर, ता०-लवदारी, जिला-जससाद
7097.	उका भाई कवानी बबू भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5696 5-11-76	ग्राम और ता०-मेसान, जिला-जुनागढ़
7098.	उका शाह बिमल लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1971	4183 11-2-74	429/2, निमडा पील, रांठपुरा, बड़ोदा

1	2	3	4	5
7099.	उमा भवलाजा राज बंस	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1991	5720 9-5-77	बी० नं० 287/2, जी-1, सेक्टर-18, ग्राम गांधी नगर
7100.	उमा धवे बसुदेव भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6602 21-2-79	19. जीम श्री जम्बिका सोसाइटी, सामने प्रकाश नगर, बातवा रोड, मणिसगर, अहमदाबाद
7101.	उमापति भिरदेवठ सरनेयथा	आयुर्वेद विभाग भि० शा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1990	9426 2-12-85	मार्फत चौहान बी० डी० सी 17, सर्वोत्तम नगर, मजरीक भूत बंगला, साबरमती, अहमदाबाद-5
7102.	उमा रांजण वसन्त राय	ई छात्रार्थ नि० शा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1970	6915 16-4-79	3, बावला सोसाइटी, मेघानी मार्ग, ग्राम अहमदा बाद-5
7103.	उमा शेट गुणवन्त राय	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6346 4-10-78	23, परमेश्वर पार्क सोसाइटी, सिविल अस्पताल, के पीछे, अहमदाबाद
7104.	उमाशेन पटेल रंजोव भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	9086 25-6-84	भद्रा अस्पताल ग्राम और पो० आ०-किम, ता० ओलपाड, जिला धार
7105.	उमाशेन शेट रसिक लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7921 12-12-80	मार्फत रसिक लाल, आर० शेट, बी-4, नरवा हाउसिंग सोसाइटी, सैबासीम, ग्राम श्री जिला-नरवा
7106.	उमादेवी गोपी बुध्नी लाल	आयुर्वेद विभाग बोर्ड आफ इन्डियन मेडीसिन, सीरारुद्र 1989	2241 12-4-80	डी/9, ई० एस० आई० असारवा, अहमदाबाद
7107.	उमाकांत धवे धरमदेव लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7920 12-12-80	ग्राम-जेमारा ता० और बिरामगाम, जिला अहमदाबाद
7108.	उमाकांत जोशी द्विभक्त लाल	बी० ए० एस० एफ० फै० आफ् भा० एण्ड यू० सि० आफ् मेडीसिन, बम्बई 1951	213 1-12-51	ग्राम कांकनी, ता० संबेड़ा, जिला बड़ोदा
7109.	उमाकांत जोशी धयसुख लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3759 6-2-73	रंजोवजी मन्विर चौक, ग्राम-कोदिनार, जिला अमरेली
7110.	उमाकांत जोशी नंगाळ लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8328 17-2-82	बाह्यणवास, ग्राम नाचोळा, ता० छनोर, जिला बनासकांवा
7111.	उमाकांत ठकर मेनु भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7355 28-10-79	8, सरवार पटेल सोसाइटी नजदीक आई० सी० कैंटरी ग्राम और पो० आ० धेड़ेगाम, जिला अहमदाबाद
7112.	उमरभाई जेठाबा अवा भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1979	7998 26-2-81	अजीज स्ट्रीट, पो० आ० बंधाली (तोर्वा) जिला जुनागढ़
7113.	उमेव गिरि गोस्वामी ईश्वर भिरि	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8785 16-6-83	ग्राम और पो० आ० मानोसर, ता० सिहोर, जिला- भावनगर
7114.	उमेव राय छतबर मुबन भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	5244 5-3-76	खोजीबाड़, ग्राम धागरा, भयानी, भा० बाधिया, कुकावा, जिला-अमरेली
7115.	उमेव सिंह जड़ेजा अमर सिंह	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5277 10-5-76	ग्राम धेगामवा, ता० भिलोवा, जिला साबरकांवा

1	2	3	4	5
7116.	उमेश ब्यास जावेरीशाल	बी० ए० एम० एस्०, गुजरात आ० वि० वि०, 1984	9226 19-2-85	सामने स्वामीनारायण मन्दिर, सुप्रेम रोड, राजकोट।
7117.	उमेशचन्द्र पंजाबी परसराम	बी० ए० एम० एस्० द्विक्रम वि० वि०, 1977	7005 16-5-79	42, असीन लोज, फरीगंज, ग्राम उज्जैन (म०प्र०)।
7118.	उमेश गिरी गोस्वामी प्रभात गिरी	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8548 14-9-82	ग्राम और पो० आ०—बाब, ता० भिहोर, बाया रोनगढ़, जिला—भावनगर
7119.	उमेश कुमार बीक्षित अश्वमेध	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6608 21-2-79	भार० नं० 7, पटेल सोसाईटी, मणिलगर, अहमदाबाद
7120.	उमेश कुमार जोशी मनू माई	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6053 8-3-78	जी-3, समरापाल प्लाट, फुलाभी, टेकरा, अहमदाबाद
7121.	उमेश कुमार बैद्य धीरज लाल	बी० ए० एम० एस्० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	8935 17-2-84	रामजी मन्दिरवास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-9
7122.	उमिया शंकर पांड्या मणि शंकर	बी० ए० एस्० एफ० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1944	737	ब्लॉक नं० 611, एण० आई० बी० ग्राम भावनगर
7123.	उमेश बनेन शाह छगन लाल	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7062 27-6-79	साफत सी० पी० शाह, बालीबाब, ग्राम मन्दावी, जिला—कच्छ
7124.	उमेश त्रिवेदी अम्बा लाल	बी० ए० एम० एस्० गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9288 7-5-85	1, मित्र हिल्स सोसाईटी, सामने संभावी हाई स्कूल, भारनपुरा, अहमदाबाद-13
7125.	उपेन्द्र बने धमन राय	बी० एस्० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6665 28-2-79	वाति निकेतन, प्लाट नं० 1114, कृष्णामगर, भावनगर
7126.	उपेन्द्र देसाई बापू भाई	बी० ए० एम० एस्० गुजरात आयु० वि० वि० 1963	1439 18-5-64	जेकीर निबास, अवागरा स्ट्रीट, मानवारा, सुरत
7127.	उपेन्द्र जोशी सरुज लाल	बी० एस्० ए० सी० कमेटी फार शुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1965	1841 5-11-65	ब्यास कालिया, बड़डोली, जिला सुरत
7128.	उपेन्द्र मेहता रमी लाल	आयुर्वेद विशारद डॉ० आफ इण्डियन मेडीसिन, सौराष्ट्र 1958	2211 15-3-58	ग्राम मोटा, बडाला, बाया कलवाड, शीतला, जिला—भावनगर
7129.	उपेन्द्र राजल योगेन्द्र	एम० बी० (आयु०) गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6167 20-5-78	2455/1, छोवाल पोल, नजवीक कासपुर टावर, अहमदाबाद
7130.	उपेन्द्र उपाध्याय जुनी लाल	आयुर्वेद उत्तमा श्रावण चाम दधिगा परीक्षा समिति, बड़डोली 1974	7028 15-6-79	नन्देश्वरी, ग्राम—नादिया, जिला बड़डोली
7131.	उपेन्द्र वकीत नरवीन लाल	जी० एफ० ए० एम० फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1950	996 1-4-58	सामवी कालिया, ग्राम—अकलेखर, जिला बरौच

1	2	3	4	5
7132.	उपेन्द्र कुमार भट्ट मोमा भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4955 30-9-75	ग्राम कनीज, ता० महुमदाबाद, जिला-कच्छ
7133.	उपेन्द्र कुमार भट्ट मूल शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1976	6222 3-8-78	ग्राम औरपो० आ०-बाहेरी, ता०-बलिया, बापा अंकलेश्वर, जिला-बरोच
7134.	उपेन्द्र कुमार भट्ट इरू कुमार	आयुर्वेद उत्तमा अ० व० परीक्षा समिति, बड़ौचा 1978	7126 17-7-79	७, तीर्थकनक सोसाइटी, किजानपुरा, बड़ौचा-2
7135.	उपेन्द्र कुमार श्वे मधुमी शंकर	बी० एस० ए० सी० क० यु० आयु० कोर्स, गुजरात 1966	2487 12-5-67	बाववाली झेरी, बाववा पावार, देवलकी, भावनगर
7136.	उपेन्द्र कुमार दत्त कविल राय	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1981	8645 1-2-83	कानावरी वाड, नारन धुबारी की देलो, ग्राम भावनगर-364001
7137.	उपेन्द्र कुमार गोटी लालजी भाई }	बी० ए० एम० एम० गुजरात वि० वि० 1967	2418 6-3-67	ग्राम बाधिया, ता० पालिटामा, जिला भावनगर
7138.	उपेन्द्र कुमार जोशी मनीशंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7265 11-9-79	ग्राम रायगढ़, ता० हिम्मतनगर, जिला साबरकंठा
7139.	उपेन्द्र कुमार भाजिबिया कनैयालाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3960 8-3-73	प्लॉट नं० 1, 243, स्वास्तिम सोसाईटी, धर्मवादी ग्राम भावनगर
7140.	उपेन्द्र कुमार मण्डलोई मुस्तान सिंह	बी० ए० एम० एम० इन्डोर वि० वि० 1975	6307 27-9-78	57, येगीपुरा, ग्राम उखीन (म० प्र०)
7141.	उपेन्द्र कुमार पटेल जस भाई	बी० एस० ए० एम० } गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6935 17-4-79	ग्राम पालाना, ता० नादियाद, जिला खेड़ा
7142.	उपेन्द्र कुमार रावल भटवर लाल }	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2975 16-6-70	सोलकी वास, पोस्ट आफिस के पीछे, ग्राम बाहेगाम जिला अहमदाबाद
7143.	उपेन्द्र कुमार सोमानी वीरू भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3796 16-2-73	ग्राम बलोद, जिला सूरत
7144.	उपेन्द्र कुमार लिक्षेरी भवानी शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	2749 6-2-73	उपमन्यु कुटीर, नजदीक जगवीर आश्रम, ग्राम लिम्बानी, जिला सुरेन्द्र नगर
7145.	उपेन्द्र कुमार जपाध्याय पुरुषोत्तम दास	आयुर्वेद मध्यमा, अ० व० परीक्षा समिति, बड़ौचा 1978	6810 22-3-79	ग्राम कधाना, ता० बोरसाड, जिला खेड़ा
7146.	उपेन्द्र कुमार पटेल मोती भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	549 15-10-74	ग्राम सरसा, ता० आनन्द, जिला खेड़ा
7147.	उपमन्यु भट्ट राम प्रसाद	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1967	2559 25-7-67	20, मई कलकापुरी, सोसाईटी गुलाब की टेकरा, सन्निवालय के पीछे
7148.	उदयशेखर तापन बाबू राव	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	6373 13-10-78	नजदीक अरविन्द ट्रेडिंग नं०, ग्राम व पी० भानपुरा, ता० मेदासा, जिला साबरकंठा

1	2	3	4	5
7149.	उमिलदा भट्ट लक्ष्मण	बी०एस० ए० सी० क० यु० आयु० बोर्ड, महाराष्ट्र 1969	4546 15-10-74	गणेश भवन, पारा की चौकी मणिकम, बाल मेहसाणा
7150.	उमिलदा देसाई मोहन लाल	बी०एस० ए० सी० क० यु० आयु० बोर्ड, महाराष्ट्र 1959	391 1-3-60	डॉ० नायक गणेश लाल, भाव० कान प्रताप नगर, ता० बासावा, भावा जिल्हा, जिला बलसाव
7151.	उमिलदा मेहता रमेश चन्द्र	बी०एस० ए० एम० क० आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1958	2698 1-7-58	सिन्धु सिनेमा रोड, ग्राम गोखेरा, जि० नर्मदा
7152.	उमिलदासी मगन लाल	बी०एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1980	8836 1-8-83	विठ्ठल नगर-46, सेंट्रल अस्पताल, करेले बाग ग्राम बड़ौदा
7153.	उमिलदा पटेल नरोत्तम दास	बी०एस० ए० एम० क० आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1957	503 2-12-57	मल्हाई की चकला, बरोड
7154.	उमिलदा भट्ट मनसूख लाल	बी०एस० ए० एम० गुजरात बि० बि० 1961	677 4-1-62	डॉ० डा० एम० पी० शाह जकरकासी कोला रोड, ग्राम सिहोर, जिला भावनगर
7155.	उमिलदा शाह पुरुषोत्तम	बी०एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1976	5992 19-12-77	82, मेवपूर सोसाइटी, करेले बाग, ग्राम बड़ौदा
7156.	उमिलदा शाह मोती लाल	बी०एस० ए० एम० क० आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1957	1124	ग्राम टेकारो रोड, बोरबन्दर जिला कान
7157.	उमिलदा बेन पटेल शंकर भाई	बी०एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1972	4119 17-11-73	ग्राम कोसिबरा, ता० संखेडा, जिला बड़ौदा
7158.	उमिलदा बेन पटेल विमल भाई	बी०एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1980	8959 12-3-84	9, डेरी बवा० लालपरी मरोवर रोड, ग्राम राजकोट-360003
7159.	उमिलदा बेन राखी चित्तेश	बी०एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1975	5413 4-6-76	ग्राम वाराण, ता० बारसोकी, जिला वृहन्न
7160.	उमिलदा बानसिया राम सिंह	बी०एस० एम० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1974	5065 2-12-75	ग्राम मथिन, ता० बोरसोकी, जिला वृहन्न
7161.	उमिलदा भोली लक्ष्मी शंकर	बी०एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1981	8504 27-8-82	नरसिंह जी की पोला, कापासिया की बाराकी, बड़ौदा
7162.	उमिलदा जोधा विमलकर राय	बी०एस० एम० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1983	8917 24-1-84	एम-163, गुजरात हाउसिंग बोर्ड कलावाड रोड, ग्राम राजकोट-360061
7163.	उमिलदा शाह गुणवंतलाल	बी०एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1969	3004 18-7-70	1087, कीकाभट्टी की कोला, देवसर बाजार आमोही विकला रोड, बरिया, बरियापुर, बहुमवावा
7164.	उमिलदा बाबाई भास	बी०एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1973	5631 18-12-76	401, प्रभुवाम लेक, ग्राम बाबकनेर
7165.	उमिलदा अमली लाल	बी०एस० ए० एम० गुजरात आयु० बि० बि० 1979	8045 27-4-81	डॉ० बी० जे० इंगलिश, प्लान न० 24/6, सेक्टर न० 30, गांधी नगर

1	2	3	4	5
7166.	उषा जोशी बाबू राम	बी० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1975	3190 21-2-76	ग्राम बिडल, जिला अमरेली
7167.	उषा जोशी रसिक लाल	आयुर्वेद शिक्षक मि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1976	7765 6-6-80	बैबास सोसाइटी, अट्पण्डू दुरोडान, रिक रोड, राजकोट-1
7168.	उषा कापाडिया कान्ति लाल	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	3046 16-9-70	वनजुए, विदुन सोसाइटी, काकी गिरगाव, पकीक
7169.	उषा मेहता रमलकर	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3753 6-2-73	म० नं० 1279, गारदा निवास, बाली का बाँचा, धनासुधान पोल, रिलीफ रोड, अहमदाबाद
7170.	उषा मेहता हिम्मत लाल	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	4021 27-8-73	द्वारा नीतीबेन धर्मा, मिदखंजम गेट, अजमा भवन ग्राम जामनगर
7171.	उषा मेहता विद्यारत्न	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	5795 21-4-75	27, रत्ना पार्क सोसाइटी, पाटनोचिया रोड, अहमदाबाद
7172.	उषा पटेल मूल शंकर	जी० ए० ए० ए० ए० फै० आ० यू० सि० मेडिसिन, गुजरात 1960	2560 28-7-67	हाले पब्लिक मीटरनिटी रोड, अम हुजेल, जिला-पंचमहल
7173.	उषा पटेल मोहन लाल	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1969	2944 4-4-70	कालाशी बाँचा, मोदा शेरी, अजमाबाद, ग्राम बड़ीबा
7174.	उषा पट्ट नरसिंह शंकर	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1963	1125 7-8-63	मिचवास जावेरी गली, सलामपुरा, सुरत
7175.	उषा उकर रसि लाल	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8556 16-8-82	गुजरात रिफाइनरी, 6/121, सशम टाउनशिप, जवाबा राजर, जिला बड़ौदा
7176.	उषा उपाध्याय बाल कृष्ण भाई	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1980	8239 9-12-81	सेक्टर नं० 17, ब्लॉक नं० 164/13, न टाउन गांधी नगर, जिला-गांधी नगर
7177.	उषा व्यास हरजीविश्व	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1973	4310 2-4-74	द्वारा आ० ए० ए० ए० व्यास, अमियल जीपधालय, राज महल, ग्राम केसोव, जिला जूनागढ़
7178.	उषा जयवैरी वसन्त राय	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3837 2-3-73	द्वारा वसन्त राय ए० जावेरी, सेन्ट्रल बैंक रोड, मजदीक ग्राम सुन्दर मन्डिर, ग्राम आम नगर
7179.	उषा बेन अम्बला जुम्नी लाल	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1978	7429 12-12-79	3, मास्त्री नगर, ग्राम बारडोली, जिला-सुरत
7180.	उषा बेन देसाई कुबेर जी	जी० ए० ए० ए० ए० फै० आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1957	392 2-1-59	पार्वतीबेन अस्पताल, सोमनाथ रोड, ग्राम दिल्ली- मोरा, जिला-नलदा
7181.	उषा बेन कामाधिया कामू भाई	बी० ए० ए० ए० ए० गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8924 8-2-84	मानजी मास्टर की बाँचा, मजदीक अकलेश्वर ब्लाक, खानपुर, अहमदाबाद
7182.	उषा बेन मजानी मिशोर शंकर	आयुर्वेद शिक्षक मि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1973	6779 21-3-79	द्वारा ए० टी० अनारकाठ गरीबिया, जुबा रोड, ग्राम-राजकोट

1	2	3	4	5
7183.	उषा बेन मोवी माखन दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1974	4703 28-3-75	सैयपुरा, बाब बेरी, सूरत
7184.	उषा बेन पण्डित मधुसूदन	बी० एस० ए० सी० क० यु० आयु० कोर्स, गुजरात 1963	1428 18-4-64	बैद्य निबन, नजदीक नवा रामजी मन्दिर, महात्मा गांधी रोड, ग्राम आनन्द, जिला खेडा
7185.	उषाबेन पटेल गोसाई भाई	बी० एस० ए० एम० इन्वीर वि० वि० 1977	6305 27-9-78	बाहुन फालिया, पो० मटवाड, ता० नवसारी, जिला वलसाड
7186	उषा बेन पटेल भूपेन्द्र भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1977	7843 10-10-80	ब्लॉक नं० 102, कमरा नं० 797, गुजरात हाउसिंग कॉलोनी, भवनपुरा, अहमदाबाद
7187.	उषा बेन राजगौर जितेन्द्र कुमार	बी० ए० एम० एम० गुजरात आयु० वि० वि० 1983	9019 16-4-84	11, श्री माधवद्वारा सोसाइटी, नवा बाबाज, अहमदाबाद-13
7188.	उषाबेन शाह कालीदास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1972	3778 10-2-73	ग्राम कारवलाबेलसडा, बापा भीमदास, तह० बन्धुका, जिला-अहमदाबाद ।
7189.	उषा बेन वैद्य पियूष चन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1968	2796 7-7-69	ग्राम जीहोली, बापा अनामसाह, जिला-वलसाड
7190.	उषा कौत सुक्ल शंकरलाल ।	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4108	बाबेरी, बाजार, ग्राम ग्राम अम्भालिया, जिला जामनगर
7191.	उषा कुमारी ज्ञानी बलवंतराय	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3878 20-3-73	गार्गी नवोदिक नजदीक जी० पी० ओ०, 4थी मंजिल, 467, सर्वोदय कोमर्शियल केन्द्र, अहमदाबाद
7192.	उषा कुमारी मेहता मनसुखदास	बी० एस० ए० सी०, क० यु० आयु० कोर्स, गुजरात 1968	1947 25-2-66	बबवा पावर, देवकी भवसार, बेरी, ग्राम- भावनगर ।
7193.	उषा कपडिया, सहमीचन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	3912 3-4-73	9, जयराज प्लाट ग्राम राजकोड
7194.	उस्मान नटार नूर मोहम्मद	आयुर्वेद शिक्षक नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1972	7044 21-6-79	बाग बरवावा रोड, ग्राम भाहपुर, जिला नूनागढ़
7195.	उत्तम पाटिल विठ्ठल	बी० एस० ए० एम० गुजरात, आयु० वि० वि० 1969	3042 15-9-70	ग्राम कोरिल, पो० प्रकाश, ता०, नम्बूरवार, जिला-धुसिया
7196.	उत्तम भाई शाह । पोपटलाल ।	बी० ए० एस० एफ०, । क० आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई । । 1955	2199 1-11-66	महालक्ष्मी भवन, जयराज प्लाट, बेरी मं० 3, ग्राम राजकोड
7197.	उत्तम प्रकाश शर्मा, मंगलराम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5688 24-2-77	ग्राम-कोलवाडा, तह०, भीजापुर, जिला- मेहसाना ।
7198.	वादेकर भद्र मधुकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, । । 1973	6249 23-8-78	गवर्नमेंट एच० एच० कॉलोनी, 78/1, अहमदाबाद
7199.	वादीपत शुक्ल कुम्भार विहारी	एम० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि० 1974	7252 3-9-79	क्लिनिक रजिस्ट्रार, पी० जी० टी० जी०, एच रिसर्च, धनबाद नजदीक, ग्राम जामनगर ।

1	2	3	4	5
7200.	बादीलाल मन्बालिया अमृतवास	बी० ए० एस० एफ०, फैक० आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1946	937 28-2-46	ग्राम अलारसा, तह० बारासद, जिला—खेडा
7201.	बादीलाल शाह बाबेश्वरवास	बी० ए० एस० एफ०, फैक० आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1947	2840 5-6-47	ग्राम गवान, तह० बयाव, जिला सागरकण्ठ
7202.	बादीगमा विश्वीर कोयाभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4844 14-5-75	ग्राम नासा, पोस्ट मन्बोली, तह० आलोद, जिला पंचमहल।
7203.	बाहिव ताई ईसभाई	आयुर्वेद मध्यमा, आ० बा० परीक्षा समिति, बड़ीवा	6617 21-2-79	ग्राम जेटपुर, ता० जेटपुर, जिला राजकोट
7204.	बांभडी मेहुता रविन्द्रराय	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4919 18-7-75	सेक्टर नं० 20, ब्लॉक नं० 24 B, गांधीनगर।
7205.	बेकुण्डलाल यागनिक मोहनलाल	बी० ए० एस० एफ०, फैक० आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1953	963 1-12-63	मेडीकल आफिसर, ग्राम धंजार, जिला—कच्छ
7206.	बाजेराम अग्रवाल पूरीवास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3613 19-9-72	ग्राम जनिंध्रा, बाया लखतर, जिला सुरेन्द्रनगर
7207.	बाजेराम अग्रवाल बल्लभवास	आयुर्वेद भिषक, मि० भा० आ० विद्यापीठ, विष्णु 1960	7162 2-8-79	ग्राम लोडका, बाबला, ता० एवं जिला जूनागढ़
7208.	बाजीभाई राजल बहानी लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	7893 14-11-80	ग्राम एवं डा० मोसमा, तह० एवं जिला मेहसना
7209.	बाजीरामबान पठान पूरेवास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3701 30-11-72	ग्राम वस्ता पाचामनबजा जिला धामसकठा
7210.	बस्तावरमस सोमी नरमपुज जी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3782 16-2-73	पंचालधिया, ग्राम इवार, जिला साबरकण्ठा
7211.	बालाभाई फेजोला भगवानभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	8236 9-12-81	जीवमदीप क्लिनिक, ग्राम सुबवास, तह० । कोरावल, जिला जूनागढ़
7212.	बालाजी परमार जैठालाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	5121 15-1-76	ग्राम खिमराणे, बाया मुवापी०, जिला जाम नगर
7213.	बाजशास कुभावत चिट्ठलवास	आयुर्वेद भिषक, मि० भा० आ० विद्यापीठ, विष्णु 1965	8607 28-12-82	ग्राम बाखी, बाया जोलीपुरा, तह० व जिला जूनागढ़
7214.	बालेनटीने राठोड जाफभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5171 18-2-76	म० नं० 2048, 5, गुंजालाल, बाली, रायबड, अहमदाबाद
7215.	बालजी सुन्द लक्ष्मणभाई	बी० एस० ए० सी०, क० श० आ० कोर्स गुजरात 1966	2027 3-6-66	पंच तलवाडा, बाया कामनगर, तह० लिबिलिया जिला अमरेली
7216.	बालाजीभाई भाभानी मोहन भाई	वैद्यविहार्य, मि० भा० आ० विद्यापीठ, विष्णु 1964	6520 1-2-79	मजदीक, पटेल आफिसर, ग्राम चिट्ठाल, जिला अमरेली।

1	2	3	4	5
7217.	बालाजीभाई चौधरी मोतीभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3580 5-9-72	ग्राम समोदा, तह० मिथवापुर, जिला मेहसाणा
7218.	बालाजीभाई मनिबा दुराजीभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5345 8-4-76	मैयवपुरा, मोती काडिया जेरी, ग्राम धूरत-3
7219.	बालाजीभाई गंडीब दनाभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3678 2-11-72	भागरवाडा गेट, फलिया, जंगलीनवास बिदलनवास हाउस, ग्राम बड़ीया ।
7220.	बालाजीभाई बंदरिया छगनलाल	आयुर्वेद विचारक, बी० ई० मेडीसिन, सौराष्ट्र 1960	2206 22-3-61	ग्राम जामवाडा, तह० ब जिला जामनगर ।
7221.	बालाजीभाई कावेला देवशिभाई	वैद्यविचारक नि० भा० आ० बिद्यापीठ, दिल्ली 1961	7842 10-10-80	प्लॉट नं० 1563, पोषा रोड, जमलीन डिस्ट्रिक्ट, भावनगर ।
7222.	बंसीमल जैतनी जानी राज	डी० ए० एम० एफ०, डी० ए० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1953	2552 1-10-53	एलोपैथिक डिस्ट्रिक्ट, ग्राम बंसीमल ता० उना, जिला जूनागढ़ ।
7223.	बंसीमल केशव धनकास्त	डी० एम० ए० सी०, क० सु० आ० कोर्स, महाराष्ट्र 1962	1053 10-12-62	भगत स्ट्रीट, भगत लाल, भावनगर
7224.	बल्लभ कवरिवा देवराज	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4599 1-1-75	ग्राम केदबाब, बाया अम्बला, तह० मानवदार, जिला जूनागढ़ ।
7225.	बल्लभ कमानो भीमा	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4994 17-10-75	ग्राम राजसर, पो० मेंदरवा, जिला-जूनागढ़
7226.	बल्लभ कर्मभोरिया बासुराम	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1980	8148 3-8-81	ग्राम अगलिया, बाया केकोब, जिला-जूनागढ़
7227.	बल्लभ कपडेल सेवाजीभाई	डी० एम० ए० सी०, क० सु० आ० कोर्स, गुजरात 1966	2359 10-1-67	मार्कट, 2240, जी० एच० बी० कालोनी, नया चमनपुर, अहमदाबाद
7228.	बल्लभ कसबांधिया तेजाभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7589 17-3-80	मार्कट तेजभाई लखवाडी, सोराठिया, 10, गुन्डीबाडी, ग्राम राजकोट ।
7229.	बल्लभभाई कुमलारिया जवाभाई	आयुर्वेद संश्लेषा, आ० वा० परीक्षा समिति, बड़ीया 1978	9032 18-4-84	भाकतिव राज० आ० अस्पताल, बरन कोजाणी, ताल० उपालीटा, जिला-राजकोट ।
7230.	बल्लभभाई गुन्ड रानी बोगाजीभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4007 17-8-73	ग्राम मंडवदार, तह० नहुवा जिला-भावनगर
7231.	बल्लभभाई गौडी बीहारभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5492 13-8-76	ग्राम उजलवाब, तह० उमरतला, बा डीला जप०, जिला भावनगर ।
7232.	बल्लभभाई हीरवारा शामजीभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975.	5741 25-3-77	ग्राम मुलतानपुर, बाया बंदिया देवाणी, तह० गोंडाल, जिला राजकोट ।
7233.	बल्लभभाई जासनी बीरभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4569 4-11-74	ग्राम मोटासुरका, तह० शिहोर, जिला-भावनगर

1	2	3	4	5
7234. वल्लभभाई कपुपारा काशीभाई	आयुर्वेद शिक्षक, नि. भा. आ. विद्यापीठ, दिल्ली 1961	6651 28-2-79	अमृतनिवास, मेहरोलबुगर, नीलकण्ठ, टाकीज के पीछे, ग्राम राजकोट ।	
7235. वल्लभभाई धारवाडिया भूराभाई	बी. एम. ए. एम., गुजरात आयु. वि. वि., 1972	4073 1-10-73	ग्राम अंकोलवादी, बाया सोनगढ़, तह. पालिना, जिला भावनगर ।	
7236. वल्लभभाई परमार राधवभाई	बी. एम. ए. एम., गुजरात आ. वि. वि., 1975	5485 22-7-76	ग्राम जामगढ़दा, तह. कल्याणपुर, बाया भोपाणवा ।	
7237. वल्लभभाई पटेल ईश्वरभाई	बी. एम. ए. एम., गुजरात आ. वि. वि., 1973	4448 20-8-74	तजदीक महादेव गोरव, बड़ीया ।	
7238. वल्लभभाई पटेल काशीभाई	बी. एम. ए. एम., गुजरात आ. वि. वि., 1978	7714 17-5-80	ग्राम घाडिया, तह. कपडबंज, जिला खेड़ा ।	
7239. वल्लभभाई वैष्णव हाणेराजभाई	बी. एम. ए. एम., गुजरात आ. वि. वि., 1975	5748 31-3-77	ग्राम खारेदी, बाया भोरजी, जिला राजकोट ।	
7240. वल्लभभाई वीरविया अम्बालाल	बी. एम. ए. एम., गुजरात आ. वि. वि., 1972	3773 9-2-73	ग्राम केरवा (बाधियाना), तह. एवं जिला अमरेली ।	
7241. वल्लभदास भानवदिया पोपटलाल	बी. एम. ए. एम., गुजरात आ. वि. वि., 1970	3091 13-1-71	ग्राम कोमटा, तह. गोंडाल, जिला राजकोट ।	
7242. वल्लभदास चारादिया बानाजी	बी. एम. ए. एम., गुजरात आ. वि. वि., 1974	4984 17-10-75	सुरजकुण्ड के तजदीक, ग्राम कान्धापी, जिला जुनागढ़ ।	
7243. वल्लभदास बोणी पूनमचन्द	ए. बी. बी., नि. म. विद्यापीठ, पूना] 1943	453 31-3-44	सेवा मन्डल, मेषराज, ग्राम व कसना, तह. रेघारेज, जिला साबरकण्ठ ।	
7244. वल्लभदास धोलारिया गम्भूभाई	बी. ए. एम. एम., गुजरात आ. वि. वि., 1984	9384 23-9-85	ग्राम मजेवाडी-362011, तह. एवं जिला जुनागढ़ ।	
7245. वल्लभदास पटेल जीवाभाई	जी. एफ. ए. एम., फैक. ऑफ आ. यू. सि. मेडीसिन, गुजरात 1962	633 23-11-62	मार्फत बाबूभासी जीवाभाई पटेल, ग्राम मोरवा, बाया गरीयाधर, जिला भावनगर ।	
7246. वल्लभदास रानीगा मोहनलाल	बी. ए. एम. एम., बी. ई. मेडीसिन, लखनऊ 1972	4156 17-1-74	ग्राम बन्धान, तह. भानवघार, जिला जुनागढ़ ।	
7247. वल्लभदास शाह मंगलदास	बी. ए. एम. एम., फैक. ऑफ आ. यू. सि. मेडीसिन, बम्बई 1954	1231 1-12-54	ग्राम मेदमा, जिला साबरकण्ठ ।	
7248. वल्लभदास शाह] सोपलाल	डी. ए. एम. एम., फैक. ऑफ आ. यू. सि. मेडीसिन, गुजरात 1956	1230 1-8-56	मेडीकल ऑफिसर केटज, अस्पताल, ग्राम, बनाद ।	
7249. वल्लभदास शाह मरीदान]	आयुर्वेद शिक्षक, नि. भा. आ. विद्यापीठ दिल्ली 1963	7046 21-6-79	ग्राम बापदर, बाया राणा कन्धीराणा, तह. राणाबाव, जिला जुनागढ़ ।	
7250. वल्लभदास विरवीया तुलसीभाई	बी. एम. ए. एम., गुजरात आ. वि. वि., 1972	4076 4-10-73	राज. आ. डिस्पेंसरी, ग्राम बड़ीदा, तह. सोनगढ़, बाया सगवार, जिला सुरत ।	

1	2	3	4	5
7251.	वल्लभदास करिया गोपालजी	आयुर्वेद मिश्रक, नि० भा० आ० जिज्ञापीठ दिल्ली 1982	7243 30-8-79	ग्राम मेमवान, ता० कश्मेद, जिला जूनागढ़।
7252.	वल्लभजी विधाधिया कुरजीभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1971	3671 30-10-72	ग्राम सालिया हतिना, जिला जूनागढ़
7253.	वल्लभजी बाबासिया रावजी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	4382 20-5-74	ग्राम सरसाय, जिला जूनागढ़
7254.	वामनराय जोशी नानेखर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3963 15-6-73	कडोरिया घोरी, ग्राम महुवा, जिला भावनगर
7255.	वामनराय शिखेदी कान्तीदास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1969	2908 24-2-70	ग्राम एबं डा० तिमना, ता० तालाजी, जिला भावनगर।
7256.	वानराजसिंह जडेजा कनुभा	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	5957 4-11-77	अम्बर टाकीज, ग्राम जामनगर।
7257.	वन्दना महेश लक्ष्मीप्रसाद	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3510 17-5-72	बावी, तीवाडा, गौरीबीलास, ग्राम बड़ोवा
7258.	वन्दना पाठक पुरुषोत्तम	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1983	9297 23-5-85	सरंगपानी बाडो, खारीबाव रोड, रावपुर, बड़ोवा।
7259.	विट्ठलअक्षरा गोविन्दभाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1984	9243 12-3-83	ग्राम मोतीबानुगर, ता० जामनगर-361120
7260.	वन्दनादेव दवे देवीप्रसाद	आयुर्वेद माध्यमा, स्वा० व० परीक्षा, समिति, बड़ोवा 1977	6711 9-3-79	ग्राम सरभाय, ता० घनेव, जिला बड़ोवा
7261.	वन्दना देसाई रतीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6880 3-4-79	ग्राम वासनवा, वाया बिलीभीरा, जिला वासना
7262.	वन्दना दीक्षित नटधरलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6748 15-3-79	1106, मोहदेववालो खाम्बो, घोबाजी सराईया, पोल, सरकावी शीटी, नामक चौक, अहमदाबाद
7263.	वन्दनादेव बैद्य नरेन्द्रभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6749 15-2-79	कमरा मं० 5, अल्केष सोसाईटी, करेलीबाग, आर्य कन्या आयुस्का सैज के पीछे, ग्राम बड़ोवा
7264.	वनदेवी आचार्य गिरधरमान	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4019 24-8-73	नटराज निकेतन, 2, क्रिकेट बंगलाव रोड, जामनगर।
7265.	वनीला जोगी मुकुन्दराय	डी० एस० ए० सी०, क० शु० आ० कोर्स, गुजरात 1965	1750 30-6-65	जोगी डिस्ट्रिक्टरी, छाया रोड, पोरबंदर, जिला जूनागढ़
7266.	वानलता मालवनीया अमरुतलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4673 21-3-75	ग्राम नानाभाधिया, ता० मन्वडी, जिला कच्छ
7267.	वनीला पारेख नन्दलाल	आयुर्वेद विशारद बी० आ० ई० मेडीसिन, मीरपुर 1958	2310 15-3-58	डा० बसन्त ए० शाह, भावनगर, रोड, बेदीपारा, ग्राम राजकोट।

1	2	3	4	5
7268.	बनमालीबास अग्रवाल मरीबास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1980	8177 22-9-81	ग्राम खोरासा (गिर), वाया शेरवाग, तह० मालीवाहातिना, जिला जूनागढ़ ।
7269.	बनमालीभाई पटेल हरीभाई	बी० ए० एस० एफ०, फैक० आफ० आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1949	632 10-2-50	ग्राम सरभों, तह० बारवोली, जिला सूरत ।
7270.	बनराज कोटक हीराजीभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3862 22-3-73	ग्राम आश्रम चकर, तह० भुज, जिला कच्छ
7271.	बनराज सिंह राज बहादुरसिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8518 27-8-82	सी-1, वैभव अपार्टमेंट विवाली वाग, अठवाधिने, सूरत ।
7272.	बनराजन छाबारीया प्राणजी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	5937 19-10-77	भारवाड़, घेरी, मटल लाल पुर, जिला जामनगर
7273.	बनराजभाई खर ईश्वरभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	4048 15-9-73	ग्राम पचहाम, तह० धामोडुका, जिला अहमदाबाद ।
7274.	बनशी शाह नटवरलाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4252 11-3-74	599,5 देव श्री, लखपटेल, पोल, बाकडी, घेरी, अहमदाबाद ।
7275.	वर्षा कृष्णन जयलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5354 20-4-76	रेलवे जॉसिंग के मजदीक, ग्राम वासाव, तह० आनम्ब, जिला खड़ा ।
7276.	वर्षा जाह रामप्रसाद	एम० बी० (आयु०) गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6142 19-4-78	मार्फत श्री पी० आर० जाह, 69, ब्राह्मण भिन्न मण्डल सोसाईटी, फलाडी, एलीमन्नीज, अहमदाबाद ।
7277.	वर्षा जामी हीरालाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4897 26-6-75	प्रेरणा पार्क, आयुध भवन, अहमदाबाद
7278.	वर्षा कपाडिया नरेन्द्रकुमार	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7467 21-12-79	ब्लॉक नं० 548, विजयनगर, अहमदाबाद-13
7279.	वर्षा खारडवाल बाबूभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3820 26-2-73	422, गणपतलाल कालोनी, नया सिविल कैंम्प रोड के सामने, अहमदाबाद ।
7280.	वर्षा मेहता रवीचन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8665 16-2-83	मार्फत श्री आर० एच० मेहता, रणजीतनगर, ब्लॉक नं० ए-6, प्लॉट नं० 70, रूपवर्षा, ग्राम जामनगर ।
7281.	वर्षा पारडिया जमनादास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6599 21-2-79	मार्फत जे० सी० पारडिया, 14, गायत्री सोसाईटी जवाहर चौक, मनीनगर, अहमदाबाद ।
7282.	वर्षा पारडिया कान्तीलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1980	8314 6-2-82	सेक्टर नं० 29, प्लॉट नं० 275, 22/29, बस स्टैंड, गांधी नगर ।
7283.	वर्षा पटेल ठाकोरभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1982	9236 12-3-85	खारी पोल रोड, ग्राम नधियाड़, जिला खड़ा-387 001 ।
7284.	वर्षा पारिष भरत	बी० ए० एम० एस० गुजरात आ० वि० वि०, 1984	9454 10-1-85	3/ए, 74, मधुवन कालोनी, ग्राम दावरा एण्ड भगर हावेली-396240, पो० आ० कारद, वाया वापी-सेलवास ।

1	2	3	4	5
7285.	वर्षा शाह रमिकमाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1985	9631 5-12-86	मार्फत शाह रमिकलाल विठ्ठलदास, गांधीबाड़ा, ग्राम व ता० नोदामा, जिला साबरकण्ठ।
7286.	वर्षाबिन ठाकर अम्बालाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1984	9413 19-10-85	मार्फत उषेशचन्द्र डी० रावल, 21/ताबेरू सोसाईटी, चाकलिया रोड, ग्राम बेहूर-389151 जिला पंच महल।
7287.	वर्षा बैद्य गोविन्दप्रसाद	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4622 12-2-75	धनवन्तरि गोमतीपुर, अमहदाबाद।
7288.	वर्षाबिन पटेल बुन्नीलाल	ए० एम० बी० एम०, बी० ई० मेडीसिन, लखनऊ 1959	5367 28-4-76	12, मुरलीधर, को-आप० हाऊस, सोसाईटी, ओधव रोड, अहमदाबाद।
7289.	वर्षाबिन पटेल पद्मभार्गव	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1980	8329 17-2-82	नभधारा, काका, पोल, ग्राम उमरोप, ता० आनन्द, जिला खेड़ा।
7290.	वसन्त बकरानिया जीवाभार्गव	डी० ए० एम० एम०, फैक आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1954	779 2-1-54	वसन्त लीला, ग्राम पालिताना, जिला भावनगर।
7291.	वसन्त जोशी, सीताराम	बी० ए० एम० एम०, बी० ई० मेडीसिन, हैदराबाद 1978	8882 19-12-83	ग्राम व पो० पिन्डवल, ता० धर्मपुर, जिला वाल्साड़।
7292.	वसन्त लम्बोले मंगनलाल	बी० ए० एम० एम०, पूना वि० वि० 1979	8228 24-11-81	डी/5, निकंज, अप्पाईमेंट, विडनाथ, रोड, मजदीक आवराव मार्केट, कृष्ण विद्येटर के सामने, खड़ोवा।
7293.	वसन्तबेन गोधानी मीरजभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4914 9-7-75	प्राईमरी हेल्थ सेंटर, ग्राम वन्दा, ता० सावरकुण्डेडाला, जिला भावनगर।
7294.	वसन्तबेन गोधाना सुरेन्द्रसिंह	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	5926 17-10-77	ग्राम उत्तान, राजपुनफुलकुनिया, चार्यामी जिला सूरत।
7295.	वसन्ती बाकिज सुरेश	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1965	1894 16-12-65	समादी फालिया, अकलेश्वर, जिला बड़ोच
7296.	वसन्तीका चौहान सुरसिंह	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3428 9-3-72	ग्राम एब पो० आ० मन्डवी, नगरफालिया हाई स्कूल, के मजदीक, जिला सूरत।
7297.	वसन्तकुमार बशीम जसवन्तसिंह	बी० एफ० ए० एम०, फैक आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1961	793 8-12-61	सुलतानपुर, गोलवाड, बड़ोवा।
7298.	वसन्तकुमार भट्ट महादेवप्रसाद	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1969	2873 13-1-70	मार्फत डा० महादेवभाई० ओ० भट्ट, वसन्त डिस्पेंसरी, ग्राम कमवा, डिस्पेंसरी, ग्राम कमवा, बाधा लखतर, ता० पटादी, जिला सुरेन्द्रनगर।
7299.	वसन्तकुमार गोहिला हमभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	6130 12-4-78	ग्राम व पो० जुना, उगला, ता० उना, जिला जूनागढ़।
7300.	वसन्तकुमार जानी शंकरलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6429 2-12-78	ग्राम व पो० कामिगोल, ता० हिम्मतनगर जिला साबरकण्ठ।
7301.	वसन्तकुमार जोशी बुनीलाल	डी० एम० ए० एम०, क० शु० आ० कोर्स, गुजरात 1965	1862 30-11-65	हुम्नादकुवा, ग्राम व पो० प्रान्तिज, जिला साबरकण्ठ।

1	2	3	4	5
7302.	वसन्तकुमार मेहता शिवनलाल	डी० ए० एम० एफ०, फैक० आफ आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1956	925 1-10-58	श्री अरविन्द नर्सिंग हॉम, डिस्सेसरी एण्ड आई क्लिनिक, केनल रोड, ग्राम राजकोट
7303.	वसन्तकुमार निमकर पुरुषोत्तम	जी० एफ० ए० एम०, फैक० आफ आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1957	486 2-12-57	महारमा गांधी स्मारक अस्पताल, ग्राम वजिला सुरेन्द्र नगर ।
7304.	वसन्तकुमार पाण्ड्या शास्त्रिलाल	आयुर्वेद मध्यमा, श्री० द० परीक्षा, समिति, बड़ौदा 1978	6480 1-2-79	दक्षिणी महोत्सवा, ग्राम मना वगछ, ता० चौर्यासी, जिला सुरत ।
7305.	वसन्तकुमार पटेल मनीनाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3748 6-2-73	विभाग 2, अम्बिका देवी सोसाईटी, ब्लॉक नं० 8, नरसपुरा, कामिंग, बण शाला, के सामने अहमदाबाद ।
7306.	वसन्तकुमार तस्त्रोली मगनभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	6165 20-5-78	बी/2, राजेश्वरी, सोसाईटी, सैकरूपा, हालर रोड, बलसाद ।
7307.	वसन्तकुमार उपाध्याय शिवनारायण	बी० ए० एम० एम०, इन्वोर वि० वि०, 1975	6423 18-11-78	ब्राह्मणपुरी, ग्राम बरोगोने (एम० पी०)
7308.	वसन्तलाल धामिदरदास	बी० एम० ए० एम०, नि० भा० आ० विद्यापीठ दिल्ली 1968	7421 29-11-79	ग्राम बांडुरी, तह० मालीयमतिना, जिला जूनागढ़
7309.	वसन्तलाल जगानी भीमजीभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3446 15-3-72	मेडिकल आफिस सी० एच० बी० प्राथमिक आरोग्य सेंटर, ग्राम लकाडिया, ता० भावा, जिला कच्छ ।
7310.	वसन्तलाल जलाल शंकरलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	4052 15-9-73	ग्राम खाखरेची, बाया मोरवी, ता० मालिया- मिया, जिला राजकोट ।
7311.	वसन्तलाल मेहता व्यंगणकर	आयुर्वेद भिषक नि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1963	8130 4-8-81	ग्राम देववाड़ा, बाया कुटियाला, जिला जूनागढ़
7312.	वसन्तलाल पारेख वनमालीदास	जी० एफ० ए० एम०, फैक० आफ आ० यू० सि०, मेडिसिन, गुजरात 1962	699 16-8-62	महिधारपुर, जाखवाडी, म० नं० 6/1536, मोती बाग के सामने, ग्राम सुरत ।
7313.	वसन्तलाल कोठारी बाबूलाल	बी० ए० एम० एम०, इन्वोर वि० वि०, 1966	5521 14-9-76	ग्राम मुदासना, ता० खेरालू, जिला मेहसा
7314.	वसन्तराय भट्ट मवलशंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3507 9-5-72	भगवती भवन, वादिया प्लोट, ग्राम पोरबन्दर जिला जूनागढ़ ।
7315.	वसन्तराय भट्ट जेठालाल	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आ० विद्यापीठ दिल्ली 1956	8173 10-9-81	ग्राम उमाराद, ता० मुली, जिला सुदेन्द्रनगर ।
7316.	वसन्तराय भाटाडेकर यशवन्तराय	एल० ए० एम०, यू० पी० आ० महाविद्यालय, फाटन (बड़ौदा) 1938	2745 1-3-69	ग्राम बेसजा, ता० नवसारी, जिला बलासढ़
7317.	वसन्तराय गोहिल मगनलाल	डी० एम० ए० एम०, क० श० आ० कोर्मे, गुजरात 1962	2547 13-7-67	ग्राम भाद्राद, बाया महुवाबंदर, जिला भावनगर
7318.	वसन्तराय जोशी नर्मदाशंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3416 7-3-72	ग्राम एवं पी० आ० धनिक, बाया माभवदार, जिला राजकोट ।

1	2	3	4	5
7319	धमन्तराय लाटिया नरन भाई	एम० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1972	4078 4-10-73	मफात, डा० एन० एम० लाठी हाउस, नं० 577, अजर मन्दिर के सामने, घोविसा, योगीनगर, ग्राम गोंडाल, जिला राजकोट ।
7320	धमन्तराय मेहता ब्रजलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1969	2888 28-1-70	ग्राम मोटा अंकेवाधिया, तह० भरंगधर, जिला मुरेन्द्र नगर ।
7321	धमन्तराय रावल प्राण शंकर	बी० ए० एम०, यू०पी० आ० महाविद्यालय, पाटन (मड़ौदा) 1940	2664 6-5-40	सरदार बल्लभभाई पटेल, रोड, ग्राम राजकोट ।
7322	धमन्तराय सहायता शुनीलाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1984	9316 25-7-85	अजाय चौक, ग्राम भाभर-385320, तह० वियोवार, जिला भावसकंठा ।
7323	धमन्तराय उपाध्याय जगन्नाथ	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1970	3144 26-2-71	गुरुद्वारा मन्दिर के नजदीक, डी० के० बी० कालेज के पीछे आमनगर ।
7324	धमन्तराय आचार्य निरजाशंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	5490 11-8-76	भूधबाबा श्री मरिहूरनिवास, ग्राम मोराबी, जिला राजकोट ।
7325	धमन्तराय जोशी लाभाशंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	5048 20-11-75	ग्राम तालकुवावा बाया दाभोई, जिला बड़ौदा
7326	धमन्तराय पान्ढ्या प्रभाशंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4272 20-3-74	ग्राम रोयल, बाया त्रापज, जिला भावनगर ।
7327	दाशरामभाई लक्ष्मणभाई	जी० एफ० ए० एम०, फैक० आ० यू० सि० मेडीसिन, गम्हाई 1959	791 3-1-59	स्टेशन रोड ग्राम बगरा, जिला अमरेली ।
7328	दाशरामभाई माकुबना देवजीभाई	आयुर्वेद विशारद, बी० ई० मेडीसिन, सोराष्ट्र 1960	2234 21-3-61	आयुर्वेद डिस्पेंसरी, रामटंकी रोड, ग्राम मालजा जिला भावनगर ।
7329	दाशरामभाई शेठ मावजीभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	492 4-8-75	शकरा घाघी घाली, राजपुर, डा० खाना रोड, अहमदाबाद ।
7330	दाशरामभाई उपाध्याय पुरुषोत्तमदास	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3951 22-3-73	ग्राम कथाना, ता० बोरसाद, जिला खेड़ा ।
7331	दाशरामभाई घोटिकर मारेणबर	आयुर्वेद विशारद, एम० एम० ए० एम०, 1941	1855 3-11-41	शंकर पोल, रावपुरा, भाखोडे हाउस, बड़ौदा ।
7332	दाशरामभाई अकबरी रामछोवभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1971	3448 17-3-72	ग्राम उभरला, पो० बिरपुर, तह० बिलाकहा जिला जूनागढ़ ।
7333	दाशरामभाई बाघसिया लक्ष्मीभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	5138 29-1-76	ग्राम डेंरी पिपलिया, बाया बागसरा, जिला अमरेली ।
7334	दाशरामभाई बरोत त्रिकमलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4805 25-4-75	157/1237, सर्वोदय नगर, खोखरा, महमदाबाद, अहमदाबाद
7335	दाशरामभाई भाई भूजशंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4555 16-10-74	26, नूतन सोसाइटी, डा० आनन्द नगर अहमदाबाद ।

1	2	3	4	5
7336.	वासुदेव दवे मनसुखलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3408 1-3-72	श्याम डोपी, ग्राम डरोल, जिना जामनगर ।
7337.	वासुदेव दवे प्रमर्शकर	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आ० विश्वापीठ, दिल्ली 1965	7661 31-3-80	नजदीक धनजीभाई चौक, महालक्ष्मी मन्डिर, रोड, मेहुता शोरी, ग्राम लिम्गाडी, जिला सुरेन्द्रनगर ।
7338.	वासुदेव लालजन्शानी ठकरप्रदेव	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1980	8467 3-8-82	टी० ए० एक्स-02, आविपुर, कच्छ जंकार, जिला कच्छ ।
7339.	वासुदेव पांड्या मगनलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6208 3-8-78	ग्राम ब पो० किविया तह० लुनावाडा, जिला पंचमहल ।
7340.	वासुदेव पटेल गिरधरलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	7837 30-9-80	23, अम्बिका सोसाइटी, बैमनपुरा, अहमदाबाद
7341.	वासुदेव रबी रमनलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7175 7-8-79	ग्राम बायब, जिला साबरकंटा ।
7342.	वासुदेव शुक्ल त्रिभुवन बाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1970	3103 3-2-71	ब्लॉक नं० 17, पटेल कालोनी, सिद्धनाथ रोड, बड़ौचा ।
7343.	वासुदेव उपाध्याय पुरुषोत्तम	बी० ए० एम० एफ०, फैक० आफ आ० यू० मि० मेडीसिन, बम्बई 1955	70 1-5-56	कुमराल बाजार, ग्राम नादियाड ।
7344.	वासुदेव वैद्य रामनलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4667 20-3-75	ग्राम रानुण, तह० पडारा, जिला बड़ौचा ।
7345.	वासुदेव भाई उपाध्याय शानेउखराम	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7651 28-3-80	ग्राम पडाल, तह० धासरा, जिला बड़ौचा ।
7346.	वासुदेवप्रसाद ओजा न मंत्राशंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3692 23-11-73	मार्फत पंडित धनशंकर गौरी, शंकरवैद्य, 1919, हिंगलीक जोशी, खांचा बाला, हनुमान बाविया, अहमदाबाद ।
7347.	वासुदेव प्रसाद पुरोहित जगन्नाथ	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1969	3097 27-1-71	अमाली फालिया, ग्राम शुक्ला, अतीर्थ, ता० एब जिला बड़ौचा
7348.	वासुदेव चरदवा मोहनलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5777 26-4-77	प्रमानंद वकील हाउस, पारंख चाकला रोड, ग्राम पोरबंदर, जिला जूनागढ़ ।
7349.	वासुमती चौदसमा छगनलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7773 1-8-80	मार्फत जी० के० मिस्त्री, स्वाशराय, विजयनगर प्लॉट नं० 585, भावनगर ।
7350.	वासुधतलाल पाटील बाबूलाल	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	7101 13-7-79	ग्राम कुकरमुंडा, तह० मितार, जिला सूरत ।
7351.	वासुमति शाह जानेश्वर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3382 17-2-72	सुभाष रोड, नजदीक नानी हवेली, बीरजल जिला जूनागढ़ ।
7352.	बत्सल वासनी रजनी भाई	एम० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	4586 5-12-74	6, नरसिंहा चोनबारस, दूसरी मंथिल, वासुदेव क्लिनिक इमकम टैक्स आफिस जाधम रोड, अहमदाबाद ।

1	2	3	4	5
7353.	बत्सना बाबे नागिन बाब	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5922 17-10-77	284, मारंगपुर चक्रला, रानी मस्जिद के सामने महालक्ष्मी बाबा, अहमदाबाद ।
7354.	बेगमार्ई पटेल देवा भारई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	4006 17-8-73	ग्राम रंगपुर, पो० प्रमपुर, ता० हिम्मस नगर, जिला साबरकण्ठा
7355.	बिभा बानी हसमुब भारई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8690 3-3-83	190, माता बाबे बादीग्राम बरियापुर, अहमदाबाद ।
7356.	बिभा महेश्वरी मयनम भान	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8689 3-3-83	22, महेश्वरी सोसाईटी बापूतगर, अहमदाबाद- 24
7357.	बिभा त्रिवेदी अरविन्द भारई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	8060 27-4-81	बी/एफ/47, पेटरो कैमिकल टाउन शिप, पो० आ० पेटरो कैमिकल टाउनशिप जिला बड़ौदा
7358.	बिभाकर जोशी चन्द्र शंकर	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1974	4872 30-5-75	मार्फत ए० के० जोशी, कम्पोरिया शेरी, ग्राम उपलेटा, जिला राजकोट ।
7359.	बिभा शंकर कातिलाल	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1985	9601 10-11-86	हाउस नं० 12/1245, मछलापीठ, शाहपुर, ग्राम मूरत ता० चोपसी जिला मूरत
7360.	बिभा बालनी नीशांब	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1985	9602 10-11-86	कैलाश चौक, ग्राम बाबरा, जिला अमरेली ।
7361.	बिभुली बेन राजगुरु विनेश चन्द्र	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	8261 31-12-81	रामजी मन्दिर, उनी रोड अल्का फार्म, नूरसाली, ग्राम, ता० जिला बड़ौदा ।
7362.	बिबा गौरी उपाध्याय बिबाचन्द्र	बी० ए० एम० एम०, फै० अफ आ० यू० सि० मेडीसिन बम्बई 1954	71 2-8-54	बकीश नवाम शेरी नं० 20/24 त्रिग्विजय प्लाट ग्राम जामनगर
7363.	बिबाबेन पटेल रंछीव भारई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	5340 8-4-76	ग्राम दावसाव ता० पडरा जिला बड़ौदा
7364.	बिबाधर ज्योतिशी बालकृष्ण	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1970	3281 4-11-71	1436, मामुमयाक पोल, गंध रोड, अहमदाबाद ।
7365.	बिभूत कुमार पटेल देवा भारई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1984	9397 24-9-85	मार्फत डा० आर० सी० पटेल, 408 शंकरशेठ रोड नजदीक रोही गैरेज, ग्राम पूना ।
7366.	बिक्रम कुमार शुक्ल महेन्द्र कुमार	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1983	8983 28-3-84	जीवन प्रकाश प्लाट, सरदार पटेल रोड, मिस्त्री के नजदीक सुदैन नगर
7367.	बिजय मेहता जीवा भारई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात वि० वि०, 1962	153 24-7-63	पो० आ० सतपोली बाया देगेन, जिला पंचमहल
7368.	बिजय त्रिपाठी हृदी प्रसाद	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4551 15-10-74	15, गोर्धन पार्क शानि नगर, सोसाईटी बडगा, अहमदाबाद ।
7369.	बिजय ब्यास भोगी लाब	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5497 17-8-76	मार्फत जे० बी० त्रिवेदी, 20/विग्विजय प्लाट, नरेन मिस्त्री बंगला ग्राम जामनगर ।

1	2	3	4	5
7370.	विजय जोशी मनोहराम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात छा० वि० वि०, 1973	4564 29-10-74	ग्राम बडो बागोदील, ता० गोधरा, जिला पंचमहल
7371.	विजय भाई बयानी गोविंद भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात छा० वि० वि०, 1973	4172 5-2-74	36, टाउनशिप सोसाइटी, नानावरुछ रोड, सुरत
7372.	विजयचन्द्र पाण्डव कान्त लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात छा० वि० वि०, 1974	4705 29-3-75	ग्राम भावेर, बाया धोरणी, जिला राजकोट
7373.	विजय कुमार आर्य विन्ता मणि	बी० एस० ए० एम०, गुजरात छा० वि० वि० 1980	8410 5-4-82	नासमुख बाल, बखरिया बहार रोड, ग्राम जिलीमोरा, ता० गान्धोबी, जिला बालसाब- 396321
7374.	विजयकुमार बारिया बाबू भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात छा० वि० वि०, 1978	7545 21-2-80	नजदीक जावेला बादी, ग्राम दासोई, जिला बड़ौचा
7375.	विजय कुमार भट्ट शांति लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात छा० वि० वि०, 1979	7851 10-10-80	नजदीक देना बैंक, ग्राम पेटलाड, जिला बड़ौचा
7376.	विजय कुमार भट्ट रवि शंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात छा० वि० वि०, 1980	8402 5-4-82	टेलीफोन आफिस के सामने, भट्टभाडी पोख, उमारेठ, ता० भागम्प, जिला बड़ौचा
7377.	विजय कुमार वझे देवी प्रसाद	बी० एस० ए० एम०, गुजरात छा० वि० वि०, 1980	8462 25-6-82	12, मिलन सोसाइटी, जितन रोड, सुरत नगर
7378.	विजय कुमार मिस्त्री ममीलाल	डी० एस० ए० सी०, क० घ० आ० कोर्स, गुजरात 1964	1444 10-6-84	मेडीकल आफिसर ग्राम ब खेसवा, सिविल डिस्पेंसरी, बाया तारापुर जिला बड़ौचा
7379.	विजय कुमार पण्डित वासुदेव राम	बी० ए० एम० एम०, इन्स्टीट्यूट ऑफ वि०, 1975	7316 20-9-79	37, कालानी मोहला, ग्राम बीरगोहे (म०अ०)
7380.	विजय कुमार पटेल रुग्नाथ भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात छा० वि० वि०, 1975	5743 25-3-77	ग्राम कालीपुर, ता० पाबी, जेटपुर, जिला बड़ौचा
7381.	विजय कुमार पटेल रमन लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात छा० वि० वि०, 1977	6605 21-2-79	ग्राम-मिसे भाटवाड, साधना, बाल मन्दिर, ग्राम ब जिला मेहसाना
7382.	विजय कुमार पटेल रतिलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात छा० वि० वि०, 1981	8701 16-3-83	इन्डोवरी बाजार, गणेश चौक, ग्राम ब पो० ब ता० जमूसर, जिला बड़ौचा
7383.	विजय कुमार पुरोहित जयस्ती लाल	आयुर्वेद मध्यमा, आ० द० परीक्षा समिति, बड़ौचा 1978	6647 26-2-79	गारहररोड, ग्राम ब पो० राजपीपला, ता० छेब जिला बड़ौचा
7384.	विजय कुमार शाह नटवर लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात छा० वि० वि०, 1974	6743 15-3-79	89, घर्मानगे सोसाइटी, साबरमती, अहमदाबाद
7385.	विजय कुमार ठाकर वसन्त लाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात छा० वि० वि०, 1974	5144 30-1-76	पानीगेट जिवा रोड, नन्दनान पुष्पा चन्द्रोपय सोसाइटी, ग्राम बड़ौचा
7386.	विजय कुमार वैद्य परमानन्द	बी० ए० एम० एम० बम्बई वि० वि० 1982	9183 17-10-84	ग्राम बीघान, जिला सुरत

1	2	3	4	5
7387.	विजय कुमार खानवी छी ता भाई	एम० एफ० ए० एम०, फैक० आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1970	6558 12-2-79	क्लिनिक, ग्राम नवापुर, जिला धुले, महाराष्ट्र
7388.	विजय राज सिंह जी बालाल जगवन्त सिंह जी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	5875 8-9-77	ग्राम धानक, ता० उपलेटा, जिला राजकोट
7389.	विजय सिंह अरोवारिया दौलत सिंह	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6234 10-8-78	ग्राम काठवाड़ा, डा० बालशह, ता० मंगोराल, जिला सूरत
7390.	विजय सिंह सोलंकी बाभाजी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	5346 14-4-76	पुजरा फालिया, ग्राम मुन्बरा, जिला कच्छ
7391.	विजय सिंह जी ज़ादब मुलाजी बाबा	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1980	8551 14-8-82	धनजीवाजीन, ग्राम बपो० पुलंजता०, ब० जिला बड़ौदा
7392.	विजय सिंह जी मकवाना खोवा जी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6942 25-4-79	भारवादी गेट चाम्ब पाली, ग्राम बिरमगाम, जिला अहमदाबाद
7393.	विजय सावलिया धिरूभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5376 30-4-76	मार्फत धिरूभाई सभोलिया, नव ज्योति संज्ञाहटी, खोजारा, महमदाबाद, अहमदाबाद
7394.	विक्रम बाला बाला पुंजबाला	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5666 3-2-77	ग्राम सन्ध्याली, वाया वैधिया, जिला अमरेली
7395.	विक्रम भाई पटेल मम्बा बाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3982 31-7-73	ग्राम गोजारीए, ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा
7396.	विक्रम उवाध्याय भाविन भाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1985	9654 31-12-86	3/बी, जीवन स्मृति सोसाइटी, मीराम्बीका मार्ग, नारनपुरा, अहमदाबाद
7397.	विनोद चन्द्र पटेल हीरा जी भाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3925 19-4-73	ग्राम कालबाब, जिला जामनगर
7398.	विक्रम सिंह चौहान रमेश चन्द्र	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1980	8255 24-12-81	11, गिशनगर सोसाइटी, मेघानी नगर, अहमदाबाद
7399.	विक्रम पटेल जगेश	बी० ए० एम० एम० दुदौर वि० वि०, 1974	5832 6-7-77	ग्राम व ता० निजार, जिला सूरत
7400.	बिलाश शाह नवनीत लाल	डी० एस० ए० सी०, क० शुक आ० फोर्स, गुजरात, 1964	1604 1-2-65	मेहता पोने बैंक रोड, बड़ौदा
7401.	विरसन परमार पौल	जी० एफ० ए० एम०, फैक० आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात [1961	672 23-10-61	एडवार्ड स्ट्रीट, नासोबा, वाया बिलीमोर, जिला सूरत
7402.	विलास बेन राठोड रतन सिंह	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1983	9030 16-4-84	ग्राम ब पो० बपलसारा, ता० वासन्दा, जिला वलसाड
7403.	विमल मेसकर जिनायक	डी० ए० एम० एफ०, फैक० आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1963	2437 23-3-67	मार्फत प्रोफेसर, राज० आयु० कालेज, अजबाराड, बड़ौदा

1	2	3	4	5
7404.	बिमला जोशी श्रीरज लाल	बी० ए० ए० ए० गुजरात आ० वि० वि० 1975	5843 3-8-77	233, दिग्धा वसंत गुजरात हाउस, गौरवा, बड़ोवा
7405.	बिमला काशरिया मनी लाल	बी० ए० ए० ए० ए०, कै० आ० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1954	2538 1-8-54	शरी नं० 17, राष्ट्रीय हलाम मनहर प्लाट, राजकोट
7406.	बिमलदेव मिश्रा राज नरमन	एम० बी० (आयु०) गुजरात आ० वि० वि०, 1976	6020 2-2-78	बाल आयुर्वेद कालेज, लोडरा, जिला मेहसाना
7407.	बिमल कुमार शाह धनुभाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7782 16-7-80	स्टेशन रोड, ग्राम निमत नगर, जिला साबरकण्ठा
7408.	बीना देसाई जयन्ती लाल	आयुर्वेद उत्तम, आ० व० परीक्षा समिति, बड़ोवा, 1973	8586 11-3-80	मरीहार अलाक, राज महल रोड, शियाबान, ग्राम बड़ोवा
7409.	बीना गनका रमेशचन्द्र	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7937 29-12-80	19, साधना कालोनी, सरदार पटेल स्टेडियम के नजदीक, नवरंगपुरा, अहमदाबाद
7410.	बीना गोहिल रतीशाल	एम० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4578 28-11-74	बी० बी० देसाई सी 4, रामनिवास, गवर्नमेंट क्वार्टर जूनागढ़
7411.	बीना राजल भानू शंकर	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7776 1-8-80	मार्फत भानू भाई रावल, दीपक प्रैस, के नजदीक, मालीबाड़ा रोड, ग्राम जूनागढ़
7412.	बीना सोय नरसराजजी	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1969	5634 18-12-76	भार्या कनया आयुर्वेद कालेज, भास्काराम रोड, करेली बाग, ग्राम बड़ोवा
7413.	बिनयत राम भ्यास रवि शंकर	एल० ए० ए० ए०, यू० पी० आ० महाविद्यालय, (बड़ोवा राज्य) 1941	1106 3-11-41	नजदीक विकास गृह 5 बी, शारदा कुज, सोसाइटी, अहमदाबाद
7414.	बीना बेली भट्ट प्राण जीबन	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3855 1-3-73	मार्फत पी० आर० भट्ट, बंदी गेट के नजदीक, बानन्द बाड़े हरिनिवास, ग्राम जामनगर
7415.	बिनायक जोशी पु सुसोत्तम	आयुर्वेद मध्यमा, आ० व० परीक्षा समिति, बड़ोवा, 1978	6649 26-2-79	ग्राम तेजगढ़, बाया जामनुगुन, ता० छोटा उदयपुर जिला बड़ोवा
7416.	बिनायक लिवेची कानुभाई	आयुर्वेद मध्यमा, आ० व० परीक्षा समिति, बड़ोवा, 1978	7023 15-6-79	लिवेची कुज, अण्डोलो किसिमि फाउन्डेशन, ग्राम बड़ोवा
7417.	बिनायक महेस्कर भास्कर	बी० ए० ए० ए० ए०, कै० आ० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1953	2417 6-3-67	एम० ए० महाविद्यालय, अजबारी रोड बड़ोवा बड़ोवा
7418.	बिनयकांत पटेल हृदयर भाई	जी० ए० ए० ए० ए०, कै० आ० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1950	634 1-5-58	14, आर्यनगर, अमूल हॉरी रोड, ग्राम आनन्द, जिला बड़ोवा
7419.	बिनायक राव मोरे बाबू राव	बी० ए० ए० ए० सी०, क० यू० आ० कोर्स, गुजरात, 1964	1441 1-6-64	ग्राम देसार, बाया सामलया, ता० सावली, जिला बड़ोवा

1	2	3	4	5
7420.	बिनित वेंच प्राण लाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1970	3278 29-10-71	कांता कुटीर कालिका प्लाट, ग्राम मोरबी, जिला राजकोट
7421.	बिनय कुमार पटेल वासन जी	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1970	3209 30-7-71	जेल चौक भोजपारा, जेल के सामने, ग्राम गोंडल, जिला राजकोट
7422.	बिनय पुरी गोसाई बापा पुरी	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	9102 31-7-84	नोदनबाड, बाया संगम, ता० पालीतना, जिला भावनगर
7423.	बिनित कुमार पटेल रनछोव लाल	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि० 1984	9286 7-5-85	1035, नवी पोल, भाहपुर, अहमदाबाद 380001
7424.	बिनोब शाह मनी लाल	जी० ए० ए० ए० ए०, फै० आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1983	1435 6-5-64	जिला पंचायत डिस्टेंसरी, ग्राम कदोसम रोड,
7425.	बिनोब शेट मानाजी भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9189 13-11-84	ग्राम एब डा० समाधियाला नं० 2, ता० बोटाड, जिला भावनगर
7426.	बिनोब ब्रह्मभट्ट भैलाभाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	5347 16-8-77	म० नं० 1556, मिराजपुर रोड, लोधबाड, अहमदाबाद
7427.	बिनोद बेन पारिख कमू भाई	जी० ए० ए० ए० ए०, फै० आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1982	693 1-4-63	6, मिलान सोसाइटी, मिराजिका हाई स्कूल के सामने, अहमदाबाद
7428.	बिनोद भाई पटेल मोबिल भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3524 3-7-72	ग्राम सुल्तानपुर ता० खेराल, जिला मेहसाणा
7429.	बिनोब भाई पटेल मगत भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4391 31-5-74	ग्राम मोर्जा, ता० गोधरा, जिला नर्मदा
7430.	बिनोब भाई पटेल कसूर भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, विक्रम वि० वि० 1976	6538 3-2-78	12/860, गुजरात हाऊस बोर्ड, गोरवा, बड़ौदा 3
7431.	बिनोब भाई पटेल आनन्द जी भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8488 6-8-82	ग्राम एब डा० राजाका, ता० भाखुका, जिला अहमदाबाद
7432.	बिनोद बालचन्द्र जोशी बालचन्द्र	बी० ए० ए० ए० ए०, विदर्भ बो० आ० यू० सि० मेडीसिन, महाराष्ट्र 1988	2882 22-1-70	एम० 8, आफिसर कालोनी, अल्कापुर, बड़ौदा
7433.	बिनोदचन्द्र अमलासी, बलचम दाम	वैद्य विशारद वि० भा० आ० विद्यापीठ, विल्की, 1968	6732 12-3-79	अमलासी आयुर्वेदिक फार्मसी, राम टेकरी रोड, ग्राम पोरबस्वर, जिला जूनागढ़
7434.	बिनोद कन्दभट्ट मून गकर	जी० ए० ए० ए० ए०, फै० आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1985	1753 25-7-65	ग्राम बललाल, जिला कैरा
7435.	बिनोद चन्द्र भट्ट नरसु भाई	बी० ए० ए० ए० ए०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	7684 26-4-80	रेलवे क्वाटर, ग्राम पानसर, ता० कालोल, जिला मेहसाणा

1	2	3	4	5
7436.	बिनोद चन्द्र ववे विश्वनाथ	बी० एस्० ए० एम्० गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6191 15-7-78	मनीलाल मनसिक्न, गांधी पं.त, रावपुर, बड़ौदा ।
7437.	बिनोद चन्द्र ववे जगदीश चन्द्र	बी० एम्० ए० एम्० गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7725 29-5-80	छातगापाड महाद, ग्राम सिधापुर, जिला- मेहसाना
7438.	बिनोद चन्द्र जामो मफ्त लाल	बी० एस्० ए० एम्० गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4645 12-3-75	ग्राम कहीवा, ता० सिधापुर, जिला-मेहसाना ।
7439.	बिनोद चन्द्र जोशी भानु शंकर	बी० एम्० ए० एम्० गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8714 16-3-83	ग्राम वपो० भावभूट, ता० एवं जिला-बरोच ।
7440.	बिनोद चन्द्र कन्ठारिया लालू भाई	बी० ए० एम्० एम्० गुजरात आ० वि० वि०, 1985	9573 23-9-86	ग्राम वपो० अमरेली, स्ट्रीट, उटपानी, जिला- सूरत ।
7441.	बिनोद चन्द्र दलसुख राम पांड्या दलसुख राम	बी० एम्० ए० एम्० गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	2984 23-6-70	ग्राम-मुजपुर, ता०-मुठा, जिला-बड़ौदा ।
7442.	बिनोद चन्द्र पारिख अमृत लाल	बी० एम्० ए० एम्० गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4463 29-8-74	पंजाब बैंक के नजदीक, ग्राम व जिला-धलसाद
7443.]	बिनोद चन्द्र पटेल भुवन भाई]]	बी० एस्० ए० एम्० गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5075 15-12-75	ग्राम 77-ए, सरीता सोसाइटी, नथ कुंवर बाग, काश्मेरी बावला, भावनगर ।
7444.]	बिनोद चन्द्र पटेल मोहन भाई]]	बी० एस्० ए० एम्० गुजरात आयु० वि० वि०,] 1975	5652 18-1-77	ग्राम-तैरामा, ता० सिनीर, पो० आ० साधानी, जिला-बड़ौदा ।
7445.]	बिनोद चन्द्र शाह शैया लाल]]	बी० ए० एम्० एस्० गुजरात वि० वि०]] 1968	2454 30-3-67	6]1336, जवाबाड़ी महिवापुर, सूरत ।
7446.]	बिनोद चन्द्र स्वामी नारायण ओघबजी]]	बी० ए० एस्० एम्० फे० आफ० आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1952	2242 6-2-52	28, प्रह्लाद प्लाट, मन्जुविला, ग्राम राजकोट ।
7447.]	बिनोद चन्द्र तिलक विठल जी]]	बी० एस्० ए० एम्० गुजरात आ० वि० वि०, 1982	8860 1-11-83	ग्राम वपो० नारनपुर ता० भुज, जिला-भुजकण्ड ।
8448.]	बिनोद चन्द्र तिवेदी] माया शंकर]]	बी० एस्० ए० एम्०] गुजरात आ० वि० वि०, 1968	2989 4-7-70	ए/1 महिला सोसाइटी रेलवे कार्गिन के नजदीक अहमदाबाद
8449.	बिनोद चन्द्र वधा हरमोहन्य बास]]	बी० एस्० ए० एम्०] गुजरात आ० वि० वि०,]] 1969	3031 19-8-70	पुराना पो० आ० के नजदीक ग्राम, रानुज ता० पाटन, जिला मेहसाना ।
7450.]	बिनोद कुमार महु अमृत लाल]]	बी० एस्० ए० एम्० गुजरात आ० वि० वि०, 1976	5889 20-9-77	फूलवादी बाग, ग्राम मेवापाडा, जिला-भुजकण्ड ।
7451.]	बिनोद कुमार मोहरा गणपति प्रसाद]]	बी० ए० एम्० एस्०]] दुधौर वि० वि०]] 1977	7316 20-8-79	31, अजन्ता टाकज रोड, रोठरी स्टेशन, ग्राम रठन, (म० ड०)

1	2	3	4	5
7452.	बिनोब कुमार घबे प्रभा शंकर	बी० एस० ए० सी० क० शु० आ० कोर्स गुजरात 1961	369 23-10-61	बिलोक माथ कों-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी म० नं० 4, राभीप, अहमदाबाद ।
7453.	बिनोब कुमार घबे भय शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1970	3540 5-8-72	10 मिल्लापारा, देव भवन, ग्राम राजकोट ।
7454.	बिनोब कुमार मोदी गंडा लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8783 16-6-83	ग्राम एष पो० आ० जोटना ता० एष जिला मेहसाना ।
7455.	बिनोब कुमार पटेल मोहन लाल	बी० ए० एम० एस० गुजरात आ० वि० वि०, 1983	8953 12-3-84	ए-9 रामकृष्ण मोसायटी लाम्बे हनुमान रोड, ग्राम सूरत - 6
7456.	बिनोब कुमार पटेल नारन भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आ० वि० वि०, 1984	9368 2-9-85	भागिनी समाज ग्राम उडवाडा स्टेशन, ता० पारडी जिला वलसाब ।
7457.	बिनोब कुमार शाह मीरा लख	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8265 31-12-81	ग्राम एष आ० कोरल ता० हवारजिला साबरकन्डा -383411
7458.	बिनोब कुमार सुघार बिठूल वास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1980	8424 1-5-82	ग्राम एष पो० नादियाल, निमात नगर, जिला साबरकन्डा ।
7459.	बिनोब कुमार उपाध्याय सदणो शंकर	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1976	5782 30-4-77	वर्गा माता का पोल कालूपुर, अहमदाबाद ।
7460.	बिनोब कुमारबख बुली लाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आयु वि० वि०, 1973	4449 9-9-74	महादेव चौक, ग्राम बावला, ता० बोलका जिला अहमदाबाद ।
7461.	बिनोब राय बेसाई गजानन्य	बी० ए० एस० एफ० कै० आफ आ० यू० सि० मेडीसिन बम्बई 1948	442 31-7-48	ग्राम सिकेर, बाया बारदोली, जिला-सूरत ।
7462.	बिनोब राय बेसाई नरू भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात वि० वि०, 1966	2059 20-6-66	ग्राम एष पो० आ० कोसम्बा, जिला वलसाब ।
7463.	बिनोब राय जोशी नरमबा शंकर	बी० एस० ए० सी० क० शु० आ० कोर्स, गुजरात 1966	2062 21-6-66	ग्राम डांक, ता० उपलेटा, बाया विशावदार, जिला राजकोट ।
7464.	बिनोब राय जोशी हारका दास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4822 2-5-75	बौर्बाव ग्राम बिताल, जिला अमरेली ।
7465.	बिनोब राय केसबलाल देवपी भाई	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1977	8819 11-8-83	ग्राम अडसांग, बाया अडसा, ता० साबरकुडला, जिला भावनगर ।
7466.	बिनोब राय रावल कामेशवर	बैदा विद्यारव दि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1963	8626 13-1-83	रामजी मन्दिर के माने ग्राम विठिया, जिला- राजकोट ।
7467.	बिनोब राय ककाडिया नवा भाई	बी० ए० एम० एस० गुजरात आ० वि० वि०, 1984	9508 12-6-86	ग्राम-बिरावी, ता० गारियाबर, जिला-भावनगर ।
7468.	बिनोबराय मेहता काशीबास	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3704 1-12-72	ग्राम घेलाना, डा० मंगरोल बाया केवोड, जिला जुनागढ़ ।

1	2	3	4	5
7469.	विनोद राय पाल्झया बन्धु शंकर	बी० एम० ए० एम० नि० भा० आ० विद्यापीठ दिल्ली 1965	6511 1-2-79	ई० एस० आर्इ० एस० डिप्लोमरी, बमरपारा ग्राम बाँकनेर, जिला राजकोट ।
7470.	विनोद राय रामल नना लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1970	3136 24-2-71	ग्राम पुराना रतनपुर, डा० शिपालगर ता० वलबीपुर जिला भावनगर ।
7471.	विनोद राय त्रिवेदी अमन्त राय	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3643 9-10-72	ग्राम सेवानो, ता० कनरेज, जिला सुरत ।
7472.	विनोद राय दवे धनु लाल	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4315 3-4-84	दवे मोवास, मुभाष शेरी बोदपुरा, ग्राम जेटपुर जिला राजकोट ।
7473.	विनोद राय ठान्डीया मसस्त भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6110 28-3-78	ग्राम व पो० आ० हाविवा, वाया विजापाड़ी ता० सयरकुडला, जिला भावनगर ।
7474.	विनोद राय कांसगरा विराजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1976	6003 10-1-78	जाण्डा चौक, ग्राम जन्याली, जिला जूनागढ़ ।
7475.	विनोद शंकर अक्षयी	एच० पी० ए० पो० प्रे-ट्रेनिंग सेन्टर इन आयुर्वेद जामनगर 1960	2587 14-9-67	आर० एम० बी० जी० के० आयु० हास्पीटल, एच० मोगीबर मटेरिटी होम 36 करमपारा ग्राम राजकोट ।
7476.	वीनूभाई चौधवाडिया नया भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4767 21-3-75	ग्राम जीरा, वाया धोला, जल० ता० साबरी, उडाला, जिला भावनगर ।
7477.	वीनूभाई पांड्या लाल शंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1970	3233 30-8-71	पावगढ़ रोड, ग्राम हलोल, जिला पंचमहुल ।
7478.	वीनूभाई पटेल मोती भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5007 20-10-74	ग्राम सरार, ता० एच० जिला बड़ोवा ।
7479.	वीनूभाई पटेल मोहन भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1979	8131 4-8-81	67 जय बजरंग सोसाईटी, शास्त्री स्टेडियम के पीछे, बापू नगर, ग्राम अहमदाबाद ।
7480.	वीनूभाई सालजी भाई	बी० एम० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1982	8923 8 2 84	12/ए सोराष्ट्र पटेल कालोमी, श्रीधर भंजन हनुमान के सामने, अहमदाबाद-18
7481.	वीनू भाई त्रिवेदी बाबा शंकर	डी० एम० ए० सी० क० शु० आ० जोर्स गुजरात 1965	1847 22-11-65	मार्फत व्यास अलककुजार जोधी, बाबा पोश, बाविया, अहमदाबाद ।
7482.	वीनूभाई जोशी उमिया शंकर	बी० एम० ए० एम० गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8234 24-11-81	बांधी चौक के नजदीक, ग्राम-भोजवा, जिला अहमदाबाद ।
7483.	वीनू भाई शंभे ननुभाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8355 11-3-82	मार्फत डा० एम० जे० चट्ट, धन्वतरि, जमता आर्इस फैक्टरी रोड, वृन्तन सोसाईटी, सुरेन्द्र नगर ।
7484.	विपिनभाई पटेल राम भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8128 4-8-81	ग्राम एव' पो० आ०-जमसोली, ता०- महमदाबाद जिला-बोधा ।
7485.	विपिन भाई पटेल पुरुषोत्तम भाई	बी० एम० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4257 15-3-74	ग्राम सोंगीर इन्दराल, ता० संबोडा, जिला बड़ोवा ।

1	2	3	4	5
7486	विपिन चन्द्र डोकनर कञ्चन लाल	बी.एस.ए.ए.ए., वि. भा. भा. विद्यापीठ, दिल्ली 1968	8088 4-8-81	घाटी, घाटवाडा, बीदीपारमट मन्दिर, ग्राम बड़ोवा ।
7487	विपिन चन्द्र श्याम जीवन लाल	बी.ए.ए.ए.ए.ए., फेक. ऑफ आ. यू. सि. मेडिसिन, गुजरात 1965	1785 19-7-85	ग्राम खेडा ता. मोहमदाबाद, जिला. कैरा ।
7488	विपिन कुमार पटेल भारिलाल भाई	बी.एस.ए.ए.ए., गुजरात आ. वि. वि., 1979	8090 4-6-81	सरदार चौक, ग्राम एब पो. आ. सर्सा, ता. आनन्द, जिला खेडा ।
7489	विपुल कुमार खीरा बलचन्त राय	बी.ए.ए.ए.ए.ए., गुजरात आ. वि. वि., 1984	9224 19-2-85	मार्फत मोहनलाल बहामण्ड, केडनी पो.क, बाधिया मोहनभाई, ब्रह्मपट्ट हाबल, अहमदाबाद ।
7490	विपुलकुमार भाह नवनीत लाल	बी.ए.ए.ए.ए.ए., गुजरात आ. वि. वि., 1985	9608 10-11-85	ग्राम व पो. सर्सा, 388365, ता. आनन्द, जिला खेडा ।
7491	विपुल त्रिवेदी देवेन्द्र भाई	बी.एस.ए.ए.ए.ए., गुजरात आ. वि. वि., 1978	7388 19-11-79	प्लॉट नं. 441, कास विपु बिहार ग्राम भावनगर ।
7492	विपुल कुमार पटेल अम्बा लाल	बी.एस.ए.ए.ए.ए., गुजरात आ. वि. वि., 1980	9472 11-2-86	ग्राम कडागी, ता. नाथियाड, जिला खेडा ।
7493	विपुल चन्द्र पारेख अमृत लाल	बी.एस.ए.ए.ए.ए., गुजरात आ. वि. वि., 1978	7535 15-2-80	8/2198 महिधरपुरा, नागरजीरी ग्राम सूरत-3 ।
7494	विपुल कुमार गुरवार छमील दास	बी.एस.ए.ए.ए.ए., गुजरात आ. वि. वि., 1979	7738 6-6-80	ठक्करव्या कालोनी, ग्राम बिरमगाम जिला अहमदाबाद ।
7495	वीराभाई दाबही ब्रजजी भाई	बी.एस.ए.ए.ए.ए., गुजरात आ. वि. वि., 1976	5949 26-10-77	ग्राम छनियाला, ता. बधगाम, जिला बनासकन्डा ।
7496	वीराजी बैरा जायक भाई	बी.एस.ए.ए.ए.ए., गुजरात आ. वि. वि., 1974	5119 8-1-76	जादेवरी जेरी, ग्राम मोविद्या, बाया गोम्बाल, जिला राजकोट ।
7497	वीराजी भाई गोम्बालिया अर्जुन भाई	बी.एस.ए.ए.ए.ए., गुजरात आ. वि. वि., 1973	4558 16-10-74	ग्राम नव बाधानीया, ता. मुकदाव, जिला अमरेली ।
7498	विराल रायजीवाला प्रद्युम्नभाई	बी.एस.ए.ए.ए.ए. गुजरात आ. वि. वि. 1984	9323 25-7-85	16/ए कुटछी पटेल सोसाईटी, ग्राम हिम्मतनगर-383001 जिला साबर- कण्ड ।
7499	वीराजी भाई सीट कर्वण भाई	बी.एस.ए.ए.ए.ए., गुजरात आ. वि. वि., 1974	4918 15-7-75	ग्राम रोजीव, बाया भीमनाथ, ता. बन्धुका, जिला अहमदाबाद ।
7500	वीरचन्द्र भाई पटेल मोहन लाल	बी.एस.ए.ए.ए.ए., गुजरात आ. वि. वि., 1972	4220 21-2-74	ग्राम कराली, ता. सिवडापुर, जिला मेहसाणा ।
7501	विरेश्वर त्रिवेदी हिम्मत लाल	बी.एस.ए.ए.ए.ए., गुजरात आ. वि. वि., 1974	4784 9-4-75	सरदार नगर मुनी, सोसाईटी प्लॉट नं. 44, ग्राम भावनगर
7502	विरेश्वरभाई पटेल जीमबीभाई	बी.एस.ए.ए.ए.ए. गुजरात आ. वि. वि., 1982	8500 27-8-82	ग्राम एब डा. बाधिया ता. जिम्बडा, जिला पंचमहाल ।

1	2	3	4	5
7503.	विरेश कुमार घोसाकिया शशिकान्त	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4184 12-2-74	419, सोनी कालोनी, ग्राम नया अंजर, ता० अंजर, जिला कच्छ।
7504.	विरेश कुमार जोशी रतीलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1980	9214 19-2-85	ग्राम पोरडा, ता० पेटलाद, जिला खेड़ा।
7505.	विरेश कुमार पेठे गणपतराय	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1977	6049 8-3-78	सतम पुस्तकालय के पीछे, ग्राम जालाद, जिला पंचमहल।
7506.	विरेश साहू हसमुख लाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1984	9403 19-10-85	5/789, ग्राउन्ड फ्लोर, धनिया भारी महिधारपुर, ग्राम सुरत-395003।
7507.	विरेश कुमार साहू जगन्मललाल	मायुर्वेद माध्यमा, आ० व० परीक्षा समिति, बड़ीवा 1978	6496 1-2-79	ग्राम लिम्बानी, ता० मतार, जिला खेड़ा।
7508.	विरेशराय व्यास जटा शंकर	बैद्य विचारक, वि० भा० आ० विद्यापीठ, दिल्ली 1966	7078 30-6-79	जुना जगदीश बाल मन्दिर के मजदीक, ग्राम जोरवार नगर, ता० वाघवान।
7509.	विशाभाई पटेल रताभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3802 19-2-73	वाव गेट के बाहर, ग्राम हुन्स, ता० विजापुर, जिला मेहसाना।
7510.	विलनदास सैथानी तिकमदास	बी०एस०एम०एस०, विक्रम वि० वि०, 1975	6737 15-3-79	मार्फत टी० टी० मधानी, इन्स्पेक्टर एस० पी०, इंटेलीजेंट ब्रान्च, रेलवे कालोनी, 711/0, मनीमगर, अहमदाबाद।
7511.	विठ्ठलभाई पटेल अम्बालाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1970	3171 12-4-71	घा० हरियाण, डा० कंजर, ता० खाम्भात, जिला खेड़ा।
7512.	विष्णु नाथजानी नेवन्धराम	बी०एस०एम०एस०, गुजरात वि० वि०, 1965	1876 8-12-65	गांधी रोड, कुटीयाना, जिला जूनागढ़।
7513.	विष्णुभाई पटेल रामभाई	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5196 25-2-76	ग्राम मणजीपुर, ता० वासर, जिला खेड़ा।
7514.	विष्णुभाई पटेल राम भाई	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आ० वि० वि०, 1985	9547 18-8-86	रामजी मन्दिर के पीछे, ग्राम एवं पो० आ० पालियाड, ता० कालोज, जिला मेहसाना।
7515.	विष्णुभाई पटेल नारायणदास	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आ० वि० वि०, 1979	8101 20-6-81	मार्फत गोपालभाई पटेल, बुधनीमगर, ग्राम बीजापुर, जिला मेहसाना।
7516.	विष्णु कुमार पटेल नारायणभाई	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आ० वि० वि०, 1985	9624 21-11-86	बी/1, हरि जमनगर, भारतीय कालोनी, ठक्कर बापातगर, अहमदाबाद-383350।
7517.	विष्णुभाई नानस हरमनभाई	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आ० वि० वि०, 1970	3272 26-10-71	सिमडा चौक, ग्राम गोडा ता० पटलाड, जिला खेड़ा।
7518.	विष्णुचन्द्र गुप्ता बनभारोसाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1970	3258 7-10-71	अम्बालाल मिस्त्री हाउस, भोजक शेरी, ओडवाडा, ग्राम एवं जिला मेहसाना।
7519.	विष्णुदास काचराज	मायुर्वेद उल्लमा आ० व० परीक्षा समिति, बड़ीवा 1973	7147 24-7-79	रामजी मन्दिर, ग्राम इटोला, जिला बड़ोदा।

1	2	3	4	5
7520.	विष्णुकुमार मुलाजीभाई सोनी मुलाजीभाई	बी० एस० ए० सी०, क० यू० आ० कोस, गुजरात 1962	1336 31-12-82	241/2, जहांगीरपुर, मुम्बैनगर, अहमदाबाद।
7521.	विष्णुप्रसाद भट्ट प्रभूराम	आयुर्वेद विशारद, बी० ई० मेडिसिन, लौराष्ट्र 1958	2192 1-5-58	सुरेन्द्रनगर जिला पंचायत, आयुर्वेद डिस्पेंसरी, तह० लिम्बाडी, जिला सुरेन्द्र नगर।
7522.	विष्णुप्रसाद देसाई विमनलाल	बी० ए० एस० एफ०, फैक० आफ० आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई	1638 1-9-55	2, अस्मिता सोसाईटी, मजबूक रेलवे क्रासिंग, मनीमगर, अहमदाबाद।
7523.	विष्णुप्रसाद जोशी नारायण	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1982	8829 1-9-83	कमला स्मृति, बाहपुर रोड, ग्राम मंगरोल - 382 225।
7524.	विष्णुप्रसाद सी० जोशी छोटालाल	बी० एस० ए० एम० गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3387 19-2-72	पारुखवास, अम्बाजीमठ केनजरीक, ग्राम एच० डा० एच० ता० खेरानु, जिला मेहसाणा।
7525.	विष्णुप्रसाद पंचोली बभ्रमकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4838 9-5-75	16, दत्त सोसाईटी, आनन्द नगर, भाटिया सरजोड रोड, अहमदाबाद।
7526.	विष्णुप्रसाद पुरोहित धीरजराज	आयुर्वेद मध्यमा आ० व० परीक्षा समिति, बड़ौदा 1979	8943 17-2-84	मार्फत हिल्स हॉस्पिटल, अम्बान मुनी, टेनामेष्ट, ब्लाक नं० सी० 1-8, "गायत्री कृपा", पटरवार रास्ता, ग्राम सुरत।
7527.	विष्णुप्रसाद राजल वलसुखराम	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1968	2852 21-10-69	मार्फत बोटीपाटा, ग्राम लोहरा, ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा।
7528.	विष्णु प्रसाद राजल नारायणभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8494 27-8-82	मोटवास, ग्राम व डा० राणासभा, ता० बीजापुर, जिला मेहसाणा।
7529.	विष्णुप्रसाद शाह हरीलाल	एल ए० एम०, यू० पी० आ० महाविद्यालय, बड़ौदा 1941	1236 30-7-41	कपाड बाजार, ग्राम डाकेर, जिला खेड़ा।
7530.	विष्णुप्रसाद ठकर बामोबर	डी० ए० एस० एफ०, फैक० आफ० आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1955	284 1-2-58	ससन रोड, ग्राम मोडारडा, बाया कृपाण। जिला जूनागढ़।
7531.	विष्णुप्रसाद वैद्य हरिहर	डी० ए० एस० एफ०, फैक० आफ० आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1954	1054 2-1-54	2/4218, काली माता स्ट्रीट, सगरमपुर, सुरत।
7532.	विष्णुप्रसाद यागनिक शिवशंकर	आयुर्वेद उत्समा, आ० व० परीक्षा, समिति, बड़ौदा 1968	6619 21-2-79	बालकृष्ण सोसाईटी, मनीमगर, जिला अहमदाबाद।
7533.	विष्णु राम त्रिवेदी जाटशंकर	डी० ए० एस० एफ०, फैक० आफ० आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1945	2187 1-8-45	मेडीकल आफिसर, ग्राम पालिवाड, बाया बोटाड, जिला भावनगर।
7534.	विष्णुशंकर पारुख लक्ष्मीशंकर	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7658 31-3-80	ग्राम अम्लेखर, ता० एच० जिला बड़ौदा
7535.	विष्णुनाथ ज्ञे उत्तमराम	आयुर्वेद विशारद, एम० एस० वि० वि०, 1941	2443 3-11-41	ग्राम मिया सरधान, ता० असोड, जिला बड़ौदा।
7536.	विश्वब्रह्म शर्मा बिरीश कुमार	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1979	8117 17-7-81	ग्राम एच० डा० एच० ता० भोबास, सिरिसकुटीर, जिला साबरकण्ठा।

1	2	3	4	5
7537.	विश्वाम्बर रावत मणीसकर	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आ० बिद्यापीठ, दिल्ली 1956	7619 18-3-80	ग्राम पनसिरा, बाया लिम्बाही, जिला सुरेन्द्रनगर ।
7538.	विश्वनाथ भट्ट नीतेमलाल	डी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	5126 15-1-76	जयवन्ती नरिसमवास बाही, ग्राम चंगरीज, जिला जूनागढ़ ।
7539.	विश्वनाथ बने पोपटलाल	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आ० बिद्यापीठ, दिल्ली 1947	8659 10-2-83	मैथानी भवन, राम चौक, गोकपाटा, जिला अमरेली ।
7540.	विश्वप्रकाश तिबारी गोपीकन्त	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आ० बिद्यापीठ, दिल्ली 1973	8654 28-2-79	टी-61, जे० रजने कालोनी, ग्राम मेहसाणा ।
7541.	विशवास कथम बडमण	एम० एफ० ए० एम०, फैक० आफ आ० यू० सि० मेडिसिन, बम्बई 1974	8885 27-12-83	ग्राम किला सीतलवाड़ा, जिला झरख ।
7542.	विश्वेश शुक्ल मधुसकर	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आ० बिद्यापीठ, दिल्ली 1975]	6855 2-4-79	शुक्ला सदन, 9, प्रहाद प्लाट, ग्राम राजकोट
7543.	वितनाशाल त्रिवेदी अम्बालाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5167 16-2-76	मार्फत अम्बालाल ज० त्रिवेदी, सत्यनारायण सोसाईटी, रामनगर, साबरमती ।
7544.	बिठल अकबरी । गोबरभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3462 30-3-72	मार्फत बिठलभाई पटेल, ग्राम बावसब, पो० आ० सुस्तानपुर, ता० जेटपुर, जिला राजकोट ।
7546.	बिठल देवान गणपतराव	डी० ए० एम० एस०, विश्वबी० आफ आ० यू० सि० मेडिसिन, महाराष्ट्र 1968	2761 19-6-69	ग्राम दोरवाडा, ता० जयलपुर, जिला अमरावती महाराष्ट्र स्टेट ।
7546.	बिठल मनसुरिया बाबब	बी० ए० एम० एस०, कनपुर वि० वि०, 1972	4604 8-1-75	पिट्टालिया कुवा रोड, ग्राम बासबन, जिला राजकोट ।
7547.	बिठल पटेल कल्याणजी	पी० एफ० ए० एम०, फैक० आफ आ० यू० सि० मेडिसिन, गुजरात 1962	640 25-7-62	पारसिवाड, ग्राम महुका, बाया भावसारी, जिला झरख ।
7548.	बिठलभाई भुवा, नाथरामभाई,	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5301 29-3-76	ग्राम, श्रीगण गढ़, बाया गोडाल, जिला जिला राजकोट ।
7549.	बिठलभाई बाबसभिया महुरभाई]	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०] 1970	3092 13-1-71	ग्राम सेठान, बाया राजप्रीतापुर, जिला सुरेन्द्रनगर ।
7550.	बिठलभाई पटेल, पुरुषोत्तमभाई	ए० बी० बी०, सि० स० बिद्यापीठ, पूना, 1943	638 31-3-44	ग्राम रास, ता० बोर्साद, जिला खेड़ा ।
7551.	बिठलभाई पटेल, जगन्नाभाई]	डी० एस० ए० एम०, क० यू० आ० कोर्स, गुजरात 1965	1720 15-6-65	ग्राम बावेद, ता० आनन्द, जिला कैरप ।
7552.	बिठलभाई पटेल, सोमभाई,	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1969	3074 5-12-70	नजदीक बोरसार, ग्राम चौकर, ता० बीकानपुर जिला मेहसाणा ।
7553.	बिठलभाई फट्टे, जोदुभाई,	एच० बी० ए०, बी० बी० ट्रेनिंग सेंटर, जे० आ० कामनगर, 1967	3490 19-4-72	ग्राम, भोपा, ता० पावर, जिला बड़ोदा ।

1	2	3	4	5
7554.	विट्ठलभाई पटेल जावेरभाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3822 26-2-73	आदर्श सोसाईटी, ब्लॉक नं० 6, ग्राम हुलोल, जिला पंचमहुल।
7555.	विट्ठलभाई पटेल शंकरलाल	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	4000 10-8-73	वाचलीपटी आरावी, ग्राम भन्नु, ता० विसनगर, जिला मेहसाना।
7556.	विट्ठलभाई पटेल भुवरभाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5259 8-3-76	ग्राम रूपल, नारीपुर, पो० बुद्धा, पलावी, ता० एवं जिला मेहसाना।
7557.	विट्ठलभाई पटेल धेमभाई	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1983	9069 15-6-84	मार्फत पटेल बैयाभाई एम०, तालुक सार्डि फार्म, पालज रोड, ग्राम पेटलाव, जिला कोटा-50।
7558.	विट्ठलभाई पटेल कर्णभाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7900 14-11-80	ग्राम एवं पो० दोकु, तह० प्राणतिज, जिला साबरकंठा।
7559.	विट्ठलभाई पाटिल सुमस्तुभाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	5883 23-8-77	मार्फत मयन मेडीकल एजेंसी, राजरतन बम्बेस, वागगरबाव, सूरत।
7560.	विट्ठलभाई वैद्य धीरजलाल	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	4010 24-9-73	ग्राम काधा, तह० विसनगर, जिला मेहसाना
7561.	विट्ठलभाई बनीमावला आत्माराम	डी० ए० ए० एफ०, फैक० आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1964	1009 1-7-54	रंग उपवन के सामने, नानपुर, सूरत।
7562.	विट्ठलभाई आघेरा हंसराज	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1966	2354 3-1-66	पारेख बाया कर्णसिंहजी नैन रोड, राजकोट।
7563.	विट्ठलबास हरिहर भोवनीदास	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1982	8857 6-10-83	ग्राम बपो० मित्याज, बाया एवं ता० कोवीनार, जिला अमरेली।
7564.	विट्ठलबास करवाविया आनन्धभाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1968	2759 8-4-69	मार्फत पतीवार, कलाथ स्टोर, ग्राम जान जोधपुर, जिला जामनगर।
7565.	विट्ठलबास पटेल मावजीभाई	डी० ए० ए० एम०, फैक० आफ आ० यू० सि० मेडीसिन, बम्बई 1956	639 2-1-57	ग्राम जान तिम्ली, तह० जामकाण्डोबमा, बाया मयसरवार, जिला राजकोट।
7566.	विट्ठलबास उकानी भगवानजी भाई	वैद्याचार्य, नि० भा० अ० विद्यापीठ, विल्सी 1967	6966 4-5-79	बस्सल, 15-ए, पनेहवती सोसाईटी, कालबाव रोड, ग्राम राजकोट।
7567.	विट्ठलकुमार व्यास धाम्मलीबास	बी० ए० एम० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1966	2553 21-7-67	व्यास बाडा, बड़ीवा, अहमदाबाद।
7568.	विट्ठलबास वैद्य छगनलाल	डी० ए० ए० सी०, क० यू० आ० कोर्स, गुजरात 1966	2489 15-5-67	ग्राम हृषमतिवा, बाया अर्सेल, बावी, ता० : तालासा, जिला जूनागढ़।

1	2	3	4	5
7569.	विट्ठल प्रसाध त्रिवेदी उमीयाशंकर	आयुर्वेद विद्यालय, एम० एस० वि० वि०, 1943	1997 18-10-41	नगरवाडा, प्रतिन यासरा, जिला खेडा ।
7570.	मोलजी कोर्वीया मदनजी	डी० एस० ए० सी०, क० यू० आ० कोर्से, गुजरात 1966	2045 9-6-66	ग्राम रांकी, पो० आ० बोल्वा, नाया मानवदार, जिला जूनागढ़ ।
7571.	मोवीनबभाई पटेल द्वारकावास	बी० ए० एम० एस०, गुजरात आ० वि० वि०, 1985	9652 31-12-86	ग्राम ब पोस्ट लोडरा, नावीपुर, तह० । बीजापुर, जिला मेहसाना ।
7572.	वरजेशचन्द्र वीरजित धनुनावल्लभजी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1982	8811 29-7-83	अब० आयु० अस्पताल, धरो, अमववावाच-1
7573.	वरजेशकुमार त्रिपाठी द्वैयालाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1982	8994 28-3-84	बाचाली मेरी, ग्राम पन्डोली, तह० पेठलाड, जिला खेडा ।
7574.	ब्रजलाल पटेल त्रिभुवनदास	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	3949 17-5-73	ग्राम सेटरोज, ता० बिरमगाम, जिला अहमदाबाद ।
7575.	ब्रजलाल पोपट जमनादास	जी० एफ० ए० एम०, फैक० आ० आफ यू० सि० मेडीसिन, गुजरात 1964	1586 19-1-65	मार्फत जमानावास, कनजी, ग्राम कुवाल, तह० बन्धाली ।
7576.	ब्रजलाल रूपवतीया पंचभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1975	5278 12-3-76	ग्राम मोती घानसरी, नाया कसोड, जिला जूनागढ़ ।
7577.	ब्रजलाल सुबाग नायाजीभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	6189 5-7-78	मोही बाजार, ग्राम ब त० महुवा, जिला भावनगढ़ ।
7578.	ब्रजलाल बालाजी स्ताभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1974	4985 17-10-75	ग्राम नबी संकाडी, नाया जेटखवार, जल०, जिला राजकोट
7579.	ब्रजलाल त्रिवेदी ब्रजलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1981	8237 9-12-81	ग्राम] ब ड० रामेदारा, नाया एषं तह०, मालो, जिला पंचमहल ।
7580.	बृजवान गोन्डालिया बाबूभाई	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7549 22-2-80	ग्राम पाकसाबा, ता० एषं जिला जूनागढ़ ।
7581.	बृजकिशोर शर्मा सूरजपाल	आयुर्वेद मध्यमा आ० व० परीक्षा समिति, बड़ीदा 1978	6623 21-2-79	55, राज्यपुर मिल हाउस, सोसाईटी, बिकरम मिल के पोछे, गरासपुर, अहमदाबाद ।
7582.	बृजलाल कुम्भनी छगनलाल	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1971	3684 18-11-72	ग्राम बावल, तह० एषं जिला जूनागढ़
7583.	बृजलाल मवानी मोविन्दजी	बी० एस० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1978	7665 10-4-80	79, बुस्लगर, बरबु रोड, ग्राम सूस्त-3

1	2	3	4	5
7584.	बृजलाल मेहता मोहनलाल	भायुर्वेद उत्तमा, भा० अ० परीक्षा, सविस्ति, बड़ौचा 1975	7131 19-7-79	कलुभा, रोड, उपनगर, प्लाट नं० 6, ग्राम भावनगर ।
7585.	बृजीलाल मोसिया मनालजी	बैद्यविहारद, नि० भा० आ० बिद्यापीठ, दिल्ली 1972	6628 21-2-79	ग्राम सेलमा, तह० केमोर, जिला जूनागढ़ ।
7586.	बृजलाल पटेल मुवनभाई	बैद्य विहारद, नि० भा० अ० बिद्यापीठ दिल्ली 1970	7708 2-5-80	बिम्बु, नन्दिनीकोर, सोसाईटी, प्लाट, नं० 24, भक्तिनगर गली के पीछे, ग्राम रावकोट ।
7587.	बृजलाल सावसानी रत्नभाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि० 1980	8175 22-9-81	ग्राम, नामविया, तह० सासना नमवीया, बाया कस्तबा, जिला जूनागढ़ ।
7588.	बृजलाल मोसिया भीमजी	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1989	2962 3-6-70	ग्राम, चिम्पवार, भा० पतराय, बाबा केवड, जिला जूनागढ़ ।
7589.	बृजलाल काबेला विट्ठलजी	वेद्याचार्य, नि० भा० आ० बिद्यापीठ दिल्ली 1969	6961 4-5-79	ग्राम, कोयाली, ता० कन्हासी, जिला जूनागढ़ ।
7590.	बृजलाल शाह छोतलाल	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1972	4071 1-10-73	जगमल पोल, भादिपेडकाई, बैक रोड, ग्राम बड़ौचा ।
7591.	बयोवेशचन्द्र ओजा प्रमोदराय	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1976	5893 20-9-77	10, बनब्याम, बाग सोसाईटी, कस्तमनगर, बनीनगर, अहमदाबाद ।
7592.	बयोवेशचन्द्र शिपाठी हीरालाल	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1980	8321 10-2-82	बाबासी, तोरी, ग्राम, पन्डोली, ता०, केडसा, जिला खेडा ।
7593.	एकतमा मोदी मोहनलाल	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आ० वि० वि०, 1973	4165 23-1-74	मार्फत आर० सी० पंचाल, 285 न्यू बाब, अमोक्पुरा, दुसेनगर, रोड, अहमदाबाद ।
7594.	यगन जोशी महेशचन्द्र	बी० ए० एम० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9586 7-10-86	9/866, सिद्धमाता शरी, बाड़ी, फालिया । ग्राम-सूरत ।
7595.	योगेश कुमार कनुगा,	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4983 17-10-75	36, महालक्ष्मी सोसाईटी, पालकी, अहमदाबाद ।
7596.	यगना प्रसाद उपाध्याय गुणबन्धराय	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5118 8-1-76	मार्फत बैक जयन्तीलाल मुक्ता, बाबू- पोल, ग्राम-वाघना सिटी, जिला-सुरेन्द्र- नगर ।
7597.	यशनेश कुमार ग्याम प्रेम लाल	बी० ए० ए० एम० एम० बी० (आयु०), गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6025 16-3-78	देसाईबागे, माटीबासी, ग्राम-बाधिया, जिला-खेडा ।
7598.	यादविया मुल्ता	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8533 14-9-82	मनीमा स्ट्रीट, पटेल चौक, कन्हासी, जिला जूनागढ़ ।
7599.	याजिनी बेन भारती कानजी बाई	बी० ए० ए० एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3677 2-11-72	ग्राम-व्यार, जिला-सूरत ।

1	2	3	4	5
7600.	यमुना मेहता मगनलाल	जी०एफ०ए०एम०, कै० आफ् भा० एण्ड् यू० सि० आफ् मेडीसन, गुजरात 1961	919 20-10-62	यमुना निवास, हनुमान पोल, नालान्द, ग्राम-सूरत ।
7601.	यमुनावल्लभाह् दीक्षित विठ्ठल राम	एम०एम०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1968	2959 29-5-70	मार्केत रामप्रसाद जे० पुरुबीत, नजदीक राजहमा सोसाईटी, अहमदाबाद ।
7602.	यसवन्त पारिख ठाकुरलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	5977 28-11-77	पटेल फालिया ग्राम और पो० आ०-जवेस्वर, जिला-बरोच ।
7603.	यसवन्त उभाषयाम जनरनाथ	बी०ए०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9223 19-2-85	विजय टाफिज, स्टेशन रोड, ग्राम-बड़ोच जिला-पंचमहल ।
7604.	यसवन्त वर्मा अम्बोलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	8464 3-8-82	वर्मा मेडीकल स्टोर, नजदीक चावी भण्डार गांधी रोड ग्राम-बलसाद ।
7605.	यसवन्त कुमार सोनी मटबरलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7364 29-10-79	न्यू संसीपाक, को० एा० हाउस० सोसाईटी नजदीक कौमल्या माता मन्दिर, कौजराब, नजदीक कृषि प्रबन्ध आफिस, अहमदाबाद
7606.	यसवन्तराय भट्ट मन्मथलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3685 25-10-72	ग्राम-मोटा छाववा, वामा वलपुर, जिला- जामनगर ।
7607.	यसवन्तराय रावल रमणिकलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3129 17-2-71	मार्केत भार० आर० रावल, रावल शेरी, ग्राम-गाधवा, जिला-जामनगर ।
7608.	यसवन्तराय मेहता हरीलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3535 1-8-72	विष्णु निवास, स्टेशन रोड, ग्राम-चौरवाड जिला-जुनागढ़ ।
7609.	यसवन्तराय शिबेरी मूल शंकर	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970]	3429 9-3-72	राजकमल स्टुडियो, ग्राम-बरोच, लखुमार्ही, काकला ।
7610.	यसवन्तसिंह ठाकर भगवतसिंह	जी०एफ०ए०एम०, कै० आफ् भा० एण्ड् यू० सि० आफ् मेडीसन, गुजरात] [1962	288 20-8-82	तुलजा भवन, स्टेशन रोड, मास्येड ।
7611.	यशवीर भट्ट रमेशचन्द्र]	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975]	6177 6-6-78	15500 / 1 जोशी छांवा, मन्मथक पोल, तेलपुर, अहमदाबाद ।
7612.	यशोदा लक्ष्मी चौहान दीनतसिंह]	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975]	6006 10-1-78	बाड़ी नाबपुरा, बाजला, फालिया, ग्राम बड़ोदा ।
7613.	यशोदर सुक्ल] नन्कालाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980]	8712 16-3-83	धन्वन्तरि भवन, ग्राम-नेहसाना ।
7614.	यशवन्त भोरिवानी] भवस्कीन मारी]	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, [1978]	7767 17-7-80	ग्राम-वडाम-जाठरावाल, ता० और जिला- जामनगर ।
7615.	यशुदह भारी नीर केशमा अहमद	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8493 27-8-82	नाला भगोल, मीरजाड, ग्राम और पो० आ० नालान्द, जिला-अहमदाबाद ।

1	2	3	4	5
7616.	यातिन कुमार वैद्य बीणूभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि० 1982	8612 28-12-82	वैद्य किल्ला, सदर बाजार, चंदा शेरी, सामने नाबा पुल, ग्राम-राजकोट ।
7617.	योगेश गोहिल पोपटलाल	आयुर्वेद मध्यमा, श्रावणमास वक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1978	6790 21-3-79	मार्फत एम० यू० बहापुर, कापसी कुटीर, सामने प्रताप फीलाद, ग्राम-जामनगर ।
7618.	योगेश मंजरवाला रमेशचन्द्र	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8973 12-3-84	7-78, मोटा फालिया, ग्राम-रन्दर, ता० चौरवासी, जिला-सुरत-395005 ।
7619.	यशवन्तगिरी गोस्वामी रामगिरी	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1958	7107 13-7-79	कादीयाबाद, द्वारका मन्दिर, ग्राम-जाम- नगर ।
7620.	यशवन्तकुमार पटेल शिवाभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6292 20-9-78	21, सरदार सोसाइटी, पीछे पुलिस ग्राउन्ड सुरेन्द्रनगर ।
7621.	योगेश कुमार गौड़ देव शंकर	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6086 21-3-78	उपाध्याय खावकी, नजदीक लक्ष्मी नारायण मन्दिर, ग्राम और पो० आ० और ता०- भिलोवा, जिला-साबरकंधा ।
7622.	योगेश कुमार जोशी प्रमोदराय	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	4855 22-5-75	गुज्जर पोल, ग्राम-प्राणतीज, जिला- साबरकंधा ।
7623.	योगेश कुमार पारिख रसिकलाल	जी०एफ०ए०एम०, फै० आफ आयु० एण्ड यू० सि० आफ मेडीसिन, बम्बई 1959	689 2-9-59	1023, टोकाससा पोल, राईबाव, अहमदा- बाद ।
7624.	योगेश प्रसाद दवे रसिकलाल	आयुर्वेद भिषक, नि० भा० आयु० विद्यापीठ, दिल्ली 1978	8082 7-5-81	ग्राम-कैवाल, पो० आ०-बंगरवा (वासी) ता०-कादी, जिला-तेहसाना ।
7625.	योगेश सिंह आठोवारिया हामिरबाया	बी०ए०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि० 1984	9380 23-9-85	ग्राम और पो० आ०-बसावा-396580, ता०-वासन्वा, जिला-बलसाव ।
7626.	योगेश सिंह जडेजा नामसनाई	आयुर्वेद मध्यमा, श्रावणमास वक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौदा 1977	6516 1-2-79	ग्राम-कुस्तासी, ता०-मलियामियाना, बाया मोरबी, जिला-राजकोट ।
7627.	योगेश गुज्जर जसवन्त लाल	बी०ए०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	9154 1-10-84	48, श्रीयश नगर सोसाइटी, सामने जामियालालक, ग्राम-वैद्यामगर, बाया आमन्द, जिला-खेड़ा ।
7628.	योगेश जोशी चन्द्रकांत भाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1982	8507 27-8-82	838, 4, वास, तारनपुरा, ग्राम- अहमदाबाद ।
7629.	योगेश चन्द्र भगन रमेशभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1979	8064 27-4-81	ग्राम और पो० आ०-कोसिन्दा, ता०- संजोवा, जिला-बड़ौदा ।
7630.	योगेशचन्द्र बारोट शानभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	3021 6-8-70	मुस्तापुरा गोलवाव, कुवाफालिया, बड़ौदा ।

1	2	3	4	5
7631.	योगेशचन्द्र पांड्या शंकरलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8672 16-2-83	86-ए, अम्बिकानगर सोसाईटी, नं० 2, हाईवे रोड, ग्राम-कालो, जिला-मेहसाना ।
7632.	योगेशचन्द्र शाह रमनलाल	आयुर्वेद मध्यमा, श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा समिति, बड़ौचा 1977	6808 22-3-79	ग्राम-राम, ता०-पावरा, जिला-बड़ौचा ।
7633.	योगेशचन्द्र ठक्कर हरेश्वरलाल	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1983	8999 28-3-84	कलाथ मार्किट, ग्राम और पो० आ०-बाब नगर, ता०-खेरालू, जिला-मेहसाना ।
7634.	योगेशचन्द्र वीर अम्बक प्रसाद	डी०एस०ए०सी०, कमेटी फार बुद्ध आयु० कोर्स, गुजरात 1963	1385 2-1-64	हरेश्वर रोड, ग्राम और पो० आ०-ना०- सिमोर, जिला-बड़ौचा ।
7635.	योगेश कुमार धने अनूपलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7314 20-9-79	ग्राम और पो० आ०-कनसुभा, ता०-पाप- पुर बाया खंजिला-जामनगर ।
7636.	योगेश कुमार ओशी अम्बालाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6596 16-2-79	शक्ति भवन, सामने हाई स्कूल, ग्राम- जिला-पंचमहल ।
7637.	योगेश कुमार पटेल यास्तीलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8323 10-2-82	श्री रामबिला-1, पारेशनगर नाभीया- बाव रोड, बाड़ी, बड़ौचा-17 ।
7638.	योगेश कुमार शर्मा भंगुभाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7491 17-1-80	2172, राधां बल्लभ मन्दिर, पंडितजी कोल, सारा नागपुर, अहमदाबाद ।
7639.	योगेश कुमार शाह कास्तीलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1972	4082 8-10-73	बरबार, ग्राम-बावनगर, ता०-खेरालू, जिला- मेहसाना ।
7640.	योगेश कुमार शाह कास्तीलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4331 15-4-74	ग्राम-वासरा, जिला-खेड़ा ।
7641.	योगेश कुमार सुपल कनकराय	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1981	8403 5-4-82	जाउट ताड़ड कुंघारोज, फाटक, बर्मान कालोमी रोड, ता०-बघावन, जिला- सुरेन्द्र नगर ।
7642.	योगेश कुमार टंक नरेशलाल	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9563 18-8-86	रुपम टाकिज रोड, धीबपारा, ग्राम और जिला-अमरेली ।
7643.	योगेश कुमार बिषेयी, धर्मेश राय	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8816 11-8-83	26 43, प्रह्लाद प्लाट, ग्राम-राजकोट- 360001 ।
7644.	योगेश कुमार व्यास महेश्वर भाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8399 5-4-82	श्री रासाश्रम कार्या, लाहौरतारिम, नहा- देव बाड़ी, गोन्डाल, जिला-राजकोट ।
7645.	योगिनी धने सुभाष	बी०एस०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5740 25-3-77	मार्केट एस० जी० धने, राम निवास, नज- दीक महादेव मणिलगर, अहमदाबाद ।

1	2	3	4	5
7646.	योगिनी देसाई जननम्ब	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	5393 13-5-76	1269, बाजा मेहता पीठ, कानजीत दिवाल कांचा, कापुपुर, अहमदाबाद ।
7647.	योगिनी देसाई रमेशचन्द्र	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1974	5985 30-11-77	बनलक्ष्मी सोसाईटी विभाग-2, 25, परीक्षाराम, करेली बाग, ग्राम-बड़ौदा ।
7648.	योगिनी मारु मोहनलाल	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1984	9280 9-4-85	मार्फत डॉ० कान्ताबेन मारु, कायिया कुवा, बड़वा, धामनगर ।
7649.	योगिनी नाइक ईश्वरलाल	बी०एस०एम०एस०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1985	9638 5-12-86	8, मेघनूत कालोपी, नरसरी रोड, महादेव नगर, ग्राम-बिस्लीमोरा, ता०-मणदेवी जिला-बलसाड ।
7650.	योगिनी सेमी धिमनलाल	आयुर्वेद मध्यमा, आयुर्वेद पत्रिका परीक्षा मण्डल, बड़ौदा 1977	7278 15-9-78	ग्राम-नामेश्वरा, ता०-हणोल, जिला पंचमहल ।
7651.	योगिनी साह हीरालाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6940 25-4-79	ग्राम-बाटलवाड़ा, स्टेशन संजान, जिला बलसाड ।
7652.	योगिनी उपाध्याय बिहारीलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1980	8480 3-8-82	9 1168, लाजापी रोड, सुरत ।
7653.	योगिनी आवेरी केसवलाल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1973	4505 17-9-74	गायोड़ी क्षेत्री, सेटावाड, ग्राम-ग्रामनगर
7654.	योगिनीबेन पटेल मवीनचन्द्र	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	7552 28-2-80	मार्फत धीरजलाल बी० पटेल, बिट्टल कन्या विद्यालय, ग्राम-नाथियाड, जिला बेदा ।
7655.	योगबाग कुमार लिबेदी इन्द्रवदन	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	6751 15-3-79	नजदीक होली चाकला, मेहता पीठ, ग्राम-बड़ौदा ।
7656.	युनुस दामर मोहम्मद	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1976	6980 17-10-77	बडाड़ा काली, ग्राम-बंवाली, जिला- जुनागढ़ ।
7657.	जाहिर हुसैन कुबारी सखवन्तसेन	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1977	7839 9-10-80	ग्राम-फिकार, बायो सार्व कुन्डाला, जिला-धावनगर ।
7658.	बाहिरुद्दीन कनुंगा इस्मैतुल्लाह	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1969	2940 4-4-70	मार्फत डा० आई० धार० कनुंगा, ग्राम-किम ता०-ओपलाप, जिला-सुरत
7659.	बाहिरुद्दीन अमीनभाई	बी०एस०ए०सी०, कमेटी फार कुच आयु० बोर्ड, गुजरात 1968	2076 27-8-86	ग्राम और पो० आ०-अजरपुरा, ता०- आनम्ब, जिला-बेदा ।
7660.	बाबुर अहमद इस्माइल	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1978	5973 2-9-77	ग्राम-गांधी बाजार, ग्राम-नहरंग, जिला-बरीच ।
7661.	जाहिरभाई पटेल जैरंगभाई	एल०ए०एम०, डू० पी० आयु० महावि०, वाटन (बड़ौदा स्टेट) 1993	545 25-1-40	ग्राम-मिया सरमान, ता०-बाकोक, जिला-बरीच ।

1	2	3	4	5
7662.	जिनाबाई अमरेलिया पोपटबाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1970	3186 21-4-81	ग्राम और पो० आ०-मोस्का, वाया अको-सबाबी ता० तलाला, जिला-भुतागढ़
7663.	जिनाबाई बीराह नाठाबाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3332 7-2-72	ग्राम-नाथापुर, पो० आ०-मोस्कारम्हा वाया तुमासा, जिला-भुतागढ़ ।
7664.	जिनाबाल बेनी परपोलम बाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1975	9469 11-2-66	65 वल्लभ नगर सोसाईटी, बरछारोड, ग्राम-सूरत-6
7665.	जिनाबाई थकानी रामजीबाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3606 16-9-72	ग्राम-बीना, वाया त्रयाम, ता०-तालज, जिला-मावनगर ।
7666.	जिनाबाल बीहान बीरजीबाई	बी०एस०ए०एम०, गुजरात आयु० वि० वि०, 1971	3350 17-8-72	ग्राम-करियाचक, ता० और जिला-अमरेली ।

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका

गुजरात

भाग-2-मुनामी

1 9 8 6

क्रम सं०	नाम और पिता का नाम	अर्हता/प्रमाण संख्या एवं वर्ष	पंजीयन संख्या एवं तिथि पता	
1.	अब्दुल क़यूम मारेवथा मधुबकर	बी० यू० एम०, वाकल उलूम, दयोबन्द 1977	8389 24-3-82	ग्राम और पो० आ० भावल (अगावा) ता० पालनपुर, जिला-अनासकरम्हा
2.	अब्दुल राब मास्टर हुसैन	कामिल ए-तिम्ब-ओ जयहल आ० एफ़ यू० वि० कासैज, दिल्ली 1929	1559 7-6-41	बादोबी मोहल्ला, जिला बलसाद ।
3.	अब्दुल रहीम मुन्तजार अब्दुल करीम	कामिल-ए-तिम्ब-ओ-खराहल आर० एफ़ यू० वि० कासैज, दिल्ली 1929	1558 3-11-41	अम्बाबाड़ी, देवमचक, सातपटपुरा, सूरत-2
4.	अहमद-फ़ाकि-अब्दुल अजीज	बी० यू० एम० एल० मुस्लिम वि० वि०, असीगढ़ 1977	8899 26-1-84	मार्फत अमीन पान हाउस, नरोत्तम महाजमिन्स, राधियाल रोड, अहमदाबाद-23
5.	अहमद बाहुजिम काकू	बी० यू० टी० एल० मुस्लिम वि० वि०, असीगढ़ 1950	1626 26-3-65	ग्राम और पो० आ०-बासा, ता०-कामरेज वाया किम, जिला, सूरत-394155

1	2	3	4	5
6.	भानुराय बाह खोलीवाल	डी० आई० एम० एस० बोर्ड आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन दिल्ली 1961	2957 7-5-70	मीनिवास, नववीक सिटीज बाग, ग्राम-राजकोट ।
7.	दाबुब इस्माइल	बी० यू० एम० एस० मुस्लिम वि० वि० अलीगढ़ । 1971	3521 26-6-72	ग्राम-बारोव ता० अकलेबर, जिला बरीच ।
8.	फारूक पारसी इब्राहिम	डी० यू० एम० बारूक-उलूम, देवोबन्द 1979	8485 23-8-82	ग्राम और पो० आ० शितपोन, गावा-अलीपुर, ता० और जिला-बरीच ।
9.	गुलामनबी शेख हकीम इस्माइल	बी० यू० टी० एस० मुस्लिम वि० वि० अलीगढ़ 1950	1681 18-5-65	ग्राम-बाघल, ता० अकलेबर, जिला-बरीच ।
10.	गुलामहसन शेख फतेह अहमद	कामिल-ए-तिब्ब-ओ अरास्त आ० एण्ड यू० सि० कालेज, दिल्ली 1949	1575 31-12-49	फानव भगोल, मोटा शकबाबा, ग्राम-महुवा, ता० बाधियाड, जिला-खेड़ा ।
11.	हसन अब्बास मुसुक	डी० यू० एम० बारूक-उलूम देवोबन्द 1975	8952 17-2-84	नजदीक पो० आ०, ग्राम और पो० आ०--मावी, ता० अम्बुसार, जिला-बरीच ।
12.	हकीम अहमद आवम	डी० यू० एम० बारूक-उलूम देवोबन्द 1967	8796 5-7-83	हकीम रोड ग्राम और पो० आ०, देवला, ता०-- अम्बुसार, जिला-बरीच ।
13.	हकीम गुलाम हुसैन अहमद	डी० यू० एम० बारूक-उलूम, देवोबन्द 1977	8883 12-12-83	ग्राम और पो० आ०-गोवावड़ी, ता०-मन्दावी, जिला-सूरत ।
14.	हकीम मोहम्मद उमर मोहम्मद सिदिक	डी० यू० एम० एस० महाराष्ट्र पी० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1977	7709 2-5-80	12/6110, रामी तामब, सूरत-3 ।
15.	हकीम मुहम्मद कुरेसी उस्मान मोहम्मद इब्राहिम	डी० यू० एम० बारूक उलूम, देवोबन्द 1980	8711 16-3-83	ग्राम और पो० आ०--मन्दावारी, ता० कावी जिला-मेहसाणा, राजस सूट ।
16.	हकीम सादिरभाई अलीहुसैन	बी० यू० एम० एस०, मुस्लिम वि० वि० अलीगढ़ 1957	1986 25-3-86	637, जमालपुर, बहोरबाद, नजदीक गामकवाड़ हुवेल, अहमदाबाद-7 ।
17.	हकीमुल्लाह पेटीवाला मोहम्मद मियां	बी० यू० एम० एस०, मुस्लिम वि० वि० अलीगढ़ 1977	9087 29-6-84	2072 मावी महसोद, पंचकुवा, अहमदाबाद-1 ।
18.	हुसैन खालिद हकीम मजहर हुसैन	डी० यू० एस० एफ०, पी० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ०, मेडिसिन, बम्बई, 1951	1582 1-12-51	हकीम मजिल, काजी मकन, सूरत-2 ।
19.	इब्राहिम हुसैनोद मुसाजी	डी० यू० एम०, बारूक उलूम, देवोबन्द 1971	8275 16-1-82	ग्राम और पो० आ०--मावी मारोली, ता० मंगरोल, जिला-सूरत ।
20.	इब्राहिम मोहम्मद	डी० यू० एम०, बारूक उलूम, देवोबन्द, 1977	8315 10-2-82	ग्राम अन्बाबा, नुजरबा, ता० अकलेबर, जिला-- बरीच ।

1	2	3	4	5
21.	इल्पास मोहम्मद मुसुफ	डी० यू० एम०, दाऊद, उलूम, देयोबन्द 1983	8880 12-12-83	तबबाठ खासकी, ग्राम और पो० आ०—देवाला, ता०—जम्बुसार, जिला—बरीध ।
22.	काबर फारुकी अहमद	एफ० एम० बी० एस०, नोर्द आफ इन्डियन मेडिसिन, लखनऊ 1965	2565 6-10-65	भोजाभाई लुसारी, बाल, शोमली पुर, अहमदाबाद- 2 ।
23.	मोहम्मद अकबर सैयद करनताली	बी० यू० एम० एस०, मुस्लिम वि० वि०, अलीगढ़ 1955	9 5-12-64	2011, खानपुर, सैयाबवाघ, अहमदाबाद ।
24.	मोहम्मद मेहुता इस्माइल	बी० यू० टी० एस०, मुस्लिम वि० वि०, अलीगढ़ 1948	1617 5-3-65	फोसामाही, ता० अकलेश्वर, जिला—बरोच ।
25.	मोहम्मद शौबख अहमद मोहम्मद मुसुफ	डी० यू० एम०, दाऊद उलूम, देयोबन्द, 1977	8249 24-12-81	भार्फत मौलवी मोहम्मद मुसुफ स्टेशन रोड, पीछे मस्जिद, ग्राम-मालमपुर, जिला बनासकांठा ।
26.	मोहम्मद वाम माखिया सुलेमान	डी० यू० एम०, दाऊद उलूम, देयोबन्द 1964	8333 17-2-83	ग्राम और पो० आ०—मजवार, ता०—बड़नाम, जिला—बनासकांठा ।
27.	मोहम्मद दरिस पटेल मोहम्मद इस्माइल मुसुफ	डी० यू० एम०, दाऊद उलूम, देयोबन्द 1982	8696 3-3-83	जामिया खासकी, ग्राम और पो० आ०—देवाला, ता०—जम्बुसार, जिला—बरीध ।
28.	मोहम्मद युसुफ पटेल मोहम्मदामिया	एफ० एम० बी० एस०, बी० आफ इन्डियन मेडिसिन, लखनऊ 1958	1895 16-12-65	ग्राम और पो० आ०—बासमा, बाया मारोली, ता०—दवसारी, जिला बलसाह ।
29.	मोहम्मद अफ्ती अशमी मोहम्मद हकीम	फजिल-ए-सिद्दिक-ओ-अराहूत आ० एण्ड यू० सि० कालेज, दिल्ली 1939	1561 24-4-41	ग्राम अरियाव, ता० बीरवासी, जिला—सुरत ।
30.	मोईनदीन फारुकी मोहम्मद याकूब	बी० यू० एम० एस०, मुस्लिम वि० वि०, अलीगढ़ 1978	8926 8-2-84	करीम चन्वारी बाल, सामने हरिजन क्वार्टर, शोमली पुर, अहमदाबाद-21 ।
31.	मौलवी भाई जामल अहमद हुसेन मोहम्मद	डी० यू० एम०, दाऊद उलूम, देयोबन्द 1981	8272 31-12-81	मिक्खाला, मोहल्ला जूना कासेबाड़ा, गोधवा, जिला पंचमहल ।
32.	साधिर हुसैन कासमी मोहम्मद युसुफ	डी० यू० एस० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1952	1563 18-2-82	सैय्यबाड़ा, सुरत ।
33.	साहिर बन्धु भाई सलौह भाई	डी० यू० एस० एफ०, फै० आफ आ० एण्ड यू० सि० आफ मेडिसिन, बम्बई 1946	1565 29-6-46	अधोपीपुर, होरवाह, ग्राम—सुरत ।
34.	युसुफ देसाई अहमद	बी० यू० टी० एम०, मुस्लिम वि० वि०, अलीगढ़ 1950	1856 29-10-65	ग्राम-तड़केवर, धाया किम, जिला—सुरत ।
35.	बिद्योदीन मोहम्मद	बी० यू० एम० एस०, मुस्लिम वि० वि०, अलीगढ़ 1969	5592 5-11-76	कालुपुर, टालर, कवासिया पोख, अहमदाबाद ।

STATE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
Bombay, the 18th May 1993
NOTICE

In terms of Section 29 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India, after consulting the Board of Directors of the State Bank of Hyderabad and with the approval of the Reserve Bank of India, have appointed Shri S. M. Parande as Managing Director of State Bank of Hyderabad as from the 1st June 1993 to 31st May 1995 (both days inclusive).

Sd/- ILLEGIBLE
Chairman

(hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I. B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

MINISTRY OF LABOUR

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND
COMMISSIONER

New Delhi-110001, the 2nd May 1993

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1977.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Gujarat from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	CPFC's File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Ankur Textiles (A Division of the Arvind Mills Ltd.) Outside Raipur Gate, Ahmedabad-380022	GJ/265	1-6-91 3-15-94	2/4298/92/DLI
2.	M/s. Ruby Coach Builders Ltd., Unit 2, GIDC, Phase-IV Naroda Industrial Estate P. O. Naroda Distt. Ahmedabad-382330	GJ/1881	1-7-89 30-6-92	2/4251/92/DLI
3.	M/s. Neoplast Engineering Pvt. Ltd., 43, GIDC Estate, Vincol Vatva, Distt. Ahmedabad-382445.	GJ/2556	1-8-89 31-7-92	2/4252/92/DLI
4.	M/s. ASAG, Dalal Building B/H, Capri Hotel, Relief Roe, Ahmedabad.	GJ/3104	1-7-91 30-6-94	2/4699/92/DLI
5.	M/s. Neoroo Textile, Parmer Wadi, Chikhli, Distt. Valsad.	GJ/4342	1-3-90 28-2-93	2/4300/92/DLI
6.	M/s. Rolcom Engg. Co. Pvt. Ltd., Anand Sojitra Road, Vallabh Vidyanagar-388120	GJ/6135	1-6-89 31-5-92	2/4301/92/DLI
7.	M/s. Gujarat Steel Industries, Manekbhai, Tata Road, Bilimora-396321.	GJ/6248	1-1-89 31-12-91	2/4248/92/DLI
8.	M/s. Amreli Jilla Sahakari Kharid Vechan Sangh Ltd., Sahakar Bhawan, Station Road, Amreli-364001	GJ/6773	1-6-89 31-5-92	2/4302/92/DLI
9.	M/s. Power Build. Ltd., P. B. No. 28, Vithal Valyognagar 388121, Vallabh Vidyanagar, Gujarat State.	GJ/6924	1-3-89 29-2-92	2/4303/92/DLI
10.	M/s. Twistotex Engineers, Nagarvel Hanuman Road, Rakhial, Ahmedabad.	GJ/6954	1-1-89 31-12-91	2/4225/92/DLI
11.	M/s. Warm Stream, Anand Sojitra Road, Vithal Udyognagar, Vallabh Vidyanagar-388121, Gujarat State.	GJ/10511	1-1-90 31-12-92	2/4304/92/DLI
12.	M/s. Bhavragar Nagrik Sahakari Bank Ltd., 14, Gangagalla Talav, Bhavnagar.	GJ/11958	1-8-89 31-7-92	2/4306/92/DLI
13.	M/s J. S. Metal Traverse Col. NIP Compound Chhapra Road, Navsari-396445.	GJ/12289	1-12-89 30-11-92	2/4307/92/DLI

1	2	3	4	5
14.	M/s. Alidac. Genetics & Pharmaceuticals, 244, Ghodasar, Marinagar, Ahmedabad-380008.	OJ/14282	1-3-89 29-2-92	2/4257/92/DLI
15.	M/s. B. R. Industries, Survey No. Bhestan, GIDC, P. O. Pandesara Distt. Surat-394221.	GJ/17115	1-11-90 31-10-93	2/4263/92/DLI
16.	M/s. Devi Organic Pvt. Ltd., Plot No. 42/2, 1st Phase GIDC, Industrial Area, Vapi-396195.	GJ/17140	1-2-91 31-1-93	2/4264/92/DLI
17.	M/s. Petrofils Co-op Ltd., P. O. Naldhari Ta. Valia Distt. Bharucu-393135.	GJ/17627	1-12-90 31-1-93	2/4308/92/DLI
18.	M/s. Tida Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Torrent House, Nr. Dinesh Hall, Ashram Road, Ahmedabad-380089	GJ/17714	1-8-90 31-7-93	2/4309/92/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, along with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1984.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I. B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I. B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned in Scheduled-I against said scheme has been granted by the R.P.F.C. Coimbatore from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sr. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C. P. F. C's File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Easland Combincs 52, Sidco Industrial Estate, Coimatore, 641021.	TN/16926	1-1-90 to 31-12-93	2/4903/93/DLI
2.	The Dharmapuri District Co-operative Spinning Mills Limited, P. B. No. 2, Uthangarai Dharmapuri Distt. Pin-635207	TN/21411	1-4-88 to 31-3-91 and 1-4-91 to 31-3-94	2/4906/93/DLI
3.	M/s. Sri Kumaravelu Industrial, 122, Nava India Road, Krishnarayapuram (P.O.) Colmbatore, -641006.	TN/21825	1-4-90 to 28-2-93	2/4904/93/DLI
4.	M/s. Sri Ranga Foundry, Uppilpalayam Road, Sowripalayam, Coimbatore-15.	TN/25267	1-3-91 to 28-2-94	2/4902/93/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, along-with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s), legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance

Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1991.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):—

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 196 (hereinafter referred to as the said Scheme):

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	CPFC's File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. S. K. Distt. Central Co-op. Bank Ltd., P. B. No. 721, Mangalore-575003 (D. K.) Karnataka,	KN/2814	1-1-88 to 31-12-90	2/4657/92/DLI
2.	M/s. Manipal Printers & Publishers Limited, Udayavani Buildings, Tile Factory Road, Manipal-576119/D.K. Karnataka.	KN/4682	1-7-87 to 30-6-90	2/4658/92/DLI
3.	M/s. Central Arecanut & Discount Marketing & Processing Co-op. Ltd., P. B. No. 223, N Mission St., Mangalore-575001 (D. K.) Karnataka.	KN/5878	1-8-89 to 31-7-92	2/4659/92/DLI
4.	M/s. Manipal Institute of Technology, Manipal-576119 (D. K.) Karnataka,	KN/8208	1-1-90 to 31-12-92	2/4660/92/DLI
5.	M/s. Kasturba Medical College, Manipal-576119 (D. K.) Karnataka.	KN/8810	1-12-89 to 30-11-92	2/4661/92/DLI
6.	M/s. New Mangalore Port Trust, Regd. Cargo Handling Workers' Administrative Wing Panambur Mangalore-575010 (D. K.) Karnataka.	KN/9673	1-6-87 to 31-5-90	2/4662/92/DLI
7.	M/s. Karnataka Cashew Development Corporation Limited, Kavoor Cross Bejai, Mangalore-575004.	KN/9792	1-10-87 to 30-9-90	2/4663/92/DLI
8.	M/s. Anil Sunil Trade & Investment Private Ltd., Yeyyadi-575008 (D. K.) Karnataka.	KN/12016	1-12-87 to 30-11-90	2/4664/92/DLI
9.	M/s. Janath Co-op. Bank Ltd, UDUPI-576101 (D. K.) Karnataka.	KN/12073	1-7-87 to 30-6-90	2/4665/92/DLI
10.	M/s. Lamina Foundries Ltd, NITTE-574110, Karkala Taluk Karnataka.	KN/12084	1-7-87 to 30-4-90	2/4666/92/DLI
11.	M/s. Milagres Technical Institute (P) Ltd, Ambalpady Highway Junction, UDUPI-576103 (D. K.) Karnataka.	KN/12194	1-6-91 to 31-5-94	2/4667/92/DLI

SCHEDULE—II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

66—89 GI/93

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, along with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1998.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against said scheme has been granted by the R.P.F.C. Gujarat from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C. P. F. C.'s File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s The Anil Starch Products Ltd. Anil Road Ahmedabad-380025.	GJ/1062	1-1-92 31.12.94	2/4871/93/DLI.
2.	M/s Gceta Theates Odnay Road, Opp. India Oxygen, Ahmedabad.	Gj/16446	1.3.89 29.2.92	2/4870/93/DLI
3	M/s Plasticizers and Chemicals Plot No.3810/3811, GIDC Ankleswar Distt. Bharuch.	GI,18190	1-8-91 31.7-94	2/4872/93/DLI

SCHEDULE—II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of Sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, along-with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM.

Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/2005.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule—I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And Whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in contribution of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—1

No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended	Date of expiry of exemption	Period for exemption further extended.	CPFC's File No
1.	M/s. Hico Products Ltd., Pandit S. V. Leekar Marg, Mahim, Bombay-400016.	MH/1535	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I dated 3-9-92	10-12-91	11-12-91 to 10-12-94	2/238/79/DLI
2.	M/s. Ingersoll-Rand (India) Ltd., Rhone-Poulenc House, S.K. Ahire Marg, Worli, Bombay-400025. (Including its 15 branches).	MH/4099	S-35014/301/85/SS-IV dated 26-12-85	25-12-88	26-12-88 to 25-12-91 & 26-12-91 to 25-12-94	2/185/78/DLI
3.	M/s. Kores (India) Ltd., Kores House, P. B. x No 6558, Off. Dr.E. Moses Road, Worli, Bombay-400018. (including its branches)	MH/4996	2/1959/DLI/Exemp/89/PtI dated 3-4-91	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/3447/91/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM

Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/2012.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule—I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Baroda from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—1

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended.	CPEC's File No.
1.	M/s Modern Proteins Ltd., Plot 1-12, Kurnool Industrial Estate, P.O. Kurnool (A.P.)	AP/6236	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I dated 27-3-90	30-11-91	1-12-91 to 30-11-94	2/2408/90/DLI
2.	M/s. The Nizam Sugar Factory Ltd., Fatch Maiden Road, P.B. No. 1, Khalratabad, Hyderabad-500004. and its branches.	AP/15x 289/ 40 41 AP/6110	Do. dated 26-10-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/2909/DLI
3.	M/s Rama Krishna Chemicals Ltd., 1/22-A, Railway Station Road, Gandhi Nagar, Cuddapah-516004(A.P.)	AP/6376	Do. dated 24-6-92	26-5-92	27-5-92 to 26-5-95	2/1453/86/DLI

1	2	3	4	5	6	7
4.	M/s Margadassi Marketihg (P) Ltd., P.B. No. 90, Eondu compound, Khairatabad, Hyderabad-500182.	AP/6690	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I dated 24-1-91	24-3-91	25-3-91 to 24-3-94	2/1080/84/DLI
5.	M/s Pioneer Alloys Castings Ltd., 22 & 23, Industrial Area, Gagulamandyam (Via) Renigunte (A.P.) 517520.	AP/6789	Do. dated 19-12-89	31-12-91	1-1-92 to 31-12-94	2/3180/90/DLI
6.	M/s Bharat Cement Pipe Industries Hyder Nagar, Kukatpally, Hyderabad-500872.	AP/7164	Do. dated 14-2-91	30-11-92	1-12-92 to 30-11-95	2/3372/91/DLI
7.	M/s Orient Cement, P.O. Devapur Cement Works- 504218, Via-Mancheril (S.C. Rly.) Adilabad Distt. A.P.	AP/13433	Do. dated 27-3-90	28-2-91	1-3-91 to 28-2-94	2/2413/90/DLI
8.	M/s The Andhra Pradesh State Federation of Co-op. Sugar Facto- ries Ltd., C-4, Samrat Complex, Saifabad, Hyderabad-500004 (A.P.)	AP/18758	Do. dated 14-2-91	30-11-92	1-12-92 to 30-11-95	2/3370/91/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, along with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of Premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/2019.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.)

AND WHEREAS I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—1

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. H.M.P. Cement Ltd., (Formerly known as the A.C.C. Ltd.), Porbandar Cements Works, Aerodrome Road, Porbandar-360575.	GJ/8	S-35014/241/83-Pf.II-SS II dated 5-3-87	16-12-89	17-12-89 to 16-12-92	2/658/82-DLI
2.	M/s. New Shorrock Mills (Division of Mafatlal Industries) Asarwa Road, Ahmedabad-380016.	GJ/362	S-35014/144/82-PF-II-SS.II dated 21-4-86	29-10-88	30-10-88 to 29-10-91	2/567/81-DLI
3.	M/s. Gujarat State Road Transport Corporation, Vahanvavahar Bhavan, Astodia, Ahmedabad-380022 alongwith 20 units & 130 depots.	GJ/1122	2/1959/DLI/Exemp/89-Ptd. I dated Nil	15-8-92	16-8-92 to 15-8-95	2/156/78-DLI
4.	M/s. Gujarat State Co-op. Marketing Federation Ltd., Sahakar Bhawan, Relief Road, Ahmedabad-380001.	GJ/4833	2/1959/DLI/Exem/89-Pt. I dated 30-1-91	13-2-92	14-2-92 to 13-2-95	213/30/85/DLI
5.	M/s. ECL Jay Industries, Lalpuri Lake Road, Rajkot.	GJ/6922	2/1959/DLI/Exem/89-Pt. I dated 18-7-91	31-5-92	1-6-92 to 31-5-95	2/3679/91-DLI
6.	M/s. Aukleshwar Inorganic Pigments and Chemicals Pvt. Ltd., 26, Jaldarshan Society, Valli Road, Ankleshwar-393002.	GJ/15845	2/1959/DLI/Exem/89-Pt. I Dated 17-10-92	30-11-91	1-12-91 to 30-11-94	2/4097/92-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp[89/Pt.I]2026.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more

favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-1

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	CPFC's File No.
1.	M/s. Dr. Shantal bai Nursing Home (P. Ltd.) R.O. 5-3-535, Abids Road, Hyderabad.	AP/2174	2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I dated 11-4-92	31-5-91	1-6-91 to 31-5-94	2/4108/92/DLI
2.	M/s. Lakshmi Finance and Indl. Corpn. Ltd., 1-10-60/3, Begumpet, Hyderabad-500016.	AP/17791	Do. dated 22-5-90	29-2-92	1-3-92 to 28-2-95	2/2705/90/DLI
3.	M/s. National Institute of Small Industry Extension Training Yusuf Guda, Hyderabad-500045. (Including its branches located at Guwahati).	AP/11422	Do. dated 11-1-92	28-2-93	1-3-93 to 29-2-96	2/3930/91/DLI
4.	M/s. Institute of Hotel Management Catering Technology & Applied Nutrition, A-T-I- Campus, Vidyanagar, Hyderabad-7.	AP/11444	Do. dated 23-4-91	28-2-93	1-3-93 to 29-2-96	2/2912/90/DLI
5.	M/s. Sree Anantha Gramena Bank, P. B. No. 8, Ananthapur.	AP/11658	S-35014/173/84/SS.IV(SS.II) dated 29-2-88	28-2-91	29-2-91 to 28-2-94	2/1135/84/DLI
6.	M/s. O.N.C. Computers Ltd., 4th Floor, Surya Towers, 104, S.P. Road, Secunderabad (A.P.)	AP/12895	2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I dated 27-3-90	15-7-92	16-7-92 to 15-7-95	2/1383/86/DLI
7.	M/s. Rajsheel Wine Merchants, 3-6-476, Himayat Nagar, Hyderabad-500029 (A.P.)	AP/13385	Do. dated 25-2-92	28-2-93	1-3-93 to 29-2-96	2/3968/92/DLI

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under Clause (a) Sub-section 3(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled

ed for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp[89Pt.I]2033.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—1

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended	Date of expiry earlier exemption	Period for further exemption extended	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. Association of State Road Transport Undertaking, 7/6, Sirifort Institutional Area, Khel Gaon Marg, New Delhi-49.	DL/3825	2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I dated 12-2-92	24-9-91	25-9-91 to 24-9-94	2/563/81-DLI
2.	M/s. Sanatan Dharam Public School, East Punjabi Bggh Road, No. 10, New Delhi-110026.	DL/9449	2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I dated 11-6-92	31-10-91	1-11-91 to 31-10-94	2/4126/92-DLI

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) sub-section 3(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, his approval, gives a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of Premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner.

No. 2/1959/DLI/Exemp[89]Pt.I|2040.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against said scheme has been granted by the R. P. F. C. Haryana from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

Sr. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C. P. F. C.'s File No.
1.	M/s. Raghbeer Machinery Pvt. Ltd., Chander Nagar, Gurgaon (HR).	HR/2979 Cold P.F. Code No. HR/9590	1-3-92 to 28-2-95	2/4877/93-DIL
2.	M/s. Munjal Showa Ltd. 9-10, Maruti, Industrial Area, Gurgaon.	HR/3883 Cold P.F Code No. HR/10504	1-2-88 to 31-1-91	2/4868/93-DIL

SCHEDULE—II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of Sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, along with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/2047.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act),

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended.	Date of expiry earlier exemption.	Period for further exemption extended.	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. Delton Cable Company, 4801, Bharat Ram Road, 24, Darya Ganj, N. Delhi—110002	DL/2557	S-35014/282/85-SS-IV	24-11-88	25-11-88 to 24-11-91	2/577/81-DLI
2.	M/s. Delton Sales & Services Ltd., 4801, Bharat Ram Road, 24, Darya Ganj, N. Delhi-2.	DL/3241	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I dated 22-10-89	27-12-91	28-12-91 to 27-12-94	2/574/81-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under Clause (a) Sub-section 3(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, along with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, his approval, gives a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of Premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/2054.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favorable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, IN exercise of the powers conferred by Sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Gujarat from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—1

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. Apex Plastic Works, 225, GIDC Estate, Makarpura, Baroda-10	GJ/6214	1-10-89 to 30-9-92	2/4253/92/DLI
2.	M/s. Kraun Metallex, Purshottam Estate, Bahucharaji Road, Baroda-390018.	GJ/11361	1-1-91 to 31-12-93	2/1305/92/DLI
3.	M/s. Aditya Metal and Alloys Pvt. Ltd., 4-B/2, GIDC, Halal—National Highway, Distt. Panchmahal.	GJ/12361	1-11-91 to 31-10-94	2/4256/92/DLI
4.	M/s. Apex Containers 225, GIDC Estate, Makarpura, Baroda-10.	GJ/15930	1-10-89 to 30-9-92	2/4258/92/DLI
5.	M/s. Panorma Plastic, 501-A, GIDC, Halol Distt., Panchmahal	GJ/16085	1-4-90 to 31-3-93	2/4259/92/DLI
6.	M/s. Vikram Plastics 501-A, GIDC, Halol, Distt. Panchmahal	GJ/16085-B	1-4-90 to 30-6-93	2/4260/92/DLI
7.	M/s. Chloro Chem of India Plot No. 161, GIDC, Nandesari, Baroda-391340.	GJ/16801	1-7-91 to 30-6-94	2/4261/92/DLI
8.	M/s. West India Chlorinators, B-I, 6th Floor, Ramkrishna-Chambers, B.P.C. Road, Alkapuri, Baroda-5.	GJ/16803	1-7-91 to 30-6-94	2/4262/92/DLI
9.	M/s. Gujarat Chlorides, GIDC, Plot No. 190/191, Nandesari-391340, Baroda.	GJ/20118	1-1-91 to 31-12-93	2/4265/92/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct clause (a) sub Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended along with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of Premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner.

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/2061.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended.	Date of expiry earlier exemption	Period for further extension.	CPFC's File No.
1.	M/s. Coastal Packagings, 10-2-30, Women's College Road, Gunture-522001, (Samka Sivapet) (Included branches covered under this code No.)	AP/11809	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I dated 17-10-92	31-11-90	1-12-90 to 20-11-93	2/4151/92/DLI
2.	Model Steels (P) Ltd., NIDA NANUR 521104, Krishna Distt.	AP/16471	Do. dated 23-12-92	31-8-92	1-9-92 to 31-8-95	2/4352/92/DLI
3.	M/s. Kanaka Durga Gramecna Bank, 9/225, Gourisankara Puram, Gudivada-521301.	AP 16704	Do. dated 22-2-90	31-3-92	1-4-92 to 31-3-95	2/3205/90/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of Sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as Compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/PLI/2068.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said mentioned-I Schedule against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	CPFC's File No.
1.	M/s. Jhalawar Kendriya Sehkari Bank Ltd., Jhalarapatan City, Jhalarapatan, Rajasthan.	RJ/836-	1-7-91 to 30-6-94	2/4649/92/DLI
2.	M/s. Saghan Kshtriya Vikas Samiti, P.O. Rajasmand, Udaipur.	RJ/1071	1-11-89 to 31-10-92	2/4648/92/DLI
3.	M/s. Dimensional Plastiglass Industries Pvt. Ltd., 116, Otwar Industrial Estate, Jalpur.	RJ/3367	1-12-89 to 30-11-92	2/4646/92//DLI
4.	M/s. Modern Suitings Ltd., Old Industrial Estate, Distt. Alwar, Rajasthan.	RJ/3543	1-1-92 to 31-12-94	2/4647/92/DLI
5.	M/s. Derby Textile Ltd., Marudhar Industrial Area, Basni IInd Phase, Jodhpur.	RJ/4010	1-8-87 to 31-7-90	2/1804/88/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under Clause (a) Sub-section 3(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended along with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as Compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, his approval, gives a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89|Pt.1|2075.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishment further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended	Date of expiry of earlier exemption	Period for exemption further extended	CPFC's File No
1.	M/s The Tamil Nadu Co-operative State land Development Bank Ltd., 79, Luz Church Road, Madras-600004.	TN/4152	S-35014(80)/87/SS. II, dated 27-7-87	26-7-90	27-7-90 to 26-7-93	2/73/77/DLI
2.	M/s. Tavae Equipment Pvt. Ltd., Ambatur, Madras.	TN/6243	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I dated 12-6-92	9-3-92	10-3-92 to 9-3-95	2/1368/DLI/86
3.	M/s. Pattern and Carpentry Works, 1/133, Mugalivakkam Road, Magativakkam Porur, Madras-116.	TN/10343	Do. dated 10-9-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/2815/90/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under Clause (a) Sub-section 3(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, his approval, gives a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits mince(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

2. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/2081.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have

applied for exemption under Sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme)

NOV, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Gov't Notification vide which exemption was granted	Date of expiry of earlier exemption	Period for exemption further extended	CPFC's File No.
1.	M/s. Sunlight Metal Works, Jawahar Auto Nagar, Vijayawade, Krishna Distt. (A. P.), And its two branches having code No. AP/7165 & AP/13623.	AP/3816	S-35014/89/88/SS. II dated 25-8-83.	24-8-91	25-8-91 to 24-8-94	2/1798/88/DLI
2.	M/s Prakasa Engg. Works, Enikepadu Krishna (Distt.) A.P. Vijaywada 521108	AP/6386	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt. I dated 2-2-91	31-3-91	1-4-91 to 31-3-94	2/1398/90/DLI
3.	M/s. Sunlight Cotton Growers Co-op. Spinning Mills Ltd., Sattena Palli, Guntur Distt.	AP/13645	Do. dated 21-8-89.	31-10-90	1-11-90 to 31-10-93	2/2208/89/DLI
4.	M/s. Sri Hanuman Co-op. Sugars Ltd., Hanuman Junction, Krishna Distt.	AP/13670	Do. dated 21-8-89.	31-12-89	1-1-90 to 31-12-92	2/1686/87/DLI
5.	M/s. Workman Laboratories, Shed No. 11, Phase. II, Jawahar Autonagar, Vijaywade-520007.	AP/16529	Do. dated 22-2-90	29-2-92	1-3-92 to 28-2-95	2/3203/90/DLI
6.	M/s. Shri Chaitanya Gramena Bank, Bose Road, Tenali-522201 (Guntur)	AP 13680	Do. dated 21-8-89	30-4-90	1-5-90 to 30-4-93	2/1806/88/DLI

SCHEDULE—II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM

Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89|Pt.I|2089.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended.	Date of expiry earlier exemption.	Period for exemption further extended.	CPFC's File No.
1.	M/s. Samco Metals & Alloys P. Ltd., No. 20, Chamiers Road, Nandanam, Madras-20.	TN/11012	2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I/ 1185 dated 21-12-89	30-10-90	1-11-90 to 30 10-93	2/3256/90/DLI.
2.	M/s. Pillar Induction (India) Pvt. Ltd. 2nd Avenue, Block, A-13, Anna Nagar, Madras-2.	TN 19365	2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I/ dated 9-12-91	31-1-92	1-2-92 to 31-1-95	2/3869/91/DLI
3.	M/s. Kane Elevators (India) Ltd., 50, Vanagaram Road, Ayyanambakkan, Madras-602102.	TN/19848	Do. dated 21-12-94	30-10-91	1-11-91 to 30-11-94	2/3147/90/DLI

SCHEDULE—II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, along with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of Premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner.

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NEW DELHI-110 055

Note: Every care has been taken to compile the Central Register of Indian Medicine corrected upto 31-12-1986 as per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, and omission/correction if any, be reported to the Registrar, Central Council of Indian Medicine, IE/6, Swami Ramtirth Nagar, New Delhi-110 055 for rectification of the same in the next publication of the Register.

R.K. JAIN
Registrar

CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

GUJARAT

PART-I—AYURVED

1986

Sl. No.	Name & Father's Name	Qualification, University/Awarding Body & Year	Regn. No. & Date of Regn.	Address
1	2	3	4	5
1.	Abdul Vahora Jamalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4800 24-4-75	At. Khoraj Dabhi, Tal. Kalol, Dist. Mehsana.
2.	Abdulali Bobariya Mohamad	Vaidya-Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1979.	6907 16-4-79	At. Shergadh, Tal. Keshod, Dist. Junagadh.
3.	Abdulaziz Manjiyani Nuruddlnbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	5628 15-12-76	Dr. A.N. Manjiyani, Anandnagar, 16/363/64, At. Bhavnagar.
4.	Abdulganl Mehsaniya Abdulkadar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3533 29-7-72	Momin Street, At. Vankaner, Dist. Rajkot.
5.	Abdulkadar Chauhan Abdulrahim	Ayurveda-Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1976	6797 21-3-79	Chhaya Road, Opp. Bharitya Vidyalaya, At. Porbandar, Dist. Junagadh.
6.	Abdulkadar Ingara Yusuf	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7835 30-9-80	At. Tadakashwar, Via. Kim, Tal. Mandavi, Dist. Surat.
7.	Abdul Nasratjaha Kadir Kagadi	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	5636 18-12-76	Hindu Garden Colony, Rudarpura, At. Surat.
8.	Abdulrazak Lala Miya Ahamad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6399 10-11-78	Behind Madrasa High School, At. Nimmatnagar, Dist. Sabarkantha.
9.	Abdulrazak Vadaliwala Ibrahimbhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1968	3514 31-5-72	Chhipvali Faji, At. Himmatnagar, Dist. Sabarkantha.
10.	Abhaykumar Bhani Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7574 1-3-80	Bhani Nivas, Kishorsinghji Road At. Rajkot-360 001.
11.	Abhaykumar Shah Raman lal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1966	2523 20-6-67	Mahiya's Khadaki, Dalavada, At. Kapadvanj, Dist. Kheda.
12.	Abhu Odedra Vajasi	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4900 26-6-75	At. Ghed Bagsara, Via. Bantwa, Dist. Junagadh.
13.	Abidali Karimbhai	Ayurveda-Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1978	7689 25-4-80	Ramtekari Road, At. Talaja, Dist. Bhavnagar.
14.	Abirhusen Morla Jamalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6072 15-3-78	At. & Post Renuj, Tal. Patan, Dist. Mehsana.
15.	Abubakkar Meman Abdulbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5752 1-4-77	At. Taranaga Hill, Tal, Kheralu, Dist. Mehsana.
16.	Achala Bhakta Mujjibhai	G.F.A. M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1962	796 1-10-63	Old Vandari Moholla, Parnkuti, At. Nasari.

1	2	3	4	5
17.	Achyutaben Pandit Manubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6696 3-3-79	17-B, Vanantnagar Society, Bhairavnath Road, Mainagar, A'bad.
18.	Adityabhai Patel Chhaganbhai	Ayurvedauttama, SD Pariksha Samiti, Baroda 1975	6547 12-2-79	Rannapark, Co-op Hou. Society, B. No. 26, Ghatlodia Road-V. I, A'bad.
19.	Adya Mehta Satishchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8400 5-4-82	B-11, Govt. Officers Colony, 10-Bungala, Gulbai Tekara, Ambavadi, A'bad.
20.	Agambabu Bhatt Ramanlal	Ayurvedauttama, S D. Pariksha Samiti, Baroda, 1976	6646 26-2-79	Mebha Road, Tal. Padara, Dist. Baroda.
21.	Ahamad Patel Musaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7269 12-9-79	Dalal Mension, Opp. Navgajipir, Vadi Moti Vahorvad, At. Baroda.
22.	Ajaykumar Bhavsar Sundarlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9276 2-5-85	"Sevashram" Station Road, At Shahera, Dist. Panchmahal- 389 210.
23.	Ajaykumar Hora Rameshchandra	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1960	2914 29-2-70	C/o Arunc Chaturvedi, Pratik Apartment, Krishnabag Maninagar, A'bad.
24.	Ajaykumar Pandya Bhanushanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	6937 17-4-79	22, Shri Kashi Vishwanathanagar, At Baroda
25.	Ajaykumar Patel Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5984 30-11-77	Ramfali Tadapole, At Nadiad, Distt Kheda.
26.	Ajiyur Shekh Raheman	B.A.M.S., Indore Univ., 1974	8515 27-8-82	Subhash Chowk, Senghava Dist. Khegone (M. P.) 451 666.
27.	Ajitkumar Devani Shamjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4099 19-10-73	At Madhavpur (Shed), Via Kessod, Tal Porbandar, Dist. Junagadh.
28.	Ajitkumar Jayswal Jankajal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4221 21-2-74	Shiya Bag, Main Road, At Baroda.
29.	Ajitkumar Oza Himmatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6313 27-9-78	C/o H V Oza, Swami Narayan Temple, At & Tal Keshod, Dist Junagadh.
30.	Ajitkumar Pandya Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7544 21-2-80	At Kathalal, Tal Kapadvanj, Dist. Kheda.
31.	Ajitkumar Patel Shamaldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4133 7-12-73	At Pahadpur, Tal Modasa, Dist. Sabarkantha.
32.	Ajitkumar Patel Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7560 29-2-80	At Karanj, Tal Olpad, Dist Surat.
33.	Ajitkumar Upadyay Himmatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3185 19-4-71	At Longadi, Post, Loyanga, Tal Mahuva Dist Bhavnagar.
34.	Ajitkumar Yagnik Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4212 19-2-74	Opp Swami narayan Temple, Mahadevwala's Vanda, Kalupur. A'bad.
35.	Ajitsinh Gohil Girirajsinh	B.A.S.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3725 8-1-73	At. Kudad, Tal. Ghogha, Dist. Bhavnagar.
36.	Ajitkumar Jayawal Hasamukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8856 6-10-83	70, Dwarkadhish Society, At. Padara, Dist. Baroda.
37.	Ajitsinh Sarvaiya Prabhatsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	8834 1-9-83	At. & Post Bhadraval, Via, Trapaj, Tal. Talaja, Dist. Bhavnagar.
38.	Akabarali Samanani Kanjibhai	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1976	7462 21-12-79	At. Amrapur (Gir) Tal. Malia- Matina, Dist. Junagadh.
39.	Akabarali Vadsariya Alibhai	B.A.M.S., Indore Univ. 1976	6134 12-4-78	At. Chitradvad (Gir), Tal. Talala, Dist. Junagadh.

1	2	3	4	5
40.	Akhirhusen Malik Azamhusain	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	8902 24-1-84	"Peri House", Perlpurl, Nava Air- port, Shrinagar-190005, Kashmir.
41.	Akshay Shah Rameshchandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9651 31-12-86	2, Matheran Society, Paldi, A'bad-7.
42.	Ala Sondarava Govind	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3870 15-3-73	M-7, K.L.M. Colony, Behind New Civil Hospital, A'bad.
43.	Alka Bhatt Pravinchandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9484 24-3-86	9/704, Gandhrak Falia Naka, Siddhamata's Sheri, Wadi Falia, Surat.
44.	Alka Bhatt Kantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9493 24-3-86	C/o. K. C. Bhatt, 8-K. K. Nagar, Ghatlodiya, A'bad-61.
45.	Alka Kamale Kishanrao	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5518 14-9-76	Kumedan Falia, Near Music College, At. Baroda.
46.	Alka Mehta Rashmikant	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9399 19-10-85	C.G.S./B, Sainamais Colony, At. Atul-396020, Dist. Valsad.
47.	Alka Pal Prabhakant	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9468 11-2-86	Soni Falia, Moti Desai Pole, At. Surat, Tal. Choryasi, Dist. Surat.
48.	Alka Parikh Rasiklal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9618 21-11-86	Behind Post Office, Dharmanagar, Sabarmati, A'bad-5.
49.	Alka Shah Premchand	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9210 2-2-85	C/o.P. J. Shah, Abhinav, Vaniavad, At. Bhuj-Kutch.
50.	Alka Shah Raxeshbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9421 2-12-85	C/o. R. R. Shah, 33, Amrapali Society, Karelibag, At. Baroda-18.
51.	Alka Shah Vinodbhandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9632 5-12-86	10/8, Tulasishyam Flats, Bhimji- pura, Nawa Wadaj, A'bad-13.
52.	Alok Patel Bahecharbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9018 16-4-84	Patel's Moti Khadaki, At. Kathalal, Tal. Kapadvanj, Dist. Kheda.
53.	Alakosh Raval Pranshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7526 15-2-80	Gajgadoshwar, Near Temple, At. Fulpava.
54.	Alankruta Joshi Ravishankar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9250 9-4-85	C/o. R. H. Joshi, Bhaktinagar, Station Plot, Road No. 2/12, On the I. E. Bank Baroda, 1st Floor, Rajkot-360002.
55.	Alarakha Bodhara Abdulkarim	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6349 4-10-78	At. Udakiya, Post Metimarad, Via. Dhoraji, Dist. Rajkot.
56.	Alibhai Bhatti Rajabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5420 4-6-76	Ravatpara, Sheri No. 1, At. Bilakh, Dist. Junagadh.
57.	Alika Shah Mahendrakumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4134 10-12-73	Kashijunj, 11, Kirtkunj Society, Karelibag, At. Baroda.
58.	Alpeshkumar Sheth Pushpakant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7795 28-8-80	Vaniv Vad, At. Chikali, Dist. Valsad.
59.	Altarusen Abir Tajamul Ahmad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6283 20-9-78	Vasiya Chal, Near Post Office, At. & Tal. Dharampur, Dist. Valsad.
60.	Amarchand Khokhani Hakemchand	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1941	134 3-11-41	Rajpur Chakala, 907, Nagar Bodini- Pole, A'bad.
61.	Amarish Nirbhay Shrikrushna	Ayurvedacharya, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1977	8069 4-5-81	C/o. M. S. Upadhyay, Arbhuda Society, Opp. L. G. Hospital, Mani- nagar, A'bad.
62.	Amarprasad Vaidya Bulakhidas	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1936	9658 31-12-86	36, Mahalaxmi Society, Paladi, Sarkhej Road, A'bad-7.

1	2	3	4	5
63.	Amarshi Chauhan Kanji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3195 12-5-71	At. Ghudkot, Tal. Jodia, Via. Morabi, Dist. Rajkot.
64.	Amarshi Gohil Tulashibhai	B.A.M.S., Kanpur Univ., 1972	4886 17-6-75	Old Bus Stop, At. Dwarka, Dist. Jamnagar.
65.	Amarshibhai Sutriya Dungarbhai	D.S.A.C., CS Ay. Course, Gujarat, 1966	2117 20-7-66	At. & Post Rohishala, Via. Nin- gala Jn., Tal. Botad, Dist. Bhav- nagar.
66.	Amarishkumar Shah Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5677 24-2-77	9-C, 3rd Floor, Tiger Flat, Near Nadip High School, Nava Vadaj, A'bad.
67.	Amarsinh Bhimani Dungar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	5481 5-8-76	At. Bhavpar, Tal. Maliya-Miyana, Dist. Rajkot.
68.	Amarsing Kantharia Ratnanji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8396 5-4-82	Brahman Sheri, Zimkhana Road, Rander, Tal. Choryasir, Dist. Surat.
69.	Ambalal Bhoi Shanabhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1965	1886 10-12-65	At. Sarsa, Tal. Anand, Dist. Kheda.
70.	Ambalal Dhedhi Laxmanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4896 26-6-75	At. Ambala, Via. Amargadh, Tal. Shihor, Dist. Bhavnagar.
71.	Ambalal Kothari Jitalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1953	124 2-11-53	At. Sudasana, Tal. Kheralu, Dist. Mehsana.
72.	Ambalal Padhiyar Shankerbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5132 23-1-76	At. Jalalpura, Tal. Padara, Dist. Baroda.
73.	Ambalal Patel Khushalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4821 2-5-75	At. Rarod, Tal. Miyagam Karjan, Dist. Baroda.
74.	Ambalal Patel Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5762 14-4-77	At. Jichaka, Tal. Khambhat, Dist. Kheda.
75.	Ambalal Patel Prahaldabhai	Ayurved Madhyama SD Pariksha-Samiti, Baorda., 1978	6517 1-2-79	Staff Quar., C. J. Hospital, At. Surendranagar.
76.	Ambalal Patel Shivram	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9419 2-12-85	At. Anandpura, P. O. Bhalak, Tal. Kheralu, Dist. Mehsana.
77.	Ambalal Shah Dahyabhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1959	1127 2-1-59	Navi Dharati, Nagarpada, Baroda.
78.	Ambalal Parekh Vasantlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3061 13-10-70	Opp. Police Gate, At. Palej, Tal. & Dist. Broach.
79.	Ambalal Patel Maganlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1961	506 19-12-61	Panchyat Dispensary, At. Dhanera, Dist. Banaskantha.
80.	Ambalal Patel Ravajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6469 19-1-79	At. Kanjoda, Tal. Nadiad, Dist. Kheda.
81.	Ambalal Patel Purushotamdas	Ayurved Madhyama, SD Pariksha Samiti, Baroda, 1973	6634 21-2-79	21/654, M.L. 5, Shatrinagar, A'bad.
82.	Ambalal Prajapati Lalabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7948 17-1-81	At. & Post Pansroda, Tal. Balasi- nor, Dist. Kheda.
83.	Ambalal Vyas Madhavlal	D.A.M., UP Ay. Mahavidyalaya, Baroda, 1940	2650 14-9-40	Marudia Pole, At. Mehniabad, Dist. Kheda.
84.	Ambaram Patel Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4524 23-9-74	At. Jetpur, Tal. Chansma, Dist. Mehsana.
85.	Ambarish Bhatt Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3582 7-9-72	Sankadi Shori, Shivam, At. Morbi, Dist. Rajkot.

1	2	3	4	5
86.	Ambashankar Shukla Girjashanker	Ayurved Visharad, BIM, Saurashtra, 1958 H.P.A., P.G.T. Centre in Ay. Jamnagar, 1966	2280 15-4-58	Krishna Bhavan, Dr. Trada Saheb's House, Opp. Jafar Medan, Gandhi- gram, Junagadh-362001.
87.	Ambhuai Gajjar Dahyabhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1961	139 5-12-61	Manek Vila, Panch Hatadi, Navasri, Dist. Valsad.
88.	Ambikaben Patel Pranodbhai	B.S.A.M., Univ. of Bombay, 1979	9072 15-6-84	157, Shaktinagar, At. & Dist. Broach.
89.	Ambikaprasad Shashtri Ramohandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4717 31-3-75	B. No. 36, Manidip Society, Near Jivraj Park, A'bad.
90.	Ambrish Vyas Khashivishwanath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3063 14-10-70	Brahman Sheri, At. Unsa, Tal. Sidhpur, Dist. Mevata
91.	Ambubhai Patel Shanabhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1950	504 30-12-50	At. Boravi, Tal. Anand, Dist. Kheda.
92.	Amohandbhai Patel Bahechardas	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1960	494 5-12-61	At. & Post. Limbhoi, Tal. Modasa, Dist. Sabarkantha.
93.	Amhutih Joshi Rameshwar	B.A.M.S., Indore Univ., 1979	8267 31-12-81	Dhanwantari Medical Hall, Bada- vani (M.P.), Dist. Kargone,
94.	Ami Vora Chandrakantbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6868 3-4-79	23, Shardanagar Society, Ellish- bridge, A'bad.
95.	Amichandbhai Patel Podarbhai	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4943 6-9-75	At. Pural, Tal. Himmatnagar, Dist. Sabarkantha.
96.	Amidhar Parikh Dalapatram	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1947	675 30-1-48	At. Rampura, St. Bhankoda, Tal. Viramgam.
97.	Amlnseh Sheth Mansukhlal	B.A.M.S., Indore Univ., 1977	7167 2-8-79	C/o M.N. Sheth, Opp. Jain Derasar, At. Vakaner, Dist. Rajkot
98.	Amish Davada Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8997 28-3-84	13, Sanskar Bharati Society, Naranpura, A'bad-13.
99.	Amita Bhatt Janardan	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9135 10-9-84	B-6, Nikunj Apprt., Opp. Krishna- Cinema, At. Baroda.
100.	Amita Desai Jyotindrabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8384 24-3-82	Sarvodaya Balmandir, Soni Falla, Vagheshwari Pole, Surat-395 001.
101.	Amita Kamdar Kantilal	B.S.A.M., Guj. rat Ay. Univ., 1978	7345 29-10-79	C/o Dr. K.A. Kamdar, Amrut Kutir, Boradi Gate, At. Bhavnagar.
102.	Amita Kashalikar Shrikhrushna	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8540 14-9-82	10/1064, Gopipura, Maulabhai Road, Choryasi, Dist. Surat
103.	Amita Raval Aniruddhabhai	B.S.A.M., Guj. rat Ay. Univ., 1976	5972 28-11-77	Bhagatji Place, At. Chotila, Dist. Surendranagar.
104.	Amita Raval Navinchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8446 15-6-82	C/o Dr. N.P. Raval, Medical Officer, Laprasa Training Centre, Ajaya Road, Baroda-390 029.
105.	Amitaben Adhvaryu Thakorabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7171 7-8-79	At Gopalpura, At Bakor, Dist. Kheda.
106.	Amitkumar Vaidya Popatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8470 3-8-82	At. Demni, Tal. Bayad, Dist. Sabarkantha.
107.	Amitray Tripathi Umakant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8392 24-3-82	Panch Katadi Chowk, Bhuj-Kutch- 370 001.
108.	Amratbhai Sathvara Jetharam	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	3049 21-9-70	At. Bhadresji, Tal. Vadhan, Dist. Surendranagar.

1	2	3	4	5
109.	Amrish Joshi Shantulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3674 2-11-72	At. Mogh Ankadia, Via. Luridhar, Dist. Amreli.
110.	Amrsinh Parmar Trikam	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5539 28-9-76	At. NagalKada, Tal. Bhoraji, Dist. Rajkot.
111.	Amrut Patel Shamajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8713 16-3-83	C/o Dr. D.J. Patel, Station Road, At. Santarampur, Dist. Panchmahal
112.	Amrutbhai Bava Peshabhai	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1976	6719 9-3-79	At. & Post Vadsar, Tal. Kalol, Dist. Mehsana.
113.	Amrutlal Joshi Damodarbhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1957	7768 17-7-80	At. Khodiyar Colony Bus Stand, Airodram Road, At. Jamnagar
114.	Amrutbhai Panchal Ishwarbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9346 21-8-85	Patelvas, Opp. Bus Stand, Juna- Vadaj, A'bad-380 013.
115.	Amrutbhai Patel Narottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5365 22-4-76	At. Upera, Tal. Siddhapur, Dist. Mehsana.
116.	Amrutbhai Patel Shivabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8297 5-2-82	20, Ashishnagar Society, Meghani- nagar, A'bad.
117.	Amrutbhai Patel Maganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8686 3-3-83	Ishwarkrupa, At. & Post Unai, Tal. Vasanda, Dist. Valsad.
118.	Amrutbhai Prajapat Gulabchand	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9055 25-5-84	At. Poshina, Tal. Idar, Dist. S K
119.	Amrutbhai Parnar Ganeshbhai	Ayurved Madhyama S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1977	6554 12-2-79	4, Chatraviakas Colony, Palace Road, At. Rajpipala, Dist. Broach.
120.	Amrutkumar Vadhar Mohanbhai	Ayurved Madhyama S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1978	7121 17-7-79	Girlish Society, H. No. 52, Sabar- mati, D. Cabin, Sabarmati, A'bad.
121.	Amrutlal Agravat Ramkrishna	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7356 29-10-79	At. Parbadi, Tal. Dharl, Dist Amreli.
122.	Amrutlal Amipsra Deveshi	Ayurved Madhyama S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6727 9-3-79	12, Gundavadi, Mansukhivas, At. Rajkot.
123.	Amrutlalarkamon Laljibhai	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1968	2860 24-11-69	At. Dholaj, Via. Dungari, Tal. Gandevi, Dist. Valsad.
124.	Amrutlal Bagathari Nanjibhai	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1966	7084 5-7-79	At. Ambalas, Tal. Talala (Gir), Dist. Junagadh.
125.	Amrutlal Dave Tulashanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1957	348 1-12-58	At. Vanadara, Tal. Babhai, Dist. Baroda.
126.	Amrutlal Gadhiya Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	5050 24-11-75	5-B Ay. Colony, Behind Dhan- vantray Temple, At. Jamnagar.
127.	Amrutlal Gohel Haribhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6106 28-3-78	At. & Post. Majevasi, Tal. & Dist. Junagadh.
128.	Amrutlal Jani Shivram	D.S.A.C., CS Ay. Course, Gujarat 1964	1490 21-7-64	At. Vavera, Via. Rajula, Dist Amreli.
129.	Amrutlal Joshi Bhalchandra	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1948	2080 30-6-48	Motl Pandya Khadki, At. Navsari, Dist. Valsad.
130.	Amrutlal Joshi Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4057 19-9-73	At. Bhavda, Tal. Dascroi, Dist. A'bad.
131.	Amrutlal Joshi Ramchandra	Ayurved Madhyama S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1978	6783 21-3-79	17/2, Tulashishyam Flat, Naya Vadaj, A'bad.
132.	Amrutlal Joshi Premshanker	Valdyia Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	7280 15-9-79	At. Bhandari, Tal. Malia-Matina, Dist. Junagadh.

1	2	3	4	5
133.	Amrutlal Kataria Nathubhai	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1967	2616 19-12-67	Near Vachani's Vav, At. Jan- jodhapur, Dist. Jamnagar.
134.	Amrutlal Karia Karsandas	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1965	1757 5-7-65	Mota Ankadla, Via. Lunidhar, Dist. Amreli.
135.	Amrutlal Kateshiya Dhanaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6035 16-2-78	58, Digvijay Plot, At. Jamnagar
136.	Amrutlal Mandaliya Shivlal	Ayurved Bhisak A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1976	6488 1-2-79	Limbadi's Utara, No. 2, At. Suren- dranagar.
137.	Amrutlal Mehta Keshavlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	891 10-6-63	At. Nani Baral, Via. Morli, Dist Rajkot.
138.	Amrutlal Nimavat Nadhavdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3283 5-11-71	Teacher's Colony, Dabhot Road, Ramnivas, At. Veraval, Dist Juna- gadh.
139.	Amrutlal Nirpara Haribhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8114 17-7-81	At. Girgadhada, Tal. & Via. Una, Dist. Junagadh
140.	Amrutlal Panara Chaturbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4496 9-9-74	At. Bavla, Tal. Dholaka, Dist. A'bad.
141.	Amrutlal Pandya Vitthalji	Vaidyacharya A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	7246 30-8-79	At. Bhalsan, Beraja, Tal. Kalavad, Dist. Jamnagar.
142.	Amrutlal Patel Prabhudas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	489 2-8-54	At. Shertha, Tal. Dist. Gandhinagar.
143.	Amrutlal Patel Shakerdas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course Gujarat 1966	2344 22-12-66	At. Vekara, Post Agol, Tal. Kadi Dist. Mehsana
144.	Amrutlal Patel Shivram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3667 25-10-72	26-U, Gu. Patel Society No. 2, Jahagirpura Road, Asarva, A'bad.
145.	Amrutlal Patel Ishwarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4279 20-3-74	At. Anandpura, Tal. Kheralu, Dist. Mehsana.
146.	Amrutlal Patel Prabhudas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8221 17-11-81	At. & Post Salaiya, Tal. Balashinor, Dist. Kheda.
147.	Amrutlal Purohit Manilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1950	719 31-8-50	At. Sathamba, Tal. Bayad, Dist. Sabarkantha.
148.	Amrutlal Sharma Chhanabhaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	2974 16-6-70	Vaidkiya Adhikari, Jilla-Panchayat Dispensary, At. Bariya, Tal. Dahe- gan, Dist. A'bad.
149.	Amrutlal Shah Chhabildas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1953	1119 7-4-53	Jahagirpura Chakala, Asarva, At. A'bad.
150.	Amrutlal Shah Namalal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1967	2528 23-6-67	C/o Shah Buddhisagar Hanalal, At. Aluva, Tal. Kalo, Post. Unava, Dist. Mehsana.
151.	Amrutlal Shukla Dayashanker	Ayurved Visharad, BIM Saurashtra 1959	2215 16-9-59	E.S.I. Dispensary, Govt. Dispensary, D-28, Behind Bal Mill, Rakhiyal, A'bad.
152.	Amrutlal Shukla Prabhashanker	B.A.M.S., Gujarat Univ. 1962	1269 15-9-62	Girdhari Society, At. Jamnagar.
153.	Amrutlal Soni Vrujlal	Ayurved Visharad, BIM, Saurashtra 1961	2318 28-4-61	At. Panchpipala, Via. Jctpur, Dist. Rajkot.
154.	Amrutlal Raval Nathalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7311 20-9-79	Nanovas, At. Ranasan, Tal. Vija- pur, Dist. Mehsana.
155.	Amrutlal Trivedi Mulshanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1946	303 4-12-46	At. Balisana, Tal. Patan, Dist. Mehsana.

1	2	3	4	5
156.	Amrutlal Upadhyay Becharbhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1962	61 5-1-66	At Sundara, Post, Nar, Dist. Kheda
157.	Amrutlal Vadoliya Laljibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4201 15-2-74	Navrangpura, At. Rajkot.
158.	Amulakh Joshi Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	2859 24-11-69	Valand Sheri, Near Haveli, At. Mahuva Bandar, Dist. Bhavnagar.
159.	Amulkumar Nayak Thakorbbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9034 16-3-84	26, Nutan Society, At. & Tal. Navsari, Dist. Valsad.
160.	Anand Bhardwaj Swarup	Bhishagaratna Shastri, R.A.U. Tibbi College, Jaipur 1970	6675 3-3-79	R. No. 287/M, West Railway- Medical Colony, Bhavnagar.
161.	Anand Sharaf Prabhakar	B.A.M.S., Vikram Univ. 1978	7457 21-12-79	Guru Prasad Mangaldas Mahalla, Shiyabag, Baroda.
162.	Anani Vaidya Pratulchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	9366 2-9-85	1, Adarsh Society, Athava-Lines, Surat-395 001.
163.	Anant Banale Dattatrey	B.A.M.S., Vikram Univ. 1974	6739 15-3-79	At. Maroli, Via. Sajan Railway Station, Dist. Valsad.
164.	Anant Pathak Dineshchandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9435 23-12-85	At. & P.O. Vaghjipura, Tal. Sha- hera, Dist. Panchmahal.
165.	Anantlal Vadnagara Lalji	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1965	1755 5-7-65	C/o Soni Lalji K. Chandi Bazar, Jamnagar.
166.	Anantkumar Joshi Jamipatram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8087 4-6-81	B. No. 5, Bhagavatikrupa, Keshari- yajinagar, Ellishbridge, Vasana, A'bad.
167.	Anantkumar Pandya Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8044 27-4-81	Near Jain Derasar, At. & Post Lodra, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
168.	Anantkumar Rajpur Bharatsingh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7827 25-9-80	Opp. Usha Takiz, 445/16, Mukhi's Chali, Gomatipur, A'bad.
169.	Anantkumar Upadhyay Rameshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5689 24-2-77	3, Sadashivnagar Society, Ranip, A'bad.
170.	Anantnarayan Sharma Ramcharitra	H.P.A., P.G.T. Centre in Ay. Jamnagar 1963	2524 22-6-67	Kalniketan, Hospital Road, Jam- nagar.
171.	Anantprasad Acharya Durlabhaji	L.A.M., U.P. Ay. Mahavidyalaya, Patan 1937	48 7-6-40	Acharya Sheri, At. Limadi, Dist. Surendranagar.
172.	Anantrai Mandalia Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3323 29-1-72	Vadavachora, Kanjikidiya's Khan- cha, At. Bhavnagar.
173.	Anantrai Trivedi Durgashankar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	2948 10-4-70	Shilpinagar, Plot No. 1, At. Bhav- nagar.
174.	Anantray Pandya Tarashankar	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1953	1548 1-10-53	Chorapa, At. & Dist. Amreli
175.	Anantray Parekh Bhagvatray	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1961	709 21-9-62	Nathukrupa, Ramdelo, Dhal Road, Junagadh.
176.	Anantray Pathak Pranshankar	Ayurved Uttama SD Pariksha Samiti, Baroda 1967	6537 3-2-78	12, Bhavanli Park Society, Post Jivrajpark, A'bad.
177.	Anantray Raval Pranshankar	Ayurved Bhishak A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1972	8184 22-9-81	4, Ishwarnagar Society, Vatva Road, At. A'bad.
178.	Anantray Ruparelia Mathurdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6253 2-9-78	C/o Ruparel Bradhars, Bus Stand Road, At. Savarkundala.

1	2	3	4	5
179.	Anantray Trivedi Yrujlal	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1970	7647 21-3-80	Dalvagna, Prahlaad Plot, Dhanvantari Marg, At. Rajkot.
180.	Anandshanker Shukla Karunashanker	L. A. M., U.P. Ay. Mahavidyalaya, Patan 1941	1270 15-3-41	B. No. 31-B, Sharda Society, Ellish Bridge, Post Anand Nagar, A'bad.
181.	Anantsinh Parmar Fulsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	8269 31-12-81	At. & Post Chandranagar, Tal. Devgadhbaria, Dist. Panchmahal.
182.	Anasuya Trivedi Mafatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8754 11-3-83	Narsinhji's Pole, Vaidya's Khadaki, Dala Patel's Pole, At. & Tal. Dist. Baroda.
183.	Anarishkumar Talati Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	7360 29-10-79	Nana Talati Pole, Dumaralpole, At. Nadiad, Dist. Kheda
184.	Anil Dixit Ramchandra	B.A.M.S., Poona Univ. 1978	8571 20-10-82	At. & Tal. Umargan, Dist. Valsad.
185.	Anil Joshi Rosiklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8305 5-2-82	22, Swastik Society, Maharshi Arvind Marg, Palanpur, Dist. Banaskantha.
186.	Anil Reshamiya Liladhar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5963 18-11-77	C/o A.D. Popat, 32 jalaram Society, At. Junagadh.
187.	Anil Shah Premchand	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1965	1695 3-6-65	At. Sardoi, Tal. Modasa, Dist. Sabarkantha.
188.	Anil Shah Champaklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7380 16-11-79	1360, Joshi's Khancha, Moti Vasani Sheri, A'bad.
189.	Anil Thakar Harilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7060 27-6-79	At Kidiyanagar, Via. Lankadiya, Tal. Rapar, Dist. Kutch.
190.	Anil Trivedi Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6365 13-10-78	At. & Post Dhandbali, Tal. Shihor, Dist. Bhavnagar.
191.	Anil Vyas Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8896 10-1-84	C/o Vyas Natvarlal, F-8 Govt. Flat, S.T. Road, Opp. Taluka- Panchayat Qtrs., Dist. A'bad.
192.	Anila Shah Kantilal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1963	1498 30-7-64	At. Bajva, Dist. Baroda
193.	Anila Shah Ropaldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7585 11-3-80	15-A, Bhavaneshwar Park Society, Naranpura Railway Crossing, A'bad.
194.	Anilchandra Vaidya Balkrushna	B.A.M.S., Univ. of Saugor 1975	7806 9-9-80	At. Mogar, Tal. Anand, Dist. Kheda.
195.	Anilchandra Tevar Vipinchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5015 16-2-76	C/o Kantilal C. Tevar, Darbar Road, Near Laltower, At Rajpipala.
196.	Anilkumar Bhavsar Kacharalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5098 23-12-75	Bazar Chowk, At. Prantij, Dist Sabarkantha.
197.	Anilkumar Dave Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5541 28-9-76	Davebhuvan Mahadevvas No. 2, Navavada, A'bad.
198.	Anilkumar Gandhi Mangulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3997 7-8-73	At. Matoda, Tal. Khedbrahma, Dist. Sabarkantha.
199.	Anilkumar Gohil Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3397 24-2-72	Behind Muni, Dairy Plot No 1083, Dayand Chowk, Krinavihar, Krishna- nagar, Bhavnagar.
200.	Anilkumar Jani Bhavnishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3675 2-11-72	C/o Vasantrao D. Shastri, Shri Nivas, Jyotish Karyalaya, Near Stya Narayan Temple, At. Jam- nagar.
201.	Anilkumar Joshi Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3874 16-3-73	M.P. Building, Ambal Falia, Nagar Vada, At. Junagadh.

1	2	3	4	5
202.	Anilkumar Joshi Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7940 17-1-81	At. & Post Khambholaj, Tal. Anand, Dist. Kheda.
203.	Anilkumar Majethia Shambhulal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9401 19-10-85	Ghatiya Falia, At. Bhuj-Kutch- 370 001.
204.	Anilkumar Mehta Sadashiv	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4453 26-8-74	39, Madhyamvarg Society, Near Bhulabai Park, Gita Mandir Road, A'bad.
205.	Anilkumar Pandit Kailashnath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	2981 17-6-70	Richi Road, Under Bridge, Hiralal Dahela, Kalupur, A'bad.
206.	Anilkumar Vaidya Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5399 13-5-76	56, Uttar Guj. Panchal Co. Op. Hou. Society, Pragat Laxmi- Society, Ranip, A'bad.
207.	Anilkumar Patel Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8837 6-9-83	At & Post Chikhali, Via. Vadbbhai, Dist. Dang.
208.	Anilkumar Raval Gaurishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4702 29-3-75	At Tama, Post New Ankol, Tal Khambhai, Dist. Kheda.
209.	Anilkumar Ravat Jethabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	8931 17-2-84	At. Haripura, Post Ada-Hathrol, Tal. Bhiloda, Dist. Sabarkantha.
210.	Anilkumar Shah Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3227 12-8-71	At. Dhadkan, Tal. Prantij, Dist Sabarkantha.
211.	Anilkumar Shah Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8404 5-4-82	At. & Post Sabali, Tal. Idar, Dist. Sabarkantha.
212.	Anilkumar Thakkar Shanalal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9241 12-3-85	At. & P.O. Muwal, Tal. Padara, Dist. Baroda.
213.	Anilkumar Upadhyay Chandrakant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7903 14-11-80	10-A, Kalyan Society, Baroda-5.
214.	Aniruddha Vaidya Shivkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5969 21-11-77	25, Shanti Park Society, Pratap Nagar, Sindvai Nata Road, At. Baroda.
215.	Aniruddha Jani Nanalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	194 1-11-56	At. & P.O. Amala, Tal. Padara, Dist. Baroda.
216.	Aniruddha Joshi Asharam	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	211 2-7-56	Kheda jilla Panchayat Dispy., At. Radhu, Tal. Matar, Dist. Kheda.
217.	Aniruddha Modha Jayantilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2370 20-1-67	Gautamnagar Society, Post Ashram Nivas, A'bad.
218.	Aniruddha Raval Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4718 31-3-75	At. Bilaj, Via. Thaltej, Tal Dasroi, Dist. A'bad.
219.	Aniruddha Shukla Harishanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1959	1268 23-10-61	C-30, Om Niketan Society, Ist Floor, Opp. javahar Pamping Station, Vasnaroad, A'bad-7.
220.	Anirudha Vyas Bhanubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8698 3-3-83	10, Vrujlal Society, College Road, At. Nadiad, Dist. Kheda.
221.	Aniruddhasinh Gohil Nanubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4584 3-12-74	At. Trapaj, Dist. Bhavnagar.
222.	Aniruddhasinh Zala Chandubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9345 21-8-85	At. & P. O. Laliyad, Via Chuda, Tal. Limbadi, Distt. Surendranagar.
223.	Anjana Mankodi Vinayakray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8083 7-5-81	C-412, Petrochemicals Township, Distt. Baroda.
224.	Anjana Mehta Trikamalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4169 5-2-74	C/o Mehta Trikamal, Prabhshan- ker, B. No. 55, Prabhuvila, Hans Society, Varachh Road, At Surat.

1	2	3	4	5
225.	Anjana Nathi Ashokkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7516 15-2-80	Sector-29, 52/2, At. & Distt. Gandhinagar.
226.	Anjana Panya Subhashchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4768 9-4-75	C/o Pandya Chinuprasad F. & Bhutadi Zapa, Sardar Bhuvan Gali At. Baroda.
227.	Anjanaben Raval Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6598 16-2-79	C/o Anilkumar Gaurishanker- Raval, At. Tamasa, Post Gundel, Tal. Khambhat, Distt. Kheda.
228.	Anjani Jariwala Navnitlal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1963	203 7-8-63	Balaji Road, Surat-1.
229.	Anjani Pandya Laxminarayan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6451 4-10-78	11, Pragati Society, Bhairavnath Road, A'bad.
230.	Ansuman Premshanker	H.P.A., P. G. T. Centre in Ay. Jamnagar, 1966	2573 22-8-67	J. P. Ayurved College, Bhavnagar.
231.	Ansuya Bhatt Nanalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7186 9-8-79	C/o N. M. Bhatt, Anad Bava's Chakala, At. Jamnagar.
232.	Ansuya Desai Naginlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1952	383 1-7-58	M. O.D.E. Jinwala, Maternity- Home, At. Ankleshwar, Distt. Baroach.
233.	Ansuya Kapadia Raghuvir	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1958	2657 2-3-68	6, Malharrav Wadi, Dadisheth, Agiyarilen, Bombay.
234.	Ansuya Parekh Gunavantbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5332 3-4-76	Muni Market, Khokahara, Mahemdavad, A'bad.
235.	Ansuya Patel Bhagubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3326 1-2-72	175, Motimchta's Pole, Vadigam, Dariapur, A'bad.
236.	Ansuya Patel Vinayakant	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1958	3969 1-5-58	3, Sardarnagar, Chhani Road, At. Baroda.
237.	Ansuya Thakar Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4178 11-2-74	C/o Dr. Ramanlal D. Thakar, Three Patti Chowk, At. Dwarka, Distt. Junagadh.
238.	Ansuya Vibhakar Vrundavandas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1954	1014 5-1-55	Vibhakar Nivas, Bhaktinagar, Society, Rajkot.
239.	Antaryami Kaswekar Porahlad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8486 6-8-82	19, Norsinhnagar Society, Naran- pura, Char Rasta, A'bad.
240.	Anubhai Shah Sakarchand	L.A.M., U. P. Ay. Mahavidyalaya, Patan, 1940	1120 15-3-41	5, Laxminarayan Society, Opp. Champaner Society, Vada] Road, A'bad.
241.	Anupkumar Ketadia Shambhubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7803 5-9-80	715, Bapunagar, Nikol Road, C/o Kotadia Cloth Store, A'bad.
242.	Annapurna Rana Niralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977 M.D. (Ay.), Gujarat Ay. Univ. 1982	7759 16-7-80	C/o N. B. Raba, 30/6, Govt. Quar. Behind Collector Office,
243.	Annapurna Oza Kanaiyalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1951	3078 25-4-51	74-A, Eaxinamurti Plot, Bhavnagar.
244.	Arabhambhai Modha Menandbhai	Ayurved Bhishak A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1973	6899 16-4-79	At. Pata, Via. Madhavpur (Ghod), Tal. Porbandar, Dist. Junagadh.
245.	Arajan Viroja Hiraji	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	7048 21-6-79	At. Kotharia, Via. Manavadar, Dist. Junagadh.
246.	Arajanbhai Sutarlya Jivrajbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8757 11-5-83	10, Shaktinagar, Main Road, Gota- lawadi (Katargam), Dist. Surat.
247.	Arajandas Malhotra Ialatekchand	Shri Vaid Kaviraj, S D. Premgiri Ay. College, Lahore, 1936	7772 17-7-80	10, State Bank of India, Officers Society, Narayannagar, Paladi.

1	2	3	4	5
248.	Arati Joshi Yadunandan	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9365 2-9-85	167, Jethabhai's Pole, Khadiya, A'bad.
249.	Arati Mehta Mahendraray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5022 29-10-75	C/o V. V. Patel Statelite Electronic Satyakam Society, A'bad.
250.	Arati Raval Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5130 23-1-76	75, Nandan Society, Bahai Centre, Sahpur, A'bad.
251.	Archana Thakar Vishnuprasad	M.D. (Ay.) Gujarat Ay. Univ. 1383	8918 24-1-84	Nandvan, Shri Hari Colony, Pani- gate, Opp. Petrol Pump, At Baroda-19.
252.	Arjan Bhalodiya Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5579 18-10-76	At. Ambalas, Tal. Talala, Dist. Junagadh.
253.	Arjan Chavda Ghunsabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3083 13-1-71	At. Hadmatiya, Post Bhadajaliya, Tal. Dhoraji, Dist. Rajkot.
254.	Arjan Faladu Kanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3585 7-9-72	At. Bhayavadar Kardiya, Tal. Upaleta, Dist. Rajkot.
255.	Arjanbhai Vadher Vanabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4638 6-3-75	At. Vasavada, Via. Petlad, Dist. Junagadh.
256.	Arjunbhai Bhungaliya Nirabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7518 15-2-80	Maniyani Khad, Nand Adadh, At. Anad, Dist. Kheda.
257.	Arjunbhai Chaudhari Dodiyaabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5306 29-3-76	At. Lotarava, Tal. Vyara, Dist. Surat.
258.	Arjunbhai Desai Delatbhai	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1968	2684 27-6-68	At. Mota Varachh St., Utran, Tal. Charyasi, Dist. Surat.
259.	Arjunbhai Garasiya Devlabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3393 22-2-72	Govt. Ay. Dispensary, Bhombha, Tal. Prantij, Dist. Sabarkantha.
260.	Arjunsinh Bariya Motisinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8587 3-11-82	At. Khudara, Post Kuvazar, Tal. Godhara, Dist. Panchmahal.
261.	Arti Mchsanil Bharatkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4553 15-10-74	685, Anandnagar, Opp. Anil Starcha Nava Bandar Road, At. Bhavnagar.
262.	Arti Otia Natubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9605 10-11-86	29, Vallabhacharya Society, Jivraj Park, A'bad-51.
263.	Arti Patha Pimashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8541 14-9-82	Gandhi Ashram Road, Nehitij, Prabhakunj Society, Godhara, Dist. Panchmahal.
264.	Arumal Jamandas Mosayomal	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1962	9268 9-4-85	134, Shastrinagar, Main Road, At. Rajkot-1.
265.	Arun Vaidya Ramakantbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979 M.D. (Ay.) Gujarat Ay. Univ. 1984	9025 16-4-84	Sultanpura, Desai's Khancha, At. Baroda-390001.
266.	Arun Kadam Laxman	B.A.M.S., Poona Univ., 1971	3469 5-4-72	At. Shelamba, Tal. Sagbara, Dist. Broach.
267.	Arun Kambale Vilsan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5055 28-11-75	C. B. Mission Compound, At. Ahava, Dist. Dang.
268.	Arun Oza Ijatrai	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1968	2679 13-6-68	Arun I. Oza, 33/194, Elerapark, Race Course Circa, Baroda-7.
269.	Arun Shah Popatlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	1122 2-12-61	1, New Commercial Society, Ellish Bridge, A'bad.

1	2	3	4	5
270.	Aruna Agravat Durlabhji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5313 29-3-76	Tulashishyam Flat, 23/6, Opp. Bhimajipura Nava Vadaj, A'bad.
271.	Aruna Bhanali Janak	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1967	7958 3-2-81	Kamalasmruti, 11, Milan Society, At. Rajkot.
272.	Aruna Dave Kantilal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1964	1768 20-7-65	Rayakval Street, At. Vyara, Dist. Surat.
273.	Aruna Oza Laxmishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3867 13-3-73	At. Sarigam, St. Bhilad, Dist. Valsad.
274.	Aruna Parikh Natvarlal	B.S.A.M., - Gujarat Ay. Univ. 1975	5248 5-3-76	At. Khanabha, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
275.	Aruna Patel Manibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3976 25-7-73	Vithal Bhaskar's Vada, Krishna- kuni, Dandia Bazar, Behind Babul Hospital, At. Baroda.
276.	Aruna Patel Bhikhabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8367 17-3-82	At., Post & Tal. Bayad, Dist. Sabarkantha.
277.	Aruna Patel Devendrakumar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9432 23-12-85	At. & P. O. Sithan, Via. Sayam, Tal. Olpad, Dist. Surat.
278.	Aruna Patel Ganeshbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9543 18-8-86	Anantwadi, Plot No. 12/B, Behind Jail Ground, At. Bhavnagar.
279.	Aruna Shah Girish	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4115 13-11-73	C/o. Chhotalal T. Gandhi, Tamaku's Vopari, At. Dhari, Dist. Amreli.
280.	Aruna Sheth Dhirajlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3719 5-1-73	Sheth Sheri, At. Dharmfa, Tal. Jamjodhapur, Dist. Jamnagar.
281.	Aruna Solanki Chhaganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5184 18-2-76	At. Visavad, Via. Lunidhar, Dist. Rajkot.
282.	Aruna Trivedi Jagdishchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	3113 10-2-71	53, Digvijay Plot, Ramesh Kunj, At. Jamnagar.
283.	Aruna Upadyay Kanalyalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5217 26-2-76	6/6, Mitramandal Society, Usman- pura, A'bad.
284.	Arunaben Chaudhari Vadasibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	8119 17-7-81	At. Novania, Post. Vansakui, Tal. Mahuva, Dist. Surat.
285.	Arunaben Gujar Arjunsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5268 9-3-76	At. Idar, Dist. Sabarkantha.
286.	Arunaben Machhar Janakray	Ayurved Madhayama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1979	9529 1-7-86	Lavingiya Chakrda Sheri, Nama- Kotha Road, At. Bhavnagar-364001.
287.	Arunaben Ngyak Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6062 8-3-78	At. Talod, Tal. Gandevi, Via Bilimora, Dist. Valsad.
288.	Arunaben Patel Jashabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8230 24-11-81	At & P. O. Mitral, Tal. Nadiad, Dist. Kheda.
289.	Arunaben Patel Manubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8353 11-3-82	At. & Post Zarola, Tal. Borsad, Dist. Kheda.
290.	Arundhati Pandit Kailasnath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4214 19-2-74	27, Kailashbhuvan, Vasantnagar, Mainagar, A'bad.
291.	Arudhanti Pandya Nandkrishna	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5322 2-4-76	C/o. Pandya Nandrishna P. Baj- vada, Kotekot, At. Baroda.
292.	Arunkumar Vaidya Balvantram	B.A.M.S., Gujarat Univ. 1964	1591 19-1-65	5/1036, Ramnath Mahadev's Sheri, Gujjar Falia, Haripura, At. Surat-3.

1	2	3	4	5
293.	Arunkumar Arya Ravidatt	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4521 23-9-74	Rashtriy Ay. Dispensary, Sharad-dhanand Bazar, At. Vyavar, Dist. Ajmer (Raj.).
294.	Arunkumar Jani Mulshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5574 18-10-76	At. Polarpur, Tal. Dhandhuka, St. Bhimnath, Dist. A'bad.
295.	Arunkumar Joshi Bhaishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3723 8-1-73	At. Arjansukh, Via. Vaidya, Tal. Kukavav Jn., Dist. Amreli.
296.	Arunkumar Joshi Manubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8741 19-4-83	Amatha Shethwada, Parnaka, At. Kalyan, Dist. Thana (Maharashtra).
297.	Arunkumar Kapadiya Govindlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7946 17-1-81	At. & Post Chetarsumba, Tal. Thasara, Dist. Kheda.
298.	Arunkumar Limbani Mohanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4022 30-8-73	At. Sarsiya, Tal. Dhari, Dist. Amreli.
299.	Arunkumar Nayak Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6174 6-6-78	Suhasnagar Society, Near Income-tax, A'bad.
300.	Arunkumar Patel Nagindas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5511 2-9-76	At. Malav, Tal. Kalol, Distt. Panchmahal.
301.	Arunkumar Rav Rajanikant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6560 12-2-79	Narayan Nivas, At. Kunjarao, Via. Anand, Dist. Kheda.
302.	Arunkumar Ribadia Nanajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7628 20-3-80	Ambikabhuvan, Near Bank of India, Opp. Maninapur Stn., A'bad.
303.	Arunkumar Trivedi Himmatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5355 20-4-76	Gayatri Nivas, Khodpara, At. Jetpur, Dist. Rajkot.
304.	Arunkumar Vajriya Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3030 14-8-70	C/o. Narendra M. Dave, Lakhdirvas, Opp. Gadh's Rang, At. Morbi, Dist. Rajkot.
305.	Arunkumar Vyas Sankaleshwar	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1961	1080 25-3-63	Rokadia Darwaja, At. Patan, Dist. Mehsana.
306.	Arunkumar Parekh Purshottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6474 19-1-79	At. Kesindra, Tal. Sankeda, Dist. Baroda.
307.	Arunrai Mankad Janakrai	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1965	1873 7-12-65	C/o. Dr. J.S. Mankad, New Nagar Road, Junagadh.
308.	Arvind Bhanushali Laxmidas	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8951 17-2-84	At. Shirava, Tal. Mandavi, Dist. Kutch.
309.	Arvind Bhavsar Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3574 4-9-72	At. Birpur, Tal. Balasinor, Dist. Kheda.
310.	Arvind Chokasi Jashavantlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1959	176 3-8-59	Vada Pada, At. & Post Broach.
311.	Arvind Gupte Shankerrao	B.I.M.S., Board of AUSM, Delhi Admn., 1958	156 25-6-62	D.S.R. Unit. G A V M P. Laboratory, C/o Joshipura, At. & Dist. Junagadh.
312.	Arvind Gavsinde Dirishchandra	B.A.M.S., Indore Univ., 1976	6416 18-11-78	178, M G. Road, Maheshwar, Dist. West Nimar.
313.	Arvind Khengar Digambarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9023 16-4-84	D-5, 70, Umarvada Colony, Kamla Gate, Ring Road, Surat-2.
314.	Arvind Nanavati Bachubhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1964	1447 11-6-64	66, Vallabhanagar, Odhavroad, A'bad.
315.	Arvind Shah Kantilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1953	2469 2-11-53	At. Rumala, Via. Khergam, Tal. Chikhali, Dist. Valsad.

1	2	3	4	5
316.	Arvind Trivedi Shankeral	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4722 31-3-75	Vagheashwari Chowk, At. Vadha- van Clty, Dist. Surendernagar.
317.	Arvind Trivedi Ramakant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6092 21-3-78	Sector No. 16, Ch. 717, Gandhi- nagar.
318.	Arvind Trivedi Dhirajlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7987 25-2-88	D.A.V. School, Parimal, At. Bhav- nagar.
319.	Arvinda Jani Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8065 27-4-81	Race Course Road, Opp. Vidyut- bhuvan, At. Baroda.
320.	Arvindbhai Babubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5790 30-4-77	Balsathi Office, At. Nadiad, Dist. Kheda.
321.	Arvindbhai Pandya Umiyashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6082 15-3-78	At. Kathana, Tal. Borsad, Dist. Kheda.
322.	Arvindbhai Patel Tribhovandas	G.F.A.M, Fac. of AUSM, Bombay 1958	492 2-2-59	1, Bharat Colony, Post Navjivan, A'bad.
323.	Arvindbhai Patel Zaverbhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1963	493 11-7-63	Palej, Dist. Broach.
324.	Arvindbhai Patel Muljibhai	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1965	1859 30-11-65	At. Masrroad, Tal. Padara, Dist. Baroda.
325.	Arvindbhai Patel Maganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3146 3-3-71	At. Pipalag Bhagat's Khadaki, Tal Nadiad, Dist. Kheda.
326.	Arvindbhai Patel Maganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3599 15-9-72	At. Papalag, Tal. Kadiad, Dist. Kheda.
327.	Arvindbhai Patel Narsinhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3849 8-3-73	At. Sundarpur, Post Radodara, Tal. Bapad, Dist. Sabarkantha.
328.	Arvindbhai Patel Keshavbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4012 24-8-73	At. Kelod, Tal. & Dist. Broach.
329.	Arvindbhai Patel Avichalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4300 27-3-74	At. Kelod, Dist. Broach.
330.	Arvindbhai Patel Zaverbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4780 16-4-75	38-B, Vallabhanagar Society, Kareli Bag, Opp. Mental Hospital.
331.	Arvindbhai Patel Jathabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	8084 4-6-81	At. & Post Ramochi, Tal. Bayad, Dist. Sabarkantha.
332.	Arvindbhai Patel Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8118 17-7-81	632, Punit Pole, Wadigam-Dariapur, A'bad.
333.	Arvindbhai Patel Narsinhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4936 26-8-75	At. Sathamba, Tal. Bayad, Dist. Sabarkantha.
334.	Arvindbhai Trivedi Karunashankar	Vaidyacharya, A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1967	6640 21-2-79	Mali's Khanch, Paladi Gum, A'bad.
335.	Arvindbhai Valand Shanabhai	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1978	6485 1-2-79	At. Thamana, Tal. Anand, Dist. Kheda.
336.	Arvindkumar Vaidya Moghabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3985 31-7-73	At. Kansad, Via Sachin, Tal. Chor- yasi, Dist. Surat.
337.	Arvindkumar Bhatt Dayalibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4347 20-4-74	At. Viradi, Via. Vanda, Dist. Bhav- nagar.
338.	Arvindkumar Bhatt Durgashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4404 12-6-74	Zala Saheb's House, At. Vatej, Dist. Bhavnagar.

1	2	3	4	5
339.	Arvindkumar Bharti Chatursinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5099 23-12-75	9/100, Sundarama, Kaharvad, At. Navsari, Dist. Valsad.
340.	Arvindkumar Chaturvedi Vasudevabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3996 7-8-73	Dumral Bazar, Near Santram-Tower, At. Nadiad, Dist. Kheda.
341.	Arvindkumar Chhichhiya Madhudas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4247 11-3-74	Navapara, At. Aliyabada, Dist Jamnagar.
342.	Arvindkumar Dave Balavantra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3016 5-8-70	C/o Natvarlal Jagannath Dave, Near Chhatra, At. Chuda, Dist. Surendra- nagar.
343.	Arvindkumar Desai Manganlal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1968	2677 7-6-68	11, Mahadevnagar Society, Sagram- pura, Surat-2.
344.	Arvindkumar Joshi Kantilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2127 4-8-66	At Isand, Tal. Kalol, Dist. Mehsana
345.	Arvindkumar Joshi Payarelal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2398 16-2-67	Palkar Kh. nva's, Ganeshbhuvan, Opp. Khanderav Market, Baroda-1.
346.	Arvindkumar Katira Shantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9119 23-8-84	Risala Line, At. Nava Disa, Dist. B.K.
347.	Arvindprasad Limbabhiya Govindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7824 24-9-80	At. Padusama, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
348.	Arvindkumar Mehta Vrujjal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	6532 3-2-79	Opp. Swaminarayan Temple, Java- har-Bag Road, At. Rajula City, Dist. Amreli.
349.	Arvindkumar Mlstri Prahldji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7944 17-1-81	Boring Chali, At. & Tal. Harlj, Dist. Mehsana.
350.	Arvindkumar Modi Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5998 27-12-77	At. Pilavai, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
351.	Arvindkumar Oza Maganlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra, 1957	80 1-12-58	No. 16, Second Crosslane, Old Hanumangali, Bombay-1, B.R.
352.	Arvindkumar Oancholi Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3111 9-2-71	At. Prantiya, Via. Dabheda, Tal. & Dist. Gandhinagar.
353.	Arvindkumar Pandya Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3972 20-7-73	C/o Dr. Maganlal B. Pandya, Mahatma Gandhi Road, At. Bantva.
354.	Arvindkumar Patel Ishwarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4770 9-4-75	At. Valam, Tal. Visnagar, Dist. Mehsana.
355.	Arvindkumar Patel Devrajbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5728 15-3-77	At. Saras, Tal. Mahemiabad, Dist. Kheda.
356.	Arvindkumar Patel Fulabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	6149 4-5-78	At. & Post Rarod, Tal. Karjan, Dist. Baroda.
357.	Arvindbhai Patel Bhudarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7692 29-4-80	At. Bhavpura, Tal. Kadi, Dist. Mehsana.
358.	Arvindkumar Patel Chimanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8143 3-9-81	R. No. C-6, Bindu Society, Ghode- sar, At. A'bad.
359.	Arvindkumar Patel Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9099 31-7-84	22, Aradhanapark Society, Jawa- har Chowk, Sabarmati, A'bad-5.
360.	Arvindkumar Purohit Nathalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2761 9-4-69	At. Kalvani, Via. Keshod, Dist. Junagadh.
361.	Arvindkumar Shah Babaladas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3114 10-2-71	Old Bazar, At. Idar, Dist. Sabar- kantha.

1	2	3	4	5
362.	Arvindkumar Shah Dharamchand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4218 19-2-74	At. Chorivad, Tal. Idar, Dist. Sabarkantha.
363.	Arvindkumar Shukla Harishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3019 5-8-70	Near Ambaji Mata, At. Sanand, Dist. A'bad.
364.	Arvindkumar Shukla Ramniklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3549 17-8-72	C/o R.P. Shukla Medical Disp., At. Dadava (Randalava), Tal. Uma- rala, Dist. Bhavnagar.
365.	Arvindkumar Soni Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	9198 30-1-85	"Sagar Clinic", Raj Laxmi Society, Thakkarbapanagar Road, Behind- India Colony, Bapunagar, A'bad.
366.	Arvindkumar Trivedi Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	5066 15-11-75	At. Petali, Via. Nadiad, Dist. Kheda.
367.	Arvindkumar Trivedi Kuberdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7930 29-12-80	Kadiyavad, At. Lamavada, Dist. Panchmahal.
368.	Arvindkumar Trivedi Natvarlal	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1972	8273 5-1-82	Dhandhalpur, Taj. Sayala, Dist. Surendranagar.
369.	Arvindkumar Upadhyay Ramshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4713 31-3-75	B. No. 1/1, Bhaktinagar, Nikol Road, New Bapunagar, A'bad.
370.	Arvindsinh Solanki Gulabsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8017 3-4-81	At. & Post Tal. Olpad, Dist. Surat.
371.	Arvindrai Desai Ishwarlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1963	1438 16-5-64	10/1035, Setan Faliya, Gopipura, Surat-2.
372.	Asha Valdia Prahlabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7859 10-10-80	778, Pathak Kancha, Bhau's Pole, Raipur, A'bad.
373.	Asha Agravat Bhanuyhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3842 2-3-73	Ram Temple, At. Juthan, Via. Malia-Hatina, Dist. Junagadh.
374.	Asha Bhatt Prabhashankar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7905 14-11-80	C/o F.L. Bhatt, State Bank Colony, Station Road, At. Jam-Khambhalia, Dist. Jamnagar.
375.	Asha Dave Ghanshyambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8661 10-2-83	C/o G.A. Dave, S.P. Master, B. No. 1, Navjivan Mill, At. Kalol, Dist. Mehsana.
376.	Asha Jarivala Duneshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8235 9-12-81	11, Darshna Society, Nanpur, Tima- liyavad, Surat.
377.	Asha Kapasi Nanalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	7109 13-7-79	Behind Jain Derasar, At. Palitana, Dist. Bhavnagar.
378.	Asha Oza Harinandbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9275 2-5-85	Om Bus Stand Society, Jetpur Road, Near Housing Board Colony, Gond- dal-360 311, Dist. Rajkot.
379.	Asha Tahilramani Sundardas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8786 16-6-83	B. No. 91/3, Thakkarbapanagar, A'bad-382 350.
380.	Asha Vasa Chamanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7057 21-6-79	C/o G.V. Vasa, 28, Panchahil Socie- ty, At. Jotpur (Kathi), Dist. Rajkot.
381.	Asha Vyas Dineshkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8280 16-1-82	C/o Dineshkumar Kalidas Vyas, Azad Chowk, Ghiya's Khadaki Naroda, Tal. City, Dist. A'bad.
382.	Ashaben Bharati Rameshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4590 12-12-74	At. Malivad, Tal. Vyara, Dist. Surat.
383.	Ashalata Barot Hariprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5234 1-3-76	7, Vallabhpark Society, Near New Railway Colony, Sabarmati, A'bad.
384.	Ashalata Chaudhari Vasantrao	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4293 27-3-74	C/o Vasantrao Kashiram Chaudhari, Jilla Panchayat Shixan Samiti, At. Ahava, Dist. Dang.

1	2	3	4	5
385.	Ashalatta Pavar Marutlilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	5086 18-12-75	C/o P.M. Parmar Primary Health Centre, At. Pethapur, Via. Dahod, Tal. Zalod, Dist. Panchmahal.
386.	Asharafkhan Yusufzao Saliya Motifedikhani	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9411 19-10-85	Mamanwada, Near Pagathiya, At. Junagadh.
387.	Ashok Chaturvedi Rohitshyam	B.A.M.S., Indore Univ., 1979	8625 13-1-83	C/o Dr. R.P. Chaturvedi, Medical Officer, Mobile Dispensary, 2/52, Kutch-370 165.
388.	Ashok Dave Dinubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8327 17-2-82	Bajvada, Khatripole, Baroda-380 009.
389.	Ashok Delavi Ganesh	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, Maharashtra 1977	6248 23-8-78	185, Anandnagar, Guj. Hou. Board, Gorva Road, Baroda-3.
390.	Ashok Kukarni Shrikarishna	B.A.M.S., Univ. of Poona 1971	4525 24-9-74	Krishna Smruti, At. Umbargam, Dist. Valsad.
391.	Ashok Mehta Sunderlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3234 30-8-71	39, Gandhigram Colony, Karoli Bag, At. Baroda.
392.	Ashok Pandya Natarlal	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3740 1-2-73	C/o J.V. Bhatt, Near Chipiyavala- bava, Nagar Road, At. Junagadh.
393.	Ashok Pandya Somnathbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8023 3-4-81	951, Bhat's Pole, Gomatipur, A'bad.
394.	Ashok Shahane Nilachand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5179 18-2-76	C/o D.N. Shahane, J-6, Civil Hos- pital, A'bad.
395.	Ashok Soni Rasiklal	B.S.A.M., Gujarat Univ. Ay., 1977	6611 21-2-79	H. No. 57, Room No. 494, Govt. Colony, Shah Alam Tolnaka, A'bad.
396.	Ashokbhai Patel Kantibhai	Ay. Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1972	6724 9-3-79	Radhaswami Savanbag, Bindu- Service Road, At. Siddhapur, Dist. Mehsana.
397.	Ashokchandra Vaidya Bachubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6227 10-8-78	5/710, Bhavanivad, Haripura, Tal. Choryasi, Dist. Surat.
398.	Ashokkumar Agravat Amrutlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1816 5-10-65	Matavasheri, At. Jetpur, Dist. Rajkot.
399.	Ashokkumar Bhatta Vasudev	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8120 17-7-81	Bazar Street, At. & Post Shukla Barth, Tal. & Dist. Broach.
400.	Ashokkumar Bhavsar Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4577 20-11-74	At. Majadar, St. Chhapi, Tal. Vad- gam, Dist. Banaskantha.
401.	Ashokkumar Dave Shankarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3760 6-2-73	C/o Narendraprasad S. Dave, Mota Adadh, Dhobi Tekra, At. Anand, Dist. Kheda.
402.	Ashokkumar Dave Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4756 7-4-75	Amraivadi, Bhilvada, Vastrpur Road, Pathan's Chali, R. No. 3, Mani- nagar, A'bad.
403.	Ashokkumar Dave Netraprasad	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6784 21-3-79	29-A, Keshavbag Colony, Ramnagar, Sabarmati, A'bad.
404.	Ashokkumar Dave Jamandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8510 27-8-82	C/o J.B. Dave, Madanvad, Opp. Balmandir, Valsad-396 001.
405.	Ashokkumar Desai Indravadan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5870 2-9-77	12/108, Guj. Hou. Board, Near Water Tank, At. Kalol, Dist. Mehsana.
406.	Ashokkumar Ghivala Kantlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8207 2-11-81	Hou. 3/112, Parasi, Sheri, Nava Pura, At. Surat.

1	2	3	4	5
407.	Ashokkumar Jethi Ramabhai	B.S. A. M., Gujarat Ay. Univ., 1971	6187 5-7-78	Jashvila Madansapa Road, Moti Tambolivad, At. Baroda.
408.	Ashokkumar Joshi Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3158 20-3-71	At. Valam, Tal. Visnagar, Distt. Mehsana.
409.	Ashokkumar Joshi Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5670 15-2-77	At. Rudan, Tal. Mahemdabad, Distt. Kheda.
410.	Ashokkumar Joshi Nareshbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8319 10-2-89	B/2, Vinay Society, Ajava Road, Baroda.
411.	Ashokkumar Lalvani Ramchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6322 27-9-78	13, Muktinagar, Juna Padara Road, Near Besil School, Baroda.
412.	Ashokkumar Mehta Bhimatray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4730 1-4-75	Shah Bhavan Jalal Por Road, Ward No. 1068/6, At. Navsari.
413.	Ashokkumar Mehta Bhogilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7821 24-9-80	At. Mobha Road, Tal. Padara, Distt. Baroda.
414.	Ashokkumar Mehta Balashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8198 12-10-81	At. & Post Dodiya, Tal. Jsdan, Dist. Rajkot.
415.	Ashokkumar Parekh Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8706 16-3-83	At. & Post Nandej (Barejadi), Tal. Dasroi, Distt. A'bad-382435.
416.	Ashokkumar Patel Pursottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5194 25-2-76	At. Pogalu, Tal. Prantij, Distt. Sabarkantha.
417.	Ashokkumar Patel Bhailal bhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5530 17-9-76	At. Kashipura, Via. Kosindra, Distt. Baroda.
418.	Ashokkumar Patel Harjivandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6860 2-4-79	B. No. 10, Dudheshwar Colony, Ajava Road, Baroda.
419.	Ashokkumar Patel Jashbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7208 20-8-79	At. Vathvani, Tal. Nahemdavad, Distt. Kheda.
420.	Ashokkumar Patel Naginbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7207 20-8-79	At. Chakalashi, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
421.	Ashokkumar Patel Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7527 15-2-80	At. Sundalpur, Tal. Anand, Distt. Kheda.
422.	Ashokkumar Patel Ranchhodlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8448 15-6-82	At. & Post Sonasan, Tal. Prantij, Distt. Sabarkantha.
423.	Ashokkumar Patel Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8509 27-8-82	18, Adarsh Society, Near Technical School, At. Kale, Distt. Mehsana.
424.	Ashokkumar Patel Motibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8597 13-12-82	At. & Post Derol Gam, Vepari-Falia, Tal. Kalol Distt. Panchmahal.
425.	Ashokkumar Pathak Chimanlal	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat 1966	2053 14-6-66	Opp. Jubulibag, Balaji Temple, At. Baroda.
426.	Ashokkumar Pujari Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8694 3-3-83	Near Radhakrushna Temple, Bopalgam, Tal. Dasroi, Distt. A'bad.
427.	Ashokkumar Raval Amrutlal	B.A.M.S., Vikram Univ., 1977	6804 21-3-79	Shri Krishna Hou. Society, R. No. 4, At. Barvala (Ghelashā), Tal. Dhandhuka, Distt. A'bad.
428.	Ashokkumar Raval Rameshwar	B.A.M.S., Vikram Univ., 1974	8296 5-2-82	At. & Post Mandavada, Tal. Raipur, Distt. Khorgone (M. P.)
429.	Ashokkumar Shah Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6097 21-3-78	At. & Post & Tal. Veghediya, Distt. Baroda.

1	2	3	4	5
430.	Ashokkumar Shah Babulal	Ay. Madhyama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda, 1977	6812 22-3-79	3, Chintamani Society, Sabarmati, A'bad.
431.	Ashokkumar Shah Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7435 12-12-79	109, Shardanagar Society, Near Nava Vikashgruh, Paladi, A'bad.
432.	Ashokkumar Shah Dasharathlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8243 9-12-81	Govt. Dispensary, At. Bahiyal, Tal. Dahegam, Distt. A'bad.
433.	Ashokkumar Shah Megharaj	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8724 19-4-83	Post Office Road, At. Kosamba (R.H.), Tal. Mangarol, Distt. Surat.
434.	Ashokkumar Shah Manharlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8847 19-9-83	At. & Pst Dhadkan, Tal. Prantij, Distt. Sabarkantha.
435.	Ashokkumar Suthar Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6828 22-3-79	240, Umiyadevi Society, Vibhag No. 1, Khokaramahemdavad, A'bad.
436.	Ashokkumar Talaviya Shamjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3191 28-4-71	At. Charkhadiya, Tal. Savarkundala, Distt. Bhavnagar.
437.	Ashokkumar Thakar Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7986 25-2-81	Ravantari Bhavan, Near Co-op. Bank, Javahar Road, At. Junagadh.
438.	Ashokkumar Thakar Jivanji	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Maharashtra, 1967	8106 20-6-81	312, Kalabadevi Road, Near Swadeshi Market, Bombay.
439.	Ashokkumar Tivari Vishwaprakash	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4362 29-4-74	C/o V. P. Tivari, Asstt. St. Master, At. Mehsana.
440.	Ashokkumar Trivedi Shantilal	Ay. Madhyama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda, 1978	6493 1-2-79	Brahmpole, At. Nahclav, Tal. Pctlad, Distt. Kheda.
441.	Ashokkumar Trivedi Premshanker	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1965	7416 29-11-79	Opp. Siliket's Kharkhana, At. Joravarnagar, Tal. Vadhavan, Distt. Surendrangar.
442.	Ashokkumar Upadhyay Bhaishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6409 18-11-78	36, Unnatnagar Society, Bhagvati Nivas, At. Una, Distt. Junagadh.
443.	Ashokkumar Upadhyay Hariprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	810 21-7-83	At. Parbiya, Post Jetholi, Tal. Balasinor, Distt. Kheda-388266.
444.	Ashokkumar Varma Balkishan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6829 22-3-79	14, Aryavrat Society, Khokhara-Mahemdavad, A'bad.
445.	Ashokkumar Vaidya Mansukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5040 19-11-75	1/2020, Jamrikh Gali, Nanpura, Surat-1.
446.	Ashokkumar Varma Trikamlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5562 13-10-76	16, Vijaynagar Hou. Society, Vedmandir, Kakaria, Road, A'bad.
447.	Ashokkumar Vyas Karunashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6239 19-8-78	Modi Santh, Opp. Pateliya Pole, Near Handbhuvan, At. Nadiad.
448.	Ashokkumar Vyas Bhanuprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7177 7-8-79	At. Kavitha, Tal. Bowasad, Distt. Kheda.
449.	Ashokkumar Vyas Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8035 10-4-81	Navdurga Society, 17, Gayatri-Nivas Modash Road, Opp. Khadayata Bording, Kapadvanj-387 620.
450.	Ashokkumar Vyas Ramanlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1982	8514 27-8-82	At. & Post Mahelol, Tal. Godhara, Distt. Panchmahal.
451.	Ashoksinh Parmar Sabalsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9029 16-4-84	Baharpara, Fulwadiwala's Khancho, At. Palitana.
452.	Ashutosh Vaidya Sharadchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5860 30-8-77	Kikabhai, Street, At. Gandevi, Distt. Valsad.
453.	Ashutosh Shastri Vishwanath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4724 1-4-75	At. Vatadara, Tal. Khamabhat, Distt. Kheda.

1	2	3	4	5
454.	Asutesh Solanki Balubhai	B.S.A.M., Gujart Ay. Univ., 1981	8636 28-1-83	At. Nesadi, Tal. Savarkundala, Distt. Bhavnagar.
455.	Ashwin Chitalia Ratilal	B.A.M.S., Univ. of Sagar, 1977	6953 1-5-79	C/o Visavadar Medical Store, At. Visavadar, Distt. Junagadh.
456.	Ashwin Dwivedi Mulshankerbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4909 9-7-75	Bechar Lashakari's Bangala, Outside Delhi Gate, A'bad.
457.	Ashwin Shahiwala Nandkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5309 29-3-76	5, Sevakunj Society, Fatehnagar, A'bad.
458.	Ashwin Shukla Girajashanker	Ay. Bhisak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1973	7419 29-11-79	Shukla Bhuvan, 1, Laxmivadi, At. Rajkot-2.
459.	Ashwinaben Thakar Bhairajlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7573 1-3-80	Jalaram Ashish, Near Railway Station, At. Analsad, Distt. Valsad.
460.	Ashwinkumar Ashar Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6985 7-5-79	C/o Dr. M. M. Ashar, At. Lala- vad, (Shitala), Distt. Jamnagar.
461.	Ashwinkumar Barot Amarsinbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6363 13-10-78	Sardarpole, At. Kheda, Tal. Mahem- dabad, Distt. Kheda.
462.	Ashwinkumar Bhavasar Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4668 20-3-67	At. Deva, Tal. Petlad, Distt. Khade.
463.	Ashwinkumar Bhatt Kaushikchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3389 19-2-72	At. Karasad, Post & Tal. Valia, Distt. Broach.
464.	Ashwinkumar Bhatt Vahwarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7270 12-9-79	Soni Falia, At. Abrama, Station Vedachh, W. R.
465.	Ashwinkumar Bhilocha Ganpatram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981.	8919 8-2-84	Gh-270/1, Sector-19, At. Gandhi- Nagar.
466.	Ashwinkumar Chag Valajibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9222 19-2-85	Jalaram Krupa, 2, Kayaji Plot, At. Morabi, Distt. Rajkot.
467.	Ashwinkumar Chandarana Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7932 29-12-80	At. & Post Shihori, Tal. Kankarej, Dist. Banaskantha.
468.	Ashwinkumar Dave Laxmichandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5583 18-10-76	At. Unai, Via. Bilimora, Dist. Valsad.
469.	Ashwinkumar Dave Makanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6228 10-8-78	At. & Post Kadana, Tal. Sant- rampur, Dist. Panchmahal.
470.	Ashwinkumar Dixit Balmukund	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4594 1-1-75	10-B, Haridas Colony, Navjivan- Press Road, Opp. Guj. High Court, A'bad.
471.	Ashwinkumar Gosai Anandgiri	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9635 5-12-86	At. & P.O. Ajol, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
472.	Ashwinkumar Joshi Madhusudan	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9237 12-3-85	Near Old Civil Court, At. & Tal. Bordas, Dist. Kheda.
473.	Ashwinkumar Kubavat Laldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5629 15-12-76	At. Manipur, Via. Kalol, Tal. Kadi, Dist. Mehsana.
474.	Ashwinkumar Mahavadiya Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6742 15-3-79	Qua. No. B-3, ESI Dispensary No. 18, A'bad.
475.	Ashwinkumar Nagarsheth Punjalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4975 15-10-75	Dadar Madhavvadl, 3rd Floor, R. No. 22, Naigav Cross Lane, Bom- bay-14.
476.	Ashwinkumar Pandya Dinubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5452 6-7-76	Dabagarvali Sheri, Bhagatavlav, At. Bhavnagar.
477.	Ashwinkumar Parmar Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5867 30-8-77	8, Dipmangal Society, Opp. Public- Hospital, Nanpura, Surat.

1	2	3	4	5
478.	Ashwinkumar Patel Ambalal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1962	495 26-6-62	27, Vandan Park, Behind Mani- nagar Station, A'bad.
479.	Ashwinkumar Patel Chunilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1962	496 6-3-63	At. Balol, Tal. & Dist. Mehsana.
480.	Ashwinkumar Patel Punambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4474 30-8-74	Moghaji Kaka's Khadari, At. Ban- dhani, Tal. Petlad, Dist. Kheda.
481.	Ashwinkumar Patel Maganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5961 18-11-77	Ushakunj Rajmahal Road, Khande Rao Market, Opp. Vijay Photo Studio, At. Baroda.
482.	Ashwinkumar Patel Harmanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5339 8-4-76	At. Adash Road, Tal. Anand, Dist. Kheda.
483.	Ashwinkumar Patel Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7947 17-1-81	1, Mill Kamdar Society, Near Vak- hariya High School, At. & Tal. Kalol, Dist. Mehsana.
484.	Ashwinkumar Patel Haribhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8212 2-11-81	At. Valasan, Via. & Tal. Panelimoti, Dist. Junagadh.
485.	Ashwinkumar Shah Kantilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1965	1887 10-10-65	C/o Kantilal Chotalal Shah, Post Kovidycolony, Via. Rajpipala, Dist. Broach.
486.	Ashwinkumar Shah Ishwarlal	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1976	6585 16-2-79	Vaidya's Khadaki, At. Amod, Dist. Broach.
487.	Ashwinkumar Shah Champaklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8866 1-11-83	"Nirmal", High School Road, At. Jasdan, Dist. Rajkot.
488.	Ashwinkumar Sheth Bhailal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4105 2-11-73	C/o Dr. B.M. Sheth, At. Gadhada (Swamina), Tal. Gadhada, Dist. Bhavnagar.
489.	Ashwinkumar Trivedi Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3488 19-4-72	At. Undel, Tal. Cambe, Dist. Kheda.
490.	Ashwinkumar Udhareja Valajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6603 21-2-79	Laxman Nivas, Shakti Plot, Shori No. 7, At. Morabi, Dist. Rajkot.
491.	Ashwinkumar Vyas Bhavanishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5775 26-4-77	Rangilapole, At. Kapadvanj, Dist. Kheda.
492.	Ashwinsinh Parmar Mohansinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8729 19-4-83	Parmar Farm, Naroли Road, At. Selvas, Dist. Dadarnagar Haveli-396 230.
493.	Asmita Dave Jayantihal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5886 20-9-77	Vrajvasi Aushadhalaya, Vadvali Sheri, At. & Dist. Kheda.
494.	Asmita Joshi Kumudchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6427 2-12-78	Krishnanagar Hou. Society, 52, B/819, Saijpur Bogha, A'bad.
495.	Asmita Patel Narayanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8063 27-4-81	6, Shariji Prakash Society, Opp. Dena Bank, Amaraivadi, A'bad.
496.	Atil Trivedi Prabhashanker	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	301 2-1-62	"Tejas", Bhaktinagar, At. Rajkot.
497.	Atmaram Joshi Laxmishanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1968	2642 29-1-68	At. Ratiya, Via. Porbandar, Dist. Junagadh.
498.	Atmaram Ramsnchi Paryagdasji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	4139 20-12-73	Ramdvara, At. Mathlia, Dist. Jodhpur.
499.	Atulechandra Darviya Amrutlal	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6888 12-4-79	At. Duniyani, Via. Sup'di, Tal. Upoleta, Dist. Rajkot.
500.	Atulkumar Kumudchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5202 26-2-76	Salabatpura, Main Road, Opp. Police Gate, Surat.
501.	Atulkumar Bhagat Manharlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9082 29-6-84	Vania Wad, At. Chikhali, Dist. Valsad-396 521.

1	2	3	4	5
502.	Atulkumar Kankhara Anandlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9334 9-8-85	58, Digvijay Plot, "Shri Gopalidham, At. Jamnagar.
503.	Atulkumar Pandya Dilsukhray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7593 14-3-80	Bhadra, Gandhigram, At. Juna- gadh.
504.	Atulkumar Shah Nagindas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7646 20-3-80	At. & Post Delol, Tal. Kalol, Dist. Panchmahal.
505.	Atulkumar Shah Manubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1983	9147 10-9-84	41, Bhuyangdev Society, Sola Road A'bad-61.
506.	Atulkumar Shukla Balkrushna	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7877 14-11-80	Modival Qua., At. Jesar, Post. Savarkundala, Dist. Bhavnagar.
507.	Atulkumar Vyas Vasantray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4904 3-7-75	Hariom Clinic, Meni Road, Olpad, Dist. Surat.
508.	Atulkumar Vyas Shivubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8299 5-2-82	The Ranshala Aushadh Ashram, Mahadevvadi, At. Gondal, Dist. Rajkot.
509.	Atulkumar Vyas Mugatlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8898 24-1-84	Behind Town Hall, Opp. Vibhaji High School, At. Jamnagar.
510.	Atulkumar Thakar Vrujlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8285 25-1-82	C/o Vrujlal M. Thakar, Kalava Chowk, Opp. M.D.S. College, Near Lodge, Junagadh.
511.	Avaahal Sadatiya Amarshi	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2033 6-6-66	At. & Post Khakhrala, Via. Morbi, Dist. Rajkot.
512.	Avadhutkumar Tripathi Devdatbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5622 3-12-76	7-A, Sarswati Society, Behind Jain Merchant Society, Sarkhej Road, A'bad.
513.	Avanindrakumar Aptel Moraarbhai	Ayurved Alankar, Ay. College, Gurukul Univ. Kangri (Hardwar), 1953	498 2-11-53	At. Akoti, Tal. Barodoli, Dist. Surat.
514.	Avanidrakumar Thakur Kishandas	B.A.M.S., Indore Univ., 1977	7256 5-9-79	94, New Road, At. Sajapur (M.P.)
515.	Avantika Patel Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8699 16-3-83	Lilotari Bazar, Ganesh Chowk, At. Post Jambusar, Dist. Broach.
516.	Avantikumar Shah Devkaran	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1961	1121 26-4-62	A.D. Shah, M.V.M. Civil Hospital, Veraval.
517.	Avinash Desai Bhagvandas	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9188 11-12-84	Malivaga, At. & Tal. Sankheda, Dist. Baroda.
518.	Avinash Pandya Shivshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4015 24-8-73	At. Kavand, Tal. Chhote Udepur, Dist. Baroda.
519.	Avinash Sura Hiralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3380 17-2-72	At. & Post Virpur, Tal. Balasinor, Dist. Kheda.
520.	Avinash Zope Baliram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5403 17-5-76	At. Borkhede, Post Marul, Tal. Yaval, Dist. Jalgaon.
521.	Avinash Trivedi Bhanushanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5988 6-12-77	C/o B.J. Trivedi, 380, Nava A-2, Type Qua., At. Mithapur, Tal. Dwarka, Dist. Jamnagar.
522.	Axaykumar Kantharia Yogeshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8331 17-2-82	49, Nirmal Society, Vatva Road, Maninagar, A'bad.
523.	Axaykumar Shah Vitthalidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5364 22-4-76	B-19, Raghukul Society, Near Shahi- Bag Railway Crossing, A'bad.
524.	Azadkumar Jain Dhankumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	5678 24-2-77	Jayhind Restaurant, Opp. S.T. Stand At. Vaghodiya, Dist. Baroda.

1	2	3	4	5
525.	Baba'bhaj Patel Amishandbhaj	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3010 1-8-70	At. Balisana, Tal. Patan, Dist. Mehsana.
526.	Babu Shekh Kasam	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6245 19-8-78	Vadava Talavadi, Near Mangal Vihar, Bhavnagar.
527.	Babubhai Bhdiya Mohanbhaj	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4854 22-5-75	At. Virsad, Tal. Borsad, Dist. Kheda.
528.	Babubhai Charan Shantibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8169 10-9-81	At. & Post Verasana, Tal. Idar, Dist. Sabarkantha.
529.	Babubhai Desai Balajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4783 16-4-75	Desai Vado, At. Kheralu, Dist. Mehsana.
530.	Babubhai Korat Lavajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4634 1-3-75	At. Mota Ankadiya, Via. Lunidhar, Dist. Amreli.
531.	Babubhai Makvana Lakhubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7032 16-6-79	Datervedi, Opp. Ghofi Gate, At. Palitana, Dist. Bhavnagar.
532.	Babubhai Makvana Chhaganbhaj	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	7716 17-5-80	At. Nagdhaniba, Via. Bhandaria, Tal. & Dist. Bhavnagar.
533.	Babubhai Mulani Savajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2936 31-3-70	Gita Dispensary, At. Savarkundala, Dist. Bhavnagar.
534.	Babubhai Padhar Madhubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	8040 27-4-81	At. Bhrugupur, Tal. Limadi, Dist. Surendranagar.
535.	Babubhai Patel Gopaldas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1960	590 23-11-62	2, Patelnagar Society, Asarwa, A'bad-16.
536.	Babubhai Patel Bho'abhai	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ., 1969	3018 5-8-70	A. Lodra, Tal. Vijapur, Dist Mehsana.
537.	Babubhai Patel Shamjibhai	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1970	3219 7-8-71	A. Mangadh Tal. Gariyadhar Dist. Bhavnagar.
538.	Babubhai Patel Kashiram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3098 28-1-71	At. Rangpur, P.O. Umata, Tal. Visnagar, Dist. Mehsana.
539.	Babubhai Patel Hargovinddas	B.A.M. Gujarat Ay. Univ., 1971	3474 14-3-72	16-A-Ougnatopark Navavada-j A'bad.
540.	Babubhai Patel Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3504 4-5-72	At. Ajarpura, Tal. Anand, Dist. Kheda.
541.	Babubhai Patel Jeitaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3786 15-2-73	Vata's, Gojaria, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
542.	Babubhai Patel Laxmidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3806 21-2-73	At. Diver, Tal. Shinor, Dist Baroda.
543.	Babubhai Patel Shivramdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4482 3-9-74	At. Red Laxmipura, Tal. Kheralu, Dist. Mehsana.
544.	Babubhai Patel Kalidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4831 8-5-75	At. Pallachar, Tal. Prantij, Dist. Sabarkantha.
545.	Babubhai Patel Nathudas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5113 2-1-76	At. Modhera, Tal. Chamsama, Dist. Mehsana.
546.	Babubhai Patel Shamajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6121 5-4-78	3, Mangal Girdhar Block, Outside Delhi Darvaja, Opp. Petrol Pump, A'bad.
547.	Babubhai Patel Vitthalbhaj	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6768 21-3-79	At. Undhai, Via. Vadnagar, Tal. Kheralu, Dist. Mehsana.

1	2	3	4	5
548.	Babubhai Patel Hargovandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8257 24-12-81	At. & Post Vadrad, Tal. Prantij, Dist. Sabarkantha.
549.	Babubhai Patel Chhaganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8380 18-3-82	At. Budhiya, Post Badoli, Tal. Idar, Dist. Sabarkantha-383 410.
550.	Babubhai Patel Ranchhoddas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8705 16-3-83	At. & Post Pipal, Tal. Chanasma, Mehsana.
551.	Babubhai Patel Shamaldas	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1979	9146 10-9-84	At. & Post Sonasan, Tal. Prantij, Dist. S.K.
552.	Babubhai Prajapati Bhikhabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8568 20-10-82	At. & Post Gavada, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
553.	Babubhai Prajapati Govindbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9064 25-5-84	At. & Post Bilodara, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
554.	Babubhai Ravat Bhanabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7590 14-3-80	At. Ambod, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
555.	Babubhai Swami Dasharathbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4597 1-1-75	At. Gojaria, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
556.	Babubhai Vankar Savabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5512 2-9-76	At. Kandnsan, Tal. Kadi, Dist. Mehsana.
557.	Babubhai Vankar Magandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6304 27-9-78	At. Ambavpura, Tal. Kadi, Post, Pansar, Dist. Mehsana.
558.	Babubhai Zalavadia Ramjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	9269 9-4-85	At. Amodara, Tal. Una, Dist. Juna- gadh.
559.	Babubhai Zaveri Chimanlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Maharashtra 1951	264 1-9-51	10/860, Makubhai Munosat's Sheri, Amaliran, Surat.
560.	Babulal Achariya Dhirajal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7993 21-11-79	Near Baladha's Chora, At. Bhoraji, Dist. Rajkot.
561.	Babulal Vaidya Chhotalal	D.A.S.F. Fac. of AUSM, Maharashtra 1951	1064 1-12-51	Opp Jain Derasar, At. Sipor, Tal Kheralu, Dist. Mehsana
562.	Babulal Baraiya Hardasbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4973 15-10-75	C/o D.M. Parmar, 95/B, Farnadish- Vila, Hil Road, Vandara, Bombay-50.
563.	Babulal Bhatt Durlabhai	L.A.M. U.P. Mahavidyalaya (Patna) Baroda State 1942	1632 12-4-48	Tarabhai's Bag, At. Dakor, Dist. Kaira.
564.	Babulal Chapala Maghabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3899 31-3-73	Near Jinjari Gate, At. Sardargadh, Via. Manavadar, Dist. Junagarh.
565.	Babulal Chavada Balubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5318 31-3-76	At. Vadera, Tal. & Dist. Amreli.
566.	Babulal Chovatiya Shambhubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	2823 25-8-68	C/o Mohanlal Valabhai, Vekariya, Gajerapara, Kundala Road. Amuchi.
567.	Babulal Dholiya Naranbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4591 12-12-74	At. Devalal, Tal. Pahtana, Via. jesar, Dist. Bhavnagar.

1	2	3	4	5
568.	Babulal Doshi Mulchand	G.F.A.M., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1959	452 1-2-60	Medical Officer, Choriwad Dispen sary, At. Chorivad, Tal. Idar, Dist. Sabarkantha.
569.	Babulal Hirpara Gangadasbhai	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ. 1972	3750 6-2-73	At Malsika, Tal Dhari, Dist Amreli
570.	Babulal Hirpara Kacharabhai	B.S.A.M., Gujarat Av, Univ. 1972	3880 20-3-73	At. Supedi, Tal. Dhoraji, Dist, Rajkot.
571.	Babulal Joshi Ramchandra	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ. 1978	7476 5-1-80	At. Kuchavada, Post Khimat, Tal. Bisa, Dist Sabarkantha
572.	Babulal Kansagra Gopalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3964 20-7-73	At. Limbuda, Via. Bantava, Tal. Manavadar, Dist. Junagadh.
573.	Babulal Kathiriya Hirabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3964 20-2-73	"Dhanvantri Clinic", Jalal Por Road, Navasari-366445.
574.	Babulal Khunt Ukabhai	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ. 1977	7200 20-8-79	Bavala Para, Besaivadi, At. Rjkot.
575.	Babulal Makvana Shamajibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9013 28-3-84	At. Jamanvav, Tal. Palitina, Dist. Bhavnagar.
576.	Babulal Maliya Mavajibhai	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ. 1977	8242 9-12-81	Khodiyarnagar, A-6, Khodiya Clinic, Surat.
577.	Babulal Maru Ramjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4359 26-4-74	At. Hamapur, Via. Bagsara (Bhaa- yani) Tal Kukavav, Dist. Amreli.
578.	Babulal Mavani Valjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4191 12-2-74	St. Plot, Near Ramji Temple, At. Dhoraji, Dist. Rajkot.
579.	Babulal Munjani Karchanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3909 3-4-73	dt. Gandhali, Via. Gadhadaswa- mina, Dist. Bhavnagar.
580.	Babulal Nandaniya Keshav	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3733 25-1-73	Buvala Para, At. Jetpur, Dist. Raj- kot.
581.	Babulal Padshalal Nanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3243 13-9-71	At. Dariyachand, Dist. Amreli.
582.	Babulal Parmar Parmanand	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1972	8382 24-3-82	At. Balot, Tal. Vanthali Distt. Junagadh-362 610,
583.	Babulal Patel Gangaram	D.A.S.F., Fac. of A.U.S.M, Bombay 1953	587 29-7-53	Bansari, Subhash Bridge, Circle, Highway Road, Keshav Nagar Ahmedabad,
584.	Babulal Patel Karshandas	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ. 1969	3003 18-7-70	At. Islampur, Tal. Chansma Distt. Mehsana.
595.	Babulal Patel jagjivandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4356 26-4-74	At. Fudeda (New), Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
586.	Babulal Patel Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5371 30-4-76	At. Kharana, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
587.	Babulal Patel Prahaddas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6701 3-3-79	At. Haripura, Tal. Kadi, Dist. Meh- sana

1	2	3	4	5
588.	Babulal Patel Anbalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	7063 27-6-79	At. Tajapura, Post. Jotana, Distt. Mehsana.
589.	Babulal Prajapati Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4370 8-5-74	At. Kolyada, Tal. & Dist. Gandhi- nagar.
590.	Babulal Prajapati Ruganathbhai	Ay. Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1976	6548 12-2-79	Shri Sarveshwar Seva Sadan, At. Kamali, Tal. Siddhapur, Dist. Mehsana.
591.	Babulal Rathod Arajanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3596 14-9-72	At. Pachhegam, Via. Vallabhai- par, Dist. Bhavnagar
592.	Babulal Raval Jethalal	L.A.M., U.P. Ay. Mahavidyalaya (Patan), Baroda State 1939	983 30-8-40	At. Khedbrahma, Dist. Sabarkantha
593.	Babulal Shah Kedarlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1965	1912 4-1-66	C/o K.H. Shah-At Post Tlod, Dist. Sabarkantha
594.	Babulal Solanki Devjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4112 13-11-73	At. Badhada, Via. Savarkundala Dist. Bhavnagar.
595.	Babulal Thakar Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4527 24-9-74	At. Upora, Tal. Siddhapur, Dist. Mehsana.
596.	Babusinh Parmar Pujesing	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8335 27-2-82	At. Vodyala Mubada, Post Othavad Tal. Balasinor, Dist. Kheda.
597.	Bachubhai Patel Bahecharbhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1963	2701 20-9-68	At. Vamaj, Tal. Kadi, Dist. Mehsana.
598.	Bachubhai Shah Vadilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1963	1364 28-11-63	C/o Shivalal N. Patel At. Khariya, Pot Bhalgam, Dist. Banaskantha.
599.	Bachubhai Virani Nagjibhai	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1969	2861 4-12-69	Patel Bording, Near Soloriyam, At. Jamnagar.
600.	Bachugar Meghanathi Prabhugar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5586 27-10-76	At. Gangada, Tal. Una, Dist. Junagadh.
601.	Badriddas Gondaliya Jethiram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8165 10-9-81	At. Hirasar, Tal. Chotila, Dist. Surendranagar.
602.	Badharaman Mukhyaji Madanmohan	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	7024 15-6-79	Vrajviharam, 3, Akashdip Colony, Airodram Road, Baroda-6.
603.	Badharsinh Solanki Mohansinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5457 14-7-76	Tankvada's Khancha, At. Hansot, Dist. Broach.
604.	Badrinarayan Sharma Khagendranath	H.P.A., P.G.T. Centre in Ay. Jamnagar 1967	6402 10-11-78	C/o. Dr. D. N. Sharma, Gokul Panth, Rajbhavan, At. Nagpur (Maharashtra).
605.	Bagvatprasad Shah Harilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1958	1194 1-11-58	Aminvada, At. Dahegam, Dist. A'bad.
606.	Bahadur	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	7222 23-8-79	Kapali Kutir, Near Pratap Vilas, Jethava Mension, At. Jamnagar.
607.	Bahadursinh Mori Somabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8003 17-3-81	2/4045, Shivdas Zaveri's Sheri, Sagrampura, At. Surat.
608.	Bahecharbhai Patel Ramjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3659 18-10-72	At. Badamkampa, Post Harsoi, Tal. Prantij, Dist. Sabarkantha.
609.	Bahyabhai Patel BabalDas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6438 15-12-78	At. & Post Motichundar, Tal. Sami, Dist. Mehsana.
610.	Bakorbbhai Patel Somabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5725 15-3-77	At. Rankuva, Post Birpur, Tal. Balasinor, Dist. Kheda.

1	2	3	4	5
611.	Bakul Mehta Bhavanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5067 15-12-75	114, Purani Society, Gita Mandir Road, A'bad.
612.	Bakula Dave Dilipkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	8187 22-9-81	C/o. D. R. Dave, Sumangal Society Behind Mota House, Nahera Marg, At. Jamnagar.
613.	Bakula Madalia Virajibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9262 9-4-85	11, Vishram Apartment, Opp. Saviani Estate, Ghod Dod Road, At. Surat.
614.	Bakuldevi Desai Chelabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3187 22-4-71	Zanda Chowk, At. Udvada, Dist. Valsad.
615.	Bakulkumar Pandya Vasantvihari	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9515 1-7-86	13, Center Point, Karansinhji Road, At. Rajkot-360001.
616.	Bakulrai Tripathi Kanakrai	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1965	2026 3-6-66	At. Sarkhej, Tal. City, Dist. A'bad.
617.	Balbhadra Barot Pratapsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3374 16-2-72	At. & Post Linch, Tal. & Dist. Mehsana.
618.	Baldev Aghara Ramajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	8476 3-8-82	At. & Post Juna Ghantila, Tal Maliya, Dist. Rajkot.
619.	Baldev Patel Ramchodbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8291 5-2-82	Chosar, Tal. Dascroi, Dist. A'bad.
620.	Baldevbhai Vaidya Ghelabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7059 27-6-79	At. Kaljanpur, Tal. Kadi, Dist. Mehsana.
621.	Baldevbhai Nahar Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4944 16-9-75	At. Kunpur, Tal. Viramgam, Dist. A'bad.
622.	Baldevbhai Patel Shankerbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3706 1-1-72	At. Kuvadara, Post Lodra, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
623.	Baldevbhai Patel Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5230 1-3-76	At. Khoraj, Dist. Gandhinagar
624.	Baldevbhai Patel Shankerbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5535 20-9-76	At. Jantral, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
625.	Baldevbhai Pato Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5909 28-9-77	11, Old Patel Society, Jahangir- Pura, A'bad.
626.	Baldevbhai Patel Govindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7263 5-9-79	Krishnadadan, Sajjanpara, At. Manasa, Dist. Mehsana.
627.	Baldevbhai Parmar Punjabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5615 3-12-76	2418/2, Mehsaniya Vas, Near Rangila Gate, Shahpur, A'bad.
628.	Baldevbhai Soni Lallubhai	Ay. Uttama, SD Pariksha Samiti, Baroda 1978	6581 16-2-79	Gayatri Ay. Clinic, Near Kanya Vidyalyaya, Unza-384170.
629.	Baldevbhai Ravat Nathalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5698 24-2-77	B. No. 11, Bhimravanagar Society, Chamanpura, A'bad.
630.	Baldevdas Bhaiya Chandulal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	877 23-11-62	At Ghoghamba, Tal. Devgadhi Baria, Dist. Panchmahal
631.	Balmukund Trivedi Nathalal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9201 30-1-85	Shanker Nivas, Shankuva Gate, Nag-Talavadi, At. & Post Navasari, Dist. Valsad.
632.	Balakdas Harihar Bhavanishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4288 25-3-74	At. Mordiya, Via. Kodinar, Tal. Veraval, Dist. Junagadh.
633.	Balapatray Agravat Gamandas	Ay. Madhyama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda 1976	7414 29-11-79	At. Bodi, Via. Malia-Natina, Post Tarsingada, Dist. Junagadh.

1	2	3	4	5
634.	Balashanker Bhatt Anopram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8777 16-6-83	At. & Post Padvadar, Via Dhasagam, 364730.
635.	Balashanker Joshi Tribhovan	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1962	6691 3-3-79	At. Sansla, Tal. Kukavav, Dist. Amreli.
636.	Balashanker Oriya Devshanker	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	6854 2-4-79	At. Samadhiyala Gir, Tal. Mendarada, Dist. Junagadh.
637.	Balasukhbhai Sitapara Chamanlal	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1976	6648 26-2-79	At. & Post Vadgam, Tal. Bashada Dist. Surendranagar.
638.	Balavantbhai Sharma Hiralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4195 15-2-74	At. Rajpur, Tal. Kadi, Dist. Mehsana
639.	Balavantrai Bhatt Chhotubhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2526 22-6-67	At. & Tal. Kamrej, Via. Sayan, Dist. Surat.
640.	Balavantrai Joshi Karashanji	Ay. Bhishak, S. D. Pariksha Samiti, Baroda 1947	7769 17-7-80	Vaidyasadan, Paylot Dairy Road, Opp. Shri Rang Society, A'bad.
641.	Balvantrai Master Khushalbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9068 15-6-84	Bhagyoday Society, At. Amalsad, Tal. Gandevi, Dist. Valsad-396310.
642.	Balvantray Nimavat Dayarambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	8911 24-1-84	At. Devaliya, Post Atala, Via. Paddhari, Dist. Rajkot.
643.	Balavantrai Pandya Keshavlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2374 20-1-67	Vadavachora, Darji Dale, Thobhan Mehta Sheri, At. Bhavnagar.
644.	Balvantrai Pandya Naranji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	2798 24-7-69	Vaghpara, Main Road, At Morbi, Dist. Rajkot.
645.	Balvantray Pandya Bhagvanji	Vaidya Charya, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1971	6583 16-2-79	At. Sanvav, Tal. Una, Dist. Junagadh.
646.	Balavantrai Patel Nathalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3386 18-2-72	131, Sarvodayanagar, Outside Shahpargate, A'bad.
647.	Balavantray Patel Lallubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4611 24-1-75	At. Gambhoi, Tal. Himmatnagar, Dist. Sabarkantha.
648.	Balavantrai Shiroja Nagjibhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	1267 9-7-63	Baharpura, Lilia Mota, Dist. Amreli.
649.	Balvantrai Sinde Parvatrai	H.P.A., P.G.T. Centre in Ay. Jamnagar 1964	1480 10-7-64	C/o. Vasantrai Krishnajirao Pavar, Anandpura, Golvad, Baroda.
650.	Balavantrai Vyas Bhaishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4501 12-9-74	C/o. H. B. Vyas, Plot No. 1159, B-Manek, Krishnagar, At. Bhavnagar.
651.	Balavantsinh Barad Prabhatsinh	G.F.A.M., Gac. of AUSM, Bombay 1960	3939 2-8-60	At. Amroli, Tal. Palsana, Dist. Surat.
652.	Balavantsinh Chavda Gobarji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4579 28-11-74	At. Sudasana, Tal. Kheralu, Dist. Mehsana.
653.	Balavantsinh Jadeja Gagubha	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1976	8628 28-1-83	At. Baldana, Tal. Vadhavan, Dist. Surendranagar.
654.	Balavantasinh Punada Prabhatsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	7563 29-2-80	At. Zaghadiya, Dist. Broach.
655.	Baldevprasad Panara Hiralal	Ayurved Visharad, BIM, Saurashtra 1958	2190 15-3-58	E.S.I. Dispensary, Surendra Shah's House, Kachhia Pole, Near Tekari At. Khambhat, Dist. Kheda.
656.	Baldevsindh Vaghela Magansinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3172 13-4-71	360/2, Hargovankeval's Pole, Ghikata Road, A'bad.

1	2	3	4	5
657.	Balkrishna Vaidya Kirapashankar	Ayurved Visharad, R. S. Mahavidyalaya, Baroda 1955	1649 14-5-65	At. Virjai, Tal. Karjan, Dist. Baroda.
658.	Balkrishna Vaidya Chhangalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3629 3-10-72	At. Hadamatiya (Gir), Via. Ankolvadi, Dist. Junagadh.
659.	Balkrishna Bhatt Bhavantshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	2934 30-3-70	A/6/71 Ranjit Nagar, Behind Hathi Colony, At. Hamnagar
660.	Balkrishna Dave Prabhakar	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1967	7506 17-1-80	Behind General Post Office, Maharaj Dela, At. Veraval, Dist. Junagadh.
661.	Balkrishna Joshi Ramshanker	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1966	2420 8-3-67	Medical Officer, Suvali Dispensary, At. Suvali, Tal. Choryasi, Dist. Surat.
662.	Balkrishna Mori Govind	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5133 23-1-76	At. Dolsa, Via. Veraval, Tal. Kodinar Dist. Amreli.
663.	Balkrishna Pandya Ravashanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	759 21-1-63	At. Sevasi, Dist. Baroda.
664.	Balkrishna Patel Shankerbhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1961	589 14-12-61	Golden Street, At. Sojitra, Dist. Kheda.
665.	Balkrishna Patel Purshottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5087 18-12-76	Bazar, At. Kagara, Dist. Broach.
666.	Balkrishna Shah Chimanlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1962	1191 13-6-63	At. Akhiadol, Tal. Nadiad, Dist. Kheda.
667.	Balmukund Vaidya Narhariprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4248 11-3-74	Vadi, Last Pole, At. Baroda.
668.	Balmukund Pandit Dhanshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5170 16-2-76	1913, Hinglok Joshi's Nani Pole, Bala Hanuman, A'bad.
669.	Balram Bhanabhai	L.A.M., U.P. Ay. Mahavidyalaya, Patan (Baroda State) 1942	1526 3-2-46	At. Ubharat, Via. Maroli Bazar, Tal. Navsari, Dist. Valsad.
670.	Balram Patel Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4118 17-11-73	At. Kodram, Tal. Vadgam, Dist. Banskantha.
671.	Balsinh Patel Kanji	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1951	588 16-6-51	At. Kolaki, Via. Upaleta, Dist. Rajkot.
672.	Balswarupanand Acharya Damodaranandji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4488 4-9-74	Swaminarayan Temple, Kalupur, A'bad.
673.	Balubhai Baladha Laxmanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6088 21-3-78	At. & Post Vaghania, Via. & Tal. Kukavav, Dist. Amreli.
674.	Balubhai Dobariya Narjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4346 20-4-74	At. Ditalal, Via. Chalala, Tal. Dhari, Dist. Amreli.
675.	Balubhai Kachadiya Arjanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6109 28-3-78	At. & Post Asodar, Via. Damnagar, Dist. Amreli.
676.	Balubhai Keshhadiya Hirjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4305 2-4-74	14/160, Netajinagar, Behind Meghaninagar, A'bad.
677.	Balubhai Kikani Muljibhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2086 7-7-66	At. Punja Padar, Post Lilia-Mota, Dist. Amreli.
678.	Balubhai Korant Kadavabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4328 9-4-74	At. Dedakiyal, Tal. Mendarada, Dist. Junagadh.
679.	Balubhai Lunagariya Nathabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3936 2-5-73	At. & Post Rabarika, Tal. Khambha, Via. Dadan, Dist. Amreli

1	2	3	4	5
680.	Balubhai Patel Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5435 18-6-76	At. Moyad, Tal. Prantij, Dist. Sabarkantha.
681.	Balubhai Raval Devshanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2176 27-9-66	C/o. Amrutlal L. Raval, Rojit Gate, Near New Post Office House, At. Barvala Ghelashar Tal. Dhandhuka, Dist. A'bad.
682.	Balubhai Rudani Dahyabhaj	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	6342 4-10-78	Kubernagar, A-Ward, Naroda Road, At. A'bad.
683.	Balubhai Vashi Zinabhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1947	1004 29-11-47	At. Sanjan, Tal. Umargam, Dist. Valsad.
684.	Balvatray Trivedi Ambalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	1556 2-4-56	Station Road, At. Dhandhuka, Dist. A'bad.
685.	Bamayanti Golvala Kattikkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	6759 15-3-79	Subhanvada Shak Market, At. Ankleshwar, Dist. Broach.
686.	Bankim Shukla Narendrabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9499 12-5-86	2, Mahendra Mension, Station Road, At. Navsari, Dist. Valsad.
687.	Bankimchandra Vaidya Bhikhubhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1963	1430 27-4-64	Station Road, At. Amalsad, Dist. Valsad.
688.	Bankimchandra Bhagat Bachubhai	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6728 9-3-79	5/710, Hariprna, Bhavnigadh, At. Surat.
689.	Bankimchandra Malaviya Prataphai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9433 23-12-85	70/C, Vallabhnagar Society, Var- acha Road, At. Surat-395006.
690.	Bankimchandra Thakar Rameshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	6258 2-9-78	At. & Post Mala, Tal. Sankheda, Via. Rustampura, Dist. Baroda.
691.	Bansi Chaudhari Vitthal	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, Maharashtra 1968	3020 5-8-70	At. Bhalod, Tal. Zaghadiya, Dist. Broach.
692.	Bansilal Patil Sajan	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, Maharashtra 1967	3170 12-4-71	At. Zariyawadi, Tal. Nadod, Dist. Broach.
693.	Bansilal Shah Ambalal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1960	1193 23-10-61	Near Police Choki, Saraspur, A'bad.
694.	Bansari Jagirdar Natvarlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1959	1795 27-8-65	11/129, Hanumanpole, Nanavat, Surat.]
695.	Banuben Chauhan Husenbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6700 3-3-79	Anandnagar, LIG-97, Near Anil Starch, At. Bhavnagar.
696.	Banuprasad Kahatriya Nagindas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1961	129 15-1-62	12, Pragati Society, Kankariya, A'bad
697.	Bapalalsinh Sarvaia Bachubha	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9059 25-5-84	At. & Post Datha, Via Talaja.
698.	Bapubhai Gadhavi Abhesinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3818 26-2-73	At. Varsada, Tal. Khambhat, Dist. Kheda.
699.	Barkatali Hudda Sulemanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6761 15-3-79	B. No. 50/183, Near Husen Chowk, Opp. Nurnagar, Rakhial Road, Junna Bapunagar, A'bad.
700.	Bashir Ahmed Ismetulla Kanuga	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1962	781 6-12-62	At. & post Kim, Dist. Surat.
701.	Basirahmad Patel Ibrahimahmad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8006 17-3-81	At. & Post Tankaria, Tal. & Dist. Broach.
702.	Batuk Chavda Tribhuvandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4297 27-3-74	Opp. Chitralala Khancha, At. Lim- badl, Dist. Surendranagar.

1	2	3	4	5
703.	Batuklal Dhuliya Govindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3138 25-2-71	At. Gomata, Via Virpur (Jalaram), Tal. Gondal, Dist. Rajkot.
704.	Batukray Barvalia Mohambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4773 10-4-75	B. No. 4/11, Manglam Flat M.I.G. Group, Near Halekshaban Stadi m Bapurnagar, A'bad.
705.	Batukray Mehtra Ambashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4743 5-4-75	Rudaykunj, Maninagar, At. Savar- kundala, Dist. Bhavnagar.
706.	Batukarai Mehta Navalshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3458 29-3-72	Vaidkiya Adhikari, Via Upleta, At. Vadasada.
707.	Bavabhai Bhuva Punjabhai	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1963	7890 14-11-80	At. Tobarra, Tal. Veraval, Dist. Junagadh.
708.	Bavandas Devmurari Narbheram	Vaidya Visharad A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1963	8893 10-1-84	At. & post Lunidhar, Tal. Kun- kavav, Dist. Amreli-364460.
709.	Bavanji Patolla Tapubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	8874 1-12-83	At. Vadai (Sorath) Dist. Junagadh.
710.	Bavchand Baldha Viraji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3583 7-9-72	At. Bhan, Via Khabha, Dist. Amreli.
711.	Bavjibhai Hapalia / Valjibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9587 7-10-86	At. Jivapar (Tankara) 363650, Via Tankara, Tal. Norahi Dist. Rajkot.
712.	Bavajibhai Lakhani Haranbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3666 25-10-72	At. Pipal Post Uashadi, Tal. Dhan- dhanka, Dist. A'bad.
713.	Bechar Ketadia Naran	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3297 9-12-71	At. Borvav, Via Talala, Dist. Juna- gadh.
714.	Bhadra Amin Gantambhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1963	1391 20-1-64	C/o Manubhai Ranchodbhai Patel, Nava Ghara, Navi Pole, At. Karam- sad, Dist. Kheda.
715.	Bhadra Zaveri Bhupatrai	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	3014 1-8-70	C/o Nikunj D. Shah, 14, Nehru- Park Society, Bheravnath Road, A'bad.
716.	Bhadraben Chaudhari Somabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5350 14-4-76	Bedi Balia, Opp. S.T.D., Depot, At. Madhi, Tal. Bardoli, Dist. Surat.
717.	Bhadresh Shah Sevantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8334 27-2-82	405, Shri Chaitameninagar, Near Shintamani Jain Derasar, Shaper, Surat.
718.	Bhadreshchandra Shukla Jaykerishna	A.M.S., B.H.U., Varanasi 1939	1280 8-10-41	H. No. 6-2072, Rampura, Main Road, Surat.
719.	Bhadrashkumar Amin Madhusudanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	8947 17-2-84	13-A, Sudamapuri Society, Manjal- pur, At. Baroda-11.
720.	Bhadreshkumar Bhatt Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4088 10-10-73	Ramdevnagar, Near Ramdev Temple, Rambag Road, Sabarmati, A'bad.
721.	Bhadreshkumar Nayak Ramanlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9062 25-5-84	At. & post Kotha, Via Amalsad, Tal. Gandevi, Dist. Valsad.
722.	Bhadrashila Patel Narottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5183 18-2-76	B-11, Udaynagar, Ajava Road, Near Panigate, At. Baroda.
723.	Bhadrasinh Parmar Thakorsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3769 7-2-73	At. Chapaldhara, Via Bilimora, Tal. Vasanda, Dist. Valsad.
724.	Bhadrasinh Rana Pratapsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3850 8-3-73	C/o N.P. Rana, Police Line At. Babara, Dist. Amreli.
725.	Bhadursinh Mori Somabhai	B.S.A.M., Gujarat At. Univ. 1979	8003 17-3-81	2/4045, Shivdas Zaveri's Shori, Sagrampura, At. Surat.

1	2	3	4	5
726.	Bhadursinh Vaghela Ramsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4219 21-2-74	At. Radhu, Tal. Matar, Dist. Kheda,
727.	Bhagvan Dhamankar Purshotam	D.S.A.C., C.S., Ay. Course Bombay 1959	1944 1-2-60	At. & Post Edvan, Tal Paldhar, Dist. Thana, Maharashtra.
728.	Bhagvan Nikum Dullabhbbhai	B.A.M.S., Indore Univ. 1973	8412 5-4-82	Malvad, At & Tal. Vyara, Dist Surat.
729.	Bhagvanji Akvalia Pragjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7717 17-5-80	At Ribada, Tal & Dist. Rajkot.
730.	Bhagvanji Donda Gagajibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1968	4403 12-6-74	Nanavati Plot No. 1, 3, Nanabhavadi Kalanala, At. Bhavnagar.
731.	Bhagvanji Faladu Nathalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4663 17-3-75	Krishna Bhavan At. Lalpur Dist. Jamnagar.
732.	Bhagvanji Ganatra Chhotalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8014 17-3-81	Gokul Bhavan Sagar Dhora, Pani Gate, At & Tal. & Dist. Amreli.
733.	Bhagvanji Karadia Ramaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7982 25-2-81	At Juthal, Via Malia-Hatina, Dist Junagadh.
734.	Bhagvanji Pancholi Keshavlal	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1940	8823 11-8-83	Ghanchivad, Ravi Dispensary Sar- khej, A'bad.
735.	Bhagvanji Patel Dharamsinh	B.A.S.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3794 16-2-73	At. Navabala (Amran) Tal, Jodia, Via, Morbi Dist. Rajkot.
736.	Bhagvanji Parmar Hemraj	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3275 26-10-71	St. Road, At. Bhayavadar, Tal. Upleta, Dist. Rajkot.
737.	Bhagvanji Solanki Shamaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5471 26-7-76	Jibava's At. Rajula, Dist. Amreli.
738.	Bhagvanji Sukhadiya Valaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5617 3-12-76	At. Goladhar, Tal. & Dist. Junagadh.
739.	Bhagvanji Vadodariya Tejabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5491 13-8-76	At. Suvag, Post Sarpadad, Tal. Padd- hari, Dist. Rajkot.
740.	Bhagvanji Vyas Shamaji	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	7138 24-7-79	At. Bhanduri, Tal. Malia-Natina, Dist. Junagadh.
741.	Bhavanjibhai Vanpariya Vajubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4619 12-2-75	At. Khijadiya Tal. Mendarada, Dist. Junagadh.
742.	Bhagvanbhai Patel Ranchhoddas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	597 30-5-63	At. Biliya, Tal. Sidhapur, Dist. Mehsana.
743.	Bhagvanbhai Patel Haribhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5197 25-2-76	At. Butta Paladi, Tal & Dist. Mehsana.
744.	Bhagvanbhai Ranchhod	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	7100 10-7-79	At. Lilapur, Tal. Lakhatar, Dist. Surendranagar.
745.	Bhagvanbhai Sodavadia Jashamatbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5712 4-3-77	At. Dundas, Via, Mahuva, Dist. Bhavnagar.
746.	Bhagvandas Manalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1951	335 6-5-52	At. Gozaria, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
747.	Bhagvandas Agravat Haridas	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	6638 21-2-79	At. Nana Ankevadia, [Via Lakhatar, Dist. Surendranagar.
748.	Bhagvandas Alagiya Ratnabhai	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1957	8260 31-12-81	3/5, Mangalam Flat, Behind Lal Bahadur Shastri Stadium, Nava.

1	2	3	4	5
749.	Bhagvandas Gangani Jadavji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4575 20-11-74	5, Samarpan Society, Adajan, Road, Surat.
750.	Bhagvandas Joshi Khemram	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	3484 19-4-72	At. Ruvach, Tal. Idar, Post Chitorda Dist. Sabarkantha.
751.	Bhagvandas Kubavat Muldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8292 5-2-82	C/o Shri M. M. Kubavat, -Makvana Nivas Near Telephone Office At. Shapur (Sorath) Dist. Junagadh.
752.	Bhagvandas Vankavala Nagindas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1950	1936 15-2-66	2/4702, Parvati Nivas, opp. Putali, Sagrampura, Surat-2.
753.	Bhagvansinh Mahida Bavabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	9128 10-9-84	Gandhi Bazar, At. Netrang, Tal. Valia, Dist. Broach.
754.	Bhagatram Rana Narandas	Ay. Madhyama S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1969	9031 16-4-84	At & Post Sodpur, Tal. Nadiad, Dist. Kheda.
755.	Bhagvatbhai Patel Hargovindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3821 26-2-73	At. Dormar, Tal. Sankheda, Dist Baroda.
756.	Bhagvatdatt Thakkar Hariram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	5425 4-6-76	Ay. College At. Nadiad, Dist. Kheda.
757.	Bhagvatlal Kutchhvai Premlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4407 12-6-74	17, Bhagvatpara, At. Gondal, Dist. Rajkot.
758.	Bhagvat prasad Raval Hemantlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5333 3-4-76	Hanumanpura, Khangi Kamdar, At Vankaner, Dist. Rajkot.
759.	Bhagvatiben Rathod Natvarsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7371 29-10-79	At & Post Kampariya, Tal & Dist. Valsad.
760.	Bhagvatiprasad Bhatt Manubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8358 11-3-82	C/o Dr. M.J. Bhatt, Dhanvantary, Vrundavan Society, Surendranagar.
761.	Bhagvatiprasad Dave Purshottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3182 16-4-71	Bhagvatibhuvan Maniyasa Society, Maninagar, A'bad
762.	Bhagvatiprasad Pandya Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	2796 19-7-69	At. Lodra, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
763.	Bhagvatiprasad Raval Trikamlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Bombay 1961	2968 15-6-70	Radhabai Public Dispensary, At Dungar, Via Vapi, Dist. Valsad.
764.	Bhagvatprasad Trivedi Narmadshanker	C.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1965	1807 28-9-65	Kanta Nivas Near Mahadev, At. Vallabhvidynagar, Via Anad, Dist. Kheda.
765.	Bhagvatrai Pandya Dahyabhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1950	762 26-2-51	B. No. 15, Gramlaxmi Hou. Society, At. Utran, Tal Choryasi, Dist. Surat
766.	Bhagvatisinh Zala Merubha	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1966	2085 5-7-66	Ravapar, Tal Morbi, Dist Rajkot.
767.	Bhagvatwarup Pamdot Jagannath	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2066 23-6-66	Ganesh Bhuvan, opp. Khanderao- Market, Palkar, Khacho, Raj Mahal Road, Baroda.
768.	Bhagubhai Patel Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6697 3-3-79	At. Jevanpura, Post Salatpur, Tal. Prantij, Dist. Sabarkantha.
769.	Bhagubhai Patel Nathubhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	7213 22-8-79	At. Shithan, Via, Sayan, Dist. Surat.
770.	Bhallal Kanani Rambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5507 25-8-76	At. Juna Bavar, Tal. Savarkundala, Dist. Bhavnagar.
771.	Bhallal Patel Bhogilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3823 26-2-73	At. Kavida, Tal. Sankheda, Dist. Baroda.

1	2	3	4	5
772.	Bhailal Patel Rayabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5672 15-2-77	At. Haripura, Tal. Detroj, Dist. Mehsana.
773.	Bhailal Soni Virchanddas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4345 20-4-74	At. Sami, Tal. Sami, Dist. Mehsana.
774.	Bhailalbhai Patel Naranbhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1963	1346 15-11-63	Near Varai Meta, Golievala, At. Uttarasnda, Dist. Kheda.
775.	Bhailalbhai Patel Ishvarbhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1669 21-5-65	At. Anguthan, Post Thuvani, Dist Baroda.
776.	Bahilalbhai Patel Parsetam	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2393 15-2-67	At & Post Miya Sarbhan, Darvaja's Tal. Amod Dist. Broach.
777.	Bhailalbhai Patel Bhagwandas	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1968	2706 28-10-68	At. Unalla, Tal. Jagdiya Dist. Broach
778.	Bhailalbhai Patel Maganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3095 21-1-71	At. Finav, Tal. Khambhat, Dist. Kheda.
779.	Bhailalbhai Patel Pershottambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4695 23-3-75	Khatupagi's Muvada, Post Koth- amba, Tal. Lunavada, Dist. Panchmahal.
780.	Bhakti Shah Kantilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1960	1931 2-8-60	C/o Shantilal C. Parikh, 927/1 Tokalsha's Pole Raikhad, A'bad.
781.	Bhaktibhai Patel Keshavilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1948	592 31-12-48	At. Karjisan, Tal. Kadi, Dist. Mehsana.
782.	Bhaktiben Bhatt Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3472 6-4-72	Dhanvantari Temple, Motinagar, A'bad.
783.	Bhaktiprasad Shelat Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4277 20-3-74	At. Dhanora, Post Datisana, Tal Sami, Dist. Mehsana.
784.	Bhalabhai Parmar Gobarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8115 17-7-81	At. Dahisara (Jam) Tal. Jasan, Via Sardhar, Dist. Rajkot.
785.	Bhalchandra Dave Vasudevprasad	Ay. Madhyama, S D. Parik, sha Samiti, Baroda 1979	8990 12-3-84	Luhar Sheri, At. & Post Dhinoj, Tal Chanasma, Dist Mehsana.
786.	Bhalchandra Gajare Narayan	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	138 2-7-56	At Bharadin, Tal. Valla, Dist. Baroda.
787.	Bhalchandra Hathi Harshadrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	2758 3-4-69	Block No. GH 19/2 Sector No. 22, Gandhinagar.
788.	Bhalchandra Joshi Nathalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4389 28-3-74	Lal Darvaja At. Prantij, Dist. Sabarkantha.
789.	Balchandra Nandurbarkar Dattatray	D.S.A.C., C.S. Av. Course, Gujarat 1964	1445 10-6-64	Shanker Takari, At. Baroda.
790.	Balchandra Pandya Bakorbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3697 29-11-72	At. Kundhela, Tal Dabhoi, Dist. Baroda.
791.	Bhalchandra Sharma Becharlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1960	1111 1-3-60	Sanghadiyavad, Ramajipole Surat.
792.	Balchandra Trivedi Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4245 6-3-74	At. Pavi Jetpur, Dist Baroda.
793.	Bhalchandra Thakar Prabhashanker	H.P.A., P.G.T. Centre in Ay. Jamnagar 1966	2402 23-2-67	At & Post Chanchapar, Via Morbi Dist Rajkot
794.	Bhalchandra Valand Vadilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3394 23-2-72	Luhar Chal, At & Post Lunavada Dist. Panchmahal.

1	2	3	4	5
795.	Bhaichandrarai Vaidya Ambashanker	Ayurved Visharad, M.S. Univ. Baroda, 1941	2712 19-12-68	Wadi Dalia pole, Baro.
796.	Bhama Barad Kana	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	4417 25-6-74	At Akal (Gir) post Maljinjava, Via Talala Dist. Junagadh.
797.	Bhamini Dave Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5745 31-3-77	C/o Bharati H. Pathak Gandhi Build Nanbha Road, At. Bhavnagar.
798.	Bhanji Makdiya Jadav	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1967	2503 6-6-67	Anandnager Park, Block No. 22 Rajkot-2.
799.	Bhanu Hirpara Gangdasbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	2992 6-7-70	At. Amarnagar, Via Vadia Devadi Tal. Jetpur, Dist. Rajkot.
800.	Bhanu Lathiya Mohambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4781 16-4-75	At. Manganath Jipali, Tal. Visa- Vadar, Dist. Junagadh.
801.	Bhanu Thakarar Jayesh	B.A.M.S., Poona Univ., 1971	3541 7-8-72	C/o Dr. Jayesh K. Thakakar, Motor Hou. J.S. Building, Bedi Road, At. Jamnagar.
802.	Bhanubhai Jotangiya Kanajibhai	Ay. Bhishak A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1971	6963 4-5-79	At. Khadia, ja Vicoshipura, Tal & Dist. Junagadh.
803.	Bhanubhai Kikani Bacharbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6302 27-9-78	At & Post Varsada, Tal & Dist. Amareli.
804.	Bhanubhai Suthar Maganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	8447 15-6-62	Suthar Falia, At. Radhu, Tal. Matar, Dist. Kheda.
805.	Bhanuben Savani Devrajbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6265 2-9-78	At. Malpara, Via Bhasa Gam, Tal. Gadhada, Dist. Bhavnagar.
806.	Bhanuben Vasava Mansukhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	7570 29-2-80	Patel Falia, Nathikhana Road, Fatehpur At. Baroda.
807.	Bhanudas Shivgavakar Hari	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5444 25-6-76	Laxmi Maharaj Madh, Dandia Bazar, At. Jambugate Tal. & Dist Baroda.
808.	Bhanumati Gajjar Lallubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7872 14-11-80	Hou. No. 7/3333, Sayadpura Nagori Vad, Surat-3.
809.	Bhanumati patel Nagarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6431 2-12-78	Ashoknivas At. & post Dhoran- paradi, Tal, Kamrej Dist, Surat,
810.	Bhanumati Upadhyay Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5900 20-9-77	7/2437 Chowki Sheri, Saiyad pura At. Surat.
811.	Bhanumatiben Asari Savajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7464 21-12-79	At & Post Raysingpur Tal. Bhiloda Dist. Sabarkantha.
812.	Bhanu kumar Shah Chhaganlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	1196 1-3-56	Vidyanagar No. 1, Ashram Road, Usmanpura, A'bad-13.
813.	Bhanuprasad Acharya Ranchhodlal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1967	2623 30-12-67	Brahmansheri, At. unza, Tal Siddha- pur Dist. Mehsana.
814.	Bhanuprasad Acharya Narayanji	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1973	9523 1-7-66	98/A, Railway Colony, At. Gandhi- dham (Kutch).
815.	Bhanuprasad Brahmhattj Mohanalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3399 24-2-72	17, Bank Staff Society D-Section, Vaishali Cinema Road, At. Nadiad.
816.	Bhanuprasad Divakar Vishnuram	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1967	2553 30-6-67	opp. Khekhara Masjid Nagarpada At. Mahuva, Dist Bhavnagar.
817.	Bhanuprasad Jani Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4562 27-10-74	At. Bhandu Tal. Visnagar, Dist- Mehsana.
818.	Bhanuprasad Joahi Kantilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1965	1820 7-10-65	At. Virpur Tal, Idar Dist, Sabar- kantha.

1	2	3	4	5
819.	Bhanuprasad Joshi Nargovind bhai	N.D. (Ay.) Gujarat Ay. Univ. 1976	6184 17-6-78	C-39 Govt Qtr. Salatvada, At. Baroda.
820.	Bhanuprasad Mehta Bapulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3167 26-3-71	At. Ved., post Vardhari, Tal. Lunawada, Dist. Panchmahal.
821.	Bhanuprasad Nirmal Manasukhlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1959 H.P.A., P.G.T. Centre -in Ay. Jamnagar 1964	487 9-1-62	10/109, Cricket Bungla Sheri No. 3, Jamnagar.
822.	Bhanuprasad Pamdya Purshottam	Ay. Uttama, S.D. Pariksha Sammiti Baroda, 1959	7608 18-3-90	At. Ganjera, Tal. Bhengadhra, Dist. Surendranagar.
823.	Bhanuprasad Patel Badarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8204 12-10-81	At & post Nadari, Tal. Idar, Dist. Sabarkantha.
824.	Bhanuprasad Shelat Jayantilal	L.A.M., U.P. Ay. Mahavidyalaya, Patan (Baroda State) 1940	1295 6-5-40	Near Sentram Temple, At Umrath Dist. Kheda.
825.	Bhanuprasad Shukla Mulshanker	Ayurved Visharad M.S. Univ. Baroda 1949	2494 28-9-46	At. Birpur, Tal. Balasinor, Dist. Kheda.
826.	Bhanupratap Mishra Ramlakhan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5280 12-3-67	31, Mahendi Kuva-Munaf Staff Qtr. Outside Shahpur Gate. A'bad.
827.	Bhanuraj Shah Ratilal	D.I.M.S., Board of AUSM Delhi Admn. 1961	2957 7-5-70	Near Shrivastava, Trikonbag, At Rajkot.
828.	Bhanushanker Bhatt Amtharam	D.A.S.F., (Fac. of AUSM, Bombay) 1948	846 31-7-48	At. Jalar, Tal. Idar, Dist. Sabar- kantha.
829.	Bhanushanker Dave Amrutlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	365 3-9-54	At. Kotda (Rohawala) Tal. Nakh- trana, Dist. Kutch.
830.	Bhanushanker Joshi Jeshtharam	L.A.M., U.P. Ay. Mahavidyalaya, Patan Barod State) 1939	248 30-8-40	Bhadbhut Tal. & Dist Broakh.
831.	Bhanushankar Joshi Kantilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1963	2419 8-3-67	At. Jamvali Tal, Jamjodhapur, Dist Jamnagar.
832.	Bhanushanker Mehta Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5911 11-10-77	At. Chandigadh, Via, Keshod, Dist. Junagadh.
833.	Bhanushanker Mehta Jatashanker	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1946	8695 3-3-83	At. Lothpur, Via Rajula, Dist. Amreli.
834.	Bhanushankar Pandya Mohanlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1951	761 1-12-61	At. Kadiadara, Tal. Idar Dist B.K.
835.	Bhanushankar Shukla Jethalal	Ayurved Visharad, B.I.M. Saurashtra 1958	2246 1-5-58	At Mota-Charodi, Tal. Garia Dhar Dist. Bhavnagar.
836.	Bhanvantray Ribadis Rambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6563 12-2-79	At. Sapar Tal Visavadar, Dist. Junagadh.
837.	Bhavansinh Rajput Sardarsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4749 7-4-75	237/2350, Bapunagar, A'bad.
838.	Bhagirath Joshi Navinchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4424 2-7-74	Brahman Sheri At. Jafara Bad, Dist. Amreli
839.	Bhagirath Pandya Shankerlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3366 16-2-72	8/43, Prabhunagar Society Asarva, A'bad.
840.	Bhagirath Shukla Naranprasad	D.S.A.C., C.S. Ay. Course Gujarat 1962	1271 18-12-62	Vadivadi Alkapuri, Baroda.

1	2	3	4	5
841.	Bhagirathsinh Mahedu Joravarsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4856 22-5-75	3, Vijay Bhuvan Patel Colony, At. Jamnagar.
842.	Bhagirathsinh Zala Jivansinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4360 26-4-74	Shri Vidyarthi Gruh, Jasheshwar- Road, At. Limedi Distt. Surendra- nagar.
843.	Bhargavi parmar Vasantlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9520 1-7-85	0/2 Officers Colony alkapuri, At. Baroda.
844.	Bharmendrakumar Trivedi Kevalram	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1955	7413 29-11-79	25/43, prahlad plot Vijaybhuvan, At. Rajkot.
845.	Bharamashi Godhani Shambhubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	7432 12-12-79	At. Ratanpur Via Palitana, Dist. Bhavnagar.
846.	Bharani Puroshht Ramprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7836 30-9-80	6/C, Rajhans Society, Behind St. Zexlours, Ellish Bridge, A'bad.
847.	Bharat Bhatt Ramoshechandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5603 17-11-76	6, Vadipura, At & Dist Surendra- nagar.
848.	Bharat Dave Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7681 22-4-80	7, Kirtikunj Society, Shah Alam- Tolonaka, A'bad.
849.	Bharat Gadani Velashibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8755 11-5-83	10, Kaliskunj Society, Lal Bhungala, Ellish Bridge, A'bad-6
850.	Bharat Myatra Hamirbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9061 25-5-84	C/o Myatra M.K. "Health Temple" At & post Ratadia (Ganeshwala), Tal. Mundra Dist Kutch.
851.	Bharat Naydia Chandulal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9473 28-2-86	"Amijyoti" Chetan Society, Kalubha Road, At. Bhavnagar-364002.
852.	Bharat Shah GopalDas	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9517 1-7-86	U-1, Officers Colony, Alkapuri, Baroda-390005
853.	Bharati Bhatt Madhusudan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5207 26-2-76	Near G.P.O. Raopura, Baroda.
854.	Bharati Bhatt Narhatiprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5284 15-3-76	Shantikunj, Dolatnagar, R. No. 8, Borivali (East) Bombay-66.
855.	Bharati Bandaria Chandulal	B.A.M.S., Univ of Gujarat 1967	2476 3-5-67	C/o Chandulal Narandas, Bandaria, Gopipura, 8/2454, Surat-2.
856.	Bharati Chhatbar Kantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9142 10-9-84	Shri Jamuna Gitgurjari Society, Behind Nilkanth Mahadev Temple At. Rajkot.
857.	Bharati Chaudhari Liladhar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9371 2-9-85	3, Merid Nursing Quarters, Near Nansar Hospital, New Civil Hospi- tal A'bad-16.
858.	Bharati Chaudhari Vilas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6922 17-4-79	Bahadarpur, Tal. Parola, Dist. Jalgav, Maharashtra.
859.	Bharati Desai Ballubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5858 30-8-77	C/o Ballubhai B. Desai Char Rasta, At. Kadodara, Tal Pulsana, Dist. Surat.
860.	Bharati Dev Mukundrao	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5506 25-8-76	Kalupura, Brahman Falia, Baroda.
861.	Bharati Joshi Trambaklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8411 5-4-82	Sector No. 22, B. No. 78/3-J, At. Gandhinagar.
862.	Bharati Mehta Narandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5475 26-7-76	opp. Library pipalavali, Beli, At. and Dist. Amreli.
863.	Bharati Mehta Jivanram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6525 1-2-79	C/o Dr. J.K. Mehta, Guj. Hou. Board Colony, 62, Mrushna Murti, At. Amreli.

1	2	3	4	5
864.	Bharati Mujpara Popatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7938 29-12-80	Khojakhana Sheri Bahelapara, At. Limjadi, Dist. Surendranagar.
865.	Bharati Pandya Narmadashanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2069 23-6-66	3, Pranav Society opp. Joshi Bhuvan Krishnabag, Maninagar, A'bad.
866.	Bharati Patel Sanmukhlal	B.S.A.M., Gujarat At. Univ. 1973	4200 15-2-74	opp. Panchari Vad, Panchari Bazar, Ankleshwar, Dist. Broach.
867.	Bharti Parekh Babubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4152 15-1-74	C/o Dipak B. Sheth, Sheth Building Latiplot, At. Bharangadhra, Dist. Surendranagar.
868.	Bharati Sanghavi Harilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6803 21-3-79	Sector, No. 16/6-9, Gandhinagar.
869.	Bharati Sheth Yashavantray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	7033 16-6-79	Opp, Jail Laxmibhavan, At Bhavnagar.
870.	Bharati Thakar Dipak	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3959 13-6-73	C/o J.R. Thakar, B. No. 11, police Head Qtr. Pratapnagar, Baroda-4.
871.	Bharati Thakkar Rameshohandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8162 10-9-81	36, Nilkamal Society, Sardarnagar, At. Baroda.
872.	Bharati Trivedi Tulajashankar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3827 27-2-73	Khajuriya Building 2, Divanpara, AT, Rajkot.
873.	Bharati Vyas Jaysukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3200 19-6-71	C/o J.A. Raval 1922, Ranchhodji's pole Sarnagpur, A'bad.
974.	Bharatibala Pandya Shantilal	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1974	7035 20-6-79	7, Laxmivadi Ayurvedshram, Rajkot-2
875.	Bharatibhai Moghariya Mulajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8550 14-9-82	At. & post Akhiyana, Tal. Dasada (patadi) Via, Bajana, Dist Surendra- nagar.
876.	Bharatiben Bhatt Satyendraprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3496 24-4-72	Pitridaya, Suryodaya Society, Block No. 12, Fateganj Camp, At Baroda.
877.	Bharatiben Brahmabhatt Rajanikant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5935 19-10-77	At. Jaspur, Tal. Padam, Dist. Baroda.
878.	Bharatiben Desai Nanubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	3055 30-9-70	11, Mahadevnagar, Society, Sagram- pura, Surat-2
879.	Bharatiben Gadhiya Kanajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6699 3-3-79	Near Ambika Chowk, Venibhai Vakil's Sheri, At. Junagadh.
880.	Bharatiben Joshi Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3913 4-4-73	12, Avanika park Bhai Centre, Near Khanpur, A'bad.
881.	Bharatiben Pandit Kamaleshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8482 3-8-82	At. & post Sayan, Tal. Olped, Dist. Surat.
882.	Bharatiben Pandya Jadavji	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1975	7041 21-6-79	C/o Vaidyaraj Kantilal D, Jani, Digvijay plot, Rajkot.
883.	Bharatiben parot Rasiklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8263 31-12-81	Aurbuda Society, B. No. 29, opp. Shota L.G. General Hospital, Maninagar, A'bad.
884.	Bharatiben Vyas Marmadashanker	Ay. Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1974	7027 15-6-79	opp. post Office, At. pethapur, Dist Gandhinagar.
885.	Bharatiben Vyas Dilipkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	7486 17-1-80	C/o Laxmiprasad, V. Trivedi, 129/3 Khyaldas Building opp, Nav Guj, Ladies Hospital A'bad.

1	2	3	4	5
886.	Bharatkumar Acharya Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6236 19-8-78	At. Bhadal (Bhan) Via Gadhada - Swamina Dist. Rajkot.
887.	Bharatkumar Vaidya Rajnikant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5101 24-12-75	Near Narayan Dev Temple, At. Kapadvant, Dist. Kheda.
888.	Bharatkumar Vaidya Laxmishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5895 20-9-77	C/o Vishnu L. Vaidya, 770, D. Fertilizernagar, Dist. Baroda.
889.	Bharatkumar Vaidya Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7300 20-9-79	At. & Post Posara, Tal. Navsari, Dist. Valsad.
890.	Bharatkumar Badoka Pranshanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1964	1510 13-8-64	Medical Officer, E.S.I. D/1, Acher Sabarmati, A'bad-5.
891.	Bharatkumar Bagat Vrundavandas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1950	802 1-9-51	At. Saragi, Tal. Sankheda, Dist. Baroda.
892.	Bharatkumar Baladha Damodarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8151 3-9-81	C/o C.D. Kalayani, B. No. 25/L, Hou. Board, Mughaninagar, I.T.I. Road, At. Junagadh
893.	Bharatkumar Bhakta Prabhuram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7531 15-2-80	10, Sadhana Society, Varachh. Road, At. Surat-6.
894.	Bharatkumar Bhamdiyadra JugalDas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7815 17-9-80	Damodar Bhuvan, opp. Vishva- kunj, Society, Narannagar Road, Raladi A'bad.
895.	Bharatkumar Bhavsar Ramanarayan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7914 3-12-80	Near Parbodi, At. Samarakha, Tal Anand, Dist. Kheda.
896.	Bharatkumar Bhatt Chunilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3347 8-2-72	Govt. Hospital Compound Station Road, At. & Tal. Shinor, Dist. Bhavnagar.
897.	Bharatkumar Bhatt Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3670 30-10-72	Nawa Bazar, At. Miyagam Karzar, Tal. Karzan, Dist. Baroda.
998.	Bharatkumar Bhatt Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8159 3-9-81	5, Bungala, Hemantkunj, Hos- pital Road, At. Jamnagar.
899.	Bharatkumar Bhatt Vasantbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4816 30-4-75	C/o V.K. Bhatt, postal Train- ing Centre, Karelibag, Baroda.
900.	Bharatkumar Brahmarshi Gurudev	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6744 15-3-79	2137, Panditji's Pole, Sarangpur, A'bad.
901.	Bharatkumar Chavada Karsandan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7595 14-3-80	305, C-64, Fulchand New Chall, Near Shardabhai Hospital, Saraspur, A'bad.
902.	Bharatkumar Dave Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	4323 8-3-72	86/D/1, Kothi, Compound, Rajkot.
903.	Bharatkumar Dave Bhurashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5552 4-10-76	Opp. Navdurga High School, At Rajpipala, Dist. Broach.
904.	Bharatkumar Dave Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	6326 4-10-68	Shanker Pole, Ravpura, At. Baroda.

1	2	3	4	5
905.	Bharatkumar Desai Madhusudan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6069 15-3-78	19/279/3, Gandhinagar.
906.	Bharatkumar Devmurari Narbheram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5396 13-5-76	Arogyanagar, Amrutkunj, At. Vankaner, Dist. Rajkot.
907.	Bharatkumar Devmurari Narandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5544 28-9-76	Near Post Office, At. Vadai, Dist. Junagadh.
908.	Bharatkumar Devmurari Mansukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	8809 21-7-83	At. Post Babapur, Tal. & Dist. Amreli-364610.
909.	Bharatkumar Dudharejia Jivrambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4039 10-9-73	Chavadi Gate (Vadava), At. Bhavnagar.
910.	Bharatkumar Gandhu Ishwarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8756 11-5-83	Vakharia Port Road, opp. Bangali Mill, At. & Post Bili- mora, Tal. Gandevi Distt. Valsad.
911.	Bharatkumar Gantra Nandlal	B.A.M.S. Kanpur Univ. 1974	4887 17-6-75	7, Bank Colony, At. Porbandar, Dist. Junagadh.
912.	Bharatkumar Gor Lumbaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8316 10-2-82	At. Sudasana, Tal. Kheralu, Dist. Mehsana.
913.	Bharatkumar Hathi Mukundray	B.S.A.M., Poona Univ. 1975	5359 20-4-76	Hospital Road, At. Bhuj Kutch.
914.	Bharatkumar Jani Manilal	D.S. A.C., C.S.Ay. Course, Gujarat 1966	2118 20-7-66	35-A, Mune Servant Society, Near old Pilot Dairy, Kankaria, A'bad.
915.	Bharatkumar Jain Milapchand	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6577 16-2-79	C/o S. N. Bhardhwaj, Durga Rajendra Society At. Rajpipala, Dist. Broach.
916.	Bharatkumar Jani Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3623 30-9-72	Piyush, 8-Prahlad plot, At Rajkot.
917.	Bharatkumar Joshi Devshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3176 13-4-71	Near post office, At & Tal. Vishvadar, Dist. Junagadh.
918.	Bharatkumar Joshi Fulshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4489 6-9-74	At. Ghoghavadar, Tal. Gondal, Dist. Rajkot.
919.	Bharatkumar Kakkad Vrujlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	9126 23-8-84	At. Madhavpur, (Ghed) Tal. Porbandar, Dist. Junagadh.
920.	Bharatkumar Laskhari Dalapatram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6033 16-2-78	C/o M. D. Laskhari, Vishvas- murti Build., Near Central Bank of India, At. Navsari.
921.	Bharatkumar Mehta Dhanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3426 9-3-72	Vaniya Sheri, Mhtamadhuli At Lathi, Dist. Amreli.
922.	Bharatkumar Mehta Chimanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6037 16-2-78	Moti Bazar, At Gondal, Dist. Rajkot.
923.	Bharatkumar Modi Vedilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5944 26-10-77	At. Elol, Tal. Hammatnagar, Dist. Sabarkantha.

1	2	3	4	5
924.	Bharatkumar Modi Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7394 21-11-79	At. Pethpur, Dist. Gandhinagar.
925.	Bharatkumar Nayab Manganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5488 11-8-76	At. Sonvadi, Via. Gadat, Tal. Gandevi, Dist. Valsad.
926.	Bharatkumar Pandya Chintamani	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5097 22-12-75	At. Paria, Tal. Pardi, Dist. Valsad.
927.	Bharatkumar Pandya Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	9482 24-3-86	17, Radheshyam Society, Raj- endra Park, Near Gauri Cinema, Odhav, A'bad.
928.	Bharatkumar Patel Manubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	7378 7-11-79	At. Vadtal, Tal. Nadiad, Dist. Kheda.
929.	Bharatkumar Patel Ranchodbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9261 9-4-85	Bhadra Hospital At. & P.O. Kim, Dist. Surat-394110.
930.	Bharatkumar Patel Laxmidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6041 16-2-78	Tower Road, At. Santrampur, Dist. Panchmahal.
931.	Bharatkumar Patel Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7993 25-2-81	Cotrali Rander, Tal. Choryasi, Dist. Surat.
932.	Bharatkumar Patel Ugarabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	7235 29-8-79	At. Sudasana, Tal. Khoralu, Dist. Mehsana.
933.	Bharatkumar Pathak Ramanlal	B.S. A.M., Gujarat Ay, Univ. 1974	5012 20-10-75	1-A, Karitkswami Society, Outside Shahpur Gate A'Bad.
934.	Bharatkumar Patel Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5208 26-2-76	C/o Bharat Trading Co., Near Darkoli, Gate, At. Lunavada, Dist. Panchmahal.
935.	Bharatkumar Parekh Amrutlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9400 19-10-85	3A, 74, Madhuvan Colony, P. O. Karad, Via Vapi, Selvas, At. Dadara & Haveli-396240.
936.	Bharatkumar Parekh Harilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9405 19-10-85	At. & P.O. Simondra, Via Kosamba, Tal. Moti-Mongrol, Dist Surat.
937.	Bharatkumar Purohit Ramanlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9170 13-11-84	C/o R.D. Purohit, At & Post Malpur, Dist. Sabarkantha.
938.	Bharatkumar Raval Dineshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7631 20-3-80	4/Dipjyot Society, Bhulabhai Park, A'bad.
939.	Bharatkumar Shah Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3743 2-2-73	49/1, Muni Qutr, Outside Shahpur Gate, Dudheshwar Road, A'bad
940.	Bharatkumar Shah Pritamkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4157 17-1-74	Kishor Sinhji Road, Karan- para, "Madhula" At. Rajkot.
941.	Bharatkumar Shah Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7995 25-2-81	B-6, Sunangalam, Apptt. Vara- chha Road, At. Surat.
942.	Bharatkumar Shah Nathalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	8124 17-7-81	Mota Falia, At. Naliya, Tal. Abadasa, Dist. Kutch.

1	2	3	4	5
943.	Bharatkumar Shah Jethalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8867 1-11-83	At. & Post Sardoi, Tal. Modasa, Dist. Sabarkantha
944.	Bharatkumar Shah Chimanlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	8984 12-3-84	At. & Post Akarund, Tal. Bayad, Dist. Sabarkantha.
945.	Bharatkumar Sharma Nandlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8356 11-3-82	Kanara Bazar, Near Masjid, At. Shihor, Dist. Bhavnagar.
946.	Bharatkumar Sharma Govindlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9540 28-7-86	At. Haldharwas, Tal. Møhe- miavab, Dist. Kheda.
947.	Bharatkumar Thakar Laxmishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	8818 11-8-83	C/o Vaidya Bhogilal Goradhan- das, Nagarkuva, At Petlad, Dist. Kheda-388450.
948.	Bharatkumar Tanna Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8634 28-1-83	10, Sattar Taluka Society, Navjivan, Navrangpura, A'bad
949.	Bharatkumar Trivedi Pranshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4281 20-3-74	Bhutpapeswar Dipo, At Surendranagar.
950.	Bharatkumar Trivedi Nilkanthray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4642 6-3-75	Chhotubhai Jivanji Vashi House, Vashi Faliyu At. Valsad.
951.	Bharatkumar Trivedi Mansukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5874 2-9-77	C/o A.K. Trivedi, 12, Gundavadi, Girishkunj, Rajkot-2.
952.	Bharatkumar Trivedi Karunashanker	Ay. Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1966	6492 1-2-79	53, Sharda Society, Ellishbridge, A'bad.
953.	Bharatkumar Vyas Jitendraray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5892 20-9-77	Gopipura Limadi Kui, Hou. No. 10/1092, At. Surat.
954.	Bharatkumar Upadhyay Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	8591 3-11-82	Near Nishak, At. & Post Malpur, Dist. Sabarkantha.
955.	Bharatsinh Vaghola Natvarsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7620 20-3-80	At. & Post Mokashi, Tal. Savali, Dist. Baroda.
956.	Bharatsinhji Jedeja Mansinhji	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	2224 30-6-56	At. Bagvadar, Via Porbandar, Dist. Junagadh.
957.	Bharatray Buch Dolatray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6135 12-4-78	C/o B.S. Kutchi, Ganesh Falia, Dist. Junagadh.
958.	Bhaskar Desai Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	2991 4-7-70	C/o Manibhai Kalyanji Desai, Vaidya Faliya, At. Maroli, Tal. Navsari, Dist. Valsad.
959.	Bhaskar Desai Vasanji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4162 23-1-74	At. Vaktana Tal. Choryasi, Dist. Surat.
960.	Bhaskar Karmakar Krishna	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1959	4537 1-7-59	Shri Nivas, Vasiya Road, Fateh- pura, P.W.D. Workshop, At Baroda.
961.	Bhaskar Pandya Chinubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6524 1-2-79	At. Lodra, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.

1	2	3	4	5
962.	Bhaskar Trivedi Ravishanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course Gujarat 1966	2264 18-11-66	Laxmi Nivas Opp. Townhall, Ellishbridge A'bad.
963.	Bhaskarbai Patel Mahendrabhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2531 27-6-67	Navadhara, At. Vase, Tal. Nandiad, Dist. Kheda.
964.	Bhaskargiri Goswami Nagargiri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3210 30-7-71	At. Kalari, Via, Visavadar, Dist. Junagadh.
965.	Bhashurrai Astik Dhirajlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	3044 15-9-70	At. Bhumbhli, Tal. Daskroi, Via and Dist. Bhavnagar.
966.	Bhaskarray Badhoka Narmadashanker	Vaidya Charya A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	6593 16-2-79	Gila Mistri's Khadaki, Ambika Kutir, At. Palitana, Dist. Bhavnagar.
967.	Bhaskarray Bhatt Pranshanke	Vaidyavisarad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	7291 20-9-79	Anandnagar, Nudke-42, At Bhavnagar.
968.	Bhaskarrai Dani Jayantilal	A.M.S., Univ. of Gujarat 1966	2736 19-2-69	C/o Pannalal Lallubhai, Sherilaxmi Steel & Wire Industries, Bandar Road, Bhavnagar.
969.	Bhaskarrai Dave Jaysukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5763 14-4-77	Jivan Laxmi, At Lakhavaval, Dist. Jamnagar.
970.	Bhaskarrai Dave Mansukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8132 4-8-81	C/o M. P. Dave, Taluka Panchayat-Colony, Qir. No. 8, Behind Gurudwara, At. Jamnagar.
971.	Bhaskarray Jani Pratapray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4558 19-10-74	R. No. 596, Vitthalavadi Colony No. 2, At Bhavnagar.
972.	Bhaskarray Joshi Jayashanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1951	249 1-2-52	Opp. Cloth Mill, At. Rajkot.
973.	Bhaskarrai Vyas Vallabhas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	1099 7-8-63	Devkana Ay. Hospital, Via. Shihor Jn., Dist. Bhavnagar.
974.	Bhau Fatil Dagadu	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3245 13-9-71	At. & Tal. Nizar, Dist. Surat.
975.	Bhavana Desai Vallabhbai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4291 27-3-74	1-A, Surjit Society. Thakkar- bapanagar Road. Near Jadia Colony, A'bad.
976.	Bhavana Desai Ishwarbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8982 12-3-84	"Saket", Mahadevnagar, At. Bilimora.
977.	Bhavana Dave Kamalnayan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7583 11-3-80	9, Shri Rang Society, Opp. Convent High School, Fatehganj. At. Baroda.
978.	Bhavna Gandhi Krishnakant	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9000 28-3-84	6, Hastinapur Society, Near Chand-Kheda Railway Station, Via. Jagatpur, Post Digvijaya- nagar, A'bad.
979.	Bhavna Nayak Dayashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8324 10-2-82	Jivraj Park, Tulasivan Society, Tajalpur-Road, A'bad.

1	2	3	4	5
980.	Bhavna Patel Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7587 14-3-80	C/o Patel Vijay Kumar, Flat No. 5-3, Kiran 63, G.P.T.S., 3rd Road, Golibar, Shantacruz, Bombay-55.
981.	Bhavna Parmar Sardarsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7825 24-9-80	C/o S.A. Parmar, B. No. 33/1, J.N. Type. Sector-20, Gandhinagar.
982.	Bhavna Upadhyay Indulal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9622 21-11-86	20/78, Guj. House Society. Near Raipur Mill, A-bad-21.
983.	Bhavnaben Dave Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8105 20-6-81	Karodia Pole, Penter Sheri, At. Baroda.
984.	Bhavanbhai Kalavadiya Bhikhabhai	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1973	4249 11-3-74	At. Rajpipala, Vi. Gadhada- swamina, Distt. Bhavnagar.
985.	Bhavanbhai Madavia Shamajibhai	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1945	7980 20-2-81	Shaktikrupa, Kalika Plot, At Rorabi, Distt. Rajkot.
986.	Bhavanbhai Solanki Hamirbhai	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1975	5594 5-11-76	At. Samter, Via. Una, Distt. Junagadh.
987.	Bhavin Vashi Chhaganlal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ. 1985	9649 31-12-86	"Parishram", Opp. Ketan Bording, Gulebi-Tekre, A'bad-6
988.	Bhavinkumar Joshi Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7523 15-2-80	At. & Post Neranj, Tal. Nadiad Distt. Kheda.
989.	Bhavsukh Joshi Umiyashankar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5421 4-6-76	At. Akala, Via. Lathi, Distt. Amreli.
990.	Bhawanishankar Mehta Harshadbhai	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1982	8519 27-8-82	31, Vallabhnagar Society, Branch Road, Surat-66.
991.	Bhikabhai Dave Gangaram	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	7146 24-7-79	At. Tirth Gam, Tal. Vav Dist. Banaskantha.
992.	Bhikhabhai Narsinhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	7289 20-9-79	At. & Post Salaiya, Tal. Bala- siner, Dist. Kheda.
993.	Bhikhabhai Patel Hirabhai	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1974	4654 12-3-75	Kasturba Galiya, At. Vaghodiya, Dist. Baroda.
994.	Bhikhabhai Patel Dalsingbhai	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1974	4848 14-5-75	At. Motipura, Tal. Kheralu, Dist. Mehsana.
995.	Bhikhabhai Patel Shankerbhai	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1981	8368 17-3-82	Rampur, Post Ganthiol, Tal. Udar, Dist. Sarbarkantha- 383410.
996.	Bhikhabhai Rajapati Punjabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	7401 27-11-79	At. Lalpur, Post Badoli, Tal. Idar, Dist. Sabarkantha.
997.	Bhikhabhai Valand Khemabhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1692 2-6-65	At. Dabhad, Tal. Kheralu Dist. Mehsana.

1	2	3	4	5
998.	Bhikhalal Jani Amarji	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1973	4419 15-6-74	At. Sathara, Via. Trapaj, Tal. Taloja, Dist. Bhavnagar.
999.	Bhikhalal Korat Lavaibhai	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1977	6926 17-4-79	Near Tejab Bhagat Sheri, At. Bhoraji, Dist. Rajkot.
1000.	Bhikhalal Limbani Ranchhodbhai	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1968	2854 27-10-69	Baharpara Chakkargadh Road, At. & Dist. Amreli.
1001.	Bhikhalal Mandaliya Jivraj	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1974	7049 21-6-79	Radhanpuri Bazar, Hanabha Sheri, Odhavji's Lalaji Khancha, At. Bhavnagar.
1002.	Bhikhalal Mehta Bhanjibhai	Vaidyavisharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1970	6848 2-4-79	Panchavati, Bhaktinagar, Station Plot, Sheri No. 2, At. Rajkot.
1003.	Bhikhalal Vaghasiya Jadavbhai	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	7112 16-7-79	At. Prempura, Via. Visvadar, Dist. Junagadh.
1004.	Bhikharam Ravisahob Mathuradas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7817 17-9-80	At. Zanzarada, Tal. & Dist. Junagadh.
1005.	Bhikhu Desai Kanaibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8646 1-2-83	Khodpara, Near Gopawadi, At. Jetpur-360370.
1006.	Bhikhulal Parsonda Mohanlal	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1972	4042 10-8-73	At. Umralli (Jam), Via. Gondal, Tal. Jetpur, Dist. Rajkot.
1007.	Bhikharaj Bhut Haribhand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3301 20-12-71	At. Rajpur, Tal. Disa, Dist. Banaskantha.
1008.	Bhikhubhai Nayak Nathubhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	476 1-8-56	At. & P.O. Gandevis, Dist. Valsad.
1009.	Bhikhubhai Vala Bhimbhai	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	6734 12-3-79	At. Valukad, (G.G.), Tal. Ghogha, Dist. Bhavnagar.
1010.	Bhikharilal Pandya Bhagvanji	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	760 12-6-63	Dist. Ay. Officer, Odhavji Kamothi's House, Behind Nagnath's Temple, Near Gheta Un. Centre, At. Amreli.
1011.	Bhilalbbhai Patel Nathabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5508 25-8-76	At. Lilod, Tal. Karjan, Via. Ankleshwar, Dist. Baroda.
1012.	Bhimabhai Mori Arjanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4526 24-9-74	At. Umarala, Via. Talala, Tal. Veraval, Dist. Junagadh.
1013.	Bhimaji Bhudiya Valaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	6102 28-3-78	At. & Post Mandhapar Navavas, At. Bhuj-Kutch.
1014.	Bhimaji Mansuriya Ravajibhai	M.A.S.F. P.B. Ay. Parishad, Calcutta 1977	7733 6-6-80	C/o Dr. N.G. Savasani, Patel Hospital, Nethan Palia, At. Junagadh.
1015.	Bhimaji Rajpara Manji	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1974	5035 11-11-75	At. Kalikanagar, Tal. Morabi, Dist. Rajkot.

1	2	3	4	5
1016.	Bhimaji Thakor Visaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8180 22-9-11	At. & Post Visalpur, Tal. Dascroi, A bad.
1017.	Bhimajibhai Ajani Shamajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8425 1-5-82	At. Kuchiyad, Via. Kuvadva Tal. and Dist. Rajkot.
1018.	Bhimjibhai Delvadiay Keharabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	2976 16-6-70	At. Hadiyala, Tal. Jodiya, Dist. Jamnagar.
1019.	Bhimajibhai Kathiriya Virajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5546 28-9-76	At. Mota-Ujala, Via. Kukavav, Dist. Amreli.
1020.	Bhimjibhai Lathiya Kalyanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4871 30-5-75	At. & Post Tana, Tal. Shihor, Dist. Bhavnagar.
1021.	Bhimjibhai Mavani Bhagvanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Unit., 1968	2830 28-8-69	At. Sekhpur, Tal. Lathi, Dist Amreli.
1022.	Bhimajibhai Vaishnav Savajibhai	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1974	7029 15-6-79	At. Prempura Via. Visavadar, Dist. Junagadh.
1023.	Bhimasinh Gami Bevidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5852 23-8-77	At. Dosvada, Tal Songadh, Dist Surat.
1024.	Bhirajlal Gondalia Vastabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7550 22-2-80	At. Sukhpur, Via. Visavadar, Dist. Junagadh.
1025.	Bhirajlal Parikh Vrajlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	5651 18-1-77	Bala Ay. College Lodra, Tal., Vijapur, Dist. Mehsana.
1026.	Bhirajlal Popatani Bachubhai	Vaidya Visharad, A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	7086 5-7-79	At. Chhachhar, Tal. Kodinar, Via. Ghatvad, Dist. Amreli.
1027.	Bhirajlal Ratadiya Ranchhoddas	Ay. Bhishak, A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	65944 16-2-79	Haveli Chowk, At. Chorvad, Dist. Junagadh.
1028.	Bhirajlal Savliya Panchbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4308 2-4-74	At. Chadiya Via. Chalala, Dist. Amreli.
1029.	Bhishan Tejvani Narira	B.A.M.S., Vikram Univ. Ujjain, 1975	7376 29-10-79	Damodar Build, Raxaparkdha- ni, Limda-Road, Tolnaka, A'bad.
1030.	Bhishmakumar Agnihotri Ramnalal	Ay. Bhishak, A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1973	6837 22-3-79	Bhivem, Rambari, Bhadra, A'bad.
1031.	Bhogilal Dharangdhriya Mohanal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4102 20-10-73	At. Samter, Tal. Una, Dist. Junagadh.
1032.	Bhogilal Gandhi Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7833 30-9-80	At. Miyagam, Tal. Karjan, Dist. Baroda.

1	2	3	4	5
1033.	Bhogilal Mehta Himatlal	Ayurved Visharad, R.S. Mahavidyalaya, Baroda 1953	1612 22-2-65	At. & Post Mobha, Tal. Padra, Dist. Baroda.
1034.	Bhogilal Makvana Tansukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6161 16-5-78	At. & Post Polarpur, Tal. Dhan- ddhuka, Dist. A'bad.
1035.	Bhogilal Nayak Jayshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3834 1-3-73	At. Kolwava, Tal. & Dist. Gandinagar.
1036.	Bhogilal Parmar Kanajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6331 4-10-78	Hepines Tailors, New Civil Road, Opp. Balbhavan, A'bad.
1037.	Bhogilal Patel Bahechorbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4265 18-3-74	At. Vojalpur, Tal. Savali, Dist. Baroda.
1038.	Bhogilal Patel Balibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5458 14-7-76	At. Rarod, Tal. Karjan, Dist. Baroda.
1039.	Bhogilal Patel Raghubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7069 30-6-79	At. Dasaj, Tal. Siddhapur, Dist. Mehsana.
1040.	Bhogilal Patel Vitthalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7541 20-2-80	At. Zanzad, Tal. Sinor, Dist. Baroda.
1041.	Bhogilal Shah Chandulal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1958	1197 2-1-58	At. Amirgadh, Tal. Palanpur, Dist. Banathkantha.
1042.	Bhojubha Jadeja Dilipsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3916 7-4-73	At. Nanavadala, Via. Kharadi, Tal. Kalavad, Dist. Jamnagar.
1043.	Bhupendra Patel Morarbhai	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1961	594 5-12-61	At. & P.O. Bareja, Dist. A'bad.
1044.	Bhupenderabhaj Shah Dasharathla	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5682 24-2-77	Shri Krishna Krupa, 2-Subhan- pura Road, Race Course, Ilora- park Shopping Centre Baroda.
1045.	Bhupendrakumar Patel Maganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4038 10-9-73	At. Kural, Tal. Padara, Dist. Baroda.
1046.	Bhupitshandra Shah Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3853 8-3-73	At. Sama, Tal. Kalol, Dist. Panchmahal.
1047.	Bhupatbhai Govani Laxmanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3940 5-5-73	At. Panelimoti, Tal. Uplaeta, Dist. Rajkot.
1048.	Bhupatrai Jani Manishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3235 30-8-71	At. Asodar, Via. Damnagar, Dist. Amreli.
1049.	Bhupatray Nirmal Parmanaddas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5089 18-12-75	Nani Bazar, Vadali Sheri, At. Gondal, Dist. Rajkot.

1	2	3	4	5
1050.	Bhupatrai Ramanadi Kumandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4236 28-2-74	Gita Gujarati Society, Airodram Road, At. Rajkot.
1051.	Bhupatsinh Atodariya Jaysinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8408 5-4-82	At. & Post Kyas, Tal. Chor- yasi, Dist. Surat.
1052.	Bhupatsinh Thakor Gambhirsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7638 20-3-80	At. Kimakali, Post Kim, Tal. Olpad, Dist. Surat.
1053.	Bhupendra Vaidya Harilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5095 22-12-75	Mahatma's Vadi, Khatodera, Surat.
1054.	Bhupendra Vaidya Zinabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6929 17-4-79	B. No. 3, B-Uttamnagar Society Vasana, A'bad.
1055.	Bhupendra Bhatt Bhaishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3495 24-4-72	Govt. Quarter, No. 20, At. & Dist. Amreli.
1056.	Bhupendra Dalal Ishwarlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1962	2406 1-3-67	Mora Bazar, Valsad.
1057.	Bhupendra Joshi Natbarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4445 16-8-74	Natraj Hotel, Near Congress House, Opp. Gujarat Club, Bhadra, A'bad.
1058.	Bhupendra Kinariwala Sunderlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1958	111 2-8-58	9/1637, Kalapith Road, At. Surat.
1059.	Bhupendra Pandya Ambalal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1667 21-5-65	Derasar's Khanche, Lalbhui's Pole, Mandvini's Pole, A'bad.
1060.	Bhupendra Patel Thakorabhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	595 5-1-62	Dave Pole, Kakarkhad, Nadiad, Dist. Kheda.
1061.	Bhupendra Parikh Ratilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1959	687 3-8-59	Court Road, At. Zalod, Dist. Panchmahal.
1062.	Bhupendra Raval Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2821 25-8-69	Opp. Harmal Vilas Railway Station, At. & Tal. Morbi, Dist. Rajkot.
1063.	Bhupendra Shukla Ramaniklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3945 17-5-73	2, Digvijay Plot, Shaileshsadan, At. Jamnagar.
1064.	Bhupendra Solanki Hasmukhlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9391 23-9-85	6/302, Machharpura, Kolaswad, At. Surat-3.
1065.	Bhupendra Thakar Bhaishanker	Ay. Madhyama, SD. Pariksha Samiti, Baroda 1963	6580 16-2-79	1358, Moti Vasanshori, Saraspur, A'bad.
1066.	Bhupendra Trivedi Bhogilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4652 12-3-75	2, Maheshwarnagar Co. Op. Hou. Society, Race Course, Near Subhash Pura, Baroda.

1	2	3	4	5
1067.	Bhupendrabhai Gajjar Balubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3390	6/731, Galemandi, Motisheri, 21-2-72 Surat.
1068.	Bhupendrabhai Patel Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5117	72, Uttat Guj. Society, Vibhag-1, 8-1-76 Asarva, A'bad.
1069.	Bhupendrakumar Bhatt Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6310	47, Arihant Co-op. Hou. Socie- 27-9-78 ty, Behind Vasana Bus Stand, Opp. Muni School, Vasana, A'bad.-7.
1070.	Bhupendrakumar Dave Hiralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3237	Suthar Faliom At. Kathavada, 2-9-71 Tal. Dasoroi, Dist. A'bad.
1071.	Bhupendrakumar Dave Pranshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4136	Bhadali Gate, At. Gadhada 10-12-73 (Swamina), Dist. Bhavnagar.
1072.	Bhupendrakumar Jani Gajanand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8702	Dharmnagar Society, At. Dha- 16-3-83 rmaji, Tal. Petlad, Dist. Kheda.
1073.	Bhupendrakumar Joshi Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5203	C/o. Compounder's Quarter, 26-2-76 General Hospital, At. Juna- gadh.
1074.	Bhupendrakumar Mehta Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7209	At. Narsada, Tal. Nadiad, Dist. 20-8-79 Kheda.
1075.	Bhupendrakumar Mevada Chhaganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4850	At. Mandali, Tal. Kheralu, 14-5-75 Dist. Mehsana.
1076.	Bhupendrakumar Pandya Kusumkant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7970	Manapole, Chakala, Gandhi 20-2-81 Sheri, At. & Post & Tal. Dab- hoi, Dist. Baroda.
1077.	Bhupendrakumar Purohit Amrutlal	Ay. Bhishak, A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1979	7965	At. & Post Sathamba, Tal. 3-2-81 Bayad, Dist. Sabarkantha.
1078.	Bhupendrakumar Raval Dhirajlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5451	Raval Street, At. Beshara, 6-7-76 Via. Bilimora, Tal. Gandevi, Dist. Valsad.
1079.	Bhupendrakumar Raval Chhababhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8443	At. & Post Pilunra, Tal. Pran- 31-5-82 tij, Dist. Sabarkantha.
1080.	Bhupendrakumar Raval Babulal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9568	R.S. Hospital, At. Dhavura, 23-9-68 Dist. R.K.
1081.	Bhupendrakumar Shah Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5053	Bazar, At. Bayad, Dist. Sabar- 26-11-75 kantha.
1082.	Bhupendrakumar Valand Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4344	Nananagar Vada, At. Kapad- 19-4-74 vanj, Dist. Kheda.
1083.	Bhupendraprasad Dixit Damodarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5906	Shri Ranchhodji's Temple, Near 28-9-77 Nageshwar Lake, At. Jambusar, Dist. Broach.

1	2	3	4	5
1084.	Bhupendraprasad Patel Ramdashbhai	Ay. Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	7135 24-7-79	At. Ori, Tal. Rajpipala, Dist. Baroach.
1085.	Bhupendrasinh Chauhan Shivaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7323 10-10-79	At. Gorita, Tal. Vijaypur, Dist. Mehsana.
1086.	Bhupendrasinh Raj Bahadursinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8762 11-5-83	C-1, Vajbhav Apptt., Atbava Lines, Diwalibag, At. Surat.
1087.	Bhupeshkumar Pandya Manishanker	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9017 16-4-84	2/1, Pushpakunj, Mahamandir Road, At. Himmatnagar-383001
1088.	Biharilal Bave Krubsnaprad	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1977	6813 22-3-79	29-A, Keshavbag Colony, Ram- nagar, Sabarmati, A'bad.
1089.	Biharilal Patel Arjunbhai	Ay. Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1973	6498 1-2-79	Opp. Pinakin Oil Mill, Chak- kargadh-Road, At. & Dist. Amreli.
1090.	Bilkibanu Shekh Husenmiya	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4868 30-5-75	C/o Husen & Co., Machchhi Pith, Ravpura, Dist. Baroda.
1091.	Bimalkumar Barot Dasharathlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8843 19-9-83	7, Shriji Society, Petlad Road, At. Nadiad, Dist. Kheda- 387 001.
1092.	Bina Notisvala Vinodchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7613 18-3-80	12/260, Limada Chowk, Patava Sheri, Surat.
1093.	Bina Rathod Mulchandbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8021 3-4-81	51, Ganpatnagar Society, Opp. New Civil Hospital, A'bad.
1094.	Bina Shah Ratilal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1965	1714 15-6-65	44, Prahalad Plot, Rajkot.
1095.	Bina Shukla Pravinchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7860 10-10-80	C/o Dr. Vijaykumar S. Bhatt, Near Dena Bank, At. Fetlad.
1096.	Bina Shukla Chhelshankar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9623 21-11-86	11, Babrik Society, Malavialav, Jivraj Park, A'bad-51.
1097.	Binaben Trivedi Bipinchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6473 19-1-79	Gayatri Clinic, Bus Stand Road, At. Palitana, Dist. Bhavnagar.
1098.	Binakumari Vaidya Gopaldas	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9124 23-8-84	At. & Post Amalsad, Tal. Gan- devi, Dist. Valsad.
1099.	Bindu Desai Balavantray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8435 17-5-82	32, Gandhinagar Society, Maha- roni-Shantadove Road, Behind, Jahangir Tokiz, At. Navanri.

1	2	3	4	5
1100.	Bindu Master Kaushik	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5846 16-8-77	6, Shantivan Society, Narayana- gar Road, Paladi, A'bad.
1101.	Bindu Shah Rasiklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4185 12-2-74	1004, Tokarsha's Pole, Rajkhad, A'bad.
1102.	Binduben Barot Ramlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2098 13-7-66	3-A, Chandra Colony, Behind Law College, Ellis Bridge, A'bad
1103.	Binduben Kothari Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3345 8-2-72	C/o Bharatkumar B. Shah, Jag- jivan Narandas Pole, Nagarkui, Nadiad.
1104.	Binduben Zaveri Chimanlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	1532 3-1-55	E.S.I. Dispensary, At. Porban- dar, Dist. Junagadh.
1105.	Bindubashini Vyas Gunavantrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3357 15-2-72	M/18, Officer's Colony, Alka- puri, Baroda-5.
1106.	Bineshkumar Chariya Namirbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7422 12-12-79	At. Kukashvada, Via. Chorvad, Dist. Junagadh.
1107.	Binita Joshipura Dhruvkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6377 27-10-78	13, Parijit Society, Fatehnagar, Paladi, A'bad.
1108.	Birendra Pande	H.P.A., P.G.T. Centre in Ay., Jamnagar 1965	2738 21-2-69	Medical Officer, Dispensary, At. Umargam, Dist. Valsad.
1109.	Birish Soni Narendrabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9428 2-12-85	"Krushnakunj", Near Chitrakut Society, At. Thara, Dist. B.K.
1110.	Bipinbhai Patel Govindbhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	591 9-1-63	Bhandu, Tal. Visnagar, Dist. Mehsana.
1111.	Bipinbhai Patel Shivabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3600 15-9-72	At. Khambholai, Tal. Anand, Dist. Kheda.
1112.	Bipinchandra Vaidya Natavarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3516 7-6-72	Kolampadi, At. Khambhat, Dist. Kheda.
1113.	Bipinchandra Vaidya Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7272 12-9-79	C/o. Dr. Jayantilal Vaidya, At. Dadhora, Post Biguri, Via. Bili- mota, Dist. Valsad.
1114.	Bipinchandra Amin Ambalal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1967	2588 19-9-67	Medical Officer, At. Sonasan, Tal. Prantij, Dist. Sabarkantha.
1115.	Bipinchandra Barhiya Mansukhlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1960	784 23-10-61	Near Dharam Kanta, 11/1234 Nanavat, Main Road, Surat.
1116.	Bipinchandra Chothani Jawaharlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9296 23-5-85	At. Gadhsisa Kutch, Tal. Man- davi Kutch-370 445, Dist. Bhuj-Kutch.

1	2	3	4	5
1117.	Bipinchandra Desai Chhotubhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1960	426 23-10-61	Bhimbhuvan, 529, Housing So- ciety, Station Road, Navasari.
1118.	Bipinchandra Desai Dhirendrarai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4051 15-9-73	C/o D. V. Desai, Station Plot, At. Una, Distt. Junagadh.
1119.	Bipinchandra Donga Kurajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3857 8-3-73	At. Bulapar, Post Charel, Tal. Jam-Kandorna, Via Bhaya- vadar, Distt. Rajkot.
1120.	Bipinchandra Kothari Laherchand	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat, 1965	1668 21-5-65	Rama Park, Duxini Society Place, A'bad.
1121.	Bipinchandra Laheru Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5181 18-2-76	Dr. K. T. Laheru, At. Savadi Tankara, Tal. Marabi, Distt. Rajkot.
1122.	Bipinchandra Mehta Hiralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4140 20-12-73	C/o Hiralal H. Mehta, Dana- pith, Pipala Khadaki, At. Junagadh.
1123.	Bipinchandra Pandit Jivanlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1965	1721 15-6-65	Nani Bhagol, Behind Ambaji Mata, At. Prantij, Distt. Sabarkantha.
1124.	Bipinchandra Pandya Chunilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3668 25-10-72	Bhavsar Vas, At. Nardipur, Tal. Kalol, Distt. Mehsana.
1125.	Bipinchandra Panehal Ravajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7064 30-6-79	Nana Ata's, At. Chakalashi, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
1126.	Bipinchandra Parmar Vrujlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8294 5-2-82	Darbari Vas, At. Amaran, Via Morabi, Tal. Jodia, Distt. Jamnagar.
1127.	Bipinchandra Patel Pratapsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5671 15-2-77	At. Garbada, Tal. Bahod, Distt. Panchmahal
1128.	Bipinchandra Patel Bhikhubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9459 10-1-86	At. & P. O. Kant, 394,550 Tal. Mehuva Distt. Surat.
1129.	Bipinchandra Pathak Hiralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3341 8-2-72	13, Lokjivan Society, Near Maniyasha School, Maninagar, A'bad.
1130.	Bipinchandra Raghavani Ratilal	Ay. Madhyama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda, 1978	6482 1-2-79	Rughamathdas Mahella, Near Dena Bank, At. Viramgaum, Distt. A'bad.
1131.	Bipinchandra Shah Chandulal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2360 10-1-67	Kothi Falia Kachhiyavad, Baroda.
1132.	Bipinchandra Shastri Chhotalal	B.S.A.M Gujarat Ay. Univ., 1968	2874 16-1-70	Nagarveda, Zaghdia Pole, At. Nadiad, Distt. Kheda.

1	2	3	4	5
1133.	Bipinchandra Shukla Pranlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1955	1279 1-5-58	At. Lalpur, Distt. Jamnagar.
1134.	Bipinchandra Sukhadvala Dhansukhlal	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ., 1976	6040 16-2-78	1/1650, Suthan Street, Nanpura, At. Surat.
1135.	Bipinchandra Upadyay Nirmatbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6294 20-9-78	At. & Post Datha, Tal. Talaja, Distt. Bhavnagar.
1136.	Bipinchandra Vaishnav Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7306 20-9-79	At. Buniyani, Via. Supedi, Tal. Upaleta, Dist. Rajkot.
1137.	Bipinchandra Vyas Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5424 4-6-76	Baharpara, At. Manavadar, Dist Junagadh.
1138.	Bipinkumar Bharvada Mulchand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	8840 6-9-83	B/No. 51/37, Gandhinagar, At. Jamnagar.
1139.	Bipinkumar Parmar Xanajibhai	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1977	6642 26-2-79	Capimes Tailor, Asarva, Char Rasta, Near Civil Hospital, A'bad.
1140.	Bipinkumar Rathod Dhirsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7672 18-4-80	At. Digendranagar, Tal. Valsad, Dist. Valsad.
1141.	Bipinkumar Thumar Devajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5163 12-2-76	At. Lariya, Tal. Visavadar, Dist. Junagadh.
1142.	Bipinkumar Vora Bhagvanji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6293 20-9-78	At. & Post Bhuvana, Via. Rajkot-2.
1143.	Bipinlal Patel Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8513 27-8-82	At & Post Ranochi, Tal. Bayad, Dist. Sabarkantha.
1144.	Birendrasinh Mahida Bahadrusinh	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9002 28-3-84	At. & Post Olpad, Tal. Olpad, Dist. Surat.
1145.	Bole Thakar Shashikant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8527 14-9-82	C/o Shashikant B. Thakar, Central Jail, Baroda.
1146.	Brijavallabh Goswami Salonevallabh	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1961	168 25-1-62	4/A, Gangotri Society, Behind St. Xaviyars College, Elish- bridge, A'bad.
1147.	Brijlal Mehta Tribhovandas	B.I.M.S., B.I.M., Lucknow 1949	914 12-7-62	At. Ravni, Via. Junagadh.
1148.	Brijlal Patel Sakharam	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, Maharashtra 1971	4210 18-2-74	Panchayat Dispensary, At. Li- lav, Tal. Kasot, Dist. Baroch.
1149.	Brijlal Patil Ukha	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2073 24-6-66	At. Sisodra, Via, Kosmba, Dist. Broach.
1150.	Brijkishor Agnihotri	A.M.B.S., B.I.M., Lucknow 1965	1879 8-12-65	At. Naroli (Nagar Haveli), Via. Vapi.
1151.	Budhalal Makvana Nagajibhai	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	7417 29-11-79	Koli's Mandirvala Khancha, At. Palitana, Dist. Bhavnagar.

1	2	3	4	5
1152.	Buddhadevpuri Goswami Hirapuri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3471 5-4-72	At. Sarsa, Tal. Anand, Dist. Kheda.
1153.	Bushpakant Bhatt Manishankor	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6865 2-4-79	At. Bagvada, Via. Udavada, Tal. Paradi, Dist. Valsad.
1154.	Changanlal Mothi Manibhai	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1962	7704 29-4-80	At. & Post Sarvad, Via. Morabi, Tal. Mulla-Matina, Dist. Rajkot.
1155.	Chaganlal Poria Manajibhai	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1976	7040 21-6-79	Pramila Kutir, Master Society, At. Rajkot-2.
1156.	Chaitanya Pandya Narendra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6287 20-9-78	Kadava Falia, At. Zagadia, Dist. Broach.
1157.	Chamanlal Ginda Odhavji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	4643 12-3-75	Sheth Vadala, Tal. Jam- Jodhapur, Dist. Jamnagar.
1158.	Champaben Changela Ishwarlal	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	7407 29-11-79	At Moti Marad, Tal. Bhoraji, Dist. Rajkot.
1159.	Champaklal Nahar Motichand	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1961	485 7-9-62	Public Dispensary At. Puni, Via. Vesma, Dist. Surat.
1160.	Champaklal Shah Vrajlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	1151 1-8-55	At. Bhildi, Tal. Disa, Dist. Banaskantha.
1161.	Chandanben Gamit Meghajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5120 15-1-76	At. Jakhala, Post Tarsada, Tal. Mandavi, Dist. Surat.
1162.	Chandaben Shah Prafulbhai	Vaidya-Charya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1968	7279 15-9-79	Bovkuvarba Schoolvali Sheri, Bedinaka, At. Rajkot.
1163.	Chandmohammad Pattharavala Deska Mohamad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8213 2-11-81	St. Road, At. Begvada, Tal. Dabhoi, Dist. Baroda.
1164.	Chandika Rupera Jashavantlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5077 15-12-75	18, Nanda nagar, Near Bapu- nagar, A'bad.
1165.	Chandika Thakkar Ramjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	6931 17-4-79	475-A, New Railway Colony, Sabarmati, A'bad.
1166.	Chandra Ambavami Dulchand	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1974	6550 12-2-79	Ward No. G/120, Kubernagar, A'bad.
1167.	Chandra Patel Babulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4694 25-3-75	Mama Kotha Road, Hira Sheri, At. Bhavnagar.
1168.	Chandra Sharma Dev	AMBS, Board of IM, Lucknow 1959	2466 17-4-67	Ramlila's Vada, Nagra, Ajmer.
1169.	Chandra Za Dev	H.P.A., P.G.T. Centre in Ay. Jamnagar, 1963	1431 2-5-64	Ayurvedic College, At. Juna- gadh.
1170.	Chandra Mansi Thakur Ramnaxatransinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3610 18-9-72	Panjari Chal Office, Gomatipur, A'bad.

1	2	3	4	5
1171.	Chandrika Bhatt Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5564 13-10-76	At. Dasharath, Tal. & Dist. Baroda.
1172.	Chandrika Kotecha Laxmidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3975 20-2-73	Shriram Guest House, At. Porbandar, Dist. Junagadh.
1173.	Chandrika Patel Shankerlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4037 4-9-73	C/o Padhlyar Madansinh Vijay- sinh, At. & Post Danta, Dist. Banaskantha.
1174.	Chandrika Patel Bhikhubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	8929 17-2-84	Bhikhankui, Nadidi Bhagol, At. & Post Dabhoi, Dist. Baroda.
1175.	Chandrika Shah Bhogilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3776 9-2-73	6, Alaknanda Society, Ashram Road, A'bad.
1176.	Chandrika Shukla Labhshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4151 15-1-74	Near Old Post Office, At. Jam- nagar.
1177.	Chandrikaben Dave Navinchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4927 5-8-75	C/o Dr. K.S. Chudama, At. Divasa, Tal. Mangarol, Dist. Junagadh.
1178.	Chandraben Nathavani Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4603 4-1-75	C/o Amrutlal Laxmichand, Near Old Bus Stop, At. Kalavad Shitala, Dist. Jamnagar.
1179.	Chandrikaben Mashrubala Hasmukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8537 14-9-82	Sidhi Sheri, Salabatpura, Tal. Choryasi, Dist. Surat.
1180.	Chandrikaben Mastar Jayramdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4035 4-8-73	Soni Falia, Near Besant Hall, Abhala Wala's Building, At. Surat.
1181.	Chandrikaben Parmar Jagjivandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3914 7-4-73	H. No. 7/611, Lal Gate, Ram- pura, Rambag, At. Surat.
1182.	Chandrikaben Patel Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	5655 18-1-77	Krishna Nivas, Brahmपुरi, Dandiya Bazar, Baroda.
1183.	Chandrikaben Shah Devchandbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	3001 17-7-70	14, Tashakand Society, Amba- vadi, Ellishbridge, A'bad.
1184.	Chandrikaben Vyas Thakorlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3433 14-3-72	At. Bhuj, Tal. Padra, Dist. Baroda.
1185.	Chandrsinh Solanki Nathsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8453 15-6-82	At & Post Saniya Kanade, Tal. Choryasi, Distt. Surat.
1186.	Chandrabhanusinh Jadeja Mahendrasinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4361 26-4-74	Lakhubha Saheb's Utara, Bedi- naka, At. Rajkot.
1187.	Chandradatt Dave Vasantray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8103 20-6-81	Juni Vitthavadi, Behind Co-Op. Petrol Pump, Gayatri Dispens- ary, At. Bhavnagar.
1188.	Chandrakala Doshi Pravinchandra	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1965	1927 29-1-66	C/o Zaverchand Odhavji Mahta, Behind Punjab National Bank, Jamnagar.
1189.	Chandrakala Doshi Govindlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6746 15-3-79	16, A.S.T. Society, Opp. T.B. Hospital, At. Baroda.

1	2	3	4	5
1190.	Chandrakala Pandit Rameshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7989 25-2-81	C/o R.N. Pandit, Patel Colony, Road No. 3, Sheri No. 4, Near Santishi Krupa, Jamnagar.
1191.	Chandrakant Ambelal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5215 26-2-76	76, Dudheswarnagar, Ajava Road, Baroda.
1192.	Chandrakant Vaidya Shivabhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1963	1420 4-4-64	Varadh Office, Nandiad.
1193.	Chandrakant Vaidya Marharilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3569 30-8-72	Holithakla, At. Kapudvanj, Dist. Kheda.
1194.	Chandrakant Bhatt Mohanlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	817 2-8-58	At. Batava, Tal. Manavadar.
1195.	Chandrakant Bhatt Mohanlal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1961	816 18-6-62	Morabi House, Jn. Plot, Rajkot.
1196.	Chandrakant Bhatt Hiralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3239 2-9-71	At. Timbagam, Tal. Godhara, Dist. Panchmahal.
1197.	Chandrakant Bhatt Jatashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5151 4-2-76	At. Palasvada, Tal. Dabhoi, Dist. Baroda.
1198.	Chandrakant Bhavsar Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3482 18-4-72	At. Birpur, Tal. Balasinor, Dist. Kheda.
1199.	Chandrakant Dave Laxmishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4377 20-5-74	At Pipartoda, Via. Jamnagar.
1200.	Chandrakant Desai Bhogilal	Ayurved Visharad, M.S. Univ. Baroda 1938	1958 2-1-38	Chadiyali Pole, Kolakhadi, At. Baroda.
1201.	Chandrakant Desai Naranji	Ayurved Alankar, Ay. College, Gurukul Univ. Kangri (Hardwar), 1947	2183 19-3-47	Medical Officer, E.S.I., D-33, A'bad.
1202.	Chandrakant Desai Dinkararao	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6112 5-4-78	H. No. 181/2, Harinagar, At & Post Udhana, Tal. Cheryasi, Dist. Surat.
1203.	Chandrakant Dholakia Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4782 16-4-75	At. Alarasa, Tal. Borad, Dist. Kheda.
1204.	Chandrakant Dudhavala Maganlal	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1978	6557 12-2-79	2/184, Rustampura, Mota- Kumbhar-Vad, At. Surat.
1205.	Chandrakant Hirani Harjivanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4759 7-4-75	Dariyalal Sheri, At. Morbi, Dist. Rajkot.
1206.	Chandrakant Hubalikar Krushnasa	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9318 25-7-85	38, New National Mills, Ghal Rakhial Road, A'bad-23.
1207.	Chandrakant Jagirdar Manganlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1946	191 31-5-46	Nani Pandya Khadaki, At. Navsari, Dist. Valsad.

1	2	3	4	5
1208.	Chandrakant Jani Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4997 17-10-75	At. Ongaja, Tal. Deseroi, Dist. Allahabad.
1209.	Chandrakant Joshi Fulshanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	222 1-9-55	R.M.O. Govt. Hospital, At. Gondal, Dist. Rajkot.
1210.	Chandrakant Joshi Ramkrishna	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1957	223 1-7-58	At. Ratadia, Tal. Munda, Dist. Kutch.
1211.	Chandrakant Naheru Vitthalidas	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	5675 24-2-77	Ay. Colony, Block B-3, At. Jamnagar.
1212.	Chandrakant Nimavat Dalapatram	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1968	7604 18-3-80	At. Mota Kalavad, Tal. Dhan- vad, Dist. Jamnagar.
1213.	Chandrakant Nirmal Chhaganlal	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1970	7277 15-9-79	Mahatma Gandhi Road, At. Limbadi, Dist. Sundarnagar.
1214.	Chandrakant Oza Jayramji	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1958	81 1-2-60	Jilla Panchayat Ay. Dispensary, At. Rostal, Via. Dhasa, Tal. Gadhada, (Swami), Dist. Bhav- nagar.
1215.	Chandrakant Pandit Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6101 28-3-78	At. Jaliya, Via. Kagadadi, Tal. & Dist. Rajkot.
1216.	Chandrakant Pandya Chhaganlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	744 15-9-62	At. Undera, Tal. & Dist. Baroda.
1217.	Chandrakant Pandya Pranshanker	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1967	2518 16-6-67	Apashara Sheri, At. & Tal. Talasa, Dist. Bhavnagar.
1218.	Chandrakant Pandya Ramanlal	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1974	6897 16-4-79	At. Shishava, Tal. Board, Dist. Kheda.
1219.	Chandrakant Parekh Nagardas	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1966	2125 1-6-66	Jodia Govt. Hospital, At. Jodia, Dist. Jamnagar.
1220.	Chandrakant Parekh Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7887 14-11-80	Near Navdhara At. Navali, Tal. Anand, Dist. Kheda.
1221.	Chandrakant Patel Dhoribhai	D.A.S.F. Fac. of AUSM, Bombay 1955	532 1-8-55	4-1-269, Trup Bazar, At. Hy- derabad.
1222.	Chandrakanta Patel Manganlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1958	533 2-3-59	Chhalia Para, Limbadi, Dist. Surendranagar.
1223.	Chandrakant Patel Chunilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3775 9-2-73	Vandh,s Khadaki, At. Pipalag, Tal. Nadiad, Dist. Kheda.
1224.	Chandrakant Patel Gandalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5442 25-6-76	C/o Gandalal Narottamdas, At. Medaadar, Tal. Kadi, Dist. Mohsana.

1	2	3	4	5
1225.	Chandrakant Patel Babubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	9076 29-6-84	At. Tarakani, Post Anaval, Tal. Mahuva, Dist. Surat.
1226.	Chandrakant Patel Bhikhubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9465 10-1-86	23, Amarpark Society, Vaghc- diya Road, At. Baroda-19.
1227.	Chandrakant Patel Dahyabhai	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1973	7034 20-6-79	Kabir Falia, Near Parbadi, At. Ras, Tal. Borsad, Dist. Kheda.
1228.	Chandrakant Raval Kantilal	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1979	9246 12-3-85	C-104, Rajendranagar Society, At. Rajpipala, Dist. Broach.
1229.	Chandrakant Shah Ramanlal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1964	1501 31-7-64	Raman Bhuvan, Rareksheri, Devgadhbaria, Via. Piplod, Dist. Panchmahal.
1230.	Chandrakant Shah Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ 1977	7018 16-5-79	At. & Post Jindava, Tal. Dahe- gam, Dist. A'bad.
1231.	Chandrakant Shukla Prabhushanker	Ayurved Visharad, M.S. University, Baroda 1953	2146 9-10-53	Sheth Fali No. 2, At. Jamnagar.
1232.	Chandrakant Shukla Himmatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ, 1973	4560 19-10-74	62, Sarvodayanagar, Outside Shapurgate, A'bad.
1233.	Chandrakant Solanki Bhagvanjibhai	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1975	6690 3-3-79	Valand Sheri, Om Nivas, At. Morabi, Dist. Rajkot.
1234.	Chandrakant Solanki Jivabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7357 29-10-79	At. & Post Palej, Tal. & Dist. Broach.
1235.	Chandrakant Soni Narjivan das	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7132 19-7-79	91, Gajraj Society, Chandlo- dia, A'bad.
1236.	Chandrakant Suthar Prabhudas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	8942 17-2-84	At. Nana Ankevaliya, Tal. Lakhatar, Dist. Surendra- nagar-362110.
1237.	Chandrakant Thakar Dayashanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	277 22-6-62	At. Mujpur, Tal. Sami, Dist. Mehsana.
1238.	Chandrakant Thakar Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	7070 30-6-79	At. Torana, Tal. Kapadvant, Dist. Kheda.
1239.	Chandrakant Thakkar Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4833 8-5-75	C/o A.B. Thakkar, Bhaysar Vad, At Mahemdabad, Dist. Kheda.
1240.	Chandrakant Trivedi Vidyaram	D.A.SF., Fac. of AUSM, Bombay 1952	307 5-9-52	Medical Officer, Chital Dis- pensary, At. Chital, Dist. Amreli.
1241.	Chandrakant Trivedi Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3134 20-2-71	Sukhnath Road, At. Uplata, Dist. Rajkot.

1	2	3	4	5
1242.	Chandrakant Trivedi Bhaishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4008 17-8-73	Opp. Nyay Court, At. Shihor, Dist. Bhavnagar.
1243.	Chandrakant Trivedi Bhaishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5006 20-10-75	At. Khas, Via. Ranpur, Dist. A'bad.
1244.	Chandrakant Trivedi Prahadbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6871 3-4-79	At. Ranoli (Dharmaji), Tal. Borsad, Dist. Kheda.
1245.	Chandrakant Vaishnav Hargovinddas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8155 3-9-81	At. Shapur (Sorath), Tal. Van- thali, Azad Chowk, Main Bazar, Dist. Junagadh.
1246.	Chandrakantaben Patel Chunilal	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1972	9149 1-10-84	At. & Post Savali, Via. Nas- vadi, Tal. Tilakvada, Dist. Baroda.
1247.	Chandramalika Oza Ratilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1960	82 25-9-62	9, Niranjan Society, Memnagar, A'bad.
1248.	Chandramani Sindhai Hemchand	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	1631 1-2-54	Avnikapark Block 36, Khanpur Road, A'bad.
1249.	Chandramauli Gory Pramodshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7676 18-4-80	C/o J.R. Triveeli, 17/180, Vielyu- nayer Flat, Near Nimmatpark, A'bad.
1250.	Chandraprabh Sharma Guanchand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5590 27-10-76	30/310, 3rd Floor, 4, Satynagar, Udhana, Surat-394210.
1251.	Chandrapratap Karan Dhanpati	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9004 28-3-84	At. & Post Maendragadh, Dist. Sarguja (M.P.).
1252.	Chandrashanker Joshi Hargovinddas	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1960	8139 21-8-81	At. & Tal. Shihor, Dist. Bhavnagar.
1253.	Chandrashanker Vyas Gaurishanker	Ayurved Visharad, M.S. Univ. 1941	2484 3-6-41	At. Adas, Tal. Anand, Dist. Kheda.
1254.	Chandrasinh Zala Jashavantsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4064 26-9-73	At. Santhal, Tal. & Dist. Meh- sana.
1255.	Chandravadan Vaidya Nanalal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1961	1067 23-10-61	C/o Nanalal G. Vaidya, At. Miyagam, Tal. Karjan, Dist. Baroda.
1256.	Chandravadan Vaidya Jayantilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1964	4 23-11-64	Hathi Pole, Baroda.

1	2	3	4	5
1257.	Chandravadan Bhatt Balubhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1953	818 16-6-53	Shanti Nivas, Sutlia Pole, At. Nadiad, Dist. Kheda.
1258.	Chandravadan Bhatt Rameshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6288 20-9-78	At. & Post Dedarava, Via. Jetalsar Jn., Ramkaka-Sheri, Laxmi Niwas, At. Jamnagar- 360 360.
1259.	Chandravadan Pandya Harishanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1950	745 26-2-51	Medical Officer, Jilla Panchayat Dispensary, At. Mangrol, Dist. Surat.
1260.	Chandravadan Pandya Shivprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4043 10-9-73	At. Sansoli, Via. Dərol, Dist. Panchmahal.
1261.	Chandravadan Shah Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3840 2-3-73	At. Sama, Tal. Kalol, Via Dərol, Dist. Panchmahal.
1262.	Chandravadan Suthar Gordhandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5499 17-8-76	At. Arad, Tal. Halol, - Dist. Panchmahal.
1263.	Chandreshkumar Yagnik Hemantbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6301 27-9-78	B. No. 30/2, Sector No. 28, At. & Tal. & Dist. Gandhinaga
1264.	Chandrshanker Dave Manaharlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	2841 18-9-69	At. Kasindra, Tal. Dashroi, Dist. A'bad.
1265.	Chandubha Zala Sajubha	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3619 26-9-72	5, Ranchhodpara, At. Vakaner, Dist. Rajkot.
1266.	Chandubhai Master Zinabhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	941 28-2-63	Juna Nagardas Road 2/14, Laxmi Estate Co. Op. Society, Andheri, East, Bombay-400 062.
1267.	Chandubhai Patel Rambhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1967	2580 31-8-67	At. Kaloli, Tal. Petlad, Dist. Kheda.
1268.	Chandubhai Prajapati Shanabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3812 21-2-73	Bakor Road, At. Alindra, Tal. Nadiad, Dist. Kheda.
1269.	Chandubhai Thaker Mohambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4956 4-10-75	At. Kamalapura, Post Limada, Tal. Baghodia, Dist. Baroda.
1270.	Chandulal Ashar Shamji	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1964	1492 27-7-64	At. Vavdi, Via. Jamkandorna, Saurashtra.
1271.	Chandulal Babaria Hansrajbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	8897 10-1-84	C/o H.M. Baria, Jipur Road, Aveda Chowk, At. Dhoraji, Dist. Rajkot-360 410.
1272.	Chandulal Bhadala Bhavanishanker	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1973	6780 21-3-79	At Pata (Ghed), Tal. Per- bandar, Dist. Junagadh.

1	2	3	4	5
1273.	Chandulal Bhatti Labhubhai	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1972	7035 20-6-79	At. Tramba, Dist. Rajkot.
1274.	Chandulal Davda Purushottamdas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	353 1-12-55	At. Koth (Gangad), Tal. Dholka, Dist. A'bad.
1275.	Chandulal Dave Bahedharlal	Ayurved Visharad, M.S. University, Baroda 1944	1957 31-7-44	At. Sevasi, Tal. & Dist. Baroda.
1276.	Chandulal Dave Punjiram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4473 30-8-74	At. Nana Dāvada, Tal. Khed- behma Dist. Sabarkantha.
1277.	Chandulal Dave Gaurishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5496 17-8-76	Fulvadi Road, At. Bhrol, Dist. Jamnagar.
1278.	Chandulal Gameti Nathaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3307 6-1-72	At. Kamthadia, Post Takatuka, Tal. ,Bhiloda, Dist. Sabar- kantha.
1279.	Chandulal Joshi Labhshanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	1400 24-1-64	Manavadar Health Centre, Joravar Bag, Manavadar.
1280.	Chandulal Karia Nirajibhai	B.A.M.S., Kanpur Univ. 1973	4609 13-1-75	At. Bakharala, Via. Porbandar, Dist. Junagadh.
1281.	Chandulal Kavathia Bavabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6190 5-7-78	At. Sarangpur, Post Bōvgan, Via. Lunidhar, Mal. Kukavav, Dist. Amreli.
1282.	Chandulal Raiyani Parbatbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4675 21-3-75	At. Virpur (Jalaram), Tal. Jetpur, Dist. Rajkot.
1283.	Chandulal Raval Bhogilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1946 L.A.M., U.P. Ay. Mahavidyalaya, Patan, (Baroda State) 1942	976 10-6-66	14, Mona-Nagar Society, Surendra Mangaldas Road, Opp. Naherunagar, A'bad.
1284.	Chandulal Shah Somalal	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1947	2039	Near Vadi-Post Office, Baroda.
1285.	Chandulal Soni Ratlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5071 15-12-75	At. Nan Ubhada, Tal. Viram- gam, Dist. A'bad.
1286.	Chandulal Upadyay Shankerlal	L.A.M., U.P. Ay. Mahavidyalaya, Patan, Baroda State, 1942 A.V.V., Tilak Maharashtra Vidyapeeth, Poona 1942	5470 22-7-76	Medical Officer (Ay.), D-10, ESIS Chamanpura, A'bad.

1	2	3	4	5
1287.	Chandulal Vaja Govindbhai	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	7099 10-7-79	Plot No. 161-A, Behind Vakil Society, Bevsing Sukh's Vadi, Sardarnagar, At. Bhavnagar.
1288.	Chandulal Vibhakar Vrujlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4658 15-3-75	C/o K.D. Vibhakar, At. Nava- gam, Via, Gomata, Tal. Gondal, Dist. Rajkot.
1289.	Chaturbhai Patel Jethabhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1950	528 31-8-50	At. Piplod, Tal. Devgadbaria, Dist. Panchmahal.
1290.	Chaturbhai Patel Mangalbhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2372 20-1-67	At. & Post Davol, Tal. Borsad, Dist. Kheda.
1291.	Chaturbhai Patel Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7621 20-3-80	2/1, Kameshwar Apptt., M.S. Road, Ambavadi, A'bad.
1292.	Charulata Patel Mahendrakumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8253 24-12-81	24, Ravipark Society, Opp. Swami-Akh. Society, Near Ranapark, A'bad.
1293.	Charulatta Raval Ghanshyamrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3552 18-8-72	Krishna Nivas, At. Okha, Tal. Dwarka, Dist. Jamnagar.
1294.	Charulatta Raval Mahashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3553 18-8-72	C/o Vaidy Manubhai Raval, 2- Rajputapura Road, At. Jam- nagar.
1295.	Charulata Suthar Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4929 8-8-75	C/o Shantilal M. Suthar, H. Colony 74/2, Near Juna Sachi- valaya, A'bad.
1296.	Chatusinh Parmar Melabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1966	2922 9-3-70	At. Rameshwara, Tal. Halol, Dist. Panchmahal.
1297.	Chatusinh Zala Bhaijisin	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3096 22-1-71	At. Kuvadara Lodra, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
1298.	Chatana Joshi Jaysukhlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9574 23-9-86	Vandafali, Sanghavi Building, Near Pancheshwar Tower, At Jamnagar.
1299.	Chetana Parikh Tansukhlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9660 31-12-86	C/o Parikh T.P., 32 Anjani Society, 5, Naherunagar, At. Rajkot.
1300.	Chetana Patel Kesurbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8683 3-3-83	847-C, Fertilizer Nagar, Baroda.
1301.	Chatanaben Mehta Parimalkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	4138 15-12-73	5/B, Hira Hou. Society, Mani- nagar East, A'bad.
1302.	Chatanaben Pandya Bhanuprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5334 3-4-76	15, Ganesh Society, R.V. Desai Road, At. Baroda.
1303.	Chetanaben Vyas Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	7203 20-8-79	Near Bus Stand, Jodhupur- gantra, A'bad.

1	2	3	4	5
1304.	Chetanbala Desai Lalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	3232 26-8-71	C/o D.B. Pradya, Setan Falia, Gopipura, At. Surat.
1305.	Chetankumar Patel Mithalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7204 20-8-79	C-18, Ishwarnagar Society, Vallabhvadi, Maninagar, A'bad
1306.	Chetankumar Trivedi Jayantbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9650 31-12-86	Jyoti Electric Stores, Tower- Bazar, At & Tal. Anand, Dist. Kheda.
1307.	Chhabildas Dave Mohanlal	L.A.M., U.P. Ay. Mahavidyalaya, Patan (Baroda State) 1941	354 18-10-41	Azad Society, Ambawadi, Elish- bridge, A'bad.
1308.	Chhaganbhai Patel Vrundavandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7787 19-8-80	At. Chhatrali, Tal. Jotpur- Pavi, Dist. Baroda.
1309.	Chhaganbhai Savaliya Gokalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4987 17-10-75	At. Vododar, Tal. Dholaji, Dist. Rajkot.
1310.	Chhaganlal Devmurari Popatdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	8910 24-1-84	At. Nava Uajala, Via & Tal. Kunkavav, Dist. Amreli
1311.	Chheganlal Hendpara Narsibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3767 7-2-73	C/o Patel Khilaji Virji, Bahar- para, At Manavadar, Dist. Junagadh.
1312.	Chhaganlal Jesur Gokaldas	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1967	7499 17-1-80	Avanti Flat Society, Behind Kans Society, Lambe Nanuman Road, Surat-6.
1313.	Chhaganlal Jivani Meghajibhai	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1970	3439 14-3-72	Baharpara Plot, At. Palitana, Dist. Bhavnagar.
1314.	Chhaganlal Khunt Savajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6001 7-12-77	At. Chandali, Via. Lodhika, Dist. Rajkot.
1315.	Chhaganlal Lalavaiya Bavanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	5660 3-2-77	At. Jamtimbadi, Tal. Upaleta, Dist. Rajkot.
1316.	Chhaganlal Mara Kalyanji	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	7953 17-1-81	At. Bhad, Tal. Porbandar, Dist. Junagadh.
1317.	Chhaganlal Marvaniya Ranchhod	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	2804 2-8-69	At. Rajpar (Khanpar Line), Via. Morbi, Dist. Rajkot.
1318.	Chhaganlal Mavani Karamshibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4679 24-3-75	St. Plot, Ram Mandir Gali, At. Dhoraji, Dist. Rajkot.
1319.	Chhaganlal Parwar Keshavlal	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	6733 12-3-79	At. Valukad, Tal. Palitana, Dist. Bhavnagar.

1	2	3	4	5
1320.	Chhaganlal Patel Haridas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1947	1522 27-10-47	At. Bhillpur, Tal. Dabhoda, Dist. Baroda.
1321.	Chhaganlal Patel Shivram	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1948	534 31-12-48	At. Dabhi, St. Unaza, Tal. Siddhapur, Dist. Mehsana.
1322.	Chhaganlal Sincoziya Harjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5897 20-9-77	At. Gana, Via. Sardargadh, Tal. Manavadar, Dist. Junagadh.
1323.	Chhatrasinh Solanki Babsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3102 3-2-71	At. Dabhoda, Tal. & Dist. Gandhinagar.
1324.	Chhaganlal Thumber Narsibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3082 13-1-71	At. Bodka (Bavana), Via. Lusala, Post Thanapipali, Tal. Vanthali, Dist. Junagadh.
1325.	Chhanaukhlal Kapadia Shivlal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1967	2610 14-12-67	Indarpura, Khatrivad, Surat.
1326.	Chhatrasinh Hada Ramsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5324 2-4-76	At. Himala, St. Anash, Tal. Dahod, Dist. Panchmahal.
1327.	Chhaya Bhavsar Chandrakant	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1978	7584 11-3-80	9, Rupmathuri Society, 2nd Railway Crossing, Narangpura, A'bad.
1328.	Chhaya Choksi Anilkumar	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ. 1985	9648 31-12-86	Limada Sheri, At Bardoli- 394 601, Dist Surat.
1329	Chhaya Desai Jitendrakumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8372 17-3-82	7, Navrup Colony, Shantinagar, Vadaj, Ashram Road, A'bad.
1330.	Chhaya Shah Chandrakantbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9489 24-3-86	Bayasa Pole, Dumaral Bazar, At. Nadlad-387 001, Dist. Kheda.
1331.	Chhayaben Shah Dhansukhlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9065 25-5-84	15, Rajlaxmi Housing Society, Varasia, Baroda.
1332.	Chhelshanker Dave Labhshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3447 17-3-72	C/o Labhshanker K. Dave, Karanvav-Sheri, Anjar, Kutch.
1333.	Chhelshanker Shastri Bhanushanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1957	1115 2-9-57	C/o Bhanushanker P. Shastri, Vadi Falla, Main Road, At. Surendranagar.
1334.	Chhotalal Chauhan Kanaji	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1976	7611 18-3-80	At Baghara-Bhayani, Tal. Kukavav, Dist. Amreli.
1335	Chhotalal Joshi Ambaram	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1972	7116 16-7-79	Near Health Centre, At Prabhasputan, Tal. Vcraval, Dist. Junagadh.
1336.	Chhotalal Solanki Laljiibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	9077 29-6-84	C/o Daraji Atmaram Ramaji- bhai, Sardar Kharakuva, At. Sarkhej, Tal. City, Dist. A'bad.

1	2	3	4	5
1337.	Chhotalal Thakar Devkrushna	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8197 12-10-81	At. Khageshri, Via Kutiyana, Dist. Junagadh.
1338.	Chhotelalsinh Rajput Ramrajsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	7981 20-2-81	24, Himmatlal Park, Maninagar, A'bad.
1339.	Chhotubhai Patel Revabhai	A.V.V., T.M. Vidyapeeth, Poona 1941	535. 3-11-41	Revandas's Khadaki, At. Thasara, Dist. Kheda.
1340.	Chhotubhai Patel Lallubhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1959	536 1-7-59	At. Ichhapur, Via, Bhattha, Dist. Surat.
1341.	Chhotubhai Patel Tribhuvandas	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1961	537 17-1-62	At. Menpura, Post Karban, Dist. Baroda.
1342.	Chhotabhai Patel Jivabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3730 17-1-73	At. Shihora, Post Nirmaki, Tal. Kapadvanj, Dist. Kheda.
1343.	Chhotabhai Valand Fulchand	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1964	1455 29-6-64	Near Panchayat Office, At. Amod, Tal. Petlad, Dist. Kheda.
1344.	Chimahal Jadev Khemshandbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4406 12-6-74	At. Sundhiya, Tal. Kheralu, Dist. Mehsana.
1345.	Chimanbhai Vaidya Rambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6008 10-1-78	At. Umedgadh, Tal. Idar, Dist. Sabarkantha.
1346.	Chimanbhai Ledhiya Vallabhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6397 27-10-78	At. Sanisara, Via. Songadh, Tal. Shinor, Dist. Bhavnagar.
1347.	Chimanbhai Parmar Mohanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5751 1-4-77	At. Akhadol, Tal. Nadiad, Dist. Kheda.
1348.	Chimanbhai Parmar Fakirchand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7828 25-9-80	Opp. Library, At. Dhinoj, Tal. Chanasma, Dist. Mehsana.
1349.	Chimanbhai Parmar Chhitabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7331 15-10-79	At. Motiyapura, Post Sokhada, Tal. & Dist. Baroda.
1350.	Chimanbhai Patel Amichand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8418 17-4-82	At. Sardarpur, Post Falasan, Tal. Idar, Dist. Sabarkantha.
1351.	Chimanbhai Sharma Shanabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5290 23-3-76	At. Modaj, Tal. Mahambabad, Dist. Kheda.
1352.	Chimanbhai Savaiya Madhabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	8852 6-10-83	47/1110, Meghaninagar, G.H.B. Colony, A'bad-16.
1353.	Chimantal Bhimajibhai	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	7142 24-7-79	At Vadali, Tal. Upaleta, Dist. Rajkot.

1	2	3	4	5
1354.	Chimanlal Dhamani Karamshibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3464 30-3-72	At. Chamanpar, Post Bhavania, Via. Morbi, Dist. Rajkot.
1355.	Chimanlal Brahimbhatt Kabhaibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5669 15-2-77	At. Borol, Tal. Bayad, Dist. Sabarkantha.
1356.	Chimanlal Dabhi Kuberdas	H.P.A., P.G.T. Centre in Ay. Jamnagar, 1966	2368 27-7-62	14, Sainak Society, At. Por- bandar, Dist. Junagadh.
1357.	Chimanlal Dave Harkhji	Ayurved Visharad, M.S. University, Baroda 1944	1938 7-7-44	At. Sankhalpur, Tal. Chansma, Dist. Mehsana.
1358.	Chimanlal Ghauhan Visabhai	Ay. Madhyama, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1978	7055 21-6-79	At. Ambaliyan Station, Tal & Dist. Mehsana.
1359.	Chimanlal Jayswal Mohanlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1752 5-7-65	The Jayswal Flor. Rice Mill, At. Vasai, Tal. Idar, Dist. Sabarkantha.
1360.	Chimanlal Joshi Kubardas	A.M.S., B.H.U. 1948	1542 4-11-65	Post Katosan Road, Tal. Viramgam, Dist. A'bad.
1361.	Chimanlal Pandya Gokaldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3788 15-2-73	At. & Post Por. Via. Adalaj, Dist. Gandhinagar.
1362.	Chimanlal Parekh Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	2818 22-8-69	Amodwala Chokasi, Under Jain Derasar, At. Palej, Dist. Broach.
1363.	Chimanlal Parikh Nyalchand	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	680 1-5-57	C/o Moripa, Post Muli, Dist. Surendranagar.
1364.	Chimanlal Patel Nanilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	1368 12-12-63	At. Vavol, Tal. Dist. Gandhi- nagar.
1365.	Chimanlal Patel Harjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3248 21-9-71	At. Crakach, Via Motallia, Dist. Amreli.
1366.	Chimanlal Patel Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3180 16-4-71	At. Prempur, Tal. Himmat- nagar, Dist. Sabarkantha.
1367.	Chimanlal Patel Jothabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4069 26-9-73	At. Ras, Tal. Borsad, Dist. Kheda.
1368.	Chimanlal Patel Morardas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4343 19-4-74	At. Unava, Tal. Siddhapur, Dist. Mehsana.
1369.	Chimanlal Patel Manibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4505 12-9-74	At. Goriyad, Tal. Padra, Dist. Baroda.
1370.	Chimanlal Patel Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	8271 31-12-81	At. & Post- Gambhu, Tal. Chansma, Dist. Mehsana.

1	2	3	4	5
1371.	Chimanlal Prajapati Purshottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8048 27-4-81	At. & Post Modasar, Via. Bavla, Tal. & Dist. A'bad.
1372.	Chimanlal Purohit Naranji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6296 20-9-78	C/o Purohit Naranji, K. Acharya Shishubharati School, Brahman Sheri, At. Una, Dist. Junagadh.
1373.	Chimanlal Rajyaguru Vishwanath	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1963	8229 24-11-81	Ay. Dispensary, At. Nikava, Tal. Kalavad, Dist. Jamnagar.
1374.	Chimanlal Savliya Shambhuprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4231 27-2-74	Gopavadi, Khedpara, At. Jetpur.
1375.	Chimanlal Sojitra Thakarshi	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1960	8814 29-7-83	Luhar Sheri, At. Damnagar, Tal. Lathi, Dist. Amreli.
1376.	Chimanlal Vaghelao Narsinghbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4497 9-9-74	C/o N.K. Vaghela, Opp. Jain Dessar, Gandhi Road, At. Jam Bhanvad, Dist. Jamnagar.
1377.	Chimanlal Vyas Giradharlal	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	8859 1-11-83	Girivihar, At. Junagadh.
1378.	Chinubhai Modh Goradhanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7030 16-6-79	At. Lakhavad, Tal. Dist. Meh- sana.
1379.	Chinubhai Patel Ishwarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5383 10-5-76	At. Chandisar, Tal. Dholaka, Dist. A'bad.
1380.	Chinubhai Patel Somabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8648 10-2-83	At. & Post Hilol, Tal. Dahe- gam, Dist. Sabarkantha.
1381.	Chitra Thakar Umiyashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8790 16-6-83	Saiyadvada, Limada Chowk, At. Junagadh.
1382.	Chittaranjan Barot Khandparashu	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7865 16-10-80	Sultan pura, Golvad, At. Baroda.
1383.	Chittranjan Vyas Kapilram	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	1085 1-10-54	Bardoli Hospital, Vyas Falia, At. Bardoli, Dist. Surat.
1384.	Chotandas Manghani Basumal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4631 1-3-75	At. Vanthali, Dist. Junagadh.
1385.	Chunilal Bhrahmdatt	Ayurved Alankar, Ay. College, Gurukul Univ. Kangri, Hardwar, 1939	795 27-5-40	Arya Aushadhalaya, At. Savali, Dist. Baroda.
1386.	Chunilal Patel Naranbhai	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1961	531 5-12-61	Choksi Bazar, At. Mehsana.

1	2	3	4	5
1387.	Chunil Patel Gordhandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	3457 29-3-72	At. Moti Marad, Tal. Bhoraji, Dist. Rajkot.
1388.	Chunilal Rajyaguru Vishnuram	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1968	7304 20-9-79	At. Mota Saharana Tal. Maha- va, Dist. Bhavnagar.
1389.	Chunilal Raychura Jamnadas	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1965	1759 5-7-65	Ragnath Bhuvan, At. Kutl- yana, Dist. Junagadh.
1390.	Chunilal Trivedi Chhotalal	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	7415 29-11-79	At. Devgana, Tal. Shihor, Dist. Bhavnagar.
1391.	Chunilal Vyas Karunashanker	Ayurved Visharad, M.S. Univ. Baroda 1946	2651 18-9-46	At. Tankhala, Tal. Nasvadi, Dist. Baroda.
1392.	Dahiben Patel Sharkerlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	2784 4-6-69	N. Guj. Patel Society, Vibhog-I, B-No. 10, Asarva A'bad.
1393.	Dahyabhai Bagat Bhagvanji	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	803 1-2-56	Station Road, At. Bilimora, Dist. Valsad.
1394.	Dahyabhai Bhatt Bhikhabhai	Ayurved Visharad, M.S. Univ. 1944	2000 2-3-44	At. Sokhada, St. Pilol, Tal. & Dist. Baroda.
1395.	Dahyabhai Desai Pranbhai	D.A.M., U.P. Ay. Mahavidyalaya, Patan 1935	2645 1-10-53	Near Jain Temple, Patel Falia, At. Katargom, Tal. Cheryani, Dist. Surat.
1396.	Dahyabhai Guntadaria Nathubhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1946	158 4-7-52	Ay. Shinthan, Via. Sayan, Dist. Surat.
1397.	Dahyabhai Patel Nagjibhai	D.S.A.C., CS Ay. Course, Gujarat 1961	553 17-1-62	At. Miyasarathen, Tal. Amod Dist. Bharuch.
1398.	Dahyabhai Patel Narottambhai	G.F.A.M. Fac. of AUSM, Gujarat 1963	552 12-9-63	Aga's Wad, Saiyad Pura, Police Chowki, Suart.
1399.	Dahyabhai Patel Bhagvandas	D.S.A.C., CS Ay. Course Gujarat 1965	1658 15-5-65	At. Hasnapur, P.O. Agalod, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
1400.	Dahyabhai Patel Hargovindas	M.S.A.M., Gujarat Ay Univ. 1974	5019 28-10-75	At Madhi, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
1401.	Dahyabhai Patel Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5210 26-2-76	Holi Chakala, At. Sander, Tal. Patan Dist. Mehsana.
1402.	Dahyabhai Pathak Keshavlal	Ayurved Visharad, M.S. Univ. 1947	3250 30-8-47	Sultanpura, Desai's Pole, At. Baroda.

1	2	3	4	5
1403.	Dahyabhai Prahapati Somabhai	B.A.S.M., Gujarat Ay. Univ. 1984	9305 6-6-85	At. Rasulpur, P.O. Salal, Tal. Prantij, Dist. Banaskantha.
1404.	Dahyabhai Vaidya Kalidas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	1813 29-9-65	Vaidy's Madh, Vijapur, Dist. Mehsana.
1405.	Dahyalal Jagani Dosabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4269 18-3-74	C/o Dosapunja Jagani, Near Ram Temple, St. Plot, At. Dhoraji, Dist. Rajkot.
1406.	Dahyalal Joshi Jethalal	A.V.V. Tilak Maharashtra Vidya- peeth Poona 1944	235 31-3-44	Shamalavat's Sheri, At. Vijapur, Dist. Mehsana.
1407.	Dahyalal Joshi Chhotalal	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1962	7119 16-7-79	At. Vaghanta (Old), Via. Kukavav, Dist. Amreli.
1408.	Dahyalal Limbashiya Savajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6151 4-5-78	Godarpara, Station Road, At. Chittal, Dist. Amreli.
1409.	Dahyalal Patel Larsanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3325 31-1-72	At. Dabhania, Post Dharada Tal. Umarala, Dist. Bhavnagar.
1410.	Dahyalal Raval Liladhar	D.A.S.M.F., Fac. of AUSM, Bombay 1952	4956 3-11-75	Shantukutir, At. Vadagam, Modasa Dist. Sabarkantha.
1411.	Dahyalal Raval Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5717 4-3-77	At. Bhalusana, Tal. Kheralu, Dist. Mehsana.
1412.	Dalajibhai Desai Pathubhai	B.A.S.M., Gujarat Ay. Univ. 1983	9122 23-8-84	Paniyovas, Desai Vaso, At. & Tal. Kheralu, Dist. Mehsana.
1413.	Dalapathai Patel Hargobindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4685 24-3-75	445/10, Jivram Mukh's Chali, Opp. Usha Tokiz, Gomtatipur, A'bad.
1414.	Dalasikharay Dave Revashanker	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	7449 21-12-79	Dave Nivas, Bageshwar Sheri, At. Bagsara-Bhayani.
1415.	Dalpathbhai Vasani Ravajibhai	Ayurved Visharad, BIM, Saurashtra 1960	2313 12-4-60	E.S.I. Dispensary, D-42, Paldi, A'bad-7.
1416.	Dalpatray Upadhyay Labhshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5228 1-3-76	At. Khambha, Dist. Amreli.
1417.	Dalpatsinh Chavada Nathusinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3117 11-2-71	At. Manekpur, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
1418.	Dalsukhbhai Patel Thakarshidas	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1971	7115 16-7-79	Dutt Bapu's Bunglaw, Shiv- shakti Nadi Kantha, At. Joravarnagar, Dist. Surendra- nagar.

1	2	3	4	5
1419.	Dalsukhalal Sukhanandi Jamandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3499 4-5-72	At. Khirsara (Ghed), Via. Keshod, Dist. Junagadh.
1420.	Damaji Dhokia Gokulbhai	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	8948 17-2-84	Sheri No. 4, Baharpara, At. Manavadar, Dist. Junagadh.
1421.	Damajibhai Gadhotharia Kadavabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	6285 20-9-78	At. & Post Sanara, Via. Kala- vad, Tal. Kalavad, Dist. Jam- nagar.
1422.	Damajibhai Kukediya Parshottambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5755 7-4-77	A/1, Shaktivijay Co. Op. Hou, Society, Varachha Road, Surat.
1423.	Damajibhai Patel Chakubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5222 27-2-76	At. Rampur, Tal. Bhesan Dist. Junagadh.
1424.	Damayanti Kadivar Rameshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	7710 17-5-80	C/o Bhagvanji Haribhai Kadi- var, Subhash Road, At. Jam Jodhapur, Dist. Jamnagar.
1425.	Damayanti Mandaliya Valajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5791 30-4-77	Near Swaminarayan Temple, Hethan Falja, Surendrabhai Kikani's House, At. Junagadh.
1426.	Damayanti Vaidya Amrutrao	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3879 20-3-73	7, Govt. Bhavan, Bhadra, A'bad.
1427.	Damidas Trivedi Lalshanker	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	7442 31-12-79	Room No. 374/75, B. No. 16, Anand Nagar, At Bhavnagar.
1428.	Damji Danga Jerambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4321 8-4-74	At. Machharda, Via. Kalavad (Shitala), Dist. Jamnagar.
1429.	Damjibhai Vaghani Parshottambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4834 8-5-75	Saiyadpara, Rajavadi, dhuki Sheri, At. Surat.
1430.	Damodar Nai Laljibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4998 17-10-75	At. Rampur (Bhankoda) Tal. Viramgam, Dist. A'bad.
1431.	Damodar Pande Mathuradatt	H.P.A., P.G.T. Centre in Ay. Jamnagar, 1961	8750 19-4-83	A-4, Ay. Colony, Jamnagar- 361 008.
1432.	Damodar Pandit Gordhanprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5469 22-7-76	129, Camp Sardar Bazar, A'bad.
1433.	Dani Dharia Ishwardas Karshandas	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1982	8588 3-11-82	At. Vijapur, Via & Dist. Junagadh.
1434.	Darshak Bhatt Jasavantlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9348 21-8-85	A. No. 172/9, Ranchhod Nivas, Kocharab, Elishbridge, A'bad-6.
1435.	Darshana Rajyaguru Rasiklal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9304 6-6-85	23/B Trustnagar Society, Nava- Sharada Mandir, A'bad-7.

1	2	3	4	5
1436.	Darshana Shah Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8266 31-12-81	Vallabh Nivas, Paladi, A'bad.
1437.	Darshana Soni Vesudevbbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7656 28-3-80	Ghanshyamnagar, Nilkanth Varni Society, W-10, Subhash Bridge, Naka, A'bad.
1438.	Darshana Vyas Manharlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3597 15-9-72	Bhalendu, Parag Society, Paladi A'bad.
1439.	Dasharath Patel Shankerlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7750 30-6-80	10/1, Uttar Gul Patel Society, Aservo, A'bad.
1440.	Dasharathbhai Parekh Visabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7880 14-11-80	6, Umiyanagar Society Cham- anpura, A'bad.
1441.	Dasharathbhai Patel Manila	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3554 21-8-72	124 Sarvodayanagar, Outside Shahpur Gate, A'bad.
1442.	Dasharathbhai Patel Keshavalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4723 1-4-75	At. Chhatral, Tal. Kalol, Dist. Mehsana.
1443.	Dasharathbhai Patel Purushottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8720 19-4-83	At. & Post Dabhau, Tal. Petlad Dist. Kheda.
1444.	Dasharathbhai Patel Naranbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8731 19-4-83	1401, Mumanavad, Saraspur, Nani-Vasansheri, A'bad.
1445.	Dasharathlal Agravel Jethiram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3727 10-1-73	At. Madhavpur (Ghed), Tal. Porbandar, Dist. Junagadh.
1446.	Dasharathlal Ger Nityanand	A.V.V., Tilak Maharashtra Vidyapeeth, Poona 1943	3069	At. Davad, Dist. Sabarkantha.
1447.	Dasharathlal Pandya Someshwar	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1973	6632 21-2-79	At. Brahmanvada, Tal. Siddha- pur, Dist. Mehsana.
1448.	Dasharathbhai Patel Khemabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9373 2-9-85	At. & P.O. Tetoda, Tal. Disa, Dist. B.K.
1449.	Dasharathlal Patel Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3215 3-8-71	At. Morvad, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
1450.	Dasharathlal Shah Maneklal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1960	1160 2-1-60	At. Chetarsumba, Tal. Thasara, Dist. Kheda.
1451.	Dasharathlal Shah Punamchand	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1968	2694 30-7-68	At. Jambudi Via, Bamna, Tal. Himmatnagar, Dist. Sabar- kantha.
1452.	Dasharathlal Shah Hiralal	B.A.M.S., Univ. of Poona 1966	2783 4-6-69	Krishna Clinic, Vaghaji Pole, At. Mahemdabad, Dist. Kheda.

1	2	3	4	5
1453.	Dasharathsinh Gohil Velubha	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9183 11-12-84	At. Kheda, Via. Limbasi, Tal. Khambahat, Dist. Kheda.
1454.	Dasharathsinh Vaghele Ratanshih	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1953	1008 15-7-53	At. Chalamali, Via. Kesindra, Tal. Jaburam, Dist. Baroda.
1455.	Dattaraj Kala Damodar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	4342 18-4-74	Acharya's Chali, Nava Bazar, At. Baroda-3.
1456.	Dattatreya Dave Deviprasad	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	8978 12-3-84	Radhakrishna's Pole, At. & Post Sarbhan, Tal. Amod, Dist. Broach-392 035
1457.	Dattatray Giri Trambak	B.I.M.S., BFM, Lucknow 1951	5516 13-9-76	B-2, Class I Officers Flat, L.D. Engg. College, Camp Naya- rangpura, A'bad.
1458.	Dattatray Vaidya Kancha puri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6009 11-1-78	At. Niyol, Tal. Palsana, Dist Surat.
1459.	Dattatray Joshi Shridhar	L.A.M., UP Ay. Mahavidyalaya, Patan, 1938	233 27-5-40	At. Moyad, Tal. Prantij, Dist. Sabarkantha.
1460.	Davendrakumar Vaghe Gondalal	B.A.M.S., Indore Univ. 1974	6418 18-11-78	Prabhat Clinic, At. Kasaravad, Dist. West Nimar.
1461.	Davji Joshi Raghavji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	2883 22-1-70	C/o Royon Factory, Veraval, Post Jambur (Gir), At, Madhav- pur, Tal. Talala, Dist. Junagadh.
1462.	Davshanker Bhatt Keshavram	D.S.A.C., CS Ay. Course, Gujarat 1959	830 21-1-63	At. Morakhla, Tal. Shankheda, Dist. Baroda.
1463.	Daxa Bhatt Anilkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3824 27-2-73	7, Guj, Siddanarth Society, Near Old Sachivalaya, Ellish- bridge, A'bad.
1464.	Daxa Chitaniya Chandrakant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5701 24-2-77	Jain Public Dispensary, Gopi- pura Main Road, Surat.
1465.	Daxa Jadev Jethalal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9591 7-10-86	8, Civil Hospital, Doctors Quarter, At. Mehsana.
1466.	Daxa Mehta Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5440 25-6-76	At. Kharana, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
1467.	Daxa Mistri Goradhandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8178 22-9-81	Pardeshi Falia, Madan Zampa Road, At. Baroda-2.
1468.	Daxa Modi Chunilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9537 28-7-86	25-B, Kachchi Society, At & Tal. Himmatnagar, Dist. B.K.
1469.	Daxa Pandya Bhanuprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3892 27-3-73	Ganesh Society, Block No. 15, Jain Vidyalaya, Khandrav Road, At. Barooa.

1	2	3	4	5
1470.	Daxa Patel Naranbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5653 18-1-77	C/o Patel Kiritkumar, 13, H. No. 2272, Bhanderipole, Kalu- pur, A'bad.
1471.	Daxa Patel Ashokkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8700 16-3-83	C/o Patel A.B., Sardar Patel Colony, 1, Chikhodravala Baungalo, Amul Dairy Road, Anad, Dist. Kheda.
1472.	Daxa Paradhi Rajanikant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8121 17-7-81	12, Uttar Guj. Patel Society, Vibhag, 2, Balia Limadi, A'bad.
1473.	Daxa Parmar Amitkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4452 26-8-74	1976, Pushpakarna's Pole, Bala- Hanuman, Khadiya, A'bad.
1474.	Daxa Ramavat Dillip	B.A.M.S., Univ. of Poona 1973	6152 4-3-78	19, Jayguj Society, Shahibag, A'bad.
1475.	Daxa Rana Pravinkumar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9152 1-10-84	17, Krushnanagar Society, Behind Taluka Panchayat, At. Broach.
1476.	Daxa Sheth Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5724 15-3-77	6, Pratimanagar Society, Mani- nagar, A'bad.
1477.	Daxa Trivedi Labhshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5921 17-10-77	101, Gurunanagar Society, Varachh Road, Dholi Kui Wakatnaka, Surat-6.
1478.	Daxa Umaraniya Maheshkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	9057 25-5-84	Tirupatinagar, Street No. 2 Behind Bhavani Colony, Opp. Hanumanmadhi, At. Rajkot.
1479.	Daxa Upadhyay Prameshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8759 11-5-83	Hou. No. 81, T.A. Railway Quarters, At. Udhana St. Dist. Valsad.
1480.	Daxaben Desai Ramchandrbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3946 17-5-73	5, Anand Co. Op. Hou. Society, Kantekat's Wada, Dandiya Bazar, At. Baroda.
1481.	Daxaben Patel Dilipkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	7643 20-3-80	57, Patel Society, At. Broach.
1482.	Daxaben Patel Purshottambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8270 31-12-81	Nathabhai's Khadaki, At. & Post Chakaleshi, Tal. Nadiad, Dist. Kheda.
1483.	Daxaben Patel Ishwarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8579 21-10-82	Main Road, At. & Tal. Palsana, Via. Chalthan, Dist. Surat.
1484.	Daxaben Suthar Mulshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3328 2-2-72	Shipa Society, Bagich, Himmat- nagar, Dist. Sabarkantha.
1485.	Daxaben Upadyay Budhiprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4953 30-9-75	Kabir Temple, At. Chhani, Dist. Baroda.
1486.	Daxina Desai Mahendrakumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5415 4-6-76	Opp. Kothi Kacheru, Ravpara, Baroda.

1	2	3	4	5
1487.	Dayaba Padhiyar Kanuji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5165 13-2-76	Sector No. 28, B. No. 34/1, Gha Type, Gandhinagar.
1488.	Dayachand Jain Pyarchand	A.M.B.S., BIM, Lucknow 1960	3027 12-8-70	Morlidhar Co. Hou. Society, A'bad.
1489.	Dayalaji Ghandarana Gokaldas	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1973	7129 18-7-79	At. Meghapur, Via. Latipjur, Tal. Jodia, Dist. Jamnagar.
1490.	Dayalji Dutiya Kenti	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	381 1-8-56	At. Paneli Moti, Dist. Rajkot.
1491.	Dayalji Pandya Bhanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4541 5-10-74	At. Piparia, Post Bavada, Via. Trapaj, Dist. Bhavnagar.
1492.	Dayalji Parmar Mavji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	2770 17-4-69	Bazar Line, At. Tankers, Tal. Morbi, Dist. Rajkot.
1493.	Dayalji Sanchela Narsinh	Ay. Bhaishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1957	7500 17-1-80	At. Thanapipali, Via. Lushala, Dist. Junagadh.
1494.	Dayaram Bambhania Dhanajibhai	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1974	7446 21-12-79	At. Kotada, Tal. Kutiyana, Dist. Junagadh.
1495.	Dalabhai Chauhan Gorabhai	Ay. Uttama, SD Pariksha Samiti, Baroda 1973	6575 16-2-79	9, Amrutnagar, Hou. Society, No. 2, Behrampura, A'bad.
1496.	Dolatrai Desai Nagarji	L.A.M., UP Ay. Mahavidyalaya, Patan 1939	412 26-10-40	Moti Pole, At. Airu, Via. Navasari, Dist. Valsad.
1497.	Damayantiben Chauhan Purushottambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4041 10-9-73	At. Dinod, Tal. Mangrol, Dist. Surat.
1498.	Damodar Shahane Nilachand	D.S.A.C., CS Ay. Course, Gujarat 1963	1113 10-6-63	J-6, Behind Medical Hostel, New Civil Hospital, Com- pound, A'bad-16.
1499.	Dana Chavada Lekha	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6193 15-7-78	10, Luvarear, Post Vedala, Via. Shapur, Tal. Vanthali, Dist. Junagadh.
1500.	Deorilal Dixit	H.P.A., PGT Centre in Ay. Jamnagar, 1966	3120 16-2-71	R. M. O. Govt. Ayurvedic Hos- pital, At. Talaja, Distt. Bhav- nagar.
1501.	Deshalbhai Dabhi Jermabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3068 13-11-70	At. Sangasar, Post Otariya, Tal. Dhandhuka, Distt. A'bad.
1502.	Dashrathbhai Patel Bechardas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8341 27-2-82	Kot. Behind Temple, At. Zulasan, Tal. Kadi, Distt. Mehsana.

1	2	3	4	5
1503.	Devaji Detroja Mulajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7875 14-11-80	At. Nana Rampar, Post Nasitpar, Via. & Tal. Maorabi, Distt. Rajkot.
1504.	Devaji Karia Tulasidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5297 29-3-76	12, Dwidhya Meshwar Colobu, Bhuj-Kutch.
1505.	Devajibhai Khunt Vaghabhai	B.S. A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	6405 18-11-78	At. & Tal. Mendarada, Via. Lashala, Distt. Junagadh.
1506.	Devajibhai Rohit Mavajibhai	Ay. Bhishak, A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1974	6905 16-4-79	Vill. Rohitvas, Tal. & Distt. Baroda.
1507.	Derajsinh Solanki Jaymalsinh	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9618 21-11-86	17/101, Guj. Hou. Board, Near Rupali Tokis Rander Road, Surat.
1508.	Devajibhai Savaliya Pragjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5799 30-4-77	Saiyadpura, Bhoi, Sher, At. Surat-3.
1509.	Devendra Jani Labhshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8332 17-2-82	Plot, Jam-Vanathali, Tal. & Dist. Jamnagar.
1510.	Devangini Chhaya Pradyumnaray	B.S.A.M. Gujarat Ay. Uni., 1973	4472 30-8-74	Nagarvada, At. Khambhaliya, Jamnagar.
1511.	Devanag Dave Shivprasad	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9429 2-12-85	19, P&T Society, Maninagar East A'bad.-8.
1512.	Devsibhai Patel Punjabhai	M.A.S.F., P.B.Ay. Parishad, Calcutta, 1975	9448 23-12-85	At./Ftaehpur, Tal. Prantil, Distt. S. K.
1513.	Devrambhai Patel Jivrajibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9525 1-7-86	At. Metral Kampe, P. O. Metral, Tal. Khedbrahma, Distt. S. K.
1514.	Deviyaniban Patel Harikantbhai	B.A.S.M., Gujarat Ay. Univ., 1984	9390 23-9-85	Jamna Apparatment, Near Rail, way Station, At/Padara, Distt. Baroda.
1515.	Devashi Patoliya Bhanaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4025 30-8-73	At. Simasi, Via. Lushala, Tal. Mendarda, Distt. Junagadh.
1516.	Devashibhai Monpara Nanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5739 25-3-77	At. Santalpur, Tal. Vanthali, Distt. Junagadh.
1517.	Devashibhai Padshala Popatbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	8623 13-1-83	At. Pansada, Via. Babara, Distt. Amreli.
1518.	Devayani Bhatt Jashbhai	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat, 1965	1683 28-5-65	Narayan Nivas, Dayal Bhaui Kancho. Rajmahal Road, Baroda.
1519.	Devayat Ram Sarman	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1979	6960 4-5-79	At. Nagichana, Tal. Mangarol, Distt. Junagadh.
1520.	Devchand Patel Mavajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7996 25-2-81	C/o L. D. Bhataria, 2/2808, Sagram Pura At. Surat-2.
1521.	Devdatt Dave Shivkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5716 4-3-77	1307, Mitthahali, Shri Khara-wala Marg, Ellisbridge, A'bad.

1	2	3	4	5
1522.	Devdatt Pipariya Zinabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3088 13-1-71	At. Khodapipar, Via & Tal. Padadheri, Distt. Rajkot.
1523.	Devdatt Raval Jayantilal	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Smiti, Baroda, 1978	6543 12-2-79	75, Nandanvan Society, Bahai Centre, Shahpur, A'bad.
1524.	Devendra Acharya Vitthalidas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1964	1449 11-6-64	H. No. 1038, Jamalpur, Tokar- sha's Pole, A'bad.
1525.	Devendra Pandya Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4708 29-3-75	Opp. Bhidhanjan Mahadev, Barot Delo, At. Bhavnagar.
1526.	Devendra Raval Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3839 2-3-73	E-8, Govt. Officers' Colony, Behind New Mantal Hospital, A'bad.
1527.	Devendra Vyas Vadilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9438 23-12-85	29/A, Baladevi Anandnagar, At. 394 601, Distt. Surat.
1528.	Devendrabhala Narichaniya Trambaklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4656 15-3-75	Mahalaxmipa, At. Vadhavan City, Dist. Surendranagar.
1529.	Devendrakumar Dave Harshadray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7335 15-10-79	C/o N. K. Dave Medical Officer, At. Pithadia, Tal. Jetpur, Distt. Rajkot.
1530.	Devendrakumar Divakar Munshiram	Ay. Madhyama, SD Pariksha Samiti, Baroda, 1973	6497 1-2-79	100, Ashishnagar, Society, New Mental Road, A'bad.
1531.	Devendrakumar Joshi Vidyaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5885 20-9-77	Vadava, Khijadavali, Sheri, Brahmanvala, Kehancha's, At. Bhavanagar.
1532.	Devendrakumar Malavia Kaniyalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3752 6-2-73	1055, Jivanpole, Panchpatti, Kalupur, A'bad.
1533.	Devendrakumar Mehta Bhanuprasad	D.S.A.C., CS Ay. Course, Gujarat, 1963	1360 22-11-63	At. Bhadarava At. Savali, Dist. Baroda.
1534.	Devendrakumar Pandya Navnitram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4460 27-8-74	At. Bolav, Post Anita, Via Kim, Distt. Surat.
1535.	Devendra kumar Patel Chaturbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6002 27-12-77	At./Kukas, Tal. Sinor, Distt. Baroda.
1536.	Defendrakumar Pathak Bapulal	Vaidyavisharad., A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1972	7077 30-6-79	Damodarji Falia, At. Chorvad, Distt. Junagadh.
1537.	Devendrakumar Shah Kanaiyalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7889 14-11-80	Behind New Dharmashala, sto. Road, At. Kalol, Distt. Mehsana.
1538.	Devendrabhai Panchal Babulal	D.S.A.C., CS Ay. Course, Gujarat, 1963	736 7-8-63	At/ Kundhele, Tal. Dabhoi, Distt. Baroda.
1539.	Devendrakumar Shukla Haribhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970 1970	3107 5-2-71	C/o Shukla Haribhai, Amba- shanker, Vagheshwar's Chowk, Bala Mehta's Sheri, At. Vadhvan City, Distt. Surendra- nagar.

1	2	3	4	5
1540.	Devendraprasad Bhatt Narmadashanker	D.A.S.F., Fac. of AYSM, Bombay, 1946	831 29-6-46	Unchi Sheri, At. Khambhat, Distt. Kheda.
1541.	Devendraprasad Bhatt Chhaganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4350 23-4-74	At. Chandod, Tal. Dabhoi, Distt. Baroda.
1542.	Devesh Vaidya Rameshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7734 6-6-80	Chandramani Road, Ashram Road, At. Nadiad, Distt. Kheda.
1543.	Devidas Sindhav Nakandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5861 30-8-77	Badeshwar 2, At. Jamnagar.
1544.	Devika Desai Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3708 1-1-73	Old Tobkhana, Kaptan Falia, Ravpura At. Baroda.
1545.	Devindraben Shah Ramanlal	Ay. Madhyama, SD Pariksha Samiti, Baroda, 1978	8562 20-10-82	Surajba Govt. Ay. Hospital At. & Post Khambholaj, Tal Anand, Distt. Kheda.
1546.	Deviprasad Oza Hargovinddas	Ayurved Visharad Board of I. M. Saurashtra, 1960	2240 12-4-60	Mandavi Sheri At Palitana, Distt. Bhavnagar.
1547.	Deviprasad Pansora Popatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3732 25-1-73	Patel Lakha, Karsan Dela, At Upatela Distt. Rajkot.
1548.	Deviprasad Varma Ramchandra	B.A.M.S. Indore Univ., 1976	6671 28-2-79	71, Motor Stand, At. Panchot, Distt. Biyavar (M. P.)
1549.	Deviyani Barot khandparashu	Ay. Madhyama, SD Pariksha Smaiti Baroda, 1972	7883 14-11-80	C/o Khandparashu Chhatra- sinh Barot, Sultanpura, Golvad, At. Baroda.
1550.	Devshanker Bharad Ranchhod	B.S.A. M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3131 20-2-71	At. Khambha, Via, Chalala, Distt. Amreli
1551.	Devshanker Dave Revashanker	Ayurved Visharad M. S. Univ. 1941	2709 8-10-41	At. Khanpur, Tal. Lunavada Dist Panchmahal.
1552.	Devshanker Joshi Labshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5337 8-4-76	At. Nava Bandar, Via. Delvada, Distt. Junagadh.
1553.	Devshanker Mistri Manilal	D.S.A.C., CS Ay. Course, Gujarat 1963	946 12-8-63	At. Mahelol, Tal. Godhara, Distt. Panchmahal.
1554.	Devshi Makhansa Meghaji	D.S.A.C C.S. Ay-Course, Gujarat 1966	2413 3-3-67	At. Bodi, Tal. Matarvaniya, Tal. Maliya Hatina Distt Junagadh.
1555.	Devshi Vaja Jivabhai	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1972	6672 28-2-79	At. Bhanduri, Tal. Malia Ratina Distt. Junagadh
1556.	Devshibhai Katriya Jivabhai	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ., 1970	3217 5-8-71	At. Chorvadi, Via Bilakaha, Dist. Junagadh.
1557.	Dhairyabala Zaveri Kanubhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM Bombay, 1954	1636 3-9-54	Opp. Ranmahal School,, At. Kambhalla, Distt. Jam- nagar.
1558.	Dhananjay Joshi Dinkarrao	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3312 11-1-72	Nadi Kinare, At. Limbadi, Distt. Surendranagar.

1	2	3	4	5
1559.	Dhananjay Patel Gordhanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5962 18-11-77	Lalitpura's Khadaki, At. Rana Tal. Padara, Distt. Baroda.
1560.	Dhanji Santhra Bhanji	D.S.A.C., CS Ay. Course Gujarat, 1966	2386 6-2-267	At. Bokhira, Tal. Porbandar, Distt. Junagadh.
1561.	Dhanaji Sapariya Bachubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6612 21-2-79	Opp. Kanyashala, At. Chala, Distt. Amreli.
1562.	Dhanaji Solanki Nanajibhai	Ay. Madhyama, SD Parkisha Smiti, Baroda 1978	6618 21-2-79	At. Vavada, Via Mota Bilia, Distt. Amreli.
1563.	Dhanaji Vadher Laxmanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5866 30-8-77	Gita Amroderi, Rajada Road, At. Jam Khambhaliy.
1564.	Dhaneshkumar Patel Khushalabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4383 20-5-74	At. Sunev. khud. Post Sunv- kalla, Tal. Hasot Dist Broach.
1565.	Dhanesh Kumar Raval Manganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5195 25-2-76	C/o Maganlal Trikanji-Raval At. Ankevalia, Tal. Limabi, Distt. Surendernagar.
1566.	Dhaneshwar Dhandhaka Goradhanabhai	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ., 1971	3638 9-10-72	At. Nesvad, Via. Tranasa, Tal. Talaja, Distt. Bhavnagar.
1567.	Dhanjibhai Patel Norttambhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1956	2258 1-12-56	Kasturba Seeveshram, Rani Pradesh-Public Dispnesary, At. & Post Kevri, Tal. Mangrol, Via. Kosmaba, Distt. Surat.
1568.	Dhansukhlal Choksi Manganlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1956	179 2-4-57	Jilla Parishad Dispensery, At. Adavan, Tal. Palghar, Distt. Thana.
1569.	Dhanjibhai Patel Gordhanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3060 13-10-70	At. Vilayat (Verit), Tal. Vagra, Distt. Broach.
1570.	Dhanajibhai Savaliya Punjabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8622 13-1-83	Gopal Ay. Clinic, Matru Shakti Colony, Opp. India-Colony, Bapunagar, Thakkarbapanagar Road, A'bad-14.
1571.	Dhanjibhai Vanesa Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1955	3825 27-2-73	At. Rangpur, Tal. Limbadi, Distt. Surendranagar.
1572.	Dhanraj Jain Hirachand	D.A.S.F., Fac. of AUSM Bombay, 1955	207 1-8-55	30/8, Gujarat Jinning Chal, Idaga Gate, A'bad.
1573.	Dhanshyam Devmurari Mulram	D.F.A.C., CS Ay. Course, Gujarat, 1964	1465 30-6-64	'Vimal' Gopalnagar, At. Rajkot.
1574.	Dhansukhbhai Patel Chhaganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5483 11-8-76	At. Gangpur, Post. Gangadhara, Distt., Surat.
1575.	Dhansukhbhai Patel Narittambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8233 24-11-81	At. & Post Hajira, Tal. Choryasi, Distt. Surat.
1576.	Dhansukhkumar Ghaure Vamanrao	B.A.M.S., Indore Univ., 1976	6417 18-11-78	78, M. G. Road, At. & Post Barvaha, Distt. West Nimar.

1	2	3	4	5
1577.	Dhansukhlal Bhatt Naradlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6171 6-6-78	At. Dholsva, Tal. Bhosan, Via Vadia Bevadi, Distt. Junagadh.
1578.	Dhansukhlal Shah Jokishandas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1949	1164 2-8-49	Bazar's, At. Kadad St. Station, T. V. Railway, Tal. Bardoli, Dist. Surat.
1579.	Dhansukhlal Vyas Babulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4776 10-4-75	At. Molekpur, Tal. Lunavada, Distt. Panchmahal
1580.	Dharamshi Vadgama Bhagvandas	G.F.A.M Fac. of AUSM, Bombay, 1960	1002 2-8-60	Limbachia Street, At. Katar- gam, Via & Dist. Surat
1581.	Dharamashi Ghevariya Anandbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7014 16-5-79	Plot No. 9, Layasans Society, Sardarnagar, At. Bhavnagar,
1582.	Dharamsinh Solanki Dovramji	B.A.M.S., Indore Univ., 1972	6309 27-9-78	Sutar Maholla, At. Barvani Distt. Khargona (M. P.)
1583.	Dharamsinhbhai Makvana Pragjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3855 8-3-73	Plot No. 1457, Rupani Building, At. Bhavnagar.
1584.	Dharanshanker Joshi Amrutlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1945	236 31-1-47	46, Sankalpa Society, Behind Saint Xavious School, Ghod- dod Road, Surat-395001.
1585.	Dharabashi Vaaidya Charndas	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1962	1035 10-1-63	C/o Charandas Padamshi, Pesu Kandar Street, Kutch Mandaci.
1586.	Dharini Mehta Ashokkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8421 17-4-82	C/o Dr. A. B. Mehta, Samir Clinic, Mobharoad, Tal. Padara, Distt. Baroda.
1587.	Dharmendra Parikh Mathuradas	Ay. Madhyama, SD Pariksha Samiti, Baroda, 1972	6884 12-4-79	Prabha Temple, Flat No. 61, Behind Virsavarkar Marg, Bombay-400 025.
1588.	Dharmendrabhai Patel Bhajilalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3980 31-7-73	At. Gambhira, Tal. Borsad, Distt. Kheda.
1589.	Dharmendrakumar Patel Vithaldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5289 23-3-76	At. Chhatral, Tal. Kalol Distt. Mehsana.
1590.	Dharmistha Amin Chandrakant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8398 5-4-82	At. & Post Virsadi, Tal. Borsad, Distt. Kheda
1591.	Dharmistha Bhatt Chunilal	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ., 1979	8000 25-2-81	Kanajibhai, Desai Bhavan, Chowk, At. Surat.
1592.	Dharmistha Patel Sunantlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	4379 20-5-74	C/o Dr. Sunantlal Patel, Opp. Sadhanagar, Karelibag, Baroda.
1593.	Dharmisthaben Joshi Parvatishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5102 24-12-75	At. Kumbhariya, Tal. Chor- yasi, Distt. Surat.
1594.	Dharmisthaben Khamar Desharthlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8546 14-9-82	8, Aradhanapark, Javahar Chowk, Sabarmati, A'bad.
1595.	Dharmisthaben Patel Motibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7675 18-4-80	Vandan Park, Railway Station, Maninagar (East), A'bad.

1	2	3	4	5
1596.	Dharmitha Trivedi Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ 1970	3140 25-2-71	Plot No. 12, Prerana" Laxmi Society, Subhashnager, At. Bhavnagar.
1597.	Dharmitthaben Shah Bhailalbai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8538 14-9-82	2/B, Swati Society, Sama Road, Baroda.
1598.	Dharmisukh Patel Tulsibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4100 19-10-73	At. Zapa, Tal. Tandaleja, Pavi- Jepur, Distt. Baroda.
1599.	Dhavalchandra Upadhyay Bhalchandra	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1961	65 23-10-61	Medical Officer, Mahuva, Distt. Surat.
1600.	Dhavalkumar Pandya Janardanbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9633 5-12-86	Kutumh Niyejan Talim Kendra, Qtr. 2, Opp. Govt. Press, Near D.S.P.P. Banglow, At. Rajkot.
1601.	Dhimantraï Dave Dalasukhram	B.A.M.S., Univ., of Gujarat, 1964	2129 4-8-66	Nagnath Sheri At. & Tal. Morbi, Distt. Rajkot.
1602.	Dhirajkumar Raiyani Velijibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9409 19-10-85	At. Bilakha, Tal. & Distt. Juna- gadh.
1603.	Dhirajlal Agravat Manchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1967	7347 29-10-79	At. Jarakhia, Tal. Lath, Distt. Amreli.
1604.	Dhirajlal Bhatt Manganlal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1967	2512 14-6-67	C/o Dr. Maganbhai Bhatt, Digvijay, Plot, At. Jamnagar.
1605.	Dhirajlal Bhavasar Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3562 25-8-72	260/2, Koth's Pole, Raipur A'bad.
1606.	Dhirajlal Bhatt Dalpatram	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1960	9284 2-5-85	I-Block, Room No. 17, Police Talim Mahavidyalaya, At. Junagadh.
1607.	Dairajlal Dabhi Hansajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3313 17-1-72	At. Mahmaddpura, Post Kuntela, Tal. Dabhoi, Distt. Baroda
1608.	Dhirajlal Dave Motilal	Vaidyavisharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1964	6896 12-4-79	At. Jamvali, Tal. Mangarol, Distt. Junagadh.
1609.	Dhirajlal Dudhat Vallabhbai	G.A.M.S., M.D. Univ., 1980	9504 12-5-86	At. Gir-Gadhada, Tal. Una, Distt. Junagadh.
1610.	Dhirajlal Gajera Raghavbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5795 30-4-77	At. Lakhapadar, Via. Lunidhar, Distt. Amreli.
1611.	Dhirajlal Jani Amrutlal	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1972	7195 17-8-79	C/o Vaidyaraj Kantilal Dayal- shanker, 8-Prahlad Plot, Distt. Rajkot.
1612.	Dhirajlal Jagrana Vamanrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3398 24-2-72	Hariyala Plot No. 73, Board- ingate, Krishnanagar, Bhavnagar.
1613.	Dhirajlal Joshi Manishanker	Vaidya Charya A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1965	7441 21-12-79	Madhav Ay. Aushadhalaya, Bahar Goat, At. Veraval Dist. Junagadh.

1	2	3	4	5
1614.	Dhirajlal Kakkad Khodidas	D.S.A.C., CS Ay Course, Gujarat 1963	1543 13-6-63	Sheth J.P. Ay. Mahavidyalaya, Opp. Sardarbag, Bhavnagar.
1615.	Dhirajlal Kakkad Chhanganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	7075 30-6-79	At. Madhavpur (Ched.), Dist. Junagadh.
1616.	Dhirajlal Lodhia Marilal	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1971	6657 28-2-79	Darbagadh, At. Bhanvad, Dist. Jamnagar.
1617.	Dhirajlal Mehta Vitthaladas	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	7180 9-8-79	At. Krakach, Tal. Lilia Mota, Dist. Amreli.
1618.	Dhirajlal Pancholi Virchand	D.S.A.C., CS Ay Course, Gujarat 1962	731 28-9-62	Botadkar Road, At. Botad, Dist. Bhavnagar.
1619.	Dhirajlal Pandya Dahyalal	L.A.M., UP Ay. Mahavidyalaya, Patan 1941	749 8-10-41	Ramtekari, At. Talaja, Dist. Bhavnagar.
1620.	Dhirajlal Patel Madhavji	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	8742 19-4-83	At. & Post Mesvan, Via. Ke- shed, Dist. Junagadh.
1621.	Dhirajlal Patel Tribhovandas	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9309 2-7-85	At. Laxminagar, Post Anadej, Tal. Sanand, Dist-A'bad.
1622.	Dhirajlal Parek Dahyalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4063 26-9-73	At. Padva, Tal. Ghogha, Via. Bhadi Bhanriya Dist. Bhav- nagar.
1623.	Dhirajlal Ranliya Mohanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	5029 11-11-75	At. & Post Trakuda, Via. Dedal, Dist. Amreli.
1624.	Dhirajlal Rank Karamshibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8043 27-4-81	At. Ludhika, Dist. Rajkot.
1625.	Dhirajlal Raval Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3652 11-10-72	Vagheshwari Chowk, Vaghe- shwari's Temple, At. Vadhvan City, Dist. Surendranagar.
1626.	Dhirajlal Rathod Laxmandas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	1396 21-1-64	C/o Dhirajlal Laxmandas Ra- thod (R.M.O.) Gandhinagar Ay. Hospital, Sector No. 22, Gandhinagar.
1627.	Dhirajlal Vaghesiya Vallabhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8780 16-6-93	At. & Post Via Prempera, Uisavadar. Dist. Junagadh- 362930
1628.	Dhruvkumar Thakar Harivallabh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8760 11-5-83	Central Bank Road, Near Bakul Sadi Centre, At. Jamna- gar.
1629.	Dilipsinh Raol Himatsinh	Ay. Visharad, BIM Saurashtra 1958	2250 15-3-58	Govt. Dispensary, At. Samana Via. Paneli Moti, Dist. Jam- nagar.
1630.	Dhirajlal Shah Dipchand	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	2456 1-9-55	At. Sathamba, Tal. Bayed, Dist. Sabarkantha.
1631.	Dhirajlal Shah Vadilal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1964	24 18-12-64	At. Jakhana, Tal. Chansma, Dist. Mehsana.
1632.	Dhirajlal Shingala Bhagvanji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8218 17-11-81	At. Nikava, Tal. Kalvad (Shitala), Dist. Jamnagar.

1	2	3	4	5
1633.	Dhirajlal Soni Narasinhadas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1960	1317 23-10-61	Green Chow, Sankadisheri, At. Morabi, Dist. Rajkot.
1634.	Dhirajlal Suchak Narandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4922 4-8-75	At. & Post, Amarnagar, Tal. Jetpur, Dist. Rajkot.
1635.	Dhirubhai Shyal Bhagvanbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9483 24-3-86	At. Mavawada, P.O. Sathara, Via. Trapaj, Dist. Bhavnagar.
1636.	Dhirajlal Vaishnav Vallubhabhai	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1975	5822 14-6-77	C/o M/s Radhakrishna Paper Board Industries, Near Dilip Prossessers, Opp. Bhadar, Kantha, At. Jetpur-360370.
1637	Dhirajlal Vora Shantilal	D.S.A.C., CS Ay. Course, Gujarat, 1964	1508 11-8-64	At. Amrutvel, Post Dundas. Via. Mēhuve, Dist. Bhavnagar
1638	Dhirajlal Vyas Vithaladas	D.S.A.C., CS Ay Course, Gujart 1965	1756 5-7-65	At. Victor, Via. Dungar.
1639.	Dhirajlal Vyas Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3536 1-8-72	C/o Harijin Mill, At. Bantawa, Tal. Huntavadar, Dist. Juna- gadh.
1640.	Dhirajlal Yagnik Jivram	L.A.M. UP Ay. Mahavidyalaya Patna 1941	962 3-11-41	Bogampura, Dudhara-Sheri, Surat.
1641.	Dhirendra Banjara Ranchhoddas	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1966	2177 27-9-66	At. & Post Vakiya, Tal. & Dist. Amreli.
1642.	Dhirendra Joshi Tranbakkal	D.S.A.C., CS Ay Course, Gujarat 1961	234 15-12-61	R.M.O. Ay. Govt. Akhanda Hospital, At. A'bad.
1643.	Dhirendrabala Dave Rasiklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	3037 27-8-70	Ghantiylal, Near C.M. Desai At. Baroda.
1644.	Dhirendrakumar Trivedi Bhanu Prasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3193 7-5-71	At. Timbi, Via. Una Dist. Amreli.
1645.	Dhirendrakumar Upadhyay Chandulal	Ay. Madhyama, SD Pariksha Samiti, Baroda 1976	6862 2-4-79	6, Nav Nirman Agam, Nigam Society, Anand Vadi, Vatva Road, A'bad.
1646.	Dhirendrakumar Vaishnav Bansilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4431 18-7-74	At. Khadiya, Dist. Junagadh.
1647.	Dhirubhai Desai Bhimbhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1951	414 10-7-51	Desai Wad, At. Chikhali, Dist. Valsad.
1648.	Dhirubhai Nayak Makanji	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1953	475 29-8-63	At. Ponsara, Tal. Navsari, Dist. Valsad.
1649.	Dhirubhai Nayak Ranchhodji	D.S.A.C., CS Ay Course, Gujarat 1964	1461 29-6-64	Gopipura, Vorvad, Opp. Post Office, Surat-2.
1650.	Dhirubhai Patel Vittalbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9321 25-7-85	3/A, Ganesh Colony, Varachha Road, At. Surat-6.

1	2	3	4	5
1651.	Dhirubhai Shingala Babubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5175 18-2-76	Patel Sheri, At. Lilia-Mota, Dist. Amreli.
1652.	Dhrulata Mistri Bhikhubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9577 23-9-86	C/o Bhikhubhai Bhagvanji Mistri, Navapura Street, At. Bilimora-396321, Tal. Gandevi, Dist. Valsad.
1653.	Digamber Nandurbarker Dattatray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4104 2-11-73	Opp. Kalabhavanm Shanker Tekari, 2nd Floor, At. Baroda.
1654.	Digvijaysinh Vagela Udesinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4400 6-6-74	At. Umeta, Tal. Borsad, Dist. Kheda.
1655.	Digvijaysinh Zala Nanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4847 14-5-75	At. Adaval, Tal. Dhandhuka, Dist. A'bad.
1656.	Dilavar Rathod Ismailbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3930 24-4-73	At. Ghogha, Dist. Bhavnagar.
1657.	Dilavarsinh Jadeja Jubansinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3238 2-9-71	At. Khedoi, Tal. Anjar, Dist. Kutch.
1658.	Dilipkumar Bhatt Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5931 17-10-77	Vinay Society, B. No. 790, Ajaroad, Baroda.
1659.	Dilipkumar Bhatt Jaydevbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7971 20-2-81	At. Kambola, Tal. Karjan, Dist. Baroad.
1660.	Dilipkumar Bhavsar Ranchhoddas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5917 11-10-77	Ambika Clinic, At. Bochasan, Tal. Borasad, Dist. Kheda.
1661.	Dilip Dal Kanakrai	M.D. Ay. Gujarat Ay. Univ. 1982	8483 3-8-82	Civanpara Road, Rajkot-1.
1662.	Dilip Dave Prataprai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5057 28-11-75	C/o Tata Chemical Lim, At. Ranav, Dist. Junagadh.
1663.	Dilip Vora Dhanjibhai	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1973	4175 11-2-74	At. Davadiya, Tal. Dhand- huka, Dist. A'bad.
1664.	Dilipbhai Rajyaguru Shambhushanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4867 29-5-75	At. Vaghahagar, Via. Mahuva, Dist. Bhavnagar
1665.	Dilipchandra Mehta Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3626 30-9-72	At Birpur, Tal. Balatinor, Dist. Kheda
1666.	Dilipchandra Thakar Pranvallabh	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1974	4753 7-4-75	C/o P.V. Thakar, Davibhuvan Road, At Dwaraka, Dist Juna- gadh
1667.	Dilipkumar Amin Viharibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8826 1-9-83	Bazar, At. Limbasi, Tal. Matar Dist. Kheda.
1668.	Dilipkumar Bhatt Zandhubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4934 26-8-75	At. Jasapur (Gir), Via. Akaol- vadi, Dist. Junagadh.
1669.	Dilipkumar Chotaliya Kunvarjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8782 16-6-83	At. & Post Chiroda (Gir), Via. Mendaradas, Dist. Junagadh.

1	2	3	4	5
1670.	Dilipkumar Dave Ramkrushna	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8460 25-6-82	Opp. S.T. Stand, At. & Post Chuda, Dist. Surendranagar.
1671.	Dilipkumar Desai Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6403 10-11-78	“Shirishbhuvan”, Kansara Ba- zar, At. Nadiad, Dist. Kheda.
1672.	Dilipkumar Dosani Vrujlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5298 29-3-76	Swaminarayan Sheri, No. 4, At. Dhari, Dist. Amreli.
1673.	Dilipkumar Jayawal Narayandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6128 5-4-78	At & Post Sutradra, Tal. Malpur, Dist. Sabarkantha.
1674.	Dipakkumar Kotadia Babubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9626 21-11-86	F/8, Sector-7-A, Opp. Pand's Tanki, Nirnayanagar, P.O. Chandiodia, A'bad.
1675.	Dilipkumar Langhneja Tribhovandas	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9620 21-11-86	At. & PO Deypara, Tal. Vir- amgam, Distt. A'bad.
1676.	Dilipkumar Makvana Nazzbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3557 23-8-72	Muni, Qua. 7/152, Ambavadi, A'bad.
1677.	Dilipkumar Mehta Hematlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3903 31-3-73	C/o Hematlal T. Mehta, Near Post Office, At. Jamkanadorana Dist. Rajkot.
1678.	Dilipkumar Mehta Parshuram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5274 12-3-76	Gandhivas, At. Radhanpur, Dist. Banaskantha.
1679.	Dilipkumar Mewada Amrutlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9554 3-9-86	Behind Ramji Temple, At. Guja, Tal. Visagar, Dist. Mehsana.
1680.	Dilipkumar Nayak Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	8820 11-8-83	At. Lodra, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana-382835.
1681.	Dilipkumar Panara Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5640 24-12-76	Prakashpark, B/No. 21, Nav- rangpura, A'bad.
1682.	Dilipkumar Pandya Navnidhrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3124 17-2-71	New Bazar, At. Jafrabad, Dist. Amreli.
1683.	Dilipkumar Pandya Kameshwar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3545 16-8-72	At. Lisundra, Tal. Kapadvanj, Dist. Kheda.
1684.	Dilipkumar Pandya Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4826 2-5-75	At. Nandasa, Tal. & Dist. Meh- sana.
1685.	Dilipkumar Patel Ranchhodlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4059 21-9-73	101, Moti Savalivad, Saraspur, A'bad.
1686.	Dilipkumar Patel Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6297 20-9-78	At. & Post Ranverikalla, Tal. Chikhali, Dist. Valsad.
1687.	Dilipkumar Patel Mandaldas	B.A.M.S., Pune Univ. 1973	6435 15-12-78	5, Paramhans Hou. Society, Manjalpur Road, At. Baroda.
1688.	Dilipkumar Patel Hargovindas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8246 24-12-81	At. & Post Trent, Tal. Viram- gam, Dist. A'bad.

1	2	3	4	5
1689.	Dilipkumar Patel Ishwarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8379 18-3-82	At. & Post Zarela, Tal. Bora- sad, Dist. Kheda.
1690.	Dilipkumar Pathak Zanduprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3694 27-11-72	C/o Dr. A.V. Pathak, Medical, Officer, Muni. Dispensary No. 2, At. Mahuva, Dist. Bhav- nagar.
1691.	Dilipkumar Pokiya Nagjibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9619 21-11-86	3/A, Gaytrinagar Society, College Road, At. Nadiad, Dist. Kheda.
1692.	Dilipkumar Shah Jagmohandas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1954	2309 2-1-54	Mafatlal Civil Hospital, At. & Tal. Navsari, Dist. Surat.
1693.	Dilipkumar Shah Navnitlal	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, Maharashtra 1975	6327 4-10-78	C/o Dr. Navnitlal C. Shah, 5, Bhimnath Society, Near Cirkit House, Shahibag, A'bad.
1694.	Dilipkumar Shah Govindlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7547 21-2-80	79, Udhyanagar Society, Outside-Pani Gate, Baroda.
1695.	Dilipkumar Shah Manjalal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9022 16-4-84	22-B, Madhukunj Society Mani- nagar, Allahabad.
1696.	Dilipkumar Shah Vastupal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9095 31-7-84	Guj. Housing Board, 64, Nilkantnagar, At. Post & Dist. Broach-392001.
1697.	Dilipkumar Shashtra Jayantkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ 1979	7992 25-2-81	10/1739, Shri Sangit Upasana Mandir, Desai Pole, Anibesant, At. Surat.
1698.	Dilipkumar Solanki Balubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5863 30-8-77	At. & Post Ori, Via. Vinchhlya, Tal. Sayala, Dist. Surrender- nagar.
1699.	Dilipkumar Soni Jayantilal	Ay. Madhyama, SD Pariksha Samiti, Baroda 1978	7179 9-8-79	At. Jivapara, St. Pipali, Dist. Jamnagar.
1700.	Dilipkumar Trivedi Prabhashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	2990 4-7-70	R.M.O., Govt. Ay. Hospital, Sec. 22, Gandhinagar.
1701.	Dilipkumar Trivedi Mulshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8336 27-2-82	Vidya Smruti, Nana Bazar, Near Gram Panchayat Office, Vallabhvidyanagar-388120.
1702.	Dilipkumar Upadhyay Shashikant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	9300 6-6-85	Shri Dattkrupa" Raja Road, Maroli, Bazar, At. Maroli Tal. Navsari, Distt. Valsad.
1703.	Dilipkumar Uphdayay Harichandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4981 15-10-75	Panchmukhi's Mahadev Pole, Ravpura, Distt. Baroda.
1704.	Dilipkumar Vaidya Ganpati Shanker	D.S.A.C, CS Ay. Course, Gujarat, 1965	1671 21-5-65	At. Kamrej, Distt. Surat.
1705.	Dilipkumar Vyas Jayantilal	Ay. Uttama, SD Pariksha Samiti, Baroda 1972	6712 9-3-79	R. No. 4, Sarvanand Society, Karelibag, Dist. Baroda.
1706.	Dilipkumar Vyas Badrishanker	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9600 23-10-86	Vania Pole, Nagarwada, At. Nadiad, Distt. Kheda.

1	2	3	4	5
1707.	Dilipray Dholakiya Mohalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1952	461 5-9-52	Govt. Hospital, Naliya, Abadasa, Dist. Kutch.
1708.	Dilipsinh Jadeja Nanabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5624 3-12-76	Barbargadh. At. Khakharechi Tal. Maha-Miyana, Dist. Rajkot.
1709.	Dilipsinh Mahida Pratapsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8018 3-4-81	At. & Post Utran, Tal. Choryasi, Dist. Surat.
1710.	Dilipsinh Patani Velaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5023 29-10-75	Post Box No. 1, At. Una, Dist. Junagadh.
1711.	Dilipsinh Parmar Jashavantsinh	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1965	8629 28-1-83	At. Balsdana, Tal. Vadhavan, Distt. Surendranagar.
1712.	Dilsad Pirzada Fariduddin	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9101 3-1-7-84	At. Palej, Dist. Broach.
1713.	Dilsukhrai Devmurari Gokaldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3377 16-7-72	At. Zinszuda, Tal. Mondarida, Dist. Jundadah.
1714.	Dina Raval Chimanlal	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4588 12-12-74	Govt. Ay. College, Sardarbag, At. Junagadh.
1715.	Dinaben Bhatt Ashokkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3568 30-8-72	C/o Girishkumar T. Acharya, 3, Bauleshwar Society Mani- nagar, East, A'bad.
1716.	Dinaben Nimbark Chhotalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9054 10-5-84	C/o C. J. Nimbark, Shri-Ram- kutir, At. Boradi-Samadhiyala, Via. Jetpur, Distt. Rajkot.
1717.	Dinath Bhatt Balkrishna	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4972 15-10-75	Bhatt Wada, At. Delol, Tal. Kalol, Distt. Panchmahal.
1718.	Dinabandhu Joshi Ratilal	B.A.M.S., Uni. of Gujarat, 1967	2530 27-6-67	Hathi Sheri, Opp. Satyanarayan Temple, At. Jamnagar.
1719.	Dinbala Shah Chimanlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujrat, 1962	1163 7-6-63	C/o Dr. Chimanlal R. Shah, Morisan Road, At. Porbandar.
1720.	Dinesh Kapadia Purshottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8075 4-5-81	65/3 Gh. Sector No. 29, Gandhi- nagar.
1721.	Dinesh Pathak Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8592 3-11-82	1/Kartik Swami Society, Out- side Shahpur Gate, A'bad.
1722.	Dinesh Patel Kalidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8728 19-4-83	1492/1, Moti Vasan Sehri, Saraspur, A'ed-380018.
1723.	Dineshbhai Brahmabhatt Mulajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7359 29-10-79	At. & Post Karai, Tai. Karajan, Distt. Baroda.
1724.	Dineshkumar Dharsandia Purshottambhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9470 11-2-86	Retnadip'', 59-Kotechanager, Kalawad-Road, At. Rajkot.
1725.	Dineshbhai Parmar Ravejibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8516 27-8-82	At. & Post Unai, Tal. Valsad, Distt. Valsad.

1	2	3	4	5
1726.	Dineshbhai Patel Goradhanbhai	D.S.A.C., C.S.Ay. Course, Gujarat, 1962	554 24-9-62	C/o Dr. G. R. Patel, At. & P.O. Choranda, Via. Miyagamk- arjan, Distt. Baroda.
1727.	Dineshbhai Patel Jivrajbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3318 21-1-72	Gomalavadi, Muni Plat, A-5/5 At. Surat.
1728.	Dineshbhai Patel Chaturbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4062 21-9-73	93, Dudheshwarnagar, Ajava Road, Outside, Pani Gate, At. Baroda.
1729.	Dineshbhai Patel Gokalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4329 9-4-74	37, Thakkarbapa Colony, Near Ay. College, At. Baroda.
1730.	Dineshbhai Patel Harmanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4457 27-8-74	5, Amulakh Society, Ranip, A'bad.
1731.	Dineshbhai Patel Nanubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4720 31-3-75	10, Pushpakunj Society, Gorva, At. Baroda.
1732.	Dineshbhai Patel Vithalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6147 4-5-78	At. & Post Nandalalja, Tal. Sankheda, Distt. Baroda.
1733.	Dineshbhai Patel Ranohodhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7016 16-5-79	At. & Post Anandpura, Tal. Sankheda, Via Khervadi, Distt. Baroda.
1734.	Dineshbhai Patel Ravajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	8991 28-3-84	At. & Post Latipura, Tal. Fadara, Distt. Broach.
1735.	Dineshchandra Anavadiya Khemchandbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8011 17-3-81	Near Siddhamata's Mandir, At. & Post Juna Disa, Tal. Disa Distt. Banaskantha
1736.	Dineshchandra Ayaniya Ishwarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5027 11-11-75	2/4436, Chhapghar Sheri, Sag- rampura, Surat.
1737.	Dineshchandra Bhatt Ramniklal	D.S.A.C., CS Ay. Course Maharashtra, 1974	4536 4-10-74	C/o Vaidya Kamaniklal K. Bhatt, Shri Guruprasad Co-Op., Housing Society, B.K.20, Behind Malavia- Nagar, Gondal Road, Rajkot.
1738.	Dineshchandra Gandhi Amrula	Ay. Bhishak A. I. Ay. Vic : apcech, Delhi 1981	9115 23-8-84	Gandhi Nivas, 8, Jawahar Society, At. Surendranagar.
1739.	Dineshchandra Joshi Laxmichandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5081 15-12-75	At. Laheriya, Via Vishavadar, Distt. Junagadh.
1740.	Dineshchandra Khokhni Kirchandbhai	D.S.A.C., C.S.Ay. Course, Gujarat 1964	12 8-12-64	1402, Kameshwanipole, Raipur Chakala, A'bad.
1741.	Dineshchandra Mehta Kanchanalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4225 21-2-74	At. Kalol, Distt. Panchmahal.

1	2	3	4	5
1742.	Dineshchandra Mehta Pranjivan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8123 17-7-81	Panch Bungala Road, Karyalaya, Ijaner Bungal's At. Jamnagar.
1743.	Dineshchandra Mesvaniya Hiradas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra., 1966	5673 13-2-77	At. Ronaki, Post Velave, Tal. Manavadar. Distt. Junagadh.
1744.	Dineshchandra Nayak Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7273 12-9-79	7/2310, Dudhara Sheir, Rampura, At. Surat.
1745.	Dineshchandra Nayak Trikamlal	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ, 1980	8303 5-2-82	Kalapur, Katakivavad, House No. 2102/A, A'bad.
1746.	Dineshchandra Pandya Laxminarayan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3498 24-4-72	434, Netaji Bazar, At. Dahod, Dist. Panchmahal.
1747.	Dineshchandra Pandya Chandulal	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4046 12-9-73	F-3512, Gpalkrupa, Fatch- pura, Near Char Rasta, At. Baroda.
1748.	Dineshchandra Pandya Harnarayan	B.A.S.M., Gujarat Ay. Univ., 1983	9157 17-10-84	15, Armakunj Society, Opp. College, At. & Post Kalol, Distt. Mehsana.
1749.	Dineshchandra Parikh Gopalidas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1961	686 24-1-62	C/o Gotidas. P. Parikh, At. At. Idar, Distt. Sabarkantha.
1750.	Dineshchandra Patel Meghjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3164 22-3-71	At. Bedi, Post Taresingade, Tal. Malishatina, Distt. Junagadh.
1751.	Dineshchandra Patel Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6274 11-9-78	At. Maniyar, Tal Idar, Distt. Sabarkantha.
1752.	Dineshchandra Patel Shankerlal	B.A.S.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	85257 16-9-82	10/1, Uttar Guj. Society, Asrva A'bad.
1753.	Dineshchandra Patel Dahyabhai	B.A.S.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8789 16-6-83	At & Post Areth, Tal. Mandavi, Distt. Surat.
1754.	Dineshchandra Rajger Jagmalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2778 30-5-69	At. Kuchavada Tal. Disa, Dist. Banaskantha.
1755.	Dineshchandra Jani Jayantilal	B.S.A.M., Gajrarat Ay. Univ., 1970	3112 9-2-70	At. Ashodar, Via. Damnagar, Tal. Lathi, Distt. Amreli.
1756.	Dineshchandra Rajyaguru Narendra Bhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5463 14-7-76	H. No. B/318, Nava Dera, At. Broach.

1	2	3	4	5
1757.	Dineshchandra Shah Chhaganlal	D.I.M.S., Board of AUSM, Delhi Admn. 1960	1162 3-8-62	Uda's Chowk, At. Vaso, Dist. Kheda.
1758.	Dineshchandra Sharma	B.A.M.S., Indore Univ. 1974	5607 17-11-76	At. Valiya, Dist. Borach.
1759.	Dineshchandra Shukla Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4967 4-10-75	At. Rohida, Tal. Pindvada, Dist. Shrirohi.
1760.	Dineshchandra Shukla Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6096 21-3-76	Baharpura, Jail Road, At. Manavadar, Dist. Junagadh.
1761.	Dineshchandra Trivedi Maganlal	B.A.M.S., Indore Univ. 1968	5554 4-10-76	Medical Officer, Post Menar, Tal. Talaja, Dist. Bhavnagar.
1762.	Dineshchandra Vaidya Tulasidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5721 15-3-77	B/No. 40/2, Jayantpark, Near Bhadvatnagar, Vatva Road, Maninagar, A'bad.
1763.	Dineshchandra Vyas Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4442 16-8-74	4, Ravanand Colony, Kareli Bag, At. Baroda.
1764.	Dineshkumar Bhatt Dahyalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3761 6-2-73	At. Bayana Tal. Bhiloda, Dist. Sabarkanta.
1765.	Dineshkumar Bhatt Oohhavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6866 2-4-79	30, Vilabhoharya Society, Near- Jovraj Park, A'bad.
1766.	Dineshkumar Chariya Hamirbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7422 12-12-79	At. Kukashvada, Via. Chorvad, Distt. Junagadh.
1767.	Dineshkumar Chunara Chunthaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8282 16-1-82	B/2, Dhanlaxmi Flats, Vasrapur, A'bad.
1768.	Dineshkumar Damani Manilal	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1975	7039 20-6-79	6/11, Jayraj Plot, Madhavkrupa- bhavan, At. Rajkot.
1769.	Dineshkumar Dave Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	6385 27-10-78	1, Vyas Bhuvan, Ambajivas, At. & Post Pansar, Tal. Klol, Dist. Meh- sana.
1770.	Dineshkumar Langaliya Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6146 4-5-78	Bhadeva's Sheri, Geri Falia, Bhal- vada, Bhavnagar.
1771.	Dineshkumar Makadia Bhanubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	8904 24-1-84	Anandnagar Park, Block No. 22/253, Opp. Nilkanth Tokiz, At. Rajkot- 360002.
1772.	Dineshkumar Modi Dahyalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	6667 28-2-79	Vadivadi, Brahman Falia, Behind- Police Gate, Ravpura Tower, Baroda.
1773.	Dineshkumar Pandya Dalapatram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3871 15-3-73	At. Dharana, Via. Vijpadi, Dist. Bhavnagar.
1774.	Dineshkumar Patel Khemchanddas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4804 25-4-75	At. Manud, Tal. Patan, Dist. Meh- sana.
1775.	Dineshkumar Patel Shankerlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	7555 29-2-80	At. Debhari, Tal. Balasinor, Dist. Kheda.
1776.	Dineshkumar Patel Harjivanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7832 30-9-80	C/o Smt. Shantaben J. Makvana, Limada Line, At. Jamnagar.
1777.	Dineshkumar Patel Ramajibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9093 31-7-84	C/o Dr. Amrut R. Patel, Char Rasta, At. & Post Chiloda, Tal. & Dist. Gandhinagar.
1778.	Dyendrakumar Patel Dahyabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9340 9-8-85	At. & PO Sithan, Via. Sayan, Tal. Olpad, Dist. Surat.
1779.	Dineshkumar Patel Haribhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9375 2-9-85	Sarvodaya Clinic, Bajar, At. Ka- vant, Tal. Chhota Udepur, Dist. Baroda.

1	2	3	4	5
1780.	Dineshkumar Raval Pravinchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5092 22-12-75	Supedi, Motivavdi-360440.
1781.	Dineshkumar Raval Narayanbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9395 23-10-86	At. & PO Ranasan, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
1782.	Dineshkumar Soni Sundarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8434 17-5-82	At. & Post Kesindra, Tal. Sankheda, Dist. Baroda.
1783.	Dineshkumar Suthar Vitthalbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9280 2-5-85	At. & PO Mehsana, Tal. Idar, Dist. Sabarkantha-383450.
1784.	Dineshkumar Tatmiya Hirabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	3056 30-9-70	At. Agatrai, Via. Keshod, Dist. Junagadh.
1785.	Dineshkumar Vasava Jethalai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7346 29-10-79	At. & Post Gundicha, Tal. Valia, Dist. Broach.
1786.	Dinkarbhai Mehta Motiram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5410 25-5-76	At. Visanpura, Tal. Kadi, Dist. Mehsana.
1787.	Dinkarkumar Joshi Nandlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7864 10-10-80	At. Rudan, Tal. Mahendrad, Dist. Kheda.
1788.	Dinkarprasad Vyas Hemshanker	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1941	7037 20-6-79	C/o Manojkumar D. Vyas, Daya- nandnagar, Marg No. 7, Vania Vadi, Rajkot-2.
1789.	Dinkarraai Mankad Vasantraai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1953	932 2-1-54	"Dhan Nivas", Khambhalia Naka, At. Jamnagar.
1790.	Dinkarraai Trivedi Mathurbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3711 1-1-73	At. Gheti, Tal. Palitana, Dist. Bhav- nagar.
1791.	Dinkarraai Trivedi Vrujlal	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1967	6688 3-3-79	30, Prahlad Plot, Devagana, At. Rajkot.
1792.	Dinmani Patel Ramchhodbhai	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1966	2471 3-5-67	Sardarnagar Society, Block 7, Near Station, Surat.
1793.	Dinubhai Nayak Haribhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1952	1546 6-5-52	At. Post Kharel, Tal. Navasari, Via. Gandevi, Dist. Bulsar.
1794.	Dinubhai Patel Shankerbhai	D.S.A.C., CS Ay. Course, Gujarat, 1961	556 23-10-61	At. Kosindra, Tal. Sankheda, Dist Baroda.
1795.	Dipak Chanhan Premkumar	B.A.M.S., Nagpur Univ. 1983	9086 29-6-64	Rajanikant, Ataliya (Manad Sala- khar) Bhangi Ksheta Muktiprogram, Saehivalaya, Block No. 11, 2nd Floor, Gandhinagar.
1796.	Dipak Desai Gunavantraai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9184 11-12-84	At. & Post Hariya, Via. Arul Dist Vasad.
1797.	Dipak Joshi Dattatray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3924 19-4-73	C/o Vimal V. Joshi, Pavagadh Road, At. Halol, Dist. Panchmahal.
1798.	Dipak Joshi Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8740 19-4-83	3, Maitripark Soelcty, Hatkeshwar, Khokhara, A'bad.
1799.	Dipak Shahapurkar Purushottam	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8732 11-5-83	Rameshkunj, Desai Society, College Road, At. Nadiad, Dist. Kheda- 387001.
1800.	Dipak Thakar Jitendra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3116 11-2-71	B. No. 11, Police Head Quarters, Pratap Nagar, Baroda-4.
1801.	Dipakbhai Suthar Janakbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6976 7-5-79	Near Ambika Vijay Saw Mill, At. Kayavarochan, Tal. Dabhoi, Dist. Baroda.
1802.	Dipakkumar Bhatt Surendralal	Ay. Madhyama, SD Pariksha Samiti, Baroda, 1978	6565 12-2-79	At. Gajera Tal. Jambusar, Dist Broach.

1	2	3	4	5
1803.	Dipakkumar Bhatt Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ 1978	7365 29-10-79	At. Soja, Tal. Kale, Dist. Mehsana.
1804.	Dipakkumar Bhatt Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8020 3-4-81	Near Dena Bank, At. Petlad, Dist. Kheda.
1805.	Dipakkumar Dave Prahladray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5623 3-12-76	439, A. Jivan Kote], Prabhudas- Talav Chowk, At Bhavnagar.
1806.	Dipakkumar Desai Vitthalidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5813 6-6-77	22, Vaishali Society, Kareibag Behind Mental Hospital, At. Baroda
1807.	Dipakkumar Gujjar Balubhai	Ay. Madhyama, SD Pariksha Samiti, Baroda, 1978	6791 21-3-79	6/731 Galemandi, Moti Shori, Surat.
1808.	Dipakkumar Gilitwala Hasmukhlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9314 2-7-85	7/4401, Begampura, Darukhana Road, Panal's Tanki, At. Surat- 395003.
1809.	Dipakkumar Hindocha Vallabhdas	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9133 10-9-84	C/o V.D. Hindocha, Govt. Dis- pensary, At. Sutarpuda, Via. Vera- val, Dist. Junagadh-362275.
1810.	Dipakkumar Jani Omkarprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7582 11-3-80	Bhojaravas, Chinubhai Roy's House, At. Kalol, Dist Mehsana.
1811.	Dipakkumar Joshi Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7814 17-9-80	1, Shixaksadan, Nava Bazar, At. Karjan, Dist. Baroda.
1812.	Dipakkumar Kamani Shantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9535 28-7-86	"Saubhagya", 5/Prakash Society, Opp. Nirmala Convent school, At. Rajkot-360005.
1813.	Dipakkumar Lalijala Sharadchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8088 4-6-81	At. & Post Fadholia, Via. Sansara, Tal. Umarala, Dist. Bhavnagar.
1814.	Dipakkumar Pandya Dalshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5016 28-10-75	At. Deolol, Tal. Kalol, Dist. Panch- mahal.
1815.	Dipakkumar Pandya Rameshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7224 23-8-79	At. Jam-Kanderrana, Via. Dho- raji, Dist. Rajkot.
1816.	Dipakkumar Pandya Mukundrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8647 1-2-83	Vaidya Shori, Nani Bhagol, At. & Post. & Tal. Prantiji Dist. Sabar- kantha.
1817.	Dipakkumar Patel Mohambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	7744 30-6-80	At. Vaghodia, Dist. Baroda.
1818.	Dipakkumar Patel Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7945 17-1-81	At. & Post Chetarsumba, Tal. Tha- sara, Dist. Kheda.
1819.	Dipakkumar Patel Balubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	8589 3-11-82	77, Kohinur House Society, Vara- chh Road, Dist. Surat-6.
1820.	Dipak Shah Chhabildas	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9307 6-6-85	A/15/8, Godavarinagar, Vasana, A'bad-7.
1821.	Dipika Shah Kamalnayan	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9342 9-8-85	15/M, Ratnakunj Society, Opp. Zaver Nagar, Panigait, Vaghodiya Road, At. Baroda-390019.
1822.	Dipakkumar Shah Ramanlal	B.A.M.S., Vikram Vishwavidyalaya, Ujjain, 1976	6592 16-2-79	At. Panvad, Tal. Chhota Udepur, Dist. Baroda.
1823.	Dipakkumar Sharma Niralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7635 20-3-80	10/1938, Soni Palia, Main Road, At. Surat.
1824.	Dipakkumar Sheth Bhagvandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8209 2-11-81	Govind Madhav Society, At. Sid- dhapur, Dist. Mehsana.
1825.	Dipendrakumar Nanavati Pravirary	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5947 26-10-77	Manganath Street, Near Mangan- ath-Kaman, Bhagvan Cutpiece Store, Junagadh.

1	2	3	4	5
1826.	Dipikaben Pandya Suryakant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8054 27-4-81	At. & Post Godhavi, Tal. Sanad, Dist. A'bad.
1827.	Dipti Desai Amrutlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9221 19-2-85	Avadhut Society, Tithal Road, At. Valsad.
1828.	Dipti Shah Maneklal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9225 19-2-85	Ruridhanathpark, Naya Wadj, A'bad-13.
1829.	Dipti Vohra Prasutkumar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9041 10-5-84	"Pankaj," Opp. Vijali Restaurant, Parimal, At. Bhavnagar-2.
1830.	Dipti Vyas Arunkumar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9360 2-9-85	14/Alankar Society, At. Modasa- 383315, Dist. Sabarkantha.
1831.	Dipti Zaveri Vibhudhehandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6601 21-2-79	Lilavila, At. Olpad, Dist. Surat.
1832.	Direndrasinh Chauhan Yadunathsingh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8869 1-12-83	70/243, Bapunagar, A'bad.
1833.	Ditin Shah Gunavantbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8656 10-2-83	987, Takarash's Pole, Raikhad, A'bad-1.
1834.	Divakar Vaidya Narmadashanker	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1965	1919 21-1-66	Sanghanvala Chowk, Opp. Mehta Bldg., At. Rajkot.
1835.	Divya Jani Subhash	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	7567 29-2-80	C/o Dr. S.M. Jani, 23, Pushpakunj- Society, At. Anand, Dist. Kheda.
1836.	Divyabala Upadhyay Ambalal	B.A.M.S., Gujarat Univ. 1968	2790 19-6-69	II-B, Matilal Park, Baliyakaka Road, Kankariya, A'bad.
1837.	Divyabala Mehta Yashavantraal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3640 9-10-72	21/22, Pritam Nagar, Elishbridge, A'bad.
1838.	Divyaben Bhatt Premahanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7530 15-2-80	C/o P.S. Bhatt, At. & Post Vadia, Dist. Amreli.
1839.	Divyankumar Vyas Rameshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	7061 27-6-79	Gandhi Road, At. & Post Margol, Tal. Umargam, Via. Sanjan Road, Dist. Valsad.
1840.	Divyakant Chauhan Savajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7460 21-12-79	At. Ranpur, Tal. Bhandhuka, Dist. A'bad.
1841.	Divyakant Pathak Ochhavalal	Ay. Madhyama, SD Pariksha Samiti, Baroda 1976	6722 9-3-79	6/64, Saghara Town Ship, Post Javahnagar, Tal. & Dist. Baroda, 390320.
1842.	Divyalata Rushi Davprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5472 26-7-76	Visavaga Street, At. Rajpala, Dist. Broach.
1843.	Divyaprabha Vaidya Manabarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7727 29-5-80	C/o Dr. Champaklal Sevaklal Shah, Arahint, Bhadrakali Mata's Pole, Raopura, Baroda.
1844.	Divyashchandra Patel Somabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5308 29-3-76	C-1094, Jamiyatram's Khadaki, Lallubhai Chakala, At. Broach.
1845.	Diwan Jivnani Chhangomal	G.A.M.S., Univ. of Bihar, Muzaffarpur 1976	8716 16-3-83	A-1, Opp. Sutar Karkhana, Naroda, A'bad.
1846.	Dolarkumar Joshi Harshadbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8576 21-10-82	At. Ningala Jn., Tal. Gadhada, Dist. Bhavnagar.
1847.	Dolatrai Mehta Pragjibhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1950	905 26-2-51	At. Gadhshish, Tal. Mandavi, Dist. Kutch.
1848.	Dolarrai Rajani Laxmidas	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1965	1763 15-7-65	Nagar Gate Road, At. Bhanvad, Dist. Jamnagar.

1	2	3	4	5
1849.	Dolatsinh Thakar Somsinh	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	278 25-10-61	Bazar, At. Kholped, Dist. Surat.
1850.	Deviyani Shah Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6442 15-12-78	At. Kanabha, Tal. Dasherol, Dist. A'bad.
1851.	Drangnaben Mehta Bhaglibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4393 31-5-74	C/o Bhagubhai Bhogilal Mehta, 44/B, Kutchhi Patidar Society, At. Himmatnagar, Dist. Sabarkantha.
1852.	Durga Joshi Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6032 16-2-78	B.No. 11, Shri Nathdwara Society, Chandiledia Road, Mava Vadaj, A'bad.
1853.	Durgaben Thakur Rasiklal	Ay. Uttama SD Pariksha Samiti, Baroda 1977	6573 16-2-79	C/o Dr. M.R. Thakar, Dhanlaxmi- Society, Karelibag, Baroda.
		&		
		B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978		
1854.	Durgaben Shah Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8393 24-3-82	Jodibutti Karyalaya, At. Agarava, Via. Anana, St. Dakor, Dist. Kheda
1855.	Durgaben Ray Dinubhai	Valdyia Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1965	7497 17-1-80	Buch Mension, Vithal Society, Nava Pura, RV., Desai Road, At. Baroda.
1856.	Durgeahkumar Dave Manavantray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8346 11-3-83	Ranika, Muni Society, B. No. 5, Bhavnagar.
1857.	Durgaahanker Vyas Manishanker	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1966	9175 13-11-84	At. Kherali, Tal. Veraval, Dist. Junagadh.
1858.	Durlabhaji Makvana Jivraj	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3543 14-8-72	Sardarpara Plot, Makvana Bhuvan, At. Junagadh.
1859.	Durlabhji Amrutiya Trikamji	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1973	9563 3-9-86	At. Charadava, Tal. Halvad, Dist. Surendranagar.
1860.	Durlabhji Thakkar Tidabhai	A.V.V., T.M. Vidyapeeth, Poona 1943	271 20-6-44	At. & Tal. Karjan, Dist. Baroda.
1861.	Durlabhji Thakkar Nathalla	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3190 28-4-71	At. Vashiyali, Via. Vanda, Tal. Savarkundala, Dist. Bhavnagar.
1862.	Durlabhram Joshi Morarji	Ayurved Visharad, MS Univ. Baroda 1943	2545	At. Choad, Tal. Bil, Dist. Baroda
1863.	Durlabhram Agravat Sundardas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3646 9-10-72	At. Kantipur, Post Barvalal, Via Morabi, Dist. Rajkot.
1864.	Dushyantprasad Shukla Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4237 28-2-74	At. Dev, Tal. Balasinor Dist. Kheda.
1865.	Dushyantrai Trivedi Ravashanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1961	314 9-2-62	H. No. 3, Vinaykunj Society, ¹ Shah- alam Road, A'bad.
1866.	Dvarke Karamchandani Kiritrai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1967	2410 22-2-67	C-24, Kubernaagar, A'bad.
1867.	Dwarka Pande Bhaskar	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, Maharashtra, 1965 H. P. A., PGT Centre in Ay. Jamnagar, 1965	5732 15-3-77	Sevasadan, Railway Plot, At. Junagah.
1868.	Dwarkadas Patel Raichandadas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1961	557 20-1-62	S.M.T. Centre, Shahpur, Tal. Virangam, Distt. A'bad.
1969.	Dwarkadas Godhari Babubhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1945	163 29-6-46	Prathamik Arogya Kendra, At. Vasad, Tal. Anard, Distt. Kheda,

1	2	3	4	5
1870.	Dwarkadas Patel Bholidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8802 5-7-83	At. & Post Balisana, Taj. Prantlj, Distt. Sabarkantha.
1871.	Dwarkadas Vaidhavan Ranchhodas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course Gujarat, 1965	1688 1-6-65	At. Panthavada, Tal. Dassa, Distt. Banaskantha.
1872.	Dwarkadas Vithalani Chhaganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3863 13-3-73	At. & Post Vijpadi, Tal. Savarkun- dala, Distt, Bahvnagar.
1873.	Dwijendra Desai Deviprasad	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	413 1-12-55	Gurudwara, Near Khanderav Market Baroda.
1874.	Ekabal Chhipa Kasambhai	Ay. . Madhyama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda, 1978	6513 1-2-79	Opp. Nargari Building, Astodia- Road, A'bad.
1875.	Ekbal Malek Ahamadraja	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6233 10-8-73	Raj Textiles, At. & Post Kesamba, Taj Mangrol, Distt. Surat.
1876.	Eknath Patil Fakira	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, Maharashtra, 1975	5662 3-2-77	At. Damarkheda, Tal. Shahada, Distt. Bhillia.
1877.	Falguni Dave Balavantrai	B.A.M.S., Guj. rat Ay. Univ., 1983	9192 9-1-85	22, Taskand Society, Bhudarpura Ambavadi, A'bad-15.
1878.	Falguni Joshi Trikamlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9232 12-3-85	Tripad, 19-Ekalingjkrupa Society, Harani Road, At. Baroda-390 006.
1879.	Farhat Fulam Shekh Ahmad	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9585 7-10-86	3 / 1544, Salabatpura, Ambawadi, Kalipul, At. Surat-2
1880.	Farida Mirja Kesarbeg	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1973	6852 2-4-79	281/3, Behind Shahibag, Post Office, Sumati, Kunj, A'bad
1881.	Farida Rupani Megambhai	B.S.A.M., Gujarat, Ay. Univ., 1972	3932 24-4-73	Rajpura, Tolnaka, Maniyarvada, A'bad.
1882.	Fatehsinh Dariya Lachchhubhai	B. S. A. M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7232 29-8-79	Purohitbag, Qt. Chhota, Udepur, Distt. Baroda.
1883.	Fatehsinh Rathod Chhatrasinh	Ay. Bhishak, A. I. . Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1952	6909 16-4-79	At. Thanapipali, Tal. Vanthali, Distt. Junagadh.
1884.	Franklin Kumar Methyu	B.A.M.S, Vidarbha Board of AUSM, Maharashtra, 1966	2875 16-1-70	Medical Officer, Jilla Panchayat- Dispensary, At. Post & Dist. Panchmahal.
1885.	Gafar Chaihan Rahim	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2442 24-3-67	Behind Bhaktibnagar, Station. Laxminagar Main Road, Mahadev- vadi Chowk, Rajkot.
1886.	Gagandas Balchandani Thavardas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3125 17-2-71	C/o Narayandas Thavardas Gandhi, Shahibazar, At. Batwa, Distt. Junagadh.
1887.	Gajanand Vaidya Bhikhabhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay- 1956	1023 1-8-57	At. Gandevi, Dist. Valsad.
1888.	Gajanand Vyas Ambashanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1947	1031	Station Road, At. Amalsad, Dist. Valsad.
1889.	Gajanand Vyas Himmatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3132 20-2-71	Amubhai's Chal, Room No. 17, Behind Bus Stop, At. Ralaja, Distt. Bhavnagar.
1890.	Gajendra Desai Mohanlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1947	400 30-1-48	Chhapaniya, Mahollao, At. Adajan, Distt. Surat.
1891.	Gajendra Nathvani Narsinhdas	Ay-Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1974	7962 3 2 85	Adhana Society, B. No. B/13, Paneli, Moti.
1992.	Gajendra Raval Bhavaniprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3067 13-11-70	1058, Gundi's Pole, Relif Road, A'bad

1	2	3	4	5
1893.	Gajendragir Mahant Shivlalgir	A. V. V., T. M. Vidyapeeth, Maharashtra, 1941	3077 31-7-47	Navapura, At. Chhotan,-depur, Dist. Baroda.
1894.	Gajendrasinh Chavda, Hardasji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3528 25-7-72	At. Navroli, Tal. Tharad, Distt. Banskantha.
1895.	Gajendrasinh Rathod Fatehsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8873 1-12-83	At. & Post Thanapipali, Tal. Van- thali, Distt. Junagadh
1896.	Gajrajsinh Khatedia Preamsinh	B.A.M.S., Univ., of Sagar, 1975	9228 19-2-85	At. & Post Kathala, Tal. Dahod, Distt. Panchmahal.
1897.	Galaben Valavai Rangabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7439 21-12-79	B. No. 792, B-Centre, Pratapnagar, Police Line, At. Baroda
1898.	Gamanlal Pavar Bhanabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9319 25-7-85	At. & P.O. Gangpur, Tal. Vasanda- Distt. Valsad.
1899.	Gambhirsinh Desai Abhesinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5438 26-6-76	At. Pali, Post Haldharu, Tal. Kamrej Distt Surat.
1900.	Gambhirsinh Kher Hamirsinh	B.A.S.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5890 20-9-77	At. Kuvarada, Via Kosamba, Tal Mangarol, Distt. Surat.
1901.	Ganapati Gupta Ramchandra	B. A. M.S., Indore Univ., 1974	6207 3-8-78	At. & Post Raibidpura, Distt. West- Nemar Khargone (M.P.)
1902.	Ganapatray Bhadani Maneklal	B.S.A.M., Gujarat Ay Univ., 1978	7682 22-4-88	Vivek and Clinic, Saljpur Bogha, Opp. Chunara Vas Kubernagar, A'bad.
1903.	Gandala! Bhatt Prabkashanker	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1984	7152 25-7-79	Opp. Prabhat Tokiz, At Jamjo- dhapur, Distt. Jamnager.
1904.	Ganeshbhai Chaudhari Harising	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3034 20-8-70	At. Dadhiyal, Tal. Visnagar, Distt.- Mehsana.
1905.	Ganeshbhai Gopani Ranchhodbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4514 20-9-74	115, Nirmalnagar, Behind Sohil Raj Mill., At Bhavnagar ?
1906.	Ganeshbhai Kakdiya Parshottambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	8800 5-7-83	At. Nihgala Jn., Tal, Gadhada- Swamina, Distt. Bhavnagar.
1907.	Ganeshbhai Patel Ambaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3080 13-1-71	At. Jetal Vasna, Tal. Vishnagar, Dist Mehsana.
1908.	Ganeshbhai Solanki Mithabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3264 13-10-71	At. Deimal, Tal. Chansma, Distt. Mehsana.
1909.	Ganeshchandra Khaire Damajirao	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5299 29-3-76	Malaivada, At. Vyara, Distt. Surat.
1910.	Gangaben Joshi Mahendrakumar	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3937 2-5-73	C/o Babubhai C. Joshi, Joshi Mahollo, At Navsari, Distt. Valsad
1911.	Gangadas Changela Bhurabhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1962	173 16-7-63	At Shapur (Sorath), Distt. Junagadh
1912.	Gangadhar Bhatkhande Mahadev	Ayurved Visharad, M. S. Univ., 1940	2134 18-10-41	C/o Gajanan Bh. Vimala, Near Hatipole, Dandia Bazar, At, Baroda.
1913.	Gangadhar Patel Khodidas	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1960	529 1-7-60	Kukarwada Arogya Clinic, At Kukarwada, Tal, Vijapur, Distt. Mehsana.
1914.	Gangagiri Meghanathi Hiragiri	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1972	6971 4-5-79	At. Babaragir, Tal. Malishatina, Distt. Junagadh.
1915.	Gangajibhai Pataliya Meghanajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7362 29-10-79	At Mora Khijedia, Via Tankara, Tal Morabi, Distt. Rajkot.

1	2	3	4	5
1916.	Gangaram Patel Velsidas	D A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1953	527 1-3-54	New Jivan Prakash Society, Mem- nagar Road, Post Navjivan, A'bad
1917.	Gangaram Prajapati Kambardas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3288 18-11-71	At. Kuvadra, Post Lodra, Distt. Mehsana.
1918.	Ganibhai Deraiya Abmadbhai	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1969	8745 19-4-83	Govt. Colony, B. No. 2, Room No. 28, Near Jail., Bhavnagar.
1919.	Ganibhai Mansuri Kasambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6311 27-9-78	At. & Post Chhaja, Tal. & Distt Gandhinagar.
1920.	Ganpathbhai Patel Amthmram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4058 21-9-73	At. Rampura, St Bhankoda, Tal. Viramgam, Distt. A'bad.
1921.	Ganpathbhai Patel Madhavbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8250 24-12-81	At. Vav, Post Sanlasana, Tal. Kheralu, Distt. Mehsana.
1922.	Ganpatishanker Vaidya Dahyalal	L. A. M., U. & P. Ay. Mahavidyalaya, Patan, 1942	2259 22-10-42	Bhatt Falia, At. & Post Dhamdachh, Via Amalsad, Tal. Gandevi, Distt. Vasad.
1923.	Ganpatlal Gajjar Babulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. University, 1980	8340 27-2-82	At. & Post Dalod, Tal. Viramgam, Distt. A'bad.
1924.	Ganpatlal Raval Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6320 27-9-78	At. Fudeda, Tal. Idar, Post Mahor, Distt. Sabarkantha.
1925.	Ganpatsinh Chauhan Vitthalsinh	B. A. M.S., Univ. of Sagar, 1976	7950 17-1-81	At. Vanku, Tal. Abadasa, Distt. Kutch.
1926.	Ganpatsinh Rana Dipasinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4254 14-3-74	At. Vadu, Tal. Padara Dist. Baroda
1927.	Ganpatsinh Sayniya Bhavsing	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1962	1303 24-8-62	At. Luna, Dist. Broach.
1928.	Ganpatsinh Solanki Somabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4213 19-2-74	At. Senoli post Ganpatpura, Tal. Vaghodia, Dist. Baroda.
1929.	Ganpatsinh Salanki Bahadursinh	D A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1957	1324 1-8-57	Nava Bazar, At. Miyagam, Karajan Dist. Baroda.
1930.	Ganubhai Thakkar Chhotelal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	3040 1-9-70	At. Gorad, Tal. Khambhat, Dist. Kheda.
1931.	Garadhandas Udasi Omkardas	B.A.M.S., Indore Univ. 1974	8108 2-7-81	At. Tarania, Via Harsid, Dist Khandava
1932.	Gargi Desai Pradyotchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6357 4-10-78	C/o Shri R.L. Umarvadi, Nani- Chhipvad, Ganipura, Surat.
1933.	Gargi Sanghavi Chunilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Unit. 1978	7657 28-3-80	C/o Sanghavi Chunilal Thakarshi, Vana's Utara, At. Surendranagar.
1934.	Gauriben Adalaja Ramajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5960 18-11-77	C/o Patel Ramajibhai, 14, Sindh Guj Society, At. Ratanpur Tal. Vedhavan Dist. Surendranagar
1935.	Gaurishanker Joshi Veljibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	2835 2-9-69	At. Girgadhade, Tal. Una, Dist. Junagadh.
1936.	Gaurishanker pandya Gangaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8543 14-9-82	Pandya Nivas, pisavada, Tal. Dho- laka Dist. A'bad.
1937.	Gaurishanker Pandya Hargovinddas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	742 4-1-63	At. Kalyana, Tal. Gadhara, Dist. Panchmahal.
1938.	Gaurishanker Sharma Baburam	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	1392 20-1-64	At. Bhadbhut, Dist. Broach.

1	2	3	4	5
1939.	Gaudatt Vyas Tulajashanker	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1975	6856 2-4-79	Vyasdell, At. Phrol, Dist. Jamnagar.
1940.	Gaurang Bhatt Girishbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6090 21-3-78	25-A, Don, At. Bhavnagar.
1941.	Gaurang Paneri Bhavanishanker	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1978	8024 3-4-81	468, Sankadi Sheri, A'bad.
1942.	Gaurang Shastri Mohanlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9191 11-12-84	5-A, Kamal Colony, Navrangpura A'bad-9
1943.	Gaurangkumar Bhatt Hasmukhrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4141 28-12-73	C/o Dr. H.G. Bhatt Fort, Vyara, Dist. Surat.
1944.	Vaidya Gautam Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	9020 16-4-84	Navrangpura Char Rasta, Behind Navrangpura Mysore Cate, A'bad
1945.	Gautam Amin Ravjibhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1962	2704 25-9-68	C/o Manubhai Rameshodbhai- Patel Navipole, At. Kransad, Dist. Kheda.
1946.	Gautam Makvana Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6457 15-1-79	524, Anand Chowk Saraspur, A'bad
1947.	Gautam Patel Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7622 20-3-80	2-Jay Yamuna Society Maninagar, A'bad.
1948.	Gautamchandra Pathak Ramashankar	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1744 28-6-65	At. & Post Bagwada, Via Udavda, Dist. Bulsar.
1949.	Gautamkumar Parekh Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8029 10-4-81	6/2145, Limbusheri Mahidharpara, At. Surat-3.
1950.	Gautamkumar Vyas Pitambardas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5934 19-10-77	Wadi, Swaminarayan Maholla, Narayan High School Baroda-1
1951.	Gautamlal Joshi Mohanlal	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1940	7409 29-11-79	Near Bhaktinagar Station Laxmi- Nagar Main Road, Rajkot.
1952.	Gayatri Joshi Rajendraprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8439 31-5-82	43, Harikrupa Society, Gotri Road, At. Baroda.
1953.	Gayatree Pandya Chhelbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5401 17-5-76	Shivam Sukhnath Chowk, At. Junagadh.
1954.	Gayatriprasad Joshi Dhaneshwarbhai	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	6969 4-5-79	At Danavada, Tal. Muli, Dist Surendranagar.
1955.	Ghanshyam Barot Prabhudas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7700 29-4-80	At. & post Jalund, Tal. Khambhat, Dist. Kheda.
1956.	Ghanshyam Bhatt Ramprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4376 20-5-74	138, Chandrakamal Society, Opp. Saiyadvadi, Vatva, A'bad.
1957.	Ghansyam Mirani Amrutlal	D.A.S.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2388 15-2-67	Maajid Sheri, Krishnapura, At. Vadia, Dist. Amreli.
1958.	Ghanshyam -Nimavat Chhagandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	9053 10-5-84	Mandavi Chowk, Golved, At. Juna- gadh.
1959.	Ghanshyam Pandya Bhavanishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6054 8-3-78	At. Dehven, Tal. Borsad, Dist. Kheda.
1960.	Ghanshyam Patel Chhaganlal	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1975	5684 24-2-77	At. Undhela, Tal. Matar, Distt, Kheda.
1961.	Ghanshyam Patel Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8552 14-9-82	Kanabivad, Vankadiya's Sheri, Bhavnagar-364001

1	2	3	4	5
1962.	Ghanshyam Purohit Hiralal	Ay. Madhyama S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1979	9085 29-6-84	At. & Post Gambhira, Tal. Borsad, Dist. Kheda.
1963.	Ghanshyam Ramanuj Vishnuprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5296 29-3-76	At. Chuda, Tal. Limadi, Dist. Surendranagar.
1964.	Ghanshyam Sevak Dalsukhram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8364 17-3-82	Kothamba Palla, Tal. Lunavada, Dist. Panchmahal.
1965.	Ghanshyam Shah Girdharlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1962	1226 23-11-62	Nagarwada, At. Balisana, St. Ranuj, Dist. Mehsana.
1966.	Ghanshyam shukla Lalshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5946 26-10-77	At. Panchcham, Tal. Dhandhuka, Dist. A'bad.
1967.	Ghanshyam Trivedi Naranji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5567 13-10-76	Manekvadi, Near Station Chaitanya-Nivas, Plot No. 571, At. Bhavnagar.
1968.	Ghanshyam Upadhyay Ambalal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9048 10-5-84	14, Alankar, Society, At Madasa, Dist. Sabarkhanta.
1969.	Ghanshyam Yagnik Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5502 25-8-76	Kapasiya Hill, At. Palej, Dist. Broach.
1970.	Ghanshyam Zalavadia Laljibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9533 28-7-86	At. Kalyanpur, P.O. Khara, Via, Damnagar, Tal. Lilla-Meta, Distt. Amreli
1971.	Ghanshyam Shukla Himmatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3105 3-2-71	At. Nesada, Tal. Shihor, Dist. Bhavnagar.
1972.	Ghanshyam bhai Patel Thalorbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	2844 3-10-69	At. Timbarva, Tal. Shinor Via. Miyagam, Dist. Baroda.
1973.	Ghanshyambhai Moradiya Jerambhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9510 12-6-86	At. P.O. Otariya-382463, Tal. Dhandhuka Dist. A'bad.
1974.	Ghanshyambhai Rana Kanchanlal	Ayurveda Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1979	9084 29-6-84	At & post Anagadi, Tal. Thasara, Dist. Kheda.
1975.	Ghanshyamlal Bhatt Jatashanker	L.A.M., U.P. Ay. Mahavidyalaya Patan, 1941	814 8-10-41	Zadeshwar Dispensary, Daga Falias At. Ankleshwar, Dist. Broach.
1976.	Ghanshyamlal Bhatt Kanaiyalal	L.A.M., U.P. Ay. Mahavidyalaya, Patan, (Baroda State) 1942	1533 29-4-49	Opp. Uora Dela, Bhagatalav, At. Bhavnagar.
1977.	Ghanshyamprasad Bhatt Iswarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5382 10-5-76	C/o Hariprasad Ishwarlal Bhatt, Tatha Vepari, Nadi Kanthe, Opp. Madhukant Bal Mandir, At. Joravarnagar, Dist. Surendranagar.
1978.	Ghanshyamsinh Chudasama Joravarisinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3699 30-11-72	At. Hebatpur, Tal. Dhandhuka, Dist. A'bad.
1979.	Ghanshyamsinh Jadeja Nanbhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2899 29-1-70	At. Kuntasi, Tal. Maliyaniyuna, Dist. Rajkot.
1980.	Ghanshyamsinh Rana Pruthvirajsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	3729 17-1-73	At. Kantharia, Tal. Limbadi Dist. Surendranagar.
1981.	Gholabhai Makvana Ramabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3089 13-1-71	At. Kuntasi, Via. Dahisara, Tal. Maliya, Dist. Rajkot.
1982.	Gigna Vyas Bhaskerbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8186 22-9-81	2, Navrang Society, Bhairavnath, road, Maninagar, A'bad-380008
1983.	Gijubhai Joshi Chakubhai	Vaidyacharya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	8361 11-3-82	C/o Shri A.C. Banker, 3-G-Reshan Bhavan, Lal Darvaja, Surat.
1984.	Gilabpuri Gosai Kalupuri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4098 17-10-73	AT. Barva Devali, Tal. Kunkava, Dist. Amreli.

1	2	3	4	5
1985.	Girajashanker Dixit Mulshanker	Vaidyavisharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	7194 17-8-79	Gayatrikrupa, Behind Janaki Ashram, At. Bagasara, Dist. Amreli.
1986.	Girdhardas Gokani Ramjibhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1959	159 1-2-60	2, Digvijay Plot At. Jamnagar.
1987.	Girjashanker Jain Labhshanker	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1964	35 28-12-64	C/o L.P. Jain, Davana, Vepari & At. Una, Dist. Junagadh.
1988.	Girjashanker Jani Karunashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4608 13-1-75	At. Anandpur, Via. Kalavad Shitala, Dist. Jamnagar.
1989.	Girjashanker Mehta Kanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3908 3-4-73	C/o Rambharose Hotel, At. Talaja Dist. Junagadh.
1990.	Girjashanker Pandya Bhaishanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	1552 1-6-56	Haluriya Chowk, M.M. Mehta's House, At. Bhavnagar.
1991.	Girjashanker Pandya Dahyabhai	Vaidyavisharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	7249 30-8-79	At. Tarsada, Tal. & Dist. Amreli,
1992.	Girajashanker Trivedi Ramchandra	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	6921 16-4-79	C/o J.N. Trivedi, Trivedi Kunj, 12- Shaktinagar Society, Gotlavadi, Katargam, Road At. Surat.
1993.	Girdhar Vaghasiya Kurajibhai	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1974	4946 16-9-75	C/o Dr. P.G. Patel Mahalaxmi Street, Danapith, At. Junagadh.
1994.	Girdharbhai Patel Mangalbhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1964	1470 2-7-64	At. Simalia, Via. Vejalpur, Dist. Panchmahal.
1995.	Girdharibhai Bhimajibhai	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	7248 30-8-79	Ay. Dispensary, At. Ravaliavadar. Via. Didharej, Dist. Surendranagar.
1996.	Girdharilal Atara Lakhabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5770 26-4-77	At. Bhadar, Tal. Jam Kadorana, Dist. Rajkot.
1997.	Girdharilal Purohit Ramjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	2943 4-4-70	At. Theyana, Via. Panakandora, Tal. Ranavav, Dist. Junagadh.
1998.	Girdharilal Ukani Ramajibhai	Vaidyacharya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1967	6895 12-4-79	"Axay", 15-A, Panchvati Society, Near Kalavad Road, At. Rajkot.
1999.	Girdharilal Vachhani Jerambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3086 13-1-71	Limda Chowk, At. Gomata, Via. Virpur, Jalaram, Tal. Gondal, Dist. Rajkot.
2000.	Girdharilal Nagar Anandlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3672 30-10-72	C/o Shri Jay Anbe Sweet Mart, Opp Station, At. Kalol, Dist. Mehsana.
2001.	Girdharilal Sharma Shriram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	2988 4-7-70	Naroda Road, Near Chambuda Char-Rasta, Anandji's Kalyuji's Chal, A'bad.
2002.	Girirajsinh Gohil Dhirubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8395 5-4-82	At. Bajud Via. Amargadh, Tal. Umarala, Dist. Bhavnagar.
2003.	Girish Acharya Ramanlal	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1976	8012 17-3-81	Acharya, Nivas, Shah Street, At. Thasara, Dist. Kheda.
2004.	Girish Raval Laxmishanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1957	2750 2-1-58	61, Janta Nagar, Ramol Road, A'bad.
2005.	Girish Pandya Natvarlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9338 9-8-85	G/62, Ranjit Tower, Opp. Lal Bungla At. Jamnagar-361001
2006.	Girishbabu Desai Kanchanlal	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1978	6806 22-3-79	At. Uttamnagar, Tal. Savali, Dist. Baroda.
2007.	Girishbhai Dalvadiaya Haridas	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1966	2563 10-8-67	Near Patel Chowk, At. Vanthali, Dist. Junagadh.

1	2	3	4	5
2008.	Girishbhai Ghadgr Vasantlal	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ. 1982	8985 12-3-84	Hidnu Ananth Asharam, Ashram Road, At. Nadiad, Dist. Kheda.
2009.	Girishbhai Patel Hiralal	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ. 1974	5020 28-10-75	Talaja, Mangal's Khadaki, At. Pandara, Dist. Baroda.
2010.	Girishbhai Patel Ramanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	9239 12-3-85	At. & Post Gabat, Tal. Bayad, Dist. Sabarkantha.
2011.	Girishchandra Bevchand	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	7633 20-3-80	At. Nagvadar, Via. Upaleta, Dist. Rajkot.
2012.	Girishchandra Bhatt Jayantilal	Ayurved Visharad, Board of I.M. Saurashtra, 1958	2213 15-3-58	1, Satyasangam Society, Chandlodiya, A'bad.
2013.	Girishchandra Dave Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	2853 21-10-69	Memnagar, Post Navrangpura, Tal City. Dist. A'bad.
2014.	Girishchandra Dixit Bhadrashanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	377 1-6-63	C/o Kiritchandra B. Dixit, Hakim- chan Zaverchand Vora's House, Opp. Town Hall. At. Jamnagar.
2015.	Girishchandra Dixit Jethalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	2895 9-2-70	Hatadiya Chakala, At. Mahidha, Tal. Nadiad, Dist. Kheda.
2016.	Girishchandra Mehta Vashram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	3888 26-3-73	At. & Post Kedvav, Dist. Junagadh.
2017.	Girishchandra Mehta Vrujlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4687 24-3-75	Kalubha Road, Plot No. 6, Upnr, opp. New Filter, At. Bhavnagar.
2018.	Girishchandra Mehta Champaklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5742 25-3-77	6, Kacheri Road, At. Bhandhuka, Dist. A'bad.
2019.	Girishchandra Mehta Nirbhayram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7729 29-5-80	Shri Krushna Kunj, At. Babara, Via. Bhasa Jn., Dist. Amreli.
2020.	Girishchandra Patel Joitram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4774 10-4-75	At. Gorad, Tal. Chansma, Dist. Mehsana.
2021.	Girishchandra Shah Nathalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8168 10-9-81	26, Harisiddhupark Co-op. Hou. Society, Behind Binapark, Ghatlodia, At. A'bad.
2022.	Girishchandra Shukla Gorinath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3443 14-3-72	S.M.P. Centre, At. Bhunja, Tal. Visnagar, Dist. Mehsana.
2023.	Girishkumar Bhatt Harishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4352 24-4-74	At. Vadali, Tal. Idar, Dist. Sabar- kantha.
2024.	Girishkumar Bhatt Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	6559 12-2-79	At. Daholi, Tal. Valia, Dist. Broach.
2025.	Girishkumar Dave Manishanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2430 13-3-67	C/o M. Ch. Dave, Sakhadhirvas, Morbi, Dist. Rajkot.
2026.	Girishkumar Joshi Kanaiyalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5058 28-11-75	At. Randhirpur, Via. Piplot, Dist. Panchmahal.
2027.	Girishkumar Khokhani Amarchand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6401 10-11-78	907, Nagarbodi's Pole, Raipur- Chakala, A'bad.
2028.	Girishkumar Matalia Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5560 4-10-76	Harikuni, Jin Plot, At. Dhrangdra, Dist. Surendrnagar.
2029.	Girishkumar Mistri Mulajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7230 29-8-79	Pathak Falia, At. Boriavi, Tal. Anand, Dist. Kheda.
2030.	Girishkumar Pandya Amidharbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1974	9256 9-4-85	9-A, Bharat Samaj Society, Vaghodiya- Road, Baroda-390019.

1	2	3	4	5
2031.	Girishkumar Panchal Shankarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4906 5-7-75	At. Vaghodiya, Tal. & Dist. Baroda.
2032.	Girishkumar Parekh Bhailalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8707 16-3-83	20, Dayashanker Colony, Daxini-Society, Maninagar, A'bad-8.
2033.	Girishkumar Parikh Navinchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5304 29-3-76	Dina Mahel Press, At. Madhi, Tal. Bardoli, Dist. Surat.
2034.	Girishkumar Patel Ratilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9137 10-9-84	Khadaki, At. & Post Navarejvadia, Tal. Rajpipala, Dist. Broach.
2035.	Girishkumar Savliya Premjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3254 4-10-71	At. Umralli, Tal. Jetpur, Dist. Rajkot.
2036.	Girishkumar Sondarava Mathurbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6043 23-2-78	National Modern Tenari Udhyag-nagar, At. Una, Dist. Junagadh.
2037.	Girishkumar Shukla Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3151 9-3-71	At. Vcutha, Tal. Dholka, Dist. A'bad.
2038.	Gita Bhavsar Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4830 8-5-75	C/o Dr. Kantibhai T. Bhavsar, 17, Bhavsar Society, Nava Vadaj, A'bad.
2039.	Gita Dave Hariprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4091 12-10-73	C/o H.V. Dave, A-5, Gandhinagar, At. Jamnagar.
2040.	Gita Desai Vithaldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6375 27-10-78	22, Vaishali Society, Karelibag, Baroda.
2041.	Gita Desai Prabhatbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8140 21-8-81	Sabar Dairy, At. Himmatnagar, Dist. Sabarkantha.
2042.	Gita Gandhi Lalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5923 17-10-77	Shri Krishna Chowk, Ravala's Takara, Surat-3.
2043.	Gita Mehta Ambashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4278 20-3-74	"Raghuvir", Mahavir Society, At. Anand, Dist. Kheda.
2044.	Gita Mehta Yashavantpuri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4977 15-10-75	124, Vijaynagar, 2nd Floor, Build. No. 2, Guj. Hou. Board, Gorava Road, At. Baroda.
2045.	Gita Mehta Natvarlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9528 1-7-86	C/o Mehta N.D. Setawad, Dist. Jamnagar.
2046.	Gita Panchani Dharamshibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9362 2-9-85	Gandhigram "Avadhesh", At. Junagadh-362001.
2047.	Gita Pandya Pankajkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8259 31-12-81	C/o Dr. H.H. Pandya, Medical Officer, Govt. Dispensary, At. Rana Kandorana, Dist. Junagadh-260570.
2048.	Gita Patel Kikabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 21981	8851 6-10-83	Kevada Faliyu, At. & Post Baheda, Raipur, Tal. Uyara, Dist. Surat.
2049.	Gita Sanghavi Harilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6600 21-2-79	Sector No. 16, B/No 6/9, At. Gandhi Nagar.
2050.	Gita Shah Dhirajlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4309 2-4-74	A/2, Bhalachandra Flat opp Sugam Flat, Vasna, A'bad.
2051.	Gita Shah Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4923 16-8-75	Panchavati Society, 21, Mangalam-Maninagar, A'bad.
2052.	Gita Shukla Mugatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7015 16-5-79	Amruteshwar Nivas, Gajar Fall, Ramkuvva Street, At. Jamnagar.
2053.	Gita Trivedi Prabhakarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5731 15-3-77	43, Sardar Patel Colony, A'bad.

1	2	3	4	5
2054.	Gita Vyas Bhogilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ, 1973	4616 29-1-75	C/o L.D. Dave, Abujamadard Bulld. Station Plot, At Junagadh.
2055.	Gitaben Acharya Labhshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ, 1970	3530 27-7-72	C/o Acharya L.G. Dayand Society, Block No. C-36 At. Una, Dist. Junagadh.
2056.	Gitaben Bhatt Manaharlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ, 1971	3709 1-1-73	4-Amarkunj Society, Vitthalbhai Patel Road, Nadiad, Dist. Kheda
2057.	Gitaben Chaudhari Somabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ, 1975	5349 14-4-76	Badi Falia, opp. S.T. Depot, At. Madhi, Tal. Barddi, Dist. Surat.
2058.	Gitaben Dhamar Jagjivandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ, 1979	7886 14-11-80	At & Post Kim, Tal Opad, Dist. Surat.
2059.	Gitaben Jagiradar Chanderkant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ, 1981	8436 17-5-82	6/385, Nani Pandya, Khadak At. Navsari, Dist. Valsad.
2060.	Gitaben Joshi Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ, 1970	3143 25-2-71	C/o J.K. Joshi, "Ramesh Cottage" Limada Line, Rajputpura Sheri No. 3, Jamnagar.
2061.	Gitaben Pandya Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ, 1973	4462 27-8-74	4, Kalyannagar, Kamnath Society, Maninagar, A'bad.
2062.	Gitaben Shah Jayantilal	M.D. (Ay), Gujarat Ay. Univ, 1982	8738 19-4-83	Patel Park Society Near Aja badi Mill, Pani Gate, Baroda.
2063.	Gitaben Sharma Harishanker	Ay. Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1982	7454 21-12-79	Kamala Kala Suruti, M-5, 60-476, Shashtrinagar.
2064.	Gitaben Shukla Girishchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ, 1976	5980 30-11-71	C/o Kamalash R. Trivedi 2623, Garnala's pole Shahpur, A'bad.
2065.	Gitaben Thakar Ganpatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ, 1979	7984 25-2-81	C/o G.P. Thakar, Dhanvantari Aushadhalaya, Post Office Road, Junagadh.
2066.	Gitaben Vyas Vishnubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ, 1969	2977 17-6-70	Sarvajanic Dispensary, Vallabh Vid- yalaya, At. Boshasan Street, Tal. Borsad, Dist. Kheda.
2067.	Gita Shah Chinubhai	D.S.A.C. C.S. Ay. Course, Gujarat, 1962	1145 10-7-62	Gita Mandir, Baroda.
2068.	Gitgobind Bhalodiya Jivabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	9462 10-1-86	At. Thanapipali Via Vanthali, Tal Vathali, Dist. Junagadh.
2069.	Gagan Ghiyal Premajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7390 19-11-79	At Navi, Menghani, Via & Dist Rajkot
2070.	Gokal Chovatiya Laxman	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8153 3-9-81	At. Gor Viyani, Tal. Bheasan, Dist. Junagadh.
2071.	Gokal Kacha Ukabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ, 1971	3712 1-1-73	At. Thanapipali, Via Lushala, Tal. Vanthali, Dist. Junagadh.
2072.	Gokaldas Bhaskhar Keshavji	Vaidya Visharad, A.I. Ay Vidyapeeth, Delhi, 1963	7579 3-3-80	M. Colony, B. No. 78/3, Govt. Quarter opp. Old Sachivalaya, A'bad-15.
2073.	Gokaldas Patel Bhagvanbhai	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1964	33 24-12-64	Chamanpura Chakala, Asarva, A'bad
2074.	Gokaldas Sodevadiya Haribhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4401 6-6-74	At. Dundas, Via Dungar, Tal. Mahuva, Dist. Bhavnagar.
2075.	Gokaldas Zunzmeriya Vrujlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3225 10-8-71	Near Boradi Chora, At. Vanthali, Dist. Junagadh.
2076.	Gokulesh Sharma Radhavallabh	D.S.A.C., C.S. Ay. Course Gujarat, 1966	2387 7-2-67	Vadvari Sheri, At. & Dist. Kheda.

1	2	3	4	5
2077.	Gomatiben Patel Shivramdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5816 6-6-77	At. Maniyari, Tal. Chanasma, Dist. Mehsana.
2078.	Gopal Patil Mangesh	B.A.M.S., Univ. of poona, 1975	5837 25-7-77	At. Brahmanpura, Tal. Shaheda, Dist. Dhuliya.
2079.	Gopal Vadodariya Bhanajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5194 21-2-76	At. Suvag. Post Sarpadad, Via Paddheri, Dist. Rajkot.
2080.	Gopal Vasani Lalji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3411 2-3-72	At. & post Paddhari, Dist. Rajkot.
2081.	Gopal Vyas Navnitrai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1964	1476 8-7-64	Gita Nivas, 1214, Taljyas Role, Sarangpur, A'bad.
2082.	Gopalbhai Radesana Meghajibhai	Ay. Bhisak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1964	6704 9-3-79	Patel Diwanary, Gandhi Road, At. Gondal, Dist. Rajkot.
2083.	Gopalbhai Shah Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8371 17-3-82	Baliakaka's khadaki, Vanta Road, At. Darkor, Tal. Thasara, Dist. Kheda-388225.
2084.	Gopaldas Dholariya Ravajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8544 14-9-82	C/o Ravajibhai Gokulbhai Dholariya, At. Majovadi, Dist. Junagadh.
2085.	Gopaldas Gondalia Govindram	Ay. Bhisak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1963	6914 16-4-79	Araniyala, Via. Lushala, Tal. Mendarada, Dist. Junagadh.
2086.	Gopaldas Nimavat Vallabhadas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4040 10-9-73	At. old Nagna, Tal. & Dist. Jam- nagar.
2087.	Gopaldas Pandya Shivshanker	L.A.M., U.P. Ay. Mahavidyalaya, Patan, 1940	741 17-5-41	37, Labour Co-op. Society, At. Kalol, Dist. Mehsana.
2088.	Gopalji Sadani Jagjiyan	Vaidyacharya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1977	7506 17-1-80	At. Bokhira, Jubli, Tal. Porbandar, Dist. Junagadh.
2089.	Gopaldas Shah Ranchhodlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1952	1148 18-3-52	Undapada, At. Dholaka, Dist. A'bad.
2090.	Gopaldas Shah Ranchhodlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3277 29-10-71	Bazar's Near Maajit, At. Halol, Dist. Panchmahal.
2091.	Gopaldas Suthar Ditabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3364 16-2-72	At. & Post Sandhasal, Tal. Salvi, Dist. Baroda.
2092.	Gopalji Raninga Savaji	Vaidyacharya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1966	6522 1-2-79	At. Bhanduni, Tal. Mulihatina, Dist. Junagadh.
2093.	Gopalkrishna Chaturvedi Gyarsilalji	H.P.A., BCT Centre in Ay. Jamnagar, 1965	1815 5-10-65	At. & Post, Sangoli, Dist. Mandseer.
2094.	Gopalkrushna Pandya Vishnushanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5300 29-3-76	At. Ladvada, Tal. Petlad, Dist. Kheda.
2095.	Gopika Mehta Indubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6980 7-5-79	2, Ramannagar Society, Maninagar, A'bad.
2096.	Gopinath Shastri Vithalram	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1959	1114 1-4-59	20, Janvishram Society, Behind, Sahjanand College, Ambavadi, A'bad.
2097.	Gordhan Rathod Devasibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6137 19-4-78	B. No. F-7-511, Ranjitnagar Colony Behind Nathi Colony, Jamnagar.
2098.	Gordhan Vadoderiya Devrajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5112 2-1-76	At. Suvag, post Sarpadad, Via. Paddhari, Dist. Rajkot.
2099.	Gordhanbhai Desai Mulajibhai	B.S.A.M., Univ. of Kanpur, 1975	5800 24-5-77	Thanavadi Godapara, At. Chital, Dist. Amreli.

1	2	3	4	5
2100.	Gordhanbhai Jethalgiya Khedabhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1962	210 29-11-62	At. Garmali Moti, Post Bar, Via Amreli.
2101.	Gordhanbhai Khunt Ravajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5924 17-10-77	At. Sarpada, Tal. Padadhari, Dist. Rajkot.
2102.	Gordhanbhai Patel Motibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3797 19-2-73	Sona Apartment, B-11, R. No. 5, Near Vaisali's Tokij, Varadha Road, Surat.
2103.	Gordhanbhai Rank Nanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5571 13-10-76	At. Moti Khilori, Via Voradi (Kumbhaji) Tal. Gondal, Dist. Rajkot.
2104.	Gordhanbhai Talevia Mohambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3593 14-9-72	At. Mahant Simroli, post Bhat Simroli Via Keshod, Dist. Junagadh.
2105.	Gordhanbhai Viranagama Govindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3928 19-4-73	At. Sarvad, Tal. Mali (Miyana), Dist. Rajkot.
2106.	Gordhandas Barot Lalubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3218 6-8-71	At. Nava Ghanu, post old Chamu, Tal. Idar, Dist. Sabarkantha.
2107.	Gordhandas Bhalani Narimbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5107 1-1-76	Chamanputa-Hou. Char Rasta, A'bad.
2108.	Gordhandas Dhantehiya Nanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3440 14-3-72	At. Jamvala-Gir Via, Veraval, Tal. Una, Dist. Junagadh.
2109.	Gordhandas Kanani Raiyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8574 20-10-82	At. & post Samadhiyala (Mulan) Via Songadh, Tal. Palitana, Dist. Bhavnagar.
2110.	Gordhandas Nimavat Mohandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8793 16-6-83	Kadiya Hanuman Place, At. Choarwad Tal. Malia Hatina, Dist. Junagadh. 362250
2111.	Gordhandas Savsaviya Laljibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8703 16-9-83	New plot Behind old School, At. Punjabadar, Via & Tal. Idlia, Mota.
2112.	Gordhandas Soni Sakalchand	D.S.A.C., C.S. Ay. Course Gujarat, 1967	2516 16-6-67	At. & P.O. Kankarol, Tal. Himmat- Nagar Dist. Sabarkantha.
2113.	Gordhandas Shikhanandi Dwarkanadas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8950 1-2-84	At. Nandia, Tal. Bantawa, Dist. Kutch.
2114.	Gova Vaghela Deva	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7174 7-8-79	Harijan Vas, At. Beradi (Kumbhaji), Tal. Gondal, Dist. Rajkot.
2115.	Govind Gavarikar Vasudev	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3497 24-4-72	Shri Krishna Nivas, Bhutadizapa, At. Baroda.
2116.	Govind Kachal	Vaidyacharya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1972	7102 13-7-79	Bhagwati Krupa, 1-Bhaktinagar, Society, At. Rajkot.
2117.	Govind Makvana Harilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9091 20-7-84	Ranika, Near police Gate, Kapura, Bhavnagar-364001.
2118.	Govind Babu Patel	B.A.M.S., Univ. of Nagpur, 1971	4810 25-4-75	At. Bhagalpur, Post Barhanpur, Tal. Shahada, Dist. Dharma.
2119.	Govindbhai Barad Muljibhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1954	786 3-1-54	Barad Building Bakrol Road, Vallabhvidyanagar, Tal. Anand, Dist. Kheda.
2120.	Govindbhai Bariya Nanajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5818 14-6-77	At. Karmodiya, Tal. Mahuva, Dist. Bhavnagar.
2121.	Govindbhai Bhalana Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4339 18-4-74	At. Nana Mahika, post Bhulava, Tal. Gondal, Dist. Rajkot.
2122.	Govindbhai Dhantehiya Ramjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	4315 29-3-76	Near Vegetable Market At. Vall- bhipur, Dist. Bhavnagar.

1	2	3	4	5
2123.	Gobindbhai Ghelani Devshibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9506 12-6-86	2/B, Adarshnagar Society, Behind Shankarnagar, Varachha Road, Surat-3.
2124.	Govindbhai Kumbhar Motibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4032 30-8-73	At. Makasan, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
2125.	Govindbhai Panara Popatbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8338 27-2-82	At & Post Ranza, Tal. Khambhat, Dist. Kheda.
2126.	Govindbhai Patel Rambhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1961	526 23-10-61	At. Salpura, Post Kosindra, Tal. Jabugam, Dist. S. Baroda.
2127.	Govindbhai Patel Bhagabhai	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1964	26 19-12-64	At. Kesali, Post Gandevi, Dist. Valsad.
2128.	Govindbhai Patel Cheldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	2809 13-8-69	At. Ajarapur, Post Punthara, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
2129.	Govindbhai Patel Vitthadas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4002 10-8-73	Krushnagar Co-op. Hou. Society, At. Jotana, Tal. & Dist. Mehsana.
2130.	Govindbhai Patel Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5704 24-2-77	At. Datroj Matavala, Var, Tal. Viramgam, Dist. A'bad.
2131.	Govindbhai Patel Manibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6212 3-8-78	At. Haldharvar, Tal. Mahendavad, Dist. Kheda.
2132.	Govindbhai Patel Mulchandbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7483 5-1-80	At. Moyad, Tal. Prantij, Dist. Sabarkantha.
2133.	Govindbhai Patel Velajibhai	B.A.S.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7879 14-11-80	At. & post Velvach, Tal. & Dist. Valsad.
2134.	Govindbhai Rakholiya Valjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3084 13-1-71	At. Barvala (Simasi) Via, Lusala, Tal. Mondarda, Dist. Junagadh.
2135.	Govindbhai Trivedi Jethalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5384 10-5-76	At. Chhipavad, Tal. Sankheda, Dist Baroda.
2136.	Govindbhai Valand Gandalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7674 18-4-80	At. Chhatral, Valandvasa, Tal. Kalol, Dist. Mehsana.
2137.	Govindankutti Warriar Shakunt	Arya Vaidyan Ay. College, Kottakkal 1960	9112 23-8-84	2, Alka Apartment Maninagar, Char Rashta, Garden Ward, A'bad-8.
2138.	Govindji Tank Punabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4813 30-4-75	At. Alidhra, Via, Mendarda, Dist. Junagadh.
2139.	Govindlal Bhatt Hiralal	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6635 21-2-79	Bapunagar, B. No. 464/2, A'bad.
2140.	Govindlal Jain Maganlal	G.A.M.S., Punjab State Fac. of AUSM, Chandigarh, 1970	7250 3-9-79	At. Dangarava, Tal. Kadi, Dist. Mehsana.
2141.	Govind Prasad Vaidya Haridas	Ay. Bhishak A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1937	9090 20-7-84	Dh invariantari, Gomatipur, A'bad-21.
2142.	Govind Prasad Dave Krishnalal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1963	351 28-5-63	18, Nathalal Muldas Society, A'bad.
2143.	Govind Prasad Dhavivedi Harishanker	H.P.A., PGT Centre in Ay. Jamnagar 1964	1479 10-7-64	At. Sankhari, Tal. Patan, Dist. Mehsana.
2144.	Govindram Gondaliya Narandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3703 1-12-72	At. Dhelana, Post Rangarel, Via, Keshod, Dist. Junagadh.
2145.	Gres Raj Josua	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3587 7-9-72	C/o H.R. Dabh, Sector No. 15, 62/4 Gandhinagar.

1	2	3	4	5
2146.	Grevil Parwar Pramanikbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6218 3-8-78	4/11/1889 Nakuda's Chal, Mugali- sara, Main Road, Surat.
2147.	Grishma Mehta Rajanikant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8046 27-4-81	B. No. 4-B Nayana Smaruti, Navarang Society Malunagar, A'bad.
2148.	Gulab Saner Narayan	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, Maharashtra, 1968	3025 11-8-70	At. Kakaval, Tal. Shahada, Dist. Dhuliya.
2149.	Gulabba Rana Danshi	B.S. A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5034 11-11-75	Railway Quarter No. 23 F, At. Junaguh.
2150.	Gulabhai Nayak Vasanji	L.A.M., U.P. Ay. Mahavidyalaya, Patan 1937	472 25-7-40	At & P.O. Chikhali Dist. Valsad.
2151.	Gulabhai Patel Naginbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6027 16-2-78	At. Asukhala, Via, Vapi Tal. Dharam pur, Dist. Valsad.
2152.	Gulabrai Majithiya Mangalji	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1964	1456 29-6-64	At & post pithad, Via Dhrol, Dist. Jamnagar.
2153.	Gulabrai Patel Zinabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9051 10-5-84	At. & Post Pera, Via Gurakul Supa Tal. Navsari, Dist. Valsad.
2154.	Gulabsinh Chandela Jivansinh	Vaidyacharya A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1967	9480 28-2-86	Shri Dhanvantari Ayurvedashram, Near Railway Station, At. Varaval- 362265
2155.	Gulabsinh Thakor Fatehsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7482 5-1-80	At. Kanabhai Post Bhadol, Tal. Olpad, Dist. Surat.
2156.	Gulamali Shekh Gulamsusen	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5116 8-1-76	Vahorvad, At. Alina, Tal. Nadiad, Dist. Kheda.
2157.	Gulamnabi Shekh Bhiku Miya	Ay. Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	8013 17-3-81	Dabi Falia, Post Wadi, Dist. Baroda.
2158.	Gulamnabi Vaidya Ismail	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2700 19-9-68	Nadi Gate, Behind Nagina Masjid, At. Kapadvanj, Dist. Kheda.
2159.	Guman Kher Oghadbhai	B.A.M.S., Univ. of Bombay, 1961	8927 8-2-84	Ghanjawad, Chhalla Para, At. Limbadi, Dist. Surendranagar.
2160.	Gunavantlal Soni Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4916 15-7-75	At. Sudasana, Tal. Kheralu, Dist. Mehsana.
2161.	Gunavantlal Vyas Labhshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5406 25-5-76	At. Manasa, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
2162.	Gunavanti Shah Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	7325 15-2-80	Vadava Ghora, Near Chauhan Fali, At. Bhavnagar.
2163.	Gunvantbhai Shah Pranlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1965	1687 31-5-65	Shamalji Thavar's Sankadi Sheri, A'bad.
2164.	Gunavantbhai Prajapati Mangalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6752 15-3-79	At. Kathalal, Tal. Kapadvanj, Dist. Kheda.
2165.	Gunavantbhai Parekh Nagardas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4754 7-4-75	Navrangupura, Prakashpark, B. No. 2, Near Commerce College, A'bad.
2166.	Gunavantkumar Nayak Kscharabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1982	8925 8-2-84	25, 1st Floor, Nayaknagar Society, Near Sardav Patel Colony, A'bad-14, 14.
2167.	Gunavantraj Ashar Jannadas	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1962	57 25-1-63	6, Jagnath Plot, Jimkhana Road, Krushna Kotej, At. Rajkot.
2168.	Gunavantraj Kothari Vasantlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4128 30-8-73	At. Velan, Tal. Kodinar, Dist. Amreli.

1	2	3	4	5
2169.	Gunavantray Dave Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5593 5-11-76	At. Chikasa, Post, New Post, Tal. Porbandar, Dist. Junagadh.
2170.	Gunavantray Pandya Bhalshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4522 23-9-74	At. Priliya, Post, Barvala, Tal. Morbi, Dist. Rajkot.
2171.	Gunavantray Pandya Motilal	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1948	7496 17-1-80	At. Pipalkoda, Tal. Dabpur, Dist. Jamnagar.
2172.	Gunavantrai Patel Khotidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3781 12-2-73	Vata's, At. Gojaria, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
2173.	Gunavantray Patel Valajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4905 5-7-75	18, Anandnagar Society, Vatra Road, Bhadranagar, A'bad.
2174.	Gunavantray Rajygor Jayashanker	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1962	6853 2-4-79	Juni Kachhiavad Naka, Behind- Amrutvadi, Divanpara Road, At. Bhavnagar.
2175.	Gunavantray Raval Revashanker	Ay. Madhyama, SD Pariksha Samiti, Baroda 1973	7127 17-7-79	At. Khopala, Via. Bhola-Jn., Tal. Gadhada Swamina, Dist. Bhav- nagar.
2176.	Gunavantray Upadhyay Shantilal	Vaidyavisharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	6968 4-5-79	7, Anantvadi Ramabag, Jail Road, Tripada Build., At. Bhavnagar.
2177.	Gunvant Dave Vasudev	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1963	350 29-5-63	At. Koth (Gangad), Tal. Dholka, Dist. A'bad.
2178.	Gunvantlal Janha Dahyalal	D.S.A.C., CS Ay. Course, Gujarat 1965	1741 22-6-65	Rampura, Post Sonasan, Dist. Sabarkantha.
2179.	Gunvantlal Parikh Gordhandas	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	679 26-6-62	Mahindharpura, Jadakhadi, Dist. Surat.
2180.	Gunvantlal Shah Natvarlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1965	2014 3-5-66	3, Rannapark Society, Near Samsi- Bus Stand, A'bad.
2181.	Gunvant Shah Manilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	1147 28-12-61	Davepole, Nadiad, Dist. Kheda.
2182.	Gunvantrai Bhatt Ambalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1945	2114	Sharvansheri, At. Visnagar, Dist. Mehsana.
2183.	Gunvantrai Dave Nanji	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1965	1877 8-12-65	Library Chowk, At. Una, Dist. Junagadh.
2184.	Gunvantrai Nayak Ranchhodji	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1951	471 10-10-51	At. Pratapnagar, Tal. Vasada, Dist. Valsad.
2185.	Gunvantrai Raval Dalapatram	D.I.M.S., Board of AUSM, Delhi Admn. 1958	975 18-6-62	14, Avnika Park, Khanpur, A'bad.
2186.	Gunvantrai Thakar Bhalshanker	D.S.A.C., CS Ay. Course, Gujarat 1961	276 17-1-62	At. Piplod, Via. Godhara, Dist. Panchmahal.
2187.	Gunvantrai Vyas Durgashanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1957	1082 1-3-57	At. Vijpadi, Tal. Savarkundala, Dist. Bhavnagar.
2188.	Gunvantrai Desai Maganlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	401 2-12-57	At. Airthan, Tal. Palsana, Dist. Surat.
2189.	Gunvantray Saudas Mafatal	D.S.A.C., CS Ay. Course, Gujarat 1965	1751 30-6-65	Peth Bantar, At. Khambat, Dist. Kaira.
2190.	Gunvantray Thakar Narabharan	D.S.A.C., CS Ay. Course, Maharashtra 1958	269 1-2-60	D/4, Kamdar Rajya Vimayojna, Shashi Bug, Behind Bombay Garej, A'bad.
2191.	Gunvant Raval Jayantilal	D.S.A.C., CS Ay. Course, Gujarat 1965	1465 20-5-65	75, Nandan Society, Shahpur Mill Compound, Bahai Centre, A'bad.

1	2	3	4	5
2192.	Gurudipsinh Variyamsinh	D. Ay. M., B.H.U., 1971	8747 19-4-83	D-50, Indradig Society, At. Jamnagar.
2193.	Habib Sheikh Bilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3266 22-10-71	At. Jainabad, Tal. Dashada, Dist. Surendranagar.
2194.	Habibullah Saehora Abdulgani	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9290 7-5-85	Bhavangadh, At P. O. Danta, Tal : Danta, Dist : Banaskantha.
2195.	Handa Bhatt Dhirajlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3658 16-10-72	C/o. Dineshchandra G. Vyas, Hari Nivas 3, Patel Colony, Jamnagar.
2196.	Handa Goswami Dhimsigri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5796 30-4-77	31, Karanpara, Opp. Ay. Hospital, At. Rajkot.
2197.	Hanif Dodhiya Hasam	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5316 31-3-76	C/o Devaji Nanji Kotadiya House, Amali Sheri, At Gondal, Distt. Rajkot.
2198.	Harilal Bhatt Vishwanath	Ayurved Visharad, B.E.M. Saurashtra, 1942	2189 16-11-42	Manilal P. Bhatt, Medical Officer, At Talala (Sorath).
2199.	Hansa Dave Sunendra	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1962	3048 19-9-70	Medical Cote, At Nadiad, Distt. Kheda.
2200.	Hansa Dave Mahadevprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5378 10-5-76	O. one Road, Opp. Punjara Pole, At. Pallitana, Distt. Bhavnagar.
2201.	Hansa Joshi Umedalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4354 26-4-74	C/o U. B. Joshi, Shri Nivas Limrada Line, At Jamnagar.
2202.	Hansa Manalla Riyabhuma	B.A.M.S., Univ. of Poona, 1970	3699 16-9-72	"Vatsalya Dhan", 38/B Mahavir Hou. Society, Near Pratap Vilas-Palace, Jamnagar.
2203.	Hansa Patel Kalidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8031 10-4-81	7, Taluka Banchayat Society, Thal-tej Road, 'A'bad.
2204.	Hansa Shah Lalbhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1962	1266 8-2-63	C/o. P. L. Shah 125, Swastik Society, Navrang Pura Ahmedabad.
2205.	Hansa Shah Shakaralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5219 26-2-76	B. No. 2A, Kapilkunj Society, Near Naranpura Railway-Crossing, A'bad.
2206.	Hansa Vakil Upendrabhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1958	2305 1-3-58	Samadi Falia, At Ankleshwar, Distt. Beroach.
2207.	Hansa Trivedi Ramashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5686 24-2-77	11, Tribhovan Park Society, Javahan Chowk, Sabarmati, A'bad.
2208.	Hansaben Desai Shankerbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	4011 17-8-73	At. Tralasa, Tal. & Dist. Broach.
2209.	Hansaben Dhuda Amarsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4864 29-5-75	At. Chitradad, (Gir) Tal. Talaa, Distt. Junagadh.
2210.	Hansaben Patel Maganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4230 26-2-74	C/o. Maganbhai P. Patel, Havali Wala Building, St. Road, At. Anand Distt. Kheda.
2211.	Hansaben Patel Trikambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6444 15-12-78	Khadaki Falia, At. & Post Bhatpur, Sankheda, Distt. Baroda.
2212.	Hansaben Patel Chhagambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8455 15-6-82	Dhanvantri Clinic, S. T. Stand, Near Bank of Baroda, At. Chhani, Distt. Baroda.
2213.	Hansaben Patel Mahijibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8463 25-6-82	Rhais Khadaki, At. & Post Ras, Tal. Borsad, Dist. Kheca.
2214.	Hansaben Raval Ramakant	D.A.S.P., Fac. of A.U.S.M., Bombay 1953	2592 1-12-53	Station Road, At. Veraval, Distt. Junagad.

1	2	3	4	5
2215.	Hansaben Vaishnav Kuberlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977,	6202 28-7-78	Kubernagar Society, At & Post Nadlad, Distt. Kheda.
2216.	Hansadevi Khanghar Ratilal	Ayurveda Madhyama, S.D. Pariksha Samiti Baroda 1973	6882 12-4-79	Board Plat No. 511, B. No. F/F Behind Hathi Colony, At. Jam- nagar.
2217.	Hansakumar Pandya Narmadashankar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6389 27-10-78	C/o. N. J. Pandya, Opp. Railway Station, At. Ldar, Distt. Sabar Kantha.
2218.	Manaraj Limbani Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5933 19-10-77	At. Sarsiya, Tal. Dhari, Distt Amreli.
2219.	Hansraj Padamani Chothabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5551 4-10-76	At. Moti Khilori, Via Deradi Tal. Gondal, Distt. Rajkot.
2220.	Hansraj Patel Govindbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., Jamnagar 1985	9536 28-7-86	Azad Farm, At & Post Shri Amigadh, Tal. Palarpur. Dist. Dist. B.K.
2221.	Hansdev Rajaguru Vajesh nkar	M.S.A.M. Gujarat Ayur. Univ., 1973	3994 7-8-73	Behind Jail, Near Jet Ground Govt Qua 8/92, At Bhavnagar.
2222.	Hansmukhbhai Kachhiapatel Vitthal Bhai	B.A.M.S., Gujarat Univ., 1968	2754 28-3-69	Vaidkiya Adhikari Govt. Ay. Hospital, At Kapadvanj, Distt. Kheda.
2223.	Hansukhlal Padia Madhavji	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1967	3526 12-7-72	At. Janvala Tal Una, Dist, Juna- gadhd.
2224.	Hanubhai Roy Bhaljibhai	B.S.A.M., Gujarat Ayu. Univ., 1977	6664 28-2-79	Rohit Nivas, At. Sokhada, Tal & Distt. Baroda
2225.	Hardas Lamba Kanji	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	1356 21-11-63	Govt. Ay. Dispensary, At Khakhi, Jaliya Via Upleta, Distt Rajkot.
2226.	Hardekumar Vyas Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5500 17-8-76	Nanpur, Athugar Street, Hou. No. 1/833 At Surat.
2227.	Hardaynarayana Mishra Rajaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3342 8-2-72	1, Umiadevi Society, No. 2, Near Dena Bank, Amaraivadi, Albad.
2228.	Hardevsinh Rana Juvansingh	Ayu. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1979	9415 2-11-85	At. Kadu, Tal. Lakhatar, Dist Surendra Nagar.
2229.	Harendra Desai Madanjit	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1955	443 1-5-56	C/o. M.D Desai, Daru Maholla, At. Distt. Valsad.
2230.	Harendra Patha Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2909 24-2-70	Lal Bhai's Khancha, Sultanpura, Baroda.
2231.	Harendragiri Goswami Jagannath Giri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7529 15-2-80	At. & IPost Limbadi, Shuklapa, Dist. Surendranagar
2232.	Harendra Kumar Adhavaru Ganapati Shankar	G.F.A.M., Fac. of Ay. & Unani Systems of Med. Gujarat 1961	53 13-2-62	Tapovan, 39, Sharda Society, Ellish- bridge, Ahmedabad.
2233.	Harendrakumar Barot Madhubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4160 21-1-74	51, Master Colony, Outside, Shahpur Gate, A'bad.
2234.	Harendrakumar Joshi Balkrushna	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6276 20-9-78	At. & Post Kaladara, Tal. Vagara, Dist. Broach.
2235.	Harendrakumar Mehta Govindji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5585 27-10-76	Amarpara Near Health Center, At Bagsara Bhayani, Tal Kukavav In., Distt. Amreli.
2236.	Harendrakumar Vyas Narmadashankar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4530 27-9-74	2/1, Giriraj Society, Vanthali Gate, At Junagadh.
2237.	Haresh Dave Chandravadan	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9092 31-7-84	Darbagadh Chowk, Haveli Sheri, At. Upleta-360490.

1	2	3	4	5
2238.	Haresh Patel Mohanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2893 2-2-70	At Kunkavav Moti, Tal Kunkavav Distt. Amreli.
2239.	Haresh Patel Jagubhai	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, Maharashtra 1968	4181 11-2-74	Magan Dhibi's, Vadi, Near Jakat- naka, Varachha Road, At Surat.
2240.	Hareshchandra Pradya Manuprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5307 29-3-76	At Jaletra, Tal. Vadgam, Via Palanpur, Distt. Banaskantha.
2241.	Haresh Kumar Ambalal	Ayurveda Madhyama, S.D. Pariksha-Samiti, 1976	6811 22-3-79	76, Dudheswar Society, Ajava Road, At. Baroda.
2242.	Hareshkumar Bhatt Manilal	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1976	7022 21-6-76	At Vedach, Tal. Jambusar, Dist. Broach.
2243.	Hareshchandra Chandda Gulabsinh	Ayurved Madhyama S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6676 3-3-79	Shri Dhanvantri Ayurvedashram, Near Rly. Station, At. Veraval, Dist. Junagadh
2244.	Hareshkumar Patel Rambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8248 24-12-81	Harikrupa, Vallabh Nagar Society, No. 2, At. Nadiad, Dist. Kheda.
2245.	Hareshkumar Pandya Bhogilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	6275 11-9-78	At & Post Bomal, Tal-Bayad, Dist. Sabarkantha.
2246.	Hareshkumar Raval Jethalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5503 25-8-76	C/o. J. B. Trivedi, 20 Digvijay Plot, Mistri Building, At Jamnagar.
2247.	Hareshkumar Solanki Vallabhdas	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8970 12-3-84	Shakmarket, At. Paddhari, Dis Rajkot-3601101.
2248.	Hareshkumar Thakar Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	6261 2-9-78	10, Meghadut Colony, At Bilimora, Tal Gandevi, Distt Valsad.
2249.	Hareshkumar Tripathi Govindprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5276 12-3-76	At Limadi, Tal Zalod, Distt. Panchmahal.
2250.	Hareshkumar Trivedi Labhashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4304 2-4-74	Plot No. 1899, Krishnanagar, At bhai Road, At. Bhavnagar.
2251.	Hareshkumar Vala Rambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5356 20-4-76	Jalaram Society, B, No. 1-A, Bharatkunj, At Junagadh.
2252.	Hargovan Patel Bhikhadas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2996 13-7-70	At Undhal, Tal Khoralu, Distt. Mehsana.
2253.	Hargovind Bhatt Popatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2800 25-7-69	Rajendra Road, At Jam Jodha- pur, Distt. Jamnagar.
2254.	Hargovind Brahmhatt Manganlal	G.F.A.M., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1965	2163 9-9-66	Medical Officer, Govt. Dispen- sary, Vagdod, Distt. Mehsana.
2255.	Hargovind Joshi Tulajashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4364 30-4-74	At Gir (Gadhada, Jal Una, Distt. Junagadh.
2256.	Hargovindbhai Patel Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4116 15-11-73	At Gundarasan, Tal Vijapur, Distt. Mehsana.
2257.	Hargovindbhai Patel Somabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6836 22-3-79	At Limb, Tal. Bayad, Dist. Sabarkantha.
2258.	Hargovinddas Vaishnav Gangaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4433 22-7-74	At Danavada, Tal. Muli, Distt. Surenderanagar.
2259.	Hari Gurnani Chainmal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9422 2-12-85	34, New Sawaharnagar, Manjipya Road, At. Nadiad, Dist. Kheda.
2260.	Haribhai Kasvala Vallabhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4621 12-2-75	At Mota, Bhandariya, Via Baba- pur, Distt. Amreli

1	2	3	4	5
2261.	Haribhai Patel Ranuchhodbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2834 2-9-69	At Mora Charodia, Via Dam- nagar, Tal Gariyadihar, Distt. Bhavnagar.
2262.	Haribhai Patel Shankerbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4094 17-10-73	At Poglu, Tal Prantij, Distt. Sabarkantha
2263.	Haribhai Vanker Keshavbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5692 24-2-77	Vankarvas, At. Ati, Tal Padra, Distt. Baroda
2264.	Haribhakti Vladya Bhalchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5605 17-11-76	Rangila Pole, At Kapadvanj, Distt. Kheda.
2265.	Harichchha Trivedi Gaurishanker	B.A.M.S., Univ., of Gujarat, 1963	2660 12-3-68	C/o. G. S. Trivedi, Vandafali, At Jamnagar.
2266.	Haridasji Mahant Panchamdasji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2867 31-12-69	Kabir Temple, Outside A'bad Gate At. Nadiad, Distt. Kheda.
2267.	Harihar Bhatt Narmadashandker	L.A.M., U.P. Ay. Maha. Patan (Baroda State), 1938	1538 31-7-44	Grant-in-aid Dispensary, At. Desar, Tal. Savli, Distt. Baroda.
2268.	Harihar Dave Jatashanker	L.A.M., U.P. Ay. Maha. Patan (Baroda State), 1937	372 12-8-40	1, Ganesh Society, Outside Shahpur Gate, A'bad.
2269.	Harihar Joshi Mohanlal	L.A.M., U.P. Ay. Maha. Patan (Baroda State), 1940	259 18-10-41	Shabid Pole, At. Dakor, Tal. Than- sara, Distt. Kheda.
2270.	Hariharilal Shah Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4803 25-4-75	18-B, Thakkarbapa Society, Ajva Road, Near Ay. College, Panl Gate, Baroda.
2271.	Hariharprasad Pandya Vallabharam	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3260 11-10-71	At Kadoli, Tal. Himmatnagar, Distt. Sabarkantha.
2272.	Harish Anadkat Amrutlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9494 16-4-86	"Nandenvan" Jivan Jyoti Society, Near BrahmSamaj, At. Rajkot.
2273.	Harish Jadav Somabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7366 29-10-79	M. P. Chal, Juna Vadaj, A'bad.
2274.	Harish Notani Gurubaxray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5771 26-4-77	A/5/54, Krushnanagar, Saljpur, A'bad.
2275.	Harish Sharma Thakurdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4889 17-6-75	4, Jay Vimal Society, Ghodasar, Maninagar, A'bad.
2276.	Harishbhai Patel Bhikharam	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1961	8503 27-6-82	At. Dabhi Suranjnagar, Tal. Sidhapur, Distt. Mehsana.
2277.	Harishchandra Arya Dhanjibhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2261 7-11-66	Nanpura, Kaharvad, Surat-1.
2278.	Harishchandra Bhatt Durgashanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1954	868 3-1-55	At. Manglej, Tal Karjan, Distt. Baroda.
2279.	Harishchandra Bhatt Ramchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6977 7-5-79	At. Daheli, Tal. Valia, Distt. Braoch.
2280.	Harishchandra Jain	H.P.A., P. Graduate T. Center in Ay. Jamnagar, 1964	5566 4-10-76	P. G. T. R. Guj. Ayu. Unl, Jamnagar.
2281.	Harishchandra Pandit Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4620 12-2-75	Sharavan Sheri, Darhar Road, At. Visnagar, Distt. Mehsana.
2282.	Harishchandra Patel Rasiklal	D.A.S.F., Fac of AUSM, Bombay, 1950	661 31-8-50	224, Nanisalavi Wad, Saraspur, A'bad.

1	2	3	4	5
2283.	Harishchandra Patel Chhitubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6039 16-2-78	At. Singhai, Via Unai, Tal Vasanda, Distt. Valsad.
2284.	Harishchandra Jivanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8567 20-10-82	9, Bindusagar Society, At. Kalol, Distt. Mehsana.
2285.	Harichandra Vasavda Madhusudanrai	D.I.M.S., Board of AUSM, Delhi Admn, 1959	2312 22-1-59	"Madhukunj", Bhaktinagar, At. Rajkot.
2286.	Haridas Kasture Shridhar	H.P.A., P. G. T. Centre in Ay. Janmgar, 1960	1929 1-2-66	Shahpur Post Offloc, Building, Ahmedabad.
2287.	Haridas Patel Naranbhai	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3673 30-10-72	5, New Alkapuri Society, Gulabai Tekra, Panchvati, A'bad.
2288.	Hariikant Nanavati Janakrai	B.A.M.S., Univ., of Gujarat, 1963	1365 6-12-63	Ramkrupa Nagar, Road, Junagadh-362 001.
2289.	Harikrishna Bhatt Rameshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8721 19-4-83	Near Bus Station, At. Dhangadhra, Distt. Surendranagar.
2290.	Harikrishna Dixit Maganlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1947	380 30-1-48	Maganlal V. Dixit, Dixit Mahollo, At. Valsad.
2291.	Harishna Patel Rambhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1961	657 18-4-62	Lakhwad Chora, At. Nadiad, Distt. Kheda.
2292.	Harikrishna Pandya Jayantilal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1966	2138 16-8-66	Opp. Mukhya Kanyashala, Chavdi Bazar, Road, At. Patlad, Distt. Kheda.
2293.	Harikrushna Purohit Harilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM Bombay, 1954	722 2-1-57	14, Digvijay Plot, Police Chowki, At. Jamnagar.
2294.	Harikrishna Shah Shankeral	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1963	1405 14-2-64	Desai Sheri, Bava's Madhi Lano Ghadiyal's Pole, Baroda.
2295.	Harikrishna Thakar Shantilal	Ayurved Mahayana, S. D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6788 21-3-79	At. Kankapura, Tal. Borsad, Distt. Kheda.
2295.	Harikrishna Upadhyay Jagannath	D.A.S.G., Fac. of AUSM, Bombay, 1947	2036 15-7-47	At. Zadeshwar, Tal. & Distt. Braoch.
2287.	Harikrushandas Shah Parshottamdas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1965	1797	Vahalabhai's Khadaki, At. Uttur- sanda, Distt. Kaira.
2298.	Harkrishandas Shah Pitambaradas	B.A.M.S., Nagpur Univ., 1975	5391 13-5-76	M/s. Rasiklal Harikishandas, Co., At. Modasa, Distt. Sabar- kantha.
2299.	Harilal Babariya Lalajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7215 23-8-79	Patel Office Sheri, At. Chital, Distt. Amreli.
2300.	Harilal Bhindera Jadavji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3006 18-7-70	C/o Jadavji Rajshi, Vishipara, Distt. Rajkot.
2301.	Harilal Chinkani Thobhanbhai	B.A.M.S., Univ., of Gujarat, 1961	175 5-12-61	Dr. H. T. Chikani, Near Cinema, Kalavad (Shitak), Gujarat.
2302.	Harilal Gadhla Dhanjibhai	B.A.M.S., Univ., of Gujarat, 1964	21 14-12-64	Juna Ghantila, Maliya (Miyana) Mahal, Distt. Rajkot.
2303.	Harilal Raval Trikanji	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1969	7042 21-6-79	At. Bedakiyal, Tal. Mendarada, Distt. Junagadh.
2304.	Harilal Shah Shivji	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	1262 1-10-56	Tripathi Bhuvan No. 2, Opp. Jain Temple, R. A. Road, Gere Gan, West Bombay-62.
2305.	Harilal Trivedi Keshavlal	Ayurved Visharad, Board of I. M., Saurashtra, 1961	2243 22-3-61	Prathmik J. P. Ay. Vidyalaya, Opp. Sardar Bag, At. Bhavnagar.

1	2	3	4	5
2306.	Harilal Sh. Upadhyay Sh. Navalshanker	Vaidyacharaya, A. I. A. V., Delhi, 1961	8111 2-7-81	Sheri No. 4 Ramkrushnanagar (West), Behind Virani, High School, At. Rajkot.
2307.	Hariqath Za Mahendra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8704 16-3-83	Shri Jayram Clinic, Kodh's Raipur, A'bad.
2308.	Hariprasad Bhatt Shivshanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1953	866 28-3-53	At. Siyani, Via Limadi, Distt. Surendranagar.
2309.	Hariprasad Bhatt Lallubhai	D. S. A. F., Fac. of AUSM, Bombay 1958	867 8-2-68	At Vadali Tal Idar, Distt. Sabar- kantha.
2310.	Hariprasad Dave Trambaklal	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat, 1963	1823 13-10-65	Near Bus Stand, At. Chuda, Tal Limbadi, Distt Surendranagar.
2311.	Hariprasad Nimavat Sukbramji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5373 30-4-76	Bhagat's Sheri, At. Chotila, Distt. Surendranagar.
2312.	Hariprasad Oza Chandrakant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4939 4-9-75	Sutarfali, At Viramgam, Distt. A'bad.
2313.	Hariprasad Pandaya Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3461 29-3-72	At Karjala Via Savarkundala, Distt. Rajkot.
2314.	Hariprasad Shukla Nathlal	B.A.M.S., Univ., of Gujarat, 1963	1285 8-7-63	At. Anglod, Tal Vijapur, Distt. Mehsana.
2315.	Hariprasad Vora Sukhvanthrai	D.A.S.F., Fac. of A.U.S.M., Bombay, 1952	2464 1-8-52	Govt. Dispensary, At. Thangadh, Distt. Surendranagar.
2316.	Hariprasad Vyas Mangallal	D. A. S. F., Fac. of A. U. S. M., Bombay 1952	1109 18-3-52	At. Dediypada, Distt. Broach.
2317.	Harishnaker Chavali Snastrai	D. Ay. M., B. H. U. 1972	8359 11-3-62	37, Lal Bhahadurshatrinagar, Societ y 9, Patel. Colony, Jamnagar.
2318.	Harishanker Joshi Dhansukhram	D.A.S.F., Fac. of A.U.S.M., of Bombay, 1952	260 2-1-53	Kankan Faljiyas, At Vejalpur, Tal Kalal, Distt. Panchmahal.
2319.	Harishanker Raval Mahadevram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3813 23-2-73	At. Adaripana, Tal, Rasada, Distt. Surendranagar.
2320.	Harishanker Sharma Gaurishanker	H.P.A., P.G.T. Centre in Av. Jamnagar, 1958	1414 9-3-64	Director of Pharmacy, Gujarat Ay. Universitv, Jamnagar.
2321.	Harishanker Sharma Narmadashanker	Ayurvedacharya, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1949	7455 21-12-79	Kamala Lala Smruti, M/5, 60-476, Shashtriy nagar, A'bad.
2322.	Harishanker Sharma Mangilal	B.A.M.S., Vikram Univ., 1980	8475 3-8-82	43, Harsiddhipal, Yogipura, Ujjain.
2323.	Haishanker Vadagar Kalidas	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1960	6849 2-4-79	At. Vadidara (Zala), Tal. Veraval, Distt. Junagadh.
2324.	Harishkumar Acharya Dasharathlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3211 30-7-71	At & Post Dantivada, Tal. Dhaora, Distt. Banaskantha.
2325.	Harishkumar Dave Haribhai	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1975	6546 12-2-79	Nagnath Gate, Ambaji's Chowk, At Jamnagar.
2326.	Haishkumar Dave Bipinchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7623 20-3-80	10/613, 'Khapatia, Chakala, Vipin Gali, At. Surat.
2327.	Haishkumar Mehta Mohantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7286 20-9-79	H. No. 9, Shripalnagar, Usman- pura A'bad.
2328.	Harishkumar Pandya Vishnuprasad	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ., 1175	5566 13-10-76	36-A, Gopi Nivas, Sharit Kunj, Society Shahpur, Bahai Center, A'bad.

1	2	3	4	5
2329.	Harishkumar Patel Chaturbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7598 17-3-80	At. Bhadam, Tal. Rajpipala, Distt. Broach.
2330.	Harishkumar Saraiya Narbhoram	D.A.S.F., Fzc. of AUSM, Bombay, 1955	1307 1-3-55	Sukhnath Road, Via Upleta, Saurashtra.
2331.	Harishkumar Shukla Jayshankar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5697 24-2-77	Brahman Sheri, At. Sankheda, Distt. Baroda.
2332.	Harishkumar Vaghela Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5209 26-2-76	7, Guankunj, Society, Near Punit Ashram, Maninagar, A'bad.
2333.	Harismita Mendawala Naivarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3894 27-3-73	853 /3, Devbhuvan, Ramnagar, Sabarmati, A'bad.
2334.	Harish Sarvaiya Prabhatsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3487 19-4-72	At. Bhadravat, Tal. Talaj, Distt. Bhavnagar.
2335.	Harivadan Bhatt Kantilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1948	869 2-1-59	Bajibhatt's Khancha, At. Umrath, Distt. Kheda.
2336.	Harivadan Panchal Mulajibhai	Ayurved Madhyama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda, 1965	7720 17-5-80	At. Zaghadiya, Via Anklashwar, Distt. Broach.
2337.	Harivadan Pandya Hirlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3795 16-2-73	Old Fallia, At. Umalla, Tala. Zagadia, Distt. Broach.
2338.	Harivadan Patel Ranchhodhbhai	B.A.M.S., Poona Univ., Poona, 1976	5646 30-12-76	At Saragi, Tal. Sankheda, Distt. Baroda.
2339.	Harivadan Rana Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6011 21-1-78	17, Krushanagar Society, Behind Taluka Panchayat, At. Broach.
2340.	Harivadan Saraiya Mohallal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	1305 3-4-62	Panchkui Bhulathakr's Pole, Nadiad, Distt. Kheda.
2341.	Harivadan Vyas Hargovinddas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5370 30-4-76	At. Punasan, Tal. Bhiloda, Distt. Sabarkantha.
2342.	Harivallabh Thakar Chandulal	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	5797 30-4-77	At. Modpur, Tal. Lalpur, Distt. Jamnagar.
2343.	Haraji Raval Premji	Vaidyacharaya, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1968	7703 29-4-80	Railway Line, At. Sakhapur, Via & Tal. Jamjodhapur, Distt. Jamnagar.
2344.	Harji Vaishanani Velaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5277 12-3-76	At. Thana Pipali, Via Lushala, Distt. Junagadh.
2345.	Harjibhai Bhanbhaliya Nanjibhai.	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4895 17-6-75	At. Bhadraval, Tal. Tala, Distt. Bhavnagar.
2346.	Harjivan Chauhan Jerambhai	Vadya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1971	6845 2-4-79	At. Ambalas (Gir), Tal. Tala (Gir) Distt. Junagadh.
2347.	Harjivan Dave Himmatlal	Ayurved Bhisak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1957	6902 16-4-79	At. Dedkadi, Via. Dhola Jn, Tal. Umarala, Distt. Bhavnagar.
2348.	Harjivan Patel Nanjibhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1957	653 1-2-58	At. Manund, Tal. Patan, Distt. Mehasana.
2349.	Harjivandas Patel Shankarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4087 10-10-73	At. Mitral, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
2350.	Harkishan Maniar. Popatlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1961	1804 28-9-65	At. Vadanagar, Tal. Kheralu, Distt. Mehsana.
2351.	Harmanbhai Patel Zaverbhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1944	654 21-6-66	Laxmi Chowk, At. Nar, Tal. Petlad, Distt. Kheda.

1	2	3	4	5
2352.	Harmanbhai Patel Visheribhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5522 15-9-76	At. Bedava, Tal. Anand, Distt. Kheda.
2353.	Harmitaben Oza Navinchandra	Ayurved Bhishak, A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1973	6736 12-3-79	Narbhokunj, 4, Jagnath Plot, At. Rajkot.
2354.	Harnarayan Mandir Labhashanker	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9588 7-10-86	"Rajnandir" Natrajnagar, Block-C/A 5, Saurashtra Unt. Road, At. Rajkot-360 005.
2355.	Harnishkant Parikh Jayantilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	2128 2-8-54	Hajikha Bazar, At. Broach.
2356.	Harsh Ambavi Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4757 7-4-75	C/o Natvarlal T. Ambavi, Jivanplot, At. Bhesan, Distt. Junagadh.
2357.	Harsh Vora Satish	B.A.M.S., Univ. of Poona, 1975	7891 14-11-80	Uphar, Dra. Yagnik Road, Opp. Ducksari Hotel, At. Rajkot.
2358.	Harsha Barot Shankarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7641 20-3-80	2382, Parbadis Pole, Raipur, A'bad.
2359.	Harsh Shah Mahondrakumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ.,	6286 20-9-78	C/o Shah Mahendramukmar Pra- bhudas, Ghogha Gate, Khaivala Khancha At. Bhavnagar.
2360.	Harsha Shah Ratanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7396 21-11-79	22, Rajeshwari Colony, Near Uttam- nagar's Kas, Maninagar, A'bad.
2361.	Harsh Pandya Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4648 12-3-75	1st Floor Adhya Bhuvan, Mahatma Gandhi Road, Kandivali West, Bombay.
2362.	Harshaben Pandya Pratulchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8417 17-4-82	C/o. P.K. Pandya, A.C.C. Colony, Qtr. No. G-78, Post. Scvaliyat Cement Works, Tal. Thasara, Dist Kheda-388 240.
2363.	Harshaben Patel Govindbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9475 28-2-86	25/Sharad Flats, Nava Vikasgruh, Paladi, A'bad-7.
2364.	Harshad Vaidya Gajanand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7779 1-8-80	C/o. Chinubhai M. Joshi, 8/1150, Bavasidi, Gopipura, Surat.
2365.	Harshad Mankedi Rai	A.M.S., B.H. Univ', Varanasi 1952	2178 27-9-66	I.A.A.R., At. Jamnagar.
2366.	Harshad Shah Rasiklal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1964	1585 19-1-65	C/o. Dr. Rasiklal Lallubhai, Lakha- jiraj Road, Rajkot.
2367.	Harshadchandra Sh. Joshi Ganapatram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8596 13-12-82	At. & Post Umari, Tal. Kheralu, Distt. Mehsana.
2368.	Harshadkumar Gandhi Somalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	8495 27-8-82	At. Demai, Tal. Bayad, Distt. Sabarkantha.
2369.	Harshadkumar Govani Vittaladas	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9283 2-5-85	"Azad Chowk", At. Supadi, Tal. Dhoraji, Dist. Rajkot.
2370.	Harshadkumar Joshi Trikamlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4317 3-4-74	At Kukarvada, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
2371.	Harshadkumar Pandya Chandrakant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4289 26-3-74	C/o Dr. M.J. Pandya, At. Babara, Dist. Amreli.
2372.	Harshadkumar Pandya Gajanand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4572 4-11-74	Brahmpole, At Vadali, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
2373.	Harshadkumar Patel Premchandbhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1963	659 31-5-63	Harshad Kunj, Moti Salvi Wad, Sarspur, Ahmedabad.
2374.	Harshadkumar Patel Gokalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2961 3-6-70	At Simasi, Via Lushana, Distt. Junagadh.

1	2	3	4	5
2375.	Harshakumar Patel Narayanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5493 13-8-76	At Gorad, Tal. Chansma, Distt. Mehsana.
2376.	Harshadkumar Patel Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6173 6-6-78	Desai Pole, At Betrej, Tal Viram- gam, Distt. A'bad.
2377.	Harshadkumar Rana Shankarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4747 7-4-75	Nizam Vadi, At Shukla, Tirth, Tal. Distt. Baroach.
2378.	Harshadkumar Shah Jayantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9514 1-7-86	215, Nayannagar, Saijpur Bogha, Naroda Road, A'bad-382345.
2379.	Harshadkumar Trivedi Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8010 17-3-81	At. Mota, Tal. Bardoli, Distt. Surat.
2380.	Harshadkumar Vyas Bhanushanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	6469 3-8-82	At. Varsada, Tal. Khambhat, Distt. Kheda.
2381.	Harshadlal Panchal Muljibhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat . 1961	729 23-10-61	At. Zaghedia, Via Ankleshwar, Distt. Broach.
2382.	Harshadrai Vaidya Ganpatishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3070 19-11-70	Soni Falia, Main Road, Near Datt Temple, Surat—1.
2383.	Harshadray Agravat Vanmalidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6175 6-6-78	At. & Post Zanzamer, Via Talaja, Distt. Bhavnagar-364 135.
2384.	Harshadrai Bhatt Harikrishna	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3989 7-8-73	M.O. CHV Primary Health Centre, At & Post Sanjan, Distt. Valsad.
2385.	Harshadrai Dave Amrutlal	Ayurved Visharad, B.I.M., Saurashtra, 1958	2202 15-3-58	Jetalpur Ayu. Dispensary, At & Tal. Jetalpur, Distt. Rajkot.
2386.	Harshadrai Ditani Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3960 15-6-73	At. Sarbhanda, Via Chalala, Tal & Distt. Amreli.
2387.	Harshadray Gohil Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	5352 14-4-76	Pirpa Sheri, At. Chittal, Tal. & Distt. Amreli.
2388.	Harshadrai Joshi Jagivandas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1965	2081 29-6-66	Near Kuberji's Temple, Dholaka, Distt. A'bad.
2389.	Harshadray Joshi Bhanushankar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7718 17-5-80	23, Kailas Appt., Opp. Muni, Hos- pital, At. Mahuve, Distt. Bhavnagar.
2390.	Harshadrai Mehta Pranlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	928 15-12-61	2, Vishnu Nivas Society, Gulbai Tekra, A'bad-15.
2391.	Harshadrai Patel Maganbhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	658 22-3-63	Library Road, At. Chhota Udepur, Distt. Baroda.
2392.	Harshadrai Pathak Ambalal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2373 20-1-67	At & Post Davol, Tal. Barsad, Distt. Kheda.
2393.	Harshadrai Purohit Shivshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3015 1-8-70	C/o Pandya Pratapraj, M. Rani- kapara, Near Police Gate, At. Bhavnagar.
2394.	Harshadray Rajyaguru Baavanishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4330 9-4-74	Pipalavali Sheri, At. Vallabhipur, Distt. Bhavnagar.
2395.	Harsbadrai Raval Jatashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3804 21-2-73	At. Hadvad, Tal. Botad, Distt. Bhavnagar.
2396.	Harshadray Saraiya Narbharam	Vaidya Visharad, A.I.Ay. Vidyapceth, Delhi 1965	7507 17-1-80	Surajpara, At. Vadiya, Tal. Kukavav, Dist. Amreli.
2397.	Harshadray Sevak Dalsukhray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4238 5-3-74	At. Bhavada, Tal. Lunavada, Distt. Panchmahal.

1	2	3	4	5
2398.	Harshadray Shukla Madhusudan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6073 15-3-78	Ramnath Road, Green Chowk, At. & Tal. Limbadi, Distt. Surendra- nagar.
2399.	Harshadrai Trivedi Chhotalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2812 18-8-69	Vadva Chora, At. Bhavnagar.
2400.	Harshadrai Upadhyaya Ishwarlal	G.F.A.M., Fad. of AUSM, Gujarat 1961	76 5-12-61	2/4269, Kala Mehtani Pole, Sagram- pura, Surat.
2401.	Harshadray Vyas Ravashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6941 25-4-79	At. Bil, Tal. & Distt. Baroda.
2402.	Harshvadan Sanghavi Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6394 27-10-78	At & Post Dhumasan, Tal. Kadi, Via. Pansar, Distt. Mehsana.
2403.	Harshvadan Vaidya Jagannath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8225 18-11-81	At. & Post Manpur, Tal. Santam- pur, Distt. Panchmahal.
2404.	Harshvadan Jebanputra Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8079 7-5-81	A/3, Nava Railway Qua., Mani- nagar, A'bad.
2405.	Harshvadan Mehta Manilal	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ., 1971	3575 4-9-72	C/o Mehta N.K., St. Road, At. Kherali, Distt. Mehsana.
2406.	Harshvandan Vaishnav Ramanikrai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1959	1069 2-2-59	Mobail Dispensary, At. Dhikha, Via Kharad, Distt. Banaskantha.
2407.	Harshida Bharvada Dalichandbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 197	7202 20-8-79	Lakhata Mig Colony, B. No. 77 w/ Behind Bus Depot, Jamnagar.
2408.	Harshida Kotecha Mansukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 197	4381 20-5-74	Block No. H. 30, Mansukhastri nagar, At. Bhavnagar.
2409.	Harshida Mehta Laxman	D.S.A.C., C. 5. Ay. Course, Gujarat 1971	3395 22-2-72	Krishna Bhawan, Anand Society Near Maninagar, Railway Crossing, A'bad.
2410.	Harshida Nayak Labhashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8669 16-2-83	Saija's Vas, Behind Jain Derasar, At. & Tal. Kalol, Dist. Mehsana.
2411.	Harshida Porania Kirtibhal	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ., 1982	8861 1-11-83	A-2, Suhas Apptt., Bhimajipura, Nava Vadaj, A'bad-13.
2412.	Harshida Shah Arvindkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8534 14-9-82	Pandyapole's Chakala, Mehendavad.
2413.	Harshadsinh Rana Bhagavansinh	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9299 6-6-85	881, Muktinagar, Sindhvai Road, At. Broach.
2414.	Harshikant Parikh Amrutlal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1966	2329 7-12-66	At. Uvarsad, Tal. & Distt. Gandhi- nagar.
2415.	Harshikhilal Rajivadiya Nanji	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ., 1973	4427 8-7-74	Rojivadiya Sheri, At Vanthali, Distt. Junagadh.
2416.	Harshkumar Bhatt Prabhashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5049 24-1-75	Behind Darbargadh, At. Palitana, Distt. Bhavanagar.
2417.	Harsukh Trivedi Ravashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5085 18-12-75	Soni's Haveli, Bhagatslav, Bhava- nagar.
2418.	Harsukhrai Bhatt Gajanand	L.A.M., U.P. Ay. Maha Patan (Baroda State) 1944	1528 8-3-44	Court's At. Vyara, Distt. Surat.
2419.	Harsukhlal Keshavlal	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	7420 29-11-79	Jilla Panchayat Ay. Dispensary, At. Kankavati, Tal. Bhrangadhra, Distt. Surendranagar.
2420.	Harsukhlal Bhatt Mohanalal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1978	1416 18-3-64	Vaidkiy Adhikraj, At. Devda, Via Kutiana, Junagadh.

1	2	3	4	5
2421.	Harsukhlal Devrajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7298 20-9-79	At. Bhimora, Via & Tal. Upaleta, Distt. Rajkot.
2422.	Harsukhlal Vaishnav Bansidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8583 3-11-82	At. Khadia, Via & Distt. Junagadh.
2423.	Harsukhrai Bhatt Gajanand	L.A.M., U.P. Ay. Maha. Patan (Baroda State) 1944	1528 8-3-44	Court's At. Vyara, Distt. Surat.
2424.	Harsukhray Trivedi Girdharlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4657 15-3-75	Uparkot Road, Ramaji Mandir, At. Junagadh.
2425.	Harsuta Vaidya Valmik	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1972	6781 21-3-79	Bhagat Sheri, Bhaga Talav, At. Bhavnagar.
2426.	Harullaben Gamit Ratanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6111 5-4-78	At. Pervad, Post Bakhali, Tal. Vyara, Dist. Surat.
2427.	Harvadan Dave Mahashankar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4232 27-2-74	2, Girdharnagar, Shahibag, A'bad.
2428.	Hanaji Vora Saifudding	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3531 27-2-72	At. Sanjali, Tal. Zalad, Panchamahar.
2429.	Hansbans Sodhi Ranjitsingh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6050 8-3-78	E/71/72, Kubernagar, A'bad.
2430.	Hasithkumar Parekh Punjabhai	B.S.A.M., Gujarat Ayurvedic University 1982	8842 19-9-83	At. Pandoli, Tal. Petlad, Distt. Kheda-388160.
2431.	Hasmita Hirakani Maneklal	B.A.M.S., Gujarat Ayurvedic University 1983	9233 12-3-85	1383/1, Hajapatel's pole Kharakuva's pole, Rilit Road, A'bad-1.
2432.	Hasmita Joshi Rameshchandra	B.A.M.S., Gujarat Ayurvedic University 1985	9630 5-12-86	C/o Joshi Rameshchandra S. Charchi- wala, At. Nodasa, Distt. S.K.
2433.	Hasmita Mehta Chimanlal	Vaidya Visharad, A.I. Ayu. Vidyapeeth, Delhi 1972	7444 21-12-79	C/o S.J. Mehta, Mehtasadan, 2, wadi plot At. Faterdar, Distt. Junagadh.
2434.	Hasmukh Bhuvra Vaghaji	B.S.A.M., Gujarat Ayurvedic university 1978	7804 9-9-80	26, Dhojraj, para At. Gengal, Distt. Rajkot.
2535.	Hasmukh Dave Pranjivan	B.A.M.S., University of Gujarat 1963	373 11-7-63	C/o Dr. P.K. Dave, At Lathi, Distt. Amreli.
2436.	Hasmukh Vasani Dhirajlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9217 19-2-85	C/o Vasant Dhirajlal, Shri Cham- buda Krupa, Vivekanandnagar, 40, Foot's Rd. At. Rajkot.
2437.	Hasmukh Meghani Shamaji	Vaidyacharya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1963	6796 21-3-79	Mahatma Gandhi Cross, Road No. 1, Mohilevadi, Babubhai Panuala, Room No. 12/15, Chali No. 1, Kandivali, Bombay-67.
2438.	Hasmukh Mistri Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7830 25-9-80	104, Annapurna, Society Anil Road, A'bad.
2439.	Hasmukh Parikh Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3828 28-2-73	Bhandiya Pole, Near Labhashanker Haveli, Khadiyu, At & Vishnagar, Dist. Mehsana.
2440.	Hasmukh Patel Manubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5187 21-2-76	1928, Hingalok Joshi's pole, Kadiya Bala Hanuman, A'bad.
2441.	Hasmukh Shah Chandulal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2090 7-7-66	17, Nandnavan Society, Outside Shahpur Gate, A'bad.

1	2	3	4	5
2442.	Hasmukh Thakkar Kuberdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	8892 4-1-64	C/o Dr. Thakkar R.K Orthopedic Surgeon, Chittakhana Chowk, M. G. Road, At. Junagadh.
2443.	Hasmukh Trivedi Rameshwarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4881 12-6-75	C/o Dr. Rameshwar M. Trivedi, opp. New Piltar, Kavubha Road, Near Andha Shala "Rajmukul", At. Bhavnagar.
2444.	Hasmukh Vaidya Chunilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7325 10-10-79	C/o Dilip G. Vaidya, Jagdish Bhuvan Navrangpura, Near Bus Stand, A'bad.
2445.	Hasmukh Valera Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	5559 4-10-76	1, Ashokvadi Sarspur, A'bad.
2446.	Hasmukh Barot Bhaishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5974 28-11-77	Rajgor Fali, Bhanubhauvan, At Jamnagar.
2447.	Hashmukh Joshi Mahashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5569 13-10-76	Gujarat Hou. Board, Society, B.No. 14, At. Shihor, Dist. Bhavnagar.
2448.	Hasmukhaben Shah Nandlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5633 18-12-76	C/o Ratilal C. Shah, White Hou., Takav Kantha, At. Limbadi, Distt. Surendernagar.
2449.	Hasmukhbhai Bhagat Chunilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5894 20-9-77	At. Tandalaja, Tal. Sankheda, Dist. Baroda.
2450.	Hasmukhbhai Bhatt Gangashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6071 15-3-78	At. & post Kanbala, Tal. Karjan, Dist. Baroda.
2451.	Hasmukhbhai Joshi Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3854 8-3-73	Vani ^a Vad, At. Ladol, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
2452.	Hasmukhbhai Pandya Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3142 25-2-71	At. Samaspur, post Patarveni, Distt Baroda.
2453.	Hasmukhbhai Parekh Ishwarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5319 31-3-76	4, Staff Qua. Jilla Panchayat Kacheri Distt. Mehsana.
2454.	Hasmukhbhai Patel Shivabhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course Gujarat 1966	2035 6-6-66	Shrirang Ami, 14/83, Anand Flat, Vijaynagar, A'bad.
2455.	Hansmukhbhai Patel Bhailalbhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course Gujarat, 1966	2322 3-12-66	At & post Sadhalli, Tal. Shiner, Distt. Baroda.
2456.	Hasmukhbhai Patel, Punjabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4049 15-9-73	Bazar At Near Distt. Kheda
2457.	Hasmukhbhai patel Chimanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4666 20-3-75	At. Gundicha, Tal. Samjheda, Distt. Baroda.
2458.	Hasmukhbhai patel Motibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4727 1-4-75	At. Rarod, Tal. Karjan, Distt. Baroda.
2459.	Hasmukhbhai Patel Ranchhodbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4815 30-4-75	At Gavasad, Tal Padara, Distt. Baroda.
2460.	Hasmukhbhai Patel Ranchhodbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8737 19-4-83	11, Kailas Society, At. Kim, Tal. Olpad, Dist. Surat.
2461.	Hasmukhbhai Patel Chhotabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4870 30-5-75	Mahadev Falia, At Nar, Tal Petlad, Distt. Kheda.
2462.	Hasumukhbhai Patel Morarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5256 8-5-76	At Hasont, Joshi Paliya, At Broach.

1	2	3	4	5
2463.	Hasmukhbhai Patel Gamanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5386 10-5-76	At Mindhi, Post Mandroi, Tal Olpad, Distt. Surat.
2464.	Hasmukhbhai Patel Vaghajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5429 18-6-76	At Akhadol, Tal Nadiad, Distt. Kheda.
2465.	Hasmukhbhai Patel Motilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5794 30-4-77	At Mokhasan, Tal Kalol, Distt. Panchmahal.
2466.	Hasmukhbhai Patel Ranchadlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6698 3-3-79	At Rakhiana, Tal. Viramgam, Dist. A'bad.
2467.	Hasmukhbhai Sh. Sheth Tribhevandas	Ayurveda Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda. 1973	6479 1-2-79	C/ Tribhavandas B. Sheth, Station Road, At Kayavarohan, Tal. Dab- hoi, Dist. Baroda.
2468.	Hasmukhchandra Sharma Kanaiyalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7079 5-7-79	Khanpur, Mirasived, Opp. Avani- Park, A'bad.
2469.	Hasmukhlal Vaidya Ghelabhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1941	1061 3-11-41	Chunibhai Nanavatiroad, Vadi Falia, Surat.
2470.	Hasmukhlal Fadadu Ravajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3735 31-1-73	At Kolaki, Via Upaleta, Distt. Rajkot.
2471.	Hasmukhlal Jayswal Punamchand	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2071 24-6-66	At Zal., Distt. Panchmahal.
2472.	Hasmukhlal Joshi Mohanlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1965	1814 29-9-65	At Ajarpura, Tal Anand, Distt. Kheda.
2473.	Hasamukhlal Khokhani Kiranchandbhai	G.F.A.M., Fac. of Ayu. Unani System of M.G. 1961	136 5-7-61	1402, Kameshwarni Pole, Raipur, Ahmedabad.
2474.	Hasmukhlal Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2983 19-6-70	Outside Dhulera Gate, St. Road, At Idar, Distt. Sabarkantha.
2475.	Hasmukhlal Parikh Maganlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1954	697 1-8-55	Bazar, At Kadod, Tal Barodoli, Distt. Surat.
2476.	Hasmukhlal Rana Gangaram	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1961	968 26-12-61	Station Road, Opp. High School, At Nabipur, Distt. Baroach.
2477.	Hasmukhlal Shah Mahasukhlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1957	1264 2-1-57	19, Shrinath Society, Ashram Road, Opp. Champner Bus Stop, Ahemdabad.
2478.	Hasmukhlal Shah Ravchanddas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8422 17-4-82	At & Post Limbadiya, Tal. Lana- vada, Dist. Panchmahal.
2479.	Hasmukhlal Soni Krishnalal	B.A.M.S., Univ., of Gujarat, 1963	1423 14-4-64	Sani Vado, Dagheshwari Mata's Pole, At Patan, Distt. Mehsana.
2480.	Hasmukhlal Soni Ambalal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1965	1702 15-6-65	A.G. Madhyath Co. Op. Bank, At Kunjrass, Tal Anand, Distt. Kaira.
2481.	Hasmukhlal Trivedi Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3261 11-10-71	At Bhimdad, Via Botad, Distt. Bhavnagar.
2482.	Hasmukhray Jani Jayantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1974	4924 4-8-75	At Madava, Via. Dhola Jn, Tal. Gadhada, Dist. Bhavnagar.
2483.	Hasmukhray Mehta Chunilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3425 8-3-72	Kutulkhana Road, Opp. Dumba- cotrj, At & Post Upalcta, Distt. Rajkot.
2484.	Hasmukhray Modi Ambalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1956	1839 2-1-56	Mumbaivad, Begampura, Surat-1.

1	2	3	4	5
2485.	Hasmukhray Nimbark Atmarambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5338 8-4-76	At. Gopalgram, Via Chalala, Distt. Amreli.
2486.	Hasmukhrai Pandya Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3935 2-5-73	At. Jamsankhapur, Tal. Jamjod- hapur, Distt. Jamnagar.
2487.	Hasmukhrai Pandya Kalidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4233 27-2-74	Govt. Qua., At. Umrala, Via. Bhola Jn., Distt. Bhavnagar.
2488.	Hasmukhrai Shah Jagjivandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4302 28-3-74	C/o Vakil J.D. Shah, Lalita Nivas, At. Surendrnagar.
2489.	Hasmukhray Shah Babulal	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1960	6652 28-2-79	18, Ranchhodnagar Society, Bedi- para, At. Rajkot.
2490.	Hasmukhrai Thakhi Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2905 16-2-70	Sari Mahaprabhuji's Bethak, Maha- tma Gandhi Road, Porbandar.
2491.	Hasmukhrai Trivedi Durgashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3007 20-7-70	Sanghavi Chowk, Patel Sheri, At. Rajula City, Distt. Amreli.
2492.	Hasmukhrai Trivedi Durgashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5664 3-2-77	Don., 955, Prabhuhuvan At. Bhavnagar.
2493.	Hasmukhrai Vora Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	4991 17-10-75	Brahmanvada, At. Vanthali, Distt. Junagadh.
2494.	Hasmukhrai Vyas Sanathkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3605 16-9-72	At. Motimolpari, Via Vishavadar, Distt. Junagadh.
2495.	Hasmukhray Devmurari Janakidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6762 15-3-79	At. Bhadali (Bhanani), Via Gadha- aga (Swamina), Tal. Jasdari, Distt. Rajkot.
2496.	Hasmukhray Vaishnav Laxmidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	6153 4-5-78	At. Soniya, Via Tanasa, Tal. Tglala, Distt. Bhavnagar.
2497.	Hastarekha Mehta Indulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8575 21-10-82	Dafatrai Sheri, At. & Tal. Morabi, Distt. Rajkot.
2498.	Hasuben Patel Dineshray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5285 23-3-76	6, Triloknath Society, Maganpura, Ranp, A'bad-8.
2499.	Hasumati Bhanderi Bhagvanji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4177 11-2-74	Traveling Dispensary House & Haribhai Dahyabhai House, 7, Havell City Rajmahal Road, At. Juna- gadh.
2500.	Hasumati Bhatt Lalubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4626 17-2-75	C/o J.D. Bhatt, Saibag, 5/6, 1st Floor, M.G. Road, Nard 3rd Cross Lane, Swimming Bridges, Kandivali (West) Bombay-400067.
2501.	Hasumati Parikh Popatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3787 15-2-73	2, Indrapur Society, Bhairavana- tha, Road, Maninagar, A'bad.
2502.	Hasumati Patel Rambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6119 5-4-78	3, Patel Society, Javahar Chowk, Maninagar, A'bad.
2503.	Hasumati Patel Radheshyam	B.A.M.S., Sagar Univ. Sagar, 1979	9492 24-3-88	Near Chora, At. & P.O. Nada- 391210, Via. Kandari, Dist. Baroda.
2504.	Hasumati Shah Damodardas	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1962	1261 25-2-63	Near Haji Building, Jamlpur Cha- kala, A'bad.
2505.	Hasumati Thakkar Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6663 28-2-79	1648/1, Mandav's Pole, Sarkhadi Pole, A'bad.
2506.	Hasumati Trivedi Naranji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2994 13-7-70	Near Manekvadi St, Plot No. 571, Bhavnagar.

1	2	3	4	5
2507.	Hasumati Vithalani Dwarkadas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5842 9-7-75	At Vijapadi, Tal. Savarkundala, Distt. Bhavnagar.
2508.	Hasumatiben Makvana Ran chhodbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5842 3-8-77	C/o Parmar Hasmukhlal Khodidas Behind Swami Narayan Temple, Vandaria Burajk Panigate, Baroda.
2509.	Hathibhai Khuman Dadabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4837 9-5-75	At. Dhar, Tal. Savarkundala, Dist. Bhavnagar.
2510.	Haya Mavadiya Dhankibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6999 7-5-79	C/o Dhanjibhai Kurajibhai, Hari- pura, Gali No. 2, At. Bantava
2511.	Hayantilal Sh. Ukani Bhagvanjibhai	Vaidyacharya, A.I.A.V. Delhi, 1972	6992 7-5-79	205, Sarvodaya Commercial Center Near G.P.O., Salapas Road, At A'bad.
2512.	Hayshri Popat Purshottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4748 7-4-75	3, Jagdish Smruti, Opp. Sarvajaik High School, Nanpura, Surat.
2513.	Hema Dave Hemangbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9078 29-6-84	C/o Hemang C. Dave, 41, H. L. Bhai Park, Gita Mandir Road, A'bad
2514.	Hema Joshi Mahendra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9330 9-8-85	15/Vandana Society, Opp: Tanki, Adajan Road, At: Surat. Tal: Choryasi, Dist: Surat.
2515.	Hema Trivedi Niranjanbhai	M.D. Ay., Gujarat Ay. Univ., 1977	6055 8-3-78	4, New Prerana Society, Juhapura Sarkho Road, A'bad.
2516.	Hatibhai Bhavnbhai	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1947	7161 2-8-79	At. UMBER, Tal. Jambusar, Distt. Broach.
2517.	Hema Vyas Jaykishor	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8758 11-5-83	809, Rushiraj Apptt., Diwalibag, Athavagate, At. Surat-305 001.
2518.	Hemaben Dhaduk Vallabhbbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6339 4-10-78	C/o Dr. V.M. Dhaduk, Kadi-Road, Junagadh.
2519.	Hemaben Mehta Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5176 18-2-76	1218/1, Mahadevvala's Khancha Laxminarayan's Pole, Raja Mehta's Pole, Kalupur, A'bad.
2520.	Hemchandrabhai Sheth Tribhovandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6932 17-4-79	C/o Dr. T.D. Sheth, At. Kayavar- ohan, Tal Dabhoi, Dist. Baroda
2521.	Hemangini Joshi Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4931 13-8-75	Bajvada, Samadi Pole, At. Baroda.
2522.	Hemangini Kansara Rashmikant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7671 18-4-80	872, Mahajan wade, Mandavi's Pole, A'bad.
2523.	Hemangini Mankad Bhujangilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3856 8-3-73	C/o B.N. Mankad, Opp. Mota Dahela, Sheri Nagar, Chakala, At Bhuj Kutch.
2524.	Hemangini Purohit Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3321 29-1-72	C/o Kantilal B. Purohit, At Pansira, Tal Limbadi, Distt. Surendernagar.
2525.	Hemanaini Shan Kirish	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1965	9306 6-6-85	B/53, Citizen Co., Opp. Society, Near Atmajyoti Ashram, At. Baroda-390 007.
2526.	Hemangiri Gadiwala Thakorlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8862 1-11-83	5, Suryasadam, Besant Hall, Surat- 395 003.
2527.	Hemangiri Vimavala Champaklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3442 14-3-72	Gopipura Kayatha Mohalla, Kaka- davalas Khancha, Surat.
2528.	Hemanshika Joshi Anilkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5709 4-3-77	8-B, Tushar Society, Nava Chhani Road, Nizampura, Baroda.
2529.	Hemant Dave Ramakant	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	3978 25-7-73	C/o Ramakant V. Vaidya, 2, Mani- nagar Society, At Savarkundala, Distt. Bhavnagar.

1	2	3	4	5
2530.	Hemant Joshi Narendrabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8652 10-2-83	Dabhoiya Pole, Wadi, At. Baroda.
2531.	Hemant Rana Sanmukhalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7838 30-9-80	159, Shaktinagar Hou. Society, Old Sindhvai Road, At Broach.
2532.	Hemant Shastri Madhukant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9199 30-1-85	Vasantkui, Near Muni Hospital, Dist. Kheda.
2533.	Hemantika Patel Hasmukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	6057 8-3-78	C/o Anilkumar Kanubhai Patel, Daravaja's, At Asodar, Tal Borsad, Distt. Kheda.
2534.	Hemantilal Chauyan Chakubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7205 24-8-79	At. Vaghavi, Tal. & Distt. Junagadh.
2535.	Hemantkumar Vaidya Madhubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4222 21-2-74	Dalapatel's Pole, Opp Patava Press At Baroda.
2536.	Hemantkumar Bhatt Devshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3615 19-9-72	At Bahedurpur Tal Sankheda Distt. Baroda.
2537.	Hemantkumar Bhatt Jashavantra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4084 8-10-73	Mota Sheri Bhatt's Doli, At Bhav- nagar.
2538.	Hemantkumar Bhatt Durgashabker	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9066 15-6-84	C/o Pro. Sukla N.G. A-3, Staff Quar. College Campus, At. Modasa Distt. S.K.
2539.	Hemantkumar Joshi Manoharlal	B.A.M.S., Vikram Univ., 1975	7254 5-9-79	Rajbhavan Nimvadi, At. Sajapur, (M.P.)
2540.	Hemantkumar Mehta Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8352 11-3-82	C/o Chimanlal Nanabhai Mehta, 12/189, Ramaji Nivas, Patava Shari, Rani Ralay, Surat-395003
2541.	Hemantkumar Munshi Navnitlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1952	947 1-8-52	At Sukhsar, Tal. Santrampur, Dist. Panchmahal.
2542.	Hemantkumar Shah Babulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8227 24-11-81	A/o Babulal H. Shah, St. Road, Mota Miya, Mangrol, Dist. Surat.
2543.	Hemant Kumar Shukla Champaklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7624 20-3-80	At & Post Vafad, Tal. Bardoli, Dist. Surat.
2544.	Hemant Kumar Pandya Arvindkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7572 1-3-80	At. Sansoli, Tal. Kalol, Dist. Panchmahal.
2545.	Hemantkumar Vora Kanitlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course Gujarat, 1966	2363 10-1-67	Nagarsheth's Sheri, AT & Tal. Botad, Distt. Bhavnagar.
2546.	Hemandrakumar Vyas Shivprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4730 5-4-75	35, Vyasvila, Jagabhai park Society Kankarit, A'bad.
2547.	Hemantilal Mehta Maganlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1965	1700 15-6-65	Medaresa Quaters, Vanthali Dist. Junagadh.
2548.	Hemendra Acharya Pratapral	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1964	1457 29-6-64	At. Sumapada, Via Veraval, Dist. Junagadh.
2549.	Hemendra Randani Mangalprasad	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1963	32 24-12-64	Kaystha Ambali-Joravarsingh's Bunglo, Jamnagar.
2550.	Hemendrakumar Khamar Thakorlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5227 1-3-76	1076, Jamalpur Pagthiya, Salavi- pole A'bad.
2551.	Hemil Zaveri Darasha	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9108 31-7-84	At. & post Rohina, Via Udavada, Tal. Pardi, Dist. Valsad.
2552.	Hemlata Desai Ishwarlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9431 2-12-85	6/Ma-Darshan Apartment, Ambaji Road, At. Surat.

1	2	3	4	5
2553.	Hemlatta Gopiyani Jatashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7120 16-7-79	Rajgor Fali, Vakil Khancha, At. Jamnagar.
2554.	Hemlatta Patel Mathubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7630 20-3-80	At. & Post Marthana, Tal. Nabipur, Distt. Broach.
2555.	Hemlatta Patel Pranodhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7927 29-12-80	At. Sampura, Tal. Kamraj, Distt. Surat.
2556.	Hemlatta Patel Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8309 5-2-82	At. & Post Mandani, Via Vapi, Dadaranagar, Haveli.
2557.	Hemlatta Oza Karunashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4576 20-11-74	C/o Gangani B.J., 65, Samarpan Society, Adajan Road, Surat.
2558.	Hemlatta Vyas Anand Kumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3784 15-2-73	C/2, Sardarkunj Society, Bhai Center, Shehpur, Abad.
2559.	Hemlatta Vyas Vadilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8427 1-5-82	29, Anandnagar Society, Bar- doli, Distt. Surat.
2560.	Hemlataben Vansadiya Vijaysinhji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4483 3-9-74	C/o Barad Motisinhji A., At. Antroli, Tal. Palsana, Distt. Surat.
2561.	Hemnalini Acharya Bharatkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4798 24-4-75	28, Jalaram Kutir, Near Com- merce College, At. Bhavnagar.
2562.	Himakumar Shah Nilaya Kumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6825 22-3-79	Gandhigate Road, Nav. Pole, Radhanivas, 3rd Floor, Baroda.
2563.	Himantsinh Rayjada Kiritsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7614 18-3-80	Shri Satya Sai Nivas, Near Khodiyar Temple, At. Jamnagar
2564.	Himanshu Bhatt Basharathlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5533 20-9-76	797, Radhavallabh's Khanch, Bhau's Pole, Raipur, A'bad.
2565.	Himansu Dalal Pravinkant	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8976 12-3-84	804, Rajeshwar Appart., Athu- gar Mahollo, Nanpura, At. Surat-395 001.
2566.	Himanshu Ray Ramchodhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4902 26-6-75	At Mota Karala, Tal. Sihor, Distt. Bhavnagar.
2567.	Himmatlal Acharya Bhanushankar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	3203 5-7-71	C/o Kanubhai B. Acharya Hemkunj, Vadava, Pachariya- vadi, Panvadi Road, Bhavnagar.
2568.	Himmatlal Dave Harjivandas	Ayurveda Bhashak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1957	7293 20-9-79	Shri Ramrupa Arogya Bham Prempara, At. & Tal. Dhari Dist. Amreli.
2569.	Himmatlal Hirpara Mulajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	5039 13-11-75	At Raipur (Sorath), Tal. Bhesan, Distt. Junagadh.
2570.	Himmatlal Joshi Vithhalji	Ayurved Visharad, M.S. University Baroda 1943	1943 22-1-43	Post Ankadiamota, Tal & Distt. Amreli.
2571.	Himmatlal Joshi Harilal	Ayurveda Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1976	6789 21-3-79	Joshi Dispensary Near Post Office, At. Bhachan, Distt. Kutch.

1	2	3	4	5
2572.	Himmatlal Mehta Girdharlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2892 2-2-70	A-8, New Mental Govt. Officer's Colony, Meghananagar, A'bad.
2573.	Himmatlal Mehta Ramaji	Vaidyacharya, A.I.A.V., Delhi 1965	7197 17-8-79	At. Agatrai, Via. Keshod, Distt. Junagadh.
2574.	Himmatlal Purohit Narsilal	D.A.M., U.P. Ayurved Maha. Patan 1940	2636 6-5-40	Pandya Pole, At. Mahendabad, Distt. Kheda.
2575.	Himmatlal Shah Laherchand	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1963	1248 15-10-63	Prabhudas Thakkar, College Bus Stand, Narayanagar Road, Paldi, Ahmedabad.
2576.	Himmatlal Solanki Laxmanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3029 14-8-70	Near Arya Ganj Mandir, At Tankara, Tal. Morbi, Distt. Rajkot.
2577.	Himmatlal Thanki Jivanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4143 28-12-73	Thankikutir, Chhaya Plot Sheri No. 2, At Porbandar, Distt. Junagadh.
2578.	Himmatlal Trivedi Ravishanker	A.V.V., T.M. Vidyapeeth, Poona 1943	334 29-2-44	Jaluchowk, At Shihor, Distt., Mehasana.
2579.	Himmatlal Trivedi Keshavlal	Ayurved Visharad, Board of Indian Medicine Saurashtra 1958	2247 15-3-58	Sarvodaya Society, Block No. 6, At. Palitana, Distt. Bhavnagar
2580.	Himmatlal Vora Shanti	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3584 7-7-72	At. Amrutvel, P.O. Dundas, Via Dungar-Jn., Distt. Bhav- nagar.
2581.	Himatram Agarwat Magandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5405 25-5-76	At. Mota Devaliya, Via Luni- dhar Station, Tal. Babar, Distt. Amreli.
2582.	Hina Joshi Jitendra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9070 15-6-84	Jilla-Panchayat Quar., Dharam pur Road, At. Valsad, Dist. Valsad.
2583.	Hina Pathak Manubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9402 19-10-85	Moti Tamboliwad, Lakkad, Pitha Road, Postman's House, At. Baroda.
2584.	Hina Trivedi Anilkumar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9625 21-11-86	24, Jesingbhai Park, Mani- nagar, A'bad-8.
2585.	Hirabhai Patel Haribhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3420 7-3-72	84, Hariprakash Society, Behind Kunarshala, Naroda A'bad.
2586.	Hirabhai Sheta Jesingbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4366 3-5-74	At. Bhalusana, Tal. Kheralu, Distt. Mehsana.
2587.	Hirabhai Sheta Becharbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5060 28-11-75	At. Trapaj, Tal. Talaja, Distt. Bhavnagar.
2588.	Hiraben Joshi Jatashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8914 24-1-84	Digvijay Plot, Sheri No. 56, Near Virani Mension, Behind Jethva Kushing Works, At. Jamnagar.
2589.	Hiragar Meghanathi Savaigar	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	6909 16-4-79	At. Mahobatpur, Tal. Vanthali, Distt. Junagadh.
2590.	Hiraji Gondaliya Ukabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2960 3-6-70	At. Khirasara Ghed, Via Keshod, Distt. Junagadh.

1	2	3	4	5
2591.	Hiraji Gondaliya Mohan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7173 7-8-79	At. Khirsar (Shed), Tal. Keshod Distt. Junagadh.
2592.	Hirajibhai Godhani Ravjibhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	164 1-11-55	"Hemang Darshan", At. Pal- tiana, Dist. Bhavnagar.
2593.	Hiralal Vaidya Ramanlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1953	1063 1-12-53	Narsinh's Pole, Dalapatel's Mohambhuvan, At. Baroda.
2594.	Hiralal Bhatt Manishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2802 28-7-69	Mahendrapara, Opp. Ist Brahman Line, At. Morbi, Distt. Rajkot.
2595.	Hiralal Dave Dalasukhbhai	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6486 1-2-79	Govt. Vasahat E. Colony, B. No. 79, Room No. 300, Opp. Ambar Cinema, Sarespur, A'bad.
2596.	Hiralal Giyona Anandbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3079 13-1-71	At. Supedi, Tal. Dhoraji, Distt. Rajkot.
2597.	Hiralal Jalela Dhanajibhai	Ayurved Madhyama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda, 1978	7124 17-7-79	At. Devgana, Tal. Shihor, Distt. Bhavnagar.
2598.	Hiralal Patel Madhavlal	A. V. V., T. M. Vidyapeeth, Poona, 1942	663 28-4-44	Near Post Office, At. & Tal. Kalol, Distt. Mehsana.
2599.	Hiralal Ukabhai	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2153 25-8-66	Ayu Dispensary, At. Datran, Tal Mendarada, Distt. Junagadh.
2600.	Hiralal Shah Bapuchand	A. V. V., T. M. Vidyapeeth, Poona, 1943	1265 31-7-48	At. Raval Gam, Tal. Malegam Distt. Nasik, Maharashtra.
2601.	Hiralal Surani Gordhandas	Ayurved Visharad, Board of I. M., Saurashtra, 1960	2232 22-3-61	Durlabh Farmacia, At. Por- bandar, Distt. Junagadh.
2602.	Hiralal Tanna Karamshibhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1959	289 2-9-59	At. Harij, Distt. Mehsana.
2603.	Hiralal Thakkar Murarji	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1967	2583 12-9-67	Mitra Nivas, Near General Hospital At. Bhuj Kutch.
2604.	Hiralal Vaghela Ramjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3267 25-10-77	At. Parnala, Tal. Limhadi, Distt. Surandranagar.
2605.	Hiralal Vyas Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3101 2-2-71	At. Kheridhari Chal, Tal Chansma, Distt. Mehsana.
2606.	Hiranya Vaishnav Pranjivan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5003 20-10-75	Guj. Hou. Board. Tornment 82, Maruthi, Lalpuri Talav, At. Rajkot.
2607.	Hirem Chauhan Mohanlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8901 24-1-84	Darbagadh Chowk, Sheth Sheri, At. Upleta, 360 490.
2608.	Hirenkumar Desai Jashavantlal	Ayurveda Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, 1978	6792 21-3-79	B-1, Ambika Appt., Navabhai Road, Near Ayi-Besant Hall, Surat-3.

1	2	3	4	5
2609.	Hirenkumar Mehta Vinodchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6826 22-3-79	Lokpriya Dispensary, At. Jotana, Tal. & Distt. Mehsana.
2610.	Hirubhai Desai Madhavsinh	G.F.A.M., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1963	445 12-6-63	Bazar's At. Patadi, Tal. Dasada, Distt. Surendernagar.
2611.	Hirubhai Patel Zaverbhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1955	662 2-4-56	At. Padara, Distt. Baroda.
2612.	Hirubhai Patel Kuberbhai	H.P.A., P. G.T. Centre in Ay., Jamnagar, 1962	664 28-9-62	Punarvasu Clinic, Maimandir, Road, At. Nandlad.
2613.	Hitendra Desai Gulabhabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8766 11-5-83	At. & Post Bagvada, Via Udavada, Distt. Valsad.
2614.	Hitendra Gohil Parshottambhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8937 17-2-84	50, Saurashtra V. Vibhag-2, Near Manekargarh bag, A'bad- 15.
2615.	Hitendra Joshi Chunilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9075 29-6-84	At. Magarvada, Tal. Vadgam, Distt. B. K.
2616.	Hitesh Jani Pramodkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8876 1-12-83	E. S. I. D. 37, C/7, Staff Quar- ters, Kankariya, A'bad-22.
2617.	Hiteshbhai Bhupani Vrujlal	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat, 1968	2699 19-9-68	A/6, Naheru Vasahat, At. Mahuva, Distt. Bhavnagar.
2618.	Hukamsinh Bishta Umaravsinh	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1967	7087 6-7-79	Near Railway St., At/Shahpur, (Sorath), Distt. Junagadh.
2619.	Hitendrasingh Varashhiya Jaysinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6434 2-12-78	At. & Post Daheli, Tal Valia, Distt. Broach.
2620.	Hummatlal Sodha Devahand	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1963	6778 21-3-79	At. Rayadi, Tal. Jamkundo- rana, Distt. Rajkot.
2621.	Huseni Lokhandwala Abdullabhai	Ayurved Madhyama, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1978	8835 1-9-83	4/707, Moti Vahorwad, At. Dholaka, Distt. A'bad.
2622.	Ibrahlm Tank Sulemanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3090 13-1-71	At Zinzri, Post Sardargadh, Distt. Junagadh.
2623.	Idarishbhai Mansuri Pirmahmad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5718 4-3-77	At Lunaya, Tal Kheralu, Distt. Mehsana.
2624.	Ikabal Patel Hasan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8354 11-3-82	Mota Chakala, At & Post Kavi, Tal. Jambusar, Dist. Broach.
2625.	Ikbalhusen Roshanali	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5536 23-9-76	Behind Station, At Samani, Tal Amod, Distt. Broach.
2626.	Ikabalhusen Manasuri Fakirmahamad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6262 2-9-78	At Sundarpur, Post Sardarpur, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.

1	2	3	4	5
2627.	Ikbalhusen Nair Fasalhusen	B.A.M.S., Vikram Vishwavidyalaya, Ujjain 1976	6509 1-2-79	101, Narmad Mard, At Barvaka, At Khargone-451001.
2628.	Ila Jani Shivnarayan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4367 3-5-74	C/o S.H. Jani, Shrijinivas, Danapith Society, At Junagadh.
2629.	Ila Joshi Mahashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4096 17-10-73	Behind Datt Temple, Babunivas, At Sarkhej, Distt. A'bad.
2630.	Ila Sanghavi Uttamchand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	6982 7-5-79	At Kidiya Nagar, Tal Rapar, Via Lakadia, Dist. Kutch.
2631.	Ila Shah Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	4183 11-2-74	429/2, Limada Pole, Ravpura, Baroda.
2632.	Ila Shah Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5147 2-2-76	19, Anandnagar Society, Sar- khej road, A'bad.
2633.	Ila Shah Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5877 8-9-77	9, Pragati Society, Bhairavantha Road, Kankaria, A'bad.
2634.	Ila Trivedi Narendraprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5177 18-2-76	D-3, Anand App., Vasana, A'bad.
2635.	Ila Vyas Madanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8791 16-6-83	Near Daherasar, At. & Post Karcheliya, Via Bardoli, Dist. Surat.
2636.	Ilaban Vaidya Shantaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5996 19-12-77	B, 85, Kalpana Society, Rander Road, Surat-1.
2637.	Ilaben Vaidya Navinchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5123 15-1-76	Haripura, Ramnath Mahadev Sheri, Surat.
2638.	Ilaben Modi Mahedrakumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5264 9-3-76	14, Dharmanagar Society, Near Bank of Baroda, Sabarmati A'bad.
2639.	Ilaben Patel Savailal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	7164 2-8-79	7, Kamalnayan Society, Opp High Court, A'bad
2640.	Ilaben Patel Shanabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	8050 27-4-81	At & Post Manjalpur, 22, Shan- karbag Society, Tal. & Dist. Baroda
2641.	Ilaben Patel Natvarlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9215 19-2-85	A-2, P.V.D. Quar., Opp. Post Office, Nanpura, At. Surat. Tal. Choryasi, Dist. Surat.
2642.	Ilaben Upadhyay Jayshankar	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1659 17-5-65	C/o Ratilal, B. Parikh, New Pole Gandi-gate Road, Baroda.
2643.	Ilaben Vashi Dolatray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4498 9-9-74	Balaji Road, Behind Indu Bhuvan, At Surat.
2644.	Iladevi Thakarar Verulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4651 12-3-75	C/o Rajani Palan, 14, Raghuvir- para, Rajkot.
2645.	Ileshkumar Joshi Dasharathlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6404 10-11-78	22, Gandhi Park Society, Mani- nagar, A'bad.

1	2	3	4	5
2646.	Imtiaz Pathan Abdul	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9158 17-10-84	Kalavad Gait Road, Khatrivad, At. Jamnagar.
2647.	Inaxi Dhebar Indulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	2920 7-3-70	C/o I.K. Dhebar, Advocate, At Jankhambhalia, Distt. Jamnagar.
2648.	Inayathusen Kapasi Najumddin	B.A.M.S., Indore Univ. 1974	5534 20-9-76	At bhadrod, Tal Mahuva, Distt Bhavnagar.
2649.	Indira Barot Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3791 16-2-73	2370/6, Raipur, Bangala's Pole, A'bad.
2650.	Indira Bhavsar Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4274 20-3-94	94, Sarvodayanagar, Outside Shahpur-Gate, A'bad.
2651.	Indira Mistry Jethalal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1967	2508 16-6-67	A-20/670, Ranjitnagar, Jamnagar
2652.	Indira Pandya Chandulal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9021 16-4-84	Girdhar Bhuvan, Near Juna Bahucharmata, Gita-Mandir Road, A'bad.
2653.	Indira Patel Jorabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6822 22-3-79	At Chhatral, Tal. Kalol, Dist. Mehsana.
2654.	Indira Patel Madhubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6974 7-5-79	5, Nishita Aptt., Behind Paradise Park, Behind Gohil Nivas, Shantinagar, A'bad.
2655.	Indira Patel Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8457 15-6-82	At & Post Laxmipura, Tal. Ba- yad, Dist. Sabarkantha.
2656.	Indira Patel Balubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	9498 12-5-86	At & P.O. Limzar, Tal. and Distt. Valsad.
2657.	Indira Bhatt Chandrakant	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	711 1-11-56	At Bhatava, Tal Manavandar, Distt. Junagadh.
2658.	Indiraben Goswami Jethapuri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7649 28-3-80	Kayastha Falia, Near Mota Mandir At Jambusar, Dist. Broach.
2659.	Indiraben Patel Prainjivandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	2862 6-12-69	C/o Patel P.M. No. 6, "Ghiv- krupa" 3rd Floor, Ravpura Tower, Baroda.
2660.	Indiraben Patel Marivadanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	7519 15-2-80	At & Post Ambav, Tal. Borsad, Dist. Kheda.
2661.	Indiraben Upadhyay Jayantilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1962	2151 25-8-66	Mahatma Gandhi Smarak Hos- pital, Surendranagar.
2662.	Indivar Shah Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7428 12-12-79	C/o Dr. G.K. Shah, At Vadali, Dist. Sabarkantha.
2663.	Indrajit Vaidya Bhaskarrao	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1960	1544 1-7-60	Bhaidas Mehta's Sheri, Sagram- pura, Surat.
2664.	Indrasinh Padhiar Amarsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8129 4-8-81	At Mota Kalodara, Tal. Kham- bhat, Dist. Kheda.

1	2	3	4	5
2665.	Indrasinh Rana Mangalsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8339 27-2-82	Station Road, At Chuda, Tal. Limbadi, Dist. Surendranagar.
2666.	Indrasinh Thakor Hanumansinh	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1980	8794 16-6-83	At. & Post Dhej, Tal. Chikhali, Dist. Valsad.
2667.	Indrasinh Zala Pravinsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3093 13-1-71	At Methan, Via Rajsitapur, Distt. Surendernagar.
2668.	Indravadan Vaidya Chhotalal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	1019 23-11-62	Opp. Balbhavan, Civil Hospital Road, Jahagirpura, Ahmedabad.
2669.	Indravadan Vaidya Mangalal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1965	2009 20-4-66	Nani Desaj Pole, Soni Falia, Surat-1.
2670.	Indravadan Vaidya Manibhai	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6514 1-2-79	Ramnivas, Behind Swastik Cinema, At Anand, Dist. Kheda.
2671.	Indravadan Amin Manubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8684 3-3-83	Saibaba Bhuvan, At. Uttar Sanda, Tal. Nadiad, Dist. Kheda-387370.
2672.	Indravandan Jani Mulshanker	Ayurved Visharad Board of I.M. Saurashtra 1960	2219 17-6-60	Govt. Ayu. Dispensary, At. Bhanduri, Tal. Malishatina, Distt. Junagadh.
2673.	Indravadan Bhatt Somnath	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1958	2106 1-7-58	Ranohhodji's Temple, At Matar, Distt. Kheda.
2674.	Indravadan Dave Nanalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1950	2458 31-7-50	At Bakor, Tal. Lunavada, Distt. Panchmahal.
2675.	Indravadan Dave Kantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9160 17-10-84	Block No. 4, College Society, At. Surendranagar.
2676.	Indravadan Desai Thakorlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1963	2439 23-3-67	At & Post Maroli Bazae, Kas- turba Sevashran Mental, Hos- pital, Distt. Valsad.
2677.	Indravadan Devmurari Jaduran	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3221 9-8-71	At Paliyad, Tal. Botad, Distt. Bhavnagar.
2678.	Indravadan Mehta Manubhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1963	894 31-5-63	Manusmutti, Near Vishwabandhu Society, Opp. Atmadarshan Society, Bhattha, Ahmedabad-7.
2679.	Indravadan Parekh Vitthaladas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1962	710 25-6-62	Bhutdi Zapa, J.P. Pandit House, At Baroda.
2680.	Indravadan Patel Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4295 27-3-74	Suthar's Khadaki, At Uttaren- sandar, Distt. Kheda.
2681.	Indravadan Patel Ambubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6195 15-7-78	At Rajbedoli, Post Kesindra, Tal. Jetpur Pavi, Distt. Baroda.
2682.	Indravadan Patel Narsinhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6347 4-10-78	At & Post Vadeli, Tal. San- kheda, Dist. Baroda.
2863.	Indravadan Patel Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	9179 11-12-84	1696, Limadivad, Navrang Gam, Ad'ad-9.

1	2	3	4	5
2684.	Indravadan Purohit Shambhu shanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	8788 22-4-80	At. Bhamalej, Tal. Vcraval Distt. Junagadh.
2685.	Indravadan Raval Manishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	6182 15-6-78	At Sarval, Tal. Dhangadhia, Distt. Surendernagar.
2686.	Indravadan Soni Ratilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9427 2-12-85	C/o Soni Ratilal D., 3/Dal- jitnagar Opp. Naiknagar, At & P.O. Idar, Dist. S.K.
2687.	Indu Surati Amrutlal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1965	1857 30-11-65	"Ashish" Anandpura, Baroda-1.
2688.	Induben Desai Kantilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	387 2-4-56	Dr. M.D. Desai, Daru Mahollo, At Valsad.
2689.	Induben Raval Gangaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5540 28-9-76	C/o D.R. Raval, Govt. Higher Secondary School, At Pinji- vada, Distt. Shirohi (Raj.).
2690.	Induben Vynd Arvindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2952 16-4-70	At Abarama, Tal Navasari, Distt. Valsad.
2691.	Indukumar Makanram	Ayurved Bhishak, A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1947	8961 12-3-84	At & Post Khanpur, Tal. Kam- rej, Dist. Surat.
2692.	Indulal Bhatt Damshanker	Ayurved Bhishak, A.I.A.V., Delhi, 1941	6817 22-3-79	Dantiyavali Sheri, Karchalia, Para, Near Police Gate, Ranika, At Bhavnagar.
2693.	Indumati Bharthaniya Jamolsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7690 25-4-80	At. Boridra (Kondh), Tal. Mangarol, Dist. Surat.
2694.	Indumati Joshi Dalasukhrai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1953	212 1-2-55	6, Goradhannagar, Opp. Dhor- bazar, Ahmedabad.
2695.	Indumati Mishtri Ukabhai	D.S.A.C., CS Ay. Course, Gujarat 1966	1949 3-3-66	Shri Pandya Khadi Karyalaya, At. Chala, Distt. Amreli.
2696.	Indumati Patel Kashinath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3800 19-2-73	At. Palasvedi, Post Nanda Kheda, Tal. Shahada, Dist ^r Dhulia.
2697.	Indumati Pithadiya Narandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4395 31-5-74	C/o R.N. Pithadiya 2/30, Govt. Colony, Dariakahn Ghummat, Shaibag, A'bad.
2698.	Indumati Thakkar Narsinhdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4284 25-3-74	At. Adesar, Tal. Rapat, Distt. Kutch.
2699.	Indumatiben Kharadi Jivabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8506 27-8-82	19, Desh Porvad Society, Paladi, A'bad.
2700.	Induprasad Joshi Dhirajlal	A.V.V., T.M. Vidyapeeth, Poona 1943	2827	Pathak Falia, At. Kakanpur Tal. Godhara, Distt. Panch- mahal.
2701.	Induprasad Pandya Madhusudan	Ayurved Madhyama SD Pariksha Samiti, Baroda 1974	7192 17-8-79	Bajvada, Samadhi Pole, At. Baroda.
2702.	Inusbhai Vora Ibrahimbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8559 16-9-82	At. Pipalag, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.

1	2	3	4	5
2703.	Ishabala Dave Padmashanker	Ayurved Madhyama, SD Pariksha Samiti, Baroda 1977	7770 17-7-80	A-9-4, Godaverinagar, Flat, Vasana, A'bad.
2704.	Ishwardas Bhavsar Bhagchand	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, Maharashtra 1964	4342 16-4-74	Savashram, 1st Floor, Liberty Garden, Malad, Bombay-64.
2705.	Ishwarbhai Patel Ranchhodbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9445 23-12-85	At. Virpur-383230, Tal. Idar, Distt. S.K.
2706.	Ishwarbhai Bhaskar Naribhai	Ayurved Uttama, SD, Pariksha Samiti, Baroda 1976	6572 16-2-79	8, Uttara Co-Hou.Society, Near Karija Ashram, A'bad.
2707.	Ishwarbhai Chahan Purushottambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3603 15-9-72	At. Karma, Tal. Dabhoi, Distt. Baroda.
2708.	Ishwarbhai Dalvadi Jagjivandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5198 25-2-76	Ganeshnivas, Kumbharvada, Post Fathapura, Baroda-6.
2709.	Ishwarbhai Limbashiya Ramabhai	Ayurved Madhyama, SD Pariksha Samiti, Baroda 1976	6541 12-2-79	At. Ambaliyagan, Station Road, Tal & Distt. Mehansa.
2710.	Ishwarbhai Parmar Naranbhai	Ayurved Bhishak, AIAV, Delhi 1963	7082 5-7-79	At Sitapur (Pansara), Post Jali- ya, Tal. Gariyadhar, Dist. Bhav- nagar.
2711.	Ishwarbhai Patel Bhailalbhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1960	501 5-12-61	31/B, Madhukunj Society, Near Keshivishwanath Mahadev Maninagar, A'bad.
2712.	Ishwarbhai Patel Jeshigbhai	D.S.A.C., CS Ay. Course, Gujarat 1962	502 28-11-62	At. Moti Korai, Tal. Karjan, Distt. Baroda.
2713.	Ishwarlal Patel Mahijibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4788 21-4-75	At Vadu, Tal. Padara, Distt. Baroda.
2714.	Ishwarbhai Patel Keshavbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5955 4-11-77	At. Mota Varachha, Tal. Cho- rayasi, Distt. Surat.
2715.	Ishwarbhai Prajapati Dhulajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5073 15-12-75	At. Ratanpur, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
2716.	Ishwarbhai Patel Ambalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	500 3-9-54	At. Chikhodara, Tal. Anand, Distt. Kheda.
2717.	Ishwarbharthi Gosai Kailashbharthi	B.S.A.M.- Gujarat Ay. Univ., 1972	4142 28-12-73	575, Bava's Dala, Holi Cha- kala, Gomati Pur, A'bad.
2718.	Ishwardatt Desai Dahyabhai	Ayurved Madhyama, SD Pariksha Samiti, Baroda 1933 L.A.M., U.P. Ay. Maha., Patan 1934	389 11-10-40	Nagar Kuva, At Potlad, Distt. Kheda-
2719.	Ishwarlal Bosamiya Jethalal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1979	9037 10-5-84	Champaklal Daraji's House, Vadava, Near Khandava Kuva At, Bhavnagar.
2720.	Ishwarlal Dekavadiya Narandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5074 15-12-75	At Mota Ankevadia, Tal. Dhan- gdhra, Distt. Surendranagar.

1	2	3	4	5
2721.	Ishwarlal Desai Ranchhodji	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1959	2380 2-1-59	C/o Parvatiben Hospital, Somnath Road., At. Bilimora, Distt. Valsad.
2722.	Ishwarlal Gaudani Bahecharbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6348 4-10-78	At & Post Bundas, Tal. Mahuva, Distt. Bhavnagar.
2723	Ishwarlal Godhavi Karshanbhai	Ayurved Bhashak, AIAV, Delhi, 1973	7108 13-7-79	Near Nagarpalika, At & Port Hariji, Distt. Mehsana.
2724.	Ishwarlal Kapadiya Shivlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1958	99 2-1-59	Indarpura, Khagivad, At. Surat
2725.	Ishwarlal Nayak Paragji	D.A.S.F., Fac. of A.U.S.M. Bombay 1955	470 3-1-55	At. Moldhera, Tal. Navsari, Distt. Valsad.
2726.	Ishwarlal Pandya Devajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3819 26-2-73	At. Vaghela, Tal. Div., Distt. Junagadh.
2727.	Ishwarlal Perekh Manshukhlal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6481 1-2-79	Sabubhavan Road, No. 3, Udhanaagar, At. Udhana, Tal. Choryasi, Distt. Surat.
2728	Ishwarlal Patel Dahyabhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1965	1792	At. & Post Kamalchhod, Via Madhi, Distt. Surat.
2729.	Ishwarlal Patel Gangaram	G.F.A.M., Fac. AUSM, Gujarat 1963	2475 3-5-67	Medical Officer, At. Vedach, Tal. Palanpur, Distt. Banskantha.
2730	Ishwarlal Patel Mahanbhai	B.S.A.M., Gujrat Ay. Univ., 1968	2855 27-10-69	At Mithapr, Via Lushala Post Khanapipali, Tal. Mendarada, Distt. Junagagh.
2731.	Ishwarlal Patel Ugardas	B.S.A.M. Gujrat Ay. Univ., 1972	4017 24-8-73	At. Kani, Tal. Patan, Distt. Mehsana.
2732.	Ishwarlal Patel Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4378 20-5-74	At. Babipura, Post Hashaka, Tal. Kheralu, Distt. Mehsana.
2733.	Ishwarlal Patel Bhavanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6038 16-2-78	At. Kamroll, Tal. Olpad, Distt. Surat.
2734.	Ishwarlal Patel Ambalal	Vaidyavisharad, AIAV, Delhi 1973	7238 30-8-79	At. Savali, Tal. Tilakvada, Distt. Baroda.
2735.	Ishwarlal Santoki Prabhudas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3306 5-1-72	At. Gujarvadi Tal. Dhangdhara Distt. Surendernagar
2736.	Ishwarlal Suthar Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4029 30-8-73	At. Sardarpur, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana
2737.	Ishwarlal Thakkar Devram	B.A.M.S., Univ., of Gujarat 1967	2710 19-11-68	At. Varahi, Distt. Banaskantha.
2738.	Ishwarlal Dhabuwala Manubhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	338 1-12-55	16, Morarji Mill Estate, Opp. Bharat Mata Cinema, Lal Bag, Bombay.
2739.	Ismail Theba Morubhai	Vaidya Charya, A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	6584 16-2-79	1, Jayraj Plot, Thiba Hou., At. Rajkot.

1	2	3	4	5
2740.	Ismailbhai Bhatt Abdulbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6188 5-7-78	At & Post Gadhi, Via Jadar, Tal. Himmatnagar, Dist. Sabar- kantha.
2741.	Ismailbhai Mansuri Abdulbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8110 2-7-81	At. & Post Chada, Tal. Kheralu, Distt. Mehsana.
2742.	Iqbal Mansuri Ibrahim	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5687 24-2-77	5/1/C, Asiyana Appat., Narayan Nagar Road, Paladi, A'bad.
2743.	Jadavji Javiya Jivraj	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4430 18-7-74	At Mahobatpur, Via Lushala, Tal. Vanthali, Distt. Junagadh.
2744.	Jadavbhai Chochu Jivabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9350 21-8-85	Sector 16, Block 105/1, Chh, At. Gandhinagar-382 016.
2745.	Jivabhai Dhori Prshootambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5810 24-5-77	2/1448, Sagrampura, Desaisheri Naka, Patel Chh. Surat-2.
2746.	Jafar Marachant Bakarali	B.I.M.S., Board of AUSM, Delhi Admn., 1963	1341 13-11-63	The Fateh Pharmacy, Pratap- nagar, Baroda-4.
2747.	Jagdip Purohit Deveshkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8735 19-4-83	C/o Dr. H.M Bhatt, 3/677, Karava Road, Navapura, Surat-395 003.
2748.	Jagannatha Joshi Syamjibhai	D.A.S.F., Fac. of A.U.S.M., Bombay 1956	224 1-8-56	Mahadevprasad Aushadhalaya, Sheri No. 3, Rajaputpara, Rajkot.
2749.	Jagannath Shrikhande Ramchandra	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1946	1296 1-12-47	Tabibi Rahat Mandal, At & Distt. Surendranagar.
2750.	Jagdipkumar Shukla Vasantray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7691 29-4-80	Vasant Nivas, Old Society, At. Limbadi Dist. Surendranagar.
2751.	Jagdipsinh Solanki Pratapsinh	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9466 11-7-86	At. PO. Olpad 394540, Tal. Olpad, Distt. Surat.
2752.	Jagdish Bhanej Balkrishna	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1966	2276 25-11-66	1, Parotosh Society, Ajva Road, Baroda.
2753.	Jagdish Bhatt Namadshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7328 15-10-79	B. No. 4, Kamalesh Society Qdhev Road, Rajendrapark, Stand. A'bad.
2754.	Jagdish Bhutak Laxman	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4188 12-2-74	C/o Bhutak L.S., At. Bagata, Talo Kukavav, Distt. Amreli.
2755.	Jagdish Laheru Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5529 17-9-76	Jerem Nivad, Bedi Gate Road, Rajkot.
2756.	Jagdish Mehta Bhishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3108 5-2-71	Plot No. 1019, Devkunj, Krish- nanagar, Bhavnagar.
2757.	Jagdish Patel Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5131 23-1-76	At. Timbarva, Tal. Sinor, Distt. Baroda.
2758.	Jagdish Patel Rojaram	B.A.I.H.M.S., Indore Univ., 1976	6419 18-11-78	At. Pathora, Post Dalsamund, Tal. Kasaravad, Distt. Khrгона (M.P.).

1	2	3	4	5
2759.	Jagdish Patil Jagu	B.A.M.S., Univ., of Poona 1975	5263 8-3-76	At & Tal Shahada, Distt. Dhuliya.
2760.	Jagdish Shekh Prajarambhai	Ayurved Bhishak, AIAV, Delhi 1975	6793 21-3-79	7, Jagnath Plot, Dr. Radhkru- shna Road, At. Rajkot.
2761.	Jagdish Tank Tulasidas	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9352 21-8-85	C/o. Tank T.K., Near Chame- diya's Kuva, At. Dhoraji-360410 Distt. Rajkot.
2762.	Jagdish Valora Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2982 17-6-70	18, Ashokvadi, Saraspur, A'bad.
2363.	Jagdish Vasani Ravajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5103 29-12-75	C/o Shobhn Vasani, Ayu. Cli- nic, Spectam, 2nd Floor, A'bad.
2764.	Jagdishbhai Patel Jashbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4259 15-3-74	Shiyapura, R. v pura, Berode.
2765.	Jagdishbhai Patel Maganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5036 13-11-75	At. Souhada, Ramnivas, Distt. Baroda.
2766.	Jagdishchandra Vaidya Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5351 14-4-76	G 3, Gajanand Society, Daxini Society, Maninagar, A'bad. Bushting
2767.	Jagdishchandra Ashara Narbheram	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1967	2513 15-6-67	Ashra Building 49, Prahlad Plot, At. Rajkot.
2768.	Jagdishchandra Bhatt Balkrishna	Ayurved Visharad Board of I.M., Saurashtra 1959	2229 20-3-61	Kheda Jilla Panchayat Ayu. Dispensary, At. Vaso, Tal Na- diad, Distt. Kheda.
2769.	Jagdishchandra Bhatt Prabhashanker	H.P.A., PGT Centre in Ay. Jam- nagar 1961	822 15-1-62	C/o Vaidya Prabhashanker, At. Palitana.
2770.	Jagdishchandra Bhatt Keshavlal	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ., 1974	4771 9-4-75	C/o Bhupatral K. Bhatt, Chi- talia Street Road, At. Bilkha Distt. Junagadh.
2771.	Jagdishchandra Bhatt Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8666 16-2-83	Shivam, Sankadi Sheri, Green Chowk, At. & Tal. Morabi Distt. Rajkot.
2772.	Jagdishchandra Chandela Gulabsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5267 9-3-76	Shri Dharmvanti Ayurvedsh- ram, Near Railway Station, At VoravaI, Distt. Junagadh.
2773.	Jagdishchandra Dave Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5154 7-2-76	C/o Vaidya R.M., Dave, 33, Digvijay Plot, At. Jamnagar.
2774.	Jagdishchandra Joshi Yogeshkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4341 18-4-74	At. Ugedi, Tal. Nakhatrana, Distt. Kutch.
2775.	Jagdishchandra Joshi Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4455 26-8-74	Purbai Paru, At. Padara, Distt. Beroda.
2776.	Jagdishchandra Kapadiya Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2896 12-2-70	1495, Kokadiya's Pole, Sarang- pur, A'bad.
2777.	Jagdishchandra Mehta Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3133 20-2-71	Jivapara Sheri, Mahavir Nivas, At. Tankara, Tal Morbi, Distt. Rajkot.

1	2	3	4	5
2778.	Jagdishchandra Nathavani Jamnadas	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, Maharashtra, 1970	4174 5-2-74	Shriram Kung Laxmivadi, At Rajkot.
2779.	Jagdishchandra Nadhavi Prabhatsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8884 19-12-83	At. Charana's Muvada, Post. Ghodasar, Tal. Mahemdabad, Dist. Kheda.
2780.	Jagdishchandra Pandya Ravashanker	D.S.A.C., CS. Ay. Course, Gujarat, 1963	746 21-6-63	At. Sevasi, Distt. Baroda.
2781.	Jagdishchandra Pandya Delapathbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5557 4-10-76	Near High School, At Ranpur, Tal. Dhandhukam, Distt. A'bad.
2782.	Jagdishchandra Pandya Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7494 17-1-80	B-3, Bhavna Society, Behind Navjivan Society, Ajava Road, At. Baroda.
2783.	Jagdishchandra Patel Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3523 28-6-72	Mota Darwja, At Sarsa, Tal. Anand, Distt. Kheda.
2784.	Jagdishchandra Patel Bhajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7021 16-5-79	At & Post Dudhavada, Tal. Padara, Distt. Baroda.
2785.	Jagdishchandra Purohit Hiralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3121 17-2-71	Vaidkiy Officer, At. Kadana Colony, Via Santrampur, Distt. Panchmahal.
2786.	Jagdishchandra Purohit Uniyashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	5555 4-10-76	Kadiya Vad, Chakadani Sheri At. Junagadh.
2787.	Jagdishchandra Purohit Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6332 4-10-78	At & Post & Tal. Tharad, Distt. Banaskantha.
2788.	Jagdishchandra Rajguru Mulshanker	D.S.A.C., CS Ay. Course, Gujarat, 1963	965 6-6-63	Surti Farsan House, Station Road, Bhavnagar.
2789.	Jagdishchandra Raval Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4371 8-5-74	At Piludra, Tal. Prantij Distt. Sabarkantha.
2790.	Jagdishchandra Shah Chandulal	D.A.S.F., F.c. of AUSM, Bombay 1959	2899 1-12-59	At. Nadiser St., Timba Road, Tal. Godhara Distt. Panchmahal.
2791.	Jagdishchandra Shah Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4081 5-10-73	17, Chitrukut Society, Vagodia Road, Baroda.
2792.	Jagdishchandra Shah Navnitlal	Ayurved Madhyama, SD Pariksha Samiti, Baroda 1978	6620 21-2-79	Vaikuthpuri, At. Jantral, Tal. Kalol, Distt. Panchmahal.
2793.	Jagdishchandra Sherathiya Gangadasbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8127 4-8-81	At Kalana, Via & Tal. Dhoraji, Distt. Rajkot.
2794.	Jagdishchandra Thoriya Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4964 4-10-75	Panchhatadi, Opp. Koth Vav, At. Bhuj, Distt. Kutch.
2795.	Jagdishchandra Trivedi Karunashanker	Ayurved Visharad, R.S. Mahavidyalaya, Baroda 1955	1648 14-5-65	Soni Pole No. 4, Vadi, Vania Sheri's Naka, Baroda.
2796.	Jagdishchandra Trivedi Hariprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3635 9-10-72	At. Piparala, Post Sathara, Via Trapaj, Tal. Talaja, Distt. Bhav- nagar.

1	2	3	4	5
2797.	Jagdishchandra Trivedi Girajshankar	Vaidya charya, AIAV, Delhi 1963	7340 16-10-79	Dhanvntari, LIG-324, Anand- nagar, At. Bhavnagar-5.
2798.	Jagdishchandra Trivedi Bhikhalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7488 17-1-80	C/o B.N. Pandya, Juni Nari- yeli V. khar, Out-Side Ruva- pari Gate, Diwanpara Road, Bhavnagar-364 001.
2799.	Jagdishchandra Vyas Narottamdas	Vaidya Visharad, AIAV, Delhi 1964	6958 3-5-79	Thornali Bunglo, At & Distt. Surendranagar.
2800.	Jagdishchandra Vyas Vishwanath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7508 2-2-80	At Pisaj, Tal. Babhoi, Dist. Baroda.
2801.	Jagdishkumar Bhatt Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4495 9-9-74	Sevak Street, At Sinugra, Tal. Anjar, Distt. Kutch.
2802.	Jagdishkumar Gandhi Mohanlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9458 10-1-86	Idmda Chowk, At. Billimora, Tal. Gandevi, Distt. Valsad.
2803.	Jagdishkumar Pandya Dahyalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4961 4-10-75	At. Bidada, Kutch, Tal. Mandevi, Distt. Kutch.
2804.	Jagdishkumar Patel Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3100 30-1-71	Dhobisheri, Salyadpura, Hou. No. 7/3276, At Surat.
2805.	Jagdishkumar Patel Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4085 8-10-73	Sardar Patel Nagar, Chakra- dhari B. No. 39, Ellishbridge, A'bad.
2806.	Jagdishkumar Raval Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6380 27-10-78	P. W. D. Qtrs., Opp. Post Office, Himmatnagar, Distt. Sabarkantha.
2807.	Jagdishkumar Trivedi Harilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5908 28-9-77	C-39, Karmachar inagar Co. Hous. Society, Ghatlodiya Road, Naranpura-Ankur Society, A'bad.
2808.	Jagdishnarayan Purhit Premnarayan	B.A.M.S., Vikram Univ., 1978	9165 17-10-84	At. & Post Ringnod, Distt. Ratlam (M. P.).
2809.	Jagdish Prasad Acharya Baladevdas	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1973	6491 1-2-79	66/1179, Shivanand Nagar Colony, Nagarvel Hanuman, Rakhiyal Road, A'bad.
2810.	Jagdishprasad Dave Yadavrai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1947	356 31-5-48	At. Kanod, Via Derol, Tal Kalol, Distt. Panchmahal.
2811.	Jagdishprasad Yadav Chandravali	Ayurved Shastry, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1975	9612 10-11-86	Harihar Mahadev Mandir, Gadapura, Redcross, Gotri Road, At. Baroda-390 015.
2812.	Jagdishray Joshi Mohanlal	Vaidya Charya, AIAV, Delhi 1965	7445 21-12-79	At Lundhiya, Via Dhari (Moti), Tal. Vishavadar, Distt. Junagadh.
2813.	Jagjivan Tanna Kanjimal	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat 1962	292 16-6-62	Post Office, Vorwad Naka, Radhanpur, Distt. Banaskantha.
2814.	Jagjivandas Gondaliya Amardas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8445 31-5-82	At. & Post Vajadi, Tal. Una, Distt. Junagadh.

1	2	3	4	5
2815.	Jagmohan Bhagat Trikambhai	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat 1967	2574 23-8-67	At. Kurvarpara, Tal. Sankhada, Distt. Baroda.
2816.	Jagmohan Sharma Gurdialsingh	H.P.A., P. G. T. Centre in Ay. Jamnagar, 1961	5433 18-6-76	B. No. D-33, Gandhinagar Colony, At. Jamnagar.
2817.	Jagmohandas Kapadiya Tribhovandas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	101 1-12-56	At Amod, Distt. Broach.
2818.	Jagnath Valdia Pursottam	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Maharashtra 1960	1026 23-10-61	S. M. P. Center, At Mumpar, Tal Santrampur, Distt. Panch- mahal.
2819.	Jagnath Dave Balkrishna	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1951	355 10-7-51	687, Deri Road, Manokwadi, At. Bhavnagar.
2820.	Jagruti Bhatt Kanaiyalal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9206 30-1-85	2, Swastik Society, Juna Rasta, At. Anand, Distt. Kheda.
2821.	Jagruti Pathak Tarambakkal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4506 17-9-74	Nagar Chakala, Dala Mehtas's Sheri, At. Jamnagar.
2822.	Jagruti Pathak Chitarajan	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9556 3-8-86	C/o K. K. Bhatt, "Matruchhaya" Near Grid, Opp. Anand Arts College, At Anand.
2823.	Jagrutiben Vaidya Kishorchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6925 17-4-79	38, Anand Colony, Navagam, (Gadh), Jamnagar.
2824.	Jagubhai Chudasama Govubha	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3698 29-11-72	At Panchi, Post Dholera, Via Dhandhuka, Distt. A'bad.
2825.	Jagubhai Patel Bhulabhai	G.B.A.M., Bac. of AUSM, Bombay 1957	559 12-9-63	At Bardoli, Distt. Surat.
2826.	Jagubhai Patel Bhulabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	3302 20-12-71	Girdhari Road, At Patan, Distt. Mohsana.
2827.	Jahbhai Limbachiya Kalidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3765 7-2-73	Near Ramji's Temple, At Mohrel, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
2828.	Jagjivandas Pllia Bhudardas	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1963	8767 11-5-83	Munsar Road, Near Luhar Kod. At. & Tal. Viramgam, A'bad.
2829.	Jahida Ahmad Malik Dosumiya	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8697 3-3-83	Police Line, At. & Post & Tal. Thasara, Distt. Kheda.
2830.	Jaimini Patel Konubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9172 13-11-84	Opp. Post Office, At. & Tal. Gandevi, Dist. Valsad.
2831.	Jaimini Trivedi Jagdishchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6694 3-3-79	2103, Sarangpur, Dolatkhana, Madhvada, A'bad.
2832.	Jalubhai Dhakhada Kathadbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8135 21-8-81	At Charodiya, Tal. Rajulasity, Dist. Amreli.

1	2	3	4	5
2833.	Jamal Kanaji	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1957	7241 30-8-79	At Amarapur (Gir), Tal. Mahanatina, Dist. Junagadh.
2834.	Jamanbhai Kamani Babubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8821 11-8-83	At. Rayadi, Tal. Jamkandorana, Dist. Rajkot.
2835.	Jamanadas Narabhoram	Ay. Bhishak, A.I.A.V., Delhi 1960	7140 24-7-79	At Shil, Tal. Mangarol, Dist. Junagadh.
2836.	Jamanadas Chandasana Damajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7792 19-8-80	At Virpur (Jalaram), Swami Mandir Sheri, Dist. Rajkot.
2837.	Jamanadas Dadhaniya Keshvji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4072 1-10-73	At Thanapipali, Via Lushala, Tal. Vanthali, Distt. Junagadh.
2838.	Jamanadas Menover Savajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6133 12-4-78	M.G. Road, At Kutiyana, Distt. Junagadh.
2839.	Jamanadas Patel Kurajibhai	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1963	1381 27-12-63	Station Road, At Batava, Distt. Junagadh.
2840.	Jamankumar Patel Kalyanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8523 27-8-82	At Khodapipar, Via & Tal. Padadhari, Dist. Rajkot.
2841.	Jamankumar Upadhyay Umiyashankar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6531 3-2-79	Anandnagar Park, R. No. 4, Flat No. 40, At Rajkot.
2842.	Jamanapuri Gosai Ratanpuri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4159 21-2-74	At Jamla, Tal. Kalol, Distt. Mehsana.
2843.	Jamana Smat. Ladava Jeram	Vaidyacharya, A.I.A.V., Delhi, 1969	7876 14-11-80	At Tarasi, Via & Tal. Jam-Jodhapur, Dist. Jamnagar.
2844.	Jamnadas Bhatt Chhotalal	Ay. Uttama, S.D.P.S., Baroda 1959	9503 12-5-86	196/3, Nani Salviwad, Saraspur, A'bad.
2845.	Jamnadas Dadhaniya Narsibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4235 28-2-74	Cinema Road, At Manavadar, Distt. Junagadh.
2846.	Jamnadas Dalsaniya Harilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3363 16-2-72	Modia Sheri, Post Bhayavadar, Tal. Upleta, Distt. Rajkot.
2847.	Jamnadas Hirani Laxmidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7696 29-4-80	2/1955/, C/o Dr. V.L. Hirani, Godavari Bhuvan, Jn. 15, At & Dist. Rajkot.
2848.	Jamnadas Kasagra Mohanlal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1967	2617 19-12-67	At Rana Kandorana, Tal. Ranavav, Distt. Junagadh.
2849.	Jamnadas Khanpara Devjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4762 9-4-75	At Avania, Via Malia Hatina, Distt. Junagadh.
2850.	Janmajay Sheth Natvarlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1959	2424 8-3-67	14, Ashapuri Society, Akota, Padra Road, At Baroda-5.
2851.	Jambuvati Purohit Sukharam	Vaidya Visharad A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1972	7097 10-7-79	Jomnath Falia, At. Chorvad, Dist. Junagadh.

1	2	3	4	5
2852.	Jamunaben Popat Vrundavandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3923 19-4-73	C/o. Vrundavandas P. Popat, Opp. Khambhalia Gate 3, Dig- vijayplot, Vrundavanbag, At Jamnagar.
2853.	Janakben Shastri Hariprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8134 21-8-81	At Pundhara, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
2854.	Janakbala Soni Janakkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9177 11-12-84	At. & Post Netramali, Tal. Idara, Dist. S.K.
2855.	Jankidas Devmurari Dharmadas	Ay. Bhishak, A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1960	8746 19-4-83	At. Bhadali Bhan, Tal. Jasdan, Dist. Rajkot.
2856.	Janakkumar Dave Vishnuprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8449 15-6-82	Patel Vas, St. Zeviors School Road, Near Hemnagar Bus Stop, Memnagar, A'bad.
2857.	Janakkumar Joshi Venishanker	B.A.M.S., Bombay Univ., 1981	9114 23-8-84	Ishwar Bhavan, 2nd Floor, Room No. 21, 89, Khardilkar Road, Opp. Kamat Hotel, At. Bombay-4.
2858.	Janakkumar Upadhye Mahadevbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8277 16-1-82	C/o Pro. M.R. Upadhyay, C-3, Ramnivas, Govt. Qua., Junagadh.
2859.	Janaklal Vaidya Ramanlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1947	1027 4-3-48	Nana Pandya's Pole, At Petlad, Distt. Kheda.
2860.	Janmashanker Mehta Lalshanker	Ayurved Bhishak, A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1959	8627 28-1-83	11/Ramnathpara Kamuma Raj- put's House, At. Rajkot.
2861.	Janakrasi Bhatt Anantral	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3627 3-10-72	Bhaga Talav, Gaga Oza's, Khan- cha, At Bhavnagar.
2862.	Janakrai Bhatt Revashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4605 8-1-75	At Shivrajpur, Tal. Jasdan, Distt. Rajkot.
2863.	Janakray Bhatt Prabhashanker	Vaidya Visharad, A.I.AV., Delhi 1965	6777 21-3-79	Near Ramkupa, Gajarfali, Bhi- raj Nivas, At Jamnagar.
2864.	Janakrai Raval Pranshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8370 17-3-82	Nagnah Gate, Ambaji Road, Jamnagar.
2865.	Janakrai Shukla Mogulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2807 11-8-69	At Motimarad, Via & Tal. Dhoraji, Distt. Rajkot.
2866.	Janakrai Trivedi Balshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4190 12-2-74	Vakaner Gate, Main Road, Near Bala Temple, At Morbi, Distt. Rajkot.
2867.	Janardan Bhatt Chandubhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1697 3-6-65	508, Shishuvihar, Bhavnagar.
2868.	Janardan Bhatt Narhariprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4208 18-2-74	Motigar Sheri's Naka, Dave Dadan, Ranika, Bhavnagar.
2869.	Janardan Bhatt Bhanushanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6131 12-4-78	Sushrukha, At Post Jadar, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.

1	2	3	4	5
2870.	Janardan Dave Nandkumar	D.S.A.C., C.S.Ay. Course, Gujarat, 1965	1685 28-5-65	Opp. Vijay Mill, Naroda, Road, Ahmedabad.
2871.	Janardan Pandya Chandrashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3519 14-6-72	Vaidya Kutir, Jain Vaga, Pan- dya Sheri, Near Swaminarayan, At Dabhoi Distt. Baroda.
2872.	Janardan Raval Manishanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1959	4593 17-12-74	Ranjitpara, At Bhanvad, Distt Jamnagar.
2873.	Janardanbhai Trivedi Pranshanker	Ay. Bhishak, A.I.A.V., Delhi, 1965	8288 25-1-82	Near Prabhutmetal Works, VII- dghat Road, Tal. Vadhvan, Surendranagar.
2874.	Janardan Upadhyay Rangmani	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2958 25-5-70	Akh Ayu College, A'bad.
2875.	Janardan Vyas Harnarayan	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1962	28 22-12-64	22, North Gujarat, Patel Soci- ety, Vibhad-1, Babupura Bus Stand, New Civil Hospital, Asarava, A'bad
2876.	Janhavi Bativia Dilisukhray	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9589 7-10-66	C/o D.J. Batvia, Jilla Pancha- yat Compound, Qua. Rescorss At : Rajkot-360 001.
2877.	Jankidas Hariyani Raghavdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4107 3-11-73	St. Amarnagar, Tal. Jetpur Distt. Rajkot.
2878.	Janaklal Vaidya Ramanlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1947	1027 4-3-48	Nana Pandya's Pole, At Pet- land, Dist. Kheda.
2879.	Janmashnaker Joshi Ambashnker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1952	225 4-7-52	Kandolia Sheri, Near Darbar- gadh, At Ujalata, Distt. Rajkot.
2880.	Jarashwari Vaidya Karanlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1957	1639 1-8-57	C/o Karanlal C. Vaidya, Moti Bhuvan, Opp: Nichi Bari, Man- gnath Sheri, Junagadh.
2881.	Jasamat Gardhariya Gokal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5699 24-2-77	At Timbavadi, Via. Junagadh.
2882.	Jasantlal Patel Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8281 16-1-82	At & Post Radodara, Tal. Bay- ad, Dist. Sabarkantha.
2883.	Jashavant Mehta Ambashankerbhai	Ay. Bhishak, A.I.A.V., Delhi, 1972	6586 3-3-79	Kalyan Society, Godaun Road, At Rajkot.
2884.	Jashbhai Patel Bakorbbhai	D.S.A.C., C.S.Ay. Course, Gujarat, 1962	542 21-12-62	At Anandpura, Via Khervadi, Tal. Sankheda, Distt. Baroda.
2885.	Jashbhai Patel Shankerbbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2849 14-10-69	At Sadhaki, Tal. Shinor, Distt. Baroda.
2886.	Jashbhai Patel Bhailalbbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4390 28-5-74	At Joshikuva, Tal. Bosad, Distt. Kheda.
2887.	Jashbhai Patel Punjabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5388 10-5-76	At Kanjoda, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
2888.	Jashavantgiri Goswami thigiri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5647 5-1-77	At Math, Post Makatuka, Tal Bhiloda, Distt. Sabarkantha.

1	2	3	4	5
2889.	Jashvanti Vachhani Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7975 20-2-81	Gopalnagar, Main Road, Opp. Jekumar Teloring College, At. Rajkot.
2890.	Jashavantkumar Vaidya Ishwarlala	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4475 30-8-74	At Rajput, Tal Kadi, Distt. Mehsana.
2891.	Jashavantkumari Jadeja Chandusinghji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	6830 22-3-79	Jadeja Mention, 5, Vaghpara, At Morabi, Dist. Rajkot.
2892.	Jashavantlal Desai Ambelal	L.A.M., U.P. Ay. Mahavidyalaya, Patan 1934	1521 8-1-49	Bhrahman Falia, At & Tal Vasanda, Distt Valsad.
2893.	Jashavantlal Desai Gulabbhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1950	406 17-5-51	At Chikhali, And, Chikhali, Distt. Valsad.
2894.	Jashavantlal Desai Nanlal	D.A.S.F., Fac of AUSM, Bombay 1953	407 2-1-54	Opp. Post Office, At Hasot, Distt. Broach.
2895.	Jashavantlal Patel Maganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	6873 3-4-79	At & Tal Megharaj, Dist Sabarkanth
2896.	Jashavantlal Shah Nanlal	D.S.A.C., C.S. Ay Course, Gujarat, 1966.	2267 19-11-66	At Aluva, Post Unava (Balva) Tal Kalol.
2897.	Jashavantlal Trivedi Ratilal	D.A.S.F., Fac of AUSM, Bombay, 1957.	311 2-1-58	Shiv Smruti, 11/17, Laxmiwadi, Rajkot
2898.	Jashavantrao Bhatt Madhavlal	Ayurved Visharad, Board of M. Saurashtra 1958	2204 1-5-58	Govt. Ay. Dispensary, At Vada sada Tal. Manavadar, Distt.- Junagadh.
2899.	Jashavantrao Joshi Nanji	G.F.A.M., Fac of AUSM, Bombay, 1957	227 1-7-57	Madhukunj, Vidyanagar Society, At Bhavanagar.
2900.	Jashavantrao Pandya Jethalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3421 7-3-72	At Sokhada, Post Sarval, Tal, Dhangadhra, Distt. Surender- nagar.
2901.	Jashavantrao Vanmalidas	Vaidya Visharad, A.I.A.V., Delhi, 1965	7113 16-7-79	Near Nilam Bag, Virbhadranagar Society, Plot No. 17, Jail Road, At Bhavnagar.
2902.	Jashavantrao Bhatt Balkrushna	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6681 3-3-79	Beshi Plia, Pendya Sheri, Shasher, Distt. Bhavnagar.
2903.	Jashavantsinh Barad Bahadursinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4481 3-9-84	At Antra], Via Sayan, Tal. Kamrej, Distt. Surat.
2904.	Jashavantsinh Rathod Fatehsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4456 27-8-74	At Vaddala, Tal. Padara, Distt. Baroda.
2905.	Jashabantsinh Zala Madhisinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8034 10-4-41	At Antaroli, Tal. Prantij, Dist. Sabarkantha.
2906.	Jashmati Joshi Manubhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	229 29-6-62	Kot Safil Road, At Surat.
2907.	Jashubhai Patel Manajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	6061 8-3-78	At & Post Dudhiya, Tal. Lim- khada Distt. Panchmahal.

1	2	3	4	5
2908.	Jashubhai Patel Morarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8722 19-4-83	At & Post Onjal, Tal. Navsari, Dist. Valsad.
2909.	Jashumati Modhavadiya Savdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4485 3-9-74	Tirth Bandar Road, Virdi Plot At Porbandar, Distt. Junagadh
2910.	Jashumati Mohta Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	5737 25-3-77	Bhimajibhai Vaghela's Hou. Govt. Kuvavali Shorti, Kadi Wad, Junagadh.
2911.	Jashumati Pavar Lallubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8369 17-3-82	At. Post & Tal. Vyara, Dist. Surat.
2912.	Jashumati Thakar Uttamram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	4509 17-9-74	C/o Jashumati Nilkantha Ra- val, 25, Prahlad Plot, At Rajkot.
2913.	Jashvantrai Parekh Gokaldas	D.S.A.C., C.S.Ay. Course, Gujarat, 1966	2390 15-2-67	C/o R.C. Parekh, Salt Research, Quaters No. G-9, At Bhavnagar
2914.	Jashvamtram Pandya Trambakprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5141 29-1-76	Vada Falia, At Dabhan, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
2915.	Jashvantsinh Mahida Mohansinh	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1964	1754 5-7-65	At Gothan, Distt. Surat.
2916.	Jasmin Thakar Umiyashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7764 16-7-80	Datar Manjil, Vidyavihar, At Junagadh.
2917.	Jasrajibhai Golani Chaturbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3744 2-2-73	Near Rajput Chora, At Raj- sitapur, Tal. Dhrangdhra Distt. Surendranagar.
2918.	Jatin Kanara Jon	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1955	91 1-12-55	Sonawala Hospital, Tal. Botad, Distt. Bhavnagar.
2919.	Jatinkumar Shah Chandulal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9211 2-2-85	C/o C.C. Shah (Ghiwala), At. Bareja, Tal. Dascoi, Dist. A'bad.
2920.	Jatashanker Bhatt Jagannath	D.A.M., U.P. Ay. Mahavidyalaya, Patan, 1953	2644 1-10-53	Ghogha Circle, Plot N.o 2675.
2921.	Jatashanker Purohit Vitthalji	Vaidya Visharad, A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1969	6918 16-4-79	At Ambal Gadh, Tal. Malia- Matina Dist. Junagadh.
2922.	Jatashanker Rajgor Jayashanker	Ayurved Visharad, Board of I.M. Saurashtra 1958	2209 1-5-58	Ruvapari Gate,, Keshhiyavad's Naka, At Bhavnagar.
2923.	Jatendrakumar Shukla Bhanuprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7370 29-10-79	At & Post Bippur, Tal. Bala Sinor, Dist. Kheda.
2924.	Jauprakash Patani Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4691 24-3-75	At Kukavav Moti, Distt. Amreli.
2925.	Javadhusain Hakim Mohamad	B.A.M.S., K.S.D.S., Univ., 1983	9312 2-7-85	At : Santrampur, Dist. Panch- mahal.
2926.	Javahar Panjabi Pahelajrao	Ayurved Bhishak, A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1974	6653 28-2-79	Patel Hou., Opp. Jansatta Press, At Rajkot.

1	2	3	4	5
2927.	Javansang Chauhan Khodabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9015 28-3-84	At. & Post Mankava, Tal. Mehamdadbad, Dist. Kheda.
2928.	Jaya Gondaliya Amardas	D.S.A.C., C.S.Ay. Course, Gujarat, 1966	2358 8-1-67	C/o Jaya P. Vaishnav, Gujarat Vidhyapeeth, A'bad-14.
2929.	Jaya Patel Devajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8685 3-3-83	Itrit Hi Kaporas Clinic, 10-A Vikram Appariment, New ma- neklal Street,, Gomatipur (West), Bombay-400 086.
2930.	Jayaben Goswami Madanpuri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6934 17-4-79	Kanabivad Nani Sadak At Bhavnagar.
2931.	Jayakar Vyas Rameshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7629 20-3-80	9/711 Gandhrak Falia, Wadi Palia, At Surat.
2932.	Jaydevkumar Raval Revashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8642 28-1-83	At. & Post Ranasana, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
2933.	Jaydrishna Vaidya Govindram	L.A.M. U.P. Ay. Mahavidyalaya, Patan 1942	1031 31-12-66	At. Navli. Via. Anand, Dist. Kheda.
2934.	Jayakrishandas Sharma Balkrishandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3844 2-3-73	Shri Mandir Kachariya, At Kishangadh, Distt. Ajmer.
2935.	Jayalaxmi Pandya Amrutlal	AyMrved Bhishak, A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1961	7247 30-8-79	At Bhalas Baraja, Tal. Kale- vad, Dist. Jamnagar.
2936.	Jayalaxmi Solanki Devajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4672 20-3-75	Gayatri Krupa, Gandhigram, Raiya Road, Rajkot-360 001.
2937.	Jayana Joshi Trambakeshwar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7352 29-10-79	8/1003, Gopipura, Kipaparan Mehta's Sheri, At Surat.
2938.	Jayana Mahta Chandrakant	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9049 10-5-84	Pani's Bhit, At. Surat-3, Tal. Choryasi, Dist. Surat.
2939.	Jayanand Patel Bachubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9167 13-11-84	451, Dudhvali Pole, Ghikanta, A'bad.
2940.	Jayandragiri Meghanthi Purshotamgiri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5912 11-10-77	Dr. J.P. Goswami, Janata Dis- pensary, At Ajab. Tal Keshod- Distt Junagadh.
2941.	Jayant Gokhale Gajananrao	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1961	160 7-12-61	C/o G.S. Gokhale, Gokhale Nivas Ratanpole, At Siddhapur, Distt Mehsana.
2942.	Jayant Vaidya Chunilal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1963	1394 20-1-64	Sagrampura, Hanuman Sheri, Surat-2.
2943.	Jayantibhai Makvana Magajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6437 15-12-78	At & Post Kareli, Tal. Jambu- sar, Dist. Broach.
2944.	Jayantibhai Panara Devabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8401 5-4-82	At & Post Kasbara, Tal. Kham- bhat, Dist. Kheda.

1	2	3	4	5
2945.	Jayantilal Parmar Kacharalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8200 12-10-81	Room No. 76, B. No. 9, Govt. Vasahat, G. Colony, Behind Lal- mill, A'bad.
2946.	Jayantibhai Patel Gordhanbhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1965	1844 11-11-65	Motal Darvaja, At Sarsa, Distt Kheda.
2947.	Jayantibhai Patel Shankerbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2929 20-3-70	At Keydem, Tal Balasinor, Distt Kheda.
2948.	Jayantibhai Patel Madhavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3717 5-1-73	Kalika Mata Temple, At Sun- dhia, Tal Kheralu, Distt Meh- sana.
2949.	Jayantibhai Patel Vitthalidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4075 4-70-73	At Kanz, Tal Viramgam, Distt. A'bad.
2950.	Jayantibhai Patel Mulajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4443 16-8-74	At Indral, Tal Sankheda, Distt. Baroda.
2951.	Jayantibhai Patel Revabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4566 29-10-74	At Pogalu, Tal Prantij, Distt. Sabarkantha.
2952.	Jayantibhai Patel Ranchhodhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4980 15-10-75	At Kareli, Tal Jambudar, Dist. Baroda.
2953.	Jayantibhai Patel Gopalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5653 18-1-77	At Kansa, Tal. Visnagar, Dist. Mehsana.
2954.	Jayantibhai Patel Mohanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8649 10-2-83	At. & Post Hathipura, Tal. Bayad, Dist. Sabarkantha.
2955.	Jayantibhai Patel Jivabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8679 3-3-83	At. Budhia, P.O. Badoli, Tal. Idar, Dist. Sabarkantha-383410.
2956.	Jayantibhai Patel Lallubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9490 24-3-86	At & P O Thavad, Tal Ka- padvanj, Dist Kheda
2957.	Jayantibhai Patel Mohanbhai	B S A M, Gujarat Ay. Univ., 1974	9496 16-4-86	At & P O Vasna, Tal Sankheda, Dist Baroda
2958.	Jayantibhai Patel Mangaldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	9558 3-9-86	At & P.O. Motap, Tal: Cha- nasna, Dist. Mehsana.
2959.	Jayantika Modi Madhusudan	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9830 2-12-85	12/Umiyadevi Society, Mani nagar, (East) A'bad.
2960.	Jayantilal Rambhai	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1969	7158 2-8-79	At Fatsar, Tal. Una, Distt. Junagadh.
2961.	Jyantia Acharya Girjashankar	D.S.A.C., C.S. Ay. Course Gujarat, 1964	1601 29-1-65	Dispensary, At Borvav, Via Talala, Distt Junagadh.
2962.	Jayantilal Akhani Devram	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2150 25-8-66	Bhudar Misti's Pole, Kalupur, Panchmattj 'A'bad.
2963.	Jayantilal Adodariya Mavajibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9110 7-8-84	At. & Post. Khorasa (Gir), Tal. Malla Hatina, Dist. Juna- gadh.

1	2	3	4	5
2964.	Jayantilal Amin Chhotabhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2028 3-6-66	At & Post Noghana, Tal Jambusar, Distt Broach.
2965.	Jayantilal Bhatt Maheshwar	A.V.V., T.M. Vidyapeeth, Poona, 1943	823 29-2-44	At Siswa, Tal Borsad, Distt, Kheda.
2966.	Jayantilal Bhatt Karinashanker	Ay. Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1972	6891 12-4-79	F/6, Officers Colony, Alkapuri, Baroda-5.
2967.	Jayantilal Chauhan Anandji	Vaidya Visharad, All India Ay. Vid. Delhi, 1961	6597 16-2-79	Putelnagar No. 2, Sorathia Vadi, At Rajkot.
2968.	Jayantilal Chavad Nanshibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5835 25-7-77	At Qadu (Sherbag) Tal Malivanatana Distt Junagadh.
2969.	Jayantilal Dave Bhaishanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1943	1535 13-1-43	Opp. Dhorbazar, Shalam Road, Ahmedabad-22.
2970.	Jayantilal Dave Mulshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3257 7-10-71	C/o Bhanushanker Mulshanker Dave, Prahlad Plot, Kishersinhji, Road, At Rajkot.
2971.	Jayantilal Gandhi Purshottam	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3537 4-8-72	Bazar Road, At Jamalaya, Tal Jam Khambhaliaya, Distt Jamnagar.
2972.	Jayantilal Ghatghada Ranchhodlal	Ayurved Bhishak, A.I Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1976	6843 2-4-79	Khambhaliyana Naka, Kumbharbudo, At Jamnagar.
2973.	Jayantilal Gohel Kanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3295 3-12-71	At Ambaradi, Via Gadha Swamina, Tal Jasdani, Distt Rajkot.
2974.	Jayantilal Jani Devshanker	Ay. Madhyama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda, 1965	7139 24-7-79	At. Vamaj, Via Kalol, Distt. Mehsana.
2975.	Jayantilal Joshi Ambeshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4512 20-9-74	1, Ravaliya Plot, At Porbandar, Dist. Junagadh.
2976.	Jayantilal Joshi Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4809 25-4-75	At Meta, Tal Vadgam, Distt. Banaskantha.
2977.	Jayantilal Karagatia Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8736 19-4-83	At Madhavpur (Ghed), Tal. Porbandar, Distt. Junagadh.
2978.	Jayantilal Kuvaria Shambhubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2924 9-3-70	At Pithalur, Via Talaja, Distt. Bhavnagar.
2979.	Jayantilal Lashkari Ratandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5694 24-2-77	At. Sandh, Tal Mangarolk, Distt. Junagadh.
2980.	Jayantilal Lodhla Harilal	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1970	7081 5-7-79	At. Kharedi, Tal. Kalavad, Distt. Jamnagar.
2981.	Jayantilal Makadiya Kanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8205 12-10-81	Makvana Kanaji Ambava's Hou., At Koyali (Baba's) Via Shapur, Distt. Junagadh.
2982.	Jayantilal Makani Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	5765 14-4-77	At. Bhadali (Bhankhanchal), Tal. Jasdani, Distt, Rajkot.

1	2	3	4	5
2983.	Jayantilal Mehta Chhotalal	Ayurved Bhishak, A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1980	9106 31-7-84	At. & Post Fatepur, Tal. Prantij, Distt. Sabarkantha.
2984.	Jayantilal Modh Bhikhalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Uni., 1975	5247 5-3-76	At Gadh, Tal Palanpur, Distt. Banaskantha.
2985.	Jayantilal Nothani Durlabhaji	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1976	6850 2-4-79	Near Bhidbhanjan, Nevapara Opp. Khandpith, Nabera, At Bhansnagar.
2986.	Jayantilal Padiya Devehand	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1967	6772 21-3-79	C/o Sundarji Madhavji, Mandavi Chowk, At Junagadh.
2987.	Jayantilal Pandya Chhotalal	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1942	9107 31-7-84	At. Vaso, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
2988.	Jayantilal Parikh Maftlal	D.A. S. F. Fac. of AUSM, Bombay, 1955	685 1-7-55	Medical Office, Diodar, Distt. Banaskantha.
2989.	Jayantilal Parikh Natavarlal	G. F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1961	683 4-12-61	C/o Dr N A Parikh, At Bodeli, Distt. Baroda.
2990.	Jayantilal Parmar Hirabhai	Vaidyavisharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1967	7091 6-7-79	H. No 17, Room No. 470, Janatnagar, Amraivadi, A'bad
2991.	Jayantilal Patel Hargovinddas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2839 16-9-69	At Khavad, Tal Kadi, Distt. Mehsana.
2992.	Jayantilal Patel Bhanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3988 7-8-73	At Gunchhali, Tal Vijapur, Distt Mehsana.
2993.	Jayantilal Patel Naranbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4080 4-10-73	Govt Ayu. Dispensary, At Borada, Tal Songadh, Via Sagbara, Distt Surat.
2994.	Jayantilal Patel Babubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay Univ, 1973	4194 15-2-74	At. Racharda, Via Sanad, Tal Kalol, Distt Mehsana.
2995.	Jaayantilal Patel Maganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5211 26-2-76	At Shetalsana, Tal Kheralu, Distt. Mehsana.
2996.	Jayantilal Patel Kantibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5375 30-4-76	At. Kaiyaj, Tal Nadiad, Distt. Kheda.
2997.	Jayantilal Patel Nathabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7134 21-7-79	At. Varghadi, Tal. Lunavada, Distt Panchmahal
2998.	Jayantilal Patel Shakarobhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	7166 2-8-79	At Vadoth Tal Idar Distt. Sabarkantha.
2999.	Jayantilal Patel Kalidas	B.S.A.M., Gujrat Ay. Univ., 1976	9224 2-12-85	At & P.O. Laxmpura Tal Visatnagar Distt Mehsana.
3000.	Jayantilal Patel Shankarlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9545 18-8-86	At. & P.O. Gothada-384630 Tal Kheralu Distt. Mehsana.
3001.	Jayantilal Pathak Bahecharlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3990 7-8-73	At. Sakhor Tal Nimmatnagar Distt Sabarkantha

1	2	3	4	5
3002.	Jayantilal Pithadiya Ramjibhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1963	1389 9-1-64	Bhavsaravad Nadiad Distt. Kheda.
3003.	Jayantilal Popat Rugnath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4060 21-9-73	Kashivishvanath Road Krish- nakunj St Plot At Gondal Distt Rajkot.
3004.	Jayantilal Rajyaguru Manajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6192 15-7-78	At Dalkhaniya Tal & Vai Bhari Distt Amreli.
3005.	Jayantilal Ranpura Liladharbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7977 20-2-81	Post Dhulkot Via Morabi Tal Josiya Distt Jamnagar.
3006.	Jayantilal Shah Rangildas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1955	1153 1-9-55	Bazar's At Kadod Tal, Bardoli Distt Surat
3007.	Jayantilal Chunilal	G.F.A.M., Fac. of AWSM, Gujarat, 1964	1913 4-1-66	At & Post Fatehpur Tal Parntij Distt Sabarkantha.
3008.	Jayantilal Shukla Bhanushanker	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat, 1962	1152 10-8-62	At. & P. O. Bagvad a Udvada Distt. Valsad.
3009.	Jayantilal Solanki Dhanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5976 28-11-77	C/o Vaidya Bhanjibhai At Savarkundala Distt. Bhav- nagar.
3010.	Jayantilal Soni Shivlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1956	1316 2-1-56	Suthar Vado At Vijapur Distt. Mehsana.
3011.	Jayantilal Suthar Dhulabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9026 16-4-84	At. & Post Punjpur Tal, Danta Bhavangadh, Distt. Banaskantha.
3012.	Jayantilal Trivedi Panjilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9453 10-1-86	At. & P. O. Moti Sargan Tal. Santrampur Distt. Panchmah al.
3013.	Jayantilal Trivedi Chunilal	Ayurved Bhishak A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1941	9604 10-11-86	No. 145 Sarangpur Ghasi- rams's Pole A'bad.
3014.	Jayantilal Vaidya Sandhabhai	D.I.M.S., Baord of AUSM, Delhi, 1959	1028 16-10-62	At. Unava Miradatar Distt. Mehsana.
3015.	Jayantilal Vaishnav Becharbhai	Vaidyavisharad A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1964	7051 21-6-79	Datar Krupa Aushadhalaya Gir Bazar At. Mendarada Distt. Junagadh.
3016.	Jayantilal Vaja Govindbhai	Ayurved Bhishak A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1963	7183 19-8-79	Plot No. 1314 Ghogha Cireal. At. Bhavnagar.
3017.	Jayantilal Vyas Chhotalal	Ayurved Visharad R. S. Mahavidyalaya, Baroda 1955	1603 30-1-65	At. & Post Khandha, Mal Padra, Distt. Baroda.
3018.	Jayantilal Vyas Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4418 25-6-74	Near Bhindhanjan Mahadev, At Atkot, Tal. Jashudan, Distt. Rajkot.
3019.	Jayantilal Tank Harilal	Ayurved Bhishak A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1965	6774 21-3-79	"Sahajanand," Suhukar Society, Anandnagar, Rajkot.-2.
3020.	Jayantilal Vyas Jethalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5565 13-10-76	Jagdish Temple, New Block No. 1, Outside, Jamilpur Gate, A'bad.

1	2	3	4	5
3021.	Jayantilal Vyas Shambhuprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	7935 29-12-80	Ranchhodji Temple, Tal. Mahombavad, Distt. Kheda.
3022.	Jayantipravat Bava Ishwarparvat	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7387 19-11-79	At. Jivapura, Tal. Viramgam, Distt. A'bad.
3023.	Jayantikumar Asodariya Lavajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6447 28-12-78	Juna Balmandir, Opp. Bagicha, At Jetpurkathi, Dist. Rajkot,
3024.	Jayantkumar Bhatt Manilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1949	2768 2-7-49	At Bhayali, Tal. & Distt. Baroda.
3025.	Jayantkumar Bhatt Navalshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3501 4-5-72	Bhagvatibhuvan, Kadia Plot, At. Porbandar, Distt. Baroda.
3026.	Jayantkumar Daye Laxmilshanker	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2457 7-4-67	Pre-Health Centre At. Ambalia, Tal. Bayad, Distt. Sabarkantha.
3027.	Jayantkumar Gohel Shivlalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8203 5-2-82	Ay. Dispensary, At. & Post Chitravad, Tal. Jam-Kadorana, Via Bhayavadar, Distt. Rajkot.
3028.	Jayantkumar Joshi Ganpatram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	14662 17-3-75	At. Jalsan, Tal Khambhat Distt. Kheda.
3029.	Jayantkumar Joshi Kalidas	Ay. Madhyama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda, 1973	6730 9-3-79	Ramesh Gotej, Limada Line, 3, Rajputpara, At. Jamnagar.
3030.	Jayantkumar Chimanlal	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat, 1964	1513 19-8-64	Baljivan Chaneha's Office, Ravpura, Baroda.
3031.	Jayantkumar Patel Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4299 27-3-74	Mulajipara, At. Chansma, Distt. Mehsana.
3032.	Jayantkumar Patel Kurajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6076 15-3-78	Shri Ramnivas, Plot, No. 836, Daynand Chowk, Bhavnagar.
3033.	Jayantkumar Purohit Harishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5257 8-3-76	At. Chokari, Tal. Padara, Distt. Baroda.
3034.	Jayantkumar Raval Girdharlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3122 172--71	A/10 Officers Colony, Behind New Mental-Hospital, A'bad.
3035.	Jayantkumar Soni Harajivandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3690 20-11-72	At. Nana Ubhada, Tal Varan- gam, Distt. A'bad.
3036.	Jayantkumar Vanang Fulabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3282 4-11-71	At. Vasna, Tal. Borsad, Distt. Kheda.
3037.	Jayashanker Dave Ambalal	Ayurved Visharad, M. S. Univ., Baroda, 1953	2447 28-3-67	Medical Officer, Palana, Public Dispensary, At. Palana, Tal. Nadiad. Distt. Kheda.
3038.	Jayashri Bhatt Indulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4168 5-2-74	C/o Dr. V. N. Joshi, At Dink Via Bhayavadar, Distt. Rajkot.
3039.	Jayashri Dave Bhagvanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6337 4-10-78	C/o Vishvanath N. Dave, At & Post Sanali, Via Kukavaw, Distt. Amreli.

1	2	3	4	6
3040.	Jayashri Desai Pramodrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8383 24-3-82	85, Sonarika Society, Near Water Tank, Harani-Karelibag Road, Baroda.
3041.	Jayashri Dhadiya Ravajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6127 5-4-78	Ramaji Vela Plots, Shrigunatri- nanad Bhuvan, Rajkot.
3042.	Jayashri Gandhi Jagdishchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8343 27-2-82	32, Tapovan Society, Ambavadi, A'bad.
3043.	Jayashri Jani Jashavantbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7740 6-6-80	Shri Manjit Hospital Road, At. Jamnagar.
3044.	Jayashri Joshi Bharatkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5242 5-3-76	8/416, Uma Apartment, Ohal- lavad, Navasari Bazar, Surat.
3045.	Jayashri Joshi Rameshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8468 3-8-82	Devbag, Jivan Jyot Society, Plot No. 12, Bhavnagar-2.
3046.	Jayashri Kabirpanshi Shyamal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7754 3-7-80	Kabir Mandit, At Bhuji-Kutch.
3047.	Jayashri Kadakiya Rameshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6183 15-6-78	At. Pipalad, Tal. Devagadh Baria, Distt. Panchmahal.
3048.	Jayashri Nathavani Ratlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7974 20-2-81	Ashutosh, 16, Sardarnagar, At. Rajkot.
3049.	Jayashri Parekh Jitendra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9446 23-12-85	Parekh Hospital, Madanwad, At. Valsad-396 001.
3050.	Jayashri Parikh Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8059 27-4-81	Marfatia Buila, Behind Dalal, Build., Bank of India's Gali, Mahinagar, A'bad.
3051.	Jayashri Patel Ishwarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8600 13-12-82	Azad Chowk, Kōkalavad, At. & Post Vatava, Tal. Dasoroi, Distt. A'bad.
3052.	Jayashri Purani Kotankumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	8344 11-3-82	C/o Dr. R. D. Purani, Vahor- vadrnaka, Kapadvanj,
3053.	Jayashri Raval Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5854 23-8-77	Valdyakiya Oddicer, Govt. Ayu. Dispensary Umedgadh, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
3054.	Jayashri Raval Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8717 16-4-83	Navapura, At. Kalol, Distt. Panchmahal.
3055.	Jayashri Rehta Arunkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5831 6-7-77	At. Naranpur, Tal Bhuji, Distt. Kutch.
3056.	Jayashri Shah Harishchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5674 21-2-77	C/o Shri H.N. Shah 10/A, Vir- vijay Society, Near Samghavi High School Naranpura, A'bad
3057.	Jayashri Shah Malukchand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ.,] 1980	8477 3-8-82	C/o M.M. Shah, At. Rampur, Tal Shandhuka, Dist A'bad.
3058.	Jayashri Seni Vasudevabhai	M.D. (Ay.) Gujarat Ay. Univ., 1981	8145 3-9-81	Ghanshyamnagar Society, Subhash Pul Naka, A'bad.

1	2	3	4	5
3059.	Jayashriben Chauhan Madhavbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6928 17-4-79	C/o M.K. Chaban, Near Hata's Kuva At Lunavada, Dist. Panchmahal.
3060.	Jayashriben Rathod Premji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5448 5-7-76	C/o R.P. Rathod, Civil Lines, Post Raigadh (M.P.).
3061.	Jayashriben Bhatt Raghunandan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7007 16-5-79	Near Bala Printers, Diwali Pole, At Nadiad, Dist. Kheda.
3062.	Jayasukh Sanghavi Manibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5989 19-12-77	At Fateh Gadh, Tal Rapar, Distt. Kutch.
3063.	Jayasukh Thakar Anuraj	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4671 20-3-75	7, Dayanandnagar, Pushpa- kunj, Rajkot.
3064.	Jayavanta Mehta Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5597 17-11-76	C/o Mehta Keshavlal Pragji, At Kalavad, Distt. Jamnagar.
3065.	Jayblal Trivedi Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3631 3-10-72	C/o Kanubhai B. Acharya, Hemkunj, Vadavé Facharia, Wadi, Panwadi Road, Bhav- nagar.
3066.	Jaydayal Saini Nanhesinh	Valdya Charya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1966	8770 11-5-83	13, Shri Dwarkesh Niketan, Azadnagar Co-op. Hou. Society, N.S. Road, No. 1, Juhu Skrim- villeparla (West), Bombay- 400 056.
3067.	Jayendra Jani Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5948 26-10-77	Dudharej Road, Sheri No. 1, Vaiya Nivas, Surendernagar.
3068.	Jayendra Joshi Somnath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3045 15-9-70	Bhatvado, Opp. Hanumanji's Temple, At Vijapur, Distt Mehsana.
3069.	Jayendra Joshi Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3506 9-5-72	Wadi, Soni Pole, No. 4, At Baroda.
3070.	Jayendra Shah Kantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9007 28-3-84	1572, Dhruv Falla, Behind Mahadev, At A'bad.
3071.	Jayendrakumar Acharya Devendra Prasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6869 3-4-79	Syam Clinic, Samaj Chowk, At Denap, Tal. Visangar, Dist. Mehsana.
3072.	Jayendrakumar Agravat Gopaldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7211 20-8-69	11, Ganesh Society, R.V. Desai, Road, Baroda.
3073.	Jayendrakumar Bhatt Manaklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2828 28-8-69	44, Somanthnagar Society, Naranpura Char Rasta, A'bad- 13.
3074.	Jayendrakumar Bhatt Mulshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4595 1-1-75	Jin Gate, At Dhoraji, Distt. Rajkot.
3075.	Jayendrakumar Mehta Gangadas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1962	906 21-1-63	Ayu. Dispensary, Mota Zin- zuda, Via Savarkundala, Distt. Bhavnagar.
3076.	Jayendrakumar Patel Manubhal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9331 9-8-85	C/o Pro M.M. Patel, Kubern- nagar, At & P.O.: Bodeli, Tal: Sankheda, Dist. Baroda.

1	2	3	4	5
3077.	Jayendrakumar Satyapal Baldevbhal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	8055 27-4-81	At Lambhagam, Tal. Dasoroi, Dist. A'bad.
3078.	Jayendrakumar Upadhyay Kishorchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6324 27-9-78	"Kalyankunj," Near Janata Bank, Station Road, At Dhan- dhuka, Dist. A'bad.
3079.	Jayendrakumar Vankani Keshavlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1957	1007 2-1-58	Jasdan Hospital, At & Tal. Jasdan, Distt. Rajkot.
3080.	Jayendraprasad Dave Ishwarprasad	Vaidyavisharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1966	7294 20-9-79	B. Govt. Colony, Saraspur, A'bad.
3081.	Jayesh Agnihotri Ramanlal	D.S.A.C., Gujarat Ay. Univ., 1963	1363 26-11-63	Shanker Ayur. Pharmacy, Amali's Pole, Raipur, Ahmeda- bad.
3082.	Jayesh Modi Hasmukhrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8525 27-8-82	4/1904, Begampura, Mumbai- vada, Surat.
3083.	Jayeshkumar Parekh Vaghajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7528 15-2-80	Gayatri Colony, Near A'bad, Dist. Co-Op. Bank, Odhav, A'bad-382 410.
3084.	Jayeshkumar Parekh Arvindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7919 12-12-80	Chandresh, Nakasta's Shori, Bedi Gate Road, At. Rajkot.
3085.	Jaydatt Trivedi Indravadanbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9627 21-11-86	Punitpolo, At: Sarkhej-382 210.
3086.	Jaydev Pandya Narayanshankar	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1965	1686 29-5-65	Balvaidya's Nhadki, Nagar uva, At Petlad, Distt. Kaira.
3087.	Jaydevi Mehta Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4436 1-8-74	C/o R.G. Mehta, Hospital Road, At Mangrol, Distt. Junagadh.
3088.	Jaydevbhai Patel Rasikbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7867 16-10-80	At Timbarva, Tal. Sinor, Dist. Baroda.
3089.	Jaykishan Trivedi Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8553 14-9-82	Sector No. 20, B. No. 129/3, Ch. At. Gandhinagar.
3090.	Jaykrishna Joshi Thakorlal	D.A.S.F., Fac of AUSM, Bombay, 1950	226 20-12-50	Narayan Dev's Khadaki, Nava Dara, At Broach.
3091.	Jaykrishna Vaidya Ambaram	L.A.M., U.P. Ayurved Maha- vidyalaya, Patan 1934	1030 27-5-40	At Supa (Kurel), Tal Navsari, Distt. Valsad.
3092.	Jaynarayan Sharma Hanumanprasad	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1967	2923 9-3-70	P.H.J. Tankal, Tal Chikhali, Distt. Valsad.
3093.	Jaypal Patel Kalabhai	Ayurved Alankara, Ay. College, Gurukul, Univ. Kangri (Hardwar), 1939	540 26-10-40	At Gurukulsupa, Tal. Navsari, Distt. Valsad.
3094.	Jayprakash Bhatt Vasantlal	B.S.A.M., Gujarat Ay Univ, 1976	5855 23-8-77	Dolat Bhatt B. 2/10, Ramans- murti, A'bad.
3095.	Jayprakash Sharma Madanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5205 26-2-76	16, Swastik Society, Near S.T. Garej, At Palanpur, Distt. Banaskantha.

1	2	3	4	5
3096.	Jayprakash Trivedi Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4438 1-8-74	C/o J.R. Trivedi, Sarda Nath, Near Gamati River, At Dwarka, Distt. Jamnagar.
3097.	Jayraj Trivedi Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4704 29-3-75	Gorvada Holl, Chakala, At Kapadvanj, Distt. Kheda.
3098.	Jayshanker Dave Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3022 6-8-70	Wadi Dalia Pole's Naka, Shri Shanidev Mahraj, Temple, Baroda.
3099.	Jayshankar Jani Narmadashanker	L.A.M., U.P. Ayurved Mahvi, Patan Baroda State, 1941	197 3-11-41	At Parujan, Via, Maroli, Bazar, Distt. Valsad.
3100.	Jayshri Jani Homendra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7800 4-9-80	230/1, Outside Raipur Gate., Bhavan-pura Pith Naka, A'bad
3101.	Jaysinh Nanda Naridas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7188 17-8-79	C/o D.H. Nanda, Matrushrati, Chedda Road, Opp. Dedhiya Hivas, Dibivall (East), Thana.
3102.	Jaysukh Nimbark Laxmiram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5792 30-4-77	At. Mota Suraka, Via Shihor, Distt. Bhavnagar.
3103.	Jaysukh Sanghani Mangaljiibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3847 2-3-73	Bazar Road, At. Vadia Devadi, Tal. Kukavav, Distt. Junagadh.
3104.	Jaysukhlal Bhatt Harishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3946 2-3-73	At. Premtura, Via. Visavadar, Dist. Junagadh.
3105.	Jaysukhlal Chauhan Karshandash	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1965	1864 2-12-65	Darji Karshandas Ramji, Bazar's Lathi, Distt. Amreli.
3106.	Jaysukhlal Janani Ratilal	Ayurved Bhishak, AIAY, Delhi, 1975	7406 29-11-79	15/26, Vijay Plot, Lulitkunj, At. Rajkot.
3107.	Jaysukhlal Mehta Ramaji	Ayurved Bhishak, AIAY, Delhi 1963	6994 7-5-79	Near Chora, Gundavadi, Main Road, At. Rajkot.
3108.	Jayvadan Pathak Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7322 10-10-79	Bag Palia, Purani Khadakai, At. Nalol, Dist. Panchmahal.
3109.	Jayvankumar Arya Manishanker	A.M.B.S., Board of I.M., Lucknow 1965	1800 13-9-65	At. Khedoi, Tal. Anjar, Distt. Kutch.
3110.	Jayvant Nikam Bhagvantrao	B.A.M.S., Jivaji Vishwavidyalaya, 1965	7219 23-8-79	C/o G.B. Yasala, Yamuna Sadan, Baroda.
3111.	Jayvantrao Suryavanshi Ganpatrao	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1948	1312 31-12-48	Digi Street, At. Navasari, Distt. Valsad.
3112.	Jayvantsinh Sarvaiya Karansinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	7190 17-8-79	At. Valar, Tal. Talaja, Dist. Bhavnagar.
3113.	Jayvidya Nandha Kakubhal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6756 15-3-79	C/o K.K. Nandha, 3, Ramnath Para, At. Rajkot.
3114.	Jekishandas Patel Jagubhal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	547 10-4-62	Chakala Glifio, Opp. G.P.I. Cigarette Co., Anandhol (East).

1	2	3	4	5
3115.	Jemubhai Bodiya Manubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6448 28-12-78	At. Morypar, N. Tal. Nalvad, Distt. Surendranagar.
3116.	Jenabhai Parmar Jugabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3441 14-3-72	At & Post Vathvani, Tal. Mahe- ndabad, Distt. Kheda.
3117.	Jerambhai Makvana Devjibhai	D.S.A.C., CS Ay. Course, Gujarat 1966	2472 3-5-67	At. Katakpara, Post Nandarkha, Via Hanavadar, Distt. Juna- gadhd.
3118.	Jerambhai Patel Meghajibhai	Vaidyavisharad, AIAV, Delhi 1965	7602 18-3-80	At. Ingorala, Via Mōra, Sana- dhiyala, Tal. Khambha, Dist. Amreli.
3119.	Jerambhai Patoriya Bavabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6589 16-2-79	Laxminagar, Varachha Road, Near Gitanjali Cinema, Surat-6.
3120.	Jeshingbhai Rathod Jivabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4697 25-3-75	22, Pratapnagar Society, Raipur A'bad.
3121.	Jeshinglal Shah Nanalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	1155 1-7-54	14-B, Kartikswani Society, Darvaja, Ahmedabad.
3122.	Jerusaben Parmar Devidbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4283 24-3-74	Imanual Society, Block No 2-B, Saraspur, A'bad.
3123.	Jethalal Patel Chunilal	D.A.S.F., Fac of AUSM, Bombay 1951	546 10-7-51	At. Davad, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
3124.	Jethalal Rathod Ravjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2970 15-6-70	C/o Ravjibhai Neljibhai, Kadia Plot, At Porbandar, Distt. Juna- gadhd.
3125.	Jethlal Shah Mathalal	D.A.S.F., Fac of AUSM., Bombay 1947	1154 30-8-47	At Sardoi, Via Modasa, Distt. Sabarkantha.
3126.	Jethlal Shah Kuberdas	D.A.S.F., Fac of AUSM, Gujarat 1954	2351 2-8-54	At & Post Chitroda, Via. & Tal. Idar, Distt. Sabarkantha
3127.	Jethalal Unnia Trikamji	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1969	6773 21-3-79	25, Karanpara, At. Rajkot.
3128.	Jethalal Vadela Valjibhai	D.S.A.C., CS. Ay. Course, Gujarat 1962	1001 23-11-62	At. Timbadi, Post Merbai, Distt. Rajkot.
3129.	Jethanand Daxina Vishandas	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1966	2481 6-5-67	Haripura, Post Bantawa, Tal. Manavadar, Distt. Junagadh.
3130.	Jignasa Ghokasi Chandrakant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8708 16-3-83	Bajvada, Sheth Sheri, Baroda-1.
3131.	Jinabhai Makvana Savjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2811 18-8-69	At. Ghoti, Via Palitana, Distt. Bhavnagar.
3132.	Jitendra Bhatt Dhansukhram	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1950	825 24-1-51	9/748, Amlihan Pathshala's Sheri, Surat-I.
3133.	Jitendra Dagaya Bhimabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4801 24-4-75	276, Tulasinagar, Old Vadaj, A'bad.

1	2	3	4	5
3134.	Jitendra Dave Vishwanath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3255 5-10-71	At. Varsada, Via Lathi, Distt. Amreli.
3135.	Jitendra Dhru Ramniklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6056 8-3-78	Nagar Chakala Near Khara- kuva, Jamnagar.
3136.	Jitendra Goswami Bachugiri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8326 17-2-82	Gosaivada, At. Boasad, Dist. Kheda.
3137.	Hitendra Joshi Damodar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3961 15-6-73	At. Kalyanpur, Tal. Nakhtrana, Dist. Kutch.
3138.	Jitendra Joshi Nargovindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6198 15-7-78	Bhagvat Clinic, At. Bareja, Tal. Daseroi, Dist. A'bad.
3139.	Jitendra Oza Jayanti Lal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5903 20-9-77	Kothi Compound, 96-A, 1, At. Rajkot.
3140.	Jitendra Parekh Surajlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1959	712 1-7-59	Mahatma Gandhi Road, At. & Distt. Valsad.
3141.	Jitendra Parikh Jetha Lal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay. 1969	4557 19-10-74	Matruchhya'', Hathi Pole, Baroda.
3142.	Jitendra Rajgor Chandulal	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ., 1979	7978 20-2-81	11, Shrinath Society, Opp. Ranak Park, Navavadaj, At A'bad.
3243.	Jitendra Rathod Girdharilal	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ., 1980	8348 11-3-82	Sanjivani Society -2, Plot No. 2263, B. No. 6, Tulaja Road, Krushnagar, Bhavnagar.
3144.	Jitendra Trivedi Bhalchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4791 21-4-75	Gozeria's Pole, Halim's Kha- daki, Shehpur, A'bad.
3145.	Jitendra Upadhyay Bhagvatiprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3589 13-9-72	At. Adasang, Via Sacarkundala, Distt. Bhavnagar.
3146.	Jitendra Vaghmar Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7010 16-5-79	33, Kamalshpark, College. Road At. Nadiad, Distt. Kheda.
3147.	Jitendra Vaidya Ramaniklal	A.V.V., T.M. Vidyapeeth, Poona 1942	1032 13-1-43	Kala Mehata's Sheri, Sagram Pura, At. Surat.
3148.	Jitendrabhai Joshi Bhanushanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5041 20-11-75	Kamalपुर Near Jain Derasar, Khatrivas, At Palanpur, Distt. Banaskantha.
3149.	Jitendrabhai Shah Bahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7873 14-11-80	At. & Post Masar Road, Tal. Padara Distt. Baroda.
3150.	Jitendrakumar Bhatt Hariprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8828 1-9-83	Rambhuvan Ghodi's Pole At. Khambhat, Distt. Kheda- 388 620.
3151.	Jitendrakumar Desai Narpatbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9527 1-7-86	At. & Post Muderu, Tal. Idar Dist. S.K.
3152.	Jitendrakumar Gadhavi Karshaubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7922 12-12-80	At. & Tal. Harij, Dist. Meh- sana

1	2	3	4	5
3153.	Jitendrakumar Amin Thakorbhaj	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6291 20-9-78	Near Baveji's Temple, At. & Post Virsad, Tal. Borsad, Distt. Kheda
3154.	Jitendrakumar Jani Shyamsundar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5135 27-1-76	Opp. St. Bus Stand, St. Road, At. Devgadhi Baria, Distt. Panchmahal.
3155	Jitendrakumar Jani Kamalashanker	Aurved Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1971	6545 12-2-79	Radha Swami Savan Bag, At. Siddhapur, Dist. Mehsana.
3156.	Jitendrakumar Mehta Ishwarlal	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1976	5744 25-3-77	H.No. 50, Wad, At. Olpad, Distt. Surat.
3157.	Jitendrakumar Mulani Manganlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1953	950 1-2-54	Giriraj Chowk, Jafrabad, Distt. Amreli.
3158.	Jitendrakumar Patel Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8472 2-8-82	Navadhara, Vaso, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
3159.	Jitendrakumar Pathak Malajibhaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5249 5-3-76	Guj. Hou. Board, Navjivan Society, Ajava Road, Baroda.
3160.	Jitendrakumar Rana Madhuji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2972 16-6-70	1/5 Guj. Hau. Colony, Asarva, Chamanpura, Juna, A'bad.
3161.	Jitendrakumar Raval Nathalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8572 20-10-82	At & Post Kada, Tal. Visnagar, Dist Mehsana.
3162.	Jitendrakumar Shah Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5443 25-6-76	At. Umalla, Tal. Zaghadiya, Distt. Broach.
3163.	Jitendrakumar Shah Nasmukhlal	B.S.A.M., Gujarat. Ay. Univ., 1978	7589 14-3-80	At. Budari Tal. Valod, Dist. Surat.
3164.	Jitendrakumar Thakar ji Nandlal	Ayurved Uttama, S.D. Parisha Samiti, Baroda 1973	6950 1-5-79	Bandji Gate Road, Opp. Ghantiyaala Distt. Baroda.
3165.	Jitendrakumar Upadhyay Manilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1976	6229 10-8-78	Jitendra Nivas Sonivado, At. Modasa, Distt. Sabar- kantha.
3166.	Jitendrakumar Upadhyay Rajanikant	B.S.A.M., Gujara. Ay. Univ., 1977	6758 15-3-79	Brahmanvada, At. Santrampur, Distt. Panchmahal.
3167.	Jitendrakumar Upadhyay Jashavantlal	B.S.A.M., Gujrat Ay. Univ., 1978	7511 13-2-80	At. Nirmali, Tal. Kapadvant, Dist. Kheda.
3168.	Jitendrakumar Upadhyay Vaikunthray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7848 10-10-80	Near Gandhi Shoril Zaver Bhavan, At. Kodinar, Distt. Junagadh.
3169.	Jitendrakumar Vyas Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4794 21-4-75	0/617, Khapatia Chakala, Near Vipin Worg, At. Surat.
3170.	Jitendrakumar Zala Kanajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5523 15-9-76	At Barea Tal. Daserio, Distt. A'bad.
3171.	Jitendrakumar Tripathi Parvati Shanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3586 7-9-72	761/1, Lalavashi's Pale, Near Parbadi, San kadisheri, Khadla, Ward, No. 2, A'bad.

1	2	3	4	5
3172.	Jitendranath Pandya Prataptai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5153 4-2-76	C/o. P.B. Pandya, Ashapura Mandir Road, Near Ashapura Temple, At Gondal, Distt. Rajkot.
3173.	Jitendraprasad Shah Mulchandbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5563 13-10-76	Near Post Office, Modivas, At. Tal Kheralu, Distt. Mehsana.
3174.	Jitesh Bhatt Manubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8725 19-4-83	C/o M.P. Bhatt, Savajipara, Ramani Fall, At. Amreli.
3175.	Jitinkumar Pandya Suryakant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4684 24-3-75	At. Godhavi, Mal. Sanand, Distt. A'bad.
3176.	Jivabhai Patel Somabhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1941	3459 3-11-41	Primary Health Centre, At. Ghanpur, Distt. Devgadbaria, Distt. Panchmahal.
3177.	Jivabhai Patel Hirabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9335 9-8-85	At. Bobha, Tal, Prantij, Dist. S.K.
3178.	Jivabhai Vadhia Karanabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9486 24-3-86	At. Navagadh-360 375, Tal. Jetpur, Distt. Rajkot.
3179.	Jivan Tank Nathubhai	Vaidacharya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1968	6816 22-3-79	At. Ran, Tal. Kalyanpur, Distt. Jamnagar.
3180.	Jivanbhai Patel Parshottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4565 29-10-74	At. Rampur (Kot.), Tal. Vija- pur, Distt. Mehsana.
3181.	Jivanbhai Patel Lalubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5719 4-3-77	At. Kanai, Post Nizar, Tal. Bardoli, Distt. Surat.
3182.	Jivanbhai Rav Madhavbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3601 15-9-72	At Bil, Opp. Gujarati Shala, Tal. & Distt. Baroda.
3183.	Jivanlal Bhatti Karsanbhai	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	8743 19-4-83	Grain Market, Opp. Panchvati, Bardanvala Road, At. Jamnagar.
3184.	Jivanlal Gajera Pragjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3630 3-10-72	At. & Post Gundarani, Tal. Mahuva, Distt. Bhavnagar.
3185.	Jivanlal Kodhiya Khodidas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	1362 26-11-63	1155/1, Sankadi Sheri, Manek- chowk, Ahmedabad.
3186.	Jivanlal Rathod Kalubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3952 22-5-73	At. Sekhavadar, Via Talaja, Distt. Bhavnagar.
3187.	Jivanlal Sarvaiya Kuramshibhai	Ayurved Madyama, S.D. Pariksha Samiti, 1973	6639 21-2-79	At. Nangala, Via Bhoja Jn., Tal. Umarala, Distt. Bhavnagar.
3188.	Jivanlal Suther Bhaichandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3882 23-3-73	At. Ambaji, Tal. Banaskantha.
3189.	Jivanlal Ukani Virajibhai	B.A.M.S., Kanpur Univ., 1972	4699 25-3-75	Baroda Prestage, Jakat Naka, Varachharoad, Surat.

1	2	3	4	5
3190.	Jivanlal Vyas Dhankeral	L.A.M., U.P. Ay. Mahavidyalaya, Patan (Baroda State), 1941	2546 17-4-41	Lambi Sheri, Tal. Mehendabad, Tal. & Distt. Kheda.
3191.	Jivanpuri Goswami Kailashpuri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3762 6-2-73	At. Surkuva, Tal. Botaad, Distt. Kheda.
3192.	Jivanram Gondaliya Motiram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4542 8-10-74	At. Jadhkala, Tal. Savarkundala, Distt. Bhavnagar.
3193.	Jivraj Bharodiya Shamajibhai	B.A.M.S., Indore Univ., 1977	6300 27-9-78	At. Jamanvav, Tal. Palitana, Distt. Bhavnagar.
3194.	Jivraj Halvadiya Thakarshi	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2079 27-6-66	At. Kerala, Tal. Morbi, Distt. Rajkot.
3195.	Jivraj Pansuriya Bhuvanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6140 19-4-78	Valamchowk, At. Mendarda, Dist. Junagadh.
3196.	Jivraj Vaghelal Khimaji	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1975	7705 29-4-80	At. Agatray, Via Keshad, Dist. Junagadh.
3197.	Jivrajbhai Pansuriya Mohanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5331 3-4-76	At. Untvad, Tal. Babta, Distt. Amreli.
3198.	Jogendrasinh Chauhan Sabalsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9014 28-3-84	Radhakrishna Building, At. Kutiya, Distt. Junagadh.
3199.	Jogin Joshi Harivadan	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9287 7-5-85	Om-Shri Trikam Kutir, Hathi- Sheri, At. Jamnagar-361 001.
3200.	Jordanben Kristofar Manarobhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2119 22-7-66	Paldi Char Rasta, Opp. Petrol Pump, Elishbridge, A'bad.
3201.	Johar Marajben Sanybbaau	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4268 18-3-74	Marajban Monzil, At. Nasar- rosd, Tal. Padara, Distt. Baroda.
3202.	Jothalal Raval Naganlal	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	6684 3-3-79	C/o Mehta Ay. Aushadhalaya, At. Panavi, Via Vallabhipur, Distt. Bhavnagar.
3203.	Jothalal Upadhyay Vrujlal	Valdyavisharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1963	7605 18-3-80	At. Ingorala (Band), Tal. Liliya, Distt. Amreli.
3204.	Jyoti Kristi Rajanikant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5879 8-9-77	23, Madhuram Park, Society, Maninagar, A'bad.
3205.	Jyoti Kulkarni Prakash	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9437 23-12-85	"Dattprasad," Akhaji Gabaji Paga, Marimata Lane, Palace Road, At. Baroda-1.
3206.	Jyoti Lodhavia Pranjibandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3319 24-1-72	70-C, Hari Nivas, Shantaacruz, Rasta, Bombay-55.
3207.	Jyoti Master Jayramdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4761 9-4-75	R. No. 3, Abhavavala, Build., Surat-1.
3208.	Jyoti Pandya Madhukant	Ayurved Bhishak, All India, Ay. Vid., Delhi. 1973	6523 1-2-79	D-4, E.S.I.S. Dispensary, Qua., Near Bombay Garoj, Shahibag, A'bad.

1	2	3	4	5
3209.	Jyoti Vaidya Arunkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8070 4-5-81	Staff Qua., Arya Kanya Vidya- laya, Karoli Bag, Baroda.
3210.	Jyotibala Pandya Bhanushanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6876 3-4-79	Plot No. 38, Nirmal Nagar, Bhavnagar.
3211.	Jyotibala Trivedi Durgashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4559 19-10-74	7/73, Vallabhanagar Hou. Colo- ny, Bapunagar, Char Rasta, A'bad.
3212.	Jyotiben Bhatt Sadashiv	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1977	6710 9-3-79	Matruchhaya, Harkanbhai's Bari, Jogivad Tanki, At. Bhav- nagar.
3213.	Jyotiben Chauhan Jashavantsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8803 5-7-83	H.B. 675, Petrochemical Township, Baroda-391 345.
3214.	Jyotiben Chauhan Narshinbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9416 2-11-85	Vankarwas, At Sarkhej, Dist. A'bad.
3215.	Jyotiben Patel Babubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3556 21-8-72	Tijoriwala Building, Lakhawad, Nadiad, Dist. Kheda.
3216.	Jyotiben Shah Thakarbai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4467 29-8-74	Jogidas Vittal's Pole, Ravpura, Baroda-
3217.	Jyotiben Upadhyay Mayankkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	8774 16-6-83	8-1998, Amaliran Naka, At Surat.
3218.	Jyotiben Vyas Bhanubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5164 12-2-76	Near Ranchhodji's Temple, Desai Vago, At Nadiad, Distt. Kheda.
3219.	Jyotika Oza Jadabhai	B S A M, Gujarat Ay Univ, 1977	7479 5-1-80	17, Parijatak Vatika, Behind Arya Kanya Mahavidyalaya, Karelibag, Baroda.
3220.	Jyotika Mehta Pankajbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5155 7-2-76	41, Mitramandal Society, Nizampura, Baroda-2.
3221.	Jyotika Patel Bhagavatprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4678 24-3-75	Sardarnagar Society, B. No. 214, Chhani Road, Baroda.
3222.	Jytika Purohit Bhanushanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5404 25-5-76	C/o Kishor Laxmidas Thakkar, Bajvada, Kanteswar Mahadev's Pole, Baroda-1.
3223.	Jyotika Shah Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8085 4-6-81	31, Avanikapark Society, Khan- purroad, A'bad.
3224.	Jyotindra Bhatt Bhanuprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6659 28-2-79	1167/2, Bandhara's Khancha, Kankadi Sheri's Nuka, Manek Chowk, A'bad.
3225.	Jyotindra Dave Mahendrakumar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9186 11-12-84	1/42/1, Zupandi's Polenaka, Mandavi's Pole, Manekchowk, A'bad.
3226.	Jyotindra Joshi Ambalal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1967	2612 16-12-67	At Timbarava, Tal Shinor, Distt. Baroda.
3227.	Jyotindra Mehta Ramchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8639 28-1-83	At. & Post Dahej, Tal. Vagra, Dist. Broach.

1	2	3	4	5
3228.	Jyotindra Patel Shankerial	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4380 20-5-74	C/o Dr. Sumantlal Patel, Opp. Sadhanangar, Karelibag, Baroda.
3229.	Jyotindra Shukla Mahashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3622 26-9-72	Kunkavav Road, At Bagsara, Tal Vadiya, Distt. Amreli.
3230.	Jyotindrakumar Dave Hariprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7395 21-11-79	At. Morva (Rona), Tal. Sha- hora, Dist. Panchmahal.
3231.	Jyotindrakumar Jani Fulshankorbhai	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6952 1-5-79	At Navagam, Via Kalavad (Shitala), Dist. Jamnagar.
3232.	Jyotindrakumar Vyas Jayantkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3417 7-3-72	Nagar Pole, Post & Tal Matar, Distt. Kheda.
3233.	Jyotindrasinh Atodaria Bhagvansinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7855 10-10-80	St. Umalla, At & Post Hari- pura, Tal. Zaghadia, Distt. Broach.
3234.	Jyotischandra Valdia Babubhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1963	1033 29-8-63	C/o B.N. Vaidya, Pranav, 108, Vidyanagar, Bhavnagar.
3235.	Jyotsana Joshi Pradyman	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6666 28-2-79	12, Govt. Servant Society, Near Muni Market, Navrangpura, A'bad.
3236.	Jyotsana Chhatlani Kattaranath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	7510 13-1-80	Harani Road, At Baroda.
3237.	Jyotsana Dave Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4817 30-4-75	At Unava, Distt. Mehsana.
3238.	Jyotsana Dixit Narharilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1955	378 1-2-56	Govt. Hospital, At Vijapur, Distt. Mehsana.
3239.	Jyotsana Hirani Chimanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4149 7-1-74	C/o Dr. Chandra Bhaga Kare- lia, Vadva, Khijadavali Sheri, At. Bhavnagar.
3240.	Jyotsana Joshi Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5494 13-8-76	C/o Dr. L.V. Vyas, At Jam Vanthli, Distt. Jamnagar.
3241.	Jyotsna Bhatt Bhaskar	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	826 18-2-63	16, Arunoday Park Lallubhai Park St. Zaviyara College Cor- ner, Navrang Pura, Ahmeda- bad.
3242.	Jyotsna Mehta Maheshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3073 5-12-70	Kalubha Road, Opp. New Filter, "Upnir" Plot No. 6, Bhavnagar.
3243.	Jyotsna Nanavati Kamleshkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3353 11-2-72	C/o K.P. Nanavati, Hatkesh- war, Line, At Junagadh.
3244.	Jyotsna Pamdy Prahladrai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2164 9-9-66	Ramtekari Road, At & Tal Talaja, Distt. Bhavnagar.
3245.	Jyotsna Pathak Hiralal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1964	1474 6-7-64	Bhutadi, Zapa, Opp. Indian- Press, At Baroda.

1	2	3	4	5
3246.	Jyotsana Patel Mathurbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6975 7-5-79	7, Tashakand Society, Bhudar- pura, Ambavadi, A'bad.
3247.	Jyotsana Patel Dhansukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7627 20-3-80	C/o D.G. Patel, At & Post Mulad, Via Kin, Tal. Olapud, Dist. Surat.
3248.	Jyotsana Raval Himmatlal	M.D.(Ay.) Gujarat Ay. Univ., 1976	6243 19-8-78	M. 5/34/265, Shastrinagar, Near Near Pragtinagar, A'bad.
3249.	Jyotsna Shah Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4016 24-8-73	Kothipole, Ravpura Road, Baroda.
3250.	Jyotsna Shah Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4429 8-7-74	St. Road, At Halol, Distt. Panchmahal.
3251.	Jyotsana Shah Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4440 6-8-74	25, Shri Krishna Park, Khan- pur, A'bad.
3252.	Jyotsana Vyas Shivkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4879 12-6-75	C/o Bhatt Arun, K. 24, Ganesh Society, Kazi Madan, Gopi- pura, At Surat.
3253.	Jyotsana Yagnik Rameshchandra	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4508 17-9-74	Ayu. Vikas Mandal, Dispen- sary, Panvadi, At Jamnagar.
3254.	Jyotsanaben Modi Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7402 27-11-79	Opp. Ranibag, Jilla Panchayat Quatr. Dabhan Bhagol Road, At Nadiad, Dist. Kheda.
3255.	Jyotsanaben Patel Pravinbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6464 15-1-79	B-5, Vellabhnagar Society. Karolibag, Baroda.
3256.	Jyotsanaben Patel Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8189 22-9-81	Uttar Guj. Patel Society, V-1, B. No. 71, Girdharnagar, A'bad.
3257.	Jyotsanaben Patel Vinodbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8739 19-4-83	At. & Post Dungara, Tal. Kamrej, Dist. Surat.
3258.	Jyotsana Ben Shah Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5059 28-11-75	Javaharsher, At Mahalav, Distt. Kheda.
3259.	Jyotsanaben Tripathi Bhanushankar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9584 7-10-86	At Khedoi (Kutch), Tal: Anjar.
3260.	Jyotsanaben Vadaza Bhoglal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2955 24-4-70	At Amroli, St. Utran, Distt. Surat.
3261.	Jyotsna Patel Narottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4777 16-4-75	25-B, Govt. Servant Society, Navrangpura, A'bad.
3262.	Kacharalal Shiyani Bhlmajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7805 9-9-80	At. Charakha, Tal. Babara, Dist. Amreli.
3263.	Kailas Patel Vadllal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7558 29-2-80	C/o B.M. Patel, At. Lambhagan, Tal. Dashacroi, Distt. A'bad.
3264.	Kailas Patel Nandlalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7626 20-3-80	Kanabivad, Nanisadak, At. Bhavnagar.

1	2	3	4	5
3265.	Kailash Gupta Masayan	B.A.M.S., Indore University 1979	8289 5-2-82	Near Saiyanarayan Temple, Rajgadh (Bhavara), M.P. 465 661.
3266.	Kailash Panchal Rattilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5169 16-2-76	22, Shri Rang Society, Kankana, A'bad.
3267.	Kailashben Patel Bevajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7367 29-10-79	Shahpur Chakala, Vadvali Mehta's Pole, A'bad.
3268.	Kailashchandra Gupta Mulechandji	B.A.M.S., Indore Univ., 1974	6319 27-9-78	21, Subhash Marg, At. Kukashi (M.P.)
3269.	Kailashchandra Sharma Jagannath	B.A.M.S., Indore Univ., 1976	7262 5-9-79	8, Savindnagar, Kanadia Road, Opp. Ashian Durg, At. Indore (M.P.)
3270.	Kailashchandra Sharma Kamalashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8481 3-8-82	At & Post Sayan, Tal. Olpad, Dist. Surat.
3271.	Kailasprasad Singh	H.P.A., P.G.T. Ay. Centre, Jamnagar 1965	3150 6-3-71	Sheth J.P. Ayu. College, At. Bhavnagar.
3272.	Kailashgauri Patel Thakorbai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4258 15-3-74	13, Swastik Society, Gobari Road, At. Palanpur, Distt. Banaskantha.
3273.	Kakanbhai Kalal Chimanbhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2384 3-2-67	At. Ubharan, Tal. Malpur, Distt. Sabarkantha.
3274.	Kakulal Hansaliya Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4653 12-3-75	At. Chitavad, Via Bhayavadar, Distt. Rajkot.
3275.	Kakundrai Dave Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8095 4-6-81	At. Ishwaria, Via Lokbhariti, Sanosara, Distt. Bhavnagar.
3276.	Kalaben Choksi Jashvantkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2755 28-3-69	C/o Narendrakumar J. Choksi, Mehta Pole, Baroda.
3277.	Kalabhai Desa Rambhai	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi	6489 1-2-79	Behind Saraswati Oil Mill Chok, At Chhya, Via Porbandar, Distt. Junagadh.
3278.	Kalabhai Tatmiya Jadavbhai	Ayurved Bhisak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	6901 16-4-79	At. Bodaka, Tal. Vanthali, Distt. Junagadh.
3279.	Kalidas Lodhiya Vallabhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9412 19-10-85	At. Sunosara, Tal. Shihor, Distt. Bhavnagar.
3280.	Kalidas Trivedi Juthalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3592 14-9-72	At Mota Bhamidara, Via Vanda, Tal Kundala, Distt. Bhavnagar.
3281.	Kalpagnakumar Parikh Amighar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5317 31-3-76	C/o Dr. Amighar D. Parikh, At Rampura - Bhankoda, Tal Virangam, Distt. A'bad.
3282.	Kalpana Bhatt Harshadray	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9247 12-3-85	"Khodalkrupa" Plot No. 1570/ B, Rupani, Bhavnagar-364 001.
3283.	Kalpana Bhavsar Babubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7068 30-6-79	B. No. 1/10, Govt. Vasahat, Salatvado, At. Baroda.

1	2	3	4	5
3284.	Kalpna Gosaliya Ramaniklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7942 17-1-81	C/o R.S. Shah, 15, O.N.G.C. Society, T.B. Hospital Road, At Mehsana.
3285.	Kalpna Jani Sharadchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5820 14-6-77	Outside Shahpur Gate, Opp. Fire Brigade, Panchmukhi, A'bad.
3286.	Kalpna Naik Dineshkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	9495 16-4-86	C/o Naik Dinesh M. Datt- krupa, Pratap Road, Raopura, Baroda-390001.
3287.	Kalpna Patel Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8377 18-3-82	24, Sanskar Bharati Society, Near Ankur Society, A'bad.
3288.	Kalpna Shah Jamnadas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3578 5-9-72	812, Oswal Sheri, Panchbhai's Pole, Chikanta Road, A'bad.
3289.	Kalpna Shah Arun	B.A.M.S., Univ. of Poona, 1975	5426 4-6-76	At Modasa, Distt. Sabarkantha.
3290.	Kalpna Shoh Mukundbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9628 5-12-86	Payakabal Street, At & Tal. Vyara-394 650, Dist. Surat.
3291.	Kalpna Thakar Harshadrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5679 24-2-77	6, Chatur Bhuj Colony, Goma- dha Wadi, Kankaria, A'bad.
3292.	Kalpna Valiya Tritamlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8432 17-5-82	C/o P.V. Valiya, Sarpatani Road, Near Meghani Ciocal, Plot No. 1132, A, Kalpana, Bhavnagar-364 001.
3293.	Kalpna Vaishnav Gajendrurai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4665 20-3-75	C/o G.H. Vaishnav, 1, Manahar Plot, Anandbuvan, At. Rajkot- 2.
3294.	Kalpanaben Desai Harohadrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8521 27-8-82	5, Gurukrupa, Bank Colony, Halar Road, Valsad.
3295.	Kalpanaben Joshi Hiralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4528 24-9-74	C/o H.F. Joshi 4, Bhansari Wad, At Jamnagar.
3296.	Kalpanaben Mehta Kamalashnaker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5758 14-4-77	22, Anita Society, Narayan- nagar Road, Paladi, A'bad.
3297.	Kalpeshbhai Patel Arunbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8038 14-4-81	At & Post Kesindra, Tal. Sankheda, Dist. Baroda.
3298.	Kalusinh Zala Jaysinhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4789 21-4-75	C/o Vakil Clinic, At Veraval Port, Distt. Junagadh.
3299.	Kalyan Kheni Mena	M.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1970	8026 3-4-81	Shivshanker Parvati Society, Bhat's Wadi, Gama No. 55, Varachh Road, At Surat-6.
3300.	Kalyan Rathod Ravjibhai	B.S.A.M., Univ. of Kanpur, 1973	4518 20-9-74	Rashtriy Shala Road, Mahar Plot, At Rajkot.
3301.	Kalyanbhai Shah Manilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1957	7957 3-2-81	Moti, Sardarnagar (West), Sheri, No. 4, At Rajkot.

1	2	3	4	5
3302.	Kalyanji Patel Narottambhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1954	510 2-8-54	Medical Officer, Chasved Ash- ram Dispensary, At & PO Chasved, Via Ankleshwar, Distt. Broach.
3303.	Kalyanji Kalariya Devasibhai	Vaidyavisharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi. 1965	7581 3-3-80	At Bhanduri, Tal. Malia- Matina, Dist. Junagadh.
3304.	Kalyanji Parmar Kacharabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4193 15-2-74	Baradi Gate Road, At Jama- salaya, Tal Khambhalia, Distt. Jamnagar.
3305.	Kalyanji Sodha Nathalal	B.S.M.A., Gujarat Ay. Univ., 1972	4117 17-11-73	Baradi Gate Road, At Salaya, Tal Khambhalaya, Distt. Jam- nagar.
3306.	Kamakumar Pandit Babulalji	B.A.M.S., Indore Univ., 1975	6282 20-9-78	Medical Officer, Jilla Pancha- yat Dispensary, At. Amaradi, Tal. Bhachau, Dist. Bhuj.
3307.	Kamal Kulkarni Krishnarai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3515 2-6-72	C/o Prahlad N. Nandurbarkar, Ghanehisheri, Dholi Chowk, At Una, Distt. Junagadh.
3308.	Kamla Chavada Hirjibhai	B.A.M.S., Univ., of Poona 1971	3324 29-1-72	C/o D.H. Chavada, Ashanagar Society, At Navsari, Distt. Valsad.
3309.	Kamala Rathod Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7648 28-3-80	4063, Behind Old Anjuman High School, Gollimada, A'bad.
3310.	Kamala Vaidya Amrutrao	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6321 27-9-78	Karnikulash, Bhadra, A'bad.
3311.	Kamalaben Joshi Prabhashanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1963	1403 28-1-64	Near Post Office, At Vadali, Via Idar, Distt. Sabarkantha.
3312.	Kamalbhai Raval Jashvantray	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8987 12-3-84	"Kalpataru, Raval Building, Vadava Palladhar, At. Bhav- nagar.
3313.	Kamaladevi Dudharejia Sharad Kumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7724 29-5-80	5/56, Navnirmannagar, Naran- puta, A'bad.
3314.	Kamaldas Gondaliya Ramdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5450 5-7-76	R. No. 47, Hardas Nagar, Bapunagar, A'bad.
3315.	Kamalanand Swami Sadanandji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3240 6-9-71	Gita Mandir, A'bad.
3316.	Kamalapati Shukla Ambalal	Ay. Ratana, H.S.S., Prayag, 1959	6677 3-3-79	At Rushikul Society, Tal. Sankheda, Dist. Baroda.
3317.	Kamalkishor Vaidya Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4561 22-10-74	Mahivada, At & Tal. Visnagar, Distt. Mehsana.
3318.	Kamlesh Bhatt Jagdishchandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9564 3-9-86	B-9, Govt. Quarters, Near Dharam Cinema, Rajkot.
3319.	Kamalesh Dave Girajashanker	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1976	7156 25-7-79	1, Jayraj Plot, Bhaguvatikru- pabhavan, At Rajkot.

1	2	3	4	5
3320.	Kamalesh Bhavsar Bhalchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7847 10-10-80	39, Navjivan Society, At Mahembavad, Dist. Kheda.
3321.	Kamalesh Joshi Vishanji	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9526 1-7-86	4/29, Chowk Falia, Near Old Vegitable Market, At : Bhuj, (Kutch)-2370 001.
3322.	Kamalesh Shoth Rasikalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8498 27-8-82	Shri B.K. Gandhi, Amba Chowk, Bhavnagar.
3323.	Kamlesh Thakar Rasiklal	B.A.M.S., Kanpur Univ., 1974	4760 7-4-75	1/106, M.I.G. Flat, Karelibag, Baroda.
3324.	Kamaleshchandra Shrivastav Jayanti prasad	Ay. Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1975	6861 2-4-79	C/o Jayantiprasad, Behind Jubili-bag, Narhari Maharaj Marg, At. Baroda.
3325.	Kamaleshkumar Dubo Ramnarayanji	B.A.M.S., Indore Univ., 1976	8748 19-4-83	At. Baidiya, Dist. Khagaun (M.P.)
3326.	Kamleshkumar Gajjar Himmatlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9303 6-6-85	580/2, Pahhiya's Pole, Rillf Road, A'bad-1.
3327.	Kamleshkumar Lalani Musabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3338 7-2-72	Opp. Kadari Sahobis Chali, Raikhad, A'bad.
3328.	Kamaleshkumar Nayak Jitharabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7653 28-3-80	C/o M/s Khangarji Dayalji, Nanuman Bazar, At Dahod, Dist. Panchmahal.
3329.	Kamaleshkumar Patel Zinabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8485 3-8-82	At & Post Unai, Tal. Vasada, Dist. Valsad.
3330.	Kamleshkumar Patel Zinabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9457 10-1-86	At. & P.O. Sarodhi, Via. Udwada, Tal. Paradi, Dist. Valsad.
3331.	Kamaleshkumar Pathak Narmadashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4637 5-3-75	Ghadiyali Pole, Kola Khadi, Opp. Ratan, Pole, At Baroda.
3332.	Kamleshkumar Shah Punamchand	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9518 1-7-86	D/54, Omnagar Society, Ajva Road, At. Baroda-19.
3333.	Kamaleshkumar Shukla Gautam prasad	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1978	6714 9-3-79	Ranjit Hou. Colony, B.No. B. 8, Flat No. 340, Behind Rathi Colony, Jamnagar.
3334.	Kamleshkumar Trivedi Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6355 4-10-78	Vaidya Bhuvan, Brahmipole, At Dakor, Dist. Kheda.
3335.	Kamini Desai Madhukar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9166 17-10-84	8, Sindhur Society, Near Ishar Bhavan, Navrangpura, A'bad.
3336.	Kamuben Patel Narayanbhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1947	508 10-1-47	1, Vijay Society, New Khande- rao Road, Baroda.
3337.	Kamuben Solanki Khemchand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5245 5-3-76	61/2, Muni, Staff Qua, Outside Shahpur Gate, A'bad.

1	2	3	4	5
3338.	Kanabhai Jadhav Masaribhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course Gujarate, 1966	2124 1-8-66	At Budhecha, Post Chaorvad Via Kukasvada, Tal. Malia Hatina, Distt. Junagadh.
3339.	Kanabhai Vagh Merakhibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5815 6-6-77	At Miti, Tal. Mangarol, Distt. Junagadh.
3340.	Kanailal Mashru Odhavji	Vaidyacharya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1969	6815 22-3-79	At Babara Gir, Tal. Malia Hatina, Dist. Junagadh.
3341.	Kanaiyalal Vaidya Sindhubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7902 14-11-80	31, Keshavbag Co-op. Hou. Society, Opp. Govt. Officers Colony, Meghaninagar, A'bad.
3342.	Kanaiyalal Bhatt Ambashanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1963	810 16-1-63	At Vallabhipur, Via Dhola.
3343.	Kanaiyalal Desai Jashavantray	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1959	393 31-3-60	Kotma, At Vyas, Distt. Surat.
3344.	Kanaiyalal Divyeshwar Kalidas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1953	376 1-4-54	H. No. 1-8/518/1, Sikkapali. Hyderabad-20
3345.	Kanaiyalal Ghodasaz Laxmidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5970 28-11-77	At Barula, Via Shorbag, Tal ¹ Maliya, Hatina, Distt., Juna gadh.
3346.	Kanaiyalal Jani Jayantilal	Ayurved Visharad, Board of Indian Medicine, Saurashtra 1960	2194 27-6-60	At Pithvadi, Via Savarkundala, Distt. Bhavnagar.
3347.	Kanaiyalal Joshi Balkrishna	D.S.A.C., C.S. Ay. Course Maharashtra 1958	216 2-1-59	17, Mansen Building, Bahgang Cross Lane, Valkeshwar, Bom bay.
3348.	Kanaiyalal Joshi Someahwar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7731 29-5-80	At & Post Timbagan, Tal. Godhara, Dist. Panchmahal.
3349.	Kanaiyalal Kalavani Gulabrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8651 10-2-83	At. Rohishala, Via. Ningala Jn., Tal. Botad, Dist. Bhavnagar.
3350.	Kanaiyalal Mavani Govindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2973 16-6-70	H. No. 6-670, Moti Sheri, Lal Darwaja, Surat-3.
3351.	Kanaiyalal Mehtra Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4733 3-4-75	At Bamanva, Tal. Dashada, Distt. Surendornagar.
3352.	Kanaiyalal Nimbark Gulabdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8511 27-8-82	At & Post Dihor, Tal. Talaja Via & Dist. Bhavnagar-364 151.
3353.	Kanaiyalal Patel Khushaldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8142 21-8-81	At & Post Vadsar, Tal. Kalol, Dist. Mehsana.
3354.	Kanaiyalal Patel Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8491 9-8-82	At Dadarada, Tal. Chansana, Post Gambhu, Dist. Mehsana.
3355.	Kanaiyalal Patel Bhalidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8688 3-3-83	At. & Post Pogalu, Tal. Prantij, Dist. A'bad.

1	2	3	4	5
3356.	Kanaiyalal Patel Amathalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8864 1-11-83	Near Bus Stand, At. & Post Jagana, Tal. Palanpur, Dist. Banaskantha.
3357.	Kanaiyalal Rajgore Ganapatram	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1965	1691 2-6-65	At Dabhad, Tal Kheralu, Distt. Mehsana.
3358.	Kanaiyala Raval Vasudev	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3642 9-10-72	At Kalyanpura, Tal Kadi, Distt. Mehsana.
3359.	Kanaiyalal Raval Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	6943 25-4-79	1353/2, Khijadavalo Vas, Mitha- khali, Ellishbridge, A'bad.
3360.	Kanaiyalal Raval Manishanker	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1946	7580 3-3-80	At Sarala, Tal. Muli, Dist. Surendranagar.
3361.	Kaniyalal Shah Chandulal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1958	2049 2-8-58	1, Anuradha Society, Panigate Baroda.
3362.	Kanaiyalal Shah Gokaldas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra. 1960	1129 12-2-62	9-A, Chandrabek Society, Man- galpur, Baroda.
3363.	Kanaiyalal Shah Chunilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4137 12-12-73	Denai Falia, At Halol, Distt. Panchmahal.
3364.	Kanaiyalal Shah Shivlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5901 20-9-77	C/o Govindlal Shivlal Co, At Dhansura, Tal Modasa, Distt. Sabarkantha.
3365.	Kanaiyalal Shah Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6031 16-2-78	C/o Shah Natvarlal Jetjalal, Vasan's Vepari, Kansarabazar, At Dhukh, Distt A'bad.
3366.	Kanaiyalal Sharma Hiralal	B.S.A.M., Gujarat Ay Univ., 1970	3109 5-2-71	27, Vallabhagar Society, Near Market Yard, At Kalol, Distt. Mehsana.
3367.	Kanaiyalal Thakar Somnath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4676 21-3-75	At Ajol, Tal Vijapur, Distt. Mehsana.
3368.	Kanaiyalal Trivedi Babashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5549 28-9-76	63, New Kamdarnagar Society, Odhav Road, Odhav, A'bad.
3369.	Kanaiyalal Upenday Jadavji	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi. 1963	6735 12-3-79	Navapara Chowk, Opp. Swami Narayan Temple, At Palitana. Diar. Bhavnagar.
3370.	Kanaiyalal Vyas Premanand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5601 17-11-76	At Pal, Tal Choryasi, Distt. Surat.
3371.	Kanaiyalal Zanameriya Dandardas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4589 12-12-74	Cpp Lipaton Tea Depct, Near Poradi Chora, At Vanthali, Distt Junagadh.
3372.	Kanaiyalal Zaveri Motichand	D.A.S.F., Fac of AUSM, Pombay. 1953	262 1-5-56	C/o Krishna Radio Clinic, Cpp. Rang Mahal School, At Kham- bhalia, Distt. Jamnagar.
3373.	Kanajibhai Bhadaliya Nirajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7576 1-3-80	At Khirsari, Via Bhayavadar, Tal. Upalota, Dist. Rajkot.

1	2	3	4	5
3374.	Kanajibhai Parmar Ganpatbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	6693 3-3-79	At Sheratha, Tal. & Distt. Gandhinagar.
3375.	Kanak Gandhi Mathradas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7330 15-10-79	Gandhi Clinic, Jogananek Road, At Dwarka, Dist Juna- gadh.
3376.	Kanakben Shukla Rushikesh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5812 24-5-77	Alkapuri, Vadivad, Near Sara- bhai At. Baroda-7.
3377.	Kanakkant Joshi Rantilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1963	215 19-6-63	Near Talav, At. Karvan, Tal Davhol, Distt. Baroda.
3378.	Kanakkumar Adhvaryu Madhusudan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5189 21-2-76	Kinakhavala's Gali, Dave Street At Surat.
3379.	Kanaklatta Shah Mahasukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6662 28-2-79	Gusaparekh Polo, Madangopal Haveli, A'bad.
3380.	Kanakpuri Goswami Gangapuri	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1978	7122 17-7-79	32, Shanker Society, Dudh Sagar Dairy, At Mehsana.
3381.	Kanakray Dave Ambashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5358 20-4-76	C/o Dr. A.H. Dave, At Jam- kandorana, Distt. Rajkot.
3382.	Kanakray Padla Amrutrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8450 15-6-82	C/o Shri Amrutlal Kuraji Padla, Hanumanvali Gali, Meta Chowk, At jetpur, Dist. Rajkot.
3383.	Kanaksila Patel Manibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5240 5-3-76	Samarpan Clinic C-1/16, Muni Tarnkant, Gotlavadi, Surat-4
3384.	Kanaksinh Bhariya Himmatsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay Univ., 1972	4014 24-8-73	At Pichvada, Tal. Zaghadiya, Distt. Broach.
3385.	Kanaksinh Kosamiya Dhirajsinh	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9467 11-2-86	Kyorwel Clinic, At. Dhara, Tal. Karej, Dist. Surat.
3386.	Kanaksinh Zala Khimabhai	M.D. (Ay) Gujarat Ay. Univ., 1976	8307 5-2-82	Laxmisadan, Gurudwara Road. Jamanagar.
3387.	Kanaksinhji Solanki Shivsinhji	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay. 1949	1326 31-5-49	At Janod, Tal. Balasionor, Distt. Kheda.
3388.	Kanchanal Pandya Chhotalal	Ayurved Visharad, M.S. Univ., Baroda 1941	2002 1-12-42	At Gundicha, Tal. Sankhoda Distt. Baroda.
3389.	Kanchanal Purohit Jivanlal	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda. 1967	6889 12-4-79	At Khervadi, Tal. Baghodia, Dist. Baroda.
3390.	Kandarbhakumar Joshi Kanaiyalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5225 27-2-76	37, Virnagar Society, Nava Vadaj, A'bad-13.

1	2	3	4	5
3391.	Kandarpa Desai Ratilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1963	9060 25-5-84	180, Adinath Nagar, Vibhag-1, Odhav, Road A'bad.
3392.	Kanibhai Patel Thakarshibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4686 24-3-75	1059/2, Bava's Chali Near Chhalla Kuva Gomatipur, A'bad.
3393.	Kanji Dharia Puna	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3695 27-11-72	Baharpara, At. Manavadar, Distt. Junagadh.
3394.	Kanji Koyani Bhadabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3542 8-8-72	At & Tal. Jam Kandorna, Distt. Rajkot.
3395.	Kanji Patoliya Shamjibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9358 21-8-85	At. Moti Khodiyar Tal. Mandarada, Distt. Junagadh.
3396.	Kanji Virani Kakhamanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3669 25-10-72	At. Dhank Tal Upaleta, Distt. Raj.
3397.	Kanjibhai Chudasama Samantbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3680 13-11-72	At. Divasa, Tal. Mangaril, Distt. Junagadh.
3398.	Kanjibhai Panara Devabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3262 11-10-71	At. Kasbara, Tal. Khambhat, Dist. Kheda.
3399.	Kanjibhai Shersiya Dharamshibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4050 15-9-73	At. mani Bazal, Via Dehisara, Tal. Mahiya Miyana, Distt. Rajkot.
3400.	Kanoj Kumar Boni Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4053 17-9-73	At. Umedgadh, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
3401.	Kansiyalal Modi Manilal	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1963	7566 29-2-80	At. Sultanpura, Tal. Bhandadhra, Distt. Surendranagar.
3402.	Kansiyalal Panohal Mangaldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8077 7-5-81	At. & post Telnar, Tal. (Kapadvan), Distt. Kheda.
3403.	Kanta Pithadia Mathuradas	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1965	1889 15-12-65	C/o Dr. S.T. Joshi, Limdalime, Jamnagar-361001.
3404.	Kantaben Patel Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2776 28-5-69	C/o Dahyabhai V. Patel At. Ashi, Via Anand, Distt. Kheda.
3405.	Kantaben Patel Ranchhodbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3848 2-3-73	C/o Dineshbhai P. Patel, At. Badod, Tal. Sankheda; Distt. Baroda.
3406.	Kantibhai Patel Thakorabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4312 2-4-74	At & post Sinor, Tal. Sinor, Distt. Baroda.
3407.	Kantibhai Patel Ganeshbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5251 5-3-76	At. Moti Rajtal; Tal. Viramgam, Distt. A'bad.
3408.	Kantibhai Patel Kalabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6933 17-4-79	At. Palhachal, Tal. Prantij, Distt. Sabarkantha.
3409.	Kantibhai Patel Punjiram	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9301 6-6-85	At. Trasward, Post Bhalak, Tal. Kheralu, Distt. Mehsana.
3410.	Kantibhai Rana Maganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6449 28-12-78	Opp. Leua, Patel's Wadi, At. Padara, Distt. Baroda.
3411.	Kantibhai Rathod Khodabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9168 13-11-84	At. Motipura, Tal. Dahegam, Distt. A'bad.
3412.	Kantilal Manishanker	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	7154 25-7-79	At. Samadhiyala, Post Mondarada, Distt. Junagadh.
3413.	Kantilal Asar Jivabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8490 9-8-82	At & Post Rayaingpur Tal. Bhiloda, Distt. Sabarkantha.

1	2	3	4	5
3414.	Kantilal Bagthariya Girdharbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6446 28-12-78	At. Bbankh, Via Supedi, Dist. Rajkot.
3415.	Kantilal Bagtharia Vallabhdas	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ., 1980	8222 17-11-81	Asha Clinic, Opp. Dena Bank, Ambika Bhuvan, Asanpur,, A'bad.
3416.	Kantilal Barodolia Vrūjilal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1963	783 7-8-63	Lal Darwaja, Piplal Sheri, Surat-3.
3417.	Kantilal Bhatt Hariprasad	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1948	812 31-7-48	Medical Officer, At. Tadkeshwar, Via Kim, Distt. Surat.
3418.	Kantilal Bhatt Gokaldas	Ayurved Visharad, Board of I. M. Saurashtra 1959	2222 28-2-59	Near Gadavav, At. Madhavpur Via Keshod, Distt. Junagadh.
3419.	Kantilal Bhatt Purshottam	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3647 9-10-72	At. Gandhara, Ganpatpura, Tal. Karjan Distt. Baroda
3420.	Kantilal Bhatt Shankarlal	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1948	7723 29-5-80	Behind Bahucharaji, Temple, Pan- chashwar Chowk, At Jamnagar.
3421.	Kantilal Desai Trikamlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	394 1-7-54	Baroti Bazar, At. Vadnagar, Tal. Kheralu, Distt. Mehsana
3422.	Kantilal Desai Kashiramabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3130 17-2-71	Javshar Road, Parnakutir, At. Rajula City, Distt. Amreli.
3423.	Kantilal Doshi Amathalal	D.A.S.F., C.S. Av. Course, Bombay 1949	449 10-2-50	At. Dabhad, Tal. Kheralu, Distt. Mehsana.
3424.	Kantilal Doshi Amathalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1952	2257 1-8-52	Mahavir Clinic, Limda Sheri, Hari- pura, Near, Vallabheshwar, Mahadev Surat-395003
3425.	Kantilal Gandhi Naranji	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1960	7149 25-7-79	Near Jamma Masjid At. Jamnagar.
3426.	Kantilal Gor Bhailal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1962	2954 22-4-70	Dr. Gor's Bangala, Gandhi Road, Malad, Bombay.
3427.	Kantilal Hirpara Jivraj	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8613 28-12-82	At. Bhalgam, Post Bilakha, Tal. & Distt. Junagadh.
3428.	Kantilal Jethava Govindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	5125 15-1-76	At. Gopalgram, Via, Chhalal, Tal. Dhari Distt. Amreli.
3429.	Kantilal Jivani Gordhandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3942 7-5-73	At. Supedi, Tal. Dhoraji, Distt. Rajkot.
3430.	Kantilal Joshi Vithaldas	L.A.M., U.P. Ay. Mahavidyalaya, Patan 1934	217 8-10-41	Asoplav Street, At. Idar, Distt. Sabarkantha.
3131.	Kantilal Joshi Narbheshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4253 14-3-74	At. Ghudsiya, Tal. & Distt. Jam- nagar.
3432.	Kantilal Joshi Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2891 2-2-70	At. Sinjh, Tal. Mahemdavad, Distt. Kheda.
3433.	Kantilal Kabarawala Devchandbhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	105 23-11-62	12, Lubdar Pole, Shah Pole, Surtat.
3434.	Kantilal Kakkad Rattilal	Ayurved Bhishak, A.I. Av. Vidyapeeth, Delhi 1976	6549 12-2-79	Lasmivadi, Main Road, Raman Nivas, Rajkot.
3435.	Kantilal Kataria Laluji	B.S.A.M., Gujarat Aa. Univ., 1981	8599 13-12-82	At. Ramela, Post Daboganada, Tal. Bilioda, Distt. Sabarkantha.
3436.	Kantilal Kotadiya Laxmidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7666 22-4-88	At. Muthal, Tal. Mangarol, Distt. Junagadh.
3437.	Kantilal Kotadiya Kachharlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1959	122 1-12-59	At. Berana, Tal. Himmat Nagar, Distt. Sabarkantha

1	2	3	4	5
3438.	Kantilal Kubabat Laldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5106 1-1-76	C/o Dr. Ashwinkumar Laldas, At. Sanand, Distt. A'bad.
3439.	Makwana Kantilal Manganlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2063 21-6-66	At & Post Memadpur, Tal. Vadgam, Distt. Banaskantha
3440.	Kantilal Mathani Burlabhaji	Vaidyacharya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	7098 10-7-79	Navapara, Near Bhiddhanjan, Nehera's At Bhavnagar.
3441.	Kantilal Mehta Bhikhabhai	A.V.V., T.M. Vidyapeeth, poona 1943	896 3-11-41	At. Vedgam, Distt. Banaskantha.
3442.	Kantilal Mehta Zaverchand	Ayurved Visharad, Board of I.M. Saurashtra 1958	2227 15-3-58	At Neknam, Via Tankhara, Tal. Morbi, Distt. Rajkot.
3443.	Kantilal Mehta Prataprai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3064 15-10-70	At Honol, Via Bongadh, Distt. Bhavnagar.
3444.	Kantilal Mistri Nathalal	G.F.A.M., Fac of AUSM, Bombay 1963	1348 16-11-63	At. Vankaner, Distt. Rajkot.
3445.	Kantilal Modhya Punamchand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6159 16-5-78	At. Doli, Tal. Santrampur, Distt. Panchmahal.
3446.	Kantilal Naheru Tulsidas	Ayurved Visharad, M.S. Univ. Baroda 1952	2647 4-9-52	16, Bavsar, Plot, Sheri No. 16, Jain Temple, Gali At. Marbi, Distt. Rajkot.
3447.	Kantilal Nathvani Girdharilal	M.A.S.F., G.C.S.F., Ay Med. W.B (Now P.B. Ay. Parishad, Calcutta) 1969	8308 5-2-82	Davavala Para, Jetpur, Distt Rajkot
3448.	Kantilal Padliya Karashanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3973 20-7-73	At. Paneli Moti, Tal. Upaleta, Distt. Rajkot.
3449.	Kantilal Panot Motilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4913 9-7-75	At. Dihor, Tal. Talaja, Distt. Bhavnagar.
3450.	Kantilal Parekh Amarsingh	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2748 13-3-69	At. Menekvada, Via Keshed, Distt. Junagadh.
3451.	Kantilal P armar Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5501 25-8-76	Amrutnagar Hou. Society At. Mansa, Distt. Mehsana.
3452.	Kantilal Patel Muljibhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	1545 2-1-54	Masar Road, Tal. Padra, Distt. Baroda
3453.	Kantilal Patel Goopalji	D.S.A.C., Fac. of AUSM, Bombay 1954	511 1-10-54	At. Dhamrad, St. Kim, Tal. Ankleshwar, Distt. Broach.
3454.	Kantilal Patel Punjalla	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1958	512 2-1-59	D-2, Sardarkunj Society, Bahai Centre Shahpur, Ahme dabad.
3455.	Kantilal Patel Vitthaldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3017 5-8-70	At. Akodara, post Vishwamanga], Via & Tal. Himmatnagar, Distt. Sabarkantha.
3456.	Kantilal Patel Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3314 17-1-72	At. Chuval Dangarva, Tal. Viramgam, Distt. A'bad.
3457.	Kantilal Patel Shankerlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3661 19-10-72	At. Kareli, Post Mota, Tal. Palsana Distt. Surat.
3458.	Kantilal Patel Bhudarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4307 2-8-74	At. Kahoda, Vijatvas, Tal. Siddhapur, Distt. Mehsana.
3459.	Kantilal Patel Karshandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4416 21-6-74	At Rajpur, Tal. Himmatnagar, Distt. Sabarkantha.
3460.	Kantilal Patel Chholabhaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4529 27-9-74	At. Shipor, Tal. Kherelu, Distt Mehsana.

1	2	3	4	5
3461.	Kantilal Patel Prabhudas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4763 9-4-75	At. Dhesia, Via Lunavada, Distt. Panchmahal.
3462.	Kantilal Patel Narayandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4893 17-6-75	At & Post Sanoda, Tal. Dahegam, Distt. A'bad.
3463.	Kantilal Patel Somabhai	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti Baroda, 1973	6645 26-2-79	Chhitrala's Vas, opp. old School, At. Jambala, Tal. Kalal, Distt. Mehsana.
3464.	Kantilal Patel Kashiram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	8375 18-3-82	At. Hajipur, Post Bhankar, Tal. Sidhapur, Distt. Mehsana.
3465.	Kantilal Pavagadhi Tribhovandas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	1375 26-12-63	At & Post Khanpar, Via Morabi, Distt. Rajkot.
3466.	Kantilal Rathod Gokaldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4707 29-3-75	At. Motimarad, Via Dhoraji, Distt. Rajkot.
3467.	Kantilal Rathod Babilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7565 29-2-80	At. Patrasar, via Majevasi, Tal. & Distt. Junagadh.
3468.	Kantilal Raval Bhogilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1941	2491 3-11-41	Medical Officer, At. Kungher, Tal. Patan, Distt. Mehsana
3469.	Kantilal Samani Valjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3883 23-3-73	At. Bhayavadar, Tal. Upleta, Distt. Rajkot.
3470.	-Kantilal Sayagor Devshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8149 3-9-81	At. Dadar (Gir), Via Sarasal, Tal. Visavadar, Distt. Junagadh.
3471.	Kantilal Shah Bhogilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1946	2115 1-10-46	At. Akhund, Via Talod, Distt. Sabarkantha.
3472.	Kantilal Sheth Manilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1960	1376 26-12-63	Medical Officer Allopathic Dispen- sary, At. Bajana, Distt. Surender nagar.
3473.	Kantilal Shah Kacharabhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1850 26-11-65	Sutharbada, Near old Post, Vijapur, Distt. Mehsana.
3474.	Kantilal Swaminarayan Odhavji	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	1333 3-1-55	28, Prahalad, Plot Manuila At. Rajkot.
3475.	Kantilal Thakkar Ratilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1950	268 30-12-50	Ward No. 2/B, Plot No. 305, Near- Railway Station Adipur, Kutch 370205
3476.	Kantilal Trambadia Jarajbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4055 19-9-73	Opp. Mali Vorvad, At. Bardoll, Distt. Surat.
3477.	Kantilal Trivedi Manilal	Ayurved Visharad, M.S. Univ., Baroda 1941	3304 8-10-41	Mun. Servant Society, Near Pilot Dairy, Kankariaroad, A'bad.
3478.	Kantilal Vachhani Manjibhai	B.S.A.M., Kanpur Univ., 1974	4884 17-6-75	At. Kolaki, Via Upleta, Distt. Rajkot.
3479.	Kantiprasad Pandya Girjashanker	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	7054 21-6-79	At. Dudhala, Tal. Dhari, Dist. Amreli.
3480.	Kantiram Mesvaniya Jaduram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4632 1-3-75	At & Post Alidar, Tal. Kedinor, Distt. Amreli.
3481.	Kanubhai Barvaliya Tulasibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4670 20-3-75	At. Tharadi, Tal. Savitribai, Distt. Bhavnagar.
3482.	Kanubhai Bhatt Mulajibhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2389 15-2-67	Ayu Research, Ward G.1. New Civil Hospital, A'bad.
3483.	Kanubhai Bhavsar Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4731 1-4-75	At. Tankal, Via Rankuva, Tal. Chikhali, Distt. Valsad.

1	2	3	4	5
3484.	Kanubhai Bhavsar Chunilal	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1979	9038 10-5-84	At Bamangam, Tal. Borsad, Dist. Kheda.
3485.	Kanubhai Chauhan Jivarambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	6369 13-10-78	At. Samani, Tal. Dholaka, Dist, A'bad.
3486.	Kanubhai Chavada Khatabhahi	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	7299 20-9-79	At Batha, Tal. Talaja, Dist. Bhav- nagar.
3487.	Kanubhai Chovadiya Vallabhbai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3204 20-7-71	At Koriyachad, Tal. & Dist. Amreli.
3488.	Kanubhai Dave Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8317 10-2-82	At Mota Kalodara, Tal. Khambhat Dist. Kheda.
3489.	Kanubhai Desai Moghajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4574 20-11-74	At Vasai Tal. Idar, Dist. Sabarkantha
3490.	Kanubhai Joshi Nageshwar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6769 21-3-79	At Mota Fofalia, Tal. Shinor, Dist. Baroda.
3491.	Kanubhai Makvana Deshajji	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	878 26-18-62	At Bhrugupur, Via Chuda Distt Surendranagar.
3492.	Kanubhai Modh Gordhanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8620 13-1-83	Panchalvas, At. Lakhavad, Tal. & Dist. Mehsana.
3493.	Kanubhai Nadoda Ranmalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1983	9120 23-8-84	At & post Baapa Tal. Sami. Dist. Mehsana.
3494.	Kanubhai Parekh Gordhandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4471 30-8-74	Parekh Fali (Chorava) At Bavla, Tal Dholaka, Distt. A'bad.
3495.	Kanubhai Parmar Becharbhai	A.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1962	668 3-8-62	Parmar Clinic, At Bodaka, Via Dharal, Distt. Jamnagar.
3496.	Kanubhai Patel Purushttamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4351 23-4-74	At Ravad, Tal. & Dist. Baroda.
3497.	Kanubhai Patel Nathabhahi	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4742 5-4-75	At Kanjal, Tal. Kapadvanj Distt. Kheda.
3498.	Kanubhai Patel Bhagubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7383 19-11-79	At Uagat, Tal. Nayari, Dist. Valsad
3499.	Kanubhai Patel Mangabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7752 3-7-80	Moti Fali At. More Bhagal, Rander Dist. Surat.
3500.	Kanubhai Patel Nathibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8174 22-9-88	At & post Salad, Tal. Pranji Dist. Sabarkantha
3501.	Kanubhai Patel Atmarambhai	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ., 1981	8663 10-2-83	7, Adarsh Society, Near Rameah- war Mahadev, Meghani nagar A'bad-16
3502.	Kanubhai Patel Mafatlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9550 18-8-86	At. Lihoda-384172, P.O. Dasaj, Dist. Mehsana
3503.	Kanubhai Shah Ramanlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1962	1128 31-7-63	Bazar's Chhora, Udepur, Dist Baroda
3504.	Kanubhai Sheladiya Govindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4889 26-6-75	At Mota Samadhiyala, Via Chhalala Tal. Khambha, Distt Amreli.
3505.	Kanuglr Gowsami Dayaglr	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3279 2-11-71	At Shahera, Tal. Padra, Distt Baroda
3506.	Kanulhai Bakula Kanulhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7845 10-10-80	C/o K.K. Shah, opp. Bank of Baroda Sabarmati, A'bad.

1	2	3	4	5
07.	Kapali Pandya Kumudchandra	M.D. (Ay) Gujarat Ay. Univ., 1976	6170 20-5-78	C/o K.G. Pandya S.P. M., At Tal Khambhalia, Distt Jamnagar.
08	Kapila Leuva Chunibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8730 19-4-83	746/4982, Shriji Vidhyalaya, Bapunagar, A'bad-24
09.	Kapilrai Vaidya Keshavlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1949	1021 20-9-49	Medical Officer At. Limbadi Distt. Surendranagar.
10.	Karanshi Bhadaja Jivraj	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7292 20-9-79	At & post Khad, Pipali, Via & Tal. Mendarada, Dist. Junagadh.
1.	Keramshi Khachhadia Kadavabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2765 11-4-69	At Kamalapur, Via Jashadan, Distt Rajkot.
12.	Karamshi Vamza Goradhan	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1962	1011 23-11-62	Patel Chowk, At. Vanthali, Distt Junagadh.
13.	Karansinh Charola Mohabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4986 17-10-75	At Karala (Haripur) Tal Morabi, Distt. Rajkot.
15.	Karansinh Baroad Udesinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5270 9-3-76	At Gangava, Tal. Danta, Distt. Banaskantha.
15.	Karansinh Patel Nathubhai	B.A.M.S., Univ., of Gujarat 1965	1870 6-12-65	Ambaji, Chakla, Khadi Falia, At Post, Randor, Tal Cheryashi, Distt. Surat.
16.	Karchanbhai Patel Narayandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4863 29-5-75	At Rupal Haripura, Tal & Distt. Mehsana.
17.	Kardam Pancholi Balkrishna	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5505 25-8-76	D/B, No. 4, Parsottamnagar, At & Post Maneja, Distt. Baroda.
18.	Karashanbhai Dekavadiya Dharamsiabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3303 3-12-71	At Kherva, Tal Patdi, Distt. Surendra- nagar.
9.	Karshanbhai Nahar Somnath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5010 20-10-75	At Kunpur, Tal Viramgam, Distt A'bad.
10.	Karshanbhai Nahar Bhavanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5178 18-2-76	At Kanpur, Tal Viramgam, Distt. A'bad.
11.	Karshan bhai Patel Jethabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	8865 1-11-83	At. & Post Kamaliwada, Tal. Patan, Dist. Mehsana.
12.	Karshanbhai Prajapati Kasharabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4464 29-8-74	At Sardar Pur, Tal Vijapur, Distt. Mehsana
13.	Karshanbhai Prajapati Mohabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4734 3-4-75	At Old, Shedhali, Post Dangarva, Distt. Mesana.
14.	Karshanbhai Gachchhar Govindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6279 20-9-78	At & Post Chhattar, Tal. & Via. Kalavad (Shitala), Dist. Jamnagar.
15.	Karshandas Banidhariya Kahandas	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1961	7236 29-8-79	At Vijapur, Distt. Junagadh.
16.	Karshan Das Kanani Laljubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3226 10-8-71	At Gomata, Post Baldana, Tal Lim- badi, Distt Surendranagar.
7.	Karsukhbhai Sanghavi Amrutlal	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1963	6542 12-2-79	At Mota Kotada, Tal Visavadar Dist. Junagadh.
8.	Karuna Parmar Bhikhubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7515 15-2-80	18/33, Udhonagar Colony, At Rajkot
9.	Karunaben Chaudhari Dhanabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8751 11-5-83	At. & Post Songadh (Navagam) Tal. Fort Sonagadh. Dist. Surat.
0.	Kshama Bharadwaj Ganpatram	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9488 24-3-86	Subandhu, 14/B, Kotechanagar, Sheri No. 1, Dist. Rajkot.

1	2	3	4	5
3531.	Kashiram Pandya Dholubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6466 15-1-79	Vanakarvas, At Lodra, Tal Vijapur, Dist. Mehsana.
3532.	Kashiram Patel Madhavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5030 11-11-75	At Hajipur, Post Bhukhar, Tal Siddhapur, Distt. Mehsana.
3533.	Kashmira Bhatt Chaitankumar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9363 2-9-85	8, Suvidhinath Society, Shantivan, Paladi, Narayannagar Road, A'bad-7.
3534.	Kashmira Kothari Mulajibhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1961	126 1-8-63	C/o. Mohan lal N. Dishi, At Him- matnagar. Distt Sabarkantha.
3535.	Kashmira Nayak Kundanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8199 12-10-81	Shantisadan, Nayaknagar, At A'bad
3536.	Kashivishvanath Vyas Parhladji	L.A.M., U.P. Ayurved Mahavidyalaya Patan 1940	1089 25-7-40	Brahman Sheri, At Unja, Tal Siddhapur.
3537.	Kashyap Raval Ramaniklal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	8956 12-3-84	Ambalia, At. Limbadi, Dist. Su- rendranagar.
3538.	Kastulbhai Patel Chaturbhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1680 27-5-65	C/o Dr. Chaturbhai K. Patel B. No. 17, Mangalpark Society, Gajar- avadi, Yamuna Mill Rd., Baroda.
3539.	Kasturbhai Suthar Bhagvandas	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1965	1973 15-3-66	Undi Khadki, Tal Savli, Distt. Baroda.
3540.	Kasturmal Sankhala Pramsukh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4207 18-2-74	Rajpur Tolnaka, Chokasi's Dhaba Walichal, R. No. 1751/33, A'bad.
3541.	Katarsinh Chhatalani Labhsinh	Ay. Rtna, H.S.S. Prayag 1966	8848 6-10-83	Tilakpark Society Harani Road, At. Baroda.
3542.	Kaushik Dave Nanalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7430 12-12-79	177-/B, Devendra Society, Naran- pura, A'bad.
3543.	Kaushik Joshi Harshadrai	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1963	1503 1-8-64	Medical Officer, Prathmik Arogya Kendra, At Jamkhadi, Via Rami- amba, Tal Kille-Songadh, Distt Surat.
3544.	Kaushik Lubhani Kakubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9420 2-12-85	3/Ramnathpara, At. Rajkot-1
3545.	Kaushik Shah Pramodray	R.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9418 2-12-85	At. Sadra, Tal. Dahegam, A'bad.
3546.	Kaushik Vyas Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7840 9-10-80	10-A, Sangita Society, Naranpura, Opp. Ankur, A'bad.
3547.	Kaushikaben Patel Ramchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8610 28-12-82	2/43, Ambaji Chowk, Rander, At & Post Surat.
3548.	Kaushikdhar Bhatt Bhanudhar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3179 16-4-71	Bhulapole, At Mahondabad, Distt Kheda.
3549.	Kaushik kumar Desai Kasharalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6379 27-10-78	Zaverivad, At & Post Birpur, Tal. Balashinor, Dist. Kheda.
3550.	Kaushik kumar Lashkari Dhirajram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8566 20-10-82	234/2 B, Shri Ramkrupa, Dev Chakala, Khokhara Mahendavad, A'bad.
3551.	Kaushik kumar Pathak Hariprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5398 13-5-76	At Ganeshpura, Tal Vaghodia Distt. Baroda.
3552.	Kaushikkumar Shukla Shivshankar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6741 15-3-79	Vyas Falia, At Maholol, Tal. Go- dhare, Dist. Panchmahal
3553.	Kaushik kumar Trivedi Bhanuprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6172 6-6-78	Brahmpole, At & Post Gamadi, Tal Anand, Distt. Kheda.

1	2	3	4	5
3554.	Kaushikkumar Vaidya Navnitlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8433 17-5-82	Dave Mahalla, At Gandevi, Via Dilimora, Dist. Valsad.
3555.	Kaushalaya Ganatra Rameniklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	7929 29-12-80	17, Kalyannagar Society, College Road, At Junagadh.
3556.	Kaustubkant Pandya Manilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	740 22-3-63	Bhimnath Road, Sankheda, Distt Baroda.
3557.	Kavita Raghani Shrichand	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1969	3548 17-8-72	E-Ward, Room No. 253, Kubar- nagar, Post Sardarnagar, A'bad
3558.	Kazimali Mominali	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6470 19-1-79	Manika Build., Flat No -1, Behind Motar Hou., At Jamnagar.
3559.	Kedarbhai Projapati Sombhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3253 1-10-71	At Pandarvada, Tal Lunavada, Distt. Pauchmahal.
3560.	Kedarnath Yagnik Pratapray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4324 8-4-74	Savita Sadan, Bhat's Amali, At Jamnagar.
3561.	Keshav Rathod Naran	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1957	6949 1-5-79	At Thoyana, Tal. Ranavav, Dist. Junagadh.
3562.	Keshabhai Patel Joitaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3256 5-10-71	Nava Kachhala's Annat Bhuvan, At Lodra, Tal, Vijapur, Distt Mehsana.
3563.	Keshabhai Vankar Jivanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5159 7-2-76	At Gavada, Tal Vijapur, Distt. Meh- sana.
3564.	Keshavbhai Patel Sankalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3986 31-7-73	At Muval, Post Bharoda, Tal Bala- snor, Distt Kheda.
3565.	Keshavbhai Tirgar Punjabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7639 20-3-80	At Gabat, Tal. Bayad, Dist. Sabar- kantha.
3566.	Keshavchandra Barot Chhatrasinh	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1960	792 23-10-61	Sultanpura, Golwad, Baroda.
3567.	Keshavji Kathagara Karamjhibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3919 13-4-73	At Rangola, Via Sanesara, Distt. Bhavnagar.
3568.	Keshvlal Godhani Gopaldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3438 14-3-72	At & Post Linbuloy Via Bantava, Distt Junagadh.
3569.	Keshavlal Harkhani Karshanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4959 4-10-75	Nirmal Nagar, Chanbudakripaj Plot No. 80, At Bhavnagar.
3570.	Keshavlal Javiya Panchanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5767 26-4-77	At Bhimora, Tal Upalata.
3571.	Keshavlal Jani Jayshanker	L.A.M., U.P. Ay. Mahavidyalaya, Patan, (Baroda State) 1939	195 23-9-39	Dolaranana Vasana, Tal Dahegam, Distt. Ahmedabad.
3572.	Keshavlal Joshi Harilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2463 14-4-67	C/o Harilal Gaurishanker Joshi, Zandu Pharmacy, Ajanti-Dhola-Jn, Tal. Umrata, Distt. Bhavnagar.
3573.	Keshavlal Patel Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5582 18-10-76	At Haripura, Tal Aadi, Post Detroj, Distt. Mehsana.
3574.	Keshavlal Patel Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	7757 16-7-80	At Ambagam, Tal. Bayad, Dist. Sabarkantha.
3575.	Keshavlal Prajapati Shivlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1955	777 1-8-57	At Ambalasan, Distt, Mehsana.
3576.	Keshavlal Thakkar Motilal	Ay. Madhyama, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1979	8875 1-12-83	1, Hirabag Society, Behind Ram- bag, Maninagar A'bad-8.

1	2	3	4	5
3577.	Keshavlal Thumar Ladhabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	8903 24-1-84	At. Navagam (Bilakha), Post. Bilalkha Tal. & Dist. Junagadh-362110.
3578.	Keshavlal Vadafia Laljibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3877 16-3-73	At Kalana, Post Patanvav, Tal Dho- raji, Distt. Rajkot.
3579.	Keshavlal Zelavadiya Khimaji	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth Delhi, 1976	7105 13-7-79	C/o Khimaji Mavaji. Zalavadiya Behrapara, At Manavadar, Dist. Junagadh.
3580.	Keshavlal Vaidya Shankerlal	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1941	8710 16-3-83	“Vaidyavila”, Near Kika Bhai's Pole, A'bad-1.
3581.	Keshavsinhji Gohil Harisinhji	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1952	169 4-7-52	Vasant Bavan, At and Tal Lathi, Distt Amareli.
3582.	Keshrsinh Solanki Zinabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7636 20-3-80	At Kimanali, Post & Via Kim, Tal. Olpad, Dist. Surat.
3583.	Keshuram Dudharojiya Damidardas	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1959	7050 21-6-79	At Paneli, Tal. Morabi, Dist. Rajkot.
3584.	Keshavlal Acharya Girajshanker	Ayurvedacharya, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	9039 10-5-84	At. Khed, Tal. Himmatnagar. Dist. S.K.
3585.	Keshvashanker Pandya Bakerbhai	A. V.V., T.M. Vidyapeeth, Poona 1948	1819 7-10-65	At Samaspura, Distt. Baroda.
3586.	Ketankumar Joshi Jaykumar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9460 10-1-86	Soniwad, At. Bilimora, Tal. Gandevi, Dist. Valsad.
3587.	Ketankumar Purani Rajendraprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	7490 17-1-80	C/o R.D. Purani, Medical Officer, At Tarapur, Tal. Khambhat, Dist. Kheda.
3588.	Kerul Shashtri Prahlabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	9024 16-4-84	2/4230, B-Kala Mchta's Sheri, Sagrampera, Surat-2.
3589.	Keyur Dixit Hariprasad	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1739 22-6-65	Hanuman Pole, Bajwada, Baroda.
3580.	Khagnath Ghimire	H.P.A., P.G.T.C. in Ay. Jamnagar, 1963	1 23-11-64	Smt. M.A.H. Ayurvedic Hospital Behind New Civil Hospital, A'bad-16
3591.	Khandparshu Barot Chhatrasinh	Ayurved Dhanvantri, A & U. Tibbia College, Delhi 1942	2705 13-5-43	Sultanpura, Golvad, Baroda.
3592.	Khashinath Patel Madnbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	2822 25-8-69	C/o Ramji Nana Patel, At. Damar- kheda, Tal Shahada, Distt Dhuliya, (Maharashtra).
3593.	Khatamsinh Parmar Chhatrasinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6835 22-3-79	At Bhilvania, Post Athavali, Tal. Pavi-Jetpur, Dist. Baroda.
3594.	Khemabhai Pandya Kuberbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	2979 17-6-70	At & Tal. Mulpur, Dist. Sabarkantha.
3595.	Khemabhai Rethod Vashrambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5485 11-8-76	At Chansol, Tal Kheralu, Distt. Mehsana.
3596.	Khengarbhai Patel Motibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8922 8-2-84	138, Jay Bajrang Adarsh Co-op. Society, Opp. Nutan Mill, Anil Road, A'bad-380 025.
3997.	Khengarbhai Vankar Nirabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	7861 10-10-80	At & Post Ratchpur (Mota), Tal. Pantij, Dist. Sabarkantha.
3598.	Khimabhai Patel Manilal	Vaidya Visharad, A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1971	7118 16-7-79	5, Parag Society, Behind Arts & Science College, At & Distt. Surendranagar.
3599.	Khimabhai Vaja Arjanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8152 3-9-88	At Navagam, Tal. Kodinar, Dist. Amreli.

1	2	3	4	5
3600.	Khimaji Vaghasiya Hirji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4836 8-5-75	At Dadarva, Tal Jitpur, Distt. Rajkot.
3601.	Khimajbhai Ghaudhari Jeshingbhai	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1965	7136 24-7-79	ABasana, Tal. Visnagar, Dist. Mehsana.
3602.	Khimdan Gadhavi Jethidan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4197 15-2-74	At Lavana, Tal Diyodar, Distt. Banaskantha.
3603.	Khimji Rabadiya Jadavbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9281 2-5-85	At & PO: Ukarada, Tal: Padadhari, Dist: Rajkot-360110.
3604.	Khimji Vadaviya Purushottam	D.S.A.C., C.S.Ay. Course, Gujarat, 1966	2032 6-6-66	At & Post Khakhrala, Via Morabi, Distt Rajkot.
3605.	Khimchand Shah Jivaji	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1952	1144 1-7-53	402, B, Puram Apartment, Anibesant Road, Lotas Cinema, Varali, Bombay-18.
3606.	Khodabhai Thakor Rayabhai	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1963	8768 11-5-83	Bharvadi Gate, Chand-Fali, At. & Tal. Viramgam, Dist. A'bad
3607.	Khodidas Barevadiya Nagarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4842 15-4-75	At Pachbham, Tal Dhandhuka, Distt. A'bad.
3608.	Khubchand Mehta Hiralal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1959	1698 3-6-65	Post Bapala, Tal Dhanera, Via Dcesa, Distt. Banaskantha.
3609.	Khumansinh Padhiyar Umedsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4585 3-12-74	At Pansira, Tal Limade, Distt. Surendarnagar.
3610.	Kikubhai Patel Jagjivandas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1953	515 2154	Main Road, At Palsana, Distt. Surat.
3611.	Kiran Chitral Uttamchand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8387 24-3-82	26, Adarshnagar Society, B-Cabin, Sabarmati, A'bad.
3612.	Kiran Dave Durgashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5166 16-2-76	Nagarpara, At Jamnagar.
3613.	Kiran Katara Laxamanprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6099 21-3-78	5, Bangala, Near Power House, Sabarmati, A'bad.
3614.	Kiran Pandya Ramprasad	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1976	6526 1-2-69	530, Shanker Tokari, Dandiya Bazar, A bad.
3615.	Kiran Patel Motibhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bo mbay, 1960	516 5-12-61	At. Morad, Via Anand, Distt. Kheda.
3616.	Kiran Thakar Jayantilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra, 1975	5411 25-5-76	15, Ist Kolbhat Cross Lane, Kalba Devi Road, Bombay-2.
3617.	Kiranbhai Patel Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7739 6-6-80	At. Dhundakuva, Tal. Borsad, Distt. Kheda.
3618.	Kiranbhai Patel Kantibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8827 1-9-83	Gate, At. & Post Kasor (Bhalej), Tal. Anand, Distt. Kheda.
3619.	Kiranchandra Vaidya Dharamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5883 20-9-77	Prasuti Gruh & Hospital, At. Dungari Tal & Distt. Valsad.
3620.	Kirankumar Bhagat Mahanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8496 27-8-82	At. & Post Sargai, Tal Sankheda, Distt. Baroda-391 140.
3621.	Kirankumar Jani Prabhaskar	Ayu. Madhyama, AS. D. Pariksha Samiti, Baroda, 1978	6483 1-2-79	Ay. Medical Services, Near Milk Dairy, At. Badhani, Tal. Petlad, Distt. Kheda.
3622.	Kirankumar Joshi Induprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8508 27-8-82	At. & Post Moravahada, Tal. Godhara, Distt. Panchmahal.

1	2	3	4	5
3623.	Kirankumar Shukla Bhanukant	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9463 10-1-86	10/"Urmi" Vivekanand Society-4, New Jn. Road, At Surendranagar.
3624.	Kirnakumar Thakkar Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	759 14-3-80	Ronak Bajar, Ranip, A'bad.
3625.	Kirankumar Thakkar Laljbhai	B.A.M.S.M., Gujarat Ay. Univ., 1983	8932 17-2-84	19, Kahannagar Society, Mahavir- nagar, At. Himmatnagar, Distt. Sabarkantha.
3626.	Kirankumar Trivedi Bhagvatprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6609 21-2-79	47, Professor's Qua. New Civil Hospital Compound, Asarva, A'bad.
3627.	Kirankumar Vaishnav Rajanikant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3754 6-2-73	Govt. Qua. C/28, Jamewer Road, At. Rajkot. 1972
3628.	Kiratsinh Parmar Jashavantsinh	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1959	8630 28-1-83	At. Muli Nathavaniya, Tal. Muli, Distt. Surendranagar.
3629.	Kirit Nariyalaval a Mohanlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1965	3979 27-7-73	C/o Jitendra M. Shah, Vejalpor Holi Chakala, At. & Distt. Baroach.
3630.	Kirti Thakkar Kanubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6284 20-9-79	C/o Kanu Thakkar, Plot No. 35, S. Boradi Gate, Bhavnagar.
3631.	Kiritbala Bhatt Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6107 28-3-78	C/o Jivan Bhatt's House, Near Cattal Dabba, Old Manekvadi, Bhavnagar.
3632.	Kiritben Joshi Prahadbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5445 25-6-75	48/1, Mohannagar Society, Naroda, Road, A'bad.
3633.	Kiritbhai Matubhai	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1971	3485 19-4-72	At Koydam, Tal Balasinor, Distt. Kheda
3634.	Kirtibhai Patel Bhailalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7802 5-9-80	At. Ganpatpura, Tal. Vaghodia, Distt. Baroda.
3635.	Kirtida Dave Ravishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7852 10-10-80	12, Bhagyodaya Society, At. & Tal. Kolhil, Distt. Mehsana.
3636.	Kirtida Joshi Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5173 16-2-76	C/o C. M. Joshi G. 152, Sector No. 119, Gandhinagar.
3637.	Kirtida Raval Ramaniklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5237 2-3-76	1277, Samethshikar's Pole, Madavi's Pole, A'bad.
3638.	Kiritida Saraiya Gunavantlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6095 21-3-78	3013, Doliya Khadakai, Astodiya, Dal's Pole, A'bad.
3639.	Kirtida Tanna Narayanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8784 16-6-83	115, Muktinagar, Tal. Dakaja Road, At. Baroda-5.
3640.	Kiritchandra Dave Narishankar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6058 8-3-78	At. & Post Nanodara Tal Dholaka, Distt. A'bad.
3641.	Kiritchandra Desai Chimanlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1961	396 12-9-62	5, Sindur Col. Op. Society, Post Navjivan, A'bad.
3642.	Kiritsinh Sayania Mulajibhai	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1979	7912 3-12-80	At & Post Tal. Valia, Dist. Broach.
3643.	Kiritkant Doshi Chhotalal	Ay. Bhishak, A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1976	6857 2-4-79	Ashok Race Course Road, At Rajkot
3644.	Kiritkant Pathak Natavarlal	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1973	4244 6-3-74	At Kankpur Tal Godhara, Distt. Panchmahal.
3645.	Kirit Kumar Vaidya Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6371 13-10-78	At & Post Lodra, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.

1	2	3	4	5
3646.	Kiritkumar Acharya Dolatray	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1978	8526 14-9-82	17, Girivihar Society, Surendra- nagar.
3647.	Kiritkumar Agaravat Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4612 24-2-75	At. & Tal. Vanthali, Distt. Junagadh.
3648.	Kirtikumar Bhatt Dhansukhram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1983	9139 10-9-84	At. & Post Chhaniyana, Tal. Vadgam, Distt. Banaskantha.
3649.	Kirtikumar Bharati Chhotubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7543 21-2-80	Sector No. 28, B. No. 43/4, Chh Type At Gandinagar.
3650.	Kiritkumar Bhatt Ghansyاملal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3340 8-2-72	2788/Lalbava's Timba, Dariyapur, A'bad.
3651.	Kiritkumar Bhatt Revashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3872 15-3-73	Kesurmamas Chakala, Bhatnath- Palla, At. Barodach.
3652.	Kiritkumar Bhatt Vishwanath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4513 20-9-74	Kumbharvada. Opp, Jagnath Temple, At Dhoraji, Distt. Rajkot.
3653.	Kiritkumar Bhatt Narharishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8825 11-8-83	At. & Post Daheli, Tal Vallya, Distt. Broach-383 125.
3654.	Kiritkumar Bhatt Bhanushanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8347 11-3-82	At. Nageshri (364545), Tal Jafara- bad, Via & Distt. Amreli.
3655.	Kiritkumar Dave Jugatram	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat, 1965	1779 2-8-65	Plot No. 2165 B-Krushna -Nagar, Bhavnagar.
3656.	Kiritkumar Dave Prataprai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6028 16-2-78	Cotan Market Yad, At. Bolava, Distt. A'bad.
3657.	Kirtikumar Dave Kanaiyalal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9258 9-4-85	Shrisai Niketan, At. Lilia Mota, Distt. Amreli.
3658.	Kiritkumar Dhruv Hiralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3222 9-8-71	Near Jala's Ramkala Street, At. Jamnagar.
3659.	Kiritkumar Gauswami Ramanikgiri	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1967	2653 22-2-68	4, Anupam Society, Opp. Sara- bhai Chemicals At. Baroda.
3660.	Kiritkumar Joshi Ratilal	B.A.M.S., Univ., of Gujarat, 1967	2632 12-1-68	C/o Dt. Ratilal E. Joshi, Brahman Falla, At. Mahuva, Via Navsari, Distt. Surat.
3661.	Kiritkumar Joshi Kamalashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5004 20-10-75	B-6, Trikamnagar Society, Behind S. T. Depot, At Surat-3.
3662.	Kiritkumar Joshi Hariprasad	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9152 1-10-84	26, Gayatri Society, Behind School, At. Dhansura, Tal. Modasa, Distt. Sabarkantha.
3663.	Kirtikumar Mandavia Dhanvantray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4858 28-5-75	C/o Dr. Mandvaja, Kamdar Colony. At. Jamnagar.
3664.	Kiritkumar Nagarsheth Punjalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5321 31-3-76	102, EL Madhavvadl, Nai Gay. Cross Lane, Dadar, Bombay-14.
3665.	Kiritkumar Nayak Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8539 14-9-82	At & Post Jolava, Tal. Palasna, Distt. Surat.
3666.	Kiritkumar Pandya Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5856 23-8-77	At Sinhuj, Tal Mahemdabad, Distt. Kheda.
3667.	Kiritkumar Patdiya Duralabhjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3653 11-10-72	C/o Soni Jayantilal Durlabhji, Swaminarayan, Temple Road, Divali, Zat's Khadaki, 3rd Floor, A'bad.
3668.	Kiritkumar Pandya Chhotalal	D.S.A.C. C.S. Ay. Course, Gujarat, 1962	738 23-11-62	Buzur's At Vuso, Tal Nadiad, Distt. Kheda.

1	2	3	4	5
3669.	Kirtikumar Patel Bachubhai	D.S.A.C., C.S.Ay. Course, Gujarat, 1965	1690 1-6-65	At Khavad, Tal. Kadi, Distt. Mehsana.
3670.	Kirtikumar Patel Madhavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5186 21-2-76	At. Lavarpur, Tal & Distt. Gandhi- nagar.
3671.	Kirtikumar Patel Ishwarbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8940 17-2-84	Near Lake, At. & Post Mahervadi, Tal. Siddhapur, Distt. Mehsana.
3672.	Kiritkumar Purohit Mohanlal	B.S.A.M. & M. D. Ayu., Gujarat Ay. Univ., 1976	6004 10-1-78	At Dabha, Tal Bayad, Distt. Sabar- kantha.
3673.	Kiritkumar Raval Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	6084 15-3-78	At. & Post Torada, Tal Bhiloda, Distt. Sabarkantha.
3674.	Kiritkumar Raval Mahipatram	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9519 1-7-86	C/o M. V. Raval 12/Rajputpara, Vishwanath Nivas At. Jamnagar- 361001.
3675.	Kiritkumar Sanghavi Sovantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7392 19-11-79	C/o S. D. Sanghavi, Govt. Dispen- sary, At. Bahecharaji, Tal. Chansma Distt. Mehsana.
3676.	Kiritkumar Shah Himmat Lal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5918 17-10-77	At & Post Ambalipara. Tal Bayad, Distt. Sabarkantha.
3677.	Kiritkumar Shah Navalchand	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1964	1769 20-7-65	Rayakakval Street, At. Vyara, Distt. Surat.
3678.	Kiritkumar Shah Momehandbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6356 4-10-78	At. & Post Kamalpur, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
3679.	Kiritkumar Shah Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7466 21-12-79	At & Post Akrund, Tal. Bayad, Distt. Sabarkantha.
3680.	Kirtikumar Shah Bhagvaji	Ay. Bhishak A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1971	7502 17-1-80	J. K. Modi Build, Dhebarbhai. Road, At. Rajkot.
3681.	Kiritkumar Shah Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7972 20-2-81	6, Jayashri Society, Kareli Bag. Baroda.
3682.	Kirtikumar Shukla Girijashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5749 31-3-77	Shukla Bhuvan, Laxmivadi Shri No. 1, At Rajkot.
3683.	Kiritkumar Thakar Balkrishna	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3891 27-3-73	At Vadali, Tal Idar, Distt. Sabar- kantha.
3684.	Kiritkumar Thakar Shivprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5008 20-10-75	Harikrupa Niwas, Vadifalia, At. Vejalpur, Tal Kalol, Distt. Panch- mahal.
3685.	Kirtikumar Tripathi Kanaiyalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5482 5-8-76	B/6, Nirmalkunj Flat, Ashram Road, Behind Nav Gujarat College Mamata Park, A'bad.
3686.	Kiritkumar Upadhyay Tulajashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7811 15-9-80	Tower Road, At. & Tal. Sntarampur, Dist. Panchmahal.
3687.	Kiritkumar Vyas Trambaklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4792 21-4-75	At Punari, Tal. Prantij, Distt. Sabarkantha.
3688.	Kirtiprakash Upadhyay Krushnakant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8080 7-5-81	3/A, Shivsadan Shrutikunj Society, Maninagar (East) A'bad.
3689.	Kishanlal Bhatt Jatashanker	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1956	7606 18-3-80	At. Sara, Tal. Muli, Distt. Surendra- nagar.
3690.	Kishansinh Barad Sidibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7495 17-1-80	C/o Sahdevsinh, S. Rayjada, Opp. Sindhunagar Bus Stand, At. Bhav- nagar.
3691.	Kishmat Trivedi Prabhashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4493 9-9-74	22, Sanya Society, Chanlodiya, A'bad.

1	2	3	4	5
3692.	Kishnu Chandnani Delumal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8226. 18-11-81	Tiwer Chowk, Opp. Haresh Nivas, At. Kutiyana, Dist. Junagadh.
3693.	Kishombhai Patel Narayambhai	Ayu. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1973	6502 1-2-79	Asstt. Project Officer (Pashupalan) Kutch Illa Gram Vikas Agency, Narayan Bhuvan, 2nd Floor, Station Road, Bhun-Kutch.
3694.	Kishor Dave Laxmishanker	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat, 1964	1516 25-8-64	16, Apexa Society, Opp. V. J. Trivedi High School, Jivraj- park, Vcjalpur Ahmedabad.
3695.	Kishor Desai Maneklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3231 21-8-71	Near Dashnima's Wadi, 3rd. Floor, Over] Talav, Dahod, Distt. Panch- mahal.
3696.	Kishor Joshi Purshotam	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5254 8-5-76	Nava Bazar, Miradstar's Tekara, Patvardhan's Hou, Baroda-6.
3697.	Kishor Raval Atmaram	B.S.A.M., Univ. of Gujarat, 1961	974 8-12-61	C/o J. K. Jani, 51. Digvijay Plot, ¶ Jamnagar.
3698.	Kishor Shah Kantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8954 12-3-84	St. Bhilad, At. & Post Falasa, Distt. Valsad.
3699.	Kishorbhai Dave Rasiklal	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth Delhi, 1978	8081 7-5-81	At. Rajpara, Tal Chotila, Via Reshamiya, Dist. Surendranagar.
3700.	Kishorbhai Vekariya Ranabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8141 21-8-81	At. Amargadh, Via Vadia-Devali (St.), Tal. Jctpur, Distt. Rajkot.
3701.	Kishorchandra Baldania Raghavjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5735 15-3-77	Sardarpara Plot, Yadukutir, At. Junagadh.
3702.	Kishorchandra Bhatt Chhotalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3736 31-1-73	Near Sabarmati, D. Cabin, A'bad.
3703.	Kishorchandra Bhatt Batukrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3803 21-2-73	At Khambha, Distt. Amreli
3704.	Kishorchandra Dave Chimanlal	D.S.A.C., C.S.Ay. Course, Gujarat, 1964	1506 10-8-64	Jamadar Sheri, Ghoghagatc, Bhav nagar.
3705.	Kishorchandra Dave Labhashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2877 19-1-70	At & Post Baldana, Via Limbadi, Tal Vadhavan, Distt. Surendernagar.
3706.	Kishorchandra Dedkiya Govabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3968 7-7-73	Rokad Sheri, At Bhayavadar, Tal. Upleta, Distt. Rajkot.
3707.	Kishorchandra Desai Nathubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5282 15-3-76	At Sarikharad, Via Amalsad, Distt. Valsad.
3708.	Kishorchandra Doshi Jaysukhalal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1960	1611 18-2-65	Mangal Bhuvan, Near Balkaka's Dhal, Kankaria Road, Ahmedabad.
3709.	Kishorchandra Dave Mulahankerbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	8160 3-9-81	Satyasadan, Sardar Plot, At Juna- gadh.
3710.	Kishorchandra Mehtra Pranlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5941 26-10-77	Shri Ram Jubili Plot, Bokhira, At Porbandar, Distt. Junagadh..
3711.	Kishorchandra Oza Laxmishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4394 31-5-74	At Garal, Post Sankheda, Tal. Una, Distt. Junagadh.

1	2	3	4	5
3712	Kishorchandra Pandya Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3156 18-3-71	Opp. Ghaslet Wala Vanda, Ranika, Bhavnagar.
3713.	Kishorchandra Pandya Shivkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5620 3-12-76	Ayu Clinic, Nilvani Road, Elvas 396 230.
3714.	Kishor Chandra Pathak Balashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	5577 18-10-76	Opp. Swaminaryayan Temple At Visavadar Distt. Junagadh.
3715.	Kishorchandra Rajpara Gordhandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3274 26-10-71	At Amba, Tal. Liliyamota, Distt. Amreli.
3716.	Kishorchandra Sanghavi Narboram	Ay. Bhishak, A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1960	7509 4-2-80	Panchayat Ay. Dispensary, At Chayadava, Via Malvad, Dist. Sur- dranagar.
3717.	Kishorchandra Shah Kanchanal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1965	1892 15-12-65	Near Hirabhagel Gate, At Dabhoi, Tal. Dabhoi, Distt. Baroda.
3718.	Kishorchandra Shukla Champaklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	5054 28-11-75	At Mota Ujada, Tal. Kukavac, Distt. Amreli.
3719.	Kishorchandra Thakkar Gopalji	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra, 1958	286 1-2-60	Health Niketan, Ravpura, At Baroda.
3720.	Kishorchandra Trivedi Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4034 30-8-73	At Shapar, Via Bagsara, Tal. Visa- vadar, Distt. Junagadh.
3721.	Kishorchandra Upadhyay Kalyanji	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1953	63 2-2-53	At Tagadi, Tal. Dhandhuka, Distt. Ahmedabad.
3722.	Kishorchandra Vyas Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3375 16-2-72	Khapatiya Chakala, Via Vipinvarg Mahadev's Gali, Surat.
3723.	Kishorchandra Vyas Jagjivandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4767 9-4-75	At Bhadibhandaria, Distt. Bhavnagar.
3724.	Kishordan Shamal Jethbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5139 29-1-76	At & Tal. Patadi, Distt. Surender- nagar.
3725.	Kishorgar Goswami Ramgar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7011 16-5-79	Soni Bazar, Nadi Road, Goswami Nivas, At Dhoraji, Distt. Rajkot.
3726.	Kishori Trivedi Jayantkumar	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1967	2726 18-1-69	C/o Dr. J.M. Trivedi, Manakchowk, A'bad
3727.	Kishori Vakil Sundarlal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1967	2598 10-10-67	Vijay H. No. 521, At Betad, Distt. Bhavnagar.
3728.	Kishorkant Joshi Dayaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7223 23-8-79	C/o Dayaram Keshavji Joshi, Opp. Vadiya Garej, Chhay Plot, At Por- bandar, Distt. Junagadh.
3729.	Kishorkant Pandya Ramanlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1962	739 23-11-62	Hanuman, Vadi, Baroda.
3730.	Kishorkant Sharma Vanulidas	Ay. Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1964	7114 16-7-79	Swastik Dispensary, Sanghadia Bazar, At Bhavnagar.
3731.	Kishorkumar Bhatt Rajanikant	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9517 21-11-86	Shreyas Gandhi Chowk, At & Po. & Tal. Amod, Dist. Broach.

1	2	3	4	5
3732.	Kishorkumar Bavariya Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8166 10-9-81	At Mokhasan, Tal. Kalol, Dist. Mehsana.
3733.	Kishorkumar Dave Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7423 12-12-79	At Limbuda, Post Madiyana, Dist. Jamnagar.
3734.	Kishorkumar Doshi Trambaklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5288 23-3-76	C/o Trambaklal Lavajibhai Patel, At Botad, Distt. Bhavnagar.
3735.	Kishorkumar Jiyani Arjanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7823 24-9-80	14/161, Netajinagar, Near Megha- ninagar, A'bad.
3736.	Kishorkumar Pancholi Naginchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4092 15-10-73	Bhadali's Naka, At Gudhada, Distt. Bhavnagar.
3737.	Kishorkumar Patel Gopalbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9006 28-3-84	At. & Post Ambheri, Tal. Palsana, Dist. Surat.
3738.	Kishorkumar Raninga Laxmidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3911 3-4-73	Devpara, Main Road, At Rajkot.
3739.	Kishorkumar Shastri Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	4629 24-2-75	C/o S.K. Shastri, Ahbali Fallaya, At Zalod, Distt. Panchmahal.
3740.	Kishorkumar Upadhyay Janubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5968 21-11-77	At Dihor, Tal. Talaja, Distt. Bhav- nagar.
3741.	Kishorkumar Vadera Bavchandbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4103 2-11-73	C/o Vadera Cloth Stores Near Tower, At & Distt. Amreli.
3742.	Kishorkumar Vaidya Ramakantbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5910 11-10-77	Sultanpura, Desai's Khancha, At Baroda.
3743.	Kishorsinh Chudasama Mahipatsinh	M.D. Ayu., Gujarat Ay. Univ., 1986	9583 7-10-86	At : Bavliyari-382455, Tal : Dhan- dhuka, Dist : A'bad.
3744.	Kishorsinh Desai Baldevbhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1955	397 1-7-55	33-A, Chaitanya Society, Near Petrol Pump, Sardar Patel Station Road, Navjivan, A'bad.
3745.	Kishorsinh Rana Anadubha	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2799 24-7-69	Kubernath Main Road, At Morbi, Distt. Rajkot.
3746.	Kodarbhai Patel Bhikahabhai	D.S.A.C., C.S.Ay. Course, Gujarat, 1964	1472 6-7-64	At Kankapura, Tal. Borsad, Dist. Kheda.
3747.	Kodarbhai Patel Karsanbhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1964	1592 19-1-65	At Sapavada, Post Laloda, Tal Idar, Distt. Sabarkantha.
3748.	Kohyabhai Prajapati Saburbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7777 1-8-80	Mangalana Palla, Post, Madhavas Tal. Lunavada, Dist. Panchmahal.
3749.	Kokila Jaradi Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5011 20-10-75	941, Advard Voshing Co., Ghikatha Road, A'bad.
3750.	Kokila Shah Narkishandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	7297 20-9-79	Outside Gate, Near Bansi Floor Mill, At A'bad.
3751.	Kokila Shah Chimanlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1961	1143 21-7-62	C/o Dr. C.L. Shah, Maternity & Nursing Home, Maneklal Mehta Estate, Agra Road, Ghatkopar, Bombay-77.

1	2	3	4	5
3752.	Kokila Pandya Trambaklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3163 20-3-71	Veterinary Dispensary, At Talaja, Distt. Bhavnagar.
3753.	Kokila Vyas Manishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3500 4-5-72	Kamala Bhuvan, Old Manekvadi, At Bhavnagar.
3754.	Kokilaben Patel Harishbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8719 19-4-83	C/o Dr. Harish B. Patel, At. & Post Biliya, Tal. Siddhapur, Dist. Mehsana.
3755.	Kokilaben Thakkar Rameshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8102 20-6-81	T.A.Z. 15, At Adipur, Tal. Anjar, Dist. Kutch.
3756.	Krashnavadan Patel Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7266 11-9-79	Krashna Sadan, Sajjanpura, At Manasa, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
3757.	Krishna Vaidya Bakulbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5473 26-7-76	C/o Vaidya Bakulbhai Gatubhai, Opp. Baxli Bhuvan, Satya Narayan Mandir Road, At Jamnagar.
3758.	Krishnachandra Gupta Panalal	B.A.M.S., Indore University, 1978	6436 15-12-78	4, Jain Colony, At Barvani, Distt. Khargone (M.P.).
3759.	Krishnachandra Patvardhan Rameshchandra	D.S.A.C., C.S.Ay. Course, Gujarat, 1965	1854 29-11-65	Vadi Pomaric, Falia, Baroda.
3760.	Krishnachandra Purohit Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3033 20-8-70	At Abhol, Post Kural, Tal. Padra, Distt. Baroda.
3761.	Krishnakant Bhavsar Hiralal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1955	874 1-8-55	At Kotdi Mahadevpuri, Tal. Man- davi, Distt. Kutch.
3762.	Krishnakant Gandhi Chhaganlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1953	144 2-1-54	Nagar Faliyu, At Kadod, Tal. Barodli, Distt. Surat.
9763.	Krishnakant Joshi Sheidharprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3616 19-9-72	Sahera Bhagol, Lal Dispensary, At Godhara, Distt. Panchmahal.
3764.	Krishnakant Pandya Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4186 12-2-76	At Kalasar, Sheu Durga Anshad- laya, Tal. Thasara, Distt. Kheda.
3765.	Krishnakant Shrof Ranjitlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1966	2656 2-3-68	5/930, Jabhadi, Mohidharpura, Opp. Mulchandbag, Surat-3.
3766.	Krishna Pandya Jayantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9607 10-11-86	"Padamakar", Sadhana Society, Behind Maninagar, At. Savarkun- dala, Dist. Bhavnagar.
3767.	Krishnaben Rajasuba Narendrakumar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9449 23-12-85	Vyasvila, Jawahar Chowk, Maninagar, A'bad-8.
3768.	Krishnakumar Dave Harichandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6923 17-4-79	Chauhan Sheri, Nani Bazar, At Morabi, Dist. Rajkot.
3769.	Krishnakumar Doshi Jaysukhlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1965	1678 25-5-65	Mangal Bhuvan, Armrakun- j-Society Pasc, Kankaria, Ahmedabad.
3770.	Krishnakumar Gajariya Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3922 19-4-73	C/o G.M. Gajariya, ShitalaLine, At Junagadh.
3771.	Krishnakumar Talati Navnitlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1963	1354 20-11-63	13, Keshavnagar, Ahmedabad

1	2	3	4	5
3772.	Krishnalal Joshi Ganpatram	Ayurved Visharad, M.S. Univ., Baroda, 1941	1942 3-11-41	Lalbhai's Pmt, Kothari's Khadaki, At Broach.
3773.	Krishnalal Patel Vitthaladas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4701 29-3-75	Matavli Vas, At Detroj, Tal Viramgam, Distt A'bad.
3774.	Krishnalal Ramanuj Tulsidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4192 15-2-74	At Piparadi, Via Dhasa Jn., Tal Gadhada, Distt Bhavnagar.
3775.	Krishnalal Shah Brijvallabhdas	A.V.V., T.M. Vidyapeeth, Poona, 1943	1141 13-1-43	Near Post Office, At Uttarsanda, Distt. Kheda.
3776.	Krishnalal Shah Baldevdas	A.V.V., T.M. Vidyapeeth, Poona, 1944	1140 28-4-44	At Gundi, Station Bhurkhi, Tal Dholka, Distt. A'bad.
3777.	Krishnalal Trivedi Babubhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1967	2539 10-7-67	Zalu's Chowk, At & Tal Shihor, Distt. Bhavnagar.
3778.	Krishnaprasad Pathak Someshtar	Ayurved Visharad, R.S. Mahavidyalaya, Baroda, 1953	1645 10-5-65	Desai's Khancha, Sultanpura, At Baroda.
3779.	Krishnaprasad Shukla Hariprasad	L.A.M., U.P. Ay. Mahavidyalaya, Patan, 1941	1272 15-1-41	Opp. Shapur-Gato, Dudheshwar- Road, Gujarat Colony, Ahmedabad.
3780.	Krishnapriya Mehta Sunderlal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1966	2579 31-8-67	C/o Sundarlal N. Mehta 18, Vrundavan Jayhind Society At & PO: Surendernagar.
3781.	Krishnashanker Sharma Baburam	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3076 21-12-70	At Bhadbhat, Tal & Distt., Broach .
3782.	Krishnavadan Patel, Goradhandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5973 28-11-77	13, A, Karuna Society, Navavadaj, A'bad.
3783.	Krupa Bhatt Hemantkumar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9325 27-7-85	3/677, Karava Road, Navapara, At: Surat.
3784.	Krushana Sharma Gopal	B.A.M.S., Univ. of Indore, 1973	5548 28-9-75	C/o Amrut Ayu, Agshadhalaya, Opp. Kanyashala, At Bavla, Distt. A'bad.
3785.	Krushnakant Keshavaro Hornarayan]	B.A.M.S., Vikram Vishwavidyalaya, Ujjain, 1975	7220 23-8-79	Rajeshwar Marg, At Maheshwar, Dist. Khargone (M.P.).
3786.	Krushnakant Gondaliya Mavajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7309 20-9-79	At Khirsara (Ghed), Via Keshod, Dist. Junagadh.
3787.	Krushnakant Vaidya Nandlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1965	1689 1-6-65	Nandnvan, Behind Townhall, Ellishbridge, A'bad-6.
3788.	Krushnakumar Kashyap Naryan	B.A.M.S., Vikram Vishwavidyalaya, Ujjain, 1976	7218 23-8-79	83, Lakkad Bazar, At Khandave East, Nimar (M.P.).
3789.	Krushnakumar Thakur Jaysinh	Ay. Madhyama, S.D. Parikhasa Samiti, Baroda, 1979	8891 4-1-84	D-144, Padmavatinagar, Naroda, A'bad.
3790.	Krushnakumar Tivari Shubhnarayan	M.D. (Ay.) Gujarat Ay. Univ., 1983	9227 19-2-85	At & Post Sulaimanpur, Dist. Billa (U. P.)

1	2	3	4	5
3791.	Krushnamohan Sharma Mathuralalji	A.M.B.S., Board of I.M. Lucknow, 1959 H.P.A., P.G.T. Centre in Ay. Jamnagar.	29 22-12-64	0-9, Govt. Officers Colony, Moghaninagar A'bad-16.
3792.	Kruti Desai Gunavantray	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9436 23-12-85	S/Tank Building, T. & T. V. High School, Nanpura, At. Surat.
3793.	Krushnalal Chauhan Bhagatdayalsinh	B.A.M.S., Univ. of Indore, 1976	6407 18-11-78	Medical Office, Mobail Dispensary, At Umara (Abadasa), Dist. Kutch.
3794.	Kuberbhai Patel Nanbhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1954	519 3-9-54	At Una, Tal Kankaraj, Distt. Banaskantha.
3795.	Kulbhushanalal Songl	Bhishagaratna Shastry, R.A.U. Tibbia College, Jaipur, 1979	6569 16-2-79	B. No. 152, C. New Railway Colony, Bhavnagar.
3796.	Kuldipkumar Joshi Pramodray	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1979	9010 28-3-84	Joshi Nivas, Dhundhiawadi, At. Palanpur, Dist. Banaskantha.
3797.	Kulejibhai Patel Talashibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4322 8-4-74	At Kherava, Tal Dasada, Distt. Surendernagar.
3798.	Kulinkumar Joshi Shankarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3251 25-9-71	C/o Manckbhai Sanskrit Vaidal Pathashala, Opp Station, At Por- bandar, Distt. Junagadh.
3759.	Kulinkumar Patel Dhirubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9326 25-7-65	At & PO: Velanja, 394150, Tal Kamraj, Dist: Surat.
3800.	Kulvantsinh Sudan Santkartarsinh	B.A.M.S., J & K Univ., 1968	7968 18-2-81	P.T.S. Shalya, Shalakya Vibhag, Guj., Ay. University, Jamnagar.
3801.	Kumandas Devmurari Jamanadas	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1973	7130 19-7-79	Nanumanpara, At Visavadar, Dist. Junagadh.
3802.	Kumarbhai Mehta Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2767 17-4-69	Govt. Ayu. Dispensary, At Bhan- duri, Tal Malia, Matina, Distt. Junagadh.
3803.	Kumbhabhai Bakutra Najabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5283 15-3-76	C/o Amarben J. Sancha, Govt. Hospital, Midwife Qua., At Keshod, Distt. Junagadh.
3804.	Kumkum Saini Kishorilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6334 4-10-78	Paneh Bangala, Near Power House, Sabarmati, A'bad.
3805.	Kumud Desai Vasantray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7009 16-5-79	Drav G. Desai, Sector, No. 30/ Gh/5/4, Gandhinagar.
3806.	Kumud Joshi Giju	Vaidya Charya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1970	8362 11-3-82	C/o Shri A.C. Banker, 3-G, Reshan Bhavan, Lal Darvaja, Surat.
3807.	Kumud Shah Navinchandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9337 9-8-85	"Purusharth", 49, Mangal Man- dir Society, Subhanpura At. Baroda-390 007.
3808.	Kumudbala Acharya Bhanuprasad	Vaidyacharya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1974	9522 1-7-86	Railway Colony, 98/A, At: Gandhidham (Kutch).
3809.	Kumudben Pandya Dineshchandra	Ay. Madhyama, S.D. Parikhsa Samiti, Baroda, 1974	6720 9-3-79	Gopalkrupa, Fatehpuracharras- ta, At Baroda.

1	2	3	4	5
3810.	Kumudben Patel Nathabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	5168 16-2-76	1, Gita Bharat Society, Parekh & Teligraf Qua., Danilimada, A'bad-22.
3811.	Kumudchandra Dave Bhaishankar	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1948	1540 31-7-48	Opp. Dhorbazar, Kankaraya, Ahmedabad.
3812.	Kumudohandra Desai Chimanlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1955	398 1-11-56	Daliya Pole Wadi, Baroda.
3813.	Kumudchandra Gandhi Girdharilal	G.F.A.M., Fac of AUSM, Bombay, 1960	2048 1-7-60	C/o Girdharlal Oc haganlal, Dalalvada, At Kapadvanj, Via Nadiad, Distt. Kheda.
3814.	Kumudini Joshi Madhusudan	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ., 1974	6065 8-3-78	Lokmanaya Society, Varsiya Road, Baroda-6.
3815.	Kundan Mohta Champaklal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1964	1595 27-1-65	Manikunj, Near St. T. Depot., Bulsar.
3816.	Kundan Shah Jethalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Uni., 1969	2995 13-7-70	23, Mahalaxmi Society, Ellishbhrige, A'bad.
3817.	Kundan Sur Bhimajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4950 23-9-75	B.V. Vora Plot, At Dhoraji, Distt. Rajkot.
3818.	Kundanben Patel Chinubhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1965	2037 6-6-66	C/o Dr. Chinubhai K. Patel, At Miyagam Karjan, Distt. Baroda.
3819.	Kundanben Raol Himmatsinhji	H.P.A., P.G.T. Centre in Ay. Jamnagar, 1965	2482 6-5-67	13/B, Jyoti Park, Mental Hos- pital Road, Karoli Bag, Baroda-1.
3820.	Kunjilata Umarania Narottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	9156 1-10-84	6/31, Kansara Nana Falia, At. Bhuj-Kutch.
3821.	Kuntibhai Patel Mangalbhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1965	1798 13-9-65	Post Saipur, Tal. Boarsad, Distt. Kaira.
3822.	Kunudini Karmarkar Bhaskar	D.S.A.C., Fac. of AUSM, Bombay, 1957	992 1-10-58	Shri Nivas, Varasia Road, Fatehpura, Opp: P.W.D. Work- shop, Baroda.
3823.	Kurankumar Bhagat Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4910 9-7-75	At Kosindra, Tal Sankheda, Distt. Baroda.
3824.	Kurajibhai Tarpara Meghajibhai	D.S.A.C., G.S. Ay. Course, Gujarat, 1963	299 19-7-63	At Gopalgram, Via Chalala, Distt. Amreli.
3825.	Kurjibhai Mavani Shanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4581 28-11-74	Rugnapura, Motala Sheri, H. 6, Surat.
3826.	Kushumben Patel Chhotumal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1954	518 1-3-55	399/B, Fargusan Road, Woral, Bombay-18.
3827.	Kusum Bhatt Kanchanlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1956	813 1-8-56	Dr. Kusumban K. Bhatt, R. P. Gruh, At Jambusar, Distt. Broach.
3828.	Kusum Joshi Pranlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4153 15-1-74	Brahman Sheri Near Manuman- dery, C/o Matuben H. Joshi, At Bhayavadar, Distt Rajkot.
3829.	Kusum Joshi Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4659 17-3-75	C/o Dr. Praful V. Acharya, Kalika Plot, Behind Shakti Tiles, Opp. Shakti Floor Mill, At Morbi, Distt. Rajkot.

1	2	3	4	5
3830.	Kusum Raval Dineshachandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7916 3-12-80	Limada Chowk, At Jam-Jodhapur, Distt. Jamnagar.
3831.	Kusum Shashtri Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5232 1-3-76	Havai Chowk, Near Sara's Kuva, At Jamnagar.
3832.	Kusum Trivedi Durlabhaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5111 2-1-76	54, Digvijay Plot, Behind State Bank, At Jamnagar.
3833.	Kusum Udeshi Mavji	B.A.M.S., Univ., of Gujarat, 1963	1434 4-5-64	203, Sahkar Niketan, Block No. 25, Vadala, Bombay-31.
3834.	Kusum Vyas Hirajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	6455 29-12-78	C/o Vaidya D. M. Parmar, At Chhatar, Tal Kalavad, Dist. Jamnagar.
3835.	Kusumkant Dave Nandkumar	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1979	9009 28-3-84	C/o Dr. Janardan N. Dave, Opp. Vijay Mill, Naroda Road, A'bad-25.
3836.	Kusud Vaidya Parhladrai	B.A.M.S., Univ., of Gujarat, 1967	2564 10-8-67	34, Sharda Nagar, Vidyulekha, Ellishbridge, A' bad.
3837.	Kusumbala Khunt Ranchhodhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7017 16-5-79	Vadalichowk, At Mendarada, Dist. Junagadh.
3838.	Kusumben Bddhadev Jadavjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4680 24-3-75	C/o Jadavjibhai P. Buddhadev, Old Shak Market, Rabarivada, At Kshod, Distt. Junagadh.
3839.	Kusumben Dave Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4714 31-3-75	Kharakuva, Bhavanishander Dela, At Nadiad, Distt. Kheda.
3840.	Kusumben Doshi Shantilal	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1977	6721 9-3-79	4/19, Safaliya Association, Main Road, At Udhana, Tal. Choryashi, Dist. Surat.
3841.	Kusumben Trivedi Jamnadas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4266 18-3-74	2, Gomatipur, Patel Society, A'bad.
3842.	Kusumben Vashi Ranchhodji	B.S.A.M., Univ., of Indore, 1977	6312 27-9-78	At & Post Sanvadi, Tal. Gandevi, Dist. Valsad.
3843.	Kuvarbhai Patel Makanjibhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1958	1838 2-1-58	Ghikanta, Haripura, Surat-3.
3844.	Labhkuvar Pansuriya Keshavji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6445 28-12-78	C/o N. K. Thesiya, At Ankol- vadi, (Glr), Tal. Talala, Dist. Jamnagar.
3845.	Labhshankar Acharya Girjashankar	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1956	52 2-1-56	Harihar Nivas, Budhabavai Sheri, Lakhadhir Vas, At Morabi, Distt. Rajkot.
3846.	Labhshankar Bhatt Shamaji	Vaidyacharya, A.I. Ay. Vidyapeeth- Delhi, 1971	6912 16-4-79	Bhatt Paliu, At Kshod, Dist. Junagadh.
3847.	Labhshankar Joshi Ambashankar	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1955	2304 17-10-55	Medical Officer, Majevadi Dis- pensary, At Majevadi, Distt. Junagadh.
3848.	Labhshankar Joshi Rev. shankar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3999 10-3-73	Near Jimkhana, Chhanya — Porbandar-360575.
3849.	Labhshankar Pandya Ramaam	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeto, Delhi, 1948	7954 17-1-81	Nani Bazar, Main Road, Vakaner Gate, Opp. Raval's Hou., Gayat- rikrupa, At Marabi, Distt. Mehsana

1	2	3	4	5
3850.	Labhshanker Raval Chunilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1955	985 1-12-55	Shambhu Sheth's Madh, At. Unava, Tal. Siddhapur, Distt. Mehsana.
3851.	Labhshanker Raval Bhaishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3414 3-3-72	C/o. Guj. Ayu. Vikas Mandal, Savsar Plot, Main Road, Morbi, Distt. Rajkot.
3852.	Labhshanker Shukla Premshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3350 9-2-72	At & Post Gaf, Tal. Dhaodhuka, Distt. A'bad.
3853.	Labhshanker Shukla Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4146 3-1-74	At. Motimad, Tal. D'isiji Distt. Rajkot.
3854.	Labhshanker Thakar Jadavji	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1963	1347 15-11-63	Vaidya Nivas, Near Station Maninagar, Ahmedabad.
3855.	Labhshanker Upadyy Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3246 16-9-71	Devla Gate, Opp. Misri Shaw Mill, At Savarkundaka, Distt. Bhavnagar.
3856.	Labhshanker Vyas Bapalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2847 8-10-69	At Jantral, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
3857.	Labhshanker Vyas Vishwanath	Vaidyavisharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1958	6904 16-4-79	At Jamvanthali, Tal. & Dist. Jamnagar.
3858.	Labhubhai Goyani Pramjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3573 4-9-72	At. Rupavati, Via Dharidhar, Tal. Palitana, Distt. Bhavnagar.
3859.	Labhubhai Katrodiya Zinabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5626 15-12-76	Rampura, Bali Sursi, Opp. Pati- dar Bhavan, Shriji Krupa, At Surat.
3860.	Labhubhai Sheladiya Ramjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4167 5-2-74	At Bhad, Tal. Khambha, Distt Amreli.
3861.	Labhulal Kakkad Maridas	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1967	6503 1-2-79	Bhadrakali Road, At Porbaner, Dist. Junagadh.
3862.	Lakhabhai Mori Parbatbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6370 13-10-78	C/o. Mori Kanabhai N., At & Post Moreser, Via Bhavnai, Dist. Jamnagar.
3863.	Lakmanbhai Savasani Premjibhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1960	1633 1-2-60	At Manavadar, Distt. Junagadh
3864.	Lalabhai Valand Karshanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4223 21-2-74	At Chaganada, Tal. Khambhat Distt. Kheda.
3865.	Lalji Aghara Pitambar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2872 9-1-70	C/o. Ms. Bhagvanji Phavnar, Dr. Takhtasinhji Road, At Morbi, Distt. Rajkot
3866.	Lalji Changelal Shamji	B.S.A.M.- Gujarat Ay. Univ., 1974	5374 30-4-76	At Bagula, Via Meridada, Junagadh.
3867.	Lalaji Jesani Tapubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7793 19-8-80	At Valda D'vidi, Three Gate, Tal. Vadiya, Dist. Amreli.
3868.	Lalji Lodhiya Giradharbhai	B.S.A.M.- Gujarat Ay. Univ., 1976	5915 11-10-77	At Malpara, Via Dhasa, Distt. Bhavnagar.
3869.	Lalaji Kachadiya Nathabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7438 12-12-79	C/o. Krushne Oil Mill, Near Bus Stand, At Keshod, Dist. Junagadh.

1	2	3	4	5
3870.	Lalaji Rupavatiya Lakhman	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7312 20-9-79	At & Post Tikar, Via, Manava- dar, Dist. Junagadh.
3871.	Lalaji Vyas Bhagvanji	Vaidya Charya, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1965	6967 4-5-79	Nagar Chakalo, Sachkar Sheri, At Jamnagar.
3872.	Laljibhai Gondalla Vallabhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8895 10-1-84	At. & Post Sajiyavadar, Tal. & Dist. Amreli.
3873.	Laljibhai Kakadia Pragjibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8957 12-3-84	2/22, Satadharnagar, Post, Kho- diar Nagar, A'bad-382352.
3874.	Laljibhai Lumbhani Ramjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4095 17-10-73	C/o. Soni Ranji Naran, • Sharaf Bazar, At Kutiyana, Distt. Juna- gadh.
3875.	Lalajibhai Parnalla Mathurbhai	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1979	7706 2-5-80	At. Kataria, Tal. Limadi, Dist. Surondranagar.
3876.	Lalajibhai Patel Somabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5347 1-4-76	At. Chakalashi, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
3877.	Lalajibhai Patel Khimajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7176 7-8-79	Ramnagar Behind Madrasi Temple, Natkoshwar, Mahadev A'bad.
3878.	Lalitchandra Vaidya Mulchandji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6007 10-1-78	At Wadi Kosamba (R.S.) Distt. Surat.
3879.	Lalitchandra Dave Narmadashanker	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1962	7110 13-7-79	76, A. Shishak Society, Ato Rajkot-2.
3880.	Lalitchandra Sarada Gholabhai	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1961	6970 4-5-79	Nagori Pali, Satavad- Ato Jam- nagar.
3881.	Lalitchandra Vyas Somnath	Ay. Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1979	9425 2-12-85	Outside Kuvavali Pole, Shahpur, At. A'bad.
3882.	Lalitikumar Jadav Ukabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5052 26-11-75	At. Jamtal, Tal. Kalyanpur, Dist. Jamnagar.
3883.	Lalitikumar Mistri Gangaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6303 27-9-78	At & Post Unchikenal, Tal. Khedbrahma, Dist. Mehsana.
3884.	Lalitikumar Patel Babecharbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9273 2-5-85	Sardar Pole At : Karshanpura, PO : Sipor, Tal : Kheralu, Dist : Mehsana-384335.
3885.	Lalitikumar Raiyani Pranjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3571 2-9-72	At Mevasa, Via Bilakha, Distt. Junagadh.
3886.	Lalitikumar Upadhyay Pranshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5953 27-10-77	At Zinguda Mota, Tal. Savarkun- dala, Distt. Bhavnagar.
3887.	Lalitikumar Vasoya Dharamsinhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4949 23-9-75	Bhrajpara, Near Pir's Ambali, At. Gondal, Distt. Rajkot.
3888.	Lalubhai Patel Narayandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5543 28-9-76	At. Pogalu, Tal. Prantij, Distt. Sabarkantha.
3889.	Lalsinh Chaudhari Kashanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5409 25-5-76	At. Lotarava, Tal. Vyara, Distt. Surat.
3890.	Lalshanker Dave Hargovind	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1960	2260 1-5-60	At. Modhuka, Tal. Prantij, Distt. Sabarkantha.

1	2	3	4	5
3891.	Lalshanker Shastri Ramkrishna	L.A.M., U.P. Ay Mahavidyalaya, Patan, 1938	1830 19-11-41	Nagarkuva, Petlad, Distt. Kheda
3892.	Lanaiyalal Goyani Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4263 15-3-74	2, Satadharnagar, Thakkarbapenagar, A'bad.
3893.	Lata Patel Narendas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8535 14-9-82	High Court Near Railway crossing, Hindustan Garaj Khancha, Navrangpura, A'bad.
3894.	Lateshkumar Patel Hiralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8590 3-11-82	22/Pushpakunj Society, Sumul Dairy Road, Tal. Choryasi, Dist. Surat.
3895.	Lavaji Makavana Mehanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7285 20-9-79	At. Samadhiyala (Gir), Via Mendarada, Dist. Junagadh.
3896.	Lavajibhai Baladha Manajibhai	Vaidyavisharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1966	7053 21-6-79	At. Devgam, Tal. Kukavay, Dist. Amreli.
3897.	Lavjibhai Nakrani Mndhabhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2077 27-6-66	Mahendranivas, Varachha Road, At. Surat.
3898.	Lavjibhai Patel Kedarbhai	G.F.A.M., Fac. of AÜSM, Bombay, 1957	631 2-6-58	Holi Chakla, At Kapadvanj, Dist. Kheda.
3899.	Lavkumar Gohil Keshavsinhji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3289 24-11-71	Vasantbhavan At Lathi Distt. Amreli.
3900.	Laxshkumar Goswami Shantibhai	Ay. Bhisak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1960	7412 29-11-79	Ay. Dispensary, At Mahobatpura, Tal. Manthali, Dist. Junagadh.
3901.	Laxman Chikhalia Jivabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3362 16-2-72	At Kolaki, Via & Tal. Upaleta, Distt. Rajkot.
3902.	Laxman Jamang Amrabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5808 24-5-77	At Madhad Tal. Vadhavan Distt. Surendranagar.
3903.	Laxman Majethi Ramanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3950 17-3-73	At Saradia, Post Marmath, Via. Buntava, Distt. Junagadh.
3905.	Laxman Mali Shivnath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8921 8-2-84	Block No. 343/1756, Bapunagar, A'bad-380024.
3905.	Laxman Mori Gangdasbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4875 4-6-75	At Limbuda, Via Bantava, Tal. Manavadar, Distt. Junagadh.
3906.	Laxman Ravat Ramaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6081 15-3-78	At Dudhiya Post Nagdiya Tal. Jam Kalyanpur Distt. Jamnagar
3907.	Laxmanbhai Adani Devashibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2986 24-6-70	Anraivadi Sutyannarayan Nagar Opp. Kadiwala's Chali, A'bad.
3908.	Laxmanbhai Ramoliya Khodabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8832 1-9-83	C/o. Vasoya Haribhai Manajibhai, At. Amarnagar, Tal. Jetpur, Distt. Rajkot.
3909.	Laxmanbhai Toliya Bhagabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4617 29-1-75	At. Kuchiyadad, Post Kuvadava, Distt. Rajkot.
3910.	Laxmandas Sadhu Khandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5158 2-2-76	At. Kungher Tal. Patan Distt. Mehsana.
3911.	Laxmandas Tekvani Holaram	Vaidacharya, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1974	6851 2-4-79	28-F, Ward Kubernagar, A'bad.
3912.	Laxmi Khona Chandradas	G.F.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1966	3927 19-4-73	12, Tejpal Society Fatehpura Bus Stop, A'bad.
3913.	Laxmiben Patel Somabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8878 1-12-83	At. & Post Pural, Tal. Himmatnagar, Dist. Sabarkantha.

1	2	3	4	5
3914.	Laxmiben Shah Damaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	5137 27-1-76	C/o. Pradipkumar D. Jariwala, 11 Darshana Society, Timaliya Wad, Nanpura, Surat.
3915.	Laxmidas Govani Valajibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8905 24-1-84	C/o. Valaji Jadav Govani, Behind UCO Bank, At. Supedi, Tal Dhoraji, Dist. Rajkot.
3916.	Laxmidas Kardani Arjanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3689 20-11-72	At Bhimora Via. Upaleta, Distt. Rajkot.
3917.	Laxmidas Suchak Mavaji.	A.V.V., T. M. Vidyapeeth, Poona 1944	1309 28-3-44	R.M.O. Govt. Ayu Hospital At Surendranagar
3918.	Laxmikant Mehta Durgashanker	Ay. Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1977	6540 3-2-79	Mehta Ay. Aushadhalaya, At. Panavi, Via Vallabhipur, Dist. Bhavnagar.
3919.	Laxmikant Raval Labhashankar	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1965	1730 18-6-65	At. Choranja Tal. Karjan Distt. Baroda.
3920.	Laxmikumar Bhatt Dinakarrag	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7524 15-2-80	C/o' Yogesh D. Bhatt, B-128, Petro Chemical Township, At. Baroda.
3921.	Laxminarayan Malviya Babulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3198 21-5-71	Limdalane, Pratap Cotej Raj- putapura Sheri, No. 2, Jamnagar.
3922.	Laxminarayan Oza Narmada Shanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3934 25-4-73	A/32, Vishwakarma Society, Jodh- pur Char Rasta A'bad.
3923.	Laxminarayan Sharma Radheshyam	Vaidyacharya, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1971	7144 24-7-79	Anand Flat, 27/5, Malekshaheb, Bapunagar, A'bad.
3924.	Laxmipati Purohit Keshavprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2894 2-2-70	At. Modhera Tal. Chansuap Distt. Mehsana.
3925.	Laxmishanker Dave Jatashanker	Ay. Bhishak, A. I. Av. Vidyapeeth, Delhi, 1958	8744 19-4-83	Pipartoda, Dispensary, At. Pipar- toda, Tal. Dalpur, Dist. Jamnagar.
3926.	Laxmishanker Vyas Labhshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5327 2-4-76	Pranam Kunj, Patel Colony, At Jamnagar.
3927.	Lina Bhuta Chitranjan	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9387 23-9-85	"Samarpen" Building, Madan Zapa Road, At : Baroda-390001
3928.	Leena Dave Narendrakumar	B.A.M.S., Guj. rat Ay. Univ., 1984	9294 23-5-85	58/Tagorpark, Ambawadi, A'bad- 15.
3929.	Lekha Mankad Jitendrakamat	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3799 19-2-73	At Hadvad Tal Botad Distt. Bhavnagar.
3930.	Lekha Sheth Virchandbhai	G.F.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1963	1588 19-1-65	C/o. Shashikant H. Shah At Post Jaher Tal Kapadvaj Distt. Kaira.
3931.	Lekraj Pandya Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5888 20-9-77	Kailas Ashram At Rajupura Tal. Savali Distt. Baroda.
3932.	Lila Mehta Ranchhodji	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1955	924 2-1-56	C/o. Ranchhodji Parag'ji Mehta, Kasar Falia, Anandpura, At. Baroda.
3933.	Lila Patel Sharadchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4205 18-2-74	H.No. 2447, Pakhlis Polc Raipur A'bad.
3934.	Lila Patel Maganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	5394 13-5-76	C/o. Dr. Shanker P. Patel, Dhan- vantari Dispansary New Tower At Baroda.
3935.	Lila Trivedi Suketu	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1957	770 1-8-57	C/o. Dr. S. R. Trivedi Ghanti Ada, Ramlal Dasai's Khancha, At Baroda.
3936.	Lilaben Chaudhari Vanajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5927 17-10-77	At Godadha, Tal. Mandavi, Distt. Surat.

1	2	3	4	5
3937.	Lilaben Patel Shivlal	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ., 1979	8092 4-6-81	Primary Health Center, At Kat- vara, Tal. Dabod, Dist. Panch- mahal.
3938.	Liladhar Chaudhari Rambhaji	D.S.A.C., Gujarat Ay. Univ., 1966	2087 7-7-66	3, Merid Nursery Quarters, New Civil Hospital A'bad.
3939.	Liladhar Makvana Nanaji	Ay. Bhashak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi. 1972	6624 21-2-79	At. Shapur, Tal. Vanthali, Dist. Junagadh.
3940.	Lilitkumar Bhatt Mahedevprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3910 3-4-73	Janana Hospital Qua. At. Dharan- ghra Distt. Surendranagar.
3941.	Lilitkumar Jadav Ukabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5052 26-11-75	At. Jamraval Tal. Kalyanpur Distt. Jamnagar.
3942.	Lilitkumar Vaishnav Hematram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4752 7-4-75	Medical Officer Ayu. Dispensary At. Vertiya Tal. & Distt. Jam- nagar.
3943.	Lilavati Shah Mulchandji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3299 20-12-71	Rushivan Aushadhalaya, At Kosamba (R.S.) Tal. Mangrol.
3944.	Limbabhai Patel Kuvajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2814 19-8-69	At. Dhunda (Khanpur) Via, Morbi, Dist. Rajkot.
3945.	Linaben Shah Ravinchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2781 3-6-69	Dr. D. M. Desai, At. Himmat- nagar, Dist. Sabarkantha.
3946.	Madanlal Joshi Durgashankar	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1868 6-12-65	Shri Renuka Nivas, 5/1018, Opp. Ile Sub Station, Gujar Falia, Haripura, Distt. Surat-395003.
3947.	Madanlal Roda Krushnalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7824 24-9-80	C/o. Dr. K. D. Mora, 23, Savan Society, Vatava Road, Mani- nagar, A'bad.
3948.	Madanlal Vyas Ganpatishanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1947	1101 5-6-47	At. Karcheliga, Tal. Mahuva, Distt. Surat.
3949.	Madanmohan Agarwal Ramkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6215 3-8-78	240/2, Jayhind Colony, Opp. Nasdarn Mill, Rakaival Road, A'bad.
3950.	Madanmohan Sharma Jaylalshastri	Ayurved Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	8047 22-4-81	B. No. 5, Room No. 1, Anand Flat, Bapunagar, A'bad.
3951.	Madhav Giri Govind	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1951	154 4-7-52	At Kera, Tal. Bhuj, Distt. Kutch.
3952.	Madhav Patil Mangal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	5094 22-12-75	At. Bhada, Tal. Shabada, Distt. Dhulia.
3953.	Madhavi Andharia Jayantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9551 18-8-86	2058, Premnagar Society, Talaja Road, At. Bhavnagar-364002.
3954.	Madhavji Karsagara Ravajibhai	Ayurved Bhashak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	7155 25-7-79	At. Ranakhrishara, Via Ranavav, Dist. Junagadh.
3955.	Madhavlal Dudhaniya Kanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2964 6-6-70	At. Indra, Via Sardargadh, Tal. Manavadar, Distt. Junagadh.
3956.	Madhavlal Trivedi Keshavlal	L.A.M., U.P. Ay. Maha. Patan (Baroda State) 1941	1550 3-11-41	15, Satyanarayan Society, Jivrajpark, Ahmdabad-51.
3957.	Madhavlal Vaidya Shankarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5715 4-3-77	At. Pundhara, Tal. Vajapur, Distt. Mehsana.
3958.	Madhavprasad Acharya	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2985 23-6-70	Jitendra Chembars, Ay. Bhavan Marg, Aykar Vibhag, A'bad.
3959.	Madhykanta Patel Ishwarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6116 5-4-78	Primary Health Center, Lacharas, Tal. Rajpipala, Distt. roach.

1	2	3	4	5
3960.	Madhu Gohel Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	5966 18-11-77	C/o R.C. Gohel A/6/4, Godavai Nagar, Flat, Vibhag 2, Vasana, A'bad.
3961.	Madhu Kothari Jechandbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4387 28-5-74	C/o Mehta Madhuben Anilkumar, 3, Maikal Datt Strvctt, D/32 Pore, Calcutta.
3962.	Madhu Patel Bachubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8420 17-4-82	Opp. Kalupur Darvaja, Near Gayatri Lodge, Kalupur, A'bad.
3963.	Madhu Patel Narendralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	9293 23-5-85	C/o Acharya Yashodaban, Snatika Aryakanya Mahavidya- laya, Karlibag, Baroda.
3964.	Madhubala Bambhania Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3766 7-2-73	C/o B.L. Joshi, 21, Sector, Block No. 103/2, C-Type, Gandhinagar.
3965.	Madhubala Patel Bhulabhai	B.S.A.M., Kanpur Univ., 1975	5801 24-5-77	C/o Dhulabhai B. Patel, At. Ranchhodpura, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
3966.	Madhuben Goswami Kashibharaiti	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8887 27-12-83	32, Shankernagar Society, Opp. Dudhsagar Dairy, At. Mehsana.
3967.	Madhuben Nayak Rameshchandra	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	2347 27-12-66	Station Road, At. Navsari, Distt. Valsad.
3968.	Madhuben Reshamiya Liladhar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4582 3-12-74	C/o A. D. Papat, 32, Jalaram Society, At. Junagadh.
3969.	Madhuben Ribadiya Devajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6201 28-7-78	Station Road, At & P. O. Bilakha, Tal & Distt. Junagadh.
3970.	Madhuben Varu Manajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7333 15-10-79	C/o M.G. Vaghela, Vallabh Nivas, 4, Vadi Plot, At Porbandar, Distt. Junagadh.
3971.	Madhubhai Limbasia Kanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3320 25-1-72	At. Karanj, Tal. Olpad, Distt. Surat.
3972.	Madhubhai Patel Vallabhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1962	602 27-6-62	At Aat, Tal. Navsari, Distt. Valsad.
3973.	Madhubhai Thesiya Kanabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6029 16-2-78	At Akolvadi Gir, Tal. Talala, Distt. Junagadh.
3974.	Madhubhai Vora Tulasibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8405 5-4-82	At. Amrutvel-Mohuva, Dundas, Via & Tal. Mahuva, Distt. Bhavnagar.
3975.	Madhukant Chitnia Jekishandas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1953	2593 1-7-53	Vasandavad, At. & Tal. Khanbhat, Distt. Kheda.
3976.	Madhukant Gondalia Kanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	9272 2-5-85	1/64, Rambag Society, Ashwinikumar, Surat-8.
3977.	Madhukant Jani Manasukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2941 4-4-70	Vera Bazar, Tanksal, Vala's Khancha, Bhavnagar.
3978.	Madhukanta Jani Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4917 15-7-75	Jain Dharmashala, R. No. 17, Opp. Station, At. Shihor, Distt. Bhavnagar.
3979.	Madhukant Pandhya Bhagvanji	H.P.A. P.G.T. Centre in Ay. Jamnagar 1962	765 18-9-62	D/4, E.S.I. Dispensary Staff Quarter's Near Bombay Garaj Shahibag, A'bad.
3980.	Madhukanta Patel Mangubhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	603 1-8-56	Kahtrivad, Junathana, At Navsari, Distt. Valsad.
3981.	Madhukanta Shah Shanalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	2695 1-12-55	District Panchayat Office, Compound, At. Himmatnagar, Distt. Sabarkantha.
3982.	Madhukant Sheth Priyachandra	B.A.M.S., Gujarat Univ., 1967	2629 10-1-68	Darbagadh Chowk, At. Upleta, Distt. Rajkot.

1	2	3	4	5
3983.	Madhukantaben Vyas Pramodrai	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1966	6959 4-5-79	Thoranali Bunglo, At & Dist. Surendranagar.
3984.	Madhukar Nenuji Sevaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5032 11-11-75	At. Madharvada, Via Lushala, Distt. Junagadh.
3985.	Madhukar OK Balavant	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1951	78 6-5-52	Shivranjan, 11/B, Amar Jyoti Lal Bug Road, Baroda.
3986.	Madhukar Shah] Jethalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1959	1534 1-7-59	H-1, Swami Vivekanand Co-op. Hou., Society, Near Jodhpur Char- Rasta, Setelite Rd., A'bad.
3987.	Madhukar Vakil Champaklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4793 21-4-75	4/89, Vitthal Bhavan, Mali Falia, Haripura, Surat.
3988.	Madhulika Kacholiya Prabhulal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9599 23-10-86	J/B, Govt. Quart., Behind Sabjail, J. P. Road, At. Surat-2.
3989.	Madhumati Munjpara Kanajibhal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7336 16-10-79	Khojakhana Street, Bahelapara, C/o Vonilal, S. Vora, At. Lima- badi, Distt. Surendranagar.
3990.	Madhumalati Shah Ramesh	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1966	7324 10-10-79	Shanth Vasahat, Patap Road, Ravpura, At. Baroda.
3991.	Madhurika Karbhati Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5009 20-10-75	Gita, Jashibradharsh, Build., Ram- tekari Road, At. Porbandar.
3992.	Madhusinh Gohel Dansinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4515 20-9-74	Civil Hospital Staff Qua., At. Por- bandar, Distt. Junagadh.
3993.	Madhusudan Bhatt Jasvantram	Ayurved Visharad, M.S. Univ. 1944	2112	C/o Ay. College, Ajva Road, Baroda.
3994.	Madhusudan Bhatt Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3859 8-3-73	Satodia Sheri, At. Gondal, Distt. Rajkot.
3995.	Madhusudan Desai Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8113 17-7-81	Desai Vago, Nava Dhara, At. Na- diad, Distt. Kheda.
3996.	Madhusudan Dave Somnathbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8888 2-1-84	At. & Post Shihori, Tal. Kankarej, Dist. Banaskantha.
3997.	Madhusudan Joshi Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4412 19-6-74	Kalidas Morarji Build, 2, Wadi Plot, At. Porbandar, Distt. Junagadh.
3998.	Madhusudan Joshi Bhaishanker	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1973	6706 9-3-79	Bhidbhanjan Sheri No. 2, Opp. Danapith, Bardangali, At. Rajkot.
3999.	Madhusudan Kapadiya Natavarlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	102 3-1-55	Bazar Street, At. Khergam, Distt. Valsad.
4000.	Madhusudan Khede Shriram	B.A.M.S., Indore Univ. 1977	6415 18-11-78	3/55, Dhanmandi, At. Maheshwar, West Nimar.
4001.	Madhusudan Machchar Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5884 20-9-77	Lindibazar, Bibodi Fali, At. Jam- nagar.
4002.	Madhusudan Panchbhai Devidas	M.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1972	7489 17-1-80	At Pathrai, Post Bhadai, Tal. Nan- darbar, Distt. Bhulc.
4003.	Madhusudan Pandit Parshottam Prasad	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1962	735 23-11-62	Vaidya Nivas, Station Road, At. Anand, Distt. Kheda.
4004.	Madhusudan Pandya Radheshyam	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	7853 10-10-80	At & Post Ghantana Gam, Tal. Sagvada, Distt. Dungarpur, Rajas- than.
4005.	Madhusudan Patel Manibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4490 6-9-74	At Sarsa, Tal Anand, Distt. Kheda.

1	2	3	4	5
4006.	Madhusudan Pathak Trambaklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	5422 4-6-76	At. Khareda, Via Morabi, Distt. Rajkot.
4007.	Madhusudan Raval Lalitkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	2824 25-8-69	At. Adariyana, Via Khara Gheda, Tal Patdi, Distt. Surendranagar.
4008.	Madhusudan Shukla Narayanlal	Ayurved Visharad, M.S. Univ. Baroda 1953	1995	At. Pipalia, Tal. Vaghodia, Distt. Baroda.
4009.	Madhusudan Shukla Gandala	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5942 26-10-77	3, Bhagavatpara, Shukla Nivas, Behind Govt. Hospital, Gondal, Pin 360 311.
4010.	Madhusudan Tivari Dhupnarayan	B.A.M.S., Univ. of Bihar 1983	9530 28-7-86	Dhruabhai's Patel Chali, Room No. 95, Behind Vikram Mill, A'bad-21.
4011.	Madhusudan Trivedi Chunilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1964	1460 29-6-64	Krishnakunj, Opp. Painter Garden, Outside Delhi Gate, Ahmedabad.
4012.	Madhusudan Trivedi Gunvantrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3527 21-7-72	Gaurisadan, Vadafali No. 2, Near Pancheswar Tower, At. Jamnagar.
4013.	Madhusudan Upadhyay Girjashankar	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	68 10-6-63	At Amaleshwar, Tal. & Distt. Broach.
4014.	Madhusudan Vaidya Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	3024 11-8-70	Amul Dairy Road, Near Ganesh Dugdhalaya, At Anand, Distt. Kheda.
4015.	Madhusudan Vibhakar Vasantrai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	1015 1-8-55	Ramshchandra Fulchand's Vandi, Hospital Road, At. Mangrol, Via Keshod, Distt. Junagadh.
4016.	Madhusudan Vyas Zaverilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4596 1-1-75	Near Swaminarayan Temple, Bhu- pendra Road, Rajkot.
4017.	Madhusudan Vyas Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4969 15-10-75	Opp. Swaminarayan Temple, Bhu- pendra Road, At. Rajkot.
4018.	Madmohan Patel Bhagvanbhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1770 21-7-65	At. Kuvarpura, Tal. Sankheda, Distt. Baroda.
4019.	Mafatlal Jani Ambashanker	Ayurved Visharad, M.S. Univ. Baroda 1953	2144	At. Kahoda, Tal. Siddhapur, Distt. Mehsana.
4020.	Mafatlal Modi Hargovinddas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4036 4-9-73	At. Memadpur, Tal. Vadgam, Distt. Banaskantha.
4021.	Mafatlal Patel Bahechardas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4806 25-4-75	Mandir Vas, At Aithor, Tal. Siddha- pur, Distt. Mehsana.
4022.	Mafatlal Sadhu Madhavdas	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1972	6703 9-3-79	At. Dalasana, Tal. Viramgam, Distt. A'bad.
4023.	Mafatlal Suthar Ganpatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5754 1-4-77	At. Pilavai, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
4024.	Magan Patil Narsai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2064 21-6-66	At & Post Vekla, Tal. Nizar, Distt. Surat.
4025.	Magan Patil Dattu	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	3039 1-9-70	At. Shinde, Tal. Nandurbar, Distt. Dhulia.
4026.	Maganbhai Chaudhari Vanabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6252 2-9-78	At. & Post Borkhadi, Tal. Vyara, Distt. Surat.
4027.	Maganbhai Dharva Malubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5269 9-3-76	At. Mandupura, Post Chandragadh, Via Pavagadh, Distt. Junagadh.
4028.	Maganbhai Patel Gobardas	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	601 27-3-62	At. Vadavali, Tal. Chansma, Distt. Mehsana.

1	2	3	4	5
4029.	Maganlal Bafalipara Nagajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6051 8-3-78	At. Khakhariya, Tal. Babara, Distt. Amreli.
4030.	Maganlal Bavarava Kahji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4488 8-7-74	At. Bhavsar, Tal. Malia Hatina, Distt. Rajkot.
4031.	Maganlal Badrosiya Prabhubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3424 8-3-72	At. & Post Pratapur, Via Rajsitapur, Distt. Surendernagar.
4032.	Maganlal Chauhan Babubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6333 4-10-78	At. Jamaka (Manana), Via Men- darada, Tal. & Distt. Junagadh.
4033.	Maganlal Dhaduk Mohabbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7728 29-5-80	At Charkhadia, Tal. Savakundala, Dist. Bhavnagar.
4034.	Maganlal Kaila Mohanalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5783 30-4-77	At. Vajalpur, Tal Maliya Miyana, Distt. Rajkot.
4035.	Maganlal Kudesa Bhimajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6162 16-5-78	Primary Health Centre, At. Dhari, Tal. Dhari, Distt. Amreli.
4036.	Maganlal Lamba Karshanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3714 1-1-75	At. Movia, Tal. Gondal, Distt, Rajkot.
4037.	Maganlal Ladani Bhimajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3361 16-2-72	Haribhai Parvaja's House, Near Talukashala, At. Ankot, Distt. Rajkot.
4038.	Maganlal Mandaliya Valaji	Vaidya Charya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1974	8858 1-11-83	Railway Station Plot, Janata Dispensary, Naivada, At. & Post Talala Chatara, Dist. Junagadh.
4039.	Maganlal Nathavani Danjibhai	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1957	6898 16-4-79	Ashutosh, Near Water Tank, Jama- dar Pada, At. Savarkundala, Distt. Bhavnagar.
4040.	Maganlal Nimavat Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5480 31-7-76	At. Saladi, Tal. Liliya, Mota, Distt. Amreli.
4041.	Maganlal Paide Jagjivan	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1967	7702 29-4-80	At. Charania, Vai Vadia Devalli, Tal. Jetpur, Dist. Rajkot.
4042.	Maganlal Patel Zinabbhai	A.V.V., T.M. Vidyapeeth, Poona 1942	3474	Gandhi Chowk, At Padara, Distt. Baroda,
4043.	Maganlal Patel Valjibhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1946	600 2-9-46	At. Aat, Via Navasari, Distt. Valsad.
4044.	Maganlal Patel Parsottam	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	599 2-4-56	Mehidharpura, Jadakahadi, Surat-3.
4045.	Maganlal Patel Gangaramdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7437 12-12-79	At. Lindi, Tal. Siddhapur, Dist. Mehsana.
4046.	Maganlal Patel Rovabbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8687 3-3-83	141, Samir Society, Memco Tol- naka, Near Madhusudan Mill, Narod Road, A'bad-380025. j
4047.	Maganlal Solanki Fragjibhai	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1972	6656 28-2-79	At. Lilia Reta, Dist. Amreli.
4048.	Maganlal Thakar Amrutlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1953	2294 25-9-53	At. Shapur, Tal. Vanthali, Distt. Junagadh.
4049.	Maganlal Vaishnani Ramjibhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1963	1404 13-2-64	C/o Ramajibhai Lalji Vaishnani, At Bhayavadar (Saurashtra).
4050.	Mahadev Za Ratneswar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8813 29-7-83	Ranchhodji's Temple, Asarva Chakala, A'bad-16.
4051.	Mahavirsinh Chaudasama Raghurisingh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4131 1-12-73	At Jashaka, Tal. Dhandhuka, Distt. A'bad.

1	2	3	4	5
4052.	Mahavirsinh Gohel Harishinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3852 8-3-73	At. Gadhula, Post Sanosara, Dist. Bhavnagar.
4053.	Mabaharsinh Med Shamantsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7801 5-9-83	At. Sevanla, Tal. Devagadh, Baroda, Dist. Panchmahal.
4054.	Mahavirsinh Ravulji Mahendrasinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	8831 1-9-84	At. & Post Dharampur, Distt. Valsad.
4055.	Mahmad Yusuf Lakhani Ahmedbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9079 29-6-84	Darbari Kothar Road, Shelarsha Pir Dargah, At. Bhavnagar.
4056.	Mahmedfarook (Hakim) Ganibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8877 1-12-83	Asarva, Chamahpura Chakala, A'bad.
4057.	Mahanlal Agravat Laldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8502 27-8-82	At. Piparala, Via Tanasa, Post Bharoli, Dist. Bhavnagar.
4058.	Maharanidas Buddhabhatti Gordhandas	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1958	6771 21-3-79	Chhaya Bazar, Avashiya Sheri, At. jungadh.
4059.	Mahashanker Bhatt Laxmishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3577 4-9-72	At. Charkhadi, Tal. Gondal, Distt. Rajkot.
4060.	Mahashanker Mehta Ambashanker	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	6625 21-2-79	Totaniyana, Post Rehisa, Via Mingala Jn., Tal. Vallabhipur, Dist. Bhavnagar.
4061.	Mahashanker Shukla Amrutlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1949	1281 31-3-49	At. Singpur, Tal. Songadh, Distt. Surat.
4062.	Mahasikhilal Bavishi Laxnichand	A.V.V. T.M. Vidyapeeth, Poona 1942	787 22-10-42	Khari Pole Road, Near Patwa Press, Nadiad.
4063.	Mahendra Adhiya Jamandas	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	7926 12-12-80	C/o Sharad Jamanadas Adhiya, 908, Triveni Aptt., Nanpura, At. Surat.
4064.	Mahendra Desai Ramanlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1962	429 18-12-62	Nana Parsi Vad, Valsad.
4065.	Mahendra Joshi Chamanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	9289 7-5-85	3/Banas Bank Society, College Compound, At. Palanpur, Dist. Banaskantha.
4066.	Mahendra Kilaji Mohandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5787 30-4-77	At. Sajantimba, Via. Lilla Mota, Dist. Amreli.
4067.	Mahendra Mehta Ratilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1977	5833	Gurukrupa, Dhareshwar Road, At Sardhar, Distt. Rajkot.
4068.	Mahendra Patel Chhotubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9185 11-12-84	At. Bhatgam, Tal. Olpad, Dist. Surat.
4069.	Mahendra Purekh Atmaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4187 12-2-74	Mukhi's Shri, Kharakuva, At. Sirkhej, Tal. City, Distt. A'bad.
4070.	Mahendra Shah Hiralal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	1227 10-7-62	Kirtikunj Society, Plot No. 23, Atmaram Road, Kurell Bag, Dt. Baroda.
4071.	Mahendra Shah Nathalal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1960	1201 2-1-60	Opp. Civil Court, Dahegam, Distt. Ahmedabad.
4072.	Mahendra Shahatri Mahashshanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1676 25-5-65	645/Labashvar's Pole, Relief Road, Ahmedabad.
4073.	Mahendra Thakkar Ramanlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2091 11-7-66	Sankadi Sheri, Khijada's Pole Hou. No. 984, A'bad.
4074.	Mahendra Vyas Natsrilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3555 21-8-77	Gandhi Ashram, A'bad.

1	2	3	4	5
4075.	Mahendrabhai Mistri Chimanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5220 26-2-76	At. Ras, Tal. Borsad, Distt. Kheda
4076.	Mahendrabhai Patel Shamalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4228 22-2-74	At. Sargi, Tal. Sankheda, Distt. Broda.
4077.	Mahendrabhai Patel Punambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4568 4-11-74	At. Vadu, Tal. Padara, Distt. Baroda.
4078.	Mahendrabhai Patel Chhaganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7556 29-2-80	At. Shili, Tal. Anand, Distt. Kheda.
4079.	Mahendradev Sharma Madhavprasad	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	7501 17-1-80	444, Anandnagar, Bhavnagar-5.
4080.	Mahendrakumar Bajaj Champalal	B.A.M.S., Vikram Univ. 1977	7168 3-8-79	Behind Town Hall, At. Khandava, Dist. East Nimar (M.P.).
4081.	Mahendrakumar Barot Jethalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2907 19-2-70	Panch Matadi, At. Tal & Distt. Kheda.
4082.	Mahendrakumar Bhatt Laxmishanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	849 1-2-56	C/o Laxmishanker K. Bhatt, Public Dispensary, At. Maholal, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
4083.	Mahendrakumar Bavishi Mansukhlal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1967	2622 29-12-67	5, Manishi Co. Hou. Society, Be- hind Surendarnagar, Ankur Rd., Narayanpura, A'bad.
4084.	Mahendrakumar Brahmabhatt Nathalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6875 3-4-79	At. Anara, Tal. Kapadvanj, Dist. Kheda.
4085.	Mahendrakumar Chaudhari Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	6255 2-9-78	At. Ruvabharmpor, Post Khoj Paradi Tal. Bardali, Distt. Surat.
4086.	Mahendrakumar Dave Ramanlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1964	1463 29-6-64	Samadi Chakala, At. Sojitra, Distt. Kheda.
4087.	Mahendrakumar Dave Hariharprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4478 2-9-74	B. No. 1, Ganesh Society, Outside Shahpur Gate, A'bad.
4088.	Mahendrakumar Dave Keshavlal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1976	6616 21-2-79	At Katrasa (Gir), Via Malia-Mutina Dist. Junagadh.
4089.	Mahendrakumar Dave Shantilal	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	7610 18-3-80	Ananbava's Chakala, Pathak Palia, At Jamnagar.
4090.	Mahendrakumar Dedadaria Naranbhai	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6519 1-2-79	At Sanesara, Tal. Shiher, Dist. Bhavnagar.
4091.	Mahendrakumar Finava Vashrambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3811 21-2-73	Kapad Vapari, C/o Patel V.L., Moti Bazar, At Gondal, Distt. Rajkot.
4092.	Mahendrakumar Gaudani Harilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2283 29-11-66	1362, Vasansheri, Saraspur, Ahme- bad.
4093.	Mahendrakumar Gaudani Chhaganbhai	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1970	3241 9-9-71	5/54 Indiranagar, Amraivadi, Ahmedabad.
4094.	Mahendrakumar Jain Pannalal	B.A.M.S., Vikram Univ., 1976	6553 12-2-79	6, Umiyadevi Co-op. Hou. Society, No. 2, Near Dena Bank, Amaraivadi, A'bad.
4095.	Mahendrakumar Jobanputra Vrajlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4888 17-6-75	At Nayaka, Tal. Matar, Distt. Kheda.
4096.	Mahendrakumar Joshi Mugutlal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1973	6621 21-2-79	At Kharedi, Via Dhoraji, Tal. Kala- vad, Dist. Jamnagar.
4097.	Mahendrakumar Joshi Shivnarayan	Valdya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1971	8423 1-5-82	Sheth Mulchand Bhavan's Hou., At Navinal, Tal. Mundra, Dist. Kutch.

1	2	3	4	5
4098.	Mahendrakumar Kapadiya Dhrubhai	D.A.S.F. Fac. of AUSM, Bombay 1954	2321 3-9-54	At. Vasad, Tal. Anad, Dist. Kheda.
4099.	Mahendrakumar Majithiya Chhaganlal	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ., 1972	4447 20-8-74.	Luhar Sheri At Jam-Salayam, Distt Jamnagar.
4100.	Mahendrakumar Mehta Trambaklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4696 25-3-75	Prerana, Sadhana Society, At Savar Kundala, Distt Bhavnagar.
4101.	Mahendrakumar Mehta Lakhashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7361 29-10-79	Medhavas, At Naradipur, Tal. Kalo, Dist. Mehsana.
4102.	Mahendrakumar Modi Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6562 12-2-79	Shri Bhaktinagar Society, B. No. 37, At Mehsana.
4103.	Mahendrakumar Modi Bholabhai	Ayurved Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1973	6785 21-3-79	At Upora, Tal. Suddhapur, Dist. Mehsana.
4104.	Mahendrakumar Mucchala Shantilal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1965	1778 2-8-65	C/o Shantilal V. Muchhala, At Dhari, Distt Amreli.
4105.	Mahendrakumar Jivanlal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1973	6890 12-4-79	Bhojak Sheri, At Vadnagar, Dist. Mehsana.
4106.	Mahendrakumar Nirmal Tribhovandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4280 20-3-74	At Khodu Tal Vadhavam, Distt Surendernagar.
4107.	Mahendrakumar Oza Jivanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	8501 27-8-82	Sub Post Master, At. Ladol, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana-382840.
4108.	Mahendrakumar Pandya Narmadashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4357 26-4-74	At Randheja, Tal. & Distt. Gandhinagar.
4109.	Mahendrakumar Pandya Bhogilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8580 21-10-82	At & Post Bolundra, Tal. Modasa, Dist. Sabarkantha.
4110.	Mahendrakumar Patel Gordhanbhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1962	606 29-6-62	Moti Khadaki, At Samarkha, Tal. Anand.
4111.	Mahendrakumar Patel Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4857 22-5-75	At Mangrol, Tal. Karjan, Distt. Baroda.
4112.	Mahendrakumar Patel Jorabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5231 1-3-76	At Chapad, Tal. & Distt Baroda.
4113.	Mahendrakumar Patel Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6024 16-2-78	Ramfalia, At Nadiad, Distt. Kheda.
4114.	Mahendrakumar Patel Vithalabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8179 22-9-81	At Amodara (Rampur) Tal. Brantij, Dist. Sabarkantha.
4115.	Mahendrakumar Patel Chhaganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	8210 2-11-81	At & Post Mobha, Tal. Badara, Dist. Baroda.
4116.	Mahendrakumar Patel Manharlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8941 17-2-84	At & Post Salaya, Tal. Bidasinor, Dist. Kheda.
4117.	Mahendrakumar Patel Shankarlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9159 17-10-84	Mehta Vas, At, Ramnaga (Bhan- keda), Tal. Virangam, Dist. A'bad.
4118.	Mahendrakumar Parekh Dayalal	Ayurved Visharad, Board of I. M. Saurashtra, 1958	2212 15-3-58	Vajiravali Sheri, Divanpara Road At Bhavnagar.
4119.	Mahendrakumar Parekh Narilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7288 15-9-79	Shri Krishna Bhusma, Bilnath Sheri, At Bilakh, Tal. & Dist. Junagadh.
4120.	Mahendrakumar Pathak, Parvatishanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1962	705 25-6-62	Nizampura, (Chhani Road), At Baroda-2.

1	2	3	4	5
4121.	Mahendrakumar Phogat Bhavansinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6278 20-9-78	At & Post Khaidipada, Tal. Dedla-Pada, Dist. Broach.
4122.	Mahendrakumar Prajapati Lalalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4891 17-6-75	At Pansrpada, Post Jodhpur, Tal Balasinor. Distt Kheda.
4123.	Mahendrakumar Rana Chhangalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1953	1553 1-6-53	C/o C.D. Rana, Kaystha Sheri, At Bhuj Kutch.
4124.	Mahendrakumar Rathod Pragji	Ayurved Visharad, Board of I.M. Saurashtra, 1961	2279 23-6-61	1497, Krishnanagar, At Bhavnagar.
4125.	Mahendrakumar Raval Umodbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5899 20-9-77	At Gavada, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
4126.	Mahendrakumar Raval Vallabhdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2760 8-4-69	At Satapur, Tal Jam-Jodhpur, Distt. Jamnagar.
4127.	Mahendrakumar Raval Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6362 4-10-78	Chhipa Chowk, At Randheja, Dist. Gandhinagar.
4128.	Mahendrakumar Shah Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4385 20-5-74	At Vaktapur, Tal. Himmatnagar, Distt. Sabarkantha.
4229.	Mahendrakumar Shukla Mahashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5542 28-9-76	At & Post Rupal, Shukla's Madh, Tal. & Distt Gandhinagar.
4130.	Mahendrakumar Soni Vadilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5766 14-4-77	Society-nagar, Near Kenal ridge, At Himmatnagar, Distt. Sabarkantha.
4131.	Mahendrakumar Soni Kantilal	B.A.S.M., Gujarat Ay. Univ., 1984	9356 21-8-85	At & P. O. Haldharvas, Tal, Mahendawad, Dist. Kheda-387140.
4132.	Mahendrakumar Tivari Shivkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5776 26-4-77	Tivari Bhuvan, Near Balvatika, Maninagar, A'bad.
4133.	Mahendrakumar Trivedi Bapalal	Ayurved Visharad, Board of I. M. Saurashtra, 1960	2236 6-5-60	2606/2, Gazariya Polc, Shahpur, Ahmedabad.
4134.	Mahendrakumar Trivedi Hemchandrabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5789 30-4-77	29, Digvijay Plot, Kiran, At Jamnagar.
4135.	Mahendrakumar Upadhyay Narmadashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5260 8-3-76	At Ghavat, Tal Karjan, Distt. Baroda.
4136.	Mahendrakumar Vaidya Jagjivandas	Ayurved Visharad, Board of I. M. Saurashtra, 1958	2348 16-5-58	10, Panchbungala, Gulabai Tekara, A'bad.
4137.	Mahendrakumar Vaidya Vitthalidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4827 2-5-75	At Badpura, Tal Vijapur, Distt. Mehsana.
4138.	Mahendrakumar Vasani Damji	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9552 18-8-86	At. Metoda-360003, PO: Khirsara, (Ranmalji), Tal: Ladhika, Dist; Rajkot.
4139.	Mahendrakumar Vyas Harikrishna	D.S.A.C., C.S. Ay. Course. Gujarat, 1966	2488 12-5-67	At Killapardi, Tal Pardi, Distt. Valsad.
4140.	Mahenderlal Bhatt Ambalal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1961	850 5-12-61	At Bhuvel, Tal Khambhat, Via Anand, Distt. Kheda.
4141.	Mahendralal Vanodja Hiralal	B.A.M.S., Univ., of Gujarat, 1968	2735 10-2-69	Sardarnagar, B. No. 49, Station Road, Surat.
4142.	Mahendraprasad Jani Dayaram	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1958	6740 15-3-79	Shantinath Society, Station Road, At Prantij, Dist. Sabarkantha.
4143.	Mahendraprasad Pandit Prabhubhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1962	733 18-12-62	Dr. P. J. Pandit, Anupam H. Society, Parijatak, At Halal, Distt Panchmahal.

1	2	3	4	5
4144.	Mahendraprasad Patel Dahyabhai	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1984	9398 19-10-85	10/B Jivan Jyot Society, Lalbag, Makarpua Road, At: Baroda.
4145.	Mahendraprasad Vyas Bhanushanker	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1961	7615 18-3-80	Jerambhai Hou., Genda Sheri, At Vanthali, Dist. Junagadh.
4146.	Mahendrapuri Gauswami Dharamपुरi	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2869 9-1-70	At Tankara, Tal. Morbi, Distt. Rajkot.
4147.	Mahendrarai Trivedi Ravishanker	B.A.M.S., Univ., of Gujarat, 1961	326 30-4-62	C/o Trivedi R.J., Sudama Kutir, Bhaga Talav, At Bhavnagar.
4148.	Mahendrasinh Atodaria Ramsinhbava	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9310 2-7-85	At & Post: Kharach-394 120, Via: Kosamba, Tal: Hasont, Dist: Broach.
4149.	Mahendrasinh Chauhan Pruthusinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5273 12-3-76	At Bamanava, Via Vadnagar, Distt. Mehsana.
4150.	Mahendrasinh Chavada Manubha	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6390 27-10-78	At & Post Satheba, Tal. Bayad, Dist. Sabarkantha.
4151.	Mahendrasinh Jadeja Pradyumansinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2801 25-7-69	At Kharchia, Via Morbi, Tal. Jodia, Distt Jamnagar.
4152.	Mahendrasinh Jadeja Gajubha	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8841 6-9-83	At. & Post, Bhangor, Via. Vorad, Dist. Jamnagar.
4153.	Mahendrasinh Kathavadiya Jaysinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6382 27-10-78	At Kathavada, Post Velachha, Via Kosamba (R.S.) Via Mangarel, Dist. Surat.
4154.	Mahendrasinh Vaghela Gagubha.	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1965	6839 31-3-79	At Chhabasar, Tal. Dist. A'bad.
4155.	Mahendrasinh Vasadiya Udaysinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7834 30-9-80	At Tarsadi, Post Kosamba, Dist. Surat.
4156.	Mahendrasing Zalal Balavantsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4180 11-2-74	3, Girishkunj Society, Near Jay Vijay Society, Naranpura, A'bad.
4157.	Mahendrapuri Goswami Laxmanपुरi	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5729 15-3-77	At Asaroda, Post Rampura, Tal Prantij, Distt. Sabarkantha.
4158.	Mahesh Bachu Dolarrai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1961	789 23-10-61	T.B.X. 24, Adipur, Kutoh.
4159.	Mahesh Dcsai Natvarlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1953	430 15-7-53	At Motamiya Mangarol, Distt. Surat.
4160.	Mahesh Min Krishnalal	D.A.S.F., Fac of AUSM, Bombay, 1950	943 1-3-55	Mental Hospital, At & Distt. Jamnagar.
4161.	Mahesh Pandit Anantray	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1975	7038 20-6-79	Panditnivas Palace Road, At Rajkot.
4162.	Mahesh Patel Mavji	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9590 7-10-86	35, Jayramnagar, Ashvinikumar, At: Surat-395 008, Tal: Choryasi, Dist: Surat.
4163.	Mahesh Raikar Ramchandra	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2060 21-6-66	Vadivadi, Ravpura, Baroda.
4164.	Mahesh Shah Ambalal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1961	1204 18-12-61	Near Mahadev, Kolakhadi, Ghadiyali Pole, Baroda.
4165.	Maheshbabu Shah Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2782 3-6-69	6/68, Nav Nirmannagar, Near Pragtinagar, Navavadaj, A'bad.
4166.	Maheshbhai Patel Chandubhai	B.A.M.S., Univ., of Gujarat, 1966	2333 12-12-66	Chandra Nivas, Patel Society, At. Nadiad, Distt. Kheda.

1	2	3	4	5
4167.	Maheshbhai Shankerbhai	B.A.M.S., Indore Univ., 1972	7917 12-12-80	6-A, Sarvodaya Society, Amul Dairy Road, At Anand, Dist. Kheda.
4168.	Maheshchandra Desai Khandubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5115 8-1-76	31, Bhuleshanwar Society, Maninagar, A'bad.
4169.	Maheshchandra Ghate Manmantrao	M.D.(Ay.), Gujarat Ay. Univ., 1979	7400 27-11-79	At Talod, Tal. Prantij, Dist. Sabarkantha.
4170.	Maheshchandra Goswami Jagjivan	Vaidya Visharad, Govt. Ay. Vidyalyaya Coll., Patiala, 1969	8749 19-4-83	994/5, Gali Narsinhdas, At. Amrutsar (Punjab).
4171.	Maheshchandra Hirani Arvindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7737 6-6-80	6, Jn. Plot, At Rajkot.
4172.	Maheshchandra Kanungo Gaurishanker	B.A.M.S., Vikram Univ., 1977	7477 5-1-80	52, Vivokanandnagar Colony, Friganj, At Ujjain (M. P.).
4173.	Maheshchandra Mehta Vrujlal	B.A.M.S., Univ., of Gujarat, 1967	2521 19-6-67	Kavubha Road, Opp New Filtar, Upnir, Plot 6, At Bhavnagar.
4174.	Maheshchandra Nayak Ambelal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1954	477 1-12-54	C/o Jitendra A. Nayak, Hou. No. 954, Pathasala's Sheri, Amaliran.
4175.	Maheshchandra Pandit Matilal	M.D.(Ay.), Gujarat Ay. Univ., 1978	8072 4-5-81	At Lodra, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
4176.	Maheshchandra Pandya Hariprasad	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1964	1453 29-6-64	Near Pulbari, Salatvada, Baroda.
4177.	Maheshchandra Patel Surajram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4669 20-3-75	At & Post Derol, Tal & Distt. Broach.
4178.	Maheshchandra Patel Naginbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7568 29-2-80	At Baleshwar, Tal. Palsana, Dist. Surat.
4179.	Maheshchandra Purohit Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4995 17-10-75	St. Road, At Padara, Distt. Baroda.
4180.	Maheshchandra Shukla Prakashnarayan	B.A.M.S., Vikram Univ., 1975	9035 16-4-84	C/o B.J. Shastri, 124, Filend Ganj, At. Dahod, Dist. Panchmahal.
4181.	Maheshchandra Thekar Bhupatrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3334 7-2-72	Gayatrikripa, Station Plot No. 13 Gondal, Distt. Rajkot.
4182.	Maheshchandra Upadhyay Shanilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1965	1849 26-11-65	C/o Girijashnkar P. Upadhyay, Sharda Kutir, Jagruti Co. Op. Hou. Society, Maninagar, Ahmedabad.
4183.	Maheshchandra Vyas Manushanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4865 29-5-75	Opp. Keval Pari's Madh, At Chansma, Distt. Mehsana.
4184.	Maheshkumar Akhani Amrutlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9242 12-3-85	Chittrakut Society, At. Thara, Tal: Kankarej, Dist. Banaskantha.
4185.	Maheshkumar Bhatt Ratilal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1967	2618 19-12-67	Ranika, Lisbadivali Sadak, Kavikant Road, At Bhavnagar.
4186.	Maheshkumar Bhatt Nandlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3139 25-2-71	Plot No. 868, Kundankunj, Behind Ladies College, At Bhavnagar.
4187.	Maheshkumar Bhatt Mulajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7398 21-11-79	At Choranda, Tal. Miyagan Kurjan, Dist. Baroda.
4188.	Maheshkumar Bhavsar Chakulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4755 7-4-75	At. Mau, Tal. Bhilola, Distt. Sabarkantha.
4189.	Maheshkumar Chaturvedi	B.A.M.S., Indore Univ., 1976	8466 3-8-82	C/o Umakant G. Joshi, Satyaratayan Street, Basvada, Rajasthan.

1	2	3	4	5
4190.	Maheshkumar Dave Bhaitalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4526 23-9-74	At. Sanosara, Tal. Shikhor, Dist. Bhavnagar.
4191.	Maheshkumar Dave Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8008 17-3-81	Kasho, Moti Khadaki, At. Petlad, Dist. Kheda.
4192.	Maheshkumar Dave Ratilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8938 17-2-84	Moti Khadaki, At. Naroda, Tal. City, Dist. A'bad.
4193.	Maheshkumar Desai Vasantlal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1978	7790 19-6-80	C/o Marhadai M. Desai, 49/316, Ilora Park, At Baroda.
4194.	Maheshkumar Dangar Nagdanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8621 13-1-83	"Yadvera", Kevhanagar, At. Varaval, Dist. Junagadh.
4195.	Maheshkumar Jani Mayashnaker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1963	1371 19-12-63	Plot No. 1336 Ghogh Cickal (Flow) Bhavnagar.
4196.	Maheshkumar Jani Rasiklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5287 23-9-76	At Ori, Tal. Rajpetha, Dist. Broach.
4197.	Maheshkumar Jani Narmadashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5357 20-4-76	Baharapara, Near Loharvada, At Palitana, Distt. Bhavnagar.
4198.	Maheshkumar Jani Pritamlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7054 10-10-80	Harihar Nivas Sadar, Rajkot.
4199.	Maheshkumar Joshi Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	8276 29-10-71	At Idar, Asopaiva Strad, Distt. Sabarkantha.
4200.	Maheshkumar Kansara Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3763 6-2-73	Kalka Pole, Kansara Bagar, At Nadiad.
4201.	Maheshkumar Mali Hiralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8287 23-1-82	8/63, Govt. G. Colony, Sukramnagar, A'bad.
4202.	Maheshkumar Mehta Jatashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	8246 5-3-76	At Gaf, Tal. Dhandhuka, Distt. A'bad.
4203.	Maheshkumar Mehta Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7532 15-2-80	Chokanibajar, At Chandod, Tal. Babhol, Dist. Baroda.
4204.	Maheshkumar Modi Kantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9538 28-7-86	13/Bhagyodaya Society, Behind Market Yard, At. Mehsana.
4205.	Maheshkumar Nayak Dalsukhram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3222 29-1-72	Behind Juvansinhji Temple, Opp. Sardarbag, At Bhavnagar.
4206.	Maheshkumar Nayak Ambalal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1973	6951 1-5-79	4/1024, Kuniya's Madh, At Vad- nagar, Tal. Kheralu, Dist. Mehsana.
4207.	Maheshkumar Pandya Vrujlal	D.S.A.C., C.S. Av. Course, Gujarat, 1966	2379 25-1-67	At. Talgajarada, Tal. Mahuva, Distt. Bhavnagar.
4208.	Maheshkumar Pandya Dahyalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7960 31-3-80	Sankadi Vav, B.G. Kala's How., At Mahuva, Dist. Bhavnagar.
4209.	Maheshkumar Pandya Bhanubhai	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ., 1981	8653 10-2-83	At. Ramdhari, Tal. Shikhor, Dist. Bhavnagar.
4210.	Maheshkumar Parmar Durlabhji	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9313 2-7-85	94/2, Ghanahyanagar, Ashutosh' Varachha Road, Surat-6.
4211.	Maheshkumar Patel Ravijibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4227 22-2-74	13, Swastik Society, Gohari Road, At Palanpur, Distt. Banaskantha.
4212.	Maheshkumar Patel Vasanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5305 29-3-76	C/o R.N. Patel, Hiway Road, At Mansa, Distt. Mehsana.

1	2	3	4	5
4213.	Maheshkumar Patel Virchanddas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5661 3-2-77	At Kansa, Tal. Visnagar, Distt. Mehsana.
4214.	Maheshkumar Patel Prahladji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5872 2-9-77	At Trent, Tal. Virangam, Distt. A'bad.
4215.	Maheshkumar Patel Gandadal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7713 17-5-80	At Nenpur Tal Mahemdavad, Dist. Kheda.
4216.	Maheshkumar Patel Vitthalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8709 16-3-83	At. Khijalpur, Tal. Thasara, Dist Kheda.
4217.	Maheshkumar Patel Gordhanbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8934 17-2-84	4, Satyanarayan Society, At. Naroda, Tal. City, Dist. A'bad.
4218.	Maheshkumar Raval Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5279 12-3-76	C/o Acharya R K 's Hou, Ganesh Falia, Shahshanak, At Junagadh.
4219.	Maheshkumar Raval Vinodray	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ., 1978	7425 12-12-79	5, Gitanagar Society, Jyoti, At Rajkot-2.
4220.	Maheshkumar Raval Natvarlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9349 21-8-85	At, Vajapur-382870, PO. Sanghpur, Tal: Vijapur, Dist. Mehsana.
4221.	Maheshkumar Shah Jethalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3047 18-9-70	At Sarbhan, Tal. Amod, Distt. Broach.
4222.	Maheshkumar Shah Navnilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7554 29-2-80	Vagh Sheri, Pada Pole, At Nadiad, Dist. Kheda.
4223.	Maheshkumar Shah Manilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9389 23-9-85	R.R. Park Society, Block No. 1, Opp: Gandhi Park, Harani Road, Baroda
4224.	Maheshkumar Shah Chimanlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9444 23-12-85	At & PO : Medhasan, Tal. Modasa, Dist. S.K.
4225.	Maheshkumar Shukla Chandrashanker	D.S.A.C., C.S.Ay. Course, Gujarat, 1966	2383 3-2-67	Shop No. 14, M.K. Vadi, Vilez Road, Bhandup, Bombay.
4226.	Maheshkumar Shukla Shankerlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7344 29-10-79	At & Post Bijapur, Tal. Balasinor, Dist. Kheda.
4227.	Maheshkumar Talaviya Khamajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	7781 1-8-80	At Charakhadia, Tal. Savarkundala, Dist. Bhavnagar.
4228.	Maheshkumar Upadyay Dhirajlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5685 24-2-77	H. No. 1496/1, Moti Vasansheri, Saraspur, 'A'bad.
4229.	Maheshkumar Upadhyay Balavantray	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9324 25-7-85	Gopal Bhuvan, Opp : Girl School, Station Plot, At : Dhari, Dist. Amreli.
4230.	Maheshkumar Vyas Parmanand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7210 28-8-79	At Bolunadara, Tal. Modasa, Dist. Sabarkantha.
4231.	Maheshkumar Yagnik Vishnuprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2931 24-3-70	Narayan Vaidya's Khancha, At Mansa, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
4232.	Maheshsinh Jadorn	B.A.M.S., Kanpur Univ., 1974	4630 24-2-75	C/o Rajpalsinh, Pattaninagar, R. No. 94/3, Chamanpura, A'bad.
4233.	Maheshwari Bhatt Jaynarayan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6867 2-4-79	32, Bhulabhai Colony, End of Naderu Bridge, Navrangpura, A'bad.
4234.	Mahimankumar Bhatt Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4466 29-8-74	Swaminarayan Temple, At Thamana, Tal. Anand, Distt. Kheda.
4235.	Mahindra Kumar Chhanabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8051 27-4-81	Khadaka Chikhali, Tal. Songadh, Via. Vyara, Distt. Surat.

1	2	3	4	5
4236.	Mahipat Kaneria Vashrambai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7329 15-10-79	At Zapodar, Via Vanthali, Dist. Junagadh.
4237.	Mahipatram Agravat Vithaldas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Gujarat, 1954	43 1-3-56	Gandhi Road, At. Kutiyana, Dist. Junagadh.
4238.	Mahipatram Mehta Durgashankar	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1978	6682 3-3-79	C/o Mehta Ay. Aushadhaeaya, At Panavi, Via Vallabhaipur, Dist. Bhavnagar.
4239.	Mahipatsinh Raulji Shivsinh	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9423 2-12-85	Jugrajs Fand, At. & P.O. Kosamba, Tal. Nangrol, Dist. Surat.
4240.	Mahipatsinh Sarvaiya Bachubha	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5967 21-11-77	At Datha, Via Talalja, Distt. Bhav- nagar.
4241.	Mahipatsinh Sayaniya Mohansinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7961 3-2-81	At & Post Vankaner, Tal. Dardoli, Dist. Surat.
4242.	Mahobatsinh Sindh Ajabsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7625 20-3-80	At & Post Bhuvanar, Tal. Kham- bhat, Dist. Kheda.
4243.	Mahobatsinh Parmar Bhikhubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8650 10-2-83	At. Koth, Tal. Dholka, Dist. A'bad
4244.	Maisamali Bhatt Hasanbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9395 23-9-85	At. Jethipura-383110, P.O. Jadar, Tal : Idar, Dist. S K.
4245.	Makarand Pardhi Savailal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1951	2180 10-10-51	Gungadi Gait Road, Nagarvado, At & Post Patan, Distt. Mehsana.
4246.	Makulhusen Shekh Gulamhusen	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4465 29-8-74	Vahorvad, At. Alina, Tal. Nadiad, Dist. Kheda.
4247.	Makhubha Zala Ranibha	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8565 20-10-82	At Mota Tradiya, Post Zanzarakha, Tal. Dhandhuka, Dist. A'bad.
4248.	Malade Vaja Raja	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8808 21-7-83	At. Mander, Medhavpur (Ghd), Tal. Porbandar, Dist. Junagadh.
4249.	Malati Ajabani Sumanrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8715 16-3-83	4, Pranav Society, Shri Vijay Type Class, Jawahar Chowk, Maninagar, A'bad.
4250.	Malati Bhatt Umakant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4325 8-4-74	Mahatma Gandhi Road, Kansara Bazar, At Baroda.
4251.	Malati Kanojiya Vasantrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5001 17-10-75	Pancheshwar Chowk, Laxminarayan Temple, At Jamanagar.
4252.	Malati Shah Ramanlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8983 12-3-84	10, Shri Buddha Society, "Giriraj", Halar Road, At Valsad, 396 001.
4253.	Malati Thanaki Vallabhadas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3915 7-4-73	Mahaprabhuji's Bethak, Mahatma Gandhi Road, At Porbandar, Dist. Junagadh.
4254.	Malti Vyas Mansikhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3407 1-3-72	Umangparivar Society, Behind Bus Stand, Vasana, A'bad.
4255.	Malatiben Mehta Jayanand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	5462 14-7-76	Divali Pole, At Nadiad, Distt. Kheda
4256.	Malatiben Patel Thakorbbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7384 19-11-79	At Karchaka, Tal. Bardoli, Dist. Surat.
4257.	Malavika Nayak Ranjitray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4628 12-2-75	105, Navnitbhuvan, Opp. Old Police Chowki, Maninagar, A'bad.
4258.	Malvika Nisti Navnitlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6242 19-8-78	H. No. 521, Ranehhodji's Maholla, Navsari, Distt. Valsad.

1	2	3	4	5
4259.	Malvika Vamdatt Vaikuthlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1955	1010 1-2-55	Metamiya Mangarol, Distt. Surat.
4260.	Maldan Devhatika Harsurbhai	H.P.A., P.G.T. Centre in Ay. Jamnagar, 1966	2434 17-3-67	Principal Bangla's, Highcourt Road, Opp. Post Office, Bhavnagar.
4261.	Mallika Shah Sarabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6669 28-2-79	Mankodi Pole, Magjibhudar's Pole, Mandavi's Pole, A'bad.
4262.	Malinikant Vaidya Manilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1955	2468 3-1-55	1082, Luharpole Machhipita, At Surat.
4263.	Mamata Nimbark Hasubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay Univ., 1979	8555 16-9-82	At Viktar, Tal. Rajula, Dist. Amreli.
4264.	Mamata Paneri Kantibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	9573 23-9-86	"Mamata" 9, Vijay Plot, At & Dist. Rajkot.
4265.	Mamata randya Krushnalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8385 24-3-82	7, Aradhana Park, Jawar Chowk, Sabarmati, A'bad.
4266.	Mamadevi Vyas Narsheshwar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	6271 11-9-78	C/o. V.N. Vyas, Daya Vasanaji, Build, 12, 3, Jun. Plot Rajkot.
4267.	Manahrbhai Patel Jivanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7472 2-1-80	At Birpur, Tal. Balasinor, Dist. Kheda.
4268.	Manahardan Lakhdir Najabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5545 28-9-76	Kankiya Plot, Near Bhadiya Kuva, At Jetpur, Distt. Rajkot.
4269.	Manaharlal Jani Maganlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1954	201 1-6-55	23, Pushpakunj Society, Bhalej Road, At Anand, Distt. Kheda
4270.	Manabarlal Ramavat Ramlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7403 27-11-79	Ganjivada, At Visavadar, Dist. Juna- gadh.
4271.	Manaharlal Shah Bhailalbhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1962	1200 14-8-62	B. No. 13/3/1, Sarvodaya Society, Outside Shahpur Gate, Ahmedabad.
4272.	Manaharlal Shukla Jatashankar	L.A.M., U.P. Ay. Maha. Patan (Baroda State), 1937	1529 18-8-43	Moti Tran Pole, At Khambhat, Distt. Kheda.
4273.	Mansolayam Adava Rishi	L.A.P., M.A. Board, Jabalpur, 1959	7819 17-9-80	Mill Road, At Nadiad, Dist. Kheda.
4274.	Manasukh Kothari Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5943 26-10-77	At Bhabhar, Tal. Dlyodar Distt. Banaskantha.
4275.	Manasukhlal Gajera Kababhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8150 3-9-81	At Sukhpura, Via. Vadal, (Sorath), Dist. Junagadh.
4276.	Manasukhlal Ghodasara Gordhanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7225 23-8-79	At Koyall, Via Shapur, Dist. Juna- gadh.
4277.	Mansukhlal Joshi Chhaganlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1954	250 1-3-55	Dholi Kui, At. Kapadvanj, Dist. Kheda.
4278.	Manchharam Gondaliya Narandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3676 2-11-72	At Lapaniya, Tal. & Distt. Amreli.
4279.	Mayantkumar Sutariya Jashavantlal	B.A.M.S., Univ. of Bombay, 1982	9164 17-10-84	Smruti Sadam, Vorvad, At. Nav- sari, Tal. & Dist. Valsad.
4280.	Mandakini Bhatt Dinkarrao	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3337 7-2-72	C/o Dr. D.V. Bhatt Plot No. 486, Swashray, Near Shishu Vihar, Kri- shananagar, Bhavnagar.
4281.	Mandakini Kamtekar Gopalrav	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1949	106 25-4-51	Sarabhai Mohta's Madh, Dhalvas, At Palanpur, Distt. Banaskantha.

1	2	3	4	5
4282.	Maneklal Dave Harilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1949	2590 20-2-49	Dispensary's, At Kardej, Via. Shihor, Distt. Bhavnagar.
4283.	Maneklal Raval Sakalchand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5412 4-6-76	At Palundra, Tal. Prantij, Distt. Sabarkantha.
4284.	Mangal Vyas Manishanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1945	1100	Daru Falia, Gopipura, Surat-2.
4285.	Mangla Sbrikhande Jagannath	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1946	1297 31-5-48	Tibibi Rahat Mandal, At. & Distt. Surendranagar.
4286.	Mangaldas Mistri BabalDas	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1963	1384 2-1-64	At Avldha, Via Ankleshwar, Distt. Broach.
4287.	Mangaldas Raval Lalluram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3372 16-2-72	At Bhongrodiya, Post Magarvada, Tal. Vadgam, Distt. Sabarkantha.
4288.	Mangala Punjani Jethalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	8276 16-1-82	C/o R.J. Punjani, Patel Colony, Sheri No. 6, Opp. Dr. Nankad, At. Nangara.
4289.	Mangalanandji Swami Vidyanandji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2789 17-6-69	Gitamandir A'bad.
4290.	Mangalsinh Gohel Andubha	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6281 20-9-78	At & Post Pandoli, Tal. Petlad, Dist. Kheda.
4291.	Mangilal Padhiyar Madanish	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3921 13-4-73	At & Post Danta, Distt. Banas- kantha.
4292.	Manganlal Visani Purshottambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3154 11-3-71	At Bhandariya, Via Dhasa Jn. Tal. Gadhanda, Distt. Bhavnagar.
4293.	Manajibhai Baraiya Suramabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7513 15-2-80	At Moti Moyadi, Tal. Megharej, Dist. Sabarkantha.
4294.	Manajibhai Vaghasia Mohanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7747 30-6-80	Near Bus Stand, At & Tal. Garia- dhar, Dist. Bhavnagar.
4295.	Manharbhai Joshi Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4828 8-5-75	A.C.C. Cement CO., At Sevalia, Tal. Thasara, Distt. Kheda.
4296.	Manaharbhai Koli Kanchanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9151 1-10-84	At. & Post. Kalarani, Tal. Jetpur Pavi, Dist. Baroda
4297.	Manakchand Patidar Baluram	B.A.M.S., Indore Uni., 1974	6211 3-8-78	At & Post Lonara, Distt. Khrgone.
4298.	Manharbhai Patel Desalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5676 24-2-77	At Targaiya, Post Angadi, Tal. Thasara, Distt. Kheda.
4299.	Manharkumar Patel Manilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9450 23-12-85	At. & P.O. Kamil, Tal. Siddhapur, Dist. Mehsana.
4300.	Manharlal Mehta Nagindas	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1960	915 23-10-61	C/o Dr. Hargovindas J. Mehta, Mahurat Pole, Viramgam.
4301.	Manharlal Patel Chhotalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3683 13-11-72	At & Post Gangadhara, Tal. Pal- sana, Distt. Surat.
4302.	Manharlal Patel Ramjibhai	B.A.M.S., Kanpur Univ., 1975	5798 30-4-77	Pera Shori, At. Gondal, Distt Rajkot.
4303.	Manharlal Patel Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8775 16-6-83	At. & Post Ubharan, Tal. Malpur, Dist. Sabarkantha.
4304.	Manharlal Patel Kantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9329 9-8-85	At & P.O. Saleiya, Tal: Balasinor, Dist. Kheda

1	2	3	4	5
4305.	Manharlal Ramanuj Santoshram	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2142 17-8-66	At Mandva, Via Dhola Jn. Tal. Gadhada, Distt. Bhavnagar.
4306.	Manharlal Raval Khandubhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1954	984 3-1-55	At Khargam, Tal Chikhali, Via. & Distt Valsad.
4307.	Manharlal Thakar Rulshanker	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1953	8167 10-9-81	C/o. Fulshanker Laxmishanker Vaidya, Makanani Sheri, At. Tankara, Tal. Morabi, Dist. Rajkot.
4308.	Manharlal Trivedi. Chimantal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1961	325 23-10-61	R. M. Pataskar House, Yevla's Khancha, Nawa Bazar, Baroda.
4309.	Manharlal Vaidya. Ambalal	Ayurved Visharad, Mt S. Univ., 1941	1926 3-11-41	Narsinhji's Pole, Dala Patal's Pole, Baroda.
4310.	Manaharsinh Gihel Jalamsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7934 29-12-80	At & Post Harmadiya, Via Veraval, Tal. Kodinar, Dist. Amreli.
4311.	Maniben Devada. Baldevji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	8996 28-3-84	Hirama's Khadaki, Khokhara, A'bad-8.
4312.	Manibhai Patel. Dahyabhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1963	1791	At Baroda, Tal. Anand, Distt. Kheda.
4313.	Manibhai Patel. Keshavlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2096 12-7-66	Aldesan, Tal Kadi, Distt. Mehsana.
4314.	Manibhai Patel. Khodhdas	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1973	6996 7-5-79	Tower Road, At Borsad, Via Anand, Dist. Kheda
4315.	Manibhai Vaidya Narayanbhai	Ay. Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1955	9109 31-7-84	Hathi Pole, Rajmahal Road, At. Baroda.
4316.	Manilal Bhrabhambhatt Kalidas	L.A.M., U. P. Ayu. Mahavidyalaya, Patan (Barda State), 1938	794 12-2-41	Sheth U. P. Ayu. Rresearch, Unit Mdicol College, Baroda.
4317.	Manilal Chauhan Somchand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5727 15-3-77	1252, Patanivas, Near Navgaja Pir, Jamalpur, A'bad.
4318.	Manilal Dave Dhanabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6046 24-2-78	At Manasa, Tal Vijapur, Distt. Mehsana.
4319.	Manilal Gohel Varubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5000 17-10-75	10-B, Gautamnagar Society, Baherampur, A'bad.
4320.	Manilal Joshi Dhanram	Ayurved Madhayama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda. 1975	6521 1-2-79	Udav Ayu. Chikitsalaya, Laxminagar, Mansarovar Road, At. Palan Madhyapur, Dist. Banas-kantha.
4321.	Manilal Kakkad Haridas	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1970	6501 1-2-79	At Balej, Via Madhavpura (Ghed), Tal. Porbandar, Dist. Junagadh.
4322.	Manilal Kakkad Gordhanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6834 22-3-79	At Ankolvadi (Gir), Tal. Talala Gir, Dist. Junagadh.
4323.	Manilal Patel Dwarkadas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2946 6-4-70	At Karnpur, Pot Dhuadhar, Tal Himmatnagar, Distt. Sabar-kantha.
4324.	Manilal Patel Harjivandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3801 19-2-73	At Manud, Tal Patan, Distt. Mehsana.
4325.	Manilal Patel Punjiramdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5950 26-10-77	At Modhera, Tal. Chanasma, Distt. Mehsana.
4326.	Manilal Tilavat Jamanadas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6335 4-10-78	At Vadala, Tal Manayadar, Dist Junagadh.
4327.	Manilal Vankar Lalajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8499 27-8-82	At & Post Gbelvant, Tal. Chhota Udepur, Dist. Baroda.

1	2	3	4	5
4328.	Manindrakumar Vyas Anantlal	B.A.M.S., Vikram Univ., 1978	7807 9-9-80	Guj. Ay. Univ., 11 B.P.G.T.R. Hostel, At Jamnagar.
4329.	Maniram Lashakari Narsangdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6978 7-5-79	At Khadkala, Jira Road, Tal. Savarkundala, Dist. Bhavnagar.
4330.	Manirama Trivedi Bhanushanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6396 27-10-78	C/o. B. J. Trivedi, Tata Chemicals Ltd., At & Post Mithpur, Tal. Okhamandal, Dist. Jamnagar.
4331.	Manisha Chhatrapati Kasiklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8637 28-1-83	150, M.I.G. Shastrinagar, At & Dist. Bhavnagar.
4332.	Manisha Popat Narandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4641 6-3-75	C/o. K. P. Badigyani, Navapara, At Khamabhalla, Distt. Jamnagar.
4333.	Manisha Thakar Kanubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9393 23-9-85	P/26, Doctor's Quarter, Jail Road, At. Baroda-390001.
4334.	Manisha Upadhyay Rajanikant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8564 20-10-82	2, Sanman Society, At & Post Talod, Tal. Prantij, Dist. Sabar- kantha.
4335.	Manjari Vaidya Prafulbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7326 15-10-79	1, Adarsh Society, Athava Line, At Surat.
4336.	Manjibhai Katrodiya Shamjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3197 18-5-71	Bhairavnath Road, At Gariyadhar, Distt. Bhavnagar.
4337.	Manjula Bhatt Himmatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4398 6-6-74	Wadi, Soni Pole No. 4, At Baroda.
4338.	Manjula Mehta Ambashanker	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4650 12-3-75	Govt. Ayu. College, At Baroda.
4339.	Manjula Pandya Rasiklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4365 30-4-74	26, Meghadut Society, Karell Bag, At Baroda.
4340.	Manjula Patel Shambhuprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7943 17-1-81	16, Yogiraj Co-Op. Hou. Society, Rapi', A'bad.
4341.	Manjula Shah Hansmukhala	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1951	1208 1-10-54	Sardar Chowk, At. Navapur, Distt. (Maharashtra).
4342.	Manjula Shah Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8286 25-1-82	At & Post Kural, Tal. Padara, Distt. Baroda.
4343.	Manjula Shah Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	8582 3-11-82	Yogkshem Kapadi Pole, Ravpura, Baroda.
4344.	Manjula Teraiya Purushottam	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	5638 21-12-76	Kashivishwanath Road, St. Plot, At. Gondal, Distt. Rajkot.
4345.	Manjulaben Gohil Ramsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8578 21-10-82	At. Magob. Post Puna-Kumbharla, Distt. Surat.
4346.	Manjulaben Patel Pravinkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8635 28-1-83	91, Shaktinagar Society, Varachha Road, Surat-6.
4347.	Manjulaben Patel Raysinghbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8853 6-10-83	At. & Post Navtad, Tal. Vasanda, Distt. Valsad,
4348.	Manjulaben Prajapati Bhikhabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7911 3-12-80	At & Post Bhaner, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
4349.	Manjulaben Randcervala Nathubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3002 17-7-70	C/o Bhaner B. Patel Kanarapole, Wadi, Chokhandi, Baroda.
4350.	Manjur Ahamad Meman Alibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7424 12-12-79	At. Umalla, Via Ankleshwar, Distt. Broach.
4351.	Manohar Nandurbarakar Laxmanrao	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5811 24-5-77	At Vaso, Via Nadiad, Distt. Kheda.

1	2	3	4	5
4352.	Manohar Patil Rohidas	B.A.M.S., Univ., of Poona, 1974	5078 15-12-75	At Brahmanpur, Tal Shahada, Distt. Dhulia.
4353.	Manoj Mehta Rasiklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8310 5-2-82	Shantibhuvan, Behind St. Pafanpur, Distt. Banaskantha.
4354.	Manojkumar Kamdar Hasmukhraj	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9507 12-6-86	8/Station Plot, Tatfalia, Opp. Hanuman, At. Gondal-360311, Distt. Rajkot.
4355.	Manojkumar Pandya Ganpatrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7881 14-11-80	Vada Falia, At. Dabhan, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
4356.	Manojkumar Patel Padamabhaj	Ayurved Visharad, Board of I. M. Saurashtra, 1961	2270 24-5-61	Shastrinagar, M. I. G., 132, At. Bhavnagar.
4357.	Manojkumar Patel Himmatlal	B.A.M.S., Indore, Univ., 1976	5805 24-5-77	2, Gundavadi, At. Rajkot.
4358.	Manojkumar Pathak, Jayshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7520 15-2-80	At Bilodara, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
4359.	Manojkumar Sheth Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2808 13-8-79	1173, Salvi's Polc, Raikhad, A'bad.
4360.	Manojkumar Upadhyay Kishorchandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9548 18-8-86	"Kalyankunj" Station Road, Near Janata Bank, At & Tal : Dhan- dhuka, Dst. A'bad.
4361.	Manorama Bhatt Yeshvantray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6388	"Keshavkunj", Old Manekvadi At. Bhavnagar.
4362.	Chaudhari Arjunsinh Manoramakumari	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	8028 10-4-81	At. & Post Lotarava, Tal. Vyara, Distt. Surat.
4363.	Manordas Nimavat Keshavdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5781 30-4-77	At Ishwaria, Via Lunidhar, Tal Kukavav Distt. Amreli.
4364.	Manahar Vaishnav Jayantilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1962	1066 29-8-63	Brahmapur, J. P. Vaishnav's House, At. Bhuj Distt. Kutch.
4365.	Mansang Gohil Ratansang	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8170 10-9-81	Subhashnagar, Achiyer, Saburmati, At. A'bad.
4366.	Mansang Parmar Jethabhaj	B.S.A.M., Gurajat Ay. Univ., 1974	5018 28-10-75	At Mota Suraka, Via Shihor, Distt. Bhavanagar.
4367.	Mansharlal Kosadiya Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5489 11-8-76	At. Kosad, Via. Utran, Tal. Charayasi, Distt. Surat.
4368.	Mansikhlal Amrelia Nanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3567 30-8-72	At Sarangpur, At. Devgam, Tal. Kukavav, Distt. Amreli.
4369.	Mansikhlal Trambadia Keshav	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4215 19-2-74	Galiavad (Gir) Tal Talala, Distt. Junagadh.
4370.	Mansikhlal Vora Babulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3809 21-2-73	C/o Khodidasbhai Patel, Hathl- khana Road, Near Water Tank, At. Rajkot.
4371.	Mansinh Gamit Thakorbhaj	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8512 27-8-82	At. Inama, Post Butvada, Tal. Valod, Distt. Surat.
4372.	Mansinghbhai Bhamat Vallabhbai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6036 16-2-78	At Gada, Tal Santrampur, Distt. Panchmahal
4373.	Mansukhgiri Goswami Maharajgiri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4439 6-8-74	At. Charakhadi, Via Gomata, Tal. Goandal, Distt. Rajkot.
4374.	Mansukhkumar Vekariya Virajibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9372 2-9-85	"Avadhesh", Gandhigram, At. Junagadh-362001

1	2	3	4	5
4375.	Mansukhlal Agravat Vrujdas	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1965	7452 21-12-79	At Gir-Gadhada, Tal. Una Distt. Junagadh.
4376.	Mansukhlal Ardeshana Makanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3955 1-6-73	At Devada, Via Kutiyana, Distt. Junagadh.
4377.	Mansukhlal Bhatt Jagjivandas	L.A.M., U. P. Ay. Maha Patan (Baroda State), 1935	847 2-12-52	562/B, Dhanvantari Plot, Manek- wadi, Bhavnagar.
4378.	Mansukhlal Bhatt Prabhulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3660 19-10-72	At Sadosar, Via Dhrafakha, Tal. Jamjodhapur, Distt. Jamnagar.
4379.	Mansukhlal Bhatt Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4835 8-5-1975	At Nani Manapari, Via Visavada, Distt. Junagadh.
4380.	Mansukhlal Bhalaria Popatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2764 10-4-69	At Tankara, Tal. Morbi, Distt. Rajkot.
4381.	Mansukhlal Bhandadia Parsottambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3896 27-3-73	C/o Jivanlal K. Govani, At Supedi, Tal. Dhoraji, Distt. Rajkot.
4382.	Mansukhlal Bhayani Shambhubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9383 23-9-85	At Mota Kotada-362020, Via, Bhesan, Tal. Visavadar, Distt. Junagadh.
4383.	Mansukhlal Chanhan Kanajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8312 5-2-82	At & Post Ghudost, Via Amaran, Tal. Jodia, Distt. Junagadh-363655.
4384.	Mansukhlal Dave Nandulal	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1975	6629 21-2-79	Deviktupa, Behind Nilkanth Cinema, At Rajkot.
4385.	Mansukhlal Desai Mohanlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1962	491 27-6-62	At Vasavad, Tal Gondal, Distt. Rajkot.
4386.	Mansukhlal Godhani Devashibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3984 31-7-73	At Lolaki Via Upafeta, Distt. Rajkot.
4387.	Mansukhlal Joshi Pranjivan	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1973	8097 20-6-81	At Kotharia, Tal Vankanor, Distt. Rajkot.
4388.	Mansukhlal Kacha Ramji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3858 8-3-73	Near Gam's Kuva, At. & Post Jamvanthali, At Jamnagar.
4389.	Mansukhlal Kansagara Laghabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6077 15-3-78	At & Post Dhank, Via Bhayavadar. Tal. Upleta, Distt. Rajkot
4390.	Mansukhlal Mathukiya Gokaldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3751 6-2-73	Vijaya Chowk, At. Bagsara (Meghani), Tal. Vaidya, Distt. Amreli.
4391.	Mansukhlal Mevalia Popatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6219 3-8-78	Primary Health Centre, At. Charada, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
4392.	Mansukhlal Moteriya Arjanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4796 24-4-75	C/o A. K. Moreiya, Dera Sheri, At Rajkot.
4393.	Mansukhlal Nakarani Govindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8617 13-1-83	At. Jam-Jodhpur, New Plot, Dist. Jamnagar.
4394.	Mansukhlal Paghdar Nathabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3868 13-3-73	At Dhank, Via Bhayavadar Tal. Upleta, Distt Rajkot.
4395.	Mansukhlal Pandya Jatashanker	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1966	2340 17-12-66	C/o Dr. J.B. Pandya At & Pot Kolaki Via Upafeta Distt Rajkot.
4396.	Mansukhlal Purohit Vashram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4674 21-3-75	At Majivana, Via Bagvadar, Tal. Porbandar, Distt Junagadh.
4397.	Mansukhlal Purohit Nathalal	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1963	7952 17-11-81	At & Post Kalavani, Tal. Keshod, Dist. Junagadh.

1	2	3	4	5
4398.	Mansukhlal Raninga Shivilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9003 28-3-84	Thal Bazar, At Gariadhar, Dist. Bhavnagar.
4399.	Mamsukhlal Ramani Mohanlal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6571 16-2-79	At Kalasari, Via Visavadar, Dist. Junagadh.
4400.	Mansukhlal Rana Lalbhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	1359 22-11-63	Fata Talav, At Broach.
4401.	Mansukhlal Sarvaiya Panachand	Ayurved Visharad, B.I.M. Saurashtra, 1961	2205 20-3-61	Lakhanka Ay. Dispensary, At Lakhankar, Via Khadsalia, Distt Bhavnagar.
4402.	Mansukhlal Sheladiya Madhubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5446 5-7-76	At Rugnathpur, Via Mota-Samdhiyala, Distt Amreli.
4403.	Mansukhlal Sheth Nathalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	1290 1-4-54	At Chhodvali, Via & Distt Junagadh.
4404.	Mansukhlal Sohelia Marsinhdas	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	6687 3-3-79	Kotak Sheri, At Paddhari, Dist. Rajkot.
4405.	Mansukhlal Tarvadi Yadavbhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	290 17-9-63	At Nazar, Tal. Nizar, Distt Surat.
4406.	Mansukilal Trivedi Odhavaji	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1972	6630 21-2-79	At Khera, Tal. Veraval, Dist, Junagadh.
4407.	Mansukhlal Zalavadiya Gordhan	M.A.S.F., G.C.S.F. Ay. Med. W.B. (Now P.B. Ay. Parishad, Calcutta) 1972	7163 2-8-79	Khijada Shori, At Bhayavadar, Tal. Upaleta, Dist. Rajkot.
4408.	Mansur Bheriyani Badarudinbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	8838 6-9-83	B. No. G-15(2167), Ranjitnagar, At. Jamnagar.
4409.	Manuben Solanki Gomanbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9576 23-9-86	Gayatri Society, At Sayan, Tal. Olpad, Dist. Surat.
4410.	Manubhai Alani Karshanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4540 5-10-74	Alanipara, At Vichhiya, Tal. Jashadan, Distt Rajkot.
4411.	Manubhai Baraiya Sidibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6063 8-3-78	Khajuriya Street, Vanakbara, (Div) Saurashtra.
4412.	Manubhai Bhatt Krishnashanker	Ayurved Alankar, Ay. Coll., Gurukul Univ., Kangri (Hardwar) 1931	848 10-4-81	Opp. Jain Dharam Shala, At Valsad.
4413.	Manubhai Bhatt Tatashanker	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1963	8584 3-11-82	Vrunavan Society, Janata Ice Road, At Surendranagar.
4414.	Manubhai Dabhi Bhagvanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8112 17-7-81	Room No. 107, Guj. Slamb Board, At Bhavnagar.
4415.	Manubhai Dave Pranbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6440 15-12-78	C/o Dipakbhai Dave, Nilkanth Nagar, Univ. Road, Rajkot.
4416.	Manubhai Desai Mohanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3958 13-6-73	At Pania Kalubaina, Bagsara, Tal. & Distt. Amreli.
4407.	Manubhai Godani Tulsibhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1964	1466 30-6-64	Public Dispensary, Opp Bus Stand, Thakkarbapanagar Ahmedabad.
4418.	Manubhai Gohil Naranbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8183 22-9-81	At Gohil's Khan, Tal. Kodinar, Dist. Amreli.
4419.	Manubhai Kapopara Vallabhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8640 28-1-83	At Cingadhada, Tal. Una, Dist. Junagadh.
4420.	Manubhai Mantravadiya Narsinh	B.A.M.S., Kanpur Univ. 1972	4409 12-6-74	Rasikbhuvan, Mahadev Vadi, At Gonda-1, Distt Rajkot.

1	2	3	4	5
4421.	Manubhai Mehta Maganlal	D.A.S.F. Fac. of AUSM, Bombay, 1954	917 1-7-54	Block No. 5, 1st Floor, Manisha, Bhandarvada, Randeroad, Dadav Bombay-28.
4422.	Manubhai Mehta Ambalal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1959	916 1-7-59	At Gabat, Via Dhansura, Tal. Bayad, Distt Sabarkantha.
4423.	Manubhai Panchal Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3371 16-2-72	At & PO: Nathipara, Tal. Bapad, Distt. Sabarkantha.
4424.	Manubhai Parkash Ishwarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6124 5-4-78	Opp. Jainnath Shakha, Near Bagasia, Chora, At & Post Amod, Distt. Broach.
4425.	Manubhai Patel Ambalal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2093 11-7-66	At & Post Ghunteli, Tal. Petlad, Distt. Kheda.
4426.	Manubhai Patel Harmanbhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1967	2529 26-6-67	At & Post Sanjaya, Tal. Petilad, Distt. Kheda.
4427.	Manubhai Patel Bhagvanji	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1951	3012 1-8-70	Kanpur Mension, Molend Road, Agripada, Bombay-11.
4428.	Manubhai Patel Purushottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6066 15-3-78	L.I.C. Grop, Sharadnagar, B. No. 220, Taraliroad, Baroda-6.
4429.	Manubhai Patel Kalidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	6754 15-3-79	At Oran, Tal. Prantij, Dist. Sabar- kantha.
4430.	Manubhai Patel Pashabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8052 27-4-81	At & Post Rajpur, Tal. Himmat- nagar, Dist. Sabarkantha.
4431.	Manubhai Patel Khodidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8763 11-5-83	197, Kamal Park, Matavadi, Vara- chha Road, At. Surat.
4432.	Manubhai Shah Sarabhai	Ayurved Bhisak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1961	7234 29-8-79	110, Undi Sheri, Kasumbavad, Doshivada's Pole, Kalupur, A'bad.
4433.	Manubhai Savaliya Chhaganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5809 24-5-77	Miraza Swami Road, Variyali Bazar Khajura Vadi, At Surat-3.
4434.	Manubhai Vaghasiya Kurajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5152 4-2-76	At Valukad, Via Songadh, Distt. Bhavnagar.
4435.	Manubhai Vanakar Jivabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	7458 21-12-79	At Pipaloi, Tal. Khambhat, Dist. Kheda.
4436.	Manushanker Vyas Prabhashanker	Ayurved Bhisak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	7640 20-3-80	At Jetalpur, Tal. Dhasoroi, Dist. A'bad.
4437.	Manyprasad Dave Nathuram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3887 23-3-73	At Mithidhariyal, Tal. Chansma, Distt. Mehsana.
4438.	Marganita Patel Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4832 8-3-75	15, Gandhipark, Near C. Colony, Rllish bridge, A'bad.
4039.	Mariam Nenuji Madhavdas	B.S.A.M., Gujarat Ap. Univ. 1975	8337 27-2-82	At Chokhanda, Via Bhanvad, Dist. Jamnagar.
4440.	Mariyambegam Jami Mahamad	B.S.A.M., Kanpur Univ. 1976	5803 24-5-77	C/o Dr. M.H. Jami, At Vesma, Tal. Navsari, Distt. Valsad.
4441.	Markandgiri Goswami Prabbugiri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3309 7-1-72	H. No. 27-28, Mahalaxmi Society, Paladi, A'bad.
4442.	Markandeya Pandya Chandrakantbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	8916 24-1-84	C/o Dr. C.R. Pandya, "Kasturi", 17/Station Plot, At Gondal, Dist. Rajkot.
4443.	Markandrai Shukla Ramchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	3028 13-8-70	At Mahelal Tal. Godhara Distt. Panchamahala.

1	2	3	4	5
4444.	Marudula Patel Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3726 10-1-73	Sharma Fire Works Haraji Road, At Baroda-6.
4445.	Marutkumar Pathak Jayendrarai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	2774 12-5-69	Behind Haveli, At & Distt Junagadh.
4446.	Masaribhai Bharda Rambhai	Vaidyacharya A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1967	6814 22-3-79	At Bhanduri, Tal. Malia-Hatina, Dist. Junagadh.
4447.	Mastaram Nimbark Ambaram	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2571 18-8-67	At Motasurka, Via Songadh, Tal. Shihor, Distt Bhavnagar.
4448.	Matubhai Shah Pranchand	A.V.V. T.M. Vidyapeeth, Poona 1943	1206 31-5-49	At Timbaroad, Tal. Godhara, Distt Panchamahala.
4449.	Mathurbhai Rudani Govindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	8624 13-1-83	Vaishli Flat No. 60, Room No. 812, Nava Bapunagar, Char Raata, Nioli Road, A'bad-24.
4450.	Mathurdas Lakhani Valji	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	991 1-7-58	At Keshod, Distt. Junagadh.
4451.	Mathurdas Barvadia Govindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3308 7-1-72	At Datrana, Tal. Mendarda, Distt. Junagadh.
4452.	Mathurdas Rami Vithaldas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	2326	At Changa, Via Anand, Tal. Petlad, Distt. Kheda.
4453.	Mathuradas Raykundaliya Babulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7206 20-8-79	K/1, Lalataru Flat, Nuranpura, Mirambika Rou, A'bad.
4454.	Mathuradas Sodha Vrujilal	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1972	6655 28-2-79	At Gorakhmadhi, Via. Prabhas Patan, Tal. Veraval, Dist. Juna- gadh.
4455.	Mathuresh Pandit Radhavallabh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4176 11-2-74	C/o Pand Radhavallabh Shyam- lal, Vrajvashi Aushadhalaya, Vada- vali Sheri, At & Distt. Kheda.
4456.	Mavajibhai Sodha Vakabhai	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1960	7103 13-2-79	Kadiyavad, Bhanivali Sheri, At Hamnagar.
4457.	Mavnit Jani Manilal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1964	2608 30-11-67	At Ladol, Tal. Vijapur, Dist. Meh- sana.
4458.	Maya Shastri Sarsvatichandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1982	9088 29-6-84	Onest Talior, Main Road, Katar- gam, At Surat
4459.	Maya Shah Balubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9234 12-3-85	Vaniya Wad, At & PO. Buhari Tal: Valod, Dist. Surat, 394630
4460.	Mayaben Pandya Dhirajlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7782 1-8-80	Near Railway Station, Qua. No. T 11-F, At Jetalsar Jn., Tal. Jetpur Dist. Rajkot.
4461.	Mayaben Patel Maganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	9572 23-9-86	Sutharwad, At & PO: Khra Abrama- 396406, Tal. Navsari Dist. Vabad.
4462.	Mayadas Sadhu Gambhirdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3418 7-3-72	Shri Kabir Temple, Sankadi, Sheri, A'bad.
4463.	Mayank Upadhyay Mahadevprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7699 29-4-80	8/1998, Amaliran, Vadi Falia, Surat.
4464.	Maynkumar Bhatt Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4164 23-1-74	Plot No. 1340, Ghogha Circle, Near Vruddhashram, At Bhavnagar.
4465.	Mayurchandra Marthak Himmatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4461 27-8-74	1032/2, Vagheshwari's Pole, Raipur Chakala, A'bad.
4466.	Mayrdwajsinhji Zala Dilavarsinhji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3713 1-1-73	At Kanpur, Post Ghorvira, Distt. Surendranagar.

1	2	3	4	5
4467.	Mayurika Nayak Nathubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7397 21-11-79	10, Ravikiran Society, Opp. Om Cinema, Jivrajpark Veljalpur Road, A'bad.
4468.	Mayurkumar Shah Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5185 21-2-76	17-B, Motiram Bhikabhai Colony, St Zavi High School Road, Nav- jivan Post, A'bad.
4469.	Mayurkumar Shah Kanaiyalal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9598 23-10-86	C/o Dr. K.M. Shah, General Hospi- tal, Station Road, At: Dakor, Dist. Kheda.
4470.	Megajibhai Bhapa Jerambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7358 29-10-79	At Jeshar, Tal. Savarkundala, Dist Bhavanagar.
4471.	Meghavini Trivedi Pranshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5940 26-10-77	81/1, H. Colony, Opp. Poly Technic, A'bad.
4472.	Meena Mulani Manojkumar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9271 9-4-85	A/9, "Jivanmangal" Jansatta- Press, Near Jalaram Temple, Raj- kot-360001.
4473.	Mekran Isharani Mavaljibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4480 2I-9-74	At Hapa (Gam), Via Theba, Distt. Jamnagar.
4474.	Memaxi Mehta Chimanlal	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1972	7447 21-12-79	C/o. Rashmikant M. Sheth, 21, Mahavir Society, At Morabi, Dist. Rajkot.
4475.	Memuna Hamiraka Hasan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	6997 7-5-79	Khoja Gate, Opp. Floor Mill, At Jamnagar.
4476.	Menankumar Mehta Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6052 8-3-78	C/o. Dr. Kantilal B. Mehta, At & Post & Tal. Vadgam, Distt. Banaskantha
4477.	Milan Shah Rasiklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8817 11-8-83	13, Kirannagar, Outside Shahpur Gate, A'bad-1.
4478.	Milankumar Makavana Mandan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5881 20-9-77	At Koyana, Via Rana Kando- rana, Distt. Junagadh.
4479.	Mina Beshani Bachubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8419 17-4-82	C/o. Bachubhai Bhandan Deshami Desha Baharpara, Dhananinaka, At Amreli.
4480.	Mina Bhavsar Dolatram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8671 16-2-83	13-B, Dalal Colony, Near Ara- dhana High School, Moninagar, A'bad-8.
4481.	Mina Bhujwala Jaysinh	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9570 23-9-86	Nageshwar Park Society, Near Khadibag, Railway Station Road, At Bhuj, Dist. Kutch.
4482.	Mina Brahmhatt Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ- 1981	8632 28-1-83	Vada Faliyu, At Mahisa, Tal. Nadiad, Dist. Kheda.
4483.	Mina Khatri Chinubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7067 30-6-79	7, Jaymangal Society, Behind Masanpura Gam, Mirambika Road A'bad.
4484.	Mina Maniyar Dharanidharbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4880 12-6-75	3, Vikramnagar, Behind Arya Kanya, Karelibag, Baroda.
4485.	Mina Mansharamani Hira	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	8345 11-3-82	C/o. H. K. Mansharamani, United India Insurance Co. Ltd., Vai- shali Cinema, Bhavnagar-364001.
4486.	Mina Nayak Ishwarlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9047 10-5-84	Nani Mahetwad, At Valsad- 396001.
4487.	Mina Soni Pravinchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8163 10-9-81	14/164, Balkrashna, Opp. Krushna- nagar, Saijpurbogha, At A'bad.
4488.	Mina Vyas Nityanand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3861 8-3-73	Desainagar, Plot No. 39, Bhav- nagar Para, At Bhavnagar.
4489.	Minaben Dayani Vijaybhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5826 5-7-77	Mahavir Society, B. No. 5, Katar Gam, Sumul Dairy Road, Surat-4.

1	2	3	4	5
4490.	Minaben Mehta Manubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7822 24-9-80	8/1715, Deputy's Bungala, Gopipura, Surat.
4491.	Minaben Patel Desaiabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8426 1-5-82	Bhagvan Smruti, Tal. Balasinor, Dist. Kheda.
4492.	Minal Trivedi Girish Kumar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9621 21-11-86	16, Vishrampark Society, Vasna, A'bad-7.
4493.	Minaxi Bhavne Ramchandra	M.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1971	8561 12-10-82	217, Bahusharnagar, Opp. Moti Dying Mill, Ved Road, Post Singanpore, Dist. Surat.
4494.	Minaxi Gandhi Parbhulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4853 22-5-75	Near Sarangpur Gate, Khamar's Khadaki, H.No. 1067/1, A'bad.
4495.	Minaxi Jataniya Rugnathdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4273 20-3-74	6, New Vadi Ist Floor, Dadi Sheth, Agiyari Lane, Bombay-400002.
4496.	Minaxi Joshi Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6745 15-3-79	New Railway Colony, S-599, B-Sabarmati, A'bad.
4497.	Minaxi Lalpura Bakulesh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7923 12-12-80	C/o. B. V. Lalpura, Vania Vad, Near School, At Bhuj, Distt. Kutch.
4498.	Minaxi Mehta Bhalchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6012 21-1-78	H. No. 1292, Saraspur, Moti Vasan Sheri, Bhatt's Khadaki, A'bad.
4499.	Minaxi Nalavala Parshottamdas	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1962	484 12-7-62	12, Bhalji Naranji Lane, Thakur Dhawar Road, Bombay-2.
4500.	Minaxi Oza Dinkarray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7973 20-2-81	Panobhatadi, Kothavav, Post Bhuj-Kutch.
4501.	Minaxi Pancholi Vasantry	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8022 3-4-81	15, Sandip Society, At & Tal. & Dist. Jamnagar.
4502.	Minaxi Rana Shankerlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8456 15-6-82	55-D, Vallabh Nagar, Society, Varacha Road, Surat-6.
4503.	Minaxi Shukla Jethalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5876 8-9-77	88, Datt Nivas Sardarkunj Society Shahpur Bahai Centre, A'bad.
4504.	Minaxi Thakkar Chhaganlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2161 5-9-66	Ghi Kanta Tower, Shusila Sadan, At Baroda.
4505.	Minaxi Trivedi Bhaakarabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5045 20-11-75	38/320, Govt. F. Colony, Shah Alam Tolnaka, Gitamandir Road, A'bad.
4506.	Minaxi Valera Sukhdevbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9196 9-1-85	Hospital Road, Vijay Mahal, At Jamnagar.
4507.	Minaxi Vyas Rameshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3454 28-3-72	C/o. R. M. Vyas, Limadikui, Gopipura, Surat-2.
4508.	Minaxi Vyas Sanmukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7915 3-12-80	C/o. Sankukhlal D. Vyas, 57, Mahadevnagar Society, Sagram-pura, Surat.
4509.	Minaxiben Kapadiya Devjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4503 12-9-74	Vakal Street, Rander, Surat.
4510.	Minaxiben Patel Chunilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4840 9-5-75	At Miya Sarbhan, Tal. Amod, Distt. Broach.
4511.	Minaxiben Patel Bhikhabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5156 7-2-76	Moti Khadaki, At Maholal, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
4512.	Minaxiben Patel Rambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	5397 13-5-76	Panthareda Colony, Sect. 4, 3B-112, Ukai Bem, Tal. Somgadh, Distt. Surat.

1	2	3	4	5
4513.	Minaxiben Patel Manubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8096 20-6-81	Mangalam Bungal, Behind Maha- virknagar Society, At Himmat- nagar, Dist. Sabarkantha.
4514.	Minaxiben Shah Nagindas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6872 3-4-79	29, Kailashnagar Society, Vagho- dia Road, At Baroda.
4515.	Miraben Gupta Rambabu	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4093 15-10-73	19/222, Netaji Nagar, Meghani- nagar, A'bad.
4516.	Miraben Thakar Laxmikant	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5997 27-12-77	C/o. Kamaladevi L. Thakar Ram Mandir, Opp. Bhidbhanjan, At Jamnagar.
4517.	Mira Makvana Jivanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6660 28-2-79	Brahman Nivas, Khanpur, A'bad.
4518.	Mira Sanghavi Ratilal	Ayurved Visharad, B.I.M., Saurashtra 1961	2201 23-2-61	D-2, I.S.I.S. Vadaj, A'bad.
4519.	Mita Pathak Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9100 31-7-84	C/o Dr. Vasudev G. Patel, At. & Post Gothan, Tal. Olpad, Distt. Surat.
4520.	Mita Upadhyay Maheshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8530 14-9-82	C/o. Dr. M. M. Upadhyay, Shetch C. K. Hospital, At Sanand, Distt. A'bad.
4521.	Mithalal Dolariya Devaji	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1971	6990 7-5-79	At Veraval, Dist. Junagadh.
4522.	Mohabatsinh Zala Modaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3716 1-1-73	2/1, Binapart Society, Ghatlodia, A'bad.
4523.	Mohamad Jami Binhasan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4031 30-8-73	Main Bazar, At Vesma, Tal. Navsari, Distt. Valsad.
4524.	Mohamadali Panchbhaiya Mohmadjamal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5993 19-12-77	Nagina Sheri, Nani. Mholat, At Himmatnagar, Distt. Sabarkantha.
4525.	Mohmedali Sorathia Maherali	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1964	1620 8-3-65	C/o. Maheali R, At Dharafa, Via Panali Moti, Tal. Jamjodhapur, Distt. Jamnagar.
4526.	Mohmed-arif Lakhani Ahmedbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9464 10-1-86	Station Road, Opp. Kothar, At Bhavnagar.
4527.	Mohammadhavif Shekh Amirali	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6336 4-10-78	C/o. A. A. Shekh, Post Office, At Botad, Distt. Bhavnagar
4528.	Mahmedrafik Mardiya Umarbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8915 24-1-84	C/o. Dr. R. U. Mardiya, "Rafic", Sadhana Society, At Savarkun- dala, Distt. Bhavnagar.
4529.	Mohan Chinchalikar Rajaram	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1959	174 1-12-59	C/o. S. R. Chinchalikar, H. No. C/ 1734, Prasivad, At Baroach.
4530.	Mohan Patil Supadu	B.A.M.S., Nagpur Univ., 1974	4861 29-5-75	At Padlad, Tal. Shahada, Distt. Dhulia.
4531.	Mohanbhai Patel Mangalbhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	610 2-1-56	At & Tal. Vaghodia, Distt. Baroda.
4532.	Mohanbhai Patel Mangaldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4814 30-4-75	At Ratankuva, Via Birpur, Tal. Balasinor, Distt. Kheda.
4533.	Mohanbhai Patel Maganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5979 28-11-77	At Goima, Tal. Paradi, Distt. Valsad.
4534.	Mohanbhai Patel Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7465 21-12-79	At & Post Bhimasana, Tal. Rapar, Distt. Kutch.
4535.	Mohanbhai Vasani Valajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3897 27-3-73	Kapol Sheri, At Trapaj, Tal Talaja, Distt. Bhavnagar.

1	2	3	4	5
4536.	Mohangar Gosai Madhavgar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8667 16-2-83	At & Post Gangadi, Tal. Dholaka, Distt. A'bad.
4537.	Mohendrasinh Jadeja Rajendrasinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4744 5-4-75	Snehsadan, At Virpur (Jalaram), Tal. Jetpur, Distt. Rajkot.
4538.	Mohangir Goswami Thakorgir	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3173 13-4-71	At Bhatiya, Post Sachin, Distt. Surat.
4539.	Mohanlal Bhakta Gopalji	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	798 22-7-63	At Dhaman, Via Veema, Tal. Navsari, Distt. Valsad.
4540.	Mohanlal Barava Shamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8211 2-11-81	At Thara, Tal. Kakaroj, Distt. Bansakantha.
4541.	Mohanlal Bavisa Limbabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	6180 15-6-78	At Moti Parbadi, Via Jetalsar Jn., Dist. Rajkot.
4542.	Mohanlal Bhat Prabhshanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	852 1-7-63	Behind Darbar Gadh, At Pali- tana, Distt. Bhavnagar.
4543.	Mohanlal Bhatt Nageshwar	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1964	1499 30-7-64	Amaliara, Post Sayajipura, Distt Baroda.
4544.	Mohanlal Bhatt Kashiram	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	7609 18-3-80	Jilla Panchayat Ay. Dispensary, At Bhandar, Via Vari, Distt. Amreli.
4545.	Mohanlal Bhayani Popatlal	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1967	8881 12-12-83	C/o. Lalaji Parsottam Gohel, At Majevasi, Distt Junagadh.
4546.	Mohanlal Bhugaliya Lalajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3624 30-9-72	Salun Bazar, At Nadiad, Distt. Kheda.
4547.	Mohanlal Dobaria Veijibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3456 29-3-72	At Chahi, Tal. & Distt. Juna- gadh.
4548.	Mohanlal Gadhavi Devidan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8156 3-9-81	At Rampar Vekara, Tal. Man- davi, Dist. Kutch.
4549.	Mohanlal Hadepara Jivanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5547 28-9-76	At Sultanabad, Via Manavadar, Dist. Junagadh.
4550.	Mohanlal Javiya Laxman	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	204 29-6-62	At Nikava, Via Kalavad, Distt. Jamnagar.
4551.	Mohanlal Kacha Meghajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4989 17-10-75	At Kotharia, Via Manavadar, Distt. Junagadh
4552.	Mohanlal Kantharia Kanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3611 19-9-72	At Ambala, Post Anjali, Via Keshod, Distt. Junagadh.
4553.	Mohanlal Kasundra Khodabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3838 2-3-73	At Bangavadi, Via Latipur, Tal Paddhari, Dist. Rajkot.
4554.	Mohanlal Khampadi Chunilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4534 4-10-74	Azad Chowk, Kharva Wad, At Veraval, Distt. Junagadh.
4555.	Mohanlal Khared Manjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3815 26-2-73	At Moti Marad, Tal. Dhoraji, Distt. Rajkot.
4556.	Mohanlal Koradiya Khimaji	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	7244 30-8-79	Baharpara, At Manavadar, Distt. Junagadh.
4557.	Mohanlal Kothadiya Ranjibhai	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1970	6846 2-4-79	Vimal, 5, Nand Kishor Society, Bhaktinagar Station, At. Rajkot.
4558.	Mohanlal Madavia Girdharlal	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	7090 6-7-79	Jala's Zar, Near Kharikui, Laxmi- bhuvan, Jamnagar.

1	2	3	4	5
4559.	Mohanlal Panara Devjibhai	B.S.A M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3649 11-10-72	Near Old Masjid, At Shahpur, Tal. Vanthali, Distt. Junagadh.
4560.	Mohanlal Patel Nathubhai	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1966	2042 8-6-66	At & Post Polaki, Via & Tal. Upleta, Distt. Rajkot.
4561.	Mohanlal Patel Ranchhodhbhai	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4018 24-8-73	Vachala Falia, At Muvada, Tal. Zalod, Distt. Panchmahal.
4562.	Mohanlal Ramavat Dayaram	Ayurved Bhishak, A. J. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1957	6955 3-5-79	At. Bheshdan, Tal. Dhrol, [Distt. Jamnagar.
4563.	Mohanlal Raval Madhavji	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	7088 6-7-79	Vaishnav Haveli, At Manavadar, Dist. Junagadh.
4564.	Mohanlal Vaghani Narsibhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1964	1489 21-7-64	Vaghanisheri, At Gariadhar, Via. Damnagar.
4565.	Mohanlal Vyas Manishanker	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1981	8252 24-12-81	At & Post Atkot, Tal. Jasadn, Distt. Rajkot.
4566.	Mohini Bodani Krishnachandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6392 27-10-78	"Bhasman", Mahavir Jain Society, At Godhara, Dist. Panchmahal.
4567.	Mohini Gujar Vasudan	B.A.M.S., Univ. of Poona, 1981	8489 9-8-82	C/o V.L.Gujar, Advocate, Gulbal Tokara, C-1, Panch Bungala, Politechnic, A'bad.
4568.	Mohinikumari Zala Manharsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6453 30-12-78	14 Sanjivani Society, Ratan- pur, Dist. Surendranagar.
4569.	Mohsinmiya Rasulmiya	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7189 17-8-79	At. Palej, Tal. & Dist. Broach.
4570.	Mahajan Mohitkumar Rajanikant	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9138 10-9-84	Opp. Mahalaxmi Mata's Temple, Main Bazar, At Post & Tal. Santrampur, Dist. Panchmahal- 389260.
4571.	Mohiyadin Shekh Abdurrahim	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6026 16-2-78	At Koth, Via Ankleshwar, Distt. Broach
4572.	Mohmedtahir Vadaliwala Mohamadhanif	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8965 12-3-84	ThankGod Building, Polo Ground, At Himmatnagar, Dist. Sabarkantha.
4573.	Mukeshchandra Patel Chunibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8930 17-2-84	19, Sahara Society, Karelibag, At [Baroda.
4574.	Moralidhar Parsi Kamalakar	B.A.M.S., Indore Univ., 1974	6414 18-11-78	At & Post Un (Kharagoane), Dist. West Nimar.
4575.	Morarjibhai Bhakta Madhavbhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	2601 25-10-67	At Sampura, Via Orana, Tal. Kamraj, Dist. Surat.
4576.	Morlidhar Yagnik Ambalal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1958	961 1-7-58	5, Shanker Park, Opp. Municipal Market, Khokhara Mahemdabad, Maninagar, A'bad-8.
4577.	Mosardan Shamal Shaktidan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3753 6-2-73	At Darugupur, Via Chuda, Distt. Surendranagar.
4578.	Motiben Gamit Radatiyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4090 12-10-73	At Chikhalvav, Tal. Vyasa, Distt. Surat.
4579.	Motiram Kuvar Daraji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7789 19-8-80	At Jambu-Gam, Tal. Jetpur- Pavl, Dist. Baroda.
4580.	Motiram Vaidya Dhirajram	Ayurved Visharad M.S. Univ., 1953	2013	At & Post) Vapi, Tal. Pardi, Distt. Valsad.
4581.	Motisinh Zad Bhanrupsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5320 31-3-76	At Karath, Tal. Zalod, [Dist. Panchmahal.

1	2	3	4	5
4582.	Mrudula Dave Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5238 5-3-76	C/o. Mahendra C. Vayas, Bhaveshwar Niketan, 1st Floor, Flat No. 6, Govaliya Tank Road, Bombay-26.
4583.	Mrudula Gujar Somabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6108 28-3-78	Tapovan, Koba Road, Opp. Ice Factory, Ramnagar, Sabarmati.
4584.	Mrudula Joshi Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Univ., 1974	4965 4-10-75	Deri Road, Plot No.673 -A, At. Bhavnagar.
4585.	Mrudula Kubavat Bansilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8615 13-1-83	C/o Devmurari S. H., Krushnapara Road, At. & P. O. Vadfa Devall, Dist. Amreli.
4586.	Mrudula Pandye Chunilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3449 21-3-72	Bhavsar Chkla, At & Distt Jamnagar.
4587.	Mrudula Parikh Pravinchandra	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1963	1249 15-10-63	Parikh Bhuvan, '8', Swami Narayan Colony, Lalbhai Lajpatrai Road, Kankaria, Ahmedabad.
4588.	Mrudula Shah Maheshlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3434 14-3-72	668, Navnirmannagar, Near Pragatinagar, Navavadaj, A'bad..
4589.	Mrudula Sheth Mahendrakumar	Ayurved Madyama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda 1979	9377 23-9-85	C/2, Shamin Co. Hou. Society, Gulbai Tekra, Ambawadi, A'bad-15.
4590.	Mrudula Vaishyak Purushottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7172 7-8-79	33, New Ashoknagar, Rajpur, Gomtipur, A'bad.
4591.	Mrudulaben Balar Narayanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6298 27-9-78	"Patel House", Kadiyavad Chora, At. Jamnagar.
4592.	Mrudulaben Shah Dineshchandra	M.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1970	7473 2-1-80	Derasherl, At. Vase, Dist. Kheda.
4593.	Mrudulkumar Joshi Tripurari	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7749 30-6-80	C/o. Dr. N. T. Joshi, (Vakil), Vadaji Fallyu, At. Khedbrahma, Dist. Sabarkantha
4594.	Mrudulakumar Nagarsheth Manubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3739 1-2-73	Opp. Ranibag Jilla Panchayat Staff Qua., Dahban Bhagol Road, At. Nadiad.
4595.	Mrudulal Mehta Himmatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4348 23-4-74	Plot No. 480, Bali Smruti, Near Shishuvihar, At. Bhavnagar.
4596.	Mrunalini Apte Ullas	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1968	2675 31-5-68	Pratip Vila, Pandit Nehru Marg, At. Jamnagar.
4597.	Mrunalini Buch Uttamlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2273 24-11-66	A-1, Karmacharinagar Society, Ghatledia Road, Naranpura, A'bad.
4598.	Mrunalini Chokasi Hasmukhrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4120 17-11-73	Nizampura, Near Ranchhodj Temple, Baroda.
4599.	Mugatlal Nimbark Ambaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8796 5-7-83	At. & Post Motasuraka, Tal. Shihor, Dist. Bhavnagar.
4600.	Mugendra Kikani Harsadray	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1963	112 29-8-63	Hatkeshwar Len, Nagar Road, Junagadh.
4601.	Mukeshkumar Buch Ajitral	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5047 20-11-75	Dalvadi's Chali, Amulderi Road, At. Anand, Distt. Kheda.
4602.	Mukeshkumar Brahabhath Arishbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7798 4-9-80	Bhalerav Tekari, Kharivav Road, Near G.P.O., At. Baroda
4603.	Mukeshkumar Bhatt Ramakant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8437 31-5-82	At & Post Baleshwar, Tal. Palsana, Dist. Surat.
4604.	Mukeshkumar Dave Ambalal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9644 31-12-86	Rajmahel Road, At. Danta, Bhavangadh, Dist. B. K.

1	2	3	4	5
4605.	Mukeshkumar Dave Mahadevprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6378 27-10-78	Near Nana Bhat Chora, At. Palitana, Dist. Bhavnagar.
4606.	Mukeshkumar Intwala Hargovinddas	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8977 12-3-84	L.D.A., Somnath Road, Desara, At. Bilimor-396321.
4607.	Mukeshkumar Joshi Madhusudan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8868 1-12-83	Near Civil Court, At & Post Borsad, Dist. Kheda.
4608.	Mukeshkumar Joshi Babulal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9442 23-12-85	“Ambe Bhuvan” Ambikanagar, At & P. O. & Tal. Disa, Distt. B. K. 385535.
4609.	Mukeshkumar Mehta Chandulal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9487 24-3-86	At & P. O. Vadali-383231, Tal. Idar, Dist. Sabarkantha.
4610.	Mukeshkumar Nimavat Vitthalidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8573 20-10-82	Moghananagar, B. No. 89, Juna- gadh-362001
4611.	Mukeshkumar Pandya Jayantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9040 10-5-84	Bazar, At. Vaso, Tal. Nadiad, Dist. Kheda.
4612.	Mukeshkumar Pandya Pratullchandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9386 23-9-85	28, Majumdar Society, V. 2, Opp. Saijpur Railway Station, Sardarnagar, Ahmedabad.
4613.	Mukeshkumar Patel Mohanalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8631 28-1-83	Sukhanath Plot, At. & Post Garia Dhar, Dist. Bhavnagar.
4614.	Mukeshkumar Rav Manubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8091 4-6-81	C/o Dr. M.S. Rav, Hospital, Dhuv- ran 388010.
4615.	Mukeshkumar Raval Umiyashanaker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4355 26-4-74	At. Hoda, Tal. Palanpur, Distt. Banaskantha.
4616.	Mukeshkumar Sanghavi Ramanlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9534 28-7-86	C/o Ramanlal Chhotalal Sanghavi, “Sanghavi” Bhuvan, Behind Dalal Building, Near Tower, At. Talod, Tal. Ptantij, Dist. S.K. 383215.
4617.	Mukeshkumar Shah Manjulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5325 2-4-76	Vilash Hospital, Tal. Badhani, Tal. Petlad, Distt. Kheda.
4618.	Mukesh Brahmhatt Ambalal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	8945 17-2-84	21, Jyoti Colony, Shah Alam Tol- naka, A'bad-22.
4619.	Mukesh Gandhi Krushnakant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7564 29-2-80	15, Libarti Apptt., Near Adarsh Society, At. Surat.
4620.	Mukesh Patel Maganlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9058 25-5-84	69, Shradhha Society, Sunul Dairy Road, At. Surat-4.
4621.	Mukesh Shah Narendrabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	8938 17-2-84	2/9, Vitrag Society, Prabhudas Thakkar College Road, Paladi, A'bad-7.
4622.	Mukesh Talati Ochhavalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5363 22-4-76	10, Radhanpur Society, Bhairav- nath Road, A'bad.
	Mukesh Upadhyay Chandradev	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7268 11-9-79	B-14, Manekpark Society, Harani Road, At. Baroda-6.
4624.	Mukesh Vaidya Baldevdatt	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8318 10-2-82	Opp. Lal Coart, Rajmahel Road, Central Bank, Baroda.
4625.	Mukeshchandra Paneri Bhavnishankar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6359 4-10-78	469, Sanakedi Sheri, Opp. B D College, A'bad.
4626.	Mukeshchandra Shah Kantlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7618 18-3-80	At. Dudhavad, Tal. Padara, Distt. Baroda.
4627.	Mukeshchandra Suthar Narayandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	7227 29-8-79	Taluka Panchayat Qua. At. Vasanda, Dist. Valsad.

1	2	3	4	5
4628.	Mukeshchandra Upadhyay Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3566 29-8-72	Navnirma Agamnigam Soci ty, Maninagar, Vatva Road, Near Anandvedi, A'bad.
4629.	Mukta Bhalodiya Arjanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5580 18-10-76	4/2, Chhaya Society, Chembunaka, S.T. Road, Bombay-71.
4630.	Muktaben Patel Arajakbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7868 16-10-80	B. No. 423, Room No. 2400, Bapu- nagar, A'bad.
4631.	Muktilal Trivedi Prabhulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5738 25-3-77	At. Tervada, Tal. Kankarej, Distt. Banaskantha.
4632.	Mukumdrai Raval Shantilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	1672 25-5-65	At. Mojidad, Tal. Limdi, Distt. Surendranagar.
4633.	Mukund Prajapati Vitthalidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7650 28-3-80	Near Gram Panchayat Office, Vastrapur, A'bad.
4634.	Mukundbhai Purohit Hariprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	2897 12-2-70	Azad Chowk, At. Dharmaj, Distt. Kheda.
4635.	Mukunddas Shah Nathubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4846 14-5-75	C/o N.C. Shah, At. Mansa, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
4636.	Mukundkumar Patel Gandalai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8654 10-2-83	35, Riddhishwar Society, Nava Vadaj Road, A'bad-13.
4637.	Mukundlal Pandya Himmatlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1959	766 23-10-61	Gayatri Krupa Dispensary, Jaya- ratnchar Rasta, Kansarawadi, Madan Zapa Road, Baroda.
4638.	Mukundprasad Thakar Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3402 25-2-72	At & Post Sardhav, Tal & Distt. Gandhinagar.
4639.	Mukundrai Bhatt Khushalrai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1953	851 16-6-53	M.O.G.M.S. Class-II, Police Hos- pital, A'bad-4.
4640.	Mukundrai Bhavsar Somabhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	875 5-7-62	C/o Bhavsar Mukundrai S., At. Rudan, Via Nadiad, Distt. Kheda.
4641.	Mukundrai Dave Mugatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	5840 25-7-77	Manganath Road, Cali Cloth Show Room, At. Junagadh.
4642.	Mukundrai Joshi Mansikhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3285 8-11-71	Aliyabada, Distt. Jamnagar.
4643.	Mukundrai Lathigara Manganlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	993 2-6-58	At & Tal. Kalavad, Distt Jamnagar,
4644.	Mukundrai Pandya Girjashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5769 26-4-77	C/o Dr. C.B. Pandya, Shashtri Nagar, LIG-184, At. Bhavnagar.
4645.	Mukundrai Raval Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4068 26-9-73	5, Harisiddha Chambers, 2nd Floor, Income Tax, Ashramoroad, A'bad.
4646.	Mukundray Badheka Narnadashanker	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1947	7337 16-10-79	Navapara Chowk, At. Palitana, Dist. Bhavnagar.
4647.	Mukundray Dave Mansukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5423 4-6-76	At. Ambaradi, Via Moti Mengani, Tal. Gondal, Distt. Rajkot.
4648.	Mukundray Desai Yashvantray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7327 15-10-79	8, Rupali Society, Bhatar Road, Near Naher, Surat-4.
4649.	Mukundray Raval Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4510 17-9-74	Virani Street, At. Liliya Mbta, Dist. Amreli.
4650.	Mukundray Thakar Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4976 15-10-75	C/o R.G. Vyas, Lhmana Khedaki, Manganath Street, At. Junagadh.
4651.	Mukurbhai Bharti Shivrambhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1962	873 28-9-62	At. & Post Golana, Via Tanapur, Distt. Kheda.

1	2	3	4	5
4652.	Mulaji Dudhatra Manajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	7004 16-5-79	Bhanvantrai Clinic, Near Bhavpara, Sardar Chowk, At & Post Jutpur, Tal & Distt. Rajkot.
4653.	Mulaji Siddhapura Khimaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	2928 18-3-70	At Surva (Gir), Via Ankelvadi, Distt. Junagadh.
4654.	Mulajibhai Patel Mathurbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5644 30-12-76	At. Jtadi, Tal. Lunavada, Distt. Panchmahal.
4655.	Mulajibhai Rabari Vashabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7664 10-4-80	At. Kausa, Tal. Khambhat, Distt. Kheda.
4656.	Mulajibhai Rathod Kamabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	7979 20-2-81	At Shapur (Sorath), Tal. Vanthali, Distt. Junagadh.
4657.	Mulajibhai Sadhu Laxmiram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5581 18-10-76	At. Ajarpura, Tal. Anand, Distt. Kheda.
4658.	Mulajibhai Kacharia Kanajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3467 1-4-72	At. Dudhala, Tal. Motidhari, Distt. Amreli.
4659.	Mulajibhai Visani Mohanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3984 31-7-73	At. Vavadi, (Notyani), Via Kalavad (Shitala), Distt. Jamnagar.
4660.	Mulchand Shah Vallabhadas	L.A.M., U.P. Ay. Maha. Patan, (Baroda) 1941	1644 13-8-41	C/o Shah Vallabhdas Mathurdas At. Mahelav, Tal Petlad, Distt. Kaira (Patan).
4661.	Mulraj Brahmabhat Shankerbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3481 17-4-72	At. Adas, Tal. Anand, Distt. Kheda
4662.	Mulraj Vaidya Jethalal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1964	18 14-12-64	3-A, Chandra Colony, Law College, Ellish bridge, A'bad.
4663.	Mulshanker Joshi Bhikhabhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1945	252 2-7-45	At. Chakalasi, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
4664.	Mulshanker Joshi Somnath	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2275 25-11-66	2224, Gundivad, Raipur, A'bad.
4665.	Mulshanker Pandya Mansukhram	Ayurved Visharad, M.S. Univ. 1945	2025 6-8-45	At. Bharthana, Post Karjan, Distt. Baroda.
4666.	Mulsinh Rathod Kesharsinh	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	969 1-9-55	At. Umedgadh, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
4667.	Mulubhai Khuman Odhabhai	Ay Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1977	6578 16-2-79	At. Mathasani, Tal. Savarkundala, Distt. Bhavnagar.
4668.	Mumtaj Sayani Rajablibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6529 3-2-79	At. & Tal. Malia- Miyana, Distt. Rajkot.
4669.	Mumtaz Mugal Jamalbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9252 9-4-85	Khojawad, Kusum Nivas, Jamnagar
4670.	Mumtazhanu Shekhani Abdulkarim	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9643 38-12-86	B/6, Mochinagar, At. Rajkot-6.
4671.	Mundan Vasu Manjatan	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, Maharashtra 1969	3664 25-10-72	Sonvada, Bhajifalia, Post Dhigara, Via Dungari, Distt. Valsad.
4672.	Munishwar Joshi Gaurishankar	Ayurved Visharad, M.S. Univ. 1938	1953 28-4-38	At. Babapur, Tal. & Distt. Amreli.
4673.	Munnidevi Sharma Chunilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3777 9-2-73	Block No. 74, Room No. 580, Guj. Hou. Colony, Chamanpura, Asharva, A'bad.
4674.	Murari Putil Bhan	M.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1972	7373 29-10-79	Tal. Nizar, At. Chichoda, Distt. Surat.

1	2	3	4	5
4675.	Murari Trivedi Govindprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8673 16-2-83	985/4, Pratap Building, Ramnagar, Sabarmati, A'bad-5.
4676.	Murfidhar Joshi Narendrakumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4787 16-4-75	Ambika Sanskrit College, At Ambaji, Tal Danta, Distt. Banas- kantha.
4677.	Mustakahmed Shaikh Nurmohamad	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9609 10-11-86	2776, Julaiwad, Shāhpur Bahai- Center, A'bad-1
4678.	Mustak Kadaali Kadarisaiyad Ahmad	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9516 1-7-86	C/o R.M. Kadari, Shastrinagar- Near Sindhi School, At. Rajkot 360001.
4679.	Nachiketabhai Maru Yasantlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6823 22-3-79	B-1, Govt. Vikas Mandal Falat, Opp. Naherunagar, Ambavadi, A'bad.
4680.	Nagaji Popat Vasanji	Vaidyacharya, A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1969	6903 16-4-79	At. Kanzadi, Tal. Vanthali, Distt. Junagadh.
4681.	Nagajibhai Donga Raghavbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7756 16-7-80	At. Jamvala (Gir), Via Veraval, Tal. Una, Dist. Junagadh.
4682.	Nagajibhai Patel Gambhirbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7597 17-3-80	At. Boridara, Tal. Mangaral, Via Kesamba, Dist. Surat.
4683.	Nagajibhai Rabari Gemarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4901 26-6-75	At. Vadnagar, Opp. River, Tal. Kheralu, Distt. Mehsana.
4684.	Nagarlal Pandya Vitthalji	Vaidya Visharad, A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1963	8795 5-7-83	At. Hemal, Via Nageshri, Tal. Jafara- bad, Dist. Amreli.
4685.	Nagella Murti Anjaney	M.D. (Ay.), Gujarat Ay. Univ., 1978	5462 15-1-79	Bala Ay. College, Lodra, At. Lodra, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
4686.	Nageshkumar Jani Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7786 19-8-80	9, Shaktinagar Society, At. Mehsana
4687.	Nageshkumar Pandya Indrajit	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4306 2-4-74	Chitekhan Gali, Dedigate Road, At. Baroda.
4688.	Naginbhai Kanthariya Bevajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7551 29-2-80	At. Nana Varachh, Tal. Choryasi, Surat.
4689.	Naginbhai Patel Bhikhabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5706 24-2-77	At. Mobha, Tal. Padara, Distt. Baroda.
4690.	Naginbhai Patel Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6120 5-4-78	At & Post Jaganad, Tal. Jambusar, Distt. Broach.
4691.	Nagindas Champaneria Jivrajbhai	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1960	6995 7-5-79	At. Verabar, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
4692.	Nagindas Daftari Jatashanker	D.S.A.C., C.S.Ay. Course, Gujarat 1966	2094 11-7-66	Kapadbazar, At. Dhoraji, Distt. Rajkot.
4693.	Nagindas Somaiya Parmand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3576 4-9-72	At. Kutiyana, Dist. Junagadh.
4694.	Nagindas Vora Harilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1963	1098 15-10-63	Fatehnagar, Sarkhe Road, Paldi, Ahmedabad-7.
4695.	Naginkumar Malavia Khushalchand	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1964	15 11-12-84	C/o K.H. Malavia, Motor Stand, At. Porbandar, Distt. Junagadh.
4696.	Nagji Raiyani Kanji	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1967	2537 6-7-67	At & Post Sultanpura, Via Vaida Devadi, Dist. Rajkot.
4697.	Nagajibhai Donga Khimajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7013 16-5-79	At. Motivavali, Post Dhunbhoraji, Via Kalavad Shitla, Tal. Kalavad, Dist. Jamnagar.

1	2	3	4	5
4698.	Nagsing Chavada Amathaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4423 2-7-74	At & Post Sudasana, Tal. Kheralu, Dist. Mehsana.
4699.	Naimish Vaidya Chandramukh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7596 14-3-80	1631/A/2, Thakervas, Navrangpura, A'bad.
4700.	Naimishkumar Hathila Chunilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8792 16-6-83	At. Mirakhedi, Tal. Zalod, Dist. Panchmahal.
4701.	Naishadh Vaidya Narayandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8644 1-2-83	At. & Post Gozariya, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
4702.	Najabhai Muchhadiya Lakhamanbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9155 1-10-84	Nava Thorana Main Road, Bom- bay Building-1, At. Rajkot-3.
4703.	Nakalagnath Bava Vadinath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3041 9-9-70	At & Post Trent, Tal. Viramgam, Distt. A'bad.
4704.	Nalin Bhatt Dhirajlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1965	2950 14-4-70	21/252, Anand Park, Rajkot-2.
4705.	Nalin Vachrajani Durgaram	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	1000 2-1-56	B.B.Z.S.-17, At. Gandhigam, Distt. Kutch.
4706.	Nalinchandra Barot Bhagvatrai	D.S.A.C., C.S.Ay. Course, Gujarat 1966	2074 24-6-66	Gandhi Chowk, Opp. Dena Bank, At. Padra, Distt. Baroda.
4707.	Nalinchandra Vyas Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3137 24-2-71	At. Ajamavat Coat, Tal. Kapadvanj, Distt. Kheda.
4708.	Nalini Dave Prabhakar	Vaidya Visharad, A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi 1967	7468 21-12-79	Adarsh Society, Opp. Royan-2 Bun- gala, Near Temple, At & Tal. Vera- val, Dist. Junagadh.
4709.	Nalini Parikh Krishnakant	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1964	1464 29-6-64	Istarling Park Flats, Block C-4/5, Mominagar, A'bad.
4710.	Nalini Gandhi Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3489 19-4-72	Gokul Gandhi Society, At. Savar- kundala, Distt. Bhavnagar.
4711.	Nalini Karia Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6093 21-3-78	Sector No. 22, ch/5/4, Gandhi- nagar.
4712.	Nalini Rathod Pragjibhai	D.S.A.C., C.S.Ay. Course, Gujarat, 1966	2496 25-5-67	1497, Krishnanagar, At Bhavnagar.
4713.	Nalini Shah Bansilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1965	1783 11-8-65	Kusum Villa, Swami Vivekanand Road, Ghodbandar, Khar, Bombay- 52.
4714.	Nalini Shukla Prabhaashankar	D.S.A.C., C.S.Ay. Course, Gujarat 1964	1613 22-2-65	Shukla Building, Amlipole, Shahpur, Ahmedabad.
4715.	Nalini Thakar Rameshohandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7642 20-3-80	Gayatri, 5, Valmk Society, Outside Panigate, Vaghodia Road, At. Baroda.
4716.	Naliniben Patel Ramanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5069 15-12-75	Songir Indral, Tal. Sankheda, Distt. Baroda.
4717.	Nalinikant Baxi Shantaram	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	782 3-9-56	Opp. Modh's Wadi, Javahar Road, At. Junagadh.
4718.	Nalinikant Rava Savailal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1963	1880 8-12-65	Block No. 3, Nagar's Vandi, Tal. Bhuj, Distt. Kutch.
4719.	Nalinikant Shah Tribhovandas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1949	2567 2-7-49	At & Post Sajod, Tal. Ankleshwar, Distt. Broach.
4720.	Nalinikumar Pandya Jadavji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4182 11-2-74	1, Usha Dip Society, Behind L.D. Eng. College, Dr. Radhakrishna Road, Gulabi Tekara, A'bad.
4721.	Naliniben Desai Dhirubhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	415 1-7-54	Desai Wad, At Chikhali, Distt. Valsad.

1	2	3	4	5
4722.	Nalinikumar Raval Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5272 9-3-76	Daulatbridge Road, At. Limabandi, Dist. Surendernagar.
4723.	Nalinikumar Shah Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8193 12-10-81	16, Shreynagar Society, Subhanpura, At. Baroda-3.
4724.	Nalinikumar Shah Kantilan	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9285 2-5-85	At. & P.O. Goral, Tal. Idar, Dist. Sabarkantha-383411.
4725.	Nanaji Chavada Tapubhai	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1958	7440 21-12-79	At. & Post Mendarada, Dist. Juna- gad.
4726.	Nanaji Chovatiya Mohani	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8262 31-12-81	At Nani Monpari, Tal. Visavadar, Dist. Junagadh.
4727.	Nanajibhai Nada Jivabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8005 17-3-81	Satyam Apptt., Raichanda Road, Derasar Chal, At. Navsari, Dist. Valsad.
4728.	Nanajibhai Vaghela Khedabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8487 6-8-82	At Jalia (Ankellali), Post Ratanpur, Tal. Palitana, Dist. Bhavnagar.
4729.	Nanalal Acharya Dhirajlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	6763 15-3-79	Near Baladh's Chora, At. Dhoraji, Dist. Rajkot.
4730.	Nanalal Dave Narbheshanker	L.A.M., U.P. Ay. Maha-Patan (Baroda State) 1941	360 31-7-41	Physician, Akhand Anand Ay. Hos- pital, Ahmedabad.
4731.	Nanalal Dhandhalal Bhuralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5786 30-4-77	At. Devgana, Tal. Shihor, Distt. Bhavnagar.
4732.	Nanalal Joshi Madhavji	Vaidyacharya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	7141 24-7-79	Vaidyakiya Adhikuri, Jilla Pan- charya Dispensary, Via Rajula, At. Vavera.
4733.	Nanalal Raval Bhanushanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1952	980 2-1-53	Medical Officer, At. Sardargadh, Via Manavadar, Distt. Junagadh.
4734.	Nanalal Rathod Jinabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2910 24-2-70	At. Mori Vavdi, Via Damnagar, Tal. Gariadhar, Distt. Bhavnagar.
4735.	Nanalal Sheth Maatlal	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1974	6683 3-3-79	At Rarval, Tal. Vav, Distt. Banas- kantha.
4736.	Nanalal Pathak Mahadev	L.A.M., U.P. Ay. Maha-Patan (Baroda State) 1934	704 18-10-41	Bhrahmpuri, At. Bhuj-Kutch.
4737.	Nansa Solanki Dansinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6259 2-9-78	C/o Dansing B. Solanki, 12/B, Som- nath Society, Opp. Church Mani- nagar, East, A'bad.
4738.	Nandini Pandya Bhalechandra	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4487 4-9-74	Bajvada Dholi Kui, Chakraniya Pole, Baroda.
4739.	Nandini Shah Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5680 24-2-77	B. No. 6, Utakash Society, Amba- vadi, A'bad-15.
4740.	Nandiniben Vyas Dineshchandra	Ayurved Madhyama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda 1977	6709 9-3-79	R. No. 4, Sarvanand Society, Kare- libag, Baroda.
4741.	Nandkishor Dave Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5229 3-4-76	At. Vanadara, Tal. Dabhoi, Dist. Baroda.
4742.	Nandkishor Joshi Mangilal	B.A.M.S., Indore Univ., 1975	6210 3-8-78	Gram Bharaty Ashram, At & Post Tavlat, Tal. Manavad, Distt. Dhar.
4743.	Nandkishor Raval Dayashanker	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1939	8191 12-10-81	At. Gzariya, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
4744.	Nandkumar Shah Nathalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5104 1-1-76	Dr. T.N. Shah, Majur Mahajan Dispensary, Khanpur, A'bad.

1	2	3	4	5
4745.	Nandlal Godani Shivlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1964	1459 29-6-64	Library Chowk, Opp. Library, At. Una, Dist. Junagadh.
4746.	Nandlal Kevadiya Jivrajbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8586 3-11-82	B. No. 12/2,-A, Vallabhnagar, Soci- ety, Varachha Road, Surat-3.
4747.	Nandlal Shah Maneklal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9121 23-8-84	Block No. 7, Mahatma Gandhi Ganj, At. Borsad, Tal. Borsad, Dist. Kheda.
4748.	Nandlal Thanaki Purshottam	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1968	7045 21-6-79	Limada Line, K.D. Jeth Hou. At. Jamnagar.
4749.	Nandshanker Pandya Chunilal	Ayurved Visharad, M.S. Univ., 1955	2339	At. Bhuval, Post Hirapur, Tal. Dash- roi, Dist. A'bad.
4750.	Nanduben Nariya Perbatbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7964 3-2-81	C/o Ukabhai P. Nariya, At & Post Samana, Tal. Ja-Jodhapur, Dist. Jamnagar.
4751.	Nanilal Kevadiya Shamajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8643 1-2-83	At. Moti Vavadi, Via. Parvadi, Tal. Guria Dhar, Dist. Bhavnagar.
4752.	Nanji Balai Suvalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5038 13-11-75	Vikram Mill, Chandulal's Chali, Saraspur, A'bad.
4753.	Nanji Chovatiya Damji	B.A.M.S., Kanpur Univ., 1973	4397 3-6-74	St. Road, At. Vadai, Distt. Junagadh
4754.	Nanji Sutarla Dharamshi	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5150 4-2-76	At. Charel, Tal. Jam Kandorana, Via Bhayavadar, Dist. Rajkot.
4755.	Nanjibhai Dobariya Kulejibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5056 28-11-75	At. Ditala, Tal. Dhari, Distt. Amreli.
4756.	Nanjibhai Harkhani Dudabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4170 5-2-74	At. Govindpur, Tal. Dhari, Distt. Amreli.
4757.	Nanjibhai Katariya Jivabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4077 4-10-73	At. Chorvadi, Via Bhilakha, Distt. Junagadh.
4758.	Nanjibhai Ramani Manjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4150 7-1-74	At. Punjapadar, Tal. Liliamota, Distt. Amreli.
4759.	Nansingbhai Chaudhari Machabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5841 3-8-77	Bedi Falia, At. Madhi, Tal. Barodi, Dist. Surat.
4760.	Nanubhai Kapopara Bavchandbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8414 5-4-82	At. Girgadhada, Tal. Una, Dist. Junagadh-362 530.
4761.	Nanubhai Lad Durlabhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay	994 1-7-54	At. Dungari, Distt. Valsad.
4762.	Naran Bharadava Lakhabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4349 23-4-74	At. Divrana, Via Kashod, Tal. Mang- rol, Distt. Junagadh.
4763.	Naranbhai Barad Noghanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8726 19-4-83	At. & Post Devali, Jal. Kodinar, Distt. Amreli.
4764.	Naranbhai Bhatiya Jadavbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5108 2-1-76	At. Jalalpur (Manfava), Tal. Gad- hada (Swamina), Distt. Bhavnagar.

1	2	3	4	5
4765.	Naranbhai Fataniya Vasharambhai	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1968	6527 21-2-79	At. Lathia, Moyalana, Post Kalvani, Tal. Keshod, Distt. Junagadh.
4766.	Naranbhai Golakiya Bhagvanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5995 19-12-77	At. Sandkhkhakara, Via. Songali, Tal. Gariyadhur, Distt. Bilaspur
4767.	Naranbhai Patel Babaladas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	569 10-7-63	At & Post Malana, Tal. Palanpur, Distt. Banaskantha.
4768.	Naranbhai Patel Manubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3607 16-9-72	Biliyapura, Lal Bangala's, At & Post Dorol, Tal. Kalol, Distt. Panchmahal
4769.	Naranbhai Patel Mani Lal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3965 7-7-73	At. Akodaru, Tal. Himmatnagar, Distt. Sabarkantha.
4770.	Naranbhai Patel Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5127 23-1-76	At. Vasoli, Post Kantava, Tal. Mangarol, Distt. Surat.
4771.	Naranbhai Patel Jesangdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6317 27-9-78	At & Post Karangar, Tal. Kadi, Distt. Mehsana.
4772.	Naranbhai Patel Mangaldas	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1963	22 18-12-64	At. Nardipur, Tal. Kalol, Distt. Mehsana.
4773.	Naranbhai Patel Amichandbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8662 10-2-83	At & Post Hatharava, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
4774.	Naranbhai Rathod Bhayabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6157 9-5-78	At. Prashnavada, Tal. Veraval, Distt. Junagadh.
4775.	Narayanbhai Patel Prabhudas	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1964	23 18-12-64	D/21, E.S.I. Dispensary, Near Industrial Estate, Bapunagar, A'bad- 21.
4776.	Naranbhai Rangparia Dahyabhai	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1980	9083 29-6-84	At. Rasangpar, Post Malia (Miyana), Dist. Rajkot.
4777.	Narandas Dari Ramajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2925 12-3-70	Kuhada Fall, Kharva Vad, At. Varaval, Distt. Junagadh.
4778.	Narandas Gondalia Govindram	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1962	7151 25-7-79	At Araniyala, Via Lushala, Distt. Junagadh.
4779.	Narandas Nimavat Mohandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3789 15-2-73	At. Mekhatinbi, Via Kolaki, Tal. Upaleta, Dist. Rajkot.
4780.	Narandrakumar Pandya Prahldji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5527 17-9-76	Near Police Station, At. Khed- brhma, Distt. Sabarkantha.
4781.	Narsinhbhai Prajapati Somabhai	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1963	8769 11-5-83	At. Detroj, Tal. Viramgam, Distt. A'bad.
4782.	Narayan Dave Maganlal	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1963	7193 17-8-79	At. Moti Ghansari, Tal. Keshod, Distt. Junagadh.
4783.	Narayan Mukati Ramdas	B.A.M.S., Indore Univ., 1974	5825 5-7-77	26, Chhotabhai Tarak Hou., Baka- ravadi, Shak Market, Near Wadi, At. Baroda.
4784.	Narayan Patel Mangaldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3128 17-2-71	Amaraiwadi, Navovas, A'bad.
4785.	Narayan Raval Natavarprasad	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1960	981 23-10-61	C/o N.J. Raval, B/5, Dharamnagar Colony, Sabarmati A'bad-5.
4786.	Narayan Shishangiya Tribhovanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7662 10-4-80	Opp. Jayant Cyole Service, Main Road, Kevada Vadi, At Rajkot-2.
4787.	Narayan Vadhar Bhailal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3162 20-3-71	C/o Vadher Bhailal Haribhai, Opp. Haveli, At. Tankara, Tal. Morbi, Distt. Rajkot.

1	2	3	4	5
4788.	Narayan Vaidya Narmadashanker	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1965	1827	Par Falia, Navsari, Distt. Valsad.
4789.	Narayan Yadav	B.A.M.S., Indore Univ., 1976	6169 20-5-78	C/o M.O. Gupta, At. Halapar, Tal. Mandavi, Distt. Kutch.
4790.	Narayanbhai Gadhavi Prabhudas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6430 2-12-78	At. & Post Vaganput, Tal. Godhara, Dist. Panchmahal.
4791.	Narayanbhai Modi Ishwarbhai	G.F.A.M., Fac. of AÜSM, Bombay 1958	955 2-3-59	At. Soja, Tal. Kalol, Distt. Mehsana.
4792.	Naliniben Parmar Bhikhubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6827 22-3-79	Lotia Bhagol, Grischayan, Street, No. 6, At. Anand, Distt. Kheda.
4793.	Narayanbhai Patel Madhavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4745 7-4-75	At. Shobhasan, Post Hansa, Tal. Kalol, Dist. Mehsana.
4794.	Narayanbhai Patel Jethabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4712 29-3-75	At. Pindharpura, Tal. Chansama, Dist. Mehsana.
4795.	Narayanbhai Dave Khanabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7983 25-2-88	Narijan Brahmanvas, At. Varsad, Tal & Distt. Gandhinagar.
4796.	Narayanbhai Joshi Nathabhai	L.A.M., U.P. Ay. Maha-Patan (Baroda State), 1940	238 15-3-48	Shankerdas Desai's Khadaki, At. Nandlad.
4797.	Narayanbhai Patel Harjivandas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1964	1471 3-7-64	At. Detroj, Tal. Viramgam, Distt. Ahmedabad.
4798.	Narayandas Acharya Tulasidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. & Univ., 1974	5784 30-4-77	At. Nagnesh, Via Brugupur, Tal. Limadi, Distt. Surendr'nagar.
4799.	Narayan More Krishna	B.A.M.S., Vjdarbha Board of AUSM, Maharashtra, 1968	2825 26-8-69	At. Tankari Bandar, Tal. Jambusar, Distt. Broach.
4800.	Nandkal Vakani Maganlal	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	6794 21-3-79	Opp. Mali Mandir, Valand Sheri, At. Palitana, Dist. Bhavnagar.
4801.	Natvarbhai Patel Jivanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7320 10-10-79	Near Jain Derasar, At. Tudakesh- war, Via Kim, Tal. Mandavi, Dist. Surat.
4802.	Narshaben Kapadia Rajanikant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7379 7-11-79	Panchmuki Nanuman Pole, Vada Chauta, At. Surat.
4803.	Narchrakumar Ghadiyali Pranjivandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4726 1-4-75	Upali Bazar, At. Barodli, Distt. Surat.
4804.	Narendra Bhangale Namdev	B.A.M.S., Univ. of Pune 1982	9205 30-1-85	26, Chandralok Society, Ghodasar, A'bad.
4805.	Narendrakumar Bhavsar Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7783 19-8-80	At. Tankal, Via Rankuva, Tal. Chikhali, Dist. Valsad.
4806.	Narendra Brahmshatriya Jagjivandas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1971	9230 19-2-85	At. Pethapur, Tal & Distt. Gandhi- nagar.
4807.	Narendra Amin Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8524 27-8-82	At & Post Mebharoad, Tal. Padara, Dist. Baroda.
4808.	Narendra Dave Narishanker	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ., 1982	8505 27-8-82	At & Post Nanodara, Dholaka, Via Kota-Gangad, Dist. A'bad.
4809.	Narendra Parekh Rasiklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5932 19-10-77	Sukh Nivas [Colony, B. No. C/2, Collector Bangala Road, Amrell.

1	2	3	4	5
4810.	Narendra Patel Ramjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1984	9476 28-2-86	Parosh Bhuvan, Krushnakunj Society, Opp. Pratap Chali, Station Road, At. Disa, Distt. B. K.
4811.	Narendra Raval Pranshanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1959	2104 3-9-59	Mahalaxmi Society, B. No. 4/2, College Road, At. Junagadh.
4812.	Narendra Rindani Kanakarai	D.A.S.F. Fac. of AUSM, Bombay 1956	988 3-9-56	Sardarganj Dispensary, At. Gandhidham, Dist. Kutch.
4813.	Narendra Vaidya Thakerdas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	1036 18-7-62	At & P. O. Untadi, Station, Dungari, Tal. Valsad.
4814.	Narendrabhai Bhatt Parmanand	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1976	6500 1-2-79	6, Jaganath Plot, Jinkhana Road, At. Rajkot.
4815.	Narendrakumar Bhatt Mulshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3247 21-9-81	At. Gajera, Tal. Jambusar, Dist. Broach.
4816.	Narendrakumar Choksi Chimanlal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1968	2734 10-2-69	Haripura, Soyvala Sheri, Surat.
4817.	Narendrasinh Jadega Danubha	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3453 28-3-72	At. Virpada, Via Dahisara, Tal. Morbi, Distt. Rajkot.
4818.	Narendrakumar Joshi Shankarlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1950	237 31-7-50	At. Dasada, Distt. Surendra- nagar.
4819.	Narendrakumar Joshi Dalsukhrui	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3938 2-5-73	C/o. Dalsukhbhai Joshi, 1966, At. Talala, Dist. Junagadh.
4820.	Narendrakumar Joshi Balkrushna	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6276 20-9-78	At & Post Kaladara, Tal. Vagara, Dist. Baroda.
4821.	Narendrakumar Mehta Pranshanker	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1962	907 27-12-62	Natvarsinhji Hospital, Mill Para, At. Porbandar.
4822.	Narendrakumar Mehta Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5515 2-9-76	Chhipvad, Panch Katadi, At. Broach.
4823.	Narendrakumar Moradiya Becharbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5110 2-1-76	82, B. Kundankunj Nirmalnagar, Opp. E.S.I. Dispensary, At. Bhavnagar.
4824.	Narendrakumar Naru Ramajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7493 17-1-80	At & Post Nanapur, Tal. Kaka- vav, Via Bagsara, Distt. Amroli.
4825.	Narendrakumar Pancheli Naginchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2792 25-6-69	At. Gadhada Swamina, Bhadli Gate, Dist. Bhavnagar.
4826.	Narendrakumar Pandya Vrujlal	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1975	6910 16-4-79	Patel Ravaji Mavaji's Hou., Near Bhambshwar Temple, At. Rajkot.
4827.	Narendrakumar Patel Kalidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3700 30-11-72	At. Kosindra, Tal. Sankheda, Distt. Baroda.
4828.	Narendrakumar Patel Ambalal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9374 2-9-85	At. Tetoda, Tal. Disa, Dist. B.K.
4829.	Narendrakumar Raval Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3893 27-2-73	C/o. K. J. Ravak, D-9, E.S.I. Hospital, Near Dadaharivav, Asarva, A'bad.
4830.	Narendrakumar Raval Ravishankar	Ayurved Madhyama, S. D. Paiksha Samiti, Baroda 1978	6556 12-2-79	Dr. R. V. Raval, At & Post Manupura, Tal. Virangam, Dist. A'bad.
4831.	Narendrakumar Raval Ravishankar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8154 3-9-81	At. & Post Lodra, Tal. Vijapur, Distt. Mchana.
4832.	Narendrasinh Raval Ghansinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5722 15-3-77	C/o. Fatehsinh Davisinh, Bagich Mill No. 2, Gomatiapur Road, A'bad.

1	2	3	4	5
4833.	Narendrakumar Shah Dahyalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	5043 20-11-75	At. Rugan, Tal. Mahendabad, Distt. Kheda.
4834.	Narendrakumar Shah Mafatal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8733 19-4-83	C/o. Ms. Kanaiyalal M. Shah, At. & Post & Tal. Bayad, Distt. Sabarkantha.
4835.	Narendrakumar Shukla Gautamprasad	Ayurved Madhyama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6713 9-3-79	Ranjit Hou. Colony, B. No. B. 8, Flat No. 340, Opp. Hatlu Colony, At. Jamnagar.
4836.	Narendrakumar Tamboli Nanubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9208 2-2-85	C/o. Dr. V. N. Tambol, Sai Clinic, Adajangam, Dist. Surat.
4837.	Narendrakumar Trivedi Prabhashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4633 1-3-75	Pronaji Doctor's Sheri-Near Ghoti Gate, At. Palana, Distt. Bhavnagar.
4838.	Narendrakumar Trivedi Jayashankar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	6197 15-7-78	At & Post Jagat, Tal. Palanpur, Dist. Banaskantha.
4839.	Narendrakumar Patel Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7892 14-11-80	At & Post Puna, (Kumbharia), Tal. Choryasi, Dist. Surat.
4840.	Narendrakumar Upadyy Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5160 12-2-76	Gagaji Patel's House, At. Budhel, Distt. Bhavnagar.
4841.	Narendrakumar Vyas Maheshwar	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2461 13-4-67	Rasashram Pharma Laboratories, Prankuvarba Bhavan, Mahadev Vadi, Gondal, Dist. Rajkot.
4842.	Narendrakumar Vaidya Oshhavlal	Ayurved Visharad, Board of I. M. Saurashtra, 1962	2249 14-2-62	H. H. Street, Harishareshwar Mahollo, At. Prantij, Distt. Sabarkantha.
4843.	Narendra Parekh Atmarambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8558 16-9-82	Kharakuva, Mukli's Sheri, Sarkhej Gam, Tal. City, Distt. A'bad.
4844.	Narendrakumar Patel Sankalchand	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9615 21-11-86	At & P.O. Chhatral, Tal. Kalol, Distt. Mehsana.
4845.	Narendrakumar Joshi Gordhandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4083 8-10-73	At. Bhavabhakhijadiya, Tal. Kalavad, Distt. Jamnagar.
4846.	Naresh Mehta Hiratal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1963	1625 25-3-65	Junagam Fort, Songadh, Distt. Surat.
4847.	Naresh Pandya Dahyalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9434 23-12-85	C/o. D. D. Pandya Dave Sheri, Near City Sarve Office, At. Sihor-364240, Dist. Bhavnagar.
4848.	Naresh Shukla Keshinath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6391 27-10-78	Ranchhadji's Temple Khaneha's Near Sahera Bhagol, At & Post Godhara, Dist. Panchmahal.
4849.	Naresh Tambekar Raghunath	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1958	3315 20-1-72	Tambekarnivas, Gokhaleroad, Dadar, Bombay-28.
4850.	Nareshchandra Bhatt Dhirajlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3181 16-4-71	Harbabas Temple, At. Bhadran* Tal. Borsad, Distt. Kheda.
4851.	Nareshkumar Acharya Vitthaladas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6315 27-9-78	28, Vishvakunj Colony, Near Old Dhor Bazar, Bahyakaka Road, A'bad.
4852.	Nareshkumar Chandi Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6945 25-4-79	Bazar, At. Patadi, Dist. Surendra- nagar.
4853.	Nareshkumar Dave Mukundrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8890 4-1-84	At & Post Jambuda, Via. Dhuvav, Tal. & Dist. Jamnagar.
4854.	Nareshkumar Pala Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5857 23-8-77	Trikamnagar 2. Pushottambhai's Chali, At. Surat.
4855.	Nareshkumar Patel Jashbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	6269 11-9-78	Adarsh Society At. Palana, Mat. Nadiad, Distt. Kheda.

1	2	3	4	5
4856.	Nares'kumar Patel Ranchhodbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8734 19-4-83	At. & Post Kudsad, Via. Kim, Tal. Olpad, Dist. Surat.
4857.	Nareshkumar Shah Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6833 22-3-79	98, Koryarknagar Society, Randar Road, Surat.
4858.	Narhari Dave Prabhashankar	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1656 15-5-65	Ramnivas Near Police Chowki.
4859.	Narhari Dave Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7687 22-4-80	At. Nodharvadar, Tal. Palitana, Distt. Bhavnagar.
4860.	Narhari jani Bhikhhalal	Ayurved Madhyama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6579 16-2-79	Vadava, Bhavdar Sheri, At. Bhavnagar.
4861.	Narharibhai Pathak Tribhovandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3929 19-4-73	At. Kosindra, Tal. Borasad Via. Ankalav, Dist. Kheda.
4862.	Narharilal Bhatt Mohanlal	Ayurved Visharad, M.S. Univ., 1941	2325 3-11-41	At. Ranu, Tal. Padara, Distt. Baroda.
4863.	Nariben Vasava Govindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8444 31-5-82	At. Amrutpura, Post Shamal, Tal. Ankeshwar, Dist. Broach.
4864.	Natvarlal Suthar Purushottamdas	Ayurved Madhyama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6678 3-3-79	At. Ganarpura, Tal. & Dist. Mehsana.
4865.	Naridra Dave Chhelshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7522 15-2-80	11/129, Adarshnagar, Near Vijay- nagar, Naranpura, A'bad.
4866.	Narharilal Bhatt Fulashanker	Ayurved Visharad, M. S. Univ., 1949	2156 1-9-47	At. Manjusar, Tal. Savli, Distt. Baroda.
4867.	Narhari Prasad Ambalal	Ayurved Visharad, M. S. Univ., 1943	2292 3-11-41	Vadi, Chhelli Pole, At. Baroda.
4868.	Narhariprasad Dave Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4217 19-2-74	Mota Adadh, Dhobi Tekara, At. Anand, Distt. Kheda.
4869.	Narhariprasad Gondaliya Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5827 5-7-77	C/o. Dr. R. G. Gokalia, Jin Para, At. Jctpur, Dist. Rajkot.
4870.	Narhariprasad Pandya Chhotalal	D.A.S.I., Fac. of AUSM, Bombay 1955	751 2-1-56	At. Davad, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
4871.	Nashim Navriwala Habibbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8772 12-5-83	Shahgara Sheri, Zadeswar Temple, Zakaria Manzil, At. Dhoraji, Dist. Rajkot-300410.
4872.	Narmadaben Mistri Ichchharam	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3479 14-4-72	7, B. Muralidhar Society, Odhav, A'bad.
4873.	Naramadashanker Raval Jatashanker	Ayurved Uttama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda 1967	6477 1-2-79	Sanskrutam, Opp. Commerce College, At. Bhavnagar.
4874.	Narottam Patel Gordhanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7655 28-3-80	At. Valaja, Tal. Visnagar, Distt. Mehsana.
4875.	Narottambhai Patel Kevaldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8094 4-6-81	At. Kahipur, Tal. Kherav, Distt. Mehsana.
4876.	Narottamdas Raniga Mohanlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1964	1772 21-7-65	At. Bantva, Distt. Junagadh.
4877.	Narottamdas Kubavat Narabheram	Ayurved Bhishak, A. J. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1958	7052 21-6-79	At. Chhaya, Tal. Porbandar, Distt. Junagadh.
4878.	Narpatasinh Sayaniya Bhagvansinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7654 28-3-80	At. Luna, Tal. Valia, Dist. Broach.

1	2	3	4	5
4879.	Narpatsinh Damor Nurajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8349 11-3-82	At & Post Shankerpura, Tal. Zalod, Dist. Panchmahal.
4880.	Narsang Ghediya Harijivan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4477 2-9-74	At. Char, Via Keshod, Distt. Junagadh.
4881.	Narsimbhai Chotaliya Naranbhai	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1975	6504 1-2-79	At. Dholara, Tal. Lodhika, Distt. Rajkot.
4882.	Narsinh Bhoghara Ravjibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9320 25-7-85	44, Hans Society, Varachha Road, At. Surat.
4883.	Narsinh Goghasara Mandanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3966 7-7-73	At. Haripur, Tal. Talala, Distt. Junagadh.
4884.	Narsinh Gohel Prabhudas	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1966	7137 24-7-79	At. Goaghar, Tal. & Distt. Junagadh.
4885.	Narsinh Patil Vitthal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	701 4-6-63	At. Korit, Post Prakashc, Tal. Nandurbarkar, Distt Dhuliya.
4886.	Narsinh Rana Khumansinh	B.S.A.M., Univ. of Gujarat 1968	2786 7-6-69	At. Pansoli, Tal. Valiya, Distt. Broach.
4887.	Narsinh Rathod Rupsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3269 25-10-71	At. Anodiya, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
4888.	Narsinh Tholiya Ambabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3291 24-11-71	At. Prangadh, Tal. Jetpur, Distt. Rajkot.
4889.	Narsinhbhai Patel Durlabhbhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1950	566 26-2-51	At. Puna (Kumbharia), Tal. Choryasi, Distt. Surat.
4890.	Narsinhbhai Patel Shanabhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1950	565 24-1-51	At. Badalpur, Tal. Borsad, Distt. Kheda.
4891.	Narsinhbhai Patel Mohanlal	D.A.S.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2184 5-10-66	Jilla Panchayat Ay. Dispensary, At. Sarodi, Tal. Chotila, Via Vankaner, Distt. Surendernagar.
4892.	Narsinhbhai Padhiyar Mohanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3494 24-4-72	At. Filudara, Tal. Jamluzar, Distt. Broach.
4893.	Narshinhbhai Patel Ishwarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4978 15-10-75	At. Mahmadvada, Tal. City, Distt. A'bad.
4894.	Narsinhpuri Gosai Devpuri	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1976	6527 1-2-79	At. Adariana, Tal. Patadi, Distt. Surendernagar.
4895.	Nazirahmad Palejvala Ahmadmiya	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4047 15-9-73	At. Umalla, Tal. Zagadia, Distt. Broach.
4896.	Narsu Patel Ratan	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2083 4-7-66	At. & Post Sarvane, Tal. Nizar, Distt. Surat.
4897.	Nathabhai Patel Shankorlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	568 12-6-63	Near Chabutara, At. Langhanaj, Distt. Mehsana.
4898.	Nathabhai Patoliya Vallabhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5449 5-7-76	At. Maekvada, Via Bagsara (Bhayani), Distt. Amreli.
4899.	Nathalal Babriyu Haribhai	Ayurved Visharad, Board of I. M. Saurashtra, 1961	2218 20-6-61	At. Moladi, Via Savarkundala, Distt. Bhavnagar.
4900.	Nathalal Changeda Jivabhai	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1972	9105 31-7-84	At. Hasanavadar, Post Achhin- dra Via. Sherbag, Tal. Veraval, Dist. Junagadh.
4901.	Nathalal Dangariya Popatbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	3241 9-12-81	At. & Post Surava (Gir), Tal. Talala, Dist. Junagadh.

1	2	3	4	5
4902.	Nathalal Nimavat Ramkrushna	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5082 15-12-75	513/3, Madhakavasa's Dahelu, Behind Moti Rangica Pole Shahpur, A'bad.
4903.	Nathalal Gohel Hirajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5691 24-2-77	At. Hanabhamddara, Tal. Savar- kundal, Distt. Bhavnagar.
4904.	Nathalal Janva Premjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3764 7-2-73	At. Nani Baral, Via Morbi. Tal. Malihatina, Distt. Rajkot.
4905.	Nathalal Kadeval Ambabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4811 30-4-75	At. Kanpar, Post Virnagar, Tal. Jashadan, Dist. Rajkot.
4906.	Nathalal Marvaniya Jadavji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3518 14-6-72	Old Cinema Road, At. Vanthali, Distt. Junagadh.
4907.	Nathalal Pandya Pranjivan	Vaidyacharya, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1967	6911 16-4-79	At. Balagam, Via. Keshod, Distt. Junagadh.
4908.	Nathalal Rathod Popatbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4587 12-12-74	Behind Darbar Gadh, Opp. Mani Shukla, At. Porbandar, Distt. Junagadh.
4909.	Nathalal Solanki Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4374 8-5-74	At. Aghelal (Bhal), Post Bavli- yari, Via Dholera Bort, Distt. Bhavnagar.
4910.	Nathubhai Moghariya Mulajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3427 9-3-72	At. Gajera, Tal. Dhangadhra, Distt. Surendernagar.
4911.	Nathubhai Patel Mulajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4607 13-1-75	At. Bhiloda, Distt. Sabarkantha.
4912.	Nathubhai Patel Majaribhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5913 11-10-77	At. Marala, Tal. & Distt. Baroda.
4913.	Nathuram Dudharejiya Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5747 31-3-77	At. Bhadthal, Tal. Jamkham- bhalia, Distt. Jamnagar.
4914.	Natubhai Desai Dayalji	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1959	417 1-3-60	Aga's Vad, Saiyadpura, Surat-3.
4915.	Natvarlal Gujarati Vishnudas	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat	1536 1-12-59	Medical Officer, Govt. Dispensary, Sathamba, Via Bayad, Distt. S.K.
4916.	Natvarlal Ukani Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5778 26-4-77	C/o. Dahyabhai K. Patel, Push- kar, 15-B, Panchvati Society Rajkot-1.
4917.	Natubhai Pandya Bhanubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4074 4-10-73	At. Ramdhai, Post Amargadh, Tal. Shihor, Distt. Bhavnagar.
4918.	Natubhai Patel Dhanajinhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7600 17-3-80	At. Sukhala, Tal. Bharampur, Via. Nana Pondha, Distt. Valsad.
4919.	Natubhai Vaidya Narsinhbhai	Ayurved Visharad, M. S. Univ., 1947	2103 30-9-47	Gajanand Colony, B. No. 3, Daxini Society, Behind Bus Stand, Maninagar, A'bad.
4920.	Natvarbhai Patel Mohanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3201 30-6-71	At. Kherol, Post Ujediya, Tal. Prantij, Distt. Sabarkantha.
4921.	Natvarbhai Patel Parshottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4204 15-2-74	At & Post Pariyej, Tal. Matar, Dist. Kheda.
4922.	Natverbhai Patel Bhikhabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5387 10-5-76	C/o. Patel Bhikhabhai T. Sajjan- Pura At. Mansa, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana
4923.	Natvarbhai Patel Joitaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5479 31-7-76	At. Kidrol, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
4924.	Natvarbhai Patel Ramajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6400 10-11-78	At. Mahamandir, Tal. & Post Nimmatnagar, Dist. Sabarkantha.

1	2	3	4	5
4925.	Natvarbhai Patel Sombhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7680 22-4-80	At. Dhadakan, Tal. Prantij, Distt. Sabrakantha.
4926.	Natvarbhai Patel Ishwarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8441 31-5-82	At & Post Agol, Tal. Kadi, Distt. Mehsana.
4927.	Natvarbhai Valand Maganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4023 30-8-73	At. Anakhi, Tal. Jambusar, Distt. Broach.
4928.	Natvarji Rathod Fulji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3793 16-2-73	At. Rathodpura, Post Kada, Tal. Visnagar, Dist. Mehsana.
4929.	Natvarlal Bhatt Nandlal	L. A. M., U. P. Ay. Maha-Patan (Baroda), 1941	834 18-10-41	Jaynational Society, B. No. 8, Naranpura, Ghar Rasta, A'bad.
4930.	Natvarlal Bhatt Prabhudas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5149 4-2-76	Near Nageshwar Sheri, At. Bag- sara, Tal. Kukavav, Distt. Amreli.
4931.	Natvarlal Chopada Bhagvandas	B.A.M.S., Unv. of Gujarat 1965	1902 28-12-65	C/o Bhagvanlal, Vaghaji Patel, Near Swami Narayan Temple, At. Savar- kundala, Distt. Bhavnagar.
4932.	Natvarlal Gulabray	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1960	7160 2-8-79	At. Ranavav, Distt. Junagadh.
4933.	Natvarlal Jani Nafatlal	Ayurved Visharad, R. S. Maha. Baroda, 1955	1622 8-3-65	At. Thol, Tal. Kadi, Distt. Mehsana.
4934.	Natvarlal Joshi Premshankar	Ayurved Visharad, M. S. Univ., 1952	1663 20-5-65	Nava Baroda Pristcj, Mamaiya Bhavan, Varachha, Road, At. Surat.
4935.	Natvarlal Joshi Chhotala	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3681 13-11-72	At. Pithalpur, Tal. Talaja, Distt. Bhavnagar.
4936.	Natvarlal Joshi Harakhji	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4470 30-8-74	At. Dharpipala, Via Ranpyr, Tal. Bhandhuka, Distt. A'bad.
4937.	Natvarlal Joshi Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4709 29-3-75	At. Vardhari, Tal. Lunavada, Dist. Panchamahall.
4938.	Natvarlal Kacha Punjabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	8394 24-3-82	At. & Post Chatvad, Tal. Tal. Kodinar, Distt. Amreli.
4939.	Natvarlal Kagda Harjivandas	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1972	6658 28-2-79	Near Udani Nivas, At. Jcravarnagar Distt. Surendernagar.
4940.	Natvarlal Masharu Bhimjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	6328 4-10-78	At. Jam-Raval, Distt. Jamnagar.
4941.	Natvarlal Mehta Jagjivandas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1951	908 1-2-52	Mehta's Khadaki, At. Kathalal, Via Nadiad, Distt. Kheda.
4942.	Natvarlal Mehta Mansang	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1964	6956 3-5-79	Hospital Road, Opp. Maharaj Transport, At. Porbandar, Distt. Junagadh.
4943.	Natvarlal Nimavat Dhirajlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5965 18-11-77	At. Bhad, Tal. Khambha, Distt. Amreli.
4944.	Natvarlal Prajapati Chhaganbhai	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidhyapeeth, Delhi, 1978	7707 2-5-80	At. Kamaki, Tal. Siddhapur, Distt. Mehsana.
4945.	Natvarlal Palla Mavajibhai	B.A.M.S., Univ., of Gujarat, 1965	1764 16-7-65	At. Harshadpur, Tal. Jamnagar.
4946.	Natvarlal Patel Ranchhoddas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5407 25-5-76	At. Alava, Post Kanta Sayan, Distt. Broach.
4947.	Natvarlal Parikh Nanlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1955	2254 3-12-55	Prathmik Arogya Cendra, At. Charada, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.

1	2	3	4	5
4948.	Natvarlal Pandya Prabhshanker	Ayurved Visharad, Board of I. M. Saurashtra, 1916	2244 20-3-61	At. Rayal, Via Tanasa, Distt. Bhavnagar.
4949.	Natvarlal Pandya Ratlilal	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2436 23-3-67	Navapara Mali's Khancha, Bhupat- sinh Baliabhai's House, Bhavnagar.
4950.	Natvarlal Patel Atmaram	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1956	567 2-1-57	At. Kalol, Distt. Mehsana.
4951.	Natvarlal Patel Chaturbhai	G.F.A.M., Fa. of AUSM, Bombay, 1959	561 2-1-60	At. Ladol, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
4952.	Natvarlal Patel Bhikhabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7031 16-6-79	Patel, Naursingh Home, At. & Post Kamalpur, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
4953.	Natvarlal Pathak Pranchankar	Ayurved Visharad, Board of I. M. Saurashtra 1943	1822 7-10-65	At. Kankanpur, Tal. Godhara, Dist. Panchmahal.
4954.	Natvarlal Raval Chaturbhuj	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1946	979 3-11-41	Vadevali Sheri, At. & Distt. Kheda,
4955.	Natvarlal Raval Girjashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4819 2-5-75	At. Virta, Tal. Chansma, Distt Mehsana.
4956.	Natvarlal Shah Amrutlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1956	2604 29-8-53	At. Thara, Tal. Kankaraj, Distt. Banaskantha.
4957.	Natvarlal Shah Jechand	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1956	1168 3-9-56	At. Kochavada, Post Kalvada, Tal. & Distt. Valsad,
4958.	Natvarlal Shihora Ravajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7791 19-8-80	At. Bilakha, Tal & Distt. Junagadh.
4959.	Natvarlal Shrimali Narishebandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7907 3-12-80	At. & Post Bhandu, Tal. Vosnagar, Distt. Mehsana.
4960.	Natvarlal Shukla Harjivam	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidhyapeeth, Delhi., 1956	7810 9-9-80	46, Jitendrapark, Opp. Shanker Ashram, Paladi, Narayannagar Road, A'bad.
4961.	Natvarlal Soni Chhaganlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1960	1734 22-6-65	At. & P. O. Madar, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha
4962.	Natvarlal Tarvadi Vishwanath	A.T., Ay. Maha. Ahmednagar, 1941	293	At. Kukarmanda, Tal. Nizar, Distt. Surat.
4963.	Natvarlal Thakar Vishwanath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4384 20-5-74	Shuklapa, At. Limbadi, Distt. Surendernagar.
4964.	Natvarlal Trivedi Madhavlal	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat 1965	1666 21-5-65	6/Punima Society, Bhairav Nath Road, Ahmedabad.
4965.	Natvarlal Trivedi Harvallabh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3691 21-11-72	Soni Falia, Dwarkanathji's Haveli At Mangarol, Distt. Junagadh.
4966.	Natvarlal Trivedi Dalpatram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4292 27-3-74	At. Purvadi, Via Gariyadhar, Distt. Bhavnagar.
4967.	Natvarlal Joshi Hargovind,	Ayurved Visharad, Board of I. M. Saurashtra 1958	2281 15-3-58	At. Challa, Tal. Bhari, Distt. Amreli.
4968.	Natvarlal Vaidya Girdharlal	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat, 1963	1037 10-6-63	Near Kikabhatis Pole, Lunsavad, Dariyapur, Ahmedabad.
4969.	Natvarlal Vaishnav Narottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3503 4-5-72	J-6, Govt. officers Colony, New Mental, A'bad.-16.
4970.	Natvarlal Veghela Hirabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2993 6-7-70	Ghegha Road, Jakat Naka At Bhavnagar.

1	2	3	4	5
4971.	Na. varsinh Baria Rupsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8104 20-6-81	At & Post Rampura, Tal. Godhara, Distt. Panchmahal.
4972.	Natvarsinh Gadhavi Bhagvatsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6059 8-3-78	At & Post Pandad, Tal. Khambhat, Distt. Mehsana.
4973.	Netvarsinh Gothana Prabhatsinh	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1965	2162 -5-9-66	At. Karsad, Post Desad, Tal. Valia, Distt. Broach.
4974.	Natvarsinh Solnki Dolatsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7751 30-6-80	Ht. Sania Kanade, R.M.S. 3, Tal. Choryasi, Distt. Surat.
4975.	Natvarshin Zala Kashalsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3792 16-2-73	Deduram Temple, At. Badava, Tal. Anand, Distt. Kheda.
4976.	Naushad Valani Sadruddinbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8964 12-3-84	"Nirav" At & Post Paradi, Tal. Lodhika, Distt. Rajkot- 360 002
4977.	Nautamala Bhatt Shatilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4511 20-9-74	Kasturbapara, At. Chalala, Tal. Dhari, Distt. Amreli.
4978.	Nautamlal Tilak Dayaram	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2268 21-11-66	Vithon, Tal. Nakhatrana, Distt. Kutch.
4979.	Nautamlal Thakar Lagharam	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3473 10-4-72	Gunadvadi's Sheri, No. 3/19, At. Rajkot.
4980.	Navalkishor Das Raghunath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1984	9485 24-3-86	Saijpur Bogha, Dhanushyadhari Society, Opp. Swami Bhagvata- charya Ashram, A'bad.
4981.	Navalkishori Vaidya Radhavallabh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5829 6-7-77	Vadvaki Sheri, At. & Distt. Kheda
4982.	Navalkumar Patel Trikamlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5533 4-10-76	C/o Vinubhai T. Patel, At. Mavadi, Tal. & Distt. Rajkot.
4983.	Navalkumar Solanki Doyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8532 14-9-82	At. Vadai, Tal. & Distt. Junagadh
4984.	Navalram Desai Iohharam	L.A.M., U. P. Ay. Maha. Patan (Baroda State), 1941	416 18-10-41	At. Kadod, Tal. Bar doli, Distt. Surat.
4985.	Navalshanker Dave Pranvallabh	Ayurved Visharad, B. I. M. Saurashtra, 1959	1882 8-12-65	Ashram Aushdhalaya, Khargate, Bhavnagar
4986.	Navalshanker Thakar Jatashanker	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1972	6795 21-3-79	Mt. Bhanduri, Tal. Malia Hatina, Distt. Junagadh.
4987.	Navaishanker Mehta Shambb prasad	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1957	9104 31-7-84	At. Vansajallia, Tal. Jamjodhapur, Distt. Jamnagar.
4988.	Navalsinh Rathod Devisinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4005 17-8-73	At. Sara, Via Halvad, Distt. Surender- nagar.
4989.	Navinbhai Trivedi Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8415 5-4-82	At. Rangpur, Tal. Khanbhat, Distt. Kheda.
4990.	Navinchandra Agravat Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7820 24-9-80	C/o A. V. Agravat, Javahar Road, At. Junagadh.
4991.	Navinchandra Bhatt Meneklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3339 8-2-72	4/Govt. Quarters, At. Tal. Umrala, Distt. Bhavnagar.
4492.	Navinchandra Dave Tulsidas	B.A.M.S., Univ., of Gujarat, 1965	1890 15-12-65	C/o G. K. Dispensary, Sutarvada, Porbandar.
4993.	Navinchandra Fichadia Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8577 21-10-82	At. Vana, Tal. Lakhatar, Distt. Surendernagar.

1	2	3	4	5
4994.	Navinchandra Desai Jethalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5656 18-1-77	At. Mora, Tal. Godhara, Distt. Panchmahal.
4995.	Navinchandra Doshi Jethalal	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	7637 20-3-80	At. Shiyani, Tal. Linbadi, Distt. Surendernagar.
4996.	Navinohandra Gor Kacharashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5916 11-10-77	At. Davad, Tal. Idar, Distt. Sabar- Kantha.
4997.	Navinchandra Joshi Balavantrao	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6125 -4-78	Vaidya Sadan, Old Dairy Road, Opp. Kangalpura Gam, A'bad.
4998.	Navinchandra Shah Panchand	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1954	1171 2-1-54	At. Gorava, Distt. Baroda.
4999.	Navinchandra Shah Mohanlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1955	1170 3-1-55	At. Bareja, Tal. Daserol, Distt. Ahmedabad.
5000.	Navinchandra Shah Sakarchand	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1964	1817 6-10-65	Bhasykhana, Viramgam, Distt. Ahmedabad.
5001.	Navinchandra Bhatt Navalshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5772 26-4-77	At. Gundarangir, Via & Tal. & Distt. Junagadh.
5002.	Navinchandra Shelat Ranjital	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1957	1294 1-7-57	C-7, Pureshwar Tenament, Gulbai, Tekra, Ambavadi, Ahmedabad.
5003.	Navinchandra Masalia Chimanlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1958	942 1-7-58	Mangalvar Path, At & Tal. Bhor, Distt. Poona.
5004.	Navinchandra Oza Harshadrai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1963	84 26-6-63	Swaminarayan Road, At Baroda.
5005.	Navinchandra Kevlia Amrutlal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1964	1482 14-7-64	30, Digvijay Plot, Radha Nivas, Jamnagar.
5006.	Navinchandra Shah Kantilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1960	2719 19-12-68	Patel Vadi Paladi, A'bad.
5007.	Navinchandra Pandya Maganlal	Vaidya Visharad, A.I. Av. Vidyapeeth, Delhi 1969	7418 29-11-79	At. Shiva, Via Jam-Jodhpur, Tal Bhanvad, Dist. Jamnagar.
5008.	Navinchandra Parmar Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7874 14-18-80	At. & Post Sardoi, Tal. Modasa, Dist. Sabarkantha.
5009.	Navinchandra Patel Ramdas	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	564 3-5-62	At & P.O. Kalali, Post & Distt. Baroda.
5010.	Navinchandra Patel Gandabhai	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1967	2688 4-7-68	At. Dungari, Tal. & Distt. Valsad.
5011.	Navinchandra Patel Bhikhabhai	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1968	2693 24-7-68	At. Bharthana, Post Kesad, Tal. Charyasi, Distt. Surat.
5012.	Navinchandra Patel Vitthalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4484 3-9-74	At. Vaghodita, Kastirba Falia, Distt. Baroda.
5013.	Navinchandra Patel Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5025 29-10-75	65-B, Anand Flat, Near Lal Baha- durshastry Stadium, Bapunagar, A'bad.
5014.	Navinchandra Rajyaguru Nanlal	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1972	7448 21-12-79	Gayatrishery, 17, Laxamivadi, At. Rajkot.
5015.	Navinchandra Shah Nagardas	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1962	1172 14-9-62	Station Road, At. Veraval.
5016.	Navinchandra Punjara Bhagavanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3376 16-2-72	At & Post Paliyad, Tal. Botad, Distt. Bhavnagar.

1	2	3	4	5
5017.	Navinchandra Rajor Bholanath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5241 5-3-76	At Dabhad, Tal. Kheralu, Distt. Mehsana.
5018.	Navinchandra Suthat Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6179 15-6-78	Sutharfali, At & Post Rasnol, Tal. Anand, Distt. Kheda.
5019.	Navinchandra Vaidya Vadilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1948	1040 28-2-49	At. Kandari, Via Miyagam, Tal. Karjan, Dist. Baroda.
5020.	Navinchandra Vaidya Natavarlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	1039 1-10-56	Momnavasnaka, Raikhad, Ahmedabad.
5021.	Navinchandra Vyas Rantilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1958	1092 2-8-58	Medical Officer, Kherva Dispensary, At. Kherva, Distt. Mehsana.
5022.	Navnit Dholakiya Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4892 17-6-75	At. Lath, Tal. Upleta, Distt. Rajkot.
5023.	Navnit Shah Ghanshyamlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1965	2154 29-8-66	Opp. Central Railway Playground, B.R. Ambedkar, Parel (East), Bombay.
5024.	Navnitbhai Patel Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8068 4-5-81	At. Sonasan, Tal. Prantij, Distt. Sabarkantha.
5025.	Navnitbhai Patel Rantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8638 28-1-83	1st Floor, Opp. Minuketan, Ravpura, Jogidas-Vitthal's Pole, Baroda.
5026.	Navnitkumar Pandya Jetharam	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6017 2-2-78	At. Vanchhara, Tal. Padia, Distt. Baroda.
5027.	Navnitkumar Shah Chandrakant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4739 3-4-75	C/o Shah B.C. 2232, Modhvalla's Pole Shahpur, A'bad.
5028.	Navnitprasad Dave Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	4079 4-10-73	Shivsadan, Zanda Chowk, Asarva, A'bad.
5029.	Navnitlal Dave Himmatlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	359 26-11-62	At & Post Timbarva, Tal. Sinor, Via Miyagam Karjan, Distt. Baroda.
5030.	Navnitlal Pandya Badrinath	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1946	752 31-1-46	198, Bavanshanker Road, Ganga-shram Room No. 26, Dadar, Bombay-28.
5031.	Navnitlal Parekh Becharlal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1967	2501 2-6-67	C/o B.K. Purekh, Nandavia Sheri, Soni Bazar, Rajkot.
5032.	Navnitlal Patel Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	8268 31-12-81	At. & Post Pansari, Tal. Prantij, Dist. Sabarkantha.
5033.	Navnitlal Thakar Chimanlal	G.F.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1965	1738 22-6-65	3/Vijaybag, Co. Housing Society, Dairiy Road, Dudhsarath, At. Bhavnagar.
5034.	Navnitlal Thakar Prantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	2756 1-4-69	C/o Dhanvantari Prasad Aushadh-alaya, Post Office Road, At. & Dist. Junagadh.
5035.	Navnitlal Upadhyay Ambalal	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat 1963	66 30-5-63	1521, Mandavini Pole, Shethni Pole, Ahmedabad.
5036.	Navnitlal Bhatt Nandlal	Ayurved Visharad, B.I.M. Saurashtra 1958	2265 15-3-58	Ayu. Dispensary, At. Charkhadi, Tal. Gondal, Distt. Rajkot.
5037.	Navnitrai Mehta Narbheram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3333 7-2-72	At & Post Akha, Tal. Vanthali, Distt. Junagadh.
5038.	Navnithrai Purohit Harilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7305 20-9-79	Ravteshwar Dharmalaya, At. & Tal. Bilakha, Distt Junagadh.
5039.	Navrozali Ghoghari Jusabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4242 6-3-74	At. Kharedi, Via Dhoraji, Distt. Jamnagar.
5040.	Nayan Bhatt Prabhashanker	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9028 16-4-84	Outside Joshpurnake, Opp. Panchayat Quar., At. & Post Jamkumbhalia, Dist. Jamnagar.

1	2	3	4	5
5041.	Nayanaben Bhavsar Vadijalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7846 10-10-80	10/6, Tulasi Shyam Flats, Bhimajipura, Wadaj, A'bad.
5042.	Nayana Acharya Morardas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	7295 20-9-79	C/o Acharya Morardas Shivilal, Digvijay Plot, Sheri, No. 29, Shriram Nivas, At. Jamnagar.
5043.	Nayana Bhatt Dinkarra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8224 18-11-81	20, Vishwabandhu Society, Nava Vikasgrub, Paladi, A'bad.
5044.	Nayana Mahida Ishwarsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8779 16-6-83	At. & Post Gothan, Tal. Olpad, Dist. Surat.
5045.	Nayana Modi Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5702 24-2-77	H. No. 1944, Sundariya Pole, Jamalpur Chakala, A'bad.
5046.	Nayana Patel Jashbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9332 9-8-85	14/Shrinathji Society, Behind Station, At. Nadiad.
5047.	Nayana Raval Induprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8844 19-9-83	Behind Nagar Panchayat, Pandya Falia, At. & Tal. Lunawada, Dist. Panchmahal.
5048.	Nayana Shah Premanand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4550 15-10-74	873/2, Hajira's Pole, Grljashanker Joshi's House, Raipur, A'bad.
5049.	Nayana Sharma Manishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6802 21-3-79	Near Juna Sachivalaya, New Sid-dharth Society, A'bad.
5050.	Nayana Trivedi Shivkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8320 10-2-82	Kesturba Shri Vikasgrub, Ketan, Jamnagar.
5051.	Nayanaben Patel Sanjaykumar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9202 30-1-85	A-10, Ram Zarokha, 3rd Floor, S.V. Road, Andheri (West), Bombay-400 058.
5052.	Nayanaben Pandya Bharatkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4531 27-9-74	Shanatkunj, 14, Gopalnagar, Rajkot.
5053.	Nayankumar Bhatt Damodardas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4003 10-8-73	At. Zanghar, Tal. & Distt. Broach.
5054.	Nayankumar Joshi Padamkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6074 15-3-78	H/7, Flat Firdes Flat, Khanpur, A'bad.
5055.	Nayankumar Pandya Vishnuprasad	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1657 15-5-65	36/A, Gopi Nivas Saritkunj Society, Near Bhai Centre, Shahpur, Ahmedabad.
5056.	Nayankumar Pathak Jaykrushna	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8062 27-4-81	At. Valsad, Tal. Anand, Distt. Kheda.
5057.	Nayankumar Shah Manharlal	B.A.M.S., Indore Univ., 1976	5807 24-5-77	C/o Maganlal Tarachand, Opp. Muni. Corporation, Dhebar Road, Rajkot-1.
5058.	Nayankumar Shah Himmatlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9302 6-6-85	19/Vimalnath Society, Near Jyosarpark Bus Stand, Narayannagar Road, Paladi, A'bad-7.
5059.	Nayanaben Purohit Ravishankar	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1977	6787 21-3-79	Shikrupa, 51/B, Dhnlaxmi Colony No. 1, Karoli Bag, Baroda.
5060.	Nazaiahamad Devala Mahamadusaman	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7683 22-4-88	2/407/Akuli Street, moti Vahorwad, At. Niamatnagar, Distt Sabarkantha.
5061.	Nazimhusen Sabugar Abdulrazzak	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9645 31-12-86	Akulini Fali, Moti Vahorwad, At. Himmatnagar-383 001, Distt. S.K.
5062.	Nazirhusen Hadvaiddya Allarakhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2777 30-5-69	Near Falka Pole, Punch Patti, Kalupur, A'bad.
5063.	Nemangini Bhatt Shantlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7857 10-10-80	1/B, Sitabag Society, Near Jayhind School, Maninagar, A'bad.

1	2	3	4	5
5064.	Netraprasad Dave Krishnaprasad	G.C.I.M., B.S.I.M., Bangalore 1964	3895 27-3-73	29, A Keshavbag Colony, Jam- nagar, Rambagroad, Sabarmati, A'bad.
5065.	Niharika Dave Narayanbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9253 9-4-85	C/o Dave N.S.T. D.O., At. Tilak- wada, Dist. Baroda.
5066.	Niketa Modi Harishchandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9011 28-3-84	C/o Hairshchandra Modi, Ram- nivas, Tithal Road, At. Valsad.
5067.	Nikhil Joshi Rameshchandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8968 12-3-84	A-6, Gandhinagar Society, At. Bardoli, Dist. Surat.
5068.	Nikhilchandra Bhatt Natavarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5223 27-2-76	Near Varahi Mata, Near Chakra Tirth Ghat, At. Chandod, Tal. Dabhoi, Distt. Baroda.
5069.	Nikhilesh Pandya Muldevprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4502 12-9-74	Brahm Pole, At. Vaso, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
5070.	Nikhilkumar Pandya Jagdishchandra	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	755 13-7-62	Pandya Nivas, Kamtekar Wada, Prof. Manekravji Road, Dandiya Bazar, Baroda.
5071.	Nikhulbhai Patel Somabhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2278 25-11-66	At. Khandarvapura, Via. Anand, Tal. Kadi, Distt. Mehsana.
5072.	Nikunhkumar Shah Nadilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3741 2-2-73	3, Mahalaxmi Colony, Near Old Railway Crossing, Maninagar, A'bad.
5073.	Nikunj Baroj Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7885 14-11-80	Sultanpura, Golvad, Baroda.
5074.	Nikunjbala Joshi Chandrakant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	7313 20-9-79	Joshi Clinic, Baroti Bazar, At. Vadnagar, Distt. Mehsana.
5075.	Nikunjben Desai Thakorlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9097 31-7-84	At. & Post Ambada, Tal. Mavsari.
5076.	Nila Bhatt Maheshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4421 26-6-74	Plot No. 868, Kundankunj, Behind Mahila College, Bhavnagar-1.
5077.	Nila Joshi Navinchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7470 21-12-79	H. No. 428, Tarsali, Sharadnagar Society, At. Baroda.
5078.	Nilam Raval Revashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3355 15-2-72	32, Nutan Society, Paladi, A'bad.
5079.	Nila Trivedi Manubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6695 3-3-79	Vasana Bus Stand, Vasana At. A'bad.
5080.	Nila Trivedi Gulabrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4026 30-8-73	Ranika, Motigar's Sheri, At. Bhav- nagar.
5081.	Nila Trivedi Chandrakant	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1964	1496 29-7-64	38, Ratna Sagar Co. Op. Hou. Society, Petlad Road, At. Nadiad, Dist. Kheda.
5082.	Nilaben Raval Labshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4410 19-7-74	At. Choranda, Tal. Karjan, Distt. Baroda.
5083.	Nilaben Suryavanshi Jayavantray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	9521 1-8-86	B/2, Divyajyot Apartment, Behind Alkapuri Society, Sumul Dairy Road, At. Surat.
5084.	Nilaben Thakkar Ghanshyam	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5226 27-2-76	Varai Mata's Khancha, Rajmahal Road, Gayatri Baroda.
5085.	Nilakumar Thakar Hariprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7342 16-10-79	C/o M.P. Thakar, Opp. Bodhivala Building, Opp. Lilavati Mention At. Joravarnagar, Tal. & Dist. Surendranagar.
5086.	Nilesh Shah Manharkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8182 22-9-81	19, Rajghat Society, Fatehnagar, At. A'bad.

1	2	3	4	5
5087.	Nileshchandra Trivedi Shamalji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3890 26-3-73	At. Shapar, Via Bagsana, Bhayani
5088.	Nileshchandra Patel Manibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8691 3-3-83	At. & Post Bhalej, Tal. Anand, Dist. Kheda.
5089.	Nileshkumar Amin Shantlilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9265 9-4-85	Moti Khadaki, At & P.O. Sunav, Tal. Petlad, Distt. Kheda.
5090.	Nilima Desai Dilipkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7761 16-7-80	5, Suryasadan, Near Besant Nall, Surat-3.
5091.	Nilima Modagi Padamakar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7008 16-5-79	C/o P.K. Modi, Upali Sheri At Siddhapur, Distt. Mehsana.
5092.	Nilima Shah Rameshchandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9171 13-11-84	Ishtakrupa, Bavavalo Vas, At. Kalol, Dist. Mehsana.
5093.	Nilesh Desai Dhirajlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9353 21-8-85	674/1, Popatiya Wad, At. & Tal. Navsari, Distt. Valsad.
5094.	Nilkamal Vaishnav Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8602 13-12-82	C/o Sarvodaya Dispensary, At. Kutiyana, Distt. Rajkot.
5095.	Nilkantprasad Bhatt Bhanushanker	M.D. (Ay.) Gujarat Ay. Univ., 1977	6164 16-5-78	9, Patel Hostel Qua. Ay. College Campus, Nadiad, Distt. Kheda.
5096.	Nilakanthrai Joshi Ratilal	Ayurved Visharad, B.I.M., Saurashtra 1958	2220 1-5-58	At. Paliyad Bazar's Tal. Betad, Dist. Bhavnagar.
5097.	Nilmani Saghavi Bhagvandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3851 8-3-73	Opp. New Post Office Kolakiroad, At. Upaletta, Distt. Rajkot.
5098.	Nimatgar Aparnathi Dayagar	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1972	7603 18-3-80	At. Kindarava, Post Vavadi, Tal. Voraval, Distt. Junagadh.
5099.	Nimeshkumar Trivedi Chandrakant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8032 10-4-81	Shivkutir, 18/216, Mehtaji Nagar, Meghaninagar, A'bad.
5100.	Nina Mehta Indravadanbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9385 23-9-85	C/o Dr. K.P. Joshi, At & Post Vadali-383235, Tal. Idar, Distt. S.K.
5101.	Nina Parekh Tribhovandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7966 3-2-81	C/o M.T. Parekh, C-25, Medical Camps, At. Jamnagar.
5102.	Nina Shah Pravinbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9255 9-4-85	C/o P.C. Shah, Sarvodaya Ashram, At. Babapur, Distt. Amreli.
5103.	Niranjan Joshi Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6263 2-9-78	62, Natrukupa, Behind Vikramban-gala, Sardarnagar, At. Bhavnagar.
5104.	Niranjana Patel Shrirambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6241 19-8-78	B. No. 5, Muni. Staff Qua. Sadagar-vad, Tal. Cheryasi, Surat.
5105.	Niranjannath Raval Kashavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3875 16-3-78	At. Unava, Tal Siddhapur, Distt. Mehsana.
5106.	Nirmala Chavada Tapubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8474 3-8-82	New Colony, Kuvadava, Tal. & Dist. Rajkot.
5107.	Nirmala Divakar Satishchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	8416 17-4-82	At. Balhaa, Distt. Agra.
5108.	Nirmalaben Patel Chhimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8137 21-8-81	At. & Post Kholvad, Tal. Kamrej Dist. Surat.
5109.	Niru Patel Hasmmukhbhai	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1972	6539 3-2-79	Shri Rang Ami, 14/83, Anand Flat, Near Vijaynagar, Naranpura, A'bad.
5110.	Niru Parmar Somabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8451 15-6-82	Chauhan Society, Fatehpura, Baroda-6.

1	2	3	4	5
5111.	Nirupama Joshi Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6144 19-4-78	C/o N.H. Joshi, Khatrivad, Amreli.
5112.	Nirupamaben Pandya Ramanbhai	B.A.M.S., Saugar Univ., 1972	8196 12-10-81	B. No. C/15, Govt. Officers Colony, Behind Civil Hospital, A'bad.
5113.	Nirmala Malam Kanajabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7850 10-10-80	C/o Kanajibhai J. Malam, Soniwad, At. Porbandar, Distt. Junagadh.
5114.	Niranjanaben Patel Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7695 29-4-80	C/o Ambalal Bababhai Patel, R.T. Desai's Hou., Ravalvado, At. Nadiad, Dist. Kheda.
5115.	Niranjankumar Kaka Mulshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7187 17-8-79	Mote Darvajo, Suvarna Khadaki, At. Sarsa, Tal. Asand, Dist. Kheda.
5116.	Niranjan Bhatt Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4173 5-2-74	Ranika, Kavikant Road, At. Bhavnagar.
5117.	Niranja Patel Vadilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4216 19-2-74	Mulaji Parekh's Pole, Vadigam, A'bad.
5118.	Niranjan Jani Manharlal	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, Maharashtra 1969	4154 15-1-74	Near Old Tanki, At. Tarapur, Tal. Khambhat, Distt. Kheda.
5119.	Niranjankumar Acharya Bhavani Shanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2911 24-2-70	C/o Vaidya Bhavanishanker Ganga- dhar Acharya, Shanti Niketan, St. Road, At. Porbandar, Dist. Junagadh.
5120.	Niranjankumar Bhatt Mahashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3873 15-3-73	At. Jadar, Tal. Idar, Distt. Sabar- kantha.
5121.	Niranjan Acharya Bhanushanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3634 5-10-72	C/o Shri Kanubhai, B. Acharya Hemkunj, Vadava, Facharla, Pan- vadi Road, Bhavnagar.
5122.	Niranjan Parikh Dahyalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3594 14-9-72	8/13, Kankuva's Khanoh, Behind Bhatveda's Wadi, At. Baroda.
5123.	Niranjan Dave Somnathbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2978 17-6-70	C/o D.M. Bhatt, Nani Bazar, At. Morbi, Distt. Rajkot.
5124.	Niranjana Raval Falshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4113 13-11-73	C/o Dr. Shri G.L. Bomad, St. Road, At. Bagasara, Tal. Vadia Kukavav, Dist. Amreli.
5125.	Niranjanbhai Patel Mathurbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3072 21-11-70	At. Chikhedara, Post Kos'ndra, Tal. Sankheda, Distt. Baroda.
5126.	Niranjankumar Bhatt Rushibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9134 10-9-84	C/o Bhatt Rushibhai N., Mangalya- nidhi, Near Taluka Panchayat Kacheri, At. Vallabhipur, Dist. Bhavnagar.
5127.	Niranjankumar Shahshtri Mahashnaker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3189 27-4-71	646, Lambeshwar's Pole, Relief Road, A'bad.
5128.	Nirmala Dedal Vasharambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3483 18-4-72	Sonben R. Chau, Vajirpara, Garbi- chowk, Jamnagar.
5129.	Nirmalaben Jadeja Balavantsinh	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9578 23-9-86	C/o Jadeja B.T. City Police Line No. D/5, Ervin Hospital Road, Opp. Sajuba Hospital, At. Jamnagar.
5130.	Nirupama Mankad Diliprai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2848 8-10-69	C/o D.V. Mankad, 32/2 L. Colony, Ellishbridge, A'bad.
5131.	Niranjan Barot Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2842 3-10-69	Barot Saheb's Haveli, Opp. Pan- chasara, At. Patan, Distt. Mehsana.
5132.	Niranjan Joshi Himatilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1675 25-5-65	Mota Ankadia, Via Lunidhar, Distt. Amreli.

1	2	3	4	5
5133.	Niranjan Shah Jivanlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1964	1607 3-2-65	'Suvas' 4/Adarsh Co. Op. Housing Society, At. & P.O. Halol, Distt. Panchmahal.
5134.	Niranjana Desai Dolatrai	G.F.A.M., Fac. of AÜSM, Bombay 1960	418 16-10-62	C/o D.M. Desai, Hari Nivas, Azad Lane, Andheri, Bombay-58.
5135.	Nirmala Chaudhari Maujiram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	5708 4-3-77	B. No. 240/1, Froland Ganj, At. Dahod, Distt. Panchmahal.
5136.	Nirmala Padaliya Popatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5243 5-3-76	C/o Superintendent, Narinarayan, Gruh, Ghod Dod Road, Athavaline Surat.
5137.	Nirmala Solanki Gopaldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8765 11-5-83	Head Water Workes, Varchh At. Surat-395 006.
5138.	Niranjanbhai Patel Gordhanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4942 6-9-75	At. Shantipura, Via Dhansura, Tal. Bayad, Distt. Sabarkantha.
5139.	Niranjana Patel Dayalji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5062 2-12-75	At. Aghan, Tal. Gandevi, Distt. Valsad.
5140.	Niranjana Trivedi Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5026 11-11-75	Gayatri Nivas, Plot No. 565, Ser- patani Road, Mahabvedi, At. Bhavnagar.
5141.	Niranjana Amin Vinod	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	5180 18-2-76	21, Jayshri Society, Karchi Bag, Baroda.
5142.	Nisha Upadhyay Rajesh	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9655 31-12-86	Panchavati, Ichchanagar, Jahangir- pura, Rander Road, At. Surat.
5143.	Nishikant Randive Dinkarrao	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4314 3-4-74	Santosh, Anandpura, At. Baroda.
5144.	Nishikant Shah Navnitlal	B.A.M.S., Nagpur Univ., 1974	4938 4-9-75	At. Vihan, Distt. Surat.
5145.	Nishthaben Goradiya Ranchhoddas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3005 21-2-73	Behind Power House, At. Rajula, Dist. Amreli.
5146.	Nita Bhatt Jayantiprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8342 27-2-82	C/o Dr. J.P. Bhatt, Lalbag, At. Junagadh-362 001.
5147.	Nita Bhatt Jayantbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9203 30-1-85	25, Sardarnagar, Society, Tithal Road, At. & Distt. Valsad.
5148.	Nita Brahmabhatt Abhayasinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8376 18-3-82	10, Aradhana Park, Javahar Chowk, Sabarmati, A'bad.
5149.	Nita Goswami Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5938 24-10-77	2172, Radhavallabhji's Pole, Raipur, A'bad.
5150.	Nita Thakar Bhaskarrao	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1976	8251 24-12-81	4, Bhaktinagar, Society, Punchchil, Ramkot-360 002.
5151.	Nita Shah Bhagvatprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6117 5-4-78	21-A, Kirti Kunj Society, Shah Alam, Tealnaka, A'bad.
5152.	Nita Shah Bhagvatprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8037 10-4-81	Shri Haridham Colony, Navjivan, At. Baroda.
5153.	Nitaben Mahida Narpat Singh	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9461 10-1-86	At. & P.O. Gotha, Tal. Olpad, Dist. Surat.
5154.	Nitaben Patel Ishwarlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9043 10-5-84	B-9, Navjivan Colony, Mahadev- nagar, At. Billmore, Tal. Gandevi, Dist. Valsad.
5155.	Nitaben Shah Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7918 12-12-80	Kiran Camist, Kapad Bazar, At. Kapadvanj, Distt. Kheda.

1	2	3	4	5
5156.	Nitakumar Rupera Jagjivandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6384 27-10-78	C/o S.J. Rupera, Amitnagar Society, R. No. 68, Chhani, Baroda.
5157.	Nitendrakumar Sadhu Narnarayan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7461 21-12-79	At. & Post Karannagar, Tal. Kadi, Dist. Mehsana.
5158.	Nitendrakumar Vyas Madanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6273 11-9-78	Behind Jain Derasar, At. & Post Karchelia, Via. Dardoli, Dist. Surat.
5159.	Nitesh Jani Ishwarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8452 15-6-82	Near Kheja Hospital, At. Mandavi, Dist. Kutch-370 465.
5160.	Niteshkumar Patel Jashbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9653 31-12-86	D/13/3, Govt. Flats, Drivin Road, A'bad.
5161.	Nitin Shah Hirralal	B.A.M.S., Univ. of Bombay 1982	9182 11-12-84	At. Nagapur, Mandavi-Kutch.
5162.	Nitiben Pandhiya Keshavlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9081 29-6-84	60, Sardar Society, Aumul Road, At. Surat.
5163.	Nitinchandra Bhatt Bhailal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7592 14-3-80	At. Vyara (Anrali), Tal. Vaghodia, Dist. Baroda.
5164.	Nitinkumar Desai Nanubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5520 14-8-76	At. Karmala, Via Sayan, Tal. Olpad, Dist. Surat.
5165.	Nitinkumar Doshi Jayantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9557 3-9-86	Vachali Pole, Brahmipole, At. Dhrol-361210, Distt. Jamnagar.
5166.	Nitinkumar Pancholi Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3715 1-1-73	At. Thatiyana, Tal. Manavadar, Distt. Junagadh.
5167.	Nitinkumar Parekh Thakorlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1983	9315 2-7-85	22/Krushnanagar Society, Near Milan Cinema, Narasapur, A'bad-18.
5168.	Nitinkumar Sundarlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9254 9-4-85	"Nitin Near Shirolawala Jin, At. & P.O. Bodeli, Tal. Sankheda, Dist. Baroda.
5169.	Nitinkumar Pathak Bhagvatprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8107 20-6-81	1, Kartik Sami Society, Outside Shahpur Gate, A'bad.
6170.	Nitinkumar Shah Thakorlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8969 12-3-84	17, Panchavati Society, Near Umara Jakatnaka, Ichchhanath Rd., At. Surat-7.
5171.	Nitinkumar Shah Ambalal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9298 6-6-85	"Pitruachhaya" Rangila Pole, At. Kapadvanj-387620, Distt. Kheda.
5172.	Nitinkumar Thakkar Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1983	8966 12-3-84	5-B, Gitabharati Colony, Shahalam, A'bad.
5173.	Nitinkumar Thakkar Indulal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9539 28-7-86	Bhatiya Sheri, Opp. Jain Darasar, At. Vadnagar-384 355.
5174.	Nitinkumar Vaidya Mansukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4539 5-10-74	At. Gandevi, Tal. Navsari, Distt. Valsad.
5175.	Nitinkumar Joshi Hargovindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6425 18-11-78	At. Ningala Jn., Tal. Gudhada, Dist. Bhavnagar.
5176.	Nitinkumar Joshi Raghuprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7433 12-12-79	Punjiram Joshi's Mahad, Tulasi Temple, At. Vadnagar, Dist. Meh- sana.
5177.	Nitinkumar Valdyia Kanaiyalal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1976	6641 26-2-79	6/877, Chhaparia Sheri, Mohidhar- pura, At. Surat.
5178.	Nurmohamad Munshi Gulamchand	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1967	2535 5-7-67	C/o Munshi N.G., Udhivada, At. Junagadh.

1	2	3	4	5
5179.	Nivajkha Kuresh Bhakhankha	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2274 25-11-66	Palasani, Tal. Nasvad, Distt. Baroda.
5180.	Nivedita Chaudhari Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4951 23-9-75	At. Khrvada, Tal. Visnagar, Dist. Mehsana.
5181.	Nivedita Pathak Harkantray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5975 28-11-77	23, Smit Sagar, 3rd Floor, Timaliaya Wad, Nanpura, At. Surat.
5182.	Niyanta Pathak Renikant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5453 6-7-76	Deybhuvan, St. Road, At. Por- bandar, Distt. Junagadh.
5183.	Nrupatsinh Parmar Khumansinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4449 20-8-74	At. Sauar, Tal. Karjan, Distt. Baroda.
5184.	Nutan Vyas Manuprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1983	9180 11-12-84	L.I.G. 2, No. 4, G.I.D.C. Odhav, A'bad.
5185.	Nutanben Sanghavi Champaklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6433 2-12-78	Meta Bazar, At. Valsad.
5186.	Ochhavlal Bhatt Krupashanker	L.A.M., U.P. Ay. Maha Patan (Baroda State, 1936	808 3-11-41	Jubili Street, At. Umrath, Distt. Kheda.
5187.	Ochhavlal Mehta Kalidas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1946	895 2-9-46	At. Limdia, Tal. Lunavada, Distt. Panchmahal.
5188.	Ochhavlal Shah Tribhovandas	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	1130 3-4-62	At. Bandhani, Tal. Patlad, Distt. Kheda.
5189.	Odhavji Gangajalia Mansukhalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4614 24-1-75	At. Bedia, Via Kharedi, Post Pipar, Tal. Kalavad, Shitala, Dist. Jam- nagar.
5190.	Omkar Pandya Induprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7212 20-8-79	At. Sunsoli, Tal. Kalol, Distt. Panch- mahal.
5191.	Omprakash Parik Bhavarlal	B.A.M.S., Vikram Univ., 1977	7951 17-1-81	At & Post Mrugvas, Tal. Chano- choda, Dist. Guna (M.P.).
5192.	Omprakash Birala Chunilal	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	3993 7-8-73	At. Gandova, Via Havsari, Distt. Valsad.
5193.	Omprakash Shastri Chanshyamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4070 26-9-73	Swaminarayan Temple, Kalupur, A'bad.
5194.	Onil Bhujpuria Erikbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5665 3-2-77	Nava Bapunagar, Charrasta, B. No. 8/88, A'bad.
5195.	Oravinchandra Patel Rambhai	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6885 12-4-79	Gaurikunj, Bhalorao Kekara, Kharivav, At. Baroda.
5196.	Oravinchandra Suthar Marbheram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6801 21-3-79	At. Therasana, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
5197.	Padama Desai Dayalji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6103 28-3-78	C/o D.B. Desai, E-6, Mahavir Kutir Society, Opp. Bombay Gerej, Shahibag, A'bad.
5198.	Padma Shah Ramanlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1964	1614 5-3-65	Kanasano Pado, At. Patan, Distt. Mehsana.
5199.	Padamaben Mahavadia Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7745 30-6-80	Qua. No. B-3, E.S.I.S. 18, Saraspur, A'bad.
5200.	Padamaben Sayakalvala Dhirajlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	7065 30-6-79	Hou. No. 4/510, Ghani Sheri, Behind Vadavali Sheri, At. Surat.
5201.	Padamagauri Bhatt Jayakrushna	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	7956 17-1-81	C/o Pathak Shashikant Prabha- shanker, At & Post Kumbhan, Via Mahuva, Distt. Bhavnagar.

1	2	3	4	5
5202.	Padmakant Shah Amrutalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4824 2-5-75	C/o A.L. Shah Sayaji Hospital, At. Petlad, Dist. Kheda.
5203.	Padmavati Shah Harsi	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	5690 24-2-77	445, Shukravar Peth, Talegav Bab- hada, C-R, Tal. Mavad, Distt. Poou.
5204.	Pallavi Chitania Shivanandbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9455 10-1-86	C-115, O.N.G.C. Colony, At. Baroda-9.
5205.	Pallavi jaha Bansilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4441 6-8-74	Nagar Falia, Gajjar Fali, 10/516, At. Surat.
5206.	Pallavi Joshi Harivadun	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8290 5-2-82	Hathi Sheri, Om Shri Trikam Kutir, Jamnagar.
5207.	Pallavi Pandya Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8693 3-3-83	Diwali Pole, At. & Tal. Nadiad, Dist. Kheda.
5208.	Pallavi Thakar Rameshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5584 18-10-76	262, Madhupark, Shaktinagar, At. Broach.
5209.	Panachand Girdharlal	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1968	7242 30-8-79	At. Pikhor, Tak, Malia-Natina, Distt. Junagadh.
5210.	Pandurang Mail Kautik	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3468 1-4-72	At. Pohore, Tal. Chalisgav, Distt. Jalagav.
5211.	Pandurang Shelake Narayanrao	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, Maharashtra, 1964	6105 28-3-78	At & Post Varsoda, Tal. Vijapur, Dist. Mehsana.
5212.	Pankaj Bhatt Narivadan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	6607 21-2-79	G.A. Falavar Kunj Societv, Nav Rangpura, A'bad.
5213.	Pankaj Joshi Narbherambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8176 22-9-81	Opp. Shakmarket, At. Manavadar, Dist. Junagadh.
5214.	Pankaj Shukla Hariprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1983	9244 12-3-85	Patel Building, At. Shihor-364240, Distt. Bhavnagar.
5215.	Pankaj Vaidya Bashubhai	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6715 9-3-79	5/710, Naripara, Bhavani Gadh, At. Surat-3.
5216.	Pankajben Upadhyay Himmatbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5964 18-11-77	Near Three Gate, At. Dhoraji Distt. Rajkot.
5217.	Pankajbhai Pathak Balkrushna	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6230 10-7-78	At & Post Koba, Tal. Olpad, Distt. Surat.
5218.	Pankajkumar Agravat Mahipatram	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1976	8074 4-5-81	At & Post Kutiyana, Distt. Juna- gadh.
5219.	Pankajkumar Baxi Ramprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3259 8-10-71	C/o R.J. Baxi, Govt. Dispensary, At Girgadhada, Tal. Una, Distt. Junagadh.
5220.	Pankajkumar Baxi Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3450 21-3-72	Sardar Chowk, At. Vishhia, Tal. Jashadan, Dist. Rajkot.
5221.	Pankajkumar Madhusudan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5848 16-8-77	4/2722, Begampura, Vaniya, Sheri, Surat.
5222.	Pankaj Kumar Joshi Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4820 2-5-75	Manhar Plot, Sheri No. 2, At. Raj- kot.
5223.	Pankaj Kumar Joshi Bhogilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9187 1-12-84	240, Dindayal Societv, Palanpur Road, Surat-3.
5224.	Pankajkumar Mehta Amrutlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9452 28-1-86	Sagrampura, At. Surat. At. Surat.

1	2	3	4	5
5225.	Pankaj Kumar Parekh Shantilal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ., 1984	9474 28-2-86	Limbu Sheri, Mahidharpura, 6/2145, At. Surat-395003.
5226.	Pankaj Kumar Patel Shankerlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7012 16-5-79	At & Post Birpur, Tal. Balashinor, Dist. Kheda.
5227.	Pankaj Kumar Patel Tribhuvandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8872 1-12-83	"Padmavila", Dharmanagar Bus Stand, Sabarnati, A'bad-5.
5228.	Pankaj Kumar Rathod Bhulabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6247 19-8-78	At. Astan, Post & Tal. Bardoli, Distt. Surat.
5229.	Pankaj Kumar Shah Khemchandbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8247 24-12-81	1035, Chowk Sheri, Sarkhej, Gam, Tal. City, Dist. A'bad.
5230.	Pankaj Kumar Shah Babubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8633 28-1-83	Nagar Palika Road, C/o Babubhai Bhikhabhai Dava's Vepari, Near Panjara Pole, At. Mehsana.
5231.	Pankaj Kumar Shah Hargovindas	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ., 1981	8806 5-7-83	51, Yashkamal Society, Opp. Lav- anya Society, Vasna, A'bad-7.
5232.	Pankaj Kumar Sutarla Pitambarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5773 26-4-77	At. Dhandhoda, Tal. Chota Ude- pur, Distt. Baroda.
5233.	Pankaj Kumar Vyas Virendrakumar	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ., 1980	8144 3-9-81	Q/29/B, Doctor Qua., Yavateshwar Compound, Jail Road, Baroda.
5234.	Panna Bhatt Vinayakant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3071 21-11-70	Umedvila Block No. 8, Plot No. 7-8, Vishvabharti Co. Hou. So. Juhulane, Audheri, West Bombay- 58.
5235.	Panna Maniyar Arvindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4719 31-3-75	Brahmansheri, At. Unza, Tal. Siddhapur, Dist. Mehsana.
5236.	Panna Mehta Ramniklal	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ., 1980	8094 12-10-81	C/o R. J. Mehta, 3/4, Govt. Officer's Colony, Alkapuri, At. Baroda.
5237.	Panna Patel Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8920 8-2-84	At & Post Sadhali, Tal. Shinor, Distt. Baroda.
5238.	Pannaben Barot Govindbhai	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ., 1983	9213 19-2-85	528, Sharadnagar, At. Tarsali, Baroda-9.
5239.	Pannaben Doshi Harichandara	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	5174 16-2-76	Nathu Desai's Madh Bazar, At. Vijapur, Distt. Mehsana.
5240.	Pannaben Upadhyay Anantkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8871 1-12-83	B. No. 3, Sadashivnagar Society, Ranip, A'bad.
5241.	Panthunkar Badheka Jagjivan	L.A.M., U.P. Ay. Maha. Patan (Baroda State), 1933	780 3-11-41	E.S.I. Dispensary, 39, Near Cold Palot Dairy Kankaria, A'bad.
5242.	Papat Patoriya Shamaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8203 12-10-81	At & Post Khodiyar, Tal. Mon- darada, Dist. Junagadh.
5243.	Parasmani Ashar Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3977 25-2-73	C/o Dr. M. M. Ashar, At. Kalavad, (Shitala) Distt. Jamnagar.
5244.	Parbatbhai Vekariya Hardasbhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2171 21-9-66	C/o P.G.T.C. Hospital, jubuli, Hos pital-1, Compoud Room No. 10, At. Jamnagar.
5245.	Parbhubhai Bhoralia Mohanbhai	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1978	7870 14-11-80	At. Bhalaka, Post Vervada, Tal. Lakhatar, Distt. Surendernagar.
5246.	Paresh Makvana Punjalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8278 16-1-82	23, Gandhinagar Society, Ashram Road, Near Shantinagar, Juna Vada, A'bad.
5247.	Paresh Patel Chandubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9347 21-8-85	"Krushnakrupa" Mavjipura, Behind Sarkhej Railway Station, At. Sar- khej-382210, Tal. City, Dist. A'bad.

1	2	3	4	5
5248.	Paresh Tevar Motilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	8093 4-6-81	At. Bhalod, Tal. Zaghadia, Distt. Broach.
5249.	Pareshkumar Dave Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4239 5-3-74	Anand Bhawan, 2, Khadayatanagar, Shahalam, Nilamkunj, A'bad.
5250.	Pareshkumar Parikh Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1969	2921 7-3-70	32, Ajinath Society, Opp. Water Tank, Kareli Bag, Baroda.
5251.	Pareshkumar Patel Shivabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7780 1-8-80	At. Lathod, Tal. Sankheda, Distt. Baroda.
5252.	Pareshkumar Shah Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5639 24-12-76	At. Bayad, Dist. Sabarkantha.
5253.	Parimal Desai Pushkarlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1960	422 15-1-63	Opp. District Library, Juna Liti Plot, Surendranagar.
5254.	Parimal Joshi Yogeshkumar	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1967	2626 6-1-68	At. Virali Moti, Tal. Nakhtrana, Kutch.
5255.	Parimala Thakar Laxmikant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3517 7-6-72	Ram Mandir, Opp. Bhidbhanjan Hanuman, At. Jamnagar.
5256.	Parimalkumar Dave Arvindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5945 26-10-77	Shriji Krupa, Near Valjnath Mahadev, At. Mahudha, Distt. Kheda.
5257.	Parimalkumar Dholakia Jamiyatrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3971 20-7-73	C/o B.B. Dholakia, Jaykutsh Press, Nagar Chakla, At. Bhujkutch.
5258.	Parimalkumar Mehta Manuprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3230 21-8-71	5-B, Fira Hou., Maninagar East, A'bad-8.
5259.	Parinath Barve Vamanrao	B.A.M.S., Indore Univ. 1971	7257 5-9-79	At. Bharamrai, Tal. Kaukaahi, Distt. Dhar (M.P.).
5260.	Parixit Joshi Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5714 4-3-77	At. Kukarvada, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
5261.	Parixit Vyas Mansukhlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1952	1093 6-2-52	At. Pijrat, Tal. Olpad, Distt. Surat.
5262.	Parmanand Vaidya Chaturbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5531 17-9-76	Opp. Kanya Shala, At. Bavala, Tal. Dholaka, Distt. A'bad.
5263.	Parag Mehta Jayantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9005 28-3-84	Panchnath Plot, Dr. Rajendraprasad Road, At. Rajkot-360001.
5264.	Parshottam Godhasara Mulajibhai	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1968	7410 29-11-79	At. Bhanduri, Via Malia-Matina, Dist. Junagadh.
5265.	Parshottam Pattel Shamji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3401 25-2-72	Shri Shanker Vijay Shaw Mill, Lakkad Kot, St. Road, Surat.
5266.	Parshottam Punsuriya Mavaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4940 4-9-75	At. Sadodar, Tal. Jam Jodhapur, Distt. Jamnagar.
5267.	Parshottam Vaidya Bavabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4422 2-7-74	At. Khijadiya (Tadna) Distt. Jamnagar.
5268.	Parshottambhai Patel Dhulabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4285 25-3-74	At. Netrang, Tal. Valia, Distt. Broach.
5269.	Parshottambhai Patel Govabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4808 25-4-75	At. Manund, Tal. Patan, Distt. Mehsana.
5270.	Parshottambhai Patel Venabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6361 4-10-78	At & Post Mujara, Tal. Prantij, Distt. Sabarkantha.

1	2	3	4	5
5271.	Parshuram Bhatt Umashanker	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1938	9657 31-12-86	At. Soladi, Tal. Dhsangadhra, Distt. Surendernagar.
5272.	Parshuram Desai Dahyabhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1964	1458 29-6-64	Patel Street, Near Jain Temple, At. Katargam, Distt. Surat.
5273.	Parsottam Borad Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3205 20-7-71	At. Rabarika, Tal. Upleta, Via Khalijalia, Distt. Rajkot.
5274.	Parsotam Kasundara Ambabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3206 26-7-71	At & Post Virpar (Machbukantha) Via & Tal. Morbi, Distt. Rajkot.
5275.	Parsuram Raval Jeshanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1949	982 10-2-50	Medical Officer, Govt. Dispensary, At. Ajab, Via Keshad, Distt. Juna- gadh.
5276.	Parulben Desai Govindji	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9513 1-7-86	57/Suvidha Colony, At. & Post Atul-396020, Dist. Valsad.
5277.	Parul Joshi Anilkumar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9080 29-6-84	60, Datt Society, Sarkhej Road, A'bad-7.
5278.	Parul Pandya Romeshbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9634 5-12-86	9/"Dipti" Bank of India, Society No. 3, Gulbaitekra, El isbridge, A'bad-7.
5279.	Parul Patel Chhanmalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8438 31-5-82	C/o C.S. Patel Officers Colony, C-12, Race Course Road, Near All India Radio, At. Rajkot
5280.	Parul Shastri Madhusudan	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9500 12-5-86	Gate No. 3, jyubill Mills, Outside Dariyapur, A'bad-10.
5281.	Parul Vyas Vasukiprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8202 12-10-81	1781, Desai Pole, Khadia, A'bad.
5282.	Parvatiben Atara Lavajibhai	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1975	7181 9-8-79	Vipul, Bhruvngar, Near Bhruv Flat, Opp. Amrapali, Tokij, At. Rajkot.
5283.	Parvatiben Patel Rayalabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5621 3-12-76	At Raipura Baheda, Post Ghani, Tal Vyara, Dist. Surat.
5284.	Parvatishanker Trivedi Muleshanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1944	316 6-5-52	Sankadi Sheri, Mank Chowk, Ahme- dabad.
5285.	Pravin Hirpara Shambhubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	7758 16-7-80	C/o Vaidya Pnnarvasu, A/2, Capital Commercial Centre, Ashram Road, A'bad.
5286.	Parvinchandra Mehta Chimanlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Guvarat 1961	912 28-12-61	Begampura, Brahman Sheri, Surat.
5287.	Parvinchandra Pathak Motilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	6132 12-4-78	At & Post Sametra, Tal. & Distt. Mehsana.
5288.	Pasharathbhai Sharma Raijibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7231 29-8-79	Patel Chora, At. Dakor, Tal. Thasara, Dist. Kheda.
5289.	Pashabhai Parmar Arakhabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8033 10-4-81	At. Vansadol, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
5290.	Patanjali Pala Tribhovan	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1975	7895 14-11-80	C/o. Tribhovan Yogankram, Hathikhana Road, Rajkot-I.
5291.	Pathibhai Acharya Pasiklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3213 30-7-71	C/o. Rasiklal R. Acharya, Deri Nak Road, Near Chabutra, At. Tankara, Distt. Rajkot.
5292.	Pinakin Bhatiya Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4644 12-3-75	Ghadiyali Pole, Pipala Sheri's Naka, At. Baroda.
5293.	Pinakin Shukla Bhanushanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7785 19-8-80	At. Salva, Tal. Dadaranagar, Haveli.

1	2	3	4	5
5294.	Pinakin Shukla Manharlal	B. A. M. S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9123 23-8-84	C/o. Pinakin V. H., 33, Jilla Panchayat Society, Joshiwara, At. Junagadh.
5295.	Pinakin Trivedi Mahipatray	B. S. A. M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4358 26-4-74	62, Devbag, Indraprasatha, Gauri- shanker Sarovar Road, At. Bhavnagar.
5296.	Pinakin Trivedi Vishnuprasad	Ayurved Uttama S. D. Pariksha Samiti, Baroda 1977	6567 15-2-79	Sector No. 19, B. No. GH 66/3, At & Dist. Gandhinagar.
5297.	Piyush Parikh Chanpaklal	B. S. A. M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4825 2-5-75	C/o. C. G. Parikh, At. Khod- brahma, Distt. Sabarkantha.
5298.	Piyushchandra Vaidya Nanubhai	D. S. A. C., C. S. Ay. Course, Gujarat 1966	2382 3-2-67	Ayu. Health Center, At. Sandha, Sal, Tal. Savli, Dist. Baroda.
5299.	Piyushkumar Pandya Bhaishanker	B. S. A. M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5028 11-11-75	Hingalaji Falia, At. Junagadh.
5300.	Piyushkumar Shukla Fulshanker	B. S. A. M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3565 29-8-72	Najirat Paga, Bhutadi Zapa, Behind Police Line, Hirabai Ghanti's House, At. Baroda.
5301.	Piyushkumar Vyas Savailal	B. A. M. S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9417 2-11-85	Rajkawado, Keshuseth's Pole, At. Patan-384256, Tal. Patan, Distt. Mehsana.
5302.	Piyushkumar Yagnik Ambalal	D. S. A. C., C. S. Ay. Course, Gujarat 1964	1450 29-6-64	Jilla Panchayat Dispensary, At. Bholad, Tal. Dholaka, Distt. Ahmedabad.
5303.	Popat Patolia Manaji	B. S. A. M., Gujarat Ay. Univ., 1978	6260 2-9-78	At. Ambala, Tal. Visavadar, Distt. Junagadh.
5304.	Popatbhai Godhani Lalajibhai	B. A. M. S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9141 10-9-84	At. Tana, Tal. Shihor, Distt. Bhavnagar.
5305.	Popabhai Patel Pashabhai	B. S. A. M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4454 26-8-74	At. Nanapur, Tal. Prantij, Distt. Sabarkantha.
5306.	Popatbhai Patel Khodabhai	B. S. A. M., Gujarat Ay. Univ., 1975	8188 22-9-81	At Sc/Post Aniyod, Tal. Prantij, Dist. Sabarkantha.
5307.	Popatlal Ballar Odhavji	B. S. A. M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5817 6-6-77	C/o. H. B. Acharya, Hemkunj Vadava, Pachariya Vadi, At. Bhavnagar.
5308.	Popatlal Daiya Hiralal	B. S. A. M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5538 23-9-76	H. No. 2081, Katakivavad, Pancha- patti, Kalupur, A'bad
5309.	Popatlal Dolvadia Lirabhai	B. S. A. M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3612 19-9-72	At. Hadiyana, Tal. Jodia, Distt. Jamnagar.
5310.	Popatlal Gajera Ghusabhai	B. S. A. M., Gujarat Ay. Univ., 1972	5771 8-2-73	7, Hanuman Street, At Sc Tal. Tal. Bhesan, Distt. Junagadh.
5311.	Popatlal Kariya Harjivan	G. F. A. M., Fac. of AUSM, Gujarat 1962	109 23-11-62	Juni Shak Market's Gali, At. Keshod, Distt. Junagadh.
5312.	Popatlal Kotadiya Talakchand	D. A. S. F., Fac. of AUSM, Bombay 1952	123 1-2-52	C/o. Kapilbhai Kotadiya, At. Himmatnagar, Distt. Sabarkantha.
5313.	Popatlal Kumbhani Manajibhai	B. S. A. M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4925 4-8-75	At. Hamapur, Via Bagsara Bhayani, Tal. Kukavav Vadiya, Distt. Amreli.
5314.	Popatlal Manguliya Valjibhai	D. S. A. C., C. S. Ay. Course, Gujarat 1965	1918 21-1-66	Panch Talavada, Via Dannagar, Tal. Liliya (Lathi), Distt. Amreli.
5315.	Popatlal Padariya Jivabhai	B. S. A. M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4045 12-9-73	At. Ganod, Via Upleta, Distt. Rajkot.
5316.	Popatlal Pandya Narmadashanker	Ayurved Visharad, B. I. M. Saurashtra 1960 H. P. A., P. G. T. Centre in Ay. Jamnagar	2314 27-5-60	Jilla Ay. Dispensary, C/o Ay. Niyamak Kacheri, Gujarat Rajya, New Civil Hospital, A'bad-16.

1	2	3	4	5
5317.	Popatlal Patel Trivbovandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3475 11-4-72	At. Sankara, Tal. Harij, Distt. Mehsana.
5318.	Popatlal Pandya Prabhashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3720 8-1-73	Barit Vas, Holi Chakala, At. Kalol, Distt. Mehsana.
5319.	Popatlal Patel Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3654 12-10-72	At. Mandala (GADH) Tal. Palanpur, Distt. Banaskantha.
5320.	Popatlal Patel Chhotala	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3830 28-2-73	At. Kanz, Tal. Viramgam, Distt. A'bad
5321.	Popatlal Raval Somnath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8116 17-7-81	At & Post Piludra, Tal. Prantij, Distt. Sabarkantha.
5322.	Popatlal Sadani Jagjivan	Vaidya Charya, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1967	7237 29-8-79	Ambaji Dispensary, At. Vodya, Tal. Bhachau, Distt. Kutch.
5223.	Popatlal Vaidya Dolatram	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1941	1042 3-11-41	At. Demai, Tal. Bayad, Distt. Sabarkantha.
5324.	Popatlal Vaidya Chhotalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1953	1041 2-1-54	Resident House, Surgeon Dabu, Hospital, At & Post Navasari, Distt. Valsad.
5325.	Prabha Yadav Ratandev	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8681 3-3-83	At & Post Kotada (Jadodar), Tal. Nakhatrana.
5326.	Prabhakar Phatt Chunilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1950	835 31-12-50	Near Verai Mata, At. Chandod, Tal. Dabhoi, Distt. Baroda.
5327.	Prabhakar Bhatt Jayashanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1950	836 26-2-51	At. Vyara, T. V. Railway, Distt. Surat.
5328.	Prabhakar Badgujar Dayaram	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, Maharashtra 1968	2999 14-7-70	Medical Officer, D. P. At. Dahej, Tal. Vagra, Distt. Broach.
5329.	Prabhakar Gokhale Trimbakram	Ayurved Madhyama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda 1969	7904 14-11-80	Suvarna Apptt., R. No. 5, New Khende Rav Road, Opp. Good- luck Karkhana, At. Baroda.
5330.	Prabhakar Hardikar Dattatray	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat 1961	1335 23-10-61	Piramitar Road, Dandiya Bazar, Baroda.
5331.	Prabhakar Shastri Ambalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1949	1116 31-5-49	Kharikui, At. Khambhat, Distt. Kheda.
5332.	Prabhakar Shashtri Vinayakprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8804 5-7-83	Vasanda Kui, At. Petlad, Distt. Kheda-388450.
5333.	Prabhakar Solanki Durlabhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5042 20-11-75	At & Post Kagholi, Via Amal sad, Distt. Valsad.
5334.	Prabhakar Supe Kishan	B.A.M.S., Nagpur Univ., 1984	9594 23-10-86	177, Harinagar Colony, At. Udhana, Distt. Surat.
5335.	Prabhakar Ulangvar Sadashivrao	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, 1965	2780 3-6-69	At & Post Madhuben Colony, Karad D. P. Via Vapi, Distt. Valsad.
5336.	Prabhakar Vora Ghanshyamalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3331 4-2-72	Near Hatkeshwar Mahadev, Baharkot, At. Mangrol, Distt. Junagadh.
5337.	Prabhashanker J :ni Ganapatram	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	199 1-1-54	At. Polarpur, Tal. Dhandhuka, Distt. Ahmedabad.
5338.	Prabhashanker Joshi Trobhovan	B.S.A.M., Kanpur Univ., 1976	5804 24-577	At Mota Kalavad, Via Verad, Tal. Bhanvad.
5339.	Prabhashanker Mehta Karshanji	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	911 1-8-55	C/o. Dr. Pravin K. Mehta, 127, Nirmalnagar, At. Bhavnagar.

1	2	3	4	5
5340.	Prabhatba Jadav Shivbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5510 25-8-76	Near Taluka School, Sutar Gali, At. Surendernagar.
5341.	Prabhatbhai Patel Bakorbhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	582 2-1-58	Medical Officer, At. Khanpur, Tal. Lunawada, Distt. Panchmahal.
5342.	Prabhatshobha Patel Satyambhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1964	1596 27-1-65	Manav Flat, Behind H. L. College, Navrangpura, Ahmedabad.
5343.	Prabhatsinh Chudasama Meghaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5920 17-10-77	At. Haripar, Tal. Lalpur, Distt. Jamnagar.
5344.	Prabhatsinh Mangrola Pratapsinh	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	935 1-12-55	Rajput Falia, At Rajpipla, Distt. Broach.
5345.	Prabhatsinh Vansia Vijaysinh	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1963	1660 18-5-65	At & Post Sachin, Distt. Surat.
5346.	Prabhavati Ukani Vithaldas	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1972	6913 16-4-79	Vatsal, 15-A, Panchavati Society, Kalavad Road, At. Rajkot.
5347.	Prabodhchandra Joshi Dalapatram	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1805 28-9-65	Osva Mahollo, Gopipura, Surat-2
5348.	Prabhubhai Bhakta Makanbhai	Ayurvedacharya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1942	6908 16-4-79	10, Sadhana Society, Vardhari Road, At. Surat.
5349.	Prabhubhai Patel Bhudarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3053 30-9-70	At. Vadavali, Tal. Chansman, Distt. Mehsana.
5350.	Prabhubhai Patel Motibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8778 16-6-83	At. Asai Vasana, Post Asai, Tal. Idar, Via Vadali, Distt. Sabarkantha.
5351.	Prabhudas Lashkari Lakhiram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2901 16-2-70	At. Kunkavavmoti, Tal. Kunkavav, Distt. Amreli.
5352.	Prabhudas Makvana Narandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3115 10-2-71	Mahagujarat Footwear Co., Mochi Bazar, At. Junagadh.
5353.	Prabhudas Monpura Savjibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9351 21-8-85	C/o. Dr. B. S. Monpura, Orthopedic Hospital, Mahatma Gandhi Road, Chittakhana-Chowk, At Junagadh-362001.
5354.	Prabhudas Patel Purushottamdas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1953	577 1-8-53	Navi Pole, Navagharao, At. Karamasad, Distt. Kheda.
5355.	Prabhudas Patel Jivandas	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat 1966	2378 24-1-67	At Sander, Tal. Patan, Distt. Mehsana.
5356.	Prabhudas Prajapati Purshottamdas	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat 1963	1426 14-4-64	At. Sipor, Tal. Kheralu, Distt. Mehsana.
5357.	Prabhudas Patel Sakhidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3621 26-9-72	At. Vardhari, Tal. Lunavada, Distt. Panchmahal.
5358.	Prabhudas Ramdeputra Durlabhdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4009 17-8-73	At. Govindpur, Tal. Dahari, Distt. Amreli.
5359.	Prabhudas Ranpariya Vashram	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1965	1878 8-12-65	Near Tejbhagat Temple, At. Dhoraji, Distt. Rajkot.

1	2	3	4	5
5360.	Prabhudas Sodha Devchand	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	6819 22-3-79	At. Kvenagar, Distt. Junagadh
5361.	Prabhudas Trambadiya Devashibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6338 4-10-78	Dinkarbhai Vasavada's Hou. Nagarchowk, Ambika Chowk, Junagadh.
5362.	Prabhulal Kudival Jethalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4948 23-9-75	At. Bhavpar, Tal. Morabi, Distt. Rajkot.
5363.	Prabhulal Pandit Jethalal	D.A.M., U. P. Ay. Maha. Patan (Baroda State), 1941	2672 17-5-41	Anupam Hou. Society, At. Halol, Distt. Panchmahal.
5364.	Prabhulal Patel Shivlal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1966	2030 6-6-66	At. Charadava, Via Halvad, Distt. Surendernagar.
5365.	Prabhulal Upadhyay Trikamji	Vaidyacharya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1967	7184 9-8-79	At. Rasangpur, Tal. Lalpur, Distt. Jamnagar.
5366.	Prabhusharandas Shastri Naranchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5046 20-11-74	Swaminarayan Temple, Khulpur, A'bad.
5367.	Pradhuman Desai Nanubhai	Ayurved Visharad, B.I.M. Saurashtra 1961	2195 17-3-61	Kila Desai Street, At. Katargam, Distt. Surat.
5368.	Pradhuman Vakahriya Bhogilal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1965	1946 25-2-66	1/387, Bhaya Sheri, Nanpura, Surat.
5369.	Pradhumnkumar Trivedi Ochhavatal	A.V.V., T.M. Vidyapeeth, Poona 1941	324 3-11-41	Kubernagar Bungla, Opp. Bus Stop, Ahmedabad.
5370.	Pradhumnsinh Gohil Lakhubha	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4613 24-1-75	Jagruti Shramjivi Society, B. No. 47/B, Behind Thomeswar Temple, Rajkot.
5371.	Pradip Paraskar Muralidhar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8958 12-3-84	"Dattprasad", 9-A, Swaminara- yannagar Society, Pratcprnagar, Baroda-390004.
5372.	Pradip Thakkar Lalajibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9571 23-9-86	At. Rapar (Vagad), Kutch- 370165.
5373.	Pradipkumar Dave Vishwanath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5204 26-2-76	Sardarpara Plot, At. Junagadh.
5374.	Pradipkumar Desai Ajitbhai	B.A.M.S., Univ. of Bombay 1983	9512 12-6-86	1/C. G. P. K. Park Homoeopathy College Marg, Bhatar Road, Surat.
5375.	Pradipkumar Patel Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8542 14-9-82	At & Post Ubhatan, Tal. Malpur, Distt. Sabarkantha.
5376.	Pradipkumar Mehta Mansukhlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9096 31-7-84	Mehta Nivas, Verai Sheri, Soni Bazar, At. Morabi.
5377.	Pradipkumar Suryavashi Jashvantrao	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6224 10-8-78	At & Post Unai, Via Bilimora, Tal. Vasanda, Distt. Valsad.
5378.	Pradipkumar Suthar Kirpashankar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6075 15-3-78	C/o. Shri K. J. Suthar, R. No 345/41, Govt. G. Colony, Sukh- ram Nagar, A'bad.
5379.	Pradipkumar Thakar Manikant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4226 22-2-74	Vasantkunj, 3, Sarvodayanagar Vadia Road, At Porbandar.

1	2	3	4	5
5380.	Pradipkumar Trivedi Khageshchandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9322 25-7-85	17, Karimbhai's Chali, Boradi Gait, Krushnanagar, At. Bhav- nagar-364001.
5381.	Pradipkumar Yagnik Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5291 23-3-76	140, Sanakadi Sheri, At. Bhan- dhuka, Distt. A'bad.
5382.	Pradipkumar Yagnik Indulal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9559 3-9-86	"Ashutosh" Umanagar, At. Kandsan, Tal. Kadi, Distt. Mehsana.
5383.	Pradyum Kadia Chelabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8030 10-4-81	Ganji, Unchi Fali's Madh, At & Post Visanagar, Distt. Mehsana.
5384.	Pradyuman Pandya Vrujalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3832 28-2-73	Vadava Chora, Kakati Temple, At. Bhavnagar, Saurashtra.
5385.	Pradyumn Sharma Harishanker	B.A.M.S., Indore Univ., 1976	6299 27-9-78	Sonvajiya Bazar, N. G. Road, At & Distt. Sajibpur.
5386.	Pradyumna Upadhyay Narmadashanker	Ayurved Visharad, M.S. Univ., 1948	2337 24-8-48	Public Dispensary, At. Gavasad, Tal. Padra, Distt. Baroda.
5387.	Pradyuna Bhatt Pranlal	B.A.M.S., Indore Univ., 1968	5573 13-10-76	Gautam Nivas, Hanabhavadi, Kalanala, At. Bhavnagar.
5388.	Pradyusnkumar Bhatt Champaklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6181 15-6-78	At Dhandhali, Via Shihor, Distt. Bhavnagar.
5389.	Prafilchandra Joshi Ishwarji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3617 25-9-72	C/o Natubhai Joshi, Bhagat Sheri, At Kodinar, Distt. Amreli.
5390.	Prafilchandra Joshi Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5024 29-10-75	3489, Shahpur Darwaja's Khuncha, Sankadi Sheri, A'bad.
5391.	Prafilila Mehta Navalchand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3885 23-3-73	Dilip Nivas, Satavara Wad, At Jamkhambhalia, Distt. Jamnagar.
5392.	Pratul Desai Dinkarra	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1962	423 21-5-62	51, Manibag Society Opp. Kunjagali, Gotala Wadi, Katargam Road, Surat-4.
5393.	Pratul Rashaniya Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5859 30-8-77	Suragpara, At Vadiya, Distt. Amreli.
5394.	Pratulbala Patel Bhikhabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7673 18-4-80	Moti Khadaki, At Maholal, Tal. Nadia, Distt. Kheda.
5395.	Pratulbhai Vaidya Bupalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1951	1043 24-7-51	Gopipura, Surat-2.
5396.	Pratulchandra Acharya Vishnuprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3686 15-11-72	Kalika Plot, Behind Shakti Tails, Opp. Shakti Flour Mill, At Morbi, Distt. Rajkot.
5397.	Pratulchandra Dave Balkrishna	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1963	1369 13-12-63	Opp. Lal Bag, Ayu. Dispensary, Jamnagar.
5398.	Pratulchandra Joshi Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5079 15-12-75	At Fariyala, Via Vartaj, Distt. Bhavnagar.
5399.	Pratulchandra Kansagara Haribhai	B.A.M.S., Kanpur Univ., 1976	5641 24-12-76	Nagar Boradi Chora, At Vanthali, Distt. Junagadh.
5400.	Pratulchandra Mandavia Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3724 8-1-73	Jala's Jal, Khari Kui, Laxmi Bhuvan, At Jamnagar.
5401.	Pratulkumar Mehta Narmadashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4688 24-3-75	Rajeshwari Niketan, Old Manekvadi, At Bhavnagar.
5402.	Pratulchandra Pandya Banuprasad	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	756 24-1-57	Lal Darwaja, At & Distt. Kheda

1	2	3	4	5
5403.	Pratulchandra Patel Shamaldas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	583 10-6-63	At & Post Miyamatar, Tal. Amod, Distt. Broach.
5404.	Pratulchandra Raval Mansukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5468 22-7-76	1/A, Kapilkunj Society, Naranpura Crossing, A'bad.
5405.	Pratulchandra Rindani Amrutlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1958	1832 1-3-58	Anruti Nivas, Hospital Road, Jamnagar.
5406.	Pratulchandra Sad Sukhlal	B.A.M.S., Indore Univ., 1973	6998 7-5-79	At & Post Bharudia, Tal. Bhuchau, Via Rapar, Distt. Kutch.
5407.	Pratulchandra Sheth Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4635 5-3-75	C/o K. P. Sheth, At Moti, Kunkavav, Distt. Amreli.
5408.	Pratulchandra Sojitra Virajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8601 13-12-82	At & Post Dhareshwar, Tal. Rajula, Distt. Amreli.
5409.	Pratulchandra Soni Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4937 4-9-75	Panchvati, At Savli, Distt. Baroda.
5410.	Pratulchandra Trivedi Dhimantram	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	320 23-10-61	45, Venkushanji Len, Chikpet Cross, Benglor.
5411.	Pratulchandra Vaidya Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5703 24-2-77	At Masar Road, Tal. Pandra, Distt. Baroda.
5412.	Pratulchandra Vyas Chintamani	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1955	1049 1-10-55	Medical Officer, At Kundiyana, Tal. Oplad, Distt. Surat.
5413.	Pratul Kumar Thakur Nanubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4573 5-11-74	Indrajit Tenament, Vibhag C/5, Opp. Dimand Silk Mill, Nikol Road, Near Bapunagar, A'bad.
5414.	Pratulla Bhatt Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4920 15-7-75	15, Devashish Society, Nava Vadaj, A'bad.
5415.	Pratulla Dave Manubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4492 6-9-74	Plot No. 1016, Krishnanagar, At. Bhavnagar.
5416.	Pratulla Gopani Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6100 21-3-78	C/o J.T. Gopani, Shardanagar Society, Ellisbridge, A'bad.
5417.	Pratulla Shah Bhailalbai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8547 14-9-82	Wadi, Gajaravadi, Mangalpark Society, D. No. 46, Paras, Baroda.
5418.	Pratullaben Chaudhari Balubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7997 25-2-81	C/o Prakash Auto Garej, Unai Road, Char Rasta, Post & Tal. Vyara, Distt. Surat.
5419.	Pratullaben Vaidya Jayantibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7271 12-9-79	C/o Dr. Jayantilal Vaidya, At Badhora, Post Bigari, Tal. Gandevi, Distt. Valsad.
5420.	Pratullakumar Joshi Keshavlal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1966	2357 6-1-67	Nutannagar, C/o Dr. K.D. Joshi, Distt. Jamnagar.
5421.	Pragajibhai Mohanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6264 2-9-78	At & Post Kerala (Bhar), Tal. Savarkundala, Distt. Bhavnagar.
5422.	Pragajibhai Rupavatia Bhagavarajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3865 13-3-73	At Sanala, Via Kukavava, Distt. Amreli.
5423.	Pragna Patel Nanajibhai	M.D. (Ay.) Gujarat Ay. Univ., 1981	8146 3-9-81	C/o New Purvi Medical & Provision Store, New Vikas Gru Road, Dhamketu Marg, Paladi, A'bad.
5424.	Praganabon Pandit Vishnuprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4945 16-9-75	Brahmapole, At Siddapur, Distt. Mehsana.
5425.	Pragna Raval Paramandbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8431 17-5-82	C/o Dr. Ambalal P. Vaidya, 76, Dudheshwar Society, Ajava Road, Baroda.

1	2	3	4	5
5426.	Pragna Shah Arvindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5380 10-5-76	C/o Shah Arvindbhai M. Bajvada, Bhoi Vada, Opp. Panchmahal, Transport, At Baroda.
5427.	Pragji Parmar Valaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5182 18-2-76	At Jivapar, Tal & Distt. Jamnagar.
5428.	Pragna Joshi Shardchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4545 9-10-74	1800, Soni's Khncha, Desai Pole, Khadia, A'bad.
5429.	Pragna Ketecha Prabhudas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3721 8-1-73	29, Bigvijay Plot, At Jamnagar.
5430.	Pragna Purohit Labhshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4797 24-4-75	Purnima Studio, Near Mahila Vidyalyaya, At Bhavnagar.
5431.	Pragna Vaidhnav Ushakant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	8390 24-3-82	12, Ashoknagar, Opp. Milan Cinema, At Surendernagar.
5432.	Pragna Vajir Hdmkaranand	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9596 23-10-86	Chahidharpura, 5/986, Jadakhadi, At Surat-3.
5433.	Pragnaben Dave Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7949 17-1-81	54/2, Sector No. 12, At & Distt. Gadhinar.
5434.	Pragnakumar Shah Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3742 2-2-73	Nagarvada, Zagaroa Pole, Station Road, At Nadiad, Distt. Kheda.
5435.	Prahaladbhai Patel Khodidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5368 30-4-76	At Mithidharilal, Tal. Chansma, Distt. Mehsana.
5436.	Prahlad Bhatt Chunilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1806 28-9-65	45, Swami Narayan Chal, Rugnath- pura, Surat-3.
5437.	Prahladbhai Khemchandbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3346 8-2-72	At Kamalpur, Post Janttal, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
5438.	Prahladbhai Patel Harjivandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5466 22-7-76	At. Shivpura, Tal. Viramgam, Distt. A'bad.
5439.	Prahladbhai Patel Hargovinddas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5683 24-2-77	At Anandpura, Post Chhabafia, Tal. Kheral, Distt. Mehsana.
5440.	Prahladbhai Patel Parshottamdas	Ayurved Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1976	6729 9-3-79	At Brahmanda, Tal. Siddhapur, Distt. Mehsana.
5441.	Prahladkumar Trivedi Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3534 1-8-72	At Fifad, Tal. Savarkundala, Distt. Bhavnagar.
5442.	Prahladsinh Chavada Bhavansingh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3280 2-11-71	At Bilodara, Tal. Kalol, Distt. Mehsana.
5443.	Prahlad Agravat Rupdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8912 24-1-84	At Gangada, Via Una, Distt. Junagadh.
5444.	Prahlad Kaval Prajaram	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1972	9656 31-12-86	Plot No. 18, Manekwadi At Bhavnagar.
5445.	Prahlad Vaidya Bhaskarrao	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	1044 29-6-62	2/1061, Bhaidas Mehta's Sheri, Sagram Pura, Surat.
5446.	Prahladbhai Chaudhari Fuljibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3598 15-9-72	At Basana, Tal. Visnagar, Distt. Mehsana.
5447.	Prahladbhai Chaudhari Ramsandbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	4196 15-2-74	At Khatoda, Post Sudhiya, Tal. Kheralu, Distt. Mehsana.
5448.	Prahladkumar Joshi Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4372 8-5-74	At Vallabhipur, Via Dhola, Jn., Distt. Bhavnagar.
5449.	Prakash Bhatt Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3127 17-2-71	52, Sarkiwad, Saranagar, A'bad.

1	2	3	4	5
5450.	Prakash Bhatt Anantri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4122 26-11-73	Near Lalgarbava's Math, Bhaga, Talav, At. Bhavnagar.
5451.	Prakash Bhatt Jayantibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5849 16-8-77	C/o Dr. Jayantibhai Bhatt, Digvijay Plot, Sheri No. 10.
5452.	Prakash Joshi Devnand	B.S.A.M., M.D. (Ay.), Gujarat Av. Univ., 1974	5143 30-1-76	Prm Kuti, Dwarkapuri Road, At Jamnagar.
5453.	Prakash Modi Nathlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8949 17-2-84	C/o Shah Dhirajlal S., 1/Vraj Apartment, Narayannagar Road, Paladi, A'bad.
5454.	Prakash Patel Mangesh	B.A.M.S., Indore Univ., 1977	6461 15-11-79	C/o Shri Madan Limaji Patel, At & Post Sagbara, Distt. Broach.
5455.	Prakash Shastri Madhukant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9197 30-8-85	Vasant'Kunj, Opp. Muni, Hospital, At Petlad, Dist. Kheda.
5456.	Prakash Shivalo Sharadachandra	B.A.M.S., Vikram Univ., Ujjain 1977	8147 3-9-81	48, Baniyavadi, At Dhar(M.P.)
5457.	Prakash Solanki Dinkarray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4738 3-5-75	Bhader's Sheri, Gauri Falia, Shayam Kunj, At Bhavnagar.
5458.	Prakash Swadas Himmatlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1986	9555 3-9-86	Naliaya, At Vadhan City, Tal. Vadhan City, Distt. Surendranagar.
5459.	Prakash Trivedi Ramaniklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4027 30-8-73	At Bagsara (Meghani) Tal. Vadia, Distt. Amreli.
5460.	Prakash Upadhyay Manabarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7334 15-10-79	Anand, Natrajnagar, University Road, At Rajkot.
5461.	Prakashbhai Bhavsar Iswharlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	6266 9-3-76	C/o Bhagat Hotel, At Pethapur, Tal & Distt. Gandhinagar.
5462.	Prakashbhai Patel Garbadbhai	B.A.M.S., Poona Univ., 1976	5657 18-8-77	At Kosindra, Tal. Sankheda, Dist. Baroda.
5463.	Prakashbhai Patel Bhagvanbhai	B.A.M.S., Poona Univ., 1976	5736 25-3-77	At Kosindra, Tal. Sankheda, Distt. Baroda.
5464.	Prakashchandra Bhatt Shankerlal	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ., 1975	5157 7-2-76	C/o S.M. Bhatt, At Naranpur, Tal. Bhuj, Distt. Kutch.
5465.	Prakashchandra Bhatt Davashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5693 24-2-77	C/o D.N. High School, At Anand, Distt. Kheda.
5466.	Prakashchandra Joshi Devshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6753 15-3-79	At Jadar, Tal. Idar, Dist Sabarkantha.
5467.	Prakashchandra Joshi Surendrabhai	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ., 1978	7363 29-10-79	Anbaji Mata's Temple, At Padara, Dist. Baroda.
5468.	Prakashchandra Mehta Kandhanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6155 4-5-78	At & Post Nasvadi, Tal. Hasvadi, Dist. Baroda.
5469.	Prakashchandra Nayak Chanulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7385 19-11-79	At Kanpur, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
5470.	Prakashchandra Patel Hiralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5871 2-9-77	C/o Dr. H. M. Patel, Behind Dena Bank, At Kalo, Distt. Mehsana.
5471.	Prakashchandra Patel Trikambhal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7634 20-3-80	At & Post & Tal. Vaghodia, Distt. Baroda.
5472.	Prakashchandra Patel Babubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8812 29-7-83	Opp. Panjara Pole, Sajjanpura, At Manasa, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.

1	2	3	4	5
5473.	Prakashchandra Shah Chunilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9376 2-9-85	At & Post Chitroda, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
5474.	Prakashchandra Sharma Kamlashnker	B.A.M.S. Indore Univ., 1974	5575 18-10-76	At Sayan, Tal. Olpad, Distt. Surat.
5475.	Prakashchandra Sharma Narayandatt	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	7096 10-7-79	42/999, Meghaninagar, A'bad.
5476.	Prakashchandra Shukla Pravinkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3522 22-6-72	At Gavada, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
5477.	Prakashchandra Shukla Janardanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8407 5-4-82	16, Madhusudan Society, Behind Town Hall, Anand, Distt. Kheda.
5478.	Prakashchandra Soni Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5498 17-8-76	Narasinjhjis Pole, Dala Patel Khancha, At Baroda.
5479.	Prakashchandra Shukla Manharlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8604 13-12-82	Moti Taran Pole, At Khambhat, Distt. Kheda.
5480.	Prakashchandra Trivedi Bhaishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4375 8-5-74	Uchan Sheri, Ramrakh Chowk, At. Prabhas Patan, Distt. Junagadh.
5481.	Prakashchandra Upadhyay Bhagvanji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3413 3-3-72	Nagarpara Sheri No. 2, Near Devalvas, Jamnagar.
5482.	Prakashchandra Vaidya Mafatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6166 20-5-78	Valand Sheri, Darbar Road, At. Visnagar, Distt. Mehsana.
5483.	Prakashchandra Valera Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4065 26-9-73	Sanghadiya Bazar, At. Jamnagar.
5484.	Prakashchandra Vaidya Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7666 10-4-80	Hou. No. 4343, Zampolipole, At. Kapadvanj, Distt. Kheda.
5485.	Prakashchandra Vashi Dhansukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8078 7-5-81	Post Didoli, Via Udhana, Tal. Choryasi, Distt. Surat.
5486.	Prakashchandra Zinzuwadia Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8995 28-3-84	Kansara Bazar, At. Nadiad, Distt. Kheda.
5487.	Prakash Kumar Bhatt Dinkarrao	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7431 12-12-79	486-B, Swashray, Shishuvihar Gireal, At. Bhavnagar.
5488.	Prakashkumar Mehta Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8136 21-8-81	Zavoivali Sheri, Opp. Mahalaxmi Temple, At. Palitama, Distt. Bhavnagar.
5489.	Prakashkumar Sanghavi Nithalal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9629 5-12-86	Lihar Kodh, At Pij, Tal. Nadiad, Dist. Kheda.
5490.	Prakashkumar Shah Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9074 29-6-84	Nala's Dhal, At. Kathalal, Tal. Kapadvanj, Dist. Kheda.
5491.	Prakashkumar Sheth Maganlal	B.A.M.S., B.I.M. Saurashtra 1970	3898 28-3-73	Mahesh Nivas, 28, Prahlad Plot, At Rajkot.
5492.	Prakashkumar Upadhyay Manharlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8313 6-2-82	At. & Post Tana, Bhurakhiya Krupa, Via & Tal. Shihor, Distt. Bhavnagar—364 260.
5493.	Prakashkumar Vaidya Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7296 20-9-79	At & Post Vadod, Tal. Anand, Distt. Kheda.
5494.	Prakashchandra Pandya Prabhuprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4179 11-2-74	C/o Pandya P.A. Sheth, V.U. Referral Hospital, At. Idar, Distt. Sabarkantha.
5495.	Pramand Bhanushali Jethalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	2605 2-1-56	Medical Officer, Primary Health Centre, At Darmadi, Tal. Mandavi, Distt. Kutch.

1	2	3	4	5
5496.	Pramodrai Shah Ramanlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1959	1184 1-5-59	At. Itadara, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
5497.	Pramila Tivari Pradyumn	B. A. M. S., Indore Univ., 1976	6463 15-1-79	C/o P. M. Sharma, Medical Officer, D. P. Dispensary, At. Kaday, Distt. Kutch.
5498.	Pramod Purohit Madhusudan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7999 25-2-81	9/1685, Kolapith, Main Road, At. Surat-3.
5499.	Pramod Songadvala Hiralal	M.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1974	7074 30-6-79	Amaratnagar, Silvasa Road, At. Vapi.
5500.	Pramodbala Bhatt Balavantral	D.S.A.C., C.S. Ay. Course- Gujarat, 1966	2525 22-6-67	At. Kamrej, Via Sayan, Tal. Kamrej, Distt. Surat.
5501.	Pramodaben Vyas Natvarlal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1977	7240 30-8-79	At. Kosindra, Via Anand- Ankalav, Tal. Borsad, Distt. Kheda.
5502.	Pramodrai Patel Somabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4468 29-8-74	Trikamji's Temple, At Padara, Tal. Padara, Distt. Baroda.
5503.	Pramodini Dave Gulabshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3774 9-2-73	C/o G J. Dave, Gajar Fall, Ramuknva, At Jamnagar.
5504.	Pramodkumar Bhatt Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5907 28-9-77	At Bamodana, Tal. & Dist. Mehsana.
5505.	Pramodkumar Daraji Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ., 1980.	9073 29-6-84	At & Post Pandava, Tal. Balasinor, Distt. Kheda.
5506.	Pramodkumar Jani Prabhashanker	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ., 1969	3059 12-10-70	Saduacharaj's Khadaki, Upali Sheri, At Siddhapur, Distt. Mehsana.
5507.	Pramodkumar Mehta Mani Lal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course Gujarat 1966	2065 22-6-66	14/B/2, Dilkhush Society, Stadium Road, Opp. Lakhudi Talavadi, Post Navjivan, at Ahmedabad.
5508.	Pramodkumar Mehta Tulajashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6395 22-10-78	Shieshaktisadan, Keshavanagar, Sabarmati, A'bad.
5509.	Pramodkumar Patel Bavkubhai	B.A.M.S., Gujarat Av. Univ., 1985	9541 18-8-86	At Darajipura. P. O. Savajipur a, Tal. & Distt. Baroda.
5510.	Pramodkumar Sadhu Bhagvandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3833 10-3-73	At Nava Sangpur, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
5511.	Pramodkumar Upadhyay Jayshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3270 25-10-71	At Ratanpur, Tal. Godhara, Distt Panchmahal.
5512.	Pramodkumar Valdia Ramshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3768 17-2-73	At Aru, Tal. Navsari, Distt. Valsad.
5513.	Pramodrai Dave Manganlal	Ayurved Visharad, B.I.M. Saurashtra 1958	2252 15-3-58	Kotada Pithi Ayu. Dispensary, Tal. Babach, Dist. Amreli.
5514.	Pramodrai Pathak Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ., 1972	3920 13-4-73	Zarola Vago, At Dabhoi, Distt. Baroda,
5515.	Pramodrai Raval Gunvantrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3207 26-7-71	Joshifali, Post Nalvad, Distt. Surendranagar.
5516.	Pramodrai Trivedi Ganapatram	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1782 11-8-65	Ay. Aushadhalay, Station Rd., Pandya Building, Amreli.
5517.	Pramodrai Trivedi Vasudev	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6231 10-8-78	At & Post Palsana, Tal. Dhandhuka, Distt. A'bad.
5518.	Pramodrai Vyas Nanalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	1095 2-8-54	19, Sunahine, 78-B, Dr. Ani Bessant Road, Vareli, Bombay-18.

1	2	3	4	5
5519.	Pranodray Chovatiya Tribhovan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6289 20-9-78	10, Bhagavatpara, At Gondal, Distt. Rajkot.
5520.	Pramtreshkumar Bhatt Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8066 4-5-81	Gorvada, Holi Chakala, At. Kapadvanj, Distt. Kheda.
5521.	Pranavkumar Vaidya Sumanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8788 16-6-83	V.N.M. Hospital, At. Tal. Kheralu, Distt. Mehsana.
5522.	Pranavprakash Dave Padamashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7290 20-9-79	A-9/4, Godavarinagar, 1, Vasana, Behind Godavari Flats, A'bad.
5523.	Pranj Godhia Magjibhi	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3561 23-8-72	At. Laxminivas, Post Vavaniya, Via Morbi, Distt. Rajkot.
5524.	Pranjivan Patel Shivbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6034 16-2-78	C/o. Patel Shivabhai Kashibhai, At. Sarsa, Tal. Anand, Distt. Kheda.
5525.	Pranlal Madani Pitambar	Vaidya Charya, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1967	7043 21-6-79	Near Police Station, At. Por- bandar, Distt. Junagadh.
5526.	Pranshanker Bhatt Girjashanker	Ayurved Visharad, B.I.M. Saurashtra 1961	2317 22-3-61	Govt. Dispensary, At. Sarva, Tal. Botad, Distt. Bhavnagar.
5527.	Pranshanker Joshi Jivrambhai	Ayurved Visharad, B.I.M., Saurashtra 1960	2217 6-4-61	Post Rabhada, At. Madhiya, Via Dungar, Distt. Bhavnagar.
5528.	Pranshanker Pandya Jatashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3159 20-3-71	At. Sendarada, Tal. Mahuya- bandar, Distt. Bhavnagar.
5529.	Prarthana Trivedi Pinakin	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4729 1-4-75	Sector No. 29, B. No. Gh. 66/3, At. Gandhinagar.
5530.	Prarthanakumar Acharya Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7557 29-2-80	Krushnatalav, At. Amalsad, Tal. Gandevi, Distt. Valsad. Distt.
5531.	Prasannakumar Vaishnav Dhirubhai	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	7094 2-2-79	P. D. Vaishnav, Vaishnav Dis- pensary, Near Old Bus Stand, At. Bagara, Distt. Amreli.
5532.	Prasant Parikh Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8039 10-4-81	3, Prasant Society, Sardarpatel Stadium, Navjivan, A'bad.
5533.	Prashantkumar jani Valmikibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8258 24-12-81	At. Dhokadava, Tal. Una, Distt. Junagadh.
5534.	Prashar Shukla Devkrishna	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1946	1278 4-12-46	At. Saras, Tal. Olpad, Distt. Surat.
5535.	Pratapbhai Thakariya Hardasbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3831 28-2-73	Anandnagar Colony, Qua. No. 340, At. Rajkot.
5536.	Prataprai Dave Pitambar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3866 13-3-73	At. Ranasiki, Post Sanali, Tal. Gondal, Distt. Rajkot.
5537.	Prataprai jani Narandas	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1947	6991 7-5-79	Savita Sadan, Bhat's Ambali, At. Jamnagar.
5538.	Prataprai Joshi Nimmatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7766 16-7-80	Nagar Sheri, Bhanvantrai, At. Gondal, Distt. Rajkot.
5539.	Prataprai Makvana Vithaldas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	1406 14-2-64	Tahateshwar Plot, Mahentu- bhuvan, At. Bhavnagar.
5540.	Prataprai Raval Shantilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1960	1773 23-7-65	Chuda Zanpe Station Road, At. Ranpur, Tal. Dahndhuka, Distt. Ahmedabad.
5541.	Prataprai Raval Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4843 14-5-75	Raval Sheri, At. Thangadh, Tal- Chotila, Distt. Surendranagar.

1	2	3	4	5
5542.	Pratapray Lashakari Vitthaladas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	6080 27-12-77	At. Bhandariya, Via Sardhar, Distt. Rajkot.
5543.	Pratapray Mehta Mansukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4681 24-3-75	Sherdi Pith's Maholla, Maniyar Sheri, At. Bhavnagar.
5544.	Pratapray Saglari Babulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8486 5-4-82	Gokul Nivas, Behind M. D. S., College, Kadiyavad, Junagadh.
5545.	Pratapsinh Solanki Umodesinh	D.A.S.F., Fno. of AUSM, Bombay 1952	1325 18-3-52	Main Road, At. Olpad, Distt. Surat.
5546.	Pratibha Mod Murubha	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8595 3-11-82	C/o. M. R. Mod, Gundi Path, At. Mundra-Kutch-390421.
5547.	Pratibha Agnuhotri Jyeshkumar	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1973	6838 38-3-79	1/5, Muni Officers Flat, Off Dhor Bazar, Kanakaria, A'bad.
5548.	Pratibha Dave Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4469 29-8-74	Ghela Ramji's Temple, Near Bavaji Raj Kanyashala, At. Rajkot.
5549.	Pratibha Jaik Jayant	B.S.A.M., C. S. Ay. Course, Maharashtra 1974	6176 6-6-78	Primary Health Centre, At. Jaga- vada, Tal. Bahod, Distt. Pano- mahal.
5550.	Pratibha Shukla Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6387 22-10-78	292/93, Vasant Maner's Khadaki, Vadigam, Durispur, A'bad.
5551.	Pratibha Subhedar Bramod	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	6452 28-12-78	A. K. Jamal Build., Ayu. Boys Hostel No. 2, Hospital Road, Jamnagar.
5552.	Pratibha Vyas Dhirajlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3907 3-4-73	C/o. Harijin Mill Company, At. Batava, Tal. Mahuvadar, Distt. Junagadh.
5553.	Pratibhaben Rethod Fatehsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8381 23-4-82	Bokad Faliyu, At. & Post Rander, Tal. Choryasi, Distt. Surat.
5554.	Pratibhadevi Jadeja Mahendrasinh	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9502 12-5-86	C/o. Dr. Mahendrasinhji R. Jadeja, "Snehadan" At. Virpur (Jalaram) Tal. Jetpur, Distt. Rajkot.
5555.	Pratibhadevi Jani Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6126 5-4-78	Maturechavva College Road, Giriraj Colony, Naidad, Distt. Kheda.
5556.	Pratima Balvantrao	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	6528 3-2-70	At. Shimalgam, Via Mareli Bazar, Distt. Valsad.
5557.	Pratima Bhatt Dalapatram	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1963	1413 24-2-64	Mani Nivas, 2135, Atabhai Rd., At. Bhavnagar.
5558.	Pratima Desai Pragatshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3035 25-8-70	C/o. Lalbhai B. Desai, Nagar- vada, At & Tal. Mahuva, Distt. Bhavnagar.
5559.	Pratima Dwivedi Manshanker	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8955 12-3-84	Rektor's Bunglo, D. Cobin College, At. Jamnagar-360008.
5560.	Pratima Kapadia Hiralal	B.S.A.M., Bombay Univ., 1979	9491 14-3-86	278, Javji Dadaji Road, 17th Floor Block No. 67, Opp. Bhatia Hospital, Bombay-400067.
5561.	Pratima Mehta Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3244 13-9-71	C/o Dr. M. N. Joshi, 22, Ganesh Society, Our Side Shah- pur, A'bad
5562.	Pratima Mehta Champaklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8007 17-3-81	5, Girikunj, Yamuna Bag, Chunta Bazar, Tal. Chauryasi, Surat.
5563.	Pratima Shah Nagindas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4661 17-3-75	Hariyala, Plot No 96, Manekvadi, Bhavnagar.
5564.	Pratimaben Shukla Bapalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8374 17-3-82	Sarvodaya Dispensary, At. & Post Kherava, Tal. & Distt. Mehsana.

1	2	3	4	5
5565.	Pravin Tank Tulasidas	B.A.M.S., Univ. of Bombay 1981	9071 15-6-84	C/o. Dr. Tank T. K., Near Chamadia's Kuva, At. Dhoraji, Distt. Rajkot.
5566.	Pravin Trivedi Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6329 4-10-78	"Laherikunj", 13, Sadashivnagar, Ranip, A'bad.
5567.	Pravina Desai Motibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4970 15-10-75	Gurukrupa, Baroda Bank Colony, Nizampura, At. Baroda.
5568.	Pravina Patel Bharatkumar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9611 10-11-86	At. Kamali, Tal. Siddhapur, Sardarpole, Distt. Mehsana.
5569.	Pravina Raval Vasudev	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6432 2-12-78	322/B, Railway Colony, Behind Railway Old Dispensary, At. Mehsana.
5570.	Pravina Upadhyaya Manilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1970	8067 4-5-81	Jitendranivas, Opp. Ramaji Temple, Sonivado, At & Post Medasa, Dist. Sabarkantha.
5571.	Pravinaben Vyas Maneklal	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat 1966	2238 24-10-66	18, Shrinath Krupa Society, Bairavanath Road, Maninagar, Swami Vivekanand High School, A'bad.
5572.	Pravinbhai Patel Chaturbhai	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat 1963	1357 21-11-63	At. Sejakuva, Tal. Padara, Distt Baroda.
5573.	Pravinbhai Patel Narsinhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5645 30-12-76	At. Pipalata, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
5574.	Pravinbhai Patel Antolbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5793 30-4-77	At Mandava, Tal. Sinor, Distt. Baroda.
5575.	Pravinbhai Patel Harshadbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7436 12-12-79	5/B, Vallabh Nagar Society, 4th Floor, Karoli, Bag, at Baroda.
5576.	Pravinbhai Patel Ravajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8692 3-3-83	Sardar Pole, At Kalsar, Tal. Thasara, Dist. Kheda.
5577.	Pravinbhai Patel Bhaktibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9394 23-9-85	Narsinhpura Was, At & P. O. Naradipur—382735, Tal. Kalal, Distt. Mehsana.
5578.	Pravinbhai Varachhia Chandrasinh	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8975 12-3-84	At & Post Kantava, Via. Kosamba, Tal. Mangarol, Distt. Surat.
5579.	Pravinohandra Arya Dhanjibhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2495 24-5-67	Jyoti Mansion, Kaharvad, Nan- pura Surat-1.
5580.	Pravinchandra Bhatt Umedram	A.V.V., T.M. Vidyapeeth, Poona 1942	840 20-10-44	At Sandhell, Tal. Thasara, Distt. Kheda.
5581.	Pravinchandra Bhatt Vrajlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1774 23-7-65	Ruvapari Gate, Maniyar Street, At Bhavnagar.
5582.	Pravinohandra Bhatt Devshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4432 28-7-74	C/o G.P. Bhatt, Acharya Sarvodaya School, At Jethlli, Tal. Balsinor, Dist. Kheda.
5583.	Pravinchandra Bar Jagjivanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8805 5-7-83	Joravarpara, At Chuda Tal Lim- badi, Distt. Surendranagar.
5584.	Pravinchandra Chotalia Mulohandbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3119 12-2-71	Mahavir Stationary Stores, Near Bus Stand, At Rajula, City, Distt. Amreli.
5585.	Pravinohandra Dave Mafatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5484 11-8-76	At Varsoda, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
5586.	Pravinohandra Doshi Jethalal	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	6707 9-3-79	Patel Chowk, At Vanthali, Distt. Junagadh.
5587.	Pravinchandra Jani Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3463 30-3-72	At Bhiladi, Tal. Dista, Distt. Banaskantha.

1	2	3	4	5
5588.	Pravinchandra Jani Govindlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4500 9-9-74	At Pratapnagar, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
5589.	Pravinchandra Joshi Dayakji	L.A.M., U.P. Ay. Maha. Patan (Baroda State) 1941	239 3-11-41	Bhaya's Khadaki, At Karamsad, Distt. Kheda.
5590.	Pravinchandra Joshi Bhanushanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1848	Vhorvad, At Chittal, Distt. Amreli.
5591.	Pravinchandra Joshi Prabhulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5239 5-3-76	At Jam Vanthali, Distt. Jamnagar.
5592.	Pravinchandra Kanojiya Mandang	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5326 2-4-76	At Bhat Simaroli, Via Keshad, Distt. Junagadh.
5593.	Pravinchandra Mehta Bahyalal	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1975	6582 16-2-79	Kalyan Society, Mehta Sudan, at Rajkot.
5594.	Pravinchandra Mehta Ambaram	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1960	6917 16-4-79	C/o Harivadan S. Joshi, Om Shri Trikam Kutir, Nathi Sheri, Jamnagar.
5595.	Pravinchandra Moteriya Arjanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2915 4-3-69	Moti Bazar, At Gondal, Distt. Rajkot.
5596.	Pravinchandra Nalani Jayantilal	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi	7282 15-9-79	Nemiben Hous., Sutar Gali, Jawahar Road, At Surendranagar.
5597.	Pravinchandra Nimavat Dilsukhram	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	7185 9-8-79	C/o Mavaji Maribhai Patel, Jin Mill Co., At Bhapur, Distt. Juna- gadh.
5598.	Pravinchandra Nimavat Bachubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7925 12-12-80	At & Post Garmali (Jiyani), Tal. Dhari, Via Chalala, Distt. Amreli.
5599.	Pravinchandra Paija Vrujlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3810 21-2-73	Bedipara, Gharamjivi Society, Chambuda Nivas, At Rajkot.
5600.	Pravinchandra Pandya Ochhaval	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1724 15-6-65	H. M. Sirit, At Prantij, Distt. Sabarkantha.
5601.	Pravinchandra Parekh Laxmidas	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1972	6920 16-4-79	Maliyada Road, Salatvada, At Junagadh.
5602.	Pravinchandra Patel Govindbhai	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1968	2673 18-5-68	29/30, Sneh Smruti Society, Randcr Road, Surat-9.
5603.	Pravinchandra Pathak Purshottam Das	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4598 1-1-75	At Jarod, Tal. Vaghodia, Distt. Baroda.
5604.	Pravinchandra Prajapati Purushptamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8845 19-9-83	At & Post Modasar, Tal. Sanad, Distt. A'bad-382 220.
5605.	Pravinchandra Purohit Ravishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4127 26-11-73	At Bodal, Tal. Borad, Distt. Kheda.
5606.	Pravinchandra Purohit Shamalji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4926 4-8-75	Purohit Clinic, Sukhanath Chowk, at Junagadh.
5607.	Pravinchandra Rajajoshivala Jamanadas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8350 11-3-82	C/o Dr. J. P. Vaidya, Navapura, Patnanavad, Surat.
5608.	Pravinchandra Rajyaguru Purushottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6376 15-1-79	C/o B. R. Rajyaguru, At & Post Vadhavan City, Tal. Vadhavan- city, Distt. Surendranagar.
5609.	Pravinchandra Rathod Jayantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9045 10-5-84	C/o Rathod Jayantilal Jivaraj, Bhikhansha Road, Satvara Road, At Upleta, Distt. Rajkot-350 490.
5610.	Pravinchandra Shah Jamanadas	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1962	1189 4-6-62	Vasavado, At Patan, Distt. Mehsana.

1	2	3	4	5
5611.	Pravinchandra Shah Muljibhai	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4166 5-2-74	At Kothara, Tal. Atbadasa, Distt. Kutch.
5612.	Pravinchandra Trivedi Punjalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5142 30-1-76	At & Post Sanali, Tal. Kalol, Distt. Panchamehal.
5613.	Pravinchandra Trivedi Babulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5823 14-6-77	At Panohipala, Gayatri Dis- pensary, Via Palitana, Distt. Bhavnagar.
5614.	Pravinchandra Trivedi Jethalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8727 19-4-83	C/o Dr. G.J. Trivedi, Anand Clinic Opp. Panjara Pole, At Botad, Distt. Bhavnagar.
5615.	Pravinchandra Upadhyay Mulshanker	Vaidya Visharad, A.I. Vidyapeeth, Delhi 1964	7408 29-11-79	At Tana, Tal. Shihor, Distt. Bhavnagar.
5616.	Pravinchandra Vaidya Gangatishanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	1045 4-6-63	Soni Falia, Main Road, Surat.
5617.	Pravinchandra Vaidya Jethalal	B.A.M.S., Univ., of Gujarat 1965	1905 31-12-65	Salabatpura Main Road, Opp. Tadvali Masjid, Surat.
5618.	Pravinchandra Vyas Dimanishanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1948	1096 30-9-48	Vyas Falia, At Barodoli, Distt. Surat.
5619.	Pravinchandra Vyas Motiram	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	1097 11-8-55	Bazar Street, At Sarkhej, Tal. City, Distt. A'bad.
5620.	Pravinchandra Vyas Popatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4296 27-3-74	At Gozaria, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
5621.	Pravinchandra Mehta Balkrishna	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	913 1-7-55	18, Pratima Nagar Society, Juna Railway Crossing, Maninagar, Ahmedabad.
5622.	Pravingiri Goswami Laxmangiri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4523 23-9-77	At Sammadhiyala, Via Songadh, Distt. Bhavnagar.
5623.	Pravinkumar Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5882 20-9-77	76, Dudheshwarnagar Society, Ajava Road, Baroda.
5624.	Pravinkumar Bhandari Mavajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8388 24-3-82	At Pithadia, Via Jam-Vanthali, Tal. Kalavad, Distt. Jamnagar
5625.	Pravinkumar Bhatt Jamanadas	Ayurved uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1976	6863 2-4-79	3, Kanchannagar, Near Chavala Society, Daxini Crossing, Maninagar, A'bad.
5626.	Pravinkumar Brahmakshtriy Vadilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6163 16-5-78	At Kathalal, Tal. Kapadvanj, Distt. Kheda.
5627.	Pravinkumat Desai Jaksibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8215 2-11-81	At Mahisa, Tal. Nadlad, Distt. Kheda.
5628.	Pravinkumar Dhobi Joitaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4089 10-10-73	New Railway Colony, Qua. No. 484/2, Behind Railway Hospital, Sabrmati, A'bad.
5629.	Pravinkumar Dhorajia Lavaajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8004 17-3-81	Satyam Appt., Raichand Road, Derasar Chal, At Navasari, Distt. Valsad.
5630.	Pranavkumar Dixit Mahendrakumar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1981	9162 17-10-84	Shastri Bungla, Airodram Road, At A'bad.
5631.	Pravinkumar Pandya Pranalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4532 1-10-74	At Pipalav (Ashapuri), Tal. Petlad, Distt. Kheda.
5632.	Pravinkumar Pancholi Bhagvanji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	6060 8-3-78	Jivarajpar At Makaraba, Tal. City, Distt. A'bad.
5633.	Pravinkumar Pandya Gordhandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	6345 4-10-78	Krushnakrupa, 15, Gopalnagar, At Rajkot.
5634.	Pravinkumar Pandya Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6439 15-12-78	Ashwinkumar, Visdraj Ovara Road, At Surat.

1	2	3	4	5
5635.	Pravinkumar Patel Purshottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3560 23-8-72	Pravinkunj, Near Jain Dcesar, At. Dehgam, Distt. A'bad.
5636.	Pravinkumar Patel Kalidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5983 30-11-77	1492/1, Moti Vasanaberi, Saraspur, A'bad.
5637.	Pravinkumar Patel Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7426 12-12-79	At Banaj, Post Vamar, Tal. Dabhoi, Via Karjan, Distt. Baroda.
5638.	Pravinkumar Patel Dhulabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8076 7-5-81	At & Post Pipalata, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
5639.	Pravinkumar Patel Haribhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8520 27-8-82	91, Shaktibijay Society, Varachh Road, Surat-6.
5640.	Pravinkumar Raval Chinalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4250 11-3-74	2/258, Mangal Kutir, Shukla Street, At Khaubhalia, Distt. Jamnagar.
5641.	Pravinkumar Shukla Labhshanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Gujarat 1953	1828 2-2-53	Vasai (Dabhla), Tal. Vijapur.
5642.	Pravinkumar Solanki Vithaldas	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8990 12-3-84	P-6, Vikram Appartment, Behind Shrayas Crossing, A'bad-15.
5643.	Pravinkumar Suthar Ranchhodlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6613 21-2-79	227, Raipur, Pasohhatadi's Pole, A'bad.
5644.	Pravinkumar Tank Dharasinbhai	B.A.M.S., Ravishankar Univ., 1975	6510 1-2-79	C/o Karunshi Mepa Tank, At. Shinugra, Tal. Anjar, Distt. Kutch.
5645.	Pravinkumar Trivedi Liladhar	Vaidya Charya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	7443 21-12-79	Bhatia Bazar, At Porbandar, Distt. Junagadh.
5646.	Pravinkumar Trivedi Dhirajlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7939 17-1-81	2, Adarsh Society, Palace Road, At Palitana, Distt. Bhavnagar.
5647.	Pravinkumar Vyas Gangaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7548 22-2-80	Danodaria Vas, Nathaji Sheri, At Bhinoj, Tal. Chanma, Distt. Mehsana.
5648.	Pravinpari Gosai Amrutpari	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5294 23-3-76	At Amrapar (Sheta), Tal. Jamjoshpur, Distt. Jamnagar.
5649.	Pravinsinh Bodana Vakhatsinh	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1966	2172 21-9-66	Kharavas, Virbhai Gate, At Palanpur, Distt. Banaskantha.
5650.	Pravinsinh Gohil Motilal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1972	6478 1-2-79	50, Amrukunj Society, Choddodd, Road, Sarola Vadi, At Surat.
5651.	Pravinsinh Jadeja Nanbha	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3125 17-2-71	At Kuntasi, Tal. Maliya, Distt. Rajkot.
5652.	Pravinsinh Kharachiya Badharsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7349 29-10-79	At Danasoli, Tal. Valia, Distt. Broach.
5653.	Pravinsinh Parmar Chatrasinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5864 30-8-77	At Una (Bhesgun), Via Udhana, Distt. Surat.
5654.	Pravinsinh Solanki Harisinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5951 26-10-77	At Vaghodiya, Pathakfalia, Distt. Baroda.
5655.	Prema Patil B. Jiram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4434 22-7-74	Daxini Society, B. No. 8, Maninagar, A'bad
5656.	Premjibhai Sapavadia Shankerbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8619 93-1-83	At Ghanad, Tal. Lakhatar, Distt. Surendranagar.
5657.	Premjibhai Sinojiya Chhaganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	9125 13-8-84	At Mangadh, Post Ajitgadh, Via Halvad, Distt. Surendranagar.

1	2	3	4	5
5658.	Premchandra Sharma Narayandatt	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	6840 31-3-79	Krishnagar Hou, Colony, B.No. 20, Room 60. 236, Saijpur, Bogha, A'bad.
5659.	Premdasji Mahant Madhavdasji	Ayurved Madhyama, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1960	8098 20-6-81	Kabir Ay. Aushadhalaya, Kumbhar Sheri, At Morabi, Distt. Rajkot.
5660.	Premetiben Nakum Abhesinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8536 14-9-82	Rajpur Palia, At & Post Zaghadia, Via Ankleshmar, Distt. Broach.
5661.	Premila Ravat Nalavantsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5537 23-9-76	B/14/114, Govt. G. Colony, Rajpur, Gomatipur, A'bad.
5662.	Premilaben Behbhhatt Rughnathbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5330 3-4-76	At Jalsan, Tal. Khambhatt, Distt. Kheda.
5663.	Premji Desai Shivlalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5598 17-11-76	at Vankada, Tal. Morabi, Distt. Rajkot.
5664.	Premji Kapadia Ramjibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9565 23-9-86	At & Post Kotada, Pithada, Tal. Babara, Dist. Amreli.
5665.	Premjibhai Chaudhari Ghemarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3265 13-10-71	At Dadhiyal, Tal. Visnagar, Distt. Mehsana.
5666.	Premjitektumar Asvar Meghajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5295 29-3-76	At Padna, Tal. Lalpur, Distt. Jamnagar.
5667.	Premlatta Gupta Harishchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4859 28-5-75	Rajpur Tolnaka, Opp. Nagari Mill, Jagdish Pan House, At A'bad.
5668.	Premshanker Joshi Ranchhod	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8833 1-9-83	At Jalandhar (Gir) Via Malia-Hatinda, Dist. Junagadh.
5669.	Preranaben Patel Chhaganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8322 10-2-82	Sector No. 19, B. No. 230/3, C-1, Gandhinagar.
5670.	Priti Belani Ravichandbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9274 2-5-85	14/Virbhadrnagar, Society, Opp. Nilambag, Bhavnagar- 384 002.
5671.	Priti Dave Ramrai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9532 28-7-86	1926, Shri Arvindhor, Behind Rupani, At Bhavnagar-364 001.
5672.	Priti Desai Manubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9603 10-11-86	B/4, Jivanprabha, Kadampalli Road, Nanpara, At. Surat- 395 001.
5673.	Priti Nanavati Sukhvantrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4294 27-3-74	C/o Sukhvantrai H. Nanavati, Ambai Falia, Nagavada, At. Junagadh.
5674.	Priti Nayak Harishbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7594 14-3-80	16/20, Adhyapak Nivas, Gujarat Vidyapeeth, A'bad.
5675.	Pritima Thakar Dinkarra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3391 21-2-72	19, Nayaknagar, Near Sardarpatel Crossing, A'bad.
5676.	Pritipriya Upadhyay Pravinchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8454 15-6-82	Kala Nonoion, Vakilvadi, Epp. LG. Hospital, Maninagar, A'bad.
5677.	Priyavandan Shah Shantilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1957	2470 1-8-57	Jogidas Vithal's Pole, Ravapura, At. Baroda.
5678.	Priyabala Gandhi Mahendra	M.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1970	7928 29-12-80	Choki Sheri, Manpura, At. Surat.
5679.	Priyadarshana Bhavsar Jashvantlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3502 4-5-72	Moti Chhipvad, Epp. Bhadra Kacheri, At Baroda-6.
5680.	Priyakant Champaneti Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4968 4-10-75	At Bajana, Tal. Dasada, Distt. Surendranagar.

1	2	3	4	5
5681.	Priyavadan Vaidya Harilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7669 10-4-80	Indapura, Anbavadi, Kalipul, Main Road, Opp. Bileshwar Naha Dev, At. Surat.
5682.	Priyavandaban Pandya Navnitlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4286 25-3-74	C/o Navnitlal C. Pandya, Near Post Office, at. Borlavi, Tal. Anand, Distt. Kheda.
5683.	Premila Patil Rambhan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7743 6-6-80	C/o Vijay P. Patil, Pratapnagar, Police Qua., A. Centre, B. No. 324, At Baroda.
5684.	Premchand Patidar Punjaji	B.A.M.S., Vikram Univ., 1978	7056 21-6-79	At Dogargav, Tal. & Distt. Khegome, M. P.
5685.	Puja Manani Hasmukhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7753 3-7-80	Ramnagar, Bhagvati Krupa, At Rajkot.
5686.	Pukhraj Ramchandra	B.A.M.S., Vidharbha Board of AUSM, Maharashtra 1967	2863 12-12-69	Khankharipura, At & Tal. Taranu, Distt. Ujjain(M. P.)
5687.	Puna Gagera Bhikhu	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4111 9-11-73	At Lakhapadar, Via Lunidhar, Tal. Kukavav, Distt. Amreli
5688.	Punabhai Lakhani Nagjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6983 7-5-79	At Juna Ratanpar, Tal. Vallabhi- pur, Distt. Bhavnagar.
5689.	Punabhai Vadodariya Pragjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9145 10-9-84	C/o Dr. P. P. Vadodaria, Khodiarnagar Road, Varachh Road, Navjivan Clinic, Opp. Bhat's Wadi, At Surat.
5690.	Punabhai Patel Jamanadas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6089 21-3-78	At & Post Kasodi, Tal. Balasinor, Distt. Kheda.
5691.	Punabhai Valand Satabhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	1013 12-7-62	Lal Gate, Tal. Anand, Distt. Kheda.
5692.	Punimakumar Joshi Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6091 21-3-78	At & Post Hohd, Tal. Chikhali, Distt. Valsad.
5693.	Punita Shukla Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7866 16-10-80	Kamala Bhuvan, Jagmal Chowk, At junagadh.
5694.	Punjabhai Parmar Somanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7310 20-9-79	At Lodra, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
5695.	Punjabhai Patel Pragjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3693 23-11-72	At Kankarol, Tal. Himmatnagar, Distt. Sabarkantha.
5696.	Punjabhai Patel Ratanlal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1978	7128 18-7-79	At Kukas, Tal. Sinor, Distt. Baroda
5697.	Punjabhai Patel Manakabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7901 14-11-80	At & Post Halisa, Tal. Dahegam, Dist. A'bad.
5698.	Punjabhai Patel Vitthalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8164 10-9-81	At Akodara, Post Anmora, Tal. Himmatnagar, Distt. Sabarkantha.
5699.	Punjaji Vaghelal Senghaj	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3263 12-10-72	At. Vihar, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
5700.	Punjatal Savsani Narashi	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1966	7281 5-9-79	C/o Khimaji M. Zalavadiya's Hou., Baharpara, at. Manavadar, Distt. Junagadh.
5701.	Punrvast Agnihotri Girishkant	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1979	9033 16-4-84	Shanker Pharmacy, Ambali Pole, Raipur, A'bad.
5702.	Purnima Acharya Laxmi Chand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6087 21-3-78	195/3, Baibali's Estste, Under Kalt- pur Railway Bridge, A'bad.
5703.	Purnima Damaniya jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3505 5-5-72	Bala H. Ayu. College, At. Lodra, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.

1	2	3	4	5
5704.	Purnima Ilope Imenyual	M D. (Ay.), Gujarat Ay. Univ., 1977	6019 2-2-78	Shri G. Park, Near Dr. Thakor Nursing Home, Maninagar, A'bad.
5705.	Purnima Mavaid Jitendra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7913 3-12-80	6, New Kalpataru Society, Nav- jivan, A'bad
5706.	Purnima Mehta Dilipkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4883 1--6-75	Tilibai Appartment, B. No 26, 6th Floor, Dattari Road, Malad (East), Bombay-64.
5707.	Purnimaben Patel Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4311 2-4-74	Limade Chowk, At. Uttaresanda, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
5708.	Purushottam Abhani Shambhu	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	7143 24-7-71	At Motha, Post Sankhada, Tal. Una, Distt. Junagadh
5709.	Purushottam Agravat Anandram	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1962	7959 3-2-81	Ranavav, Chowk, At. Junagadh.
5710.	Purushottam Bhadaja Jivaraj	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1962	7095 10-7-79	At Khad, Pipali, Tal. Mandarada, Distt. Junagadh.
5711.	Purshottam Chavda Bhimji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3651 11-10-72	North Bhandar Road, Viradi, At. Porbandar, Distt. Junagadh.
5712.	Purshottam Harvani Fullaman	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8611 28-12-82	1, Murali Apptt. Vadaj, Near Shivaji Temple, A'bad.
5713.	Purshottam Jani Hemraj	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1958	7170 3-8-79	Sharavan Kanubhai's House, Behind Branch School, At. Savar- kunda, Distt. Bhavnagar.
5714.	Purshottam Joshi Nethalal	Ayurvedachary Dhanwatri A&U Tibbi Coll., Delhi 1941	2708 8-3-44	Hansabai Patyardhan's House, Miradatar's Tekara, Navabazar, Baroda.
5715.	Purshottam Kapadia Ujamsinhbhai	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksh Samiti, Baroda 1974	7133 19-7-79	8-A/86, Krushnanagar, Naroda Road, Saijpur Bogha, A'bad.
5716.	Purshottam Mistri Pragajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1964	8216 2-11-81	8/740, Amaliran Naka, Golab Press Mal, At. Surat.
5717.	Purshottam Nimbark Babu	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1952	7475 2-1-80	Shri Bhanvantari, Eye & Dental Clinic, At. Bhinmal, Distt. Jalor (Rajasthan).
5718.	Purushottam Patel Devidas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1957	571 1-7-58	At & Tal. Nigar, Distt. Surat.
5719.	Purshottam Patel Keshavlal	Vaidyacharya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1962	6650 28-2-79	214, Pradma Pole, Vadigam, Daria- pur, A'bad.
5720.	Purshottam Patoliya Gokaldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7668 10-4-80	At. Chhadavadi, Tal. Bhesan, Distt Junagadh.
5721.	Purshottam Rayal Babulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3563 29-8-72	At. Laghanaj, Tal. At & Distt. Mehsana
5722.	Purushottam Vaishnav Prabhudas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3294 1-12-71	At. Rampura, Via Joravarnagar, Tal. Vadhavan, Distt. Surendra- nagar.
5723.	Purshottambhai Gadhiy Ramjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4260 15-3-74	A. Shahpur, Tal. Dhandhuka, Distt. A'bad.
5724.	Purushottambhai Patel Bhailabhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	575 1-2-63	At. Vyara, Tal. Vaghodia, Distt. Baroda.
5725.	Purushottambhai Patel Laljidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3657 18-10-72	At. Kadajisan, Tal. Kadi, Distt. Mehsana
5726.	Purushottamdas Nimavat Mohandas	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1968	7276 15-9-79	At. Mekhatimbi, Via Kolaki, Tal Upadeta, Distt. Rajkot.

1	2	3	4	5
5727.	Purushottamdas Patel Chaturbhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963 H.P.A., P.G.T. Centre in Ay. Jamnagar.	576 26-6-63	At Post Virpur, Tal. Balasinor, Distt. Kheda.
5728.	Purushottamgiri Giri Sundargiri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2884 23-1-70	New Kumbharvada, Girinivas, At. Porbandar, Distt. Junagadh
5729.	Pushkar Brahmabhatt Manganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3478 11-4-72	At. Lalpur, Tal. Siddhapur, Dist Mehsana.
5730.	Pushpa Chaudhari Tukaram	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1963	2935 30-3-70	At. Shukla Tiruth, Tal & Distt, Broach.
5731.	Pushpa Ganatra Prani Vandass	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6010 21-1-78	74, Shivanagar Society, Ghatlodiya Road, A'bad.
5732.	Pushpa Jobanputra Mahendrakumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5430 18-6-76	4, Jayvimal Society, Godhasar, Madinagar, A'bad.
5733.	Pushpa Manchhani Bhagochand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5302 29-3-76	Gurumanak Cloth Stores, Tower Chowk, At. Kutiyana, Distt. Juna- gadh.
5734.	Pushpa Patel Jivrajbhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1962	581 17-9-62	Podar Street, Shantracruz, Bombay- 54.
5735.	Pushpa Patel Narsinhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4211 19-2-74	Dhruva Nivas, Char Rasta, Nani- nagar, A'bad.
5736.	Pushpa Shah Fulchandbhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1959	1176 31-3-60	14, Pankaj Society, Anandnagar, Sarkhej Road, Paladi, Ahmedabad-7.
5737.	Pushpaben Bhatt Ramshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3147 5-3-71	C/o S.P. Purohit, G-7, Klembic Colony, Baroda-6.
5738.	Pushpaben Joshi Devdattkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6267 11-9-78	39, Nilkamal Society, Nizampura, Baroda-1.
5739.	Pushpaben Joshi Martandray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5408 25-5-76	Hathi Pole, Dandiya Bazar, Baroda.
5740.	Pushpaben Patel Somabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5990 19-12-77	37, Thakkarabapa Colony, Near Ayu. College, Panigate, Baroda.
5741.	Pushpakumar Pandya Dahyalal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6723 9-3-79	At. Bidada, Tal. Mandavi, Distt, Kutch.
5742.	Puskaranand Brahmehari Raghnathdasji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3415 6-3-72	Shri Bala, Hanuman, Lodera, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
5743.	Pushpa Joshi Bhirendra	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1972	6566 15-2-79	66, Malavianagar, Goudal Road, Rajkot.
5744.	Pushpaben Shah Balavantray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	4928 5-8-75	11, Virat Society, New Sharda Mandir Road, A'bad
5745.	Pushpaben Soni Dahyalal	Ayurved Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1976	6570 16-2-79	Gayatri Ay. Clinic, Near Kanya Vidhyalaya Unza-384170.
5746.	Pushpakumar Shah trambaklal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay	1177 1-3-55	At. Vasad (Bazar), Tal. Anad, Distt, Kheda.
5747.	Pushpendra Bhatt Harilal	D.A.M., U.P. Ay. Maha. Patan (Baroda State), 1979	6674	1619, Rhanasuthar's Pole, Kihief Road, A'bad.
5748.	Radha Chauhan Khumansinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5134 27-1-76	24, Burmi Society, At. Anand, Distt. Kheda.
5749.	Radharani Gupta Ravichandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	8049 27-4-81	60-A, Railway Colony, At. Junagadh.

1	2	3	4	5
5750.	Radiklal Vidya Nanalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3023 7-8-70	10, Gandhipark, Harniroad, Baroda.
5751.	Radharani Pandya Harivallabh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7000 7-5-79	C/o Mukhiyaji Vaidya, 3/188/189, Roshan Mohalla, At. Agra (U.P.).
5752.	Radbheshyam Shah Ambalal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1965	1781 6-8-65	At. Sadara, Distt. A'bad.
5753.	Rageshri Mehta Krushnaprasad	B.A.M.S., Univ., of Bombay 1980	9229 19-2-85	C/o Bhatt Sudhir H. Adalaja's Hou., 2nd Floor, Race Course, Baroda.
5754.	Rageshwari Makevana Khushaladas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5193 25-2-76	B. No. 1 Alap Co. Hou. Society Near Parbadi, Ashram Road, Shantinagar, A'bad.
5755.	Rahematulla Ratnani Bahadurrali	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5460 14-7-76	Hifazal Manzil, Vadva Bavesara Kuva, At. Bhavnagar.
5756.	Radheshyam Agravat Raghunathdan	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	7093 7-7-79	Ram Temple (Bade), Alia Bada, Tal. & Distt. Jamnagar.
5757.	Radheshyam Chaturvedi	B.A.M.S., Indore Univ., 1975	6200 28-7-78	C/o P.N. Chaturvedi, At. Swgav, Dist. Khargav (M.P.).
5758.	Radheshyam Vadners Raghuvir	B.S.A.M., Indore Univ., 1976	8254 24-12-81	Talvada, Wadi, Near Swaminarayan Temple, Baroda.
5759.	Radhika Mehta Indukumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6360 4-10-78	7, Ramannagar Society, Maninagar, A'bad.
5760.	Raghav Domadiya Dayalal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2034 6-6-66	At. Nava Bandar, Post Delvada, Distt. Junagadh.
5761.	Raghavbhai Senta Shamajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5599 17-11-76	At. Gundarana, Tal. Mahuva, Distt. Bhavnagar.
5762.	Raghunath Patil Chhagan	B.A.M.S., Nagpur Univ., 1976	5830 6-7-77	At. Brahmanpuri, Tal. Shahada, Distt. Dhulia.
5763.	Raghunathji Nayak Zinabhai	Ayurved Alankara, Ay. Coll., Gurukul Univ., Kangri (Hardwar) 1927	479 31-3-41	At. Itola, Tal. & Distt. Baroda.
5764.	Raghunathsing Vansadiya Karansinh	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	1012 2-1-56	Golvad, At. Navsari.
5765.	Raghuram Mesvania Purshottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3943 7-5-73	At. Sendarada, Past Agatrai, Distt. Junagadh.
5766.	Raghuram Trivedi Dalsukhrām	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4298 27-3-74	At. Thara, Tal. Kankarej, Distt. Banaskantha.
5767.	Raghuvir Joshi Jayantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9200 30-1-85	C/o V.J. Joshi, E.L.C. (T.L.) At, Hapa, Distt. Jamnagar.
5768.	Raghuvir Kapadia Tulasidas	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1958	2649 1-7-58	C/o Mangash K. Balasari, Setan Falia, Att. Surat.
5769.	Raghuvirdas Tilavat Prabhudas	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1977	7607 18-3-80	Ghanshyam Plot, At. Veraval, Distt. Junagadh.
5770.	Raghuvirsinhji Chudasma Takhubha	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2130 5-8-66	C/o M.T. Chudasma, Soni Sheri, At. & Post Barvala (Ghelasha), Tal. Dhandhuka.
5771.	Ragini Patel Ranchhodlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9264 9-4-85	143, Paras Pipalawalal's Khancho, Nant Salaviwad, Saraspur, A'bad- 18.
5772.	Ragini Vaidya Lalitkumar	B.A.M.S., Bombay Univ., 1983	9524 1-7-86	Shah Nivas, 60/S.V. Road, Andheri (West), At. Bombay-58.

1	2	3	4	5
5773.	Ragunikumar Patel Bhailalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8682 3-3-83	Goliwala, At. Uttarsanda, Tal Nadiad, Distt. Kheda-387 370.
5774.	Rahim Ganiyani Alshmad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8217 2-11-85	Hajitalyav Abu Meman Boarding Hou. Opp. Salt Research, at. Bhavnagar.
5775.	Rahul Antani Kishorchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4725 1-4-75	C/o B.C. Antani Nagar, Chakla, At. Bhuj, Distt. Kutch.
5776.	Rahul Dave Narivadan	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9292 7-5-85	G/92/1104, Shivam Apartment Nava, Vadaaj, A'bad-13.
5777.	Rajabhai Travali Adamali	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1963	6705 9-3-79	At. Diva, Tal. Ankoghwar, Distt. Broach.
5778.	Rajan Soni Boghalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8366 17-3-85	C.L.F., B. No. 5, Near Ejanori Kacheri, Dr. Yagnik Road, Rajkot.
5779.	Rajan Upadhyay Dinkar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4700 29-3-7-5	Ramji Build, Char Rasta, Mora Bhagol Post Randar, Surat-5.
5780.	Rajani Gohel Premaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	6160 16-5-78	Near Ganesh Dairy, Khareva Road, At. Porbandar, Distt. Junagadh.
5781.	Rajani Joshi Bhanuprasad	M.D. (Ay.), Gujarat Ay. Univ., 1978	6692 3-3-79	C/o B.K. Joshi, Bala Hanuman Temple, At. Lodra, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
5782.	Rajani Kashyap Khandubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4841 9-5-75	4, Krishna Chaudhari Build, 9, Chandansar Road, Virad (East), Tal. Vasai, Distt. Thana.
5783.	Rajanikant Valabhdas	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1972	7275 15-9-79	Pipali Chora, At. Mangarol, Distt. Junagadh.
5784.	Rajanikant Bhatt Chandrakant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6344 4-10-78	15, Kamdurga Society, Naranpura, A'bad-13.
5785.	Rajanikant Dave Dhirajlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7559 29-2-80	Rugnathpara, Main Road, Shukla Nivas, At. Surat-3.
5786.	Rajanikant Dave Ravishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7698 29-4-80	Panjarapole, Popatnandan Sheri, At. Rajkot-3.
5787.	Rajanikant Geriya Harilal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1967	2505 7-6-67	C/o H.C. Geriya, Jinplot, At. Dho- raji, Distt. Rajkot.
5788.	Rajanikant Jani Kamalashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3220 9-8-71	C/o Radhaswami Savanbag, Bindu- sarovar Road, At. Siddhapur, Distt. Mehsana.
5789.	Rajanikant Joshi Maganlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1673 25-5-65	At. Dhank, Tal. Upleta, Via Bhaya- vada, Distt. Rajkot.
5790.	Rajanikant Joshi Lalluram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5570 13-10-76	10, Yogikrupa Society, Anand- nagar, A'bad.
5791.	Rajanikant Joshi Mohanlal	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	7274 15-9-79	At. Bhalgam, Via Bagasara (Bha- yani), Tal. Visavadar, Distt. Juna- gadh.
5792.	Rajanikant Mahajan Chhotalal	Ayurved Vishrad, B.I.M. Saurashtra, 1962	2206 25-4-62	S.M.P. Dohil, At. Gothib, Via Sukhsar, Tal. Sautranpur, Distt. Panchmahal.
5793.	Rajanikant Mehta Bhaichand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3944 8-5-73	At. Vadal, Tal & Distt. Junagadh.
5794.	Rajanikant Mehta Labhashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4655 15-3-75	Nagar Sheri, At & Tal. Dhrol, Distt. Jamnagar.
5795.	Rajanikant Patel Bapalal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1961	624 8-12-61	30, Swastik Society, Near Naknada School, At. Mehsana.

1	2	3	4	5
5796.	Rajanikant Patel Bhagvanbhai	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1966.	2155 31-8-66	18, Ramdas Society, Station Road, At. Shihor, Distt. Bhavnagar.
5797.	Rajanikant Patel Maganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4606 8-1-75	At. Samaraka, Tal. Anand, Distt. Kheda.
5798.	Rajanikant Patel Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4640 6-3-75	Kapasiya Hall, At. Palej, Distt. Broach.
5799.	Rajanikant Patel Revandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5748 31-3-77	At. Anandpura, Via Khervadi, Tal. Sankheda, Distt. Baroda.
5800.	Rajanikant Pathak Vishwanath	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1976	6948 1-5-79	Navlakha's Haveli, Bajvada, At. Baroda.
5801.	Rajanikant Patel Chunilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7931 29-12-80	Navadhara, At. & Post Navali, Tal. Anand, Distt. Kheda.
5802.	Rajanikant Raval Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3998 10-8-73	Pamol, Tal. Vijapur, Distt. Meh- sana.
5803.	Rajanikant Shah Mohanlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	1213 1-8-55	C/o Mohanlal S. Shah, At. Khelvad, Via Sayan, Distt. Surat.
5804.	Rajanikant Shah Lalubhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1958	210 1-12-58	54, Balasiner Society, G.B. Road, Bombay-67.
5805.	Rajanikant Shukla Shantilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1826 21-10-65	Shukla Nivas, Rugnathpura Road, Surat-3.
5806.	Rajanikant Shukla Durgashanker	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1974	6512 1-2-79	Shri Nivas, 13, Ramkrushna- nagar, At. Rajkot.
5807.	Rajanikant Shukla Jayantilal	Vaidyacharya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1966	7196 17-8-79	Bhojeshwar Plot, At. Porbandar, Distt. Junagadh.
5808.	Rajanikant Solanki Jagjivandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7307 20-9-79	At. & Post Rangpur (Bhal), Via Dhandhuka, Tal. Limadi, Distt. Surendranagar.
5809.	Rajanikant Soni Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4056 19-9-73	At. Kesindra, Tal. Sakheda, Distt. Baroda.
5810.	Rajanikant Talati Shantilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	295 23-10-61	Vadavali Chal, Behind Krishna Cinema, Panjara Pole, Ahmedabad.
5811.	Rajanikant Thakar Labhshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5258 8-3-76	At. Sarsiya, Via Dhari, Distt. Am- reli.
5812.	Rajanikant Vaidya Balmukund	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6042 16-2-78	7/2602, Saiyadpura, Vayadcheri, At. Surat.
5813.	Rajanikant Vasani Hajljiivan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5262 8-5-76	At. Kotada, Pitha, Tal. Babara, Distt. Amreli.
5814.	Rajanikant Upadhyay Haribhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4711 29-3-75	At. Salad, Tal. & Distt. Baroda.
5815.	Rajanikant Patel Purshottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4229 22-2-74	At. Rajbodali, Tal. Jetpur, Pavi, Distt. Baroda.
5816.	Rajanishkumar Bhananai Arjunbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5760 14-4-77	At. Balaubha, Via Dhrol, Distt. Jamnagar.
5817.	Rajenbhai Bhagat Rameshbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6196 15-7-78	At. & Post Kesindra, Tal. San- kheda, Distt. Baroda.
5818.	Rajendra Acharya Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8960 12-3-84	4, Amrakunj Society, No. 2, Behind Dinesh Mill, Near Nehrupark, At. Baroda-18.

1	2	3	4	5
5819.	Rajendra Bhavsar Babaldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4706 29-3-75	23, Sarvodaya Govt. Society, At. Mehsana.
5820.	Rajendra Chaudhari Harisinh	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9640 5-12-86	10/Gurukul Society, Vinagar Road, At. Mehsana-384 001.
5821.	Rajendra Joshi Kanubhai	B.A.M.S., Poona Univ., 1971	3772 8-2-73	At. Kukarvada, Tal. Vijapur Distt. Mehsana.
5822.	Rajendra Hathi Natvarlal	Bhishagacharya, R.A.V. Pariksha Mandal, Ajmer 1965	7617 18-3-80	Govt. Officers Colony, B. No. T-5, Behind New Mental Hospital, A'bad.
5823.	Rajendra Hathi Kaushikarai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3491 19-4-72	1, Ganesh Society, R.D. Desai Road, Baroda.
5824.	Rajendra Patel Chaturbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5514 2-9-76	At. Ras, Tal. Borasad, Distt. Kheda.
5825.	Rajendra Raval Ramprasad	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1977	6809 22-3-79	34-A, Udyognagar Society, Govt. Ay. College Ajava Road, Baroda.
5826.	Rajendra Sangavi Amrutlal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1966	2356 6-1-67	Sanghaniya Bazar, Sukhnath Chowk, At. Junagadh.
5827.	Rajendra Thakkar Chhotalal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1960	273	1163, Salvinl Pole, Opp. Hamalpur, Pagathiya, A'bad.
5828.	Rajendra Thakar Kantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9566 23-9-86	"Varahikrupa," Patel Colony-4/5, Road, No. 2, At. Jamnagar.
5829.	Rajendra Vakhariya Kevachand	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1957	999 1-8-57	Sheri No. 4, Chhaya Plot, Opp. E.S.I. Dispensary, At. Porbandar, Distt. Junagadh.
5830.	Rajendra Yadav Ramlakhan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8264 31-12-81	Matvarlal's Chal, Behind Ahalkiya Mill, Maninagar, A'bad.
5831.	Rajendrabhai Raj Gulabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8570 20-10-82	Joshi Falia, At. Mehobal, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
5832.	Rajendrakumar Desai Amrutlal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6487 1-2-79	57, Mahadev Falia, At. Udhana, Tal. Charyashi, Distt. Surat.
5833.	Rajendrakumar Desai Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8732 19-4-83	At. Dakhkhanvada, Post, Devadh, Via Udhans, Distt. Surat.
5834.	Rajendrakumar Jani Kishorchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8479 3-8-82	Vadava, Padar Dovadi, Bhavsar Sheri, Maneukhlal, Dela, Bhavnagar.
5835.	Rajendrakumar Joshi Bhogirathprasad	B.A.M.S., Indore Univ., 1975	5845 3-8-77	B. No. 111, R. No. 572, Bapunagar, A'bad.
5836.	Rajendrakumar Mehta Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6083 15-3-78	National Medical & Provision Stores, At. & Post Idar, Distt. Sabarkantha.
5837.	Rajendrakumar Parmar Keshvavlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9642 31-12-86	C/o K.L. Parmar, 2/B, Adarsh Society, Pavanchaki Road, At. Nadiad, Distt. Kheda.
5838.	Rajendrakumar Patel Vasrambhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1960	627 1-7-60	At & Tal. Gariyadhar, Distt. Bhavnagar.
5839.	Rajendrakumar Patel Bahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6217 3-8-78	Pitru Chaya Bail, At & Post Vadhasi, Tal. Anand, Distt. Kheda.
5840.	Rajendrakumar Patel Chhatubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7427 12-12-79	Kadava Patidar's Nath, At. Godhava, Tal. Visanagar, Distt. Mehsana.
5841.	Rajendrakumar Patel Purushotamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7813 15-9-80	Patel Paliyu, At. Vasana, Tal. Sankheda, Distt. Baroda.

1	2	3	4	5
5842.	Rajendrakumar Patel Ganapathbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9404 19-10-85	Bhojak Bhuvan, 24, Suryakunj Society, Ghatlodia, A'bad.
5843.	Rajendrakumar Patel Kantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9597 23-10-86	At & Post Modeti, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
5844.	Rajendrakumar Raval Prahadbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	7066 30-6-79	At. Natramali, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
5845.	Rajendrakumar Raval Jaydevprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7990 25-2-81	Arya Sadan, Post Thapi, Tal. Vad- gan, Distt. Banaskantha.
4846.	Rajendrakumar Shah Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5221 27-2-76	142, Parbdi's Pole, Raipur Chakalu, A'bad.
5847.	Rajendrakumar Shah Jashvantlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5902 20-9-77	At. Baraja, Tal. Saseroi, Distt. A'bad.
5848.	Rajendrakumar Shukla Bhogilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7882 14-11-80	At & Post Meu, Tal. & Distt. Meh- sana.
5849.	Rajendrakumar Solanki Shambhuprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6984 7-5-79	At. Lilia Mota, Tal. & Distt. Amreli.
5850.	Rajendrakumar Chandulal Shah Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3618 25-9-72	At. Limbashi, Tal. Matar, Distt. Kheda.
5851.	Rajendrakumar Trivedi Kundanlal	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1978	8799 5-7-83	Terna 11, Rajanishmruti Society, Opp. Apang-Manav Mandal, Veira- pur Road, A'bad.
5852.	Rajendrakumar Trivedi Kanaiyalal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9132 10-9-84	C/o K.K. Trivedi, At. & Post Rudan, Tal. Mehmdavad, Via Nadiad, Distt. Kheda.
5853.	Rajendrakumar Vaidya Govindlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8854 6-10-83	Opp. Parbadi Bazar's At. Ankalav, Tal. Borsad, Distt. Kheda-388 510.
5854.	Rajendrakumar Vyas Vrujlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8664 16-2-83	Cinema Road, At. Bhiladi, Tal. Disa, Distt. Banaskantha.
5855.	Rajendrakumar Vyas Harshadrai	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1979	9036 10-5-84	2829, Piparadi's Pole, Raipur, A'bad.
5856.	Rajendraprasad Bhatt Keshavlal	L.A.M., U.P. Ay. Maha. Patan (Baroda State), 1939	857 30-4-41	Vaniya Sheri, At. Palsana, Via Maroli, Distt. Valsad.
5857.	Rajendraprasad Bhatt Niralal	Ayurved Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1966	7145 24-7-79	Shamal Bahochar's Pole, Dr. Cha- ndrakant Dixit, Khadaki, At. Baroda.
5858.	Rajendraprasad Bhattnagar Bhagvandas	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1976	9641 5-12-86	E/61, Adinathnagar, Mamnagar, A'bad-52.
5859.	Rajendraprasad Jani Natvarlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2769 17-4-69	At. Kaheda, Tal. Siddhapur, Distt. Mehsana.
5860.	Rajendraprasad Joshi Harishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3271 26-10-71	At. Ubhoran, Tal. Malapur, Via Dhansure, Distt. Sabarkantha.
5861.	Rajendraprasad Mehta Jaydevbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6824 22-3-79	At. Kot (Gangad), Tal. Dholaka, Distt. A'bad.
5862.	Rajendraprasad Patel Babubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5999 27-12-77	At. Veniyad, Tal. Sinor, Distt. Baroda.
5863.	Rajendraprasad Purani Dhirajlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	718 2-1-56	Vahorwad's Naka, At. Kapadvanj, Distt. Kheda.
5864.	Rajendraprasad Shukla Narharishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4639 6-3-75	At. Dahoj, Tal. Vagara, Distt. Broach.

1	2	3	4	5
5865.	Rajendraprasad Trivedi Rovashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3404 25-2-72	At. Post St. Pansar, Pipalaya's Tal. Kalol, Distt. Mehsana.
5866.	Rajendrasinh Borasia Pratapsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8761 11-5-83	At. & Post Daheli, Tal. Valia, Distt. Broach.
5867.	Rajendrasinh Pavar Udaysinh	B.A.M.S., Indore Univ., 1972	8231 24-11-81	77, Jawahar Marg, Barvaha, Tal. Barvaha, Distt. Khargov (M.P.).
5868.	Rajendrasinh Prabhatsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8061 27-4-81	Darbar Khadaki, At. Bhumel. Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
5869.	Rajendrasingh Karmaria Umedsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6104 28-3-78	At & Post Khelvad, Tal. Kamrej, Distt. Surat.
5870.	Rajendrasinh Parmar Sajansinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8240 9-12-81	At. & Post Diva, Tal. Ankleswar, Distt. Broach.
5871.	Rajendrasinh Zala Dilavarsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6246 19-8-78	Saravodya Society, At. Than, Tal. Chotila, Distt. Surendranagar.
5872.	Rajesh Anandjivala Chanshyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7730 29-5-80	M-E/47, Pragatinagar, Bchind Vijaynagar, Naranpura, At. A'bad.
5873.	Rajesh Dave Pinakin	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7888 14-11-80	5, New Umiya Vijay Society, Near Rannapark, Ghatlodia, A'bad.
5874.	Rajesh Shingala Dhirajlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8900 24-1-84	27, Sadguru Society, Near Koch House, Ay. Chikitsa Road, At. Jamnagar.
5875.	Rajeshkumar Dave Kumudchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6316 27-9-78	Taj Build., Near Shahalam Gate, Maninagar, A'bad.
5876.	Rajeshkumar Joshi Hasmukhrao	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6214 3-8-78	C/o Manaj Joshi, Orthopedic Surgeon, Vas Rajeshwar Flat, Near Kothavala Build., Pritam- nagar, A'bad.
5877.	Rajeshkumar Joshi Madhusudan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8279 16-1-82	Dani Fali, Boradi Bazar, Viram- gam Distt. A'bad.
5878.	Rajeshkumar Joshi Surendrakumar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8989 12-3-84	At. & Post Kharvasa, Tal. Chor- yasi, Distt. Surat-394 210.
5879.	Rajeshkumar Makwana Kunvarjibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9336 9-8-85	7/A, 2133, Bharatnagar, Bhavnagar.
5880.	Rajeshkumar Patel Jayarambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5188 21-2-76	At. Chittal, Distt. Amreli.
5881.	Rajeshkumar Pathak Balkrushnabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8992 28-3-84	Station Road, Near Chitharia Hanuman, At. Shihor, Distt. Bhavnagar.
5882.	Rajeshkumar Shah Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6250 23-8-78	At. & Post Raheda, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
5883.	Rajeshkumar Sheh Nanubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6947 25-4-79	At. Maroli, Tal. Dasaroi, Distt. A'bad.
5884.	Rajeshkumar Shah Hiralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8311 5-2-82	Mali Falia, At. & Post Nar, Tal. Potlad, Distt. Kheda-388 550.
5885.	Rajeshkumar Vaidya Gajanand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8787 16-6-83	C/o Dr. Gajanand B. Vaidya, At. Gandevi, Distt. Valsad.
5886.	Rajeshkumar Vyas Pritamlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6820 22-3-79	At. Ranpur, Tal. Dhandhuka, Distt. A'bad.
5887.	Rajeshkumar Vyas Ramanlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9451 23-12-85	At. & P.O. Mandir, Via. Vedchha, Distt. Valsad.

1	2	3	4	5
5888.	Rajeshri Mehta Mayur	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6143 19-4-78	C/o Suryankant M. Mehta 6, Nivamt Bajaj Road, Vile Parlc, At. Bom- bay-36.
5889.	Rajeshri Talsaniya Mugutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6930 17-4-79	26, Amrukunj Society, Ramnagar, Sabarmati, A'bad.
5890.	Rajeshwari Hebale Ramchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8863 1-11-83	No. 92, 7th Sheri, loar Palace Road, Orchard, At. Bangalore-3.
5891.	Rajeshwari Vaidya Ramakant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4999 17-10-75	Sultanpura, Desai's Khancha, At. Baroda.
5892.	Rajitsinh Solanki Balusinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8298 5-2-82	At. & Post Amodara, Tal. Bayad, Distt. Sabarkantha-383 331.
5893.	Rajkamal Puranik Rajendraprasad	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8998 28-3-84	Shri Arvind Cendra, Satyajam, Tithal Road, At. Valsad.
5894.	Rajkumar Goyal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	5707 24-2-77	B-1, Ay. Colony, At. Jamnagar.
5895.	Rajnika Joshi Kanchanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3559 23-8-72	Laxminarayan Society, Block No. 80, Maninagar, A'bad.
5896.	Rajnikant Bhatt Bhikhyabhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1953	854 1-7-53	Kalpna, Anupam Society, At. Halol, Distt. Panchmahal.
5897.	Rajnikant Bhatt Chunilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	853 1-3-56	At. Chanchvel, Tal. Vagra, Distt. Broach.
5898.	Rajnikant Bhatt Manusukhlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2061 21-6-66	Dhanvantari, 562-B, Manekvadi, Near Akhada, Bhavnagar.
5899.	Rajnikant Bhatt Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2766 17-4-69	Rani Bazar, At. Mortbi, Distt. Rajkot.
5900.	Rajnikant Shah Jethalal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	2005 19-4-66	A/6/1, Shastri Park, Karoli Bag, Baroda-18.
5901.	Rajnitkumar Pathak Mulshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8009 17-3-81	At. & Post Sadhi, Tal. Padura, Distt Baroda.
5902.	Rajkumar Joshi Chandulal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9238 12-3-85	C/o Prakash Printing Press, At. & Post, Mansa, Tal. Vijapur, Meh- sana-383 845.
5903.	Rajkumari Varma Bhagvansing	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8668 16-2-83	46/47, Jayantilal Chunilal House, Chamanpura.
5904.	Rajulkumar Raval Kumudchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7697 29-4-80	Joshi Falia, Ashapuri, Road, At. Bhuj-Kutch.
5905.	Rakesh Shah Suryakant	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9317 25-7-85	Rangnagar Society, At. Amroli, St. Uttarana, Tal. Choryasi, Distt. Surat.
5906.	Rakesh Shastri Chandiprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6330 4-10-78	23, Tapovan Society, Ambavadi, A'bad.
5907.	Rakesh Sheth Balkrushna	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9388 23-9-85	14/A, Jaykrushna Society, Ramwadi Bus Stand, Isan-pur, A'bad.
5908.	Rakeshkumar Jain Shekharchandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8939 17-2-84	6, Umiyadevi Society-Devi No. 2, Near Gopalnagar, Amaravadi, A'bad-26.
5909.	Rakeshkumar Jain Nahendrakumar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9311 2-7-85	9/101, Najarinagar, Meghani-A'bad- 16.
5910.	Rakeshkumar Pathak Madkusudan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6141 19-4-78	Soni Falia, Near Tower, At, Post & Tal. Vaghodia, Distt. Baroda.

1	2	3	4	5
5911.	Rakeshkumar Pathak Ramanlal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1979	9580 23-9-86	At. Kantharia, Tal. Borsad, Distt. Kheda.
5912.	Rakeshkumar Thakor Khatarabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8822 11-8-83	At. Jashavantpara, Post. Sanali, Vla. Ambaji, Tal. Danta, Dist. Banaskantha.
5913.	Rakeshkumar Trivedi Navinchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7001 16-5-79	Munlight, Near State Bank, At. Himmatnagar, Distt. Sabarkantha.
5914.	Rama Vora Hansrajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3477 11-4-72	Dr. Ramaben RL Panelia, Kadiya Line, State Bank of Saurashtra, At. Gondal, Distt. Rajkot.
5915.	Rama Mehta Bhanuprasad	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1953	920 2-1-54	Tejas, Kumbhar Vas, Peles Road, Rajkot.
5916.	Rama Nandaniya Bhoja	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6237 19-8-78	At. Manaj, Tal. Hangarel, Distt. Junagadh.
5917.	Ramaben Jadav Shamajibhai	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1958	7239 30-8-79	Kadiyavad, Lakhani Sheri, At. Jamnagar.
5918.	Ramabhai Patel Bhavanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3149 6-3-71	At. Dungari, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
5919.	Ramabhai Jekabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	7399 27-11-79	At. Mahudi, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
5920.	Ramabhilash Pandey Vasudev	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1960	2459 1-5-60	Ay. Dispensary, At. Kahada, Post Halamati, Distt. Rajkot.
5921.	Ramaji Bluva Thakarshibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	6341 4-10-78	At & Post Sultanpur, Tal. Gondal, Distt. Rajkot.
5922.	Ramajibhai Babaria Jadavbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6223 10-8-78	At Davaki Galal, Tal. Jetpur, Distt. Rajkot.
5923.	Ramakant Mehta Ramkrishna	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	921 1-9-55	Balkrishna Bhavan, 4, Patel Society, Ellisbridge, Ahmedabad.
5924.	Ramakant Rajyaguru Mulshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4716 31-3-75	20, Manhar Society, Opp. Swami Narayan Temple, Maninagar, A'bad.
5925.	Ramakant Raval Manishanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1953	2577 15-7-53	Station Road, At. Veraval Port, Distt. Junagadh.
5926.	Ramakant Shah Hiralal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1945	2395 3-11-41	Lakadpitha Road, Shantadevi Tokiz, Baroda.
5927.	Raman Patil Chhagan	B.A.M.S., Nagpur Univ., 1973	4538 4-10-74	At. Padlada, Tal. Shahada, Distt. Dhuliya.
5928.	Ramanbhai Chaudhary Chhaniabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5303 29-2-76	At. Kaher, Tal. Valod, Distt. Surat.
5929.	Ramanbhai Dhobi Shankerbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4044 12-9-73	At. Vadu, Tal. Padara, Distt. Baroda.
5930.	Ramanbhai Mistri Rambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3702 30-11-72	At. Kabilpor, Distt. Valsad.
5931.	Ramanbhai Patel Naranbhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2120 22-7-66	At & Post Akhadol, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
5932.	Ramanbhai Patel Naranbhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2473 3-5-67	At. Baroliya, Tal. Dharampur, Distt. Valsad.
5933.	Ramanbhai Patel Muljibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3148 5-3-71	At. Detroj, Tal. Viramgam, Distt. A'bad.

1	2	3	4	5
5934.	Ramanbhai Patel Khermdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3359 15-2-72	At. Laghnaj, Tal. & Distt. Meh- sana.
5935.	Ramanbhai Patel Bahecharbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3662 19-10-72	At. Dabhau, Tal. Pflad, Distt. Kheda.
5936.	Ramanbhai Patel Vestabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3987 7-8-73	At & Tal. Ahava, Distt. Dang.
5937.	Ramanbhai Patel Chhaganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5625 15-12-76	At. Lasanpor, Via. Anaval, Tal. Mahuva, Distt. Surat.
5938.	Ramanbhai Patani Amathabbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6068 15-3-78	Asarava, Chamanpura, Ptani-nagar Society, A'bad.
5939.	Ramanbhai Patel Vadilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5898 20-9-77	At. Karanpara, Tal. Kadi, Distt. Mehsana.
5940.	Ramanbhai Patel Kashibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	6325 4-10-78	At & Post Joshipura, Tal. Borsad, Distt. Kheda.
5941.	Ramanbhai Panchal Maganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6458 15-1-79	At & Post Mandava Busarga, Tal. Ankleshwar, Distt. Broach.
5942.	Ramanbhai Patel Raghavbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6755 15-3-79	B. No. 685/4495, Nava Bapunagar, A'bad.
5943.	Ramanbhai Patel Ichchhubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8967 12-3-84	At. & Post Valvada, Tal. Mahuva, Via Karchella, Distt. Surat.
5944.	Ramanbhai Thakkar Bhikhabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2939 3-4-70	At. Gorva Bazar, Baroda.
5945.	Ramanbhai Valand Ramanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7663 10-4-80	At & Post Punsari, Tal. Prantij, Distt. Sabarkantha.
5946.	Raman Patil Nilkanth	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, Maharashtra, 1967	3705 1-1-72	At. Vadhoda, Tal. Chopada, Distt. Jalga.
5947.	Ramaniklal Valani Shamajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5914 11-10-77	Patel Sheri, At. Bhayavadar, Tal. Upaleta, Distt. Rajkot.
5948.	Ramaniklal Bhatt Kanajibhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1961	3292 26-11-71	Shri Guruprasad Co. Hou. Society, Block No. 20, Malavianagar, Gondala Road, Distt. Rajkot.
5949.	Ramaniklal Bhatt Jethalal	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1960	7111 16-7-79	Central Bank Build., Bhatt Fali, At. Jamnagar.
5950.	Ramaniklal Bhojani Bhagvanji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3236 1-9-71	C/o Bhojani Kotaju & Co. Sardar Road, At. Morbi, Distt. Rajkot.
5951.	Ramaniklal Chudasama Mohantal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6280 20-9-78	At & Post Padana (Vachharavali), Tal. Lalpur, Distt. Jamnagar.
5952.	Ramaniklal Damaniya Gandabhai	L.A.M., U.P. Ay. Maha. Patan (Baroda State)	2011 8-10-41	At & Post Godsamba, Tal. Man- davi, Distt. Surat.
5953.	Ramaniklal Dave Sunderji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3360 15-2-72	Salpipalia, Tal. Paddhari, Distt. Rajkot.
5954.	Ramaniklal Gandhi Mulajibhai	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1958	7771 17-7-80	Station Road, At. Dakor, Tal. Tha- cara, Distt. Kheda.
5955.	Ramaniklal Jarsaniya Madhavjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5734 15-3-77	At Moti Marad, Via Dhoraji, Distt. Rajkot.
5956.	Ramaniklal Joshi Motilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1946	243 30-10-46	Sanskar, Block No. 2, Hirachand Desai Road, Bombay-77.

1	2	3	4	5
5957.	Ramaniklal Joshi Jayshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3926 19-4-73	At Jira Road, Tal. Savarkundala, Distt. Bhavnagar.
5958.	Ramaniklal Joshi Gulabrao	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	7092 7-7-79	At. Ranavan, Distt. Junagadh.
5959.	Ramaniklal Kalariya Kanjiabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9511 12-6-86	At & Post Gigan, New Plot- 360530, Via. Jamjodhpur, Distt. Jamnagar.
5960.	Ramaniklal Kanabar Keshavji	Vaidya Charya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1971	6798 21-3-79	At Viradi, Tal. Malia-Mantina, Distt. Junagadh.
5961.	Ramaniklal Maradiya Odhavji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	5476 31-7-76	At Rayadi, Tal. Jaskandorana, Distt. Rajkot.
5962.	Ramaniklal Moshi Kalidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	17-8-72	At Sandha, Via. Keshod, Tal. Mangrol, Distt. Junagadh.
5963.	Ramaniklal Patel Chunilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	615 1-3-56	Bhogilal Contractor's Dungal's Kankaria Road, Opp. Juni Milk Dairy, A'bad.
5964.	Ramaniklal Patel Ranchhodbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4624 12-2-75	At. Navagam, Tal. Kalavad, Shi- tala, Distt. Jamnagar.
5965.	Ramaniklal Rathod Chhaganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2885 23-1-70	C/o Memans Sheri, At. Tankara, Distt. Rajkot.
5966.	Ramaniklal Shah Lalchandbhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat	1218 31-3-60	At Vadhai, Tal. Ahava, Distt. Dang.
5967.	Ramaniklal Sheladiya Durlabhji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5759 14-4-77	At. Rugnathpur, Via Chalala, Tal. Khambha, Distt. Amreli.
5968.	Ramaniklal Thakar Dhirajlal	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1956	6894 12-4-79	Ay. Dispensary, At. Shapur, Post. Bed, Distt. Jamnagar.
5969.	Ramaniklal Upadyay Vrujlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3745 2-2-73	Near Masjid, At. Mahika, Via. Vakaner, Distt. Rajkot.
5970.	Ramanilal Parekh Harjivandas	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1963	2332 9-12-66	Library Road, At & Tal. Bhari, Distt. Amreli.
5971.	Ramanlal Daraji Somanath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5418 4-6-76	Meghaninagar, B. No. 82, R. No. 1958, A'bad.
5972.	Ramanlal Joshi Adityaram	A.V.V., I.M. Vidyapeeth, Poona 1946	241 1-10-46	4/A, Sudamapuri Society, Mazal- pur Road, Baroda.
5973.	Ratanlal Parmar Pannabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8944 17-2-84	At & Post Semodra, Tal. Palanpur, Distt. Banaskantha.
5974.	Ramanlal Patel Haribhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1953	1547 1-10-53	At. Chalala, Distt. Amreli.
5975.	Ramanlal Patel Dayaljiabhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat	620 17-1-62	At. Tadkeshwar, At. Kim, Distt. Surat.
5976.	Ramanlal Patel Shankerbhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	614 9-7-63	At. Kochindra, Tal. Sankheda, Distt. Baroda.
5977.	Ramanlal Patel Ishwardas	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	7025 15-6-79	3, Shrijiprakash Society, Amaral- vadi, A'bad.
5978.	Ramanlal Patel Nagajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7684 22-4-80	4/31, Gujarat Hou. Board, Behind New Civil Hospital, A'bad-16.
5979.	Ramanlal Shah Chhotalal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1958	4212 2-6-58	At. Totana, Via Palanpur, Tal. Kankarej, Distt. Banaskantha.

1	2	3	4	5
5980.	Ramanlal Shah Chandulal	G.F.A.M., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	2572 21-8-67	Dhari Ranavav Building, Ran- nagar, Sabarmati, A'bad.
5981.	Ramanlal Trivedi Karunashanker	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1972	6965 4-5-79	At. Jamaka, Tal. Dhari, Distt. Amreli.
5982.	Ramanlal Vaidya Nathushanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1948	1052	At & Post Dandi, Via. Navsuri, Distt. Valsad.
5983.	Ramanlal Vaidya Chandulal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1950	1051 30-12-50	At. Mobha Road, Tal. Padra, Distt. Baroda.
5984.	Ramanlal Vyas Ganapatram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4333 16-4-74	At. Chansol, Tal. Kheralu, Distt. Mehsana.
5985.	Rambhaben Rathod Lalajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8605 13-12-82	Siddharth Chowk, Dakholi, At. Surat.
5986.	Rambhai Khuman Sidhibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5613 3-12-76	At. Khambhalali, Post Ranpur, Tal. Bhesan, Distt. Junagadh.
5987.	Rambhai Kotadiya Karamshi	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1967	2510 13-6-67	C/o Pathak Velaji Gokal's Co., Near Sutharvav, At. Keshed, Distt. Junagadh.
5988.	Rambhai Ododara Vejabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	8284 25-1-82	Ay. Ladies Hostel, Jamnagar.
5989.	Rambhai Patel Mathurbhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1957	625 1-8-57	Medical Officer, At & Tal. Dhanera, Distt. Banaskantha.
5990.	Rambhai Patel Chhitabhahi	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2930 20-3-70	Navjivan Society, Block No. 5, Ajva Road, At. Baroda.
5991.	Rambhai Patel Joitaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2945 6-4-70	At. Himmatnagar, Post. Bakhor, Distt. Sabarkantha.
5992.	Rambhai Patel Jethidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3365 16-2-72	At & Post Nadishala, Tal. Viram- gam, Distt. A'bad.
5993.	Rambhai Patel Durlabhbbhai	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ., 1975	5658 29-1-77	Zanda Chowk, Sushrut Clinic. At. Khergam, Tal. Chikhali, Distt. Valsad.
5994.	Ramchand Velecha Sadhuumal	Vaidya Charya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1972	7667 10-4-80	Sindhi Colony, At. Pondaoch.
5995.	Ramchandra Anant Sitaramdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8192 12-10-81	At. Dabaka, Tal. Padara, Distt. Baroda.
5996.	Ramchandra Bhatt Shantilal	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1967	7148 25-7-79	Ay. Dispensary, At. Bhurakhia, Via. Dannagar, Distt. Amreli.
5997.	Ramchandra Bhave Gopinath	B.A.M.S., Vidharbha Board of AUSM, Maharashtra 1967	5427 24-6-76	217, Bahucharnagar Society, Opp. Momi Daing Mill, Ved Road, Post Singarpore, Surat.
5998.	Ramchandra Chaudhari Prasad Chandra	H.P.A., P.G.T. Centre in Ay. Jamnagar 1955	183 3-5-62	Divakar Family & Hospital, Yojana, Shri Chandranivas, Haripura, Mani- nagar, A'bad.
5999.	Ramchandra Devmurari Janakidas	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1976	7245 30-8-79	Opp. Mahajan Vadi, Ramkrupa- bhavan, At. Moti Kukavav, Tal. Kukavav, Distt. Amreli.
6000.	Ramchandra Gavande Narayanrao	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, Maharashtra 1961	1628 9-4-65	At. Godhara, Tal. Mandavi, Distt. Kutch.
6001.	Ramchandra Jog Trimbak	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1959	8365 17-3-82	Hog Hou., Nava Deva, Near Kanya Shala, Broach-392 001.
6002.	Ramchandra Rajput Dharampal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9189 11-12-84	12/54, Ahmed Sultan Chali, Opp. Govt. G. Colony, Rajpur, Gomati- pur, A'bad-21.

1	2	3	4	5
6003.	Ramchandra Maurya Ramswarup	Ayurved Shastri, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1979	8606 28-12-82	VachalaFalia,At & Post Nandakh, Via Bilimora, Distt. Valsad.
6004.	Ramdutt Raval Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5129 23-1-76	75, Nandan Society, Bahai Centre, Shahpur, A'bad.
6005.	Ramdevdas Vaishnav Ramdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4952 23-9-75	Shree Bala Hanuman Ashram, At. Lodra, Distt. Mehsana.
6006.	Ramesh Chaudhari Vithal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4690 24-3-75	40/1, Sadhana Nagar, Kareli Bag, At. Baroda.
6007.	Ramesh Joshi Kashinath	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, Maharashtra, 1967	3957 13-6-73	At. Singpur, Tal. Songadh, Distt Surat.
6008.	Ramesh Joshi Ghunilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6358 4-10-78	B/2/42, Ravi Park, "Madhuvrond," Near Swami Akhanganand Society, Behind Pragatinagar, Ghatlodia, A'bad.
6009.	Ramesh Fadake Gopalrao	Ayurved Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1976	6786 21-3-79	Ranaji Mandir's Pole, Opp. Govt. Press, Ravpura, Baroda-1.
6010.	Ramesh Pandit Ranchhoddas	Ayurved Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1976	6494 1-2-79	48, Malavianagar, Ramanuj, At. Rajkot.
6011.	Ramesh Rathod Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	9089 20-7-84	Bhalgam Gait, Bahelapara, At. Limbadi, Distt. Surendranagar.
6012.	Ramesh Tanna Govindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5252 8-3-76	442/A, Sardarnagar, A'bad.
6013.	Ramesh Trivedi Gaurisbanker	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1962	329 30-8-62	Coronation Shiping Agency, Por- bandar.
6014.	Ramesh Vaghela Hiralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6750 15-3-79	At. Parvadi, Distt. Bhavnagar.
6015.	Rameshbhai Patel Narsinhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3814 26-2-73	Samaji Chakala, At. Nandia, Distt. Kheda.
6016.	Rameshbhai Desai Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3995 7-8-73	At. Lingada, Tal. Anand, Distt. Kheda.
6017.	Rameshbhai Patel Bhimbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4368 3-5-74	At. Prakasha, Tal. Shahada, Distt. Dhulia.
6018.	Rameshbhai Patel Chaturbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4458 27-8-74	At. Karchiya, Tal & Distt. Baroda.
6019.	Rameshbhai Patel Mahijibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4979 15-10-75	At. Kinkhalol, Tal. Borsad, Distt. Kheda.
6020.	Rameshbhai Patel Dhanabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5862 30-8-77	At. Manajipura, Tal. Thsara, Distt. Kheda.
6021.	Rameshbhai Patel Khandubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6015 2-2-78	At. Kakadmadhi, Post Faldhara, Tal & Distt. Valsad.
6022.	Rameshbhai Patel Ramajidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8172 10-9-81	At. Khanpura, Post Unad, Tal. Khoralu, Dist. Mehsana.
6023.	Rameshbhai Patel Lallubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9569 23-9-86	Subhash Sheri, At. Valam-384 310, Tal. Visanagar, Distt. Mehsana.
6024.	Rameshbhai Vekaria Lalajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8073 4-5-81	250, Parmand Chal, Opp. Amruti Mill, Saraspur, A'bad.
6025.	Rameshbharathi Gosai Trakambharthi	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7377 29-10-79	At. Oganaj, Tal. Dshorej, Distt. A'bad.

1	2	3	4	5
6026.	Rameshchandra Acharya Devshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5214 26-2-76	B. No. 19, Sadhana Society, Shahi- bag Road, A'bad.
6027.	Rameshchandra Bhatt Bhogilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2432 13-3-67	Wadi, Vayadapole, Near Chekhandi, Hou. No. Va/2707, Baroda.
6028.	Rameshchandra Acharya Motilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3199 9-6-71	At. Panetha, Tal. Zagadiya, Distt. Broach.
6029.	Rameshchandra Batviya Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7201 20-8-79	At. Dumiyani, Via Supedi, Tal. Upaleta, Distt. Rajkot.
6030.	Rameshchandra Bhakta Rambhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1961	799 9-2-62	At. Bhestan, Tal. Chorasi, Via Udhana, Distt. Surat.
6031.	Rameshchandra Bhatt Ravashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4721 31-3-75	At Kanza, Tal. Vanthali, Distt. Junagadh.
6032.	Rameshchandra Bhatt Keshavlal	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1955	7338 16-10-79	Dr. R. V. Patel's Chal, Sayaji Ganj-5, Opp. Kalyan Hotel, At. Baroda.
6033.	Rameshchandra Bhatt Devshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	7738 6-6-80	At & Post Camala, Tal. Himmat- nagar, Distt. Sabarkantha.
6034.	Rameshchandra Chauhan Khubiramsinh	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1971	6518 1-2-79	11, Ashishnagar, Opp. Meghani- nagar, A'bad.
6035.	Rameshchandra Ghoksi Ratilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	180 15-2-62	Dr. R.S. Choksi, Santh Pipali, At. Nadiad, Distt. Kheda.
6036.	Rameshchandra Desai Manubhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1957	437 1-7-58	Patel Chal, Nani Mehta Wad, Distt. Valsad.
6037.	Rameshchandra Desai Manilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1735 22-6-65	At. Sadhali, Via. Miyagam, Distt. Baroda.
6038.	Rameshchandra Devani Narandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6016 2-2-78	Govt. Guest Hou., At. Bagadu, Via. Mendarada, Distt. Junagadh.
6039.	Rameshchandra Dave Muleshanker	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	2603 8-11-67	Thakar Falia, Zalad Road, At. Dahed, Distt. Panchmahal.
6040.	Rameshchandra Dave Harilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5005 20-10-75	jail Road, Gajanand Bhawan, At. Morbi, Distt. Rajkot.
6041.	Rameshchandra Dave Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5271 9-3-76	9/1325, Balaji Road, At. Surat.
6042.	Rameshchandra Dube Jaganthath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5091 18-12-75	At. Abhava, Via, Vesu, Tal. Char- yasi, Distt. Surat.
6043.	Rameshchandra Gupta Babulal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	155 2-4-56	Rama Niketan, Rajhans Society, Ellishbridge, A'bad.
6044.	Rameshchandra Jani Ravishanker	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1966	2346 26-12-66	Ruvapari Gate, Kashhiya Vad, Naliyervalli Vakhari, At. Bhav- nagar.
6045.	Rameshchandra Jobanputra Dhanajibhai	B.A.M.S., Kanpur Univ., 1973	4353 24-4-74	Modh Street, Haveli Chowk, At & Tal. Veraval, Distt. Junagadh.
6046.	Rameshchandra Joshi Bapulal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1952	245 1-11-52	Zalod Road, At & Tal. Dahod, Distt. Panchmahal.
6047.	Rameshchandra Joshi Bhagvandas	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1963	246 7-8-63	10/960, Amaliran, Surat-1.
6048.	Rameshchandra Joshi Jamnadas	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1967	2550 19-7-67	Post Office Road, Khambhaliya, Via. Jam Jodhapur, Distt. Jamnagar.

1	2	3	4	5
6049.	Rameshchandra Joshi Gaurishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2831 30-8-69	At Navania, Via Joravarnagar, Tal. Muli Distt. Surendranagar.
6050.	Rameshchandra Joshi Labhshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2771 19-4-69	Near Punit Ashram, Behind Bal- vatika, State Bank of India, Khanch, Maninagar, A'bad.
6051.	Rameshchandra Joshi Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3718 5-1-73	Nava Gam, Post Dilakha, Distt Junagadh.
6052.	Rameshchandra Joshi Bhanuprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5389 13-5-76	Veravasan, At. Vijapur, Distt. Mehsana.
6053.	Rameshchandra Joshi Kalidas	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1965	6731 9-3-79	87, Nitrananial Society, Naranpura, A'bad.
6054.	Rameshchandra Kadivar Bhagwanji	A.S.F., G.C.S.F. Ay. Med. W.B. (Now P.B. Ay. Parishad, Calcutta), 1977	8458 15-6-82	Charani Clinic, Post Chhani, Distt. Baroda.
6055.	Rameshchandra Limbani Lalajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7382 16-11-79	C/o Dr. B.R. Limbani, Nandkishor, At. Chital, Tal. & Distt. Amreli.
6056.	Rameshkumar Makwana Jivabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9549 18-8-86	C/o Makwana Jivabhai Kurajibhai, At. Jamkandorana, 360405, Via. Dhoraji, Distt. Rajkot.
6057.	Ramchandra Malavia Pannalal	B.A.M.S., Vikram Univ., 1977	8109 2-7-81	At. Balavada, Distt. Khandava, East, Ninar (M.P.).
6058.	Rameshchandra Mistri Hiralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7632 20-3-80	2/4445, Shivdas Xaveri's Sheri, Sagrampura, At. Surat.
6059.	Rameshchandra Modi Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3223 10-8-71	Modi Medical Stores, Ukai-Dem, Distt. Surat.
6060.	Rameshchandra Modi Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3625 30-9-72	Opp. Ranibag, Kheda Jilla Pan- chayat Staff Qua., Nadiad, Distt. Kheda.
6061.	Rameshchandra Nenuji Dvarkadas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2492 22-5-67	At Katkola, Tal. Dharvad, Distt, Jamnagar.
6062.	Ramchandra Nayak Jivanji	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1951	482 10-10-51	Civil Hospital, At. Navari, Distt. Valsad.
6063.	Rameshchandra Oza Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4567 4-11-74	Kharakuva Road, Near Nal, At. Shihor, Distt. Bhavnagar.
6064.	Rameshchandra Pandya Prahladji	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1960	768 23-10-61	23, Navjivan Society, Near New Ganj Bazar, At. Patan, Distt. Meh- sana.
6065.	Rameshchandra Pandya Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4737 3-4-75	Javahar Chowk, Patel Society, B. No. 3 Maninagar, A'bad.
6066.	Rameshchandra Pandya Lagharam	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1967	7083 5-7-79	Batuk Smrutl, Near Railway Street, At. Amreli.
6067.	Rameshchandra Parikh Ratilal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1973	6726 9-3-79	Satyondranagar, 6/160, Near Nagara- vel Nasuman, Rakhiyal, Distt. A'bad.
6068.	Rameshchandra Parmar Tulasidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3941 5-5-73	At. Bhandar, Tal. Dhari, Distt. Amreli.
6069.	Rameshchandra Parmar Khushaldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7863 10-10-80	At & Post Pilundra, Tal. Vadgam, Distt. Banaskantha.
6070.	Rameshchandra Patel Joitaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3604 15-9-72	At. Morvad, Post Diliya, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
6071.	Rameshchandra Patel Premjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5017 28-10-75	At Mota Surka, Via Shihor Distt. Bhavnagar.

1	2	3	4	5
6072.	Ramchandra Patel Gokalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5869 30-8-77	At. Jambughoda, Distt. Pancha- mahal.
6073.	Rameshchandra Patel Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5959 4-11-77	At. Sokhadakhurada, Tal. Padara, Distt. Baroda.
6074.	Rameshchandra Patel Nanubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7080 5-7-79	Gayatri Clinic, 109/1886, Sundram- nagar (G.H.B.), Rakhiyal, Tal. Naka, Guj. Botaling, A'bad.
6075.	Rameshchandra Patel Shamaldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7829 25-9-80	At. Sonalsan, Tal. Prantij, Distt. Sabarkantha.
6076.	Rameshchandra Patel Jivanaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7884 14-11-80	At & Post Mota Vaghodia, Tal. Paradi, Distt. Valsad.
6077.	Rameshchandra Patel Ramabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7941 17-1-81	At & Post Pandava, Tal. Bala- sinor, Distt. Kheda.
6078.	Rameshchandra Patel Nathabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	7960 3-2-81	At & Post Koyadam, Tal. Bala- sinor, Distt. Kheda.
6079.	Rameshchandra Patel Madhavlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9501 12-5-86	Gayatri Clinic, At. & Post Adiya Tal. Harij, Distt. Mehsana.
6080.	Rameshchandra Purohit Fulshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5014 28-10-75	At. Karoli, Tal. Mahendabad, Distt. Kheda.
6081.	Rameshchandra Rajguru Shambhuprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3476 11-4-72	At. Gadhada, Distt. Bhavnagar.
6082.	Rameshchandra Rathod Hargovinddas	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1976	7117 16-7-79	Baraji Sheri, Near Govt. Dis- pensary, At. Vinchhiya, Tal. Jashadan, Distt. Rajkot.
6083.	Rameshchandra Raval Prahladji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4750 7-4-75	Soni Fali, At. Sajod, Tal. Ankoeswar, Distt. Broach.
6084.	Rameshchandra Shah Chandulal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1963	1831 19-6-63	Near Haji, Building, Jamalpur- chakala, Ahmedabad.
6085.	Rameshchandra Shah Mansukhlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1963	1379 26-12-63	186, Sarvoday Nagar, Outside Shahpur Gate, Ahmedabad.
6086.	Rameshchandra Shah Chandulal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1963	1409 20-2-64	49/B, Aniruddhas Society, Bhima- jipura, Nava Vadja, Ahmedabad.
6087.	Rameshchandra Shah Vasantlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4267 18-3-74	At. Navadi, Distt. Baroda.
6088.	Rameshchandra Shah Vadilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1900 27-12-65	Vaidkiy Adhikari, Dhama, Dis- pensary, Tal. Patadi, Distt. Surendranagar.
6089.	Rameshchandra Shah Ratilal	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat 1966	2397 16-2-67	1/192, Adagara Mahollo, Nan- pura, Distt. Surat.
6090.	Rameshchandra Sharma Chaturbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5454 14-7-76	Tamboli Wado, At. Kadi, Distt. Mehsana.
6091.	Rameshchandra Shah Mohantal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5836 25-7-77	At. Talod, Tal. Prantij, Distt. Sabarkantha.
6092.	Rameshchandra Shah Saubhagyachand	Ayurved Madhyama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6576 16-2-79	Opp. Police Station, Bazar, Sani, At. Mehsana.
6093.	Rameshchandra Shastri Yamunadas	Ayurved Uttama, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1973	8839 6-9-83	A-6/1, Godavarinagar Flat, Vibhag-1, Vasana, Puladi, A'bad-7.
6094.	Rameshchandra Shukla Chholeshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3317 21-1-72	C-24, Railway Street Road, Bhavnagar.

1	2	3	4	5
6095.	Rameshchandra Thakar Ganpatram	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1960	1555 1-5-60	Malu, Tal. Sankheda, Distt. Baroda.
6096.	Rameshchandra Thakar Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5434 18-6-76	At. Dharampur, Tal. Kadi, Distt. Mehsana.
6097.	Rameshchandra Thakar Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6023 16-2-78	At. Padgam, Post Valam, Distt. Visnagar.
6098.	Rameshchandra Thakar Ramshankar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6668 28-2-79	Kansara Pole, At. Visnagar, Distt. Mehsana.
6099.	Rameshchandra Thakar Nagardas	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1968	7405 29-11-79	At. Malanpur, Tal. Dachada, Distt. Surendranagar.
6100.	Rameshchandra Thakkar Hargovandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8603 13-12-82	At. Bhabhar, Tal. Diyodar, Distt. Banaskantha.
6101.	Rameshchandra Tilavat Tulasidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7985 25-2-81	At. Rampura (Gir), Via Ankolvadi, Tal. Talala, Distt. Junagadh
6102.	Rameshchandra Trivedi Dahyalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	5146 1-9-55	At. Navi Sinoi, Tal. Modasa, Distt. Sabarkantha.
6103.	Rameshchandra Trivedi Chandulal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	328 15-6-62	C/o. Arvindkumar C. Trivedi, Ratan Khandaki, Dhanaasutar's Pole, Kalupur, Ahmedabad.
6104.	Rameshchandra Trivedi Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2988 14-7-70	Shri Sanskar Behnpole, At. Gandhi, Distt. Kheda.
6105.	Rameshchandra Trivedi Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4054 19-9-73	12/2, Shri Krishnanagar, Part 1, Nava Vadaj, A'bad.
6106.	Rameshchandra Trivedi Govindaji	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	6586 16-2-79	B-4, E.S.I. Dispensary, Qua. No. G/1, Near Bombay Garej, Shahibag, A'bad.
6107.	Rameshchandra Upadh. Jagnath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3177 16-4-71	At. Zadeshwar, Tal. & Distt. Broach.
6108.	Rameshchandra Varu Gangarambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4823 2-5-75	Vaidyant Sheri, New Kint Road, Bhuj, Kutch.
6109.	Rameshchandra Vaidya Manishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3682 13-11-72	Gayatri Dispensary, At. Mavadi, Distt. Rajkot.
6110.	Rameshchandra Vora Gaurishanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	1078 7-12-62	Sanjivani Hospital, At. Idar Distt. Sabarkantha.
6111.	Rameshchandra Vyas Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3135 22-2-71	At & Post Khijdiya, Tal. Vakaner, Distt. Rajkot.
6112.	Rameshchandra Vyas Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4033 30-8-73	Bava Sheri, At. Shinor, Distt. Bhavnagar.
6113.	Rameshchandra Vyas Manishanker	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1975	7159 2-8-79	Vijay Plot, Sheri No. 9, Gayatri Krupa, At. Rajkot-2.
6114.	Ramohandra Vyas Gangaram	Ayurved Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1951	7198 20-8-79	At. Khergam, Tal. Chikhali, Distt. Valsad.
6115.	Rameshchandra Vyas Kishorji	B.S.A.M., Indore Univ., 1976	8138 21-8-81	Vyas Bhavan, At. Shyamgadh, Distt. Mansaur (M.P.).
6116.	Rameshchandra Zinsuvadla Prabhudas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5987 6-12-77	Near Swaminarayan Temple, At. Nadlad, Distt. Kheda.
6117.	Rameshkumar Bagat Manilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	804 2-8-54	At. Kosindra, Tal. Sankheda, Distt. Baroda.

1	2	3	4	5
6118.	Rameshkumar Patel Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5467 22-7-76	704, Moti Salepari's Pole, Dariya- pur, Char Rasta, A'bad.
6119.	Rameshkumar Patel Rovabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8057 27-4-81	Near Juna Hou., At. Kalol, Distt. Mehsana.
6120.	Rameshkumar Patel Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8245 24-12-81	Navo Kumbharvado, At. & Post Dakor, Tal. Thasara, Distt. Kheda.
6121.	Rameshkumar Patel Kantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8936 17-2-84	Govt. 'E' Colony, Saraspur, Block No. 77/301, Opp. Ambar Cinema, A'bad-24.
6122.	Rameshkumar Raval Kashiram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6318 27-9-78	2160, Kishorgaliyara's Khadaki, Outside Amtodia Gate, A'bad.
6123.	Rameshkumar Sharma Bhikhabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8870 1-12-83	B.No. 39, Madhyamvarg Society, At. Shahwadi Gam, (Near Narol), Tal. City, Distt. A'bad.
6124.	Rameshkumar Solanki Virajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7-5-79	C/o. Dr. V. M. Solanki, At. Badhada, Tal. Savarkundala, Distt. Bhavnagar.
6125.	Rameshkumar Soni Shankarlal	B.A.M.S., B.I.M. Hyderabad, 1978	8849 6-10-83	At & Post Idamadi, Via. Dahod, Tal. Zalod, Distt. Panchmahal- 389180.
6126.	Rameshwar Gupta Shankarlal	B.A.M.S., Vikram Univ., 1976	6508 1-2-79	At. Lohari, Tal. Kuski, Distt. Dhar.
6127.	Rameshwar Gupta Narayanbhai	B.A.M.S., Indore Univ., 1974	8459 15-6-82	Ladvada, Gandhichowk, Behind Jamanbhai Dispensary, At Baroda.
6128.	Rameshwar Patilday Bhikaji	B.A.M.S., Univ. of Saugar, 1974	8126 4-8-81	At. & Post Singam, Tal. Kasara- vad, Distt. West Nimar (M.P.).
6129.	Ramilaben Chandel Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4583 3-12-74	Sarvodayanagar, Khokhara Mah- medavad, Guj. Hou. Board, Block No. 164/1293, A'bad-8.
6130.	Ramilaben Patel Vinodkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3344 8-2-72	8/B, Govt. Colony, Dashbangala's Gulabai Tokra, A'bad.
6131.	Ramji Kalria Jivanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3032 20-8-70	Block No. 16, Plot No. 181, Anand Nagar Colony, Rajkot.
132.	Ramji Koyani Ravji	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1963	1777 30-7-65	Khalvad Plat, At. Dheraji, Distt. Rajkot.
6133.	Ramji Malani Surabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4024 30-8-73	C/o. Shah Bhimsi Meghaji, At. Lakadiya, Tal. Bhachau, Distt. Kutch.
6134.	Ramji Siddhapura Nathubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4437 1-8-74	At. Jamka, Via. Mendarda, Distt. Junagadh.
6135.	Ramji Viradiya Lavajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7794 28-8-80	At. Amarnagar, Via Vadia, Tal. Jetpur, Distt. Rajkot.
6136.	Ramji Vithani Gopalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3645 9-10-72	Ravalvas, At. Ningala Jn., Distt. Bhavnagar.
6137.	Ramjibhai Bhalani Mavibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4736 3-4-75	At. Kalyanpur, Post Vallabhipur, Dist. Bhavnagar.
6138.	Ramko Patel Manjnibhai	B.A.M.S., Unvi. of Gujarat 1966	2041 8-6-66	At. Kaluapur, Post Shethvadala, Via. Moti Paneli, Tal. Jamjodh- pur, Distt. Jamnagar.
6139.	Ramkrishna Dave Jethalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3564 29-8-72	Sanskrit Pathshala, Near Shankara- shran, At. Morbi, Distt. Rajkot.
6140.	Ramkrishna Joshi Balashanker	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1967	2624 30-12-67	C/o. Balashanker J. Joshi, Brah- man Motavas, Hanuman Road, At. Palanpur, Dist. Banas- kantha.

1	2	3	4	5
6141.	Ramkrishna Pathak Mahavir	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2788 17-6-69	E.S.I.S. Dispensary, D/36, Class 2 Quarters, Opp. Ramuji Hall, Jawahar Chowk, Maninagar, A'and.
6142.	Ramkumar Sharma Nand Kishor	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1962	21-3-63	Ay. Dispensary, At. Segva- Post Sivli, Distt. Surat.
6143.	Ramnarayan Gupta	B.A.M.S., Indore Univ., 1975	6168 20-5-78	M. O. Bala Par, Tal. Mandavi, Distt. Kutch.
6144.	Ramnarayana Z. Shobhkant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3368 16-2-72	C/o. Shri Shobhakant Za, Swaminarayan's Wadi, Near Sirdhar-nagar, Crossing, A'bad.
6145.	Ramnivasacharya Pandit Balkrishnacharya	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3065 21-10-70	At. Dabhala, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
6146.	Ramprasad Purohit Sukhram	Vaidyacharya, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1974	7076 30-6-79	Somnath Falia, At. Chorvad-Distt. Junagadh.
6147.	Ramshanker Joshi Jethalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3456 16-8-72	At. Madhada, Via. Shihor, Distt. Bhavnagar.
6148.	Ramsinh Baria Kidiyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4287 23-3-74	At. Puteपुरa- Tal. Santrampur, Distt. Panchmahal.
6149.	Ramswarup Trivedi Pramodray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4751 7-4-75	Hariyala Plot No. 68, Near Prabhudas Talav, At. Bhavnagar.
6150.	Ramubhai Bhatia Jetha bhai	L.A.M., U. P. Ay. Maha. Patan, (Baroda State), 1940	1531 7-9-40	At. Sant Road, Tal. Godhara, Distt. Panchmahal.
6151.	Ramvir Sharma Ramnareesh	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9263 9-4-85	At & Post Ridrol, Tal. Bijapur, Distt. Mehsana.
6152.	Ramraj Gupta Babulal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8928 8-2-84	Room No. 90, Society's Chali, Amaraiwadi Road, A'bad-2,6
6153.	Ranabhai Barad Rashibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	6760 15-3-79	At. Devali, Teh. Tal. Kodinar, Distt. Amreli.
6154.	Ranapratapsinh Fatehsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1959	2900 16-2-70	Hou. Board Colony, Road No. 286, Nari Road Kunbharvada, At. Bhavnagar.
6155.	Ranchhod Kansagara Manajibhai	Vaidyacharya, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1967	6957 3-5-79	At. Rana Khirsara, Tal. Rana-vav, Distt. Junagadh.
6156.	Ranchhod Suthar Jethalal	M.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1972	7450 21-12-79	At & Post Gohal, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
6157.	Ranchhodbhai Bhalera Chakubhai	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1974	6776 21-3-79	14, Gundavadi, At. Rajkot.
6158.	Ranchhodbhai Dobariya Shamajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5905 28-9-77	749/5006, Bapunagar, A'bad.
6159.	Ranchhodbhai Kanai Velajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5381 10-5-76	At. Jambuda, Distt. Jamnagar.
6160.	Ranchhodbhai Patel Gangaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5369 30-4-76	At. Balisana, Tal. Patan, Distt. Mehsana.
6161.	Ranchhodbhai Paresha Gagajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	5083 18-12-75	At. Aliabada, Near Chora, Tal. & Distt. Jamnagar.
6162.	Ranchhodbhai Patel Ramabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8220 17-11-81	At & Post Koyadam, Tal. Bala-shanker, Distt. Kheda.

1	2	3	4	5
6163.	Ranchhodbhai Sindhav Naranbhai	Ayurved Utama, S..D. Pariksha Samiti, Baroda 1978 B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	6887 12-4-79	At. Balol (Bhal), Tal. Limadi, Distt. Surendranagar.
6164.	Ranchhodbhai Sorathiya Bhagvanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7354 29-10-79	At. Kharedi, Via. Bheraji, Distt. Rajkot.
6165.	Ranchhodbharati Bava Pashabharthi	Ayurved Madhyama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda 1976	6718 9-3-79	At. Parpar, Tal. Kalo, Distt. Mehsana.
6166.	Ranchhodlal Pandya Ashram	L.A.M., U. P. Ay. Maha. Patan, (Baroda State), 1938	1525 8-3-44	At. Vaghodia, Distt. Baroda.
6167.	Ranchhodlal Trivedi Hargovinddas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1947	330 31-5-48	At & Tal. Khedbrahma, Distt. Sabarkantha.
6168.	Randhir Desai Zinabhai	Ayurved Alankara, Ay. Coll., Gurukul Univ., Kangri (Hardwar), 1928	435 3-11-41	At & Post Vejalpur, Via. Nav- sari, Distt. Valsad.
6169.	Randhirsinh Pratapsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6799 21-3-79	Main Road. At. Oipad, Distt Surat.
6170.	Raneshhodbhai Patel Revabhai	Ayurved Uttama. S. D. Pariksha Samitim, Baroda, 1976	6555 12-2-79	Vaidyakiya Adhikari. [Govt. Aushadhalay, Vanaspati Akatri Kara Centre. Khedbehan
6171.	Ranjan Patel Manubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8325 10-2-82	At & Post Alagat, Tal Valod, Distt. Surat
6172.	Ranjan Raol Dipsingh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 197	4962 4-10-75	5, Umiyadevi Society, Khokhara Mahendrabad, A'bad
6173.	Ranjan Vyas Himmatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3431 15-3-72	Plot No.10, Railway Hou Society Bhanagarpara. Bhavnagar.
6174.	Ranjanbala Kothari Vanechandbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3632 3-10-72	C/o B.V. Mehta, Near Kaystha Ambaki, Mahalaxmi Chowk, At. Jamnagar.
6175.	Ranjanbala Patel Naranbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5213 26-2-76	C/o. Babubhai R. Patel. Ram- nivas, Pranami Temple, At. Nadiad, Distt. Kheda
6176.	Ranjanbala Sheth Pushpavadan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	8386 24-3-82	A-8, Sumangalam Apptt., Varachh Road, Surat
6177.	Ranjanben Shah Rasiklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5526 17-9-76	At & Post Ambaliyara. Tal. Bayad, Distt Sabarkantha
6178.	Ranjit Kumar Parekh Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5887 20-9-77	Bardan Gali, Gola's Vadi, Behind Jubif Bag, At. Baroda
6179.	Ranjit Kumar Patel Ambalal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9567 23-9-86	At. Laxmanpura, P. O. Bavilu, Via. Kalyanpuri, Tal Kadi, Distt. Mehsana
6180.	Ranjitrai Desai Narayanji	Ayurved Alankara, Ay. Coll. Gurukul Univ., Kangri (Hardwar), 1931	434 6-5-40	50, Mahadevnagar, Sagarampura. Surat-2.
6181.	Ranjitsinh Chauhan Takhatsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3551 17-8-72	Nava Rajpur Falia, At. Dev- gadh Falia, Distt. Panchmahal
6182.	Ranjitsinh Jadeja Bhupatsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3731 17-1-73	At. Hadmadia, Post Andia, Tal Gondal, Distt. Rajkot
6183.	Ranjitsinh Solanki Dolatsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4425 2-2-74	At. Sania Kande. Tal. Choryasi, Distt. Surat.
6184.	Ranjitsinh Solanki Jaysinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5643 30-12-76	At. Limet, Tal. 'Zagadia,' Distt Broach.

1	2	3	4	5
6185.	Ranjitsinh Vansia Natvarsinhji	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1965	1749 30-6-65	At. Sachin, Tal. Chauyasi, Distt. Surat.
6186.	Ranjitsinhji Zalu Govindsinhji	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1968	2685 27-6-68	At. Lalpur, Distt. Jamnagar.
6187.	Ranochohbhai Shah Devrambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	4-6-76	C/o. Kantaben D. Soni, Vanivad, Post Office, At. Vyara, Distt. Surat.
6188.	Ransang Parnar Ratubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	6270 11-9-78	At & Post Echavada, Tal. Dashada, Dist. Surendranagar.
6189.	Ranwhhed Baladha Ladhabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	8440 31-5-82	C/o. Dhurubhai J. Shah, A. D. Baxi Bhawan, Satya Narayan Mandir Road, At. Jamnagar.
6190.	Rasakbhai Purohit Manibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6765 21-3-79	At. Gavasad, Tal. Padara, Distt. Baroda.
6191.	Rasbihari Munshi Vasudev	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4224 21-2-74	Manipratapra, R. V. Desai Road, Ashok Colony, At Baroda.
6192.	Rashmi Rameshchandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9613 28-11-86	Shahpur Bhai Centse, 35 Nandan Society, A'bad-1.
6193.	Rashmi Mehta Indravadan	G.F.A.M., Fac. of A USM, Bombay 1960	4408 12-6-74	137, Shantiniketan Society, Vadtal Devadi Road, At. Surat-3.
6194.	Rashmiben Gopiyani Rasiklal	B.S.A.M., Gujrat Ay. Univ., 1976	6343 4-10-78	At. Sultanpur, Via Vadiya Dovadi Tal. Gondal Distt. Rajkot.
6195.	Rashmiben Thakar Kanaiyalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7348 29-10-79	4, Sadhana Society, Varachh Road, At. Surat.
6196.	Rashmikant Joshi Manuprasad	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ., 1975	5477 31-7-76	Gagal Sheth Chowk, Parnaka, Opp. Ram Mandir, At. Kalyan Distt Thana.
6197.	Rashmikant Mehta Mansukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7389 19-11-79	Voral Sheri, Mehta Nivas, At. Morabi, Distt. Rajkot.
6198.	Rashmikant Mehta Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4692 24-3-75	C/o. Kantilal M. Mehta, Near Patel Mill, At. Jam Jodhapur, Distt. Jamnagar.
6199.	Rashmikant Patil Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8133 21-8-31	Juni Manekvadi, Kalpur Kachhiya's House, At. Bhavnagar.
6200.	Rashmikant Patel Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8678 3-3-83	8-A, Mill Kamdar Society, Vakhariya, Near P. J. High School, At. Kalol-382721.
6201.	Rashmikant Shah Bapulal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1959	1223 3-8-59	At. Kesamba, Tal. Mangrol, Distt. Surat.
6202.	Rashmikant Shah Ramanlal	Ayurved Madhyama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda 1972	8554 14-9-82	Dajvada, Daljivan Khadaki, 2, Chakania Sheri, At. & Post Baroda-390001.
6203.	Rashmikant Shahstri Dayanand	B.A.M.S., Univ. of Saugar 1976	8295 5-2-82	C/o Natvarlal R. Pandya, Prabhupark Punit Mara, Maninagar, A'bad.
6204.	Rashmikant Solanki Oliver George	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1983	9367 2-9-85	Nirmal Clinic, Chowk Bajar, At. Surat-385003.
6205.	Rashmikant Upadhyay Premshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7214 23-8-79	At. Bhandaria, Tal. Jashadan, Distt. Rajkot.
6206.	Rashmikar Desai Kumudrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7878 14-11-80	B. No. 1/8, Govt. Qua. Pradashan Ground, At. Jamnagar.
6207.	Rashmita Patel Javaharlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7226 23-8-79	11, Modi Street, Jekir Niwas, 2nd Floor, Room No. 10, Fort, Bombay-1.
6203.	Rashtabanu Munshi Abdul Rahoman	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5896 20-9-77	Bukar Falia, At. Junagadh.

1	2	3	4	5
6209.	Rasidkhan Pathan Rustamkhan	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9610 10-11-86	330, Motowas, Behind Pathar- wali Masjid, Shahpur, Chakala, A'bad-1.
6210.	Rasika Damaniya Navnitlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Gujarat, 1955	2544 1-7-55	18/24, Khetiwadi, 7th Gali, Sardar Patel Road, Bombay-4.
6211.	Rasikaben Vakil Chempaklal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1962	997 6-2-63	Mali Falia, Haripura, 4/89, Vithalbhuvan. At. Surat.
6212.	Rasikbhai Chaudhari Lavajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7533 15-2-80	At Pathakvadi, Tal. Vyara, Distt. Surat.
6213.	Rasikbhai Suthar Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3758 6-2-73	At. Chadsana, Post Becharaji, Tal. Chanana, Distt. Mehsana.
6214.	Rasiklal Acharya Navalchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3175 13-4-71	Satya Nivas, 27, Digvijay Plot, At Jamnagar.
6215.	Rasiklal Bhatt Nandlal	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat, 1963	1350 18-11-63	At. Dihor, Via & Distt. Bhav- nagar.
6216.	Rasiklal Bhavsar Jagjivandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3532 29-7-72	Aluya's Chakala, At. Siddhapur, Distt. Mehsana.
6217.	Rasiklal Dave Karunashanker	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1967	6708 9-3-79	Bedinaka, Nakaleng Sheri, At. Rajkot.
6218.	Rasiklal Ghelani Ramjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4519 23-9-74	Naripura, Hafalia, H. No. 6/2557, At. Surat.
6219.	Rasiklal Jani Ambalal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2385 4-2-67	Dhal's Pole, Kharakuva's Pole, Astodia, A'bad.
6220.	Rasiklal Joshi Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6064 8-3-78	At & Post Debhari, Tal. Bala- sinor, Distt. Kheda.
6221.	Rasiklal Kothari Jaitalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2966 8-6-70	At. Sudasana, Tal. Kheralu, Distt. Mehsana.
6222.	Rasiklal Kudalal Harilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5206 26-2-76	At. Harmadiya, Tal. Kodinar, Distt. Amreli.
6223.	Rasiklal Mamtora Shamaldas	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1966	2089 7-7-66	Bibedi Fali, Lindi Bazar, Jamnagar.
6224.	Rasiklal Maru Nanajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5161 12-2-76	Binbandhu Pharmaceutical, Dudheswar Society, Outside Vanthali Gate, Junagadh.
6225.	Rasiklal Mehta Jagannath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3043 15-9-70	At. Karmad, Tal. & Distt. Broach.
6226.	Rasiklal Motaka Amrutalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	9098 31-7-84	At. & Post Kherava (Jatana), Tal. Patadi, Distt. Surendra- nagar.
6227.	Rasiklal Pandya Chimanlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2345 22-12-66	At. Itola, Tal. & Distt. Breda.

1	2	3	4	5
6228.	Rasiklal P. tel Mohalal	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat, 1961	619 23-10-61	Navapura, Vaghodia, Distt. Baroda.
6229.	Rasiklal Patel Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4963 4-10-75	C/o Ramanlal U. Patel, Petha Pur High School, At. Pethapu, Distt. Gandhinagar.
6230.	Rasiklal Patel Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6561 12-2-79	At. Terania, Post Ujedie, Tal Prantij, Distt. Sabarkantha.
6231.	Rasiklal Patel Venabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8545 14-9-82	At. & Post Hagiyol, Tal. Himmatnagar, Distt. Sabar- kantha.
6232.	Rasiklal Patel Rambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8609 28-12-82	Darvaja, At. & Post Boriavai, Tal. Anand, Distt. Kheda.
6233.	Rasiklal Patel Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7645 20-3-88	Khadakivas, At. & Post Neradi- pur, Tal. Kalol, Distt. Mehsana.
6234.	Rasiklal Raval Hiralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3310 7-1-72	At. Kodhera, Tal. Chansma, Distt. Mehsana.
6235.	Rasiklal Raval Vrujlat	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3851 7-9-72	Behind Taluka Shala, At. Manawadar Distt. Junagadh.
6236.	Rasiklal Rupani Dayaljiabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	7517 15-2-80	At. Sultanpur, Tal. Gonadal, Via. Vadja Devadi, Distt. Rajkot.
6237.	Rasiklal Shah Mohanal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1953	1221 29-8-53	Sahiyadiri, Plot No. 41, 3rd Floor, R. A. Road, Gore Gam, East Bombay.
6238.	Rasiklal Shah Chhotelal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1956	1220 2-1-56	Lattakun, Shahpur Bhai Canter, Ahmedabad.
6239.	Rasiklal Shah Chunilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1958	1219 1-12-58	At. Tal. Kegharaj, Distt. Sabarkantha.
6240.	Rasiklal Thakar Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7991 25-2-81	At. & Post Sardhav, Tal & Distt. Gandhinagar.
6241.	Rasiklal Trivedi Narmadashanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2543 11-7-67	At. Sanosra, Tal. Shihor, Distt. Bhavnagar.
6242.	Rasiklal Vamaja Chhaganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8330 17-2-82	27, New Satya Vihar Society, Near Amarpura, Chandlodia, A'bad.
6243.	Rasila Kotak Bharamsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5353 20-4-76	116/A, Pankeji Society, Fatch- nagar, Paladi, A'bad.
6244.	Rasila Shah Parmananddas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8528 14-9-82	Plot No. 22, B. Krushnanagar, Near Done Build., At. Bhav- nagar.
6245.	Rasilaben Panchal Vallabhram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3492 19-4-72	Devikripa, Wadi, Vayadapole, Baroda.
6246.	Rosiladevi Upadhyay Muriprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8002 11-3-81	Ay. College, Compound Hos- pital, At Nadiad, Distt. Kheda.

1	2	3	4	5
6247.	Rasmikant Pandya Minishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8430 17-5-82	2/1, Pushpakunj, Mahanandir Road, At. Niamatnagar, Distt. Sabarkantha.
6248.	Ratibhai Patel Jeshangbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4199 15-2-74	At. Kashipura, Tal. Ravi, Jetpur, Via. Koshinadra, Distt. Baroda.
6249.	Ratilal Harilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1953	1907	Holi Chakala Kapadvanj, Distt. Kheda.
6250.	Ratilal Baraiya Lakshmanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7459 21-12-79	At. & Post Najamchora, Tal. Tal. Dhrol, Distt. Jamnagar.
6251.	Ratilal Bhardiya Vithalji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3650 11-10-72	C/o Misti Kantilal M., At. Ranpur, Distt. Junagadh.
6252.	Ratilal Bhayani Nathubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4600 1-1-75	At. Nani Bhagadi, Via Kalvad, Shitala, Distt. Jamnagar.
6253.	Ratilal Chodvadiya Devashibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5919 17-10-77	At. Koriyachand, Via Shijya, Vadar, Distt. Amreli
6254.	Ratilal Javia Arjanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3595 14-9-72	At. Namdia, Via Dantava, Tal. Malavadar, Distt. Junagadh.
6255.	Ratilal Jeswal Himmatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4898 26-6-75	424, Janatanagar, Ramol, Post. Vatva, A'bad.
6256.	Ratilal Joshi Mansukhlal	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1932	7153 25-7-79	At. Aliyabada, Distt. Jam- nagar.
6257.	Ratilal Kalavadiya Haribhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4198 15-2-74	At. Khekh Pipalia, Tal. Sathi, Distt. Amreli
6258.	Ratilal Mankadia Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3633 3-10-72	Plot Shri No. 5, Behind High School, At. Bhayavadar, Tal. Upleta, Distt. Bhavnagar.
6259.	Ratilal Mavani Meghajibhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	940 27-6-63	At. Surnivas, Tal. Garia- dhar, Distt. Bhavnagar.
6260.	Ratilal Mehta Keshavlal	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1939	8190 12-10-81	At. Old Nagdavas, Tal. Morabi, Distt. Rajkot.
6261.	Rasillal Mehta Mulshanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1962	923 26-11-62	Ay. Dispensary, At. Kumbhan, Via. Mahuva Jn., Distt. Bhavnagar.
6262.	Ratilal Nayak Ambelal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1952	481 1-8-52	At. Udhana, Distt. Surat.
6263.	Ratilal Parmar Babarbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9245 12-3-85	At. & Post Davol, Tal. Borsad, Distt. Kheda.
6264.	Ratilal Patel Motibhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1952	617 5-9-52	Ganesh Chowk, Lilotari Bazar, At. Jambusar.
6265.	Ratilal Patel Damodardas	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat, 1964	1502 1-8-64	Alkapuri Vadivadi, Baroda.

1	2	3	4	5
6266.	Ratilal Patel Sajan	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2072 24-6-66	New Laheripura Road, Baroda.
6267.	Ratilal Patel Bhikhabhai	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2327 6-12-66	At. Mandana, Tal. Babhsi, Distt. Baroda.
6268.	Ratilal Patil Bhauta	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, Maharashtra, 1970	3628 3-10-72	Medical Officer, Panchayat Dispensary, At. Unabhal, Distt. Surat.
6269.	Ratilal Patel Bhagvandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3636 9-10-72	82, Taraga Hill Society, Chand Lodia, A'bad.
6270.	Ratilal Patel Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4061 21-9-73	Hospital Road, At. Ras, Tal. Borsad, Distt, Kheda.
6271.	Ratilal Patel Bhaifalabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4548 15-10-74	At. Sarsa, Tal. Anand, Distt. Kheda.
6272.	Ratilal Patel Shivabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4710 29-3-75	At. Latipura, Tal. Padara, Distt. Baroda.
6273.	Ratilal Rabara Ramjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ, 1970	3305 1-1-72	At. Limbadi, Via. Bantava, Tal. Malavadar, Distt. Juna- gadhd.
6274.	Ratilal Rajyaguru Dhanjibhai	B.S.A.M, Gujarat Ay. Univ., 1972	4013 24-8-73	At. Hathala, Tal. Bhanvad, Distt. Jamnagar.
6275.	Ratilal Shah Nathalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1955	1222 3-1-55	Govt. Dispensary, At. Zardhari, Tal. Lunavada, Distt. Panch- mahal.
6276.	Ratilal Sinojiya Maganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8549 14-9-82	Juna Ghanshyamgadhi, Post Jasmatpur, Tal. Bhangadhra, Distt. Surendranagar.
6277.	Ratilal Trivedi Shankerlal	A.V.V., T. M. Vidyapeeth, Poona, 1943	331	Vaidyabhavan, At. Dakor, Distt. Kheda
6278.	Ratilal Vaidya Somanath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5379 10-5-76	At. Kolvada, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
6279.	Ratilal Vyas Jagjivandas	A.V.V., T.M. Vidyapeeth Poona, 1942	3688 20-11-72	At. Haldharvas, Tal. Mahe- dabad, Distt. Kheda.
6280.	Ratnaprabha Bhatt Madhavlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1962	855 17-4-63	Ghantiada, Near Bank of Bika- nor, Gandhi Gate, Road, Baroda.
6281.	Ratnashi Gajani Gokal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ, 1977	6606 21-2-79	At. Samadhiyala (Gir), Via. Memdarda, Distt. Junagadh.
6282.	Ravaji Limbasiya Savaji	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	29-11-79	Kadia Vad, Krishnakunj. At. Chittal, Distt. Amreli.
6283.	Ravaji Radadiya Shamajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8122 17-7-81	At. & Post Barivala, Via, Nadi- Devali, Tal. Kunkav-Vadiya, Distt. Amreli.
6284.	Ravajibhai Chavada Alabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9219 19-2-85	At & Post Kharava, Tal. Dral, Distt. Jamnagar.

1	2	3	4	5
6285.	Ravajibhai Patel Hemrajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5372 30-4-76	At. Khanpur, Tal. Tharad, Distt. Banaskantha.
6286.	Ravajibhai Patel Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8071 4-5-81	At. & Post Ratanpur, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
6287.	Ravajibhai Vasava Hathibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8676 10-2-83	At. Abharapura, Post Virjai, Tal. Karjan, Distt. Baroda,
6288.	Ravalal Rajpara Chakubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3451 21-3-72	At. Virpur (Machhukantha), Tal. Morbi, Distt. Rajkot,
6289.	Revashanker Joshi Bhogilal	H.P.A., P.G.T. Centre in Ay. Jamnagar 1963	2342 2-5-63	D-3, Budheshwar Dispensary, Budheshwar Road, A'bad
6290.	Ravinchandra Shah Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	2775 20-5-69	9, Pratibha Society, Javahar Chowk, Sabarmati, A'bad.
6291.	Ravilal Mehta Virehand	A.V.V., T.M. Vidyapeeth, Maharashtra 1943	922	Taiyab Pura, At. Mandavi, Distt. Kutch.
6292.	Ravindra Nanavati Chhotalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1946	468 1-10-46	C/o S.C. Ozs, Raja Mohta's Pole, Kalupur, Ahmedabad.
6293.	Ravindra Sonar Bhanrao	B.A.M.S., Univ. of Poona 1984	9497 26-4-86	At. Dondaecha, Distt. Dhulia.
6294.	Ravindra Surajkar Mulajibhai	Ayurved Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1977	6544 12-2-77	Chitra Vilas Colony, 5, Palace Road, At. Rupipala, Distt. Broach.
6295.	Ravindra Vaishnav Pranjivan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5002 20-10-75	Gujarat Hou. Board, Tourna- ment, 82, Maruti Lalpari Talav, At. Rajkot.
6296.	Ravindra Vasavalal Babulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	7020 16-5-79	M/12, Arihantnagar, Sola Road, Near Bhujang Dev Society, Homnagar, A'bad.
6297.	Ravindrakumar Barad Bhagvanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5904 28-9-77	At. Vejalaka, Tal. Dholaka, Distt. A'bad.
6298.	Ravindrakumar Jani Natavarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5013 20-10-75	325, Navad's Pole, Ghikata, A'bad.
6299.	Ravindrakumar Joshi Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5649 5-1-77	At. Valam, Tal. Visnagar, Distt. Mehsana.
6300.	Ravindrakumar Hisabnish Balkrishna	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3379 16-2-72	B. No. 9, Sadashivnagar, Ranip, Sabarmati, A'bad.
6301.	Ravindrakumar Pandya Mukundray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7701 29-4-80	Nani Bhagol, Vaidya Sheri, Behind Mata, At. & Post & Tal. Prantij, Dist. Sabarkantha.
6302.	Ravindrakumar Bhut Ramnilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1954	856 2-6-58	At. Gadat, Tal. Vyara, Distt. Surat.
6303.	Ravindranath Patel Narottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	7969 20-2-81	At & Post & Tal. Nizar, Via. Nandurbar, Distt. Surat.

1	2	3	4	5
6304.	Ravindratai Shastri Purushottam	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1967	2595 5-10-67	Shri N. Br. Ashram, At. Chanded, Tal. Debhoi, Distt. Baroda.
6305.	Raviran Devamurari Bhaktiram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8208 2-11-81	At. Lahasa, Tal. Dhagha, Distt. Bhavnagar.
6306.	Ravishanker Dave Ratilal	Ayurved Visharad, Board of I.M. Saurashtra 1960	2231 30-3-61	Ay. Dispensary, At. Otha, Via. Mahuva, Distt. Bhavnagar.
6307.	Ravishanker Purohit Chhaganlal	Ayurved Visharad, M.S. Univ. 1941	1994 8-10-41	Shivkrupa Dhanlaxmi Colony, 1/51-B, Behind Arya Kanya Mahavidyalaya, Karoli Bag, Baroda.
6308.	Ravishanker Sharma Kamlashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3178 16-4-71	At. Sayan, Distt. Surat.
6309.	Ravishanker Vyas Amrutlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1959	1104 27-9-62	3/19, Raghuvanshi Society, Maninagar, Near Railway Quarter, Ahmedabad.
6310.	Ravji Godhani Bhima	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5779 26-4-77	At. Bhalagam, Via Begasra, Distt. Junagadh.
6311.	Ravji Fefar Bhudar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	2805 2-8-69	At. Ade Pur, Via. & Tal. Morbi, Distt. Rajkot.
6312.	Ravaji Kalena Keshaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4974 15-10-75	At. Luuidhar, Distt. Amreli.
6313.	Raxa Davada Babulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4618 29-1-75	Dwarkapuri Temple, At. Jam- nagar.
6314.	Raxa Dave Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6821 22-3-79	B-53/854, Krushnagar, Saijpur Bogha, Naroda, A'bad.
6315.	Raxa Shah Bipinchandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9396 23-9-85	Manapor Chakala, At. Dabhoi- 391110, Distt. Baroda.
6316.	Raxa Vyas Gantankumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8413 5-4-82	At. Thukariya, Post Palaj, Distt. Broach.
6317.	Raxaben Shah Dhansukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7353 29-10-79	Rajalaxmi Society, Varasivad, Varasivad, At. Baroda.
6318.	Raysingbhai Vaghela Shankerbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5360 22-4-76	Near Holi Chakala, At. Chaka- lashi, Distt. Khoda.
6319.	Rehana Dhrolia Hatimbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9251 9-4-85	Kalawad Gait Road, Vashali- Fali, At. Jamnagar.
6320.	Rekha Bhatt Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5122 15-1-76	36, Arunoday Society, Alkapuri, Baroda.
6321.	Rekha Bhatt Jagdishchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6764 21-3-79	Laxminarayan Temple, Bank Road, Mandavi, At. Baroda.
6322.	Rekha Bhatt Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7588 14-3-80	C/o S.P. Dave, 78, Gotyark Nagar, Opp. Navyug Colony, Runder Road, Surat-9.

1	2	3	4	5
6323.	Rekha Bhatiya Govindram	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9118 23-8-84	182/B, Old Railway Colony, Sabarmati, A'bad.
6324.	Rekha Chatterji Narayanchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8378 18-3-82	Murali Bhawan, Kapil Printing Press, Saijpur, A'bad.
6325.	Rekha Gajjar Mulajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5216 26-2-76	Chatur Laxmi Nivas, Punit Ashram, Manninagar, A'bad
6326.	Rekha Gangadiya Pravinbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5428 14-6-76	Swadyay Kutir, Near Milton Hotel, At. Abu, Distt. Siroji
6327.	Rekha Janodiya Indravadan	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9050 10-5-84	Gandhi Pole, A'bad Bazar, At. Nadiad, Distt. Kheda.
6328.	Rekha Modi Chimanlal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1965	1898 23-12-65	C/o Dr. Anilkumar Shah, Sta- tion Road, Bilimora, Distt. Valsad.
6329.	Rekha Patel Rambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4106 2-11-73	C/o Vinodchandra R. Patel, Old Muni. Qua., Block No. 62/2, Outside Shahpur Gate, A'bad.
6330.	Rekha Popat Bhanajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7381 16-11-79	C/o D.P. Popat, Sakatvada, Ran Sheri, Prabhunivas, At. Juna- gadh.
6331.	Rekha Shah Popatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7659 31-3-80	27, Anjanapark Society, Outside Shahpur Gate, A'bad.
6332.	Rekha Shukla Jayantkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8001 25-2-81	Omkar, 1/2, Laxmivadi, At. Rajkot.
6333.	Rekha Thakar Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8531 14-9-82	C-29, 383, Krushnanagar, Saij- pur Bodhi, Naroda Road, A'bad.
6334.	Rekha Vasa Indubhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1966	2846 3-10-69	C/o Still Hospital At. Chhota Udepur, Distt. Baroda.
6335.	Rekhaben Pandya Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6661 28-2-79	India Colony, G-1/41, Thakkar Bapanagar, Near Nikol Tol- nakalla Hou. Society, A'bad.
6336.	Rekhaben Patel Bhagvatprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5730 15-3-77	214, Sardarnagar Society, Chhani Road, Baroda.
6337.	Rekhaben Patel Hasmukhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8616 13-1-83	At. & Post Nizar (Gogi) Via Sarbhon, Tal. Bardoli, Distt. Surat.
6338.	Rekhaben Shah Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4444 16-8-74	1/3787, Moti Desai Pole, At. Surat.
6339.	Rekhakumar Nathavani Chunilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6122 5-4-78	Govt. Dispensary, At. Keshod, Distt. Junagadh.
6340.	Rekhakumari Oza Anantrao	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3396 24-2-72	Raising San, Plot No. 17/4, Shilpinagar, Bhavnagar.
6341.	Renuka Dave Harharibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4435 22-7-74	12, Sardar Patel Colony, Stadium A'bad.

1	2	3	4	5
6342.	Renuka Joshi Vishnuprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6383 27-10-78	C/o V.C. Joshi, Kavishwar's Pole, Bolahanuman, Khadia, A'bad.
6343.	Renuka Oza Kirtikumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3757 6-2-73	1172, Gangotri Meghani Marg, Ambawadi Road, Krishnanagar, Bhavnagar.
6344.	Renuka Patel Mohanolal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8801 5-7-83	3, Narsinhnagar Society, Near Panchalnagar, Old Vadaj, A'bad-13.
6345.	Renuka Vinchhi Premjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4388 28-5-74	C/o Premjibhai A. Vinobhi, Amar Jyot, Opp. New Jail, At. Jamnagar.
6346.	Renuka Vyas Bhupatbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9308 2-7-85	C/o J.P. Bhatt, Giriraj Colony, B. No. 18/A, "Gunantit Jyoti" Ambawadi Panchvati-2nd Lane, Ellisbridge, A'bad-6.
6347.	Renukaben Majumdar Dushyantkumar	B.A.M.S., Univ. of Saugor 1978	8886 27-12-83	Lalbhai's Pat. Kothari Street, At. Broach.
6348.	Renukaben Panchal Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4420 26-6-74	3307, Patel Pole, Dariapur, Char Rasta, A'bad.
6349.	Revabhai Patel Karshandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3354 15-2-72	Ratanpole, At & Post Balisana, Tal. Patan, Distt. Mehsana.
6350.	Ridhi Trivedi Dinkarray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8442 31-5-82	C/o D.P. Trivedi, Camandor Bungalao, Opp. Takat-A-Khur- shid Hotel, Bhavnagar-364002.
6351.	Rital Joravivya Bajarasbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6136 19-4-76	C/o Neel Ogastin, Baraiya, Mishan Hou. Muralisara, Surat.
6352.	Rita Joshi Kanakchandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9357 21-8-85	12/A, Janvishram Society, Be- hind Sahjanand College, A'bad-15.
6353.	Rita Naik Thakorlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9382 23-9-85	9/Govindbag, Desara Road, Tal. Gandevi, Distt. Valsad.
6354.	Rita Shukla Bhupendrabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8776 16-6-83	Hou. No. 8/1956, Gopipura, Opp. Govindji's Temple, At. Surat
6355.	Rita Patel Ramanlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9370 2-9-85	C/o. Dr. Vijay R. Patel, Opp- Gandhi Park, At Abu Road, 307026, Distt. Sirohi (Raj)
6356.	Rita Aanghavi Pravinchandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9333 9-8-85	Vanda Fali, Sanghavi Building, At. Jamnagar
6357.	Rita Vyas Rajendra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9443 23-12-85	"Shivan" 37, Ajitnagar, Dinesh Mill Road, Baroda-390065
6358.	Ritaben Pandya Dineshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7774 1-8-80	C/o Dineshchandra A. Pandya, At. Sansoli, Tal. Kalol, Distt. Panchmahal.
6359.	Ritaben Vora Valajibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9220 19-2-85	Jalaram Society, Gayatri, At Junagarh
6360.	Rohitkumar Vaidya Kashiram	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6858 2-4-79	17, Sanskar Society, Near Bahai Centre, Shahpur, A'bad

1	2	3	4	5
6361.	Rohini Bhatt Govardhandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7539 20-2-80	23, Vallabhacharya Society, Jivraj Park, A'bad.
6362.	Rohini Kutmutiya Vitthaladas	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	113 23-10-61	Shriji Bhuvan, Second Floor, Gazdar Park, Chora Bazar, Bombay-2.
6363.	Rohini Patel Purshottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	8306 5-2-82	27, Kirtikunj-Society, Karoli Bag, Baroda
6364.	Rohini Vyas Shirajlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	6005 10-1-78	2, Sursangam Co. Op. Hou. Society, Opp. Prabhudas Thak- kar College, Paladi, A'bad.
6365.	Rohiniba Jadeja Kalyansinhji	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9327 25-7-85	At & Post Chakr (Ashram) 370105, Tal. Bhuj-Kutch.
6366.	Rohit Shah Dhirajlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9344 21-8-85	12/Hajkamal Park, St. Zavious High School-Road, A'bad- 380014.
6367.	Rohitkumar Bhatt Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5978 28-11-77	20, M Gujarat Hou. Board, Ajavaroad, Baroda.
6368.	Rohitkumar Joshi Krushnalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8100 20-6-81	Shivkrupa, Hansrajnagar, Be- hind Rafyuzi Colony, At. Rajkot.
6369.	Rohitkumar Kapadia Mansukhlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9328 9-8-85	C/o K.M. Bhavsar, Opp. Mistri Studio Station Road, At. Bili- mora-396321, Tal. Gandevi, Distt. Valsad.
6370.	Rohitkumar Patel Parsottambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8670 16-2-83	At. & Post Jitodiya, Darvaja's, Tal. Anand, Distt. Kheda.
6371.	Rudaynarayan Dube Gilakdhari	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4715 31-3-75	63, Soni Chali, Near Ahit Mill, Rakhiyal Road, A'bad.
6372.	Rudrakant Pandya Manilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1960	769 23-10-61	Rudrakrupa Kutir Bhimnath Road At. Sankheda, Distt. Baroda.
6373.	Rugnath Kubavat Jivram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1968	7562 29-2-80	At. Chamaradi, Tal. Babara, Distt. Amreli.
6374.	Rugnath Sejpal Damaji	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	7150 25-7-79	At. Amarapur (Gir), Tal. Malia- Natina, Distt. Junagadh.
6375.	Rupa Bhatt Indravadan	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9547 31-12-86	6/43, Nityanandnagar, Near Baladevi, At. Bardoli-394601, Distt. Surat.
6376.	Rupa Desai Thakorbbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1984	9441 23-12-85	"Hari Nivas" Halar Cross Road, At. Valsad-396001.
6377.	Rupakumar Vyas Manubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6232 10-8-73	Vishal Mahillo, Champa Nivas, At. & Post Nivasari, Distt. Valsad.
6378.	Rupohand Lalvani Khomehand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6832 22-3-79	Ward No. 6, Room No. 194, Kubornagar, A'bad.
6379.	Rushabhkumar Bhavsar Jashavantlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5199 25-2-76	Moti Chhipvad, Near Bhadra Kashari, Baroda.

1	2	3	4	5
6380.	Rushikesh Pandya Anantrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ 1982	9016 16-4-84	C/o Dr. R.K. Pandya, "Gayatri Prasad", Station Plot-10, At Gondal, Distt Rajkot.
6381.	Rushikesh Shukla Narhariprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4649 12-3-75	Vadivadi Alkapuri, Baroda.
6382.	Rupa Marfatia Bakuleshbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1985	9560 3-9-86	50/Krushnakunj Society, Near Police Ground, Athava Line, At. Surat-395007.
6383.	Ruturaj Pandya Dinubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8680 3-3-83	C/o D.P. Pandya (H.I.), 17-B, Railway Staff Colloge, Lalbag, Baroda.
6384.	Rushikumar Mehta Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5705 24-2-77	Limada Line, Davada Mainsion At. Jamnagar.
6385.	Rukshanan Subedar Gukamhusen	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1975	5235 1-3-76	5, Muslim Society, Navrang- pura, A'bad.
6386.	Sabdovsinh Vansiya Ranjitsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay Univ. 1979	8016 3-4-81	At Karsad, Tal & Post Valia, Distt. Broach.
6387.	Sadaruddin Ratnani Gulamhusen	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1974	6964 4-5-79	At. Ukharala (Pakharajana), Tal. Ghoghre, Distt. Bhavnagar.
6388.	Sadhana Shah Navnitlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1981	8879 12-12-83	3/633, Navpura, Karva Road, At. Surat-1.
6389.	Sadhana Desai Sunilchandra	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	438 26-7-63	C/o Dr. S.M. Desai, Opp. Azad Modan, Baroda.
6390.	Sadashiv Sharma	H.P.A., P.G.T. Centre, in Ay. Jamnagar, 1958	2404 27-2-67	Akhand Ayu. Colloge, Ahmeda- bad.
6391.	Sachindrarai Vaidya Shashikant	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1964	1446 11-6-64	39, Vaidya Vila, Idal Colony, Maninagar, Ahmedabad.
6392.	Safi Mahamad Saiyad Mirsaheb	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5936 19-10-77	Opp S.T. Stand, P.U. Shah Estate, At. Modasa, Distt. Sabarkantha.
6393.	Sagarbhai Dosai Nirabhai	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6959 2-4-79	At. Bokarvada, Tal. Visanagar, Distt. Mehsana.
6394.	Sagarmal Joshi Bhagirath Prasad	Ayurved Visharad, B.I.M. Saurashtra 1974	8798 5-7-83	B. No. 149, Room No. 1164, Chamanpura, Hou. Board, A'bad.
6395.	Sahebji Jadeja Keshubha	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1976	5814 6-6-77	At Dhrafa, Tal. Jam Jodhpur, Distt Jamnagar.
6396.	Sailesh Chauhan Natvarsinh	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9235 12-3-85	Flat No. 4, Vishram Apart- ment, Ghoddod, At. Surat.
6397.	Sailesh Gandhi Kantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	9046 10-5-84	At. & Post Rakhial, Tal. Dahe- gam, Distt. A'bad-382315.

1	2	3	4	5
6398.	Sailesh Mahajoi Lalji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5878 8-9-77	C/o Dr. V L. Mahajani Ramgopal Vidhi, Nizam bad,
6399.	Saileshkumar Jariwala Dineshchandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9190 11-12-84	11, Darshana Society Timoliya- wada, Nanpura, Surat.
6400.	Saileshkumar Shah Mulajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8223 18-11-81	Shrji Kunj, Nava Bazar, Jambu Gam, Tal. Jetpur-Pavi, Distt. Baroda.
6401.	Saileshkumar Shah Manubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8256 24-12-81	12, Ganajivan Society, Opp. Balolnagar, Ranip, A'bad
6402.	Sajubha Chudsema Bhukhubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	6450 28-12-78	At. Pachogan, Tal. Vallabhi- pur, Distt. Bhavnagar.
6403.	Sajubha Jadeja Parsangji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3956 1-6-73	At. Chavda, Tal. Jam Vanthali, Distt. Surat.
6404.	Sakharam Patil Lalji	B.A.M.S Univ. of Gujarat 1969	3026 11-8-70	C/o Perti Store, At. Shahada Distt. Dhuliya.
6405.	Salama Damar Abdulhanan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5275 12-3-76	Jamal Bulding, Near Ganga- ram's Chakki, At. Vanthuli, Distt. Junagadh.
6406.	Salimabanu Patel Ismailbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8522 27-8-82	Madresa Street, At. Kesanba (R.S.), Tal. Mungerol, Distt. Surat-1
6407.	Samantsinh Zala Ghoji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5954 27-10-76	At. Bamroli, Tal Viramganj Distt. A'bad.
6408.	Samarathadan Mahedu Ambadan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8089 4-6-81	C/o A. B. Gadhavi, Shanti- nagar, Soccity, Hildraiv, B. No. 16, At. Bhavnagar.
6409.	Samarthden Mahedu Amarsang	B.A.S.M Gujarat Ay. Univ. 1974	4908 9-7-75	At. Jat Pipali, Tal. Dasada, Distt. Surendranagar.
6410.	Samir Vaishnav Jaykarlal	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ., 1982	8830 1-9-83	Gangotri Bhuvan, Manganath Road, Near Kalava Chowk, At. Junagadh.
6411.	Samirkumar Vyas Jayantkumar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9094 31-7-84	Dhebar Falia, Kundi Sheri At. Junagadh-362 001.
6412.	Sanatkumar Bhatt Pranshanker	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat 1967	2453 30-3-67	C/o C. M. Mehta, 570, Airogram Road, Bhavnagar.
6413.	Sanatkumar Bhatt Bilnathbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4282 21-3-74	8, Shivnagar, Near Railway Crossing A'bad
6414.	Sanatkumar Dave Ambalal	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ., 1969	3066 4-11-70	Sindushi Pole, At. Nadjad Distt. Kheda.
6415.	Sanatkumar Dave Hariharprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	6767 21-3-79	1, Ganesh Society, Out-side Shahpur Gate A'bad
6416.	Sanatkumar Joshi Vrujlal	B.A.M.S., Indore Univ., 1976	5828 5-7-77	Gurukul Road, At. Savar- Kundala Distt. Bhavnagar.

1	2	3	4	5
6417.	Sanatkumar Raval Pravinchandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9279 2-5-85	Opp. Kesariyaji Bus Stand, Lavanya Society, Ghar Rastra Vasana, A'bad-7.
6418.	Sanatkumar Thakar Fulshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2806 5-8-79	At. Tankara, Tal. Morbi, Distt. Distt. Rajkot.
6419.	Sanatkumar Upadhyay Kantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8972 12-3-84	C/o Dr. R. S. Anant, At. & Post Dabaka, Tal Padara, Distt. Baroda.
6420.	Sandhiya Patel Chandrakant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6098 21-3-78	3/A, Subhashnagar Society, Behind Income Tax Office, A'bad.
6421.	Sandhya Badakas Chunilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8675 16-2-83	Parishram Building, Tal Majalo, Shankerwadi, Kokan Fajia, Wadi. Baroda- 390017.
6422.	Sandhya Bivala Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979	7994 25-2-81	Zampaljar, Main Road, At. Surat.
6423.	Sandhya Anerav Datatrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1972	3962 15-6-73	C/o D.N. Dave M/5, Vikram Appartmet, Shreyan Railway Crossing, Ambavadi, A'bad.
6424.	Sandya Bhatt Ravinshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ 1973	6123 5-2-78	K.M. Jain, Vidarthi Gihuh Vareada Road, Amreli.
6425.	Sandhya Gade Shiwajirao	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1982	9354 21-8-85	Near Devi's Temple, Jumbugait, Dandiya-Bazar, At. Baroda- 390 001.
6426.	Sandhya Ok Madhukar	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1951	79 4-7-52	Shivaranjan 11-B, Amar Jyot society, Lal Bug Road, Baroda.
6427.	Sandhya Shah Uitendrabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7571 2-3-80	C/o J.T. Shah, At. Valod, Distt. Surat.
6428.	Sandhyaben Sheth Narharilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1979.	7862 10-10-80	16, Saini Society, Sultanpur, Baroda-7.
6429.	Sandya Patil Sakharam	A.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6186 26-6-78	33-M./136, Pragtinagar Naranpura, A'bad.
6430.	Sandhyaben Pandya Dinubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3591 14-9-71	Dabagar Sheri, Bhaga Talav, At. Bhavnagar.
6431.	Sangam Vora Vadilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	9174 13-11-84	Tapovan-Sanskardham, At. Dharagiri, Post. Kablrpor, Tal. Navsari, Distt. Valsad.
6432.	Sangita Shah Manharlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5021 28-10-75	23, B, Amrakunj-Society, Kankariya, (Opp. Kamlesh Society) A'bad.
6433.	Sangitaben Raval Ashokkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	4862 29-5-75	C/o Dr. A.L. Raval, At. Barvala Ghelasha, Tal. Dhandhuka, Distt. A'bad.
6434.	Sangrambhai Chaudhari Babubhai	B.S.A.M., Gujaray Ay. Univ. 1972	4130 1-12-73	At. Unava, Tal. Siddhapur, Distt. Mehsana.
6435.	Sanina Marajban Shasunbhai	B S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	6268 11-9-78	At. Masar Road, Tal. Pardara, Distt. Baroda.

1	2	3	4	5
6436.	Sanjay Jayswal Devishchandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9381 23-9-85	"Ullas Nivas," Near Ahmeda- badi Shop, At. Nadiad, Distt. Kheda.
6437.	Sanjaykumar Chavada Rajuji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1980	8351 11-3-82	A-2/21, Krishnanagar, Saijpur, A'bad.
6438.	Sanjaykumar Dave Hariprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9103 31-7-84	Brahmanwada, At & Post Zalal, Distt Panchmahal-389 170.
6439.	Sanjaykumar Maniyar Jitendrabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9277 2-5-85	25/Tatsaat Society, Ambawadi, Niyo Jamnagar, A'bad-15.
6440.	Sanjaykumar Pandaya Induprasad	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ., 1984	9240 12-3-85	Bajvada, Samadi-Pole, Baroda- 390 001.
6441.	Sanjaykumar Patel Dinubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5851 23-8-77	At. Taralasa, Distt Broach.
6442.	Sanjaykumar Patel Naganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7267 11-9-79	Manuman Falia, Gusa Bazar, At. Miyagamkarjan, Distt. Baroda.
6443.	Sanjaykumar Vora Vinayray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8042 27-4-81	Premparag, Opp. Jalaram Temple, At & Post Nalia, Tal. Abadasa, Distt. Kutch
6444.	Sanjivani Gondekar Anandrao	B.S.A.M., Gujarat Ay Univ., 1976	6590 16-2-79	2, Sadanand Vitthal Society, Madanzapa Road, Baroda.
6445.	Sankabhai Chaudhari Ramabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5172 16-2-76	At. Soliya, Tal. Vijapur, Distt Mehsana.
6446.	Sankalochan Patel Kuberdas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	2008 20-4-66	Kamalpur, Tal. & Post Prantij, Distt. Sabarkantha
6447.	Sankarlal Rajput Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3656 12-10-72	Station Naginjivan's Chali, Room No 96, At. Navari, Distt. Valsad.
6448.	Sanmukhbhai Patel Govindbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ. 1983	8974 12-3-84	At. & Post Puna (Kumbhariya) Tal. Choryasi, Distt, Surat.
6449.	Sanmukhlal Gajjar Dhansukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	5145 30-1-76	Dalgiya's Maholla, Mahidhar- pura, Surat.
6450.	Santoshkumar Joshi Krishnachandra	B.A.M.S., Vikram Univ., 1976	7471 2-1-80	C/o K.M. Joshi, 89/4, Madhav Club Road, Ujjain (M. P.)
6451.	Sarabhai Shah Chhotalal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1962	1250 21-5-62	Juna's Suthar Wada Chanema, Distt. Mehsana.
6452.	Sarabjit Panjabi Kartarsingh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4450 20-8-74	Vakil Colony, At. Ahava, Distt. Dang.
6453.	Sarala Desai Motibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3687 18-11-72	C/o Mahendrabhai P. Patel., Bajarang Chowk, Near Swami Narayan Temple, At. Dharmaj. Tal. Petlad, Distt. Kheda.
6454.	Saralal Shah Laherchand	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1961	1247 23-10-61	At. Sami, Via. Harij, Distt. Mehsana.

1	2	3	4	5
6455.	Sarala Trivedi Durlabh jibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8397 5-4-82	At. Ghentiya, Post Nantiya, Via. Vantholi, Distt. Junagadh.
6456.	Soralaben Rathod Arjambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	7933 29-12-80	At. & Post Kodinar, Distt. Amreli.
6457.	Saraswati Jalundhawala Nethalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1949	188 2-8-49	Gitanjali Chaitanya Co-op. Society, St. I. High School, Post Navjivan, A'bad.
6458.	Sardulbhai Kalavala Danaabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5785 30-4-77	Nagarvada, Gate Fallia, At. Baroda.
6459.	Sarejben Dave Shambhuprasad	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2084 4-7-66	7, Vijay Society, Gomatipur, A'bad.
6460.	Sarejben Varia Ratilal	B.A.M.S., Univ., of Gujarat, 1966	2451 30-3-67	C/5, G.B.I. Quarters, At. & Post Divda Colony, Distt. Panchmahal.
6461.	Sarijben Vaidya Saileshkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4746 7-4-75	Kanasara Bazar, Opp. Post Office, At. Umreth, Tal. Anand, Distt. Kheda.
6462.	Sarla Mesvani Ramdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4264 16-3-74	C/o Ramdas Davkaran Bho- jeshwar Plot Khatladi Chowk, Ramkurj, At. Porbandar, Distt. Junagadh.
6463.	Saroj Kantilal Acharya	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	8195 12-10-81	Near Chipiyavala Place, Juna- nagar, Road, At. Junagadh.
6464.	Saroj Borad Vasantray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8056 27-4-81	St. Road, Dispensary, Vijay Chowk, At. Bagdara, Distt. Amreli.
6465.	Saroj Dilal Bhaidas	Vaidya Charya, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1961	8360 11-3-82	C/o Shri A. C. Banker, 3/G. Teshan Bahwan, Lal Darvaja, Surat.
6466.	Saroj Khandhar Surender	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1961	2864 23-12-69	C/o Hiralal T. Nanavati 9/1622, Kelapith Road, Surat.
6467.	Saroj Panchmiya Ashwin	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3352 11-2-72	C/o J. K. Batvia, Gadhawala's Bangala, Jail Road, Bhavnagar.
6468.	Saroj Shukla Tulajashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4290 26-3-74	7, Dungechinagar Bhattha, Sarkhaj Road, A'bad.
6469.	Saroj Shukla Labhashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7251 3-9-79	C/o Pantvaidya Labhashanker Shukla, Punitkutir, Dhebar- bhai Chowk, At. Rajkot.
6470.	Sarojbala Bhatiya Surendronath	B. S. A. M. Gujarat Ay. Univ., 1971	3900 31-3-73	C/o R. N. Patel, At. Vanaj Tal. Kadi, Distt. Mehsana.
6471.	Sarojaben Kojiwala Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3229 18-8-71	Sarojben B. Shukla 17/Patel Colony, Siddhanath Road, At. Baroda.
6472.	Sarojben Patel Ramanlal	B. A. M. S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9639 5-12-86	1/B, Adarsh Society, Tithal Road, At. Valsad-396001.
6473.	Sarojbala Patel Praladbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9471 11-2-86	"Gnanyagna" Yoginagar, Main Road, At. Gondal-360311, Distt. Rajkot.

1	2	3	4	5
6474.	Sarojben Upadhyay Shivprasad	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1974	4878 12-6-75	C/o Vidaya Karshandas K. At. Road, Via Chikhali, Distt. Valsad.
6475.	Sarojchandra Raval Labhshanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1953	2498 29-8-53	C/o Dr. Raval Labhshanker Jethalal, At & Post Chananda, Tal. Miyagan Karajan, Distt. Baroda.
6476.	Saraswati Amin Harakhchand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4664 17-3-75	Near Tower, At. Manunnd, Tal. Patan, Distt. Mehsana.
6477.	Sarvodayakumar Dard Kashimasha	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4849 14-5-75	Sub Post Build., At. Dhoraji, Distt. Rajkot.
6478.	Saryubala Patel Ranchhodji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6367 13-10-78	At. & Post Hathuka, Tal. Valod, Distt. Surat.
6479.	Satishchandra Paher Chhitarlal	B.A.M.S., Indore Univ., 1974	7287 20-9-79	Dudh Talai, Padava Road, At. Khandava, Distt. East Nimar, (M. P.)
6480.	Satish Karode Vinayak	B.S.A.M., Poona Univ., 1975	5236 1-3-76	8, Suryanagar Hou. Society, Vaghodiya Road, At. Baroda.
6481.	Satishchandra Mali Jashvantrao	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	6800 21-3-79	At. Mota Vaghachhiya, Tal. Paradi, Dist. Valsad.
6482.	Satishchandra Nansi Ramaniklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2881 22-1-70	Dagiya Fali, Lindi Bazar, At. Jamnagar.
6483.	Satishchandra Shah Punjalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6591 16-2-79	At. Dahej, Tal. Vagara, Distt. Broach.
6484.	Satishchandra Sharma Harishanker	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ., 1975	6879 3-4-79	M-5/60, 476., Shashtriynagar, Naranpura, A'bad.
6485.	Satishchandra Soni Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	8158 3-9-81	14/164, Opp. Balkrashna Krushnanagar, Saijpurbogha, At. A'bad.
6486.	Satishchandra Trivedi Chunilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8391 24-3-82	At. & Post Anjama, Tal. Prantij, Distt. Sabarkantha.
6487.	Satishkumar Bhatt Harishchandra	D.S.A.C., Gujarat Ay. Univ., 1966	2320 2-12-66	At. & P. O. Himmatnagar, Near Old Kanyashala, Near Old Gate, Distt. Sabarkantha.
6488.	Satishkumar Patel Shankerlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7812 15-9-80	At. Jantral, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
6489.	Satishkumar Prajapati Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8655 10-2-83	At. & Post Kanpur, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
6490.	Satishkumar Patel Govindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7908 3-12-80	1/B, Pashwanath Society, Ranip, A'bad.
6491.	Satyajit Dave Natvarlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9407 19-10-85	"Dwarkesh" Muralidhar Society, Sardar-Para, At. Junagadh- 362 002.
6492.	Satyanarayan Pandit Goradhanprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3224 10-8-81	Camp, Sadar Bazar, A'bad.

1	2	3	4	5
6493.	Satyandra Almoula Natavarlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1955	95 1-7-55	Bahadur Buraj, At. Broach.
6494.	Satyapal Hirani Muncharlal	Ayurvedacharya, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1970	7841 10-10-80	At. Ikbalgadh, Tal. Palanpur, Distt. Banaskantha.
6495.	Satyavan Sharma Jesarma	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1961	7288 20-9-79	5-B, Ghanshyam Society, At. A'bad.-22.
6496.	Saukatali Munshi Nafezalibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6256 2-9-78	Navi Khadaki, At. & Post Kave Tal. Jambasar, Distt. Broach.
6497.	Saurindrakumar Dhami Mohanlal	Ayurved Visharad, B. I. M. Saurashtra, 1960	2226 6-4-61	Kerampora Kishorisinhji. Road, Dhami Nivas, At. Rajkot
6498.	Savabhai Parmar Nathabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7546 21-2-80	Vankarvas, Tal. Lodra Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
6499.	Savailal Gohel Damajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3696 27-11-72	Khodpara, Near Shanker Temple At. Jetpur, Distt. Rajkot.
6500.	Savaji Delvadia Karshan	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1993	6689 3-3-79	At. Motarvania, Tal. Malia, Hatina Distt. Junagadh.
6501.	Savajibhaji Manavadaria Velajibhai	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1964	7089 6-7-79	At. Zepdar, Via Vanthali, Distt. Junagadh.
6502.	Savita Parmar Dhulabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	6129 12-4-78	A/5, E. H. I. S., Qua., Gerva, Baroda.
6503.	Savita Solanki Sindhuprasad	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4601 1-1-75	A-C, Aryanaagar Hou. Society, Kankari Road, A'bad.
6504.	Savitaben Kantesariya Kantilal	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1963	7644 20-3-80	Anant Enterprises, 205, Servo- day Commercial Centre, Opp. Near G. P. P., A'bad.
6505.	Savitri Rathod Dalapatraj	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3783 15-2-73	Block 9/100, Indiranagar, Amraiwadi, Meninagar, A'bad.
6506.	Saitaben Vyas Ambalal	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat, 1965	1726 15-6-65	At. Chuva, Post Bochasana, Distt. Karja.
6507.	Sejal Patel Ambalal	B.S.A.M., Gujrat Ay. Univ., 1982	9067 15-6-84	9-A, Abhaynagar, At. & Post Gorava, Distt. Baroda.
6508.	Senghagiri Gosai Baladevigiri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	6927 17-4-79	At. Bamanava, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
6509.	Sevantilal Shah Amrutlal	A.B.M.S., B. H. Univ., 1961	6939 17-4-79	B/31, B. No. 411, Naroda Road, Post Krushnanagar (Saijparbegha), At. A'bad.
6510.	Sevelbhai Patel Maribhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3099 28-1-71	At. Sachbapur, Post Navalgur, Tal. Himmatnagar, Distt. Sabar- kantha.
6511.	Shabbir Hakimji Toiyebbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5414 4-6-76	761, Jakariya Masjid, Relief, Road, A'bad.

1	2	3	4	5
6512.	Shabbirali Palsania Daubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9646 31-12-86	At. Meta—385525, Tal. Vadgam, Distt. Benaskantha.
6513.	Shahenasbibi Pathan Abdul Salam	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7308 20-9-79	Railway Qua. No. 83/C, At. Jetalsar Jn., Distt. Rajkot.
6514.	Shahhikala Mehta Hamendralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4135 10-12-73	Mahidherpara, Dakgiya Mahollo, R. No. 14, At. Surat.
6515.	Shahinda Hakim Saraferzhusen	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3054 30-9-70	Gopipura, Kazi's Medan, Surat.
6516.	Shahin Vaidya Mohanalal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1964	1840 5-11-65	At. & Post Ladol, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
6517.	Shahmbhugor Goswami Rugnathgar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4335 16-4-74	Kulpi Bhawan, At. Vantoli Distt. Junagadh.
6518.	Shaila Pandit Sharadchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5578 18-10-76	C/o S. P. Pandit Sec. No. 30, B. No. 11/1, Gandhinagar.
6519.	Shailendrakumar Shah Viththalbai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7788 19-8-80	13, Mahadevnagar Socctv. Ajuva Road, Near Ice Factory, Pani Gate, Bareda.
6520.	Shailesh Dave Ramanath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7816 17-9-80	C/o Dr. Ramnath I. Dave, Smart Clinic, Shamaldas Gandhi Marg, At. Una, Distt. Junagadh.
6521.	Shaileshkumar Mehta Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7542 21-2-80	C/o Nitesh K. Mehta Bhagvati Bhuvan College Chowk, At. Gondal, Distt. Rajkot.
6522.	Shaileshkumar Parikh Biharilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6870 3-4-79	Kukavav Bazar, Shethvada, At. Kapadvanj, Distt. Kheda.
6523.	Shaileshkumar Patel Ambalal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9544 12-8-86	Kalasyawas, At. & Post Paliyad, Tal. Kalol, Distt. Mehsana-382737.
6524.	Shaileshkumar Shah Mahendrabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8908 24-1-84	C/o Dr. M. B. Shah, Near Chhetrichowk, At. Chotila, Distt. Surendranagar.
6525.	Shaileshkumar Vaidya Rameshbhai	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1974	6673 28-2-79	Kansara Bazar, Near Post Office Branch. At. Umreth, Distt. Kheda.
6526.	Shaileshkumar Vankani Jayendrabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8906 24-1-84	C/o Dr. J. K. Vankani, "Shiv- sadan", Opp. Post Office At. Jasdan, Dist. Rajkot.
6527.	Shala Manshani Dolairam	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6340 4-10-78	577-B, New Railway Colony, Sabarmati, A'bad.
6528.	Shakarabhai Patel Hathibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3157 20-3-71	At. Patnakuva, Tal. Dahagam, Distt. A'bad.
6529.	Shakarabhai Patel Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3780 12-2-73	Outside Vav Gate, At. Mansanu, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.

1	2	3	4	5
6530.	Shakarabhai Vaidya Jeitaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2810 13-8-6	Bala-hanuman Ashram, At. Lodra, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
6531.	Shaktiprasad Bhatt Manklal	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2361 10-1-57	45, Ashoknagar, Outside Shahpur Gate, A'bad.
6532.	Shaktishinji Sarvaiya Chandrasinhji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5051 26-11-75	At. Hathsani, Tal. Falitana, Distt. Bhavnagar.
6533.	Shakuntala Chaudhari Maujiram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3843 2-3-73	Block No. 240, Filand Ganj, At. Dehad, Distt. Panchmahal.
6534.	Shakuntala Gokhale Trambak	D.S.A.C., C.S.Ay. Course, Gujarat, 1961	161 4-6-63	Sultanpura, Govlad, Khatrivad, Baroda.
6535.	Shakuntala Patel Jayprakash	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8718 19-4-83	C/o Dr. Jayprakash R. Patel, Shradhha Clinic "Gcya Bazar", At. Ankleshwar, Distt. Broach.
6536.	Shakuntala Shah Ochhavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	27-8-74	Vaibhav Flat No. 5, Opp. Rajhans Society Ellisbridge. A'bad.
6537.	Shakuntala Mavlankar Vishnu	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1950	939 26-2-51	Seva Kutir, B. No. 10, Maharashtra Society, Ellisbridge, A'bad-6.
6538.	Shalan Antrokar Sitaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4326 8-4-74	Kumedan Falia, Raj Mahal Road, At. Baroda.
6539.	Shailesh Joshi Balavantra	B.A.M.S., Indore Univ., 1976	5986 2-12-77	1, Sunita Society, Amhavad Ellis- bridge, A'bad.
6540.	Shaileshkumar Vaidya Govindlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5952 22-10-77	At. Khilatarvada, Tal. Siddhapur, Mehsana.
6541.	Shamalabhai Modi Bholabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4327 9-4-74	At. Uppera, Tal. Siddhapur, Distt. Mehsana.
6542.	Shamalabhai Patel Bholabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7722 17-5-80	At. Pogalu, Tal. Prantij, Distt. Sabarkantha.
6543.	Shamalabhai Patel Nathabhai	B.A.M.S., Univ. of Bombay, 1981	8843 19-9-83	At. & Post. Mesan, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
6544.	Shamaldas Lashkari Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4476 30-8-74	At. Moti, Vawadi, Via. Parvadi, Distt. Bhavnagar.
6545.	Shamaldas Patel Magánlal	Ayurved Bhishak. A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1946	7616 18-3-80	At. Sonasan, Tal. Prantij, Distt. Sabarkantha.
6546.	Shambhubhai Balar Nagajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	5416 4-6-75	At. Ugmedi, Tal. Gadhada, Distt. Bhavnagar.
6547.	Shambhubhai Gaudani Parshotambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5105 1-1-76	1/-A, Surjit Society, Thakkar- nagar Road, A'bad.
6548.	Shambhuprasad Joshi Jayashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	5819 14-6-77	Junapura, Malifalia. At. Kalol, Distt. Panchmahal.
6549.	Shambhubhai Korat Ravajibhai.	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6766 21-3-79	At. Mora Charodiya, Tal. Garischar Distt. Bhavnagar.
6550.	Shambhubhai Patel Narandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7831 26-9-80	309/70, Chokasi's Chali, Amarai Vadi, A'bad.
6551.	Shambhubharathi Goswami Nag Bharathi	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1965	7849 10-10-80	At. & Post Meta Ketada, Via. Bhesam, Tal. Visavadar, Distt. Junagadh.
6552.	Shambhulal Thakkar Ganpatram	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1968	2676 7-6-68	Azad Chowk, At. & Post Bhabhar, Tal. Diyedar, Distt. Banaskantha

1	2	3	4	5
6553.	Shambhunath Singh Indrasan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7858 10-10-80	Room No 4988, B. No. 7, Bapu- nagar, A'bad.
6554.	Shamjibhai Patel Mavjibhai	B.A.M.S., Univ., of Gujarat 1965	1891 15-9-65	At. Bhorinagada, Via. Damnagar, Distt. Amroli.
6555.	Shanabhai Patel Kalidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5432 18-6-76	Kasturba Sebashram, Kovadi Dispensary, Tal. Mangrol, Distt Surat.
6556.	Shanabhai Vankar Narakahabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6204 28-7-78	At. Thokari Amat, Post Kanda, Tal. Padara, Distt. Baroda.
6557.	Shanker Dev Sharma	H.P.A., P.G.T. Centre in Ay. Jamnagar, 1965	2092 17-7-66	C/o Gangram Sharma, Inspector, Ay. Section, At. Dungarpur (Rajasthan)
6558.	Shankerbhai Venker Kalabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3538. 4-8-72	Vankarvas, At. Lodra, Tal. Mija- pur, Distt. Mehsana.
6559.	Shankerbhai Makavana Joitram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5532 17-9-76	At. Mitha Dharava, Tal. Chansma, Distt. Mehsana.
6560.	Shankerbhai Patel Veribhai	Ayurved Visharad, M. S. Univ., 1965	1896 20-12-65	Kansarea Pole, Chokhandi, Baroda.
6561.	Shankerbhai Patel Haargovandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4877 12-6-75	At. Sametra, Via Modera, Distt. Mehsana.
6562.	Shankerbhai Patel Ravabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6235 19-8-78	At. & Post Poshina, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
6563.	Shankerbhai Patil Bhagvan	B.A.M.S., Univ., of Bombay,	8963 12-3-84	201, Jayeshpark Society, Opp. Kailashnagar, Sagrampura, At. Surat Tal. Choryasi, Distt. Surat.
6564.	Shankerlal Bhatt Vrujlal	Ayurved Visharad, B.I. M. Saurashtra, 1968	2223 15-3-58	Ay. Dispensary, At. Pasvi Tal. Talaja, Distt. Bhavnagar.
6565.	Shankerlal Vaidya Tarachand	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1960	1058 23-10-61	Govind Chakla, Station Road, At. Visnagar, Distt. Mehsana.
6566.	Shankersinh Vaghela Gagusing	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3405 28-2-72	Madhupara, Police Quarters, 11/4, Shashibag, A'bad.
6567.	Shankormarayan Bhatt Vonkatraman	M.D. (Ay.), Gujarat Ay. Univ., 1980	8598 13-12-82	Shri G. A. Ay. College, K'rya Chikitsa Vibhag, Jamnagar.
6568.	Shanta Kolvani Lagharan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5080 15-12-75	C/o Kotvani L. G. S. Railway St., At. Jam Khambhalaja, Distt. Jamnagar.
6569.	Shantaben Chauhan Kahushalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5994 19-12-77	At. Dolavan, Tal. Vyara, Distt. Surat.
6570.	Shantaben Gorad Gangjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1984	9505 12-5-85	At. Navagadh-360370, Via. Jetpur, Distt. Rajkot.
6571.	Shantaben Patel Bhallalbhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1954	642 2-8-54	Dr. Shantaben's Maternity Home, Near Kala Mandir Cinema, Topi- wala Khancha, At. Baroda.
6572.	Shantaben Vaja Malade	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1972	8428 17-5-82	At. Bhanduri, Tal. Maliabatina, Distt. Junagadh-362 248.
6573.	Shantagauri Joshi Dolatray	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1969	7498 17-1-80	Near Kabir Ashram, At. Porbandar.
6574.	Shantakala Kulkarni Ganesh	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1951	118 1-9-51	Market Yard, At. Himmatnagar, Distt. Sabarkantha.
6575.	Shantaram Vaidya Narsinhram	L. A.M., U. P. Ay. Maha. Patan (Baroda, State), 1941	2408 13-8-41	Na-Z. Ayu. Mahavidyalaya, Surat.

1	2	3	4	5
6576.	Shantidas Gondaliya Vishnudas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8492 27-8-82	At. & Post Rajasar, Tal. Limbadi, Via. Lakhatar, Distt. Surendranagar.
6577.	Shantigiri Goswami Prabhatgiri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5362 22-4-76	At. Kakidi Moli, Tal. Una, Distt. Junagadh.
6578.	Shantigiri Goswami Mahajangiri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5667 3-2-77	At. Devgana, Tal. Shihor, Distt. Bhavnagar.
6579.	Shantilal Agravat Bhagvandas	Ayurved Visharad, B. I. M. Saurashtra, 1959	2214 30-4-59	Xma Flat, B/2, Navrangpura, A' bad.
6580.	Shantilal Atri Ambashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3330 3-2-72	At. Arakh (Shishodara), Via. Vesma, Distt. Valsad.
6581.	Shantilal Atri Narilal	Ayurved Bhishak A. I. Av. Vidyapeeth, Delhi, 1960	7503 17-1-80	At. Adavana, Tal. Porbandar, Distt. Junagadh.
6582.	Shantilal Barad Bhikhabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5061 2-1-75	At. Sanosara, Via. Songadh, Tal. Shihor, Distt. Bhavnagar.
6583.	Shantilal Bhankhar Keshavji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4414 20-6-74	At. Thanapipali, Via. Lushala, Distt. Junagadh.
6584.	Shantilal Bhatt Popatlal	L.A.M., U. P. Ay. Maha. Patan, (Baroda State), 1937	862 18-10-41	Junagadh Ayu. Medical Hospi- tal, Junagadh.
6585.	Shantilal Chauhan Laxmanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5509 25-8-76	Meta Falia, Rander, At. Surat.
6586.	Shantilal Daraji Mangalbhai	Ayurved Madhyama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda, 1978	6515 1-2-79	Drug Inspector, Mehta Block, Prabhu Road, At. Godhara, Distt. Panchmahal.
6587.	Shantilal Dave Maganlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1949	370 19-10-49	Near Koyala Mazdur Panchayat Office, Koribandh, Post Zaria (Dhanbad).
6588.	Shantilal Dave Ambashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5602 17-11-76	C/o Jayraj Cycle College At. Joracarnagar, Distt. Surendra- nagar.
6589.	Shantilal Dave Marikesh	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1960	6770 21-3-79	Ramkuva Street, Jala's Zar, At. Jamnagar.
6590.	Shantilal Devmurari Maridas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7732 6-6-80	Krishnapara, Main Road, Kapad Bazar, At. Vadia (Devadi), Distt. Amreli.
6591.	Shantilal Gandhi Gordhandas	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	150 17-1-62	Parukuri, Vandari Street, At. Navasari, Distt. Valsad.
6592.	Shantilal Gondaliya Narandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5774 26-4-77	At. Bhelana, Tal. Mangarol, Distt. Junagadh.
6593.	Shantilal Govatiya Bavajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8581 21-10-82	At. & Post Dantava Devadi, Via. Vadia, Devadi, Distt. Amreli,
6594.	Shantilal Joshi Pranchanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4271 20-3-74	At. Hamirpar, Post Nekkath, Tal. Morbi, Distt. Rajkot.
6595.	Shantilal Joshi Vajeshanker	Vaidya Visharad, A. I. Av. Vidyapeeth, Delhi, 1979	6636 21-2-79	At. Hothiji Khadaba, Tal. Jamjodhapur, Distt. Jamnagar.
6596.	Shantilal Mehta Narsinhray	Ayurved Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1965	8036 10-4-81	Jarif Dada's Hou., Panjara Pole, Gali At. Lathi Distt. Amreli.
6597.	Shantilal Mekvan Sombhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6085 21-3-78	Mill Kamdar Society, Behind Rail- way Station, Nadiad.
6598.	Shantilal Mori Vallabhdas	B.A.M.S., Indore Univ., 1976	5780 26-4-77	C/o D. K. Patel, Dushkar, 15-B, Panchvati Society, At. Rajkot.

1	2	3	4	5
6599.	Shantilal Nathani Gordhandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4580 28-11-74	Vitthal Vadi Colony, 524, At. Bhavnagar.
6600.	Shantilal Parmar Beljibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3572 2-9-72	Block No. 20, Meghaninagar, A'bad.
6601.	Shantilal Patel Nagarji	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	644 1-12-56	At. Amreli, St. Utran, Distt. Surat.
6602.	Shantilal Patel Narottamdas	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1950	643 2-12-57	Vitthalbhai Society, At. Broach.
6603.	Shantilal Patel Madhavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3466 30-3-72	At. Ras, Tal. Board, Distt. Kheda.
6604.	Shantilal Patel Kashibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3917 13-4-73	At. Mandala (Moto Bhag), Tal. Dabhoj, Distt. Baroda.
6605.	Shantilal Patel Kalidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4735 3-4-75	At. Vemar, Tal. Karjan, Distt. Baroda.
6606.	Shantilal Patel Jeshangbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4958 30-9-75	At. Vaghodiya, Kasturba Faliyu, Distt. Baroda.
6607.	Shantilal Patel Karshanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4957 30-9-75	At. Vahelam, Tal. Jambusar, Distt. Broach.
6608.	Shantilal Patel Kashidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7924 12-12-80	At. Rajpur, Post Salaiya, Tal. Bala- shinor, Distt. Kheda.
6609.	Shantilal Ranpura Chatrabhuj	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1960	7339 16-10-79	Bambha Sheri, At. Bharagadhra, Distt. Surendranagar.
6610.	Shantilal Sevnani Laxmanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6831 22-3-79	At. Halavadar, Distt. Junagadh.
6611.	Shantilal Savada Mafalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5587 27-10-76	C/o Dr. Mafalal M. Soni, Post Sayala, Distt. Surendranagar.
6612.	Shantilal Patel Velajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7755 16-7-80	At. Trent, Laxminagar, Tal. Viram- gam, Distt. A'bad.
6613.	Shantilal Shah Mohanlal	A.V.V., T.M. Vidyapeeth, Poona 1943	1244 3-11-41	28, Kailash Society, Vaghodia Road, At. Baroda.
6614.	Shantilal Shah Ambalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1952	1242 6-2-52	3, Vasundhara Society, Behind Uma B. Colony, Vaghodia Road, Baroda.
6615.	Shantilal Solanki Laxman	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1965	1888 10-12-65	C/o L.P. Solanki, Kadiavad, Ijuneri Sheri, Jamnagar.
6616.	Shantilal Solanki Ravajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6272 11-9-78	At. Khengaraka, Tal. Dhrel, Post Madmati Jn., Distt. Jamnagar.
6617.	Shantilal Soni Aniram	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	1358 21-11-63	Prabazar, At. Radhanpur, Distt. Banaskantha.
6618.	Shantilal Sorathia Kapurchand	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1974	6962 4-5-79	At. Singar, Via. Ranapada, Tal. Veraval, Distt. Junagadh.
6619.	Shantilal Suchak Dahyalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	8027 10-4-81	At. Bagara, Tal. Kukavav-Vaidya, Distt. Amreli.
6620.	Shantilal Suthar Mahasukhbhai	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1957	7169 3-8-79	74/2, N. Colony, Near Old Sachiva- laya, A'bad.
6621.	Shantilal Frambodia Narsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6203 28-7-78	At. Patanvav, Tal. Upleta, Distt. Rajkot.

1	2	3	4	5
6622.	Shantilal Trivedi Umiyashanker	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1960	332 23-10-61	C/o Umiyashanker Kalidas, 8, Digvijay Plot, Trivedi Nivas, Jam- nagar.
6623.	Shantilal Upadhyay Manishanker	Ayurved Visharad, M.S. Univ. 1935	1954 31-5-35	Raokadnath Road, Behind Rod- andth Hanuman Sheri, Ramji's Temple, At. Beroda.
6624.	Shantilal Vyas Pramjivanbhai	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1955	8363 11-3-82	At. & Post Chhatadiya, Via. Chalala, Tal. Dhari, Distt. Amreli.
6625.	Shantilal Zalavadiya Gordhandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3388 19-2-72	At. Motimarad, Tal. Boraji, Distt. Rajkot.
6626.	Shantiram Agravat Mayaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3192 7-5-71	At. Kalasari, Via. Visavadar, Distt. Junagadh.
6627.	Sharad Jayswal Sumantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4124 26-11-73	Anandbhuvan, Shiyabag, Main Road, At. Baroda.
6628.	Sharad Barbate Bhojraj	B.A.M.S., Nagpur Univ. 1976	7487 17-1-80	105, Narinagar Colony No. 2, At. Udhana, Distt. Surat.
6629.	Sharad Desai Shankarrao	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, Maharashtra 1967	2947 6-4-70	Medical Officer, Nizar Dispensary, At. Nizar, Distt. Surat.
6630.	Sharad Vyas Champaklal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1963	1397 22-1-64	Opp. Post Office, Kansa Road, Malivad, At. Vyara, Distt. Surat.
6631.	Sharda Acharya Rasiklal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1963	1056 11-6-63	Sahyog Society, Sumal Dairy Road, Surat-3.
6632.	Sharada Patel Damajibhai	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ. 1981	8614 13-1-83	Jay Satadhar Society, Block No. 24, Anil Road, Near Annapurna Society, A'bad-24.
6633.	Sharadaben Padalia Govindbhai	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1972	7182 9-8-79	C/o Dr. Lalajibhai E. Adhora, Amrutnagar, At. Keshod, Distt. Junagadh.
6634.	Sharada Sagharakiya Govindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5761 14-4-77	C/o G.P. Patel, Sarvodayashram, At. Shahoyr, Tal. Vanthali, Distt. Junagadh.
6635.	Sharada Salariya Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5939 24-10-77	Sarapur Charrasta, Kadia Wad, H. No. 899, A'bad.
6636.	Sharadaben Patel Shankerbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6048 24-2-78	Near Ramdevpir, At. Ajarpura, Tal. Anand, Distt. Kheda.
6637.	Sharadbhai Patel Ishavarbhai	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1965	1771 21-7-65	C/o I.M. Patel, At. Nandel, Tal. Dehgam.
6638.	Sharadchandra Badole Ganapati	B.A.M.S., Indore Univ., 1974	8660 10-2-83	67, Brahmanpuri, At. Khargaun (M.P.).
6639.	Sharadchandra Bhatt Gajanan	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	1393 20-1-64	Choki Sheri, Saiyadpura, Surat-3.
6640.	Sharadchandra Chhaya Chandraprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	4256 15-3-74	Near Nava Para, At. Anjar, Distt. Kutch.
6641.	Sharadohendra Dave Kapilrai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9136 10-9-84	B-1, Ashiyana Apptt., Sardarnagar, At. Bhavnagar.
6642.	Sharadohendra Joshi Mulshanker	Ayurved Visharad, B.I.M., Saurashtra 1958	2221 1-5-58	At. Likhana, Tal. Savarkundala, Distt. Bhavnagar.
6643.	Sharadohendra Lambole Ichchharam	B.A.M.S., Nagpur Univ., 1981	9113 23-8-84	At. & Post Puna, Tal. Choryasi, Distt. Surat.
6644.	Sharadohendra Trivedi Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3452 21-3-72	C/o Dr. K.B. Trivedi, At. Vaghani, Via. Shinor, Distt. Bhavnagar.

1	2	3	4	5
6645.	Sharad Chandra Upadhyay Krushna Chandra	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1960	72 17-1-62	10, Bhojrajpara, Gondal, Distt. Rajkot.
6646.	Sharadchandra N. Vaidya Nanubhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1946	1059 30-6-46	Kikabhai Road, At. Gandevi, Distt. Valsad.
6647.	Sharadhben Patvardhan Dattprasanana	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6113 5-4-78	Dhanvantray, Wadi Payali Falla, Baroda.
6648.	Sharadkumar Dudharejia Jivarambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7538 20-2-80	5/56, Navimannagar, Naranpura, A'bad.
6649.	Sharadkumar Jani Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5478 31-7-76	Outside Shahpur Gate, Opp. Fire Brigad, Paneshnukhi Bangale, A'bad.
6650.	Sharadkumar Parekh Sakarlal	B.S.A.M., Gujarta Ay. Univ. 1981	8753 11-5-83	At. & Post Kumbhariya, Tal. Chor- yasi, Distt. Surat.
6651.	Sharadkumar Patel Becharbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1973	4802 24-4-75	At. & Post Raniya, Tal. Savali, Distt. Baroda.
6652.	Sharadkumar Trivedi Motilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	1352 19-11-63	C/o Dr. Chimanlal C. Trivedi, Near Tank, At. Halod, Distt. Panothmahal.
6653.	Sharadranjan Dave Shantilal	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3110	R. No. 14, Narnarayan Bhawan, Ist Floor, Opp. Swami Narayan Temple, Kalupur, A'bad.
6654.	Sharatkumar Shukla Bapalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8301 5-2-82	At. Pandhara, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
6655.	Sharatkumar Vyas Shukhandas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1952	1107 2-12-52	4/4147, Begampura, Opp. Police Choki, Surat.
6656.	Sharmithaben Patel Ishwarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4494 9-9-74	Near Post Office, At. Boravi, Tal. Anand, Distt. Kheda.
6657.	Shashibala Mendirata Jaydayal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1977	6254 2-9-78	Govt. G. Colony, Bchind Lal Mill, Room No. 130/15, A'bad.
6658.	Shashibala Sabharval Dasharathlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1964	8161 3-9-81	C/o Darshanlal, Rotaku Vayaras, Vithal Udyognagar, At. Vidyanagar, Anand, Distt. Kheda.
6659.	Shashidharan Pillai	M.D. (Ay.), Gujarat Ay. Univ., 1975	6022 2-2-78	Tutor, Distt. Daravagun, I.P.G.T. & P., Gujarat Ayu. Univ., Jamnagar.
6660.	Shashikala Desai Maheshkumar	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1964	5838 25-7-77	49/316, Ilora Park, At. Baroda.
6661.	Shashikant Bhadaliya Gobarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5461 14-7-76	C/o Gobarbhai Devabhai, Sardar Para Plot, At. Junagadh.
6662.	Shashikant Bhatt Lallubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3826 27-2-73	At. Chitroda, Tal. Idar, Distt. Sabar- kantha.
6663.	Shashikant Dave Ganpatilal	B.A.M.S., Indore Univ., 1973	8807 5-7-83	C/o Vyas Anandi Lalaji, Gopal- Ganj, At. Pratapgadh, Distt. Chitod- gadh (Rajasthan).
6664.	Shashikant Gandhi Sbantilal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1963	149 25-6-63	Prathmik Arogya Kendra, At. Pra- bhas, Patan.

1	2	3	4	5
6665.	Shashikant Kadia Lalajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6614 21-2-79	42, Asha Society, Opp. Iaxmina- rayan Temple, Near Veraimata's Temple, Isanpur, A'bad.
6666.	Shashikant Lashkari Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8894 10-1-84	At. & Post Kutiyana, Distt. Juna- gadh.
6667.	Shashikant Pandya Gajanand	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	773 3-9-56	B. No. 8, Kailash Society, At. Klm, Distt. Surat.
6687.	Shashikant Parekh Manilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	713 18-7-62	At. & Post Dungari, Tal. Valsad Distt. Surat.
6669.	Shashikant Patel Virthaldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1970	3290 24-11-71	At. Ras, Tal. Borsad, Distt. Kheda.
6670.	Shashikant Patel Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1974	5076 15-12-75	At. Chikhodara, Post. Kosindra, Tal. Sankheda, Distt. Baroda.
6671.	Shashikant Patel Madhusudanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6306 27-9-78	At. Chachak, Post Bodoli, Tal. Jet- pur, Distt. Baroda.
6672.	Shantilal Patel Shambhudasa	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1978	7485 5-1-80	At. Ranchhodpura, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
6673.	Shashikant Patel Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7601 17-3-80	25, Picknik Society, Behind Navyug College, Ramder Road, At. Surat.
6674.	Shashikant Pathak Prabhashanker	Vaidya Charya, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	7955 17-1-81	At. & Post Kumbhan, Via. Mahiva, Distt. Bhavnagar.
6675.	Shantilal Shah Maneklal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1948	1243 30-8-48	At. Bhilada, Tal. Bhilada, Distt. Sabarkantha.
6676.	Shashikant Shah Mohanlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1960	1239 2-5-62	Jegidas Vithal's Pole, Rav Pura, Baroda.
6677.	Shashikant Shah Himmatlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1963	1402 25-1-64	Modh Dharma's Vadi, Opp. Patel Vada, At. Kapadvanj.
6678.	Shashikant Shah Chimanlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1963	1436 7-5-64	Dr. S. C. Shah, Sharda Estate, Vazarankaka, Gorai Road, Bori- vali West, Bombay-92.
6679.	Shashikant Sheth Nathalal	D.S.A.C., C. S. Ay. Course, Gujarat 1964	1590 19-1-65	Ayurvedic Dispensary, At. Jalia, Via. Rajkot.
6680.	Shashikant Thakkar Premshanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	274 1-10-56	Damodarji Falia, At. Chorwad, Distt. Junagadh.
6681.	Shashikant Trivedi Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3335 7-2-72	Vadava Nahera, Bhanubhai Gard's House, Bhavnagar.
6682.	Shashikant Trivedi Harikrishna	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7910 3-12-80	At. & Post Sodpur, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
6683.	Shashikant Upadhyay Nathubhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	73 3-1-55	Ram Road, At. Maroli Bazar, Tal. Navasari, Distt. Valsad.
6684.	Shashikant Upadhyay Prabhashankerbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4189 12-2-74	77, Arunoday State Bank, Vidya- nagar, At. Bhavnagar.
6685.	Shashikant Vaidya Narendra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5233 1-3-76	Opp. Vidayut Bhawan, Researoss Road, Baroda.
6686.	Shashinbhai Patel Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8300 5-2-82	At. Ladol, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
6687.	Shatrughnadas Mishra Laxmandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3886 23-3-73	Patali Hanuman, Mogalkara, At. Surat.

1	2	3	4	5
6688.	Shekharbhai Parkah Laljiabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5200 25-2-76	At. Uttarsahda, Tal. Nandhad, Distt. Kheda.
6689.	Shikha Kunda Adhirkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6924 17-4-79	C/o. A. K. Kunda, Qua. L63/A, Opp. Railway Station, At. Jam- nagar.
6690.	Shila Desai Rameshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6115 5-4-78	B. No. B-33, Dahera Colony, Ukai Sarvadaya Yojana, Killa Songadh, Distt. Surat.
6691.	Shila Shah Ombhavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8283 25-1-82	D/1, Madhukunj Society, Near Mahamad Talav, Wadi, Baroda.
6692.	Shilaben Sharma Ramkishor	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4323 8-4-74	B. No. 55/B, Ambika Society No. 2, At. Kalol, Distt. Mehsana.
6693.	Shrishani Jani Manharlal	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, Maharashtra, 1971	4202 15-2-74	23, Pushpakunj Society, Bholej Road, Anand, Distt. Kheda.
6694.	Shrishani Shah Narendralal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1963	1429 18-4-64	Ajit Dispensary, At. Dahegam, Distt. Ahmedabad.
6695.	Shirishakumar Bhatt Bhugurao	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6139 19-4-78	C/o. V. R. Bhatt 23, Janakalyan Society, Ajava Road, Post Office At. Baroda.
6696.	Shrishkumar Bhatt Shukdevbhai	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1968	26778 12-6-78	C/o. Dr. Shukdevbhai Khele- shanker Bhatt, Ramnivas, Nava- para, At. Bhavnagar.
6697.	Shrishkumar Dalal Hiralal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1965	1655 14-5-65	R.M.O. Debo Hospital, Fuvara, Navsari, Distt. Bular.
6698.	Shrishkumar Dedaderiya Naranbhai	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1979	9249 9-4-85	Hanuwali Sheri, At. Sanosara, Tal. Shihor, Distt. Bhavnagar.
6699.	Shrishkumar Pandya Bhanushanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5700 24-2-77	At. Tuntoi, Tal. Modasa, Distt. Sabarkantha.
6700.	Shirishkumar Patel Prahladbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9614 21-11-86	1/B, Vasant Vihar Society, VI-1, Near Mithakhali Chh. Rasta, Navrangpura, A'bad-9.
6701.	Shirishkumar Upasani Balashanker	Ayurved Uttama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda, 1978	7123 17-7-79	Ghahahyam Bhawan, Vadi, Last Pole, At. Baroda.
6702.	Shivabhai Parmar Manibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4121 17-11-73	At. Vadhavani, Tal. Mahadabad, Distt. Kheda.
6703.	Shivabhai Patel Kandas	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	645 24-8-62	At. & Post Modhora, Tal. Chan- sma, Distt. Mehsana.
6704.	Shivabhai Patel Revabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3212 30-7-71	At. Prempur, Tal. Himmatnagar, Distt. Sabarkantha.
6705.	Shivabhai Patel Nagjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3807 21-2-73	At. Sadhali, Tal. Sinor, Distt. Baroda.
6706.	Shivenand Katariya Meghajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7369 29-10-79	49, Digvijay Plot, Ida Masjid, Road, At. Jamnagar.
6707.	Shivdan Gadhavi Maheshdan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7302 20-9-79	Moohi Line, Khoda Khavas Sheri, At. Morabi, Distt. Rajkot.
6708.	Shivdatt Sharma Dayanidhi	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3663 19-10-72	At. Rajpipala, Nava St. Road, Near Govt. School, Tal. Naded, Distt. Broach.
6709.	Shiveharan Umani	H.P.A., P.G.T. Centre in Ay. Jamnagar, 1959	9248 9-4-85	545, Sharadnagar, Tarsavi, Baroda.
6710.	Shivkumar Jani Kalidas	Ayurved Visharad, B.I.M. Saurashtra, 1958	2233 1-5-58	Ay. Dispensary, At. Paneli Moti, Tal. Upleta.

1	2	3	4	5
6711.	Shivkumar Panwale Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8850 6-10-83	Behind Jayesh Education High School, Near Indira Colony, Thakkar Bapanagar Road, A'bad.
6712.	Shivkumar Raval Girjashanker	Ayurved Madhyama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda, 1977	6679 3-3-79	5, Darshan Society, At. & Distt. Mehsana.
6713.	Shivkumar Vyas Chandrashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7677 18-4-80	33/385, Netajinagar, Near New Mental Hospital, A'bad.
6714.	Shivlal Rajyaguru Naranji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3906 2-4-73	At. Sejal, Via. Savarkundala, Distt. Bhavnagar.
6715.	Shivnarayan Gupta Narsinhlal	B.A.M.S., Indore Univ., 1977	9008 28-3-84	At. Lakhnavas, Distt. Rajgar (M.P.).
6716.	Shivram Gohel Popatlal	Ayurved Visharad, B.I.M. Saurashtra, 1958	2228 15-3-58	At. Chibhada, Via. Lodhika, Distt. Rajkot.
6717.	Shivram Patel Ishwarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3435 14-3-72	Kavarvas, At. & Post Unava, Tal. Siddhapur, Distt. Mehsana.
6718.	Shivram Upadhyay Punjiram	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1961	74 19-12-61	C/o. Shashi Anantlal T. Ay. Hospital, Lal Bazar, Court Road, At. Broach, Distt. Broach.
6719.	Shivshanker Modha Jadavji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3590 13-9-72	At. Gorana, Via. Jamraval, Tal. Kalyanpur, Distt. Jamnagar.
6720.	Shivshanker Pal Prabhashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5439 25-6-76	At. Kharkadi, Tal. Ghodha, Distt. Bhavnagar.
6721.	Shivshanker Valdia Jagannath	L.A.M., U.P. Ay. Maha. Patan, (Baroda State), 1939	1057 30-1-41	Varadh Office, Nadiad.
6722.	Shobha Shah Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3785 15-2-73	Govind Keshiram's Pole, Mangal Parekh's Kuhncha, Shahpur, A'bad.
6723.	Shobha Sharma Molaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5710 4-3-77	261/B, Sardarnagar, A'bad.
6724.	Shobhana Jani Balkrushna	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	8594 3-11-82	Ambavadi, Madhuvan, Plot No. 1205, Krushnanagar, At. Bhav- nagar.
6725.	Shobhana Patel Manubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4303 28-3-74	71, Tagorenagar Colony, Old Road, Shuddha Clinic, At. Baroda.
6726.	Shobhanaben Daxi Jivanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6030 16-2-78	20, Anupam Society, At. Halol, Distt. Panchmahal.
6727.	Shobhanaben Thakkar Kirankumar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1934	9267 9-4-85	Jalaram Clinic, A.E.S. Zonal Office, Bhagirath Society Road, Naranpura, A'bad-13.
6728.	Shobha Hemani Laljibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3798 19-2-73	C/o. Lalji Anandji, Chokas Bazar, At & Distt. Junagadh.
6729.	Shrenikkumar Dalal Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2987 1-7-70	70, Sharadanagar Society, Ellis- bridge, A'bad-7.
6730.	Shrenikkumar Dhuliya Ratilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9012 28-3-84	A-13/145, Ranjitnagar Society, At. Jamnagar.
6731.	Shridharprasad Vyas Narnarayan	G.A.M.S., Punjab State Fac. of AUSM, Chandigarh, 1969	9561 3-9-86	Zoo Limadi Bazar, At. Vasaiik (Dabhala) 332865, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
6732.	Shrikant Desai Jayendra Prasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8815 11-8-83	Desai Clinic, At. Shihor, Distt. Bhavnagar 364240.
6733.	Shrikant Deshpande Laxman	H.P.A., P.G.T. Centre in Ay. Jamnagar, 1967	2668 15-4-68	At. Atpadi, Distt. Sangali.

1	2	3	4	5
6734.	Shrikant Thakar Chandravadan	B.S.A.M., Gujrat Ay. Univ., 1980	8302 5-2-82	At. & Post Siddhapur, Distt. Mehsana.
6735.	Shrikant Yadav Ramkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8214 2-11-81	31, Indranagar Hou. Society, Behind Sanghavi Temple, Ramel Road, At. A'bad.
6736.	Shrikumar Dave Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6145 19-4-78	At. & Post Janiyadara, Tal. Vagra, Distt. Broach.
6737.	Shrilekha Upadhyay Arunkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4741 5-4-75	C/o. A. K. Upadhyay, Sabal Pole, At. Khambhat, Distt. Kheda.
6738.	Shripad Ranbhor Vishwanath	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1965	8962 12-3-84	D-183, Govt. Qtr., Shastrinagar, At. Rajkot.
6739.	Shruti Shah Vasantlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1965	1701 15-6-65	Ashvia Building C/o J. A. Shah & Co., 2nd Floor, Gande Gate, Boad, Baroda.
6739A.	Shrivastav Dineshkumar	B.A.M.S., Kanpur Univ., 1972	5618 3-12-76	Ay. College, Nadiad, Distt. Kheda.
6740.	Shushila Patidar Laxmanji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5850 23-8-77	At. Sundal, Distt. Dhur (M.P.).
6741.	Shyamlal Narula Nathuram	Vaidya Charya, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1968	8771 11-5-83	Plot No. 242, Ashoknagar Road No. 17, At. Udepur-313 001.
6742.	Shyamlal Pandya Jayantilal	Ayurved Madhyama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda, 1979	9117 23-8-84	Near Ranchhodji's Temple, At. Dakor, Distt. Kheda.
6743.	Shyamprasad Gupta Babulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5261 8-5-76	8, Chokasi Chal, Rakhiyal Road, A'bad.
6744.	Sibhaschandra Patil Ramdas	B.A.M.S., Poona Univ., 1968	3311 10-1-72	Medical Officer, Jilla Panchaya Dispensary, At. Thapa, Tal. Valia Distt. Broach.
6745.	Siddhiraj Sharma Jaynarayan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2870 9-1-70	Shri Khijada Temple, At. Jam- nagar.
6746.	Siddhdharajsinh Vansadiya Joravarsinh	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1982	9204 30-1-85	At. Kim (Prabhunagar), Tal. Olpad, Distt. Surat.
6747.	Sidhirkumar Joshi Chandrakant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4907 9-7-75	Baroti Bazar, At. Vadnagar, Tal. Kheralu, Distt. Mehsana.
6748.	Sima Dhamdhare Dinkar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9379 23-9-85	L./16/188, Vijaynagar, Harani Road, At. Baroda-6.
6749.	Sima Gandhi Hemendra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9637 5-12-86	Morabasar, House No. 6/1/28, At. Valsad-396001, Tal. & Distt. Valsad.
6750.	Sima Kadu Ulhasrao	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9440 23-12-85	Near Maharani High School, (Northside) Sursagar, At. Baroda-1.
6751.	Sitar Solanki Ismailbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3351 11-2-72	At. Jina (Dabhala), Via. Dhari, Distt. Moti, Amreli.
6752.	Sitaram Vishwakarma Banvarilal	G.A.M.S., Univ. of Bihar, 1978	9148 10-9-84	745/72, Ciment's Chali, Gomati- pur Road, A'bad.
6753.	Slikumar Kantilal Acharya Kantilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1963	1432 4-5-64	Near Vasant Tekiz, At. Surat.
6754.	Smita Acharya Gajendraprasad	B.A.M.S., Univ. of Gujarat, 1967	2631 12-1-68	Arogyadham, Station Road, At Virsapur, Distt. Mehsana.
6755.	Smita Galgali Mukund	B.A.M.S., Shivaji Univ., 1983	9447 23-12-85	At. Kapadvanj, Distt. Kheda.

1	2	3	4	5
6756.	Smita Mekvan Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9052 10-5-84	Civil Hospital, At. & Post Khedas, Tal. Mehmdavab, Distt. Kheda.
6757.	Smita Modi Marivadanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8201 12-10-81	22, Sadashiv Society, Ranip, A'bad.
6758.	Smita Patel Bhailalbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9042 10-5-84	Anantwadi, Block No. K-B/6, Near Pani Building, At. Bhav- nagar-2.
6759.	Smita Pharsole Padamakar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9606 10-11-86	26/Sanskas Society, Bhattar. Ghar Rasta, At. Surat, Tal. Choryasi, Distt. Surat.
6760.	Smita Popat Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4554 15-10-74	C/o. Dr. S.P. Upadhyay, Arun- oday, Plot No. 77, Vidyanagar, Opp. Law College, At. Bhav- nagar.
6761.	Smita Shah Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6206 28-7-78	C/o. Jayant M. Shah, Sector No. 29, B. No. 63/4, Gandhinagar.
6762.	Smita Thakar Vijaykumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8238 9-12-81	Opp. Panigate, Potral-Pamp, Chandrodaya Society, Nandanvan Pushpa, Baroda.
6763.	Smita Thakkar Bhikhabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4852 14-5-75	C/o. Smita Pinakin Shah, 21, Subhas Nagar, A'bad.
6764.	Smita Tiwari Jagdishchandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ.,	9662 31-12-86	B/2, Mayurpankh Flat, Daxini Society, A'bad-8.
6765.	Smita Upadhyay Labhshanker Ramanlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9369 2-9-85	576, Navowas, Nava Vadaj, A'bad-13.
6766.	Smita Vaidya Vijaykumar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9406 19-10-85	Narmada Jyot, Behind L.M.P., Sayajiganj, At. Baroda-390005.
6767.	Smita Vyas Pramodrao	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6150 4-5-78	Bareka Chowk, Near Purbadi, At. Bareja, Distt. A'bad.
6768.	Smitakumari Bhabhor Bhurabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8723 19-4-83	Shri Valmiki Ashramshala, At. & Post Sangatala, Tal. Devgad- baria, Dist. Panchmahal.
6769.	Smruti Joshi Bhalchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6595 16-2-79	Shivam, 66, E, Swastik Society, Navrangpura, A'bad.
6770.	Snehlata Parekh Bhogilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1966	2107 15-2-66	C/o. B. A. Parekh, 7, Bhojpara Pitru Ashram, Gondal, Distt. Rajkot.
6771.	Snehlatta Parmar Someshwar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8185 22-9-81	Manjushri Mill's Chali, New Chal, Baliya Limadi, Asarva, A'bad.
6772.	Snehkumar Goswami Ramangir	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2311 2-12-66	31, Vishwakripa Society, Sumul Dery Road, Surat-395004.
6773.	Snehalkumar Bhatt Narendraprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8946 17-2-84	38, Ramkrishna Society, Manjal- pur, At. Baroda-11.
6774.	Somabhai Parmar Shankerbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8274 5-1-82	3, Kismatnagar Society, Near Omnagar, Via. Chamanpura, A'bad.
6775.	Somabhai Parmar Mulabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6251 23-8-78	Talpoj Vankarvad, At. & Post Lodra, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
6776.	Somabhai Patel Gangaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3057 3-10-70	At. Modhara, Tal. Chansma, Distt. Mehsana.
6777.	Somabhai Patel Shivram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4334 16-4-74	At. Nandasan, Tal. Kadi, Distt. Mehsana.
6778.	Somabhai Patel Jordas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4866 29-5-75	At. Chadasana, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.

1	2	3	4	5
6779.	Somabhai Soni Manilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1956	1319 1-8-56	Lavar Chakala, At. Dabagam, Distt. Ahmedabad.
6780.	Somanath Pandya Hargovinddas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1953	774 1-7-53	At. Jotana, Tal. & Distt. Mehsana.
6781.	Somchand Momaya Kanji	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1956	960 2-9-57	At. Vasla, Distt. Kutch.
6782.	Somnath Raval Nanalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1946	987	At. Vasna, Tal. Dholaka, Distt. Ahmedabad.
6783.	Sonal Mehta Kishorchandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9546 18-8-86	D/19, Lecturers Quarters, Medi- cal Camps, At. Jamnagar-361098.
6784.	Sondhabhai Patel Joitaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5114 8-1-76	At. Motipara, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
6785.	Sevantilal Shah Ambalal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1959	5084 2-2-59	At. Visalpur, Tal. (Sascroi, Distt. A'bad.
6786.	Subhagi Vaidya Vinodkumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3869 14-3-73	C/o. Vinod C. Vaidya, Mahadev Chowk, At. Bavada, Tal. Dholaka, Distt. A'bad.
6787.	Subhash Chaudhari Bhikkan	B.A.M.S., Poona Univ., 1980	8473 3-8-82	At. & Post Prakasha, Tal. Shahada, Distt. Dhulia.
6788.	Suhas Desai Pushpavadan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5037 13-11-75	77, Nandvandan Society, Shah- pur Bahai Centre, A'bad.
6789.	Subhash Jani Manharlal	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, Maharashtra, 1971	4203 15-2-74	23, Pushpa Kung Society, Bhalej Road, Anand, Distt. Kheda.
6790.	Subhas Patel Kanaiyalal	L.A.P. Mahakoshal Ay. Board, Jabalpur, 1969	6881 3-4-79	At. Kukarmunga, Tal. Nisaz, Distt. Surat.
6791.	Subhash Patil Vedubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6398 10-11-78	At. & Post Padalada, Tal. Shahada, Distt. Dhulia, (M.P.)
6792.	Subhash Vadangar Harishanker	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9378 23-9-85	At. Vadodara (Zala-362275), Post Sutrapada, Via. and Tal. Veraval, Distt. Junagadh.
6793.	Subhashchandra Bhatt Shivashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6138 19-4-78	Subhash Getej Madhav bag Kham- bhaliya Naka, Jamnagar.
6794.	Subhashchandra Dave Chhabildas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5162 12-2-76	Gandhichowk, At. Dharmaj, Tal. Petlad, Distt. Kheda.
6795.	Subhashchandra Desai Nathalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6178 15-6-78	Tower Falta, At. Ranoli, Distt. Baroda.
6796.	Subhashchandra Deshpande Narayan	B.A.M.S., Indore Univ., 1971	5524 15-9-76	At. Kukarmunda, Tal. Nizardi, Distt. Surat.
6797.	Subhashchandra Gor Dinubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8304 5-2-82	At. & Post Nayavak (Bhemal), Tal. Danta, Distt. Baraskantha.
6798.	Subhashchandra Gupta Swarupchand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8674 16-2-83	C/o. Swarup Chand Gupta, Railway Quarters, N. T. 193/A, Near Railways Untayut, Traffic Colony, At. Mehsana.
6799.	Subhashchandra Joshi Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6226 10-7-78	3, Dalal Society, Near Talim- shala Khokhara Mahendavard Rd., Behind Maninagar Railway Station, Maninagar, A'bad.
6800.	Subhashchandra Joshi Nemchand	B.A.M.S., Vikram Univ., 1976	7255 5-9-79	Bari Colony, At. Indor, M.P.

1	2	3	4	5
6801.	Subhashchandra Joshi Hargovindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8764 11-5-83	At. Amrutvel, Via. Jira Road, Distt. Bhavnagar.
6802.	Subhashchandra Mehta Sankalchand	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1965	3155 16-3-71	C/o. Nathalal U. Patel, 120, Sardarpatel Colony, A'bad-14.
6803.	Subhashchandra Parikh Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3620 26-9-72	C/o. Ratilal C. Shah, White Hou. Talav Kantha, At. Limbadi Distt. Surendranagar.
6804.	Subhashchandra Parmar Bhikkalal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1973	6900 16-4-79	At. Bhadali (Bhankhachar), Via. Gadhada Swamina, Tal. Jandan, Distt. Rajkot.
6805.	Subhashchandra Patel Shantilal	M.A.S.F., State Fac. of AUSM, Calcutta, 1971	6568 15-2-79	Bandula Hou., 22, New Jagnath, At. Rajkot.
6806.	Subhashchandra Shah Naginlal	Ayurved Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1977	6644 26-2-79	Shantiniketan Hospital, At. Kaya- rohan, Tal. Pabhoi, Distt. Baroda.
6807.	Subhashchandra Sharma Jagdishprasad	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1976	9116 23-8-84	72/715, EWS Housing, Silvasa Road, Dungara, At. Vapi.
6808.	Subhashchandra Thakkar Deviprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5681 24-2-77	3295, Govind Kashiram Pole, Mangal Parekh's Khancha, Shah- pur Chakala, A'bad.
6809.	Subhashchandra Vaidya Chhotalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6094 21-3-78	56, Abhisajani Society, Khanpur, A'bad.
6810.	Subhashchandra Vyas Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3009 31-7-70	Kothl Falia, Punjara Pole, At. Baroda.
6811.	Subhadra Bhanushali Govindji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7512 15-2-80	Bus Station Road, At. Nakhat- rana, Distt. Kutch.
6812.	Subhodkumar Bhalval Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8219 17-11-81	At. & Post Pratapnagar, Tal. Vijapur, Via. Kalal-382845.
6813.	Suchitaben Amin Dinubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4338 18-4-74	Shrinathji Sadan Patel Falia, Kathikhanan Road, At. Baroda.
6814.	Sudama Patil Bhimabhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	702 13-6-63	At. & Post Prakasha, Tal. Sha- hada, Distt. West Khandesh.
6815.	Sudha Anin Nagdishbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7521 15-2-80	B. No. 2, Kalyannagar, Karoli- bag, At. Baroda.
6816.	Sudha Gajjar Mulaajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4206 18-2-74	Chaturlaxmi Nivas, Near Ramji's Temple, Maninagar, A'bad.
6817.	Sudha Patel Purshottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8913 24-1-84	6, Girivar Society, Navrangpura, A'bad-14.
6818.	Sudha Mehta Bhalchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8585 3-11-82	C/o L. R. Pandya, Khambhati Nivas, Savai Ghar Sheri, Bhav- nagar.
6819.	Sudhanen Pandya Bhaishanker	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1973	6847 2-4-79	At. Goral, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
6820.	Sudha Patel Somnath	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9364 2-9-85	Pathan's Mahad, Nadiol Gate, At. Vadnagar-384355.
6821.	Sudha Trivedi Vasudev	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8781 16-6-83	C/o. V. L. Trivedi, Shreyas Society, B. No. 30, Behind Racecourse, At. Rajkot.
6822.	Sudhaben Modi Sulavantroy	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5614 3-12-76	Dhan Nivas Chowk Bazar, Nava Bazar, Surat.
6823.	Sudhaben Patel Purshottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8232 24-11-81	Bhatpur, Tal. Saukheda, Distt. Baroda.

1	2	3	4	5
6824.	Sudhaben Shah Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3881 20-3-73	E.S.I. Dispensary, No. 17, Near Manchha Masjid, Saraspur, A'bad
6825.	Sudhaben Shukla Bhanushanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5437 18-6-76	C/o. Dr. B. A. Shukla, 14, Bhoj Raj Para, At. Gondal, Distt. Rajkot.
6826.	Sudhaben Vashi Nanubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7561 29-2-80	Opp. Post Office, At Amalsad, Tal. Gandevi, Distt. Valsad.
6827.	Sudhadevi Parmar Nathisinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4123 26-11-73	C/o. Rajendrasinh M. Chauhan, 713, Shanker Bhawan, Opp. Hariyavad Pole, Lunshavad, Dariapur, A'bad.
6828.	Sudhakar Bhoskar Govindrao	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1962	1421 6-4-64	Anand Ashram, Kharchikar's Lane, Ravpura, Baroda.
6829.	Sudhakar Joshi Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6154 4-5-78	Mobtavad, At. & Post & Tal. Lunavada, Distt. Panchmahal.
6830.	Sudhanva Patvardhan Rameshchandra	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1965	1872 6-12-65	Vadi Pomali Falia, Baroda.
6831.	Sudhir Paleja Hansraj	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8889 4-1-84	At. & Post Kalyanpur (Manjal), Tal. Nakhatrana, Kutch-370610.
6832.	Sudhir Shah Hasmukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8855 6-10-83	4, Shastripark, Surendra Mangal- das Road, Ambawdi, A'bad.
6833.	Sudhir Sohani Rameshwar	B.A.M.S., Indore Univ., 1976	6422 18-11-78	C/o. Rameshwar Sohani, 30, Vishwa Sakha Colony, Bristan Road, At. Khargone, Distt. West Nimar.
6834.	Sudhir Vaidya Bhirajlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7434 12-12-79	Vaidya Build., Opp. V. S. Hospital, Ellisbridge, A'bad.
6835.	Sudhirbhai Panchal Shankerbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7718 17-9-80	Vankar Vado, Wadi, Navapura, At. Baroda.
6836.	Sudhirbhai Patel Maganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7569 29-2-80	At Manroi, Tal. Olpad, Distt. Surat.
6837.	Sudhirbhai Patel Jethabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8979 12-3-84	At & Post Naria, Tal. Dabhoi, Distt. Baroda.
6838.	Sudhirkumar Bhagat Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6368 13-10-78	Bazar, At & Post Sahera, Distt. Panchahal.
6839.	Sudhirkumar Bhatt Umanglal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3252 27-9-71	Chhatta Madan Gopal Chaliwada, H. No. 1124, Chandani Chowk, Delhi.
6840.	Sudhirkumar Bheda Chimanlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9063 25-5-84	13, Yavar Manjil, College Com- pound, At Planpur, Distt. Banaskantha.
6841.	Sudhirkumar Joshi Shyamrao	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1976	6185 26-6-78	35, Vyas Falia, Old Indore.
6842.	Sudhirkumar Upadhyay Kanaiyalal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8986 12-3-84	Plot No. 10/C, Svashray Society, Subhashnagar, At Bhavnagar- 364001.
6843.	Sudhirchandra Shah Jethalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6205 28-7-78	At Maldharvas, Tal. Mahombavad, Distt. Kheda.
6844.	Suhas Chitinis Umakant	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9259 9-4-85	Plot No. 1605, B, Behind Rupani, Ramanagar Society, Bhavnagar- 364 001.
6845.	Sukanya Vaidya Umashanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1959	2686 30-1-60	Shah Nivas, Swami Vivekanand Road, Andheri, Bombay-58.
6846.	Sukhadevgar Goswami Naranagar	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1966	6841 31-3-79	At Azotha, Tal. Voraval, Distt. Junagadh.

1	2	3	4	5
6847.	Sukhadevsinh Vanṣhiya Ranjitsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7711 17-5-80	At, Kosad, Tal. Charyashi, Distt. Surat.
6848.	Sukhdev Thakur	Ayurveda Alankara, Ay. Coll. Gurukul Univ., Kangari Haridwar), 1957	287 3-8-59	Medical Officer Quarters, Jilla Panchayat Dispensary, At Dama, Post Rampura, Tal. Disa, Distt. Banaskantha.
6849.	Sukhdev Joshi Keshavji	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1959	7104 13-7-79	At Chuli, Tal. Bhagandhra, Distt. Surendranagar.
6850.	Sukhadevprasad Shabhriy Narmadashanker	Vaidyacharya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1956	6916 16-4-79	Behind Dhanvantri-Candtiya Vidyajaya-Qua., Shaktinagar, Kalawad Road, At Rajkot-3.
6851.	Sukhdevprasad Upadhyay Shankarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2773 29-4-69	At Mansa, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
6852.	Sulata Bhavsar Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6747 15-3-79	Nava Bapunagar, B. No. 679, Room No. 4447, Charranta, A'bad.
6853.	Sulekhaben Chaudhari Gurjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5128 23-1-76	C/o H. M. Trivedi Coravadi Khadaki Matruchaya, At Salun, Distt. Kheda, Tal. Nadiad.
6854.	Sulekhan Pathan Basirkhan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8657 10-2-83	At & Post Kasbara, Tal. Khambhat, Distt. Kheda.
6855.	Suleman Vantiya Musabhai	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1978	6883 12-4-79	Kalada Gate, At Patadi, Tal. Dashada, Distt. Surendranagar.
6856.	Sulichana Shukla Mahavishnu	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7693 29-4-80	1, Shri Nari Society, Opp. Petrol Pump, Outside Pani Gate, At. Baroda.
6857.	Sulochanaben Shah Vitthalbhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujrat 1966	2082 1-7-66	6/Ganesh Society, Outside Shahpur Gate, A'bad.
6858.	Sulochanaben Patel Purshottambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5136 27-1-76	At Alidra, Via. Salun, Tal Nadiad, Distt. Kheda.
6859.	Suman Joshi Martandrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3954 1-6-73	At Limkheda, Distt. Panchmahal.
6860.	Sumanben Kure Balkrishna	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2068 23-6-66	Lal Bangala, Swaminarayan Road, A'bad.
6861.	Sumanbhai Patel Trikambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4775 10-4-75	At Kosindra, Tal. Snakheda, Distt. Baroda.
6862.	Sumanlal Shah Maneklal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1956	1253 1-8-56	Dalal Wada, At Kapadvanj, Distt. Kheda.
6863.	Sumantlal Dave Dalsukhram	Ayurved Visharad, M.S. Univ., 1953	1984 25-3-66	At. & Post Bhadarva, Tal. Savli, Distt. Baroda.
6864.	Sumanthbhai Dave Himmatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5218 26-2-76	Shiya Bag, Main Road, Opp. Kharadi Bungala, At. Baroda.
6865.	Sumanthbhai Patel Motilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1947	1523 20-2-47	Juna Modi Khana Road, Jyubili Bag. At Baroda.
6866.	Sumanthbhai Patel Ishwarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2817 21-8-69	At Kashipura, Tal. Jabugam, Via. Nasvadi, Distt. Baroda.
6867.	Sumankumar Punjara Bhagvanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3385 17-2-72	Khervan, Tal. Fatdi, Distt Surendranagar.
6868.	Sumantraï Desai Maganlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat, 1964	1594 27-1-65	Lilapor, Distt. Bulsar.
6869.	Sumedha Mahajani Sidhir	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6981 7-5-79	17, Daxini Society, Maninagar, A'bad.

1	2	3	4	5
6870.	Sumitra Bhuria Valiyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7481 5-1-80	C/o Bhuria, M. M Income Tax Officer, Circle-2, Nazarbhai, Palace, 1st Floor-2, Mandavi, At Baroda.
6871.	Sumitra Panchal Ishwarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5212 26-2-76	Bhuts Ambali, Ghikata-Road, Opp. R.C. High School, A'bad.
6872.	Sumitra Zaveri Vinod	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1959	265 1-7-59	Flat No. 1, Ground Floor, Betari House, Bhulabhai Desai Road, Bombay-26.
6873.	Sunanda Patel Shankerbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6078 15-3-78	At & Post Kesindra, Tal. Sankheda, Distt. Baroda.
6874.	Sumayana Purohit Mansukhlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9542 18-8-86	C/o Dr. M. J. Purohit, Opp. Moti Vegetable-Market, At. Pro- bandar, Distt. Junagad.
6875.	Sunidhikumar Patel Thakorabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9278 2-5-85	At. & Post Bayad, Tal. Bayad, Distt. Sabarkantha-383 325.
6876.	Sunil Pathak Chandravadan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8641 28-1-83	D-72, Univ. Colony, At Vallabha- Vidyalaya, Tal. Anand, Distt. Kheda.
6877.	Sunil Thakar Kanaiyalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8517 27-8-82	4, Sadhana Society, Varachha Road, Surat-6.
6878.	Sunilkumar Desai Arunchandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9200 2-2-85	C/o A.A. Desai, Jilla Panchayat Dispensary, Bardoli, At Bardoli, Distt. Surat.
6879.	Sunilkumar Parikh Satyandra Bhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8824 11-8-83	Station Road At. & Tal. Vyasa, Distt. Surat-394650.
6880.	Sunilkumar Patel Ravajibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8143 10-9-84	At & Pot Nisaraya, Tal. Borsad, Distt. Kheda.
6881.	Sunilkumar Shah Babulal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8907 24-1-84	C/o Babulal B. Shah, Garasia Wad, At Chotala, Distt. Surendra- nagar.
6882.	Sunilkumar Sharma Ramanlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9343 9-8-85	32/272, Govt. 'F' Colony, Bhahelara Tolnaka, A'bad-380 028.
6883.	Sunilkumar Naik Ishwarlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9410 19-10-85	"Shivam" Fidar Road, At Bilimora-396 321, Tal. Gandavi, Distt. Valsad.
6884.	Sunilkumar Patel Motibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8461 25-6-82	Haveli Pola, At Sarva, Tal. Anand, Distt. Kheda-388 365.
6885.	Sunita Raval Ganakumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5070 15-12-75	M. I. Flat, B. No. 2, Flat No. 125, Buddhadev Colony, Karali Bag, Baroda-1.
6886.	Sunita Trivedi Chaimanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8373 17-3-82	12-J, Kalpataru Flats, Mirambika Road, Nananpura, A'bad.
6887.	Sumitraben Patel Manchharam	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8529 14-9-82	At & Post Bartad, Tal. Mahuva, Distt. Surat.
6888.	Sumitraben Vyas Thakerlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3284 5-11-71	C/o Harihar Mangalal Pandya Wadi Bhatvada, At Baroda.
6889.	Surajibhai Katara Kalabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5757 7-4-77	At Ramela, Post Dabegama, Tal. Bhiloda, Distt. Sabarkantha.
6890.	Surangi Shah Natvarlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9216 19-2-85	C/o Ambubhai Zaveri, 440, Kolakhadi, Ghadial Pole, At Baroda.
6891.	Surasinh Gabhania Badharsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7536 15-2-80	At Kansoli, Post Luna, Tal. Valia, Distt. Broach.
6892.	Surati Patel Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	6459 15-1-79	17, Amrakunj Society, At Nadiad, Distt. Kheda.

1	2	3	4	5
6893.	Surekha Gandhi Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3608 16-9-72	C/o Jayantilal J. Gandhi Hou. No. 2858, Outside Thrace Gate, Near Vadilal, Soda Fountain A'bad.
6894.	Surekha Sail Surekh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7899 14-11-80	H-5, Uni. Qua. Vallabha Vidya- nagar, At. Anand, Distt. Kheda.
6895.	Surendra Dalal Pranlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1962	347 29-9-62	Vadapada Main Road, Broach.
6896.	Surendra Dave Shanturam	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1964	1442 2-6-64	Mogal Kot, At Nadiad.
6897.	Surendra Dave Chhhotalal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1978	6782 21-3-79	Nathi Colony, Sheri No. 2, Ishwar Krupa, Sumeru Club Road, at. Jamnagar.
6898.	Surendra Khandhar Manilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1961	2865 23-12-69	Hiralal T. Nanavati 9/1622, Kelapith Road, Surat.
6899.	Surendra Pathak Nagarlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1945	2674	Near Tower, At Patan, Distt. Mehsana.
6900.	Surendra Shahstri Harisukh	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1964	1812 28-9-65	Kala Mehta's Sheri, Sagrampura, Surat.
6901.	Surendra Vaidya Vedvrat	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1962	1060 16-10-62	5-1205, Haripura Main Road, At Surat.
6902.	Surendra Vakil Navnitlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	998 25-1-62	Samadi Falia, At Ankeshwar, Distt. Broach.
6903.	Surendrakumar Atre Ramrao	B.A.M.S., Indore Univ., 1973	8015 3-4-81	94, Brahmanpuri, At & Tal. Khargone, Distt. West Nimar (M.P.)
6904.	Surendrakumar Mehta Punamchand	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6725 9-3-79	"Mayur" Bhomeshwar Plot, C/o M. P. Mehta, At Rajkot.
6905.	Surendrakumar Purohit Somnath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ. 1971	3422 8-3-72	At Nagvada, Tal. Patadi, Distt. Surendranagar.
6906.	Surendrakumar Talati Mohanlal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6633 21-2-79	Op. Post Office. At Amkulav. Tal. Borsad, Distt. Kheda.
6807.	Surendrakumar Trivedi Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7976 2-2-81	At. Kandhi, Via Una, Distt. Junagadh.
6908.	Surendrakumar Vyas Harshadray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5711 4-3-77	2833, Piparadi's Pole, Raipur, A'bad.
6909.	Surendranath Patel Chunibhai	Ayurved Alankar, Ay. Coll., Gurukul Kangri Univ., Hardwar 1938	649 31-3-41	Kothi Pole, Ravpura, Baroda.
6910.	Surendrapalsinh Gautam Zarkhande	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7844 10-10-80	B.No. 102, Room No. 797, Gujarat Hou. Colony, Chamanpura, A'bad.
6911.	Surendraprasad Joshi Harishanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	258 19-7-62	At Utarav, Via. Dharam, Distt. Sabarkantha.
6912.	Surendrapuri Gosai Mangalपुर	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5982 30-11-77	At. Sarva, Tal. Arerod, Distt. Kheda

1	2	3	4	5
6913.	Suresh Billore Narayan	B.A. M.S., Indore Univ., 1973	714, 5-9-79	14. Vinobanagar, Indore (M.P.).
6914.	Suresh Jagyasi Nanakram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7894 14-11-80	E-145, Kubernagar. Post Sardarnagar. A'bad.
6915.	Suresh Jani Kantilal	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1973	6989 7-3-79	C/o Vaidyaraj Kantilal Jani, Digvijay Plot, At Rajkot.
6916.	Suresh Patel Ramanlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9161 17-10-84	Moti Khadaki, At Kathalal, Tal. Kapadvanj, Distt. Kheda.
6917.	Suresh Philesia Ratilal	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1974	6631 21-2-79	Hathikhana, Ladivada Road, Jalaran Krupa, At Rajkot.
6918.	Suresh Vyas Shankerlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5891 20-9-77	At Natown, Tal. Petlad, Distt. Kheda
6919.	Sureshbhai Bhatt Baldevbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4340 18-4-74	At Chhipadi, Tal. Kapadvanj, Distt. Kheda.
6920.	Sureshbhai Patel Ukajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4126 26-11-73	Near Post Office, At Sarsa, Tal. Anand, Distt. Kheda.
6921.	Sureshbhai Patel Ranchhodhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5090 18-12-75	At Galo, Tal. Kamrej, Via. Tedkeshwar, Distt. Surat.
6922.	Sureshbhai Patel Ranchhodhbhai	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ., 1975	5314 29-3-76	C/o Kumari N. K. Patel, E.S.I.D/42, Paladi, A'bad.
6923.	Sureshbhai Patel Vejubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5865 30-8-77	At Shikacampa, Post Dhansura, Tal. Modasa, Distt. Sabarkantha.
6924.	Sureshbhai Patel Dhulabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	6615 21-2-79	At Kodiavada, Tal. Vijayanagar, Distt. Sabarkantha.
6925.	Sureshbhai Patel Chhaganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7233 29-8-79	50-B, Sevashram Society, Racecourse, Baroda.
6926.	Sureshchandra Agravat Muladasbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7228 29-8-79	C/o Vaidraj M. N. Agravat, Ay. Dispensary, Azad Road, At Jamjodhapur, Distt. Jamanagar.
6927.	Sureshchandra Bhatt Kantilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2291 1-12-66	At & Post Undali, Tal Kheralu, Distt. Mehsana.
6928.	Sureshchandra Bhatt Bhanuprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6244 19-8-78	Behind Shaktipark, Tekarapar College Road, At Nadiad, Distt. Kheda.
6929.	Sureshchandra Bhatt Naginlal	B.S.A.M Gujarat Ay. Univ., 1980	8409 5-4-82	At. & Post Sajod, (Luharfalia), Tal. Arkleshwar, Distt. Broach.
6930.	Sureshchandra Bhojani Govindlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1964	1788 17-8-65	2/Ghanshyam Bhuvan, Sarita- kunj, Society, Ahmedabad-7.
6931.	Surshchandra Dashnem Shanbhugir	Ayurved Uttara, S.D. Pariksha Semiti, Faroda 1978	7125 17-7-79	7/1229, Echird Ambika Saden, Ananya Street, Katergeri Cate, Surat-3.
6932.	Sureshchandra Dube Harishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7784 19-8-80	Desara Road, At Billimora, Tal. Gandevi Distt. Valsad

1	2	3	4	5
6933.	Sureshchandra Dave Chamanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3845 2-3-73	Jamadar, Sheri, Ghogha Gate, Chutpapaeshwar, At. Bhananagar.
6934.	Sureshchandra Gada Puthabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5854 14-6-77	C/o Balabhai B. Joshi, M. 5/41, 331, Shastrinagar, Vasahat, Navavadaj, A'bad.
6935.	Sureshchandra Joshi Pravinchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4660 17-3-75	5-A, Baroda Pipal Society, Alkapuri, Baroda.
6936.	Sureshchandra Mehta Jivram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2971 15-6-70	Girirajnar Society No. 2, Block No. 2/41, C/o T.B. Joshi Behind Railway Dispensary, Near Kuva, At Junagadh
6937.	Sureshchander Mehta Ladshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4318 2-4-74	At Sadhali, Tal. Shinoor, Distt. Baroda.
6938.	Sureshchandra Pandya Mulshanker	Ayurved Visharad, B.A.M., Saurashtra, 1961	2389 3-5-61	C/o P.B. Pandya, Shanti Niketan Kevadavadi Mam Road, At. Rajkot.
6939.	Sureshchandra Pandya Harshadrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3588 13-9-72	Near Hatikeshwar Baharkot, At Mangarol, Distt. Junagadh.
6940.	Sureshchandra Pandya Labshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6148 4-5-78	At & Post Vanchhama, Tal. Padara, Dist. Baroda.
6941.	Sureshchandra Panjara Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9027 16-4-84	Azad. Chowk At, Bhabhar, Tal. Diyodar, Distt. Banaskantha
6942.	Sureshchandra Patel Miralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7350 29-10-79	Sonia Wad, Mahad, At Vad- nagar, Tal. Kharoda, Distt. Mehsana.
6943.	Sureshchandra Patel Nashantal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8429 17-5-82	At & Post Ubharam, Tal. Malpur, Distt. Banaskantha.
6944.	Sureshchandra Pathak Shantilal	D.S.A.C., Fac. of AUSM, Gujarat 1966	2967 9-6-70	At Varsada, Tal. Savli, Distt. Baroda.
6945.	Sureshchandra Pathak Tribhuvanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	2624 19-7-72	At Poisa (Kharoda), Tal. Savli, Distt. Baroda.
6946.	Sureshchandra Raval Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	5925 12-10-77	At Mojidada Tal. Limadi, Distt. Surendranagar.
6947.	Sureshchandra Raval Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6044 24-2-78	At Naviyani, Tal. Dasheda, Post Vanod, Distt. Surendranagar.
6948.	Sureshchandra Rajani Brajlal	B.A.M.S., B.I.M. Lucknow 1974	3192 23-2-76	At & Post Sankhada, Via. Una Distt. Junagadh.
6949.	Sureshchandra Tikkar Manilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1980	9414 19-10-85	At Vadpag, Post Ujianwada, Tal. Diyodar, Distt. Banaskantha
6950.	Sureshchandra Thakar Ramanlal	D.S.A.C., C.S. Av. Course, Gujarat 1964	1629 12-4-65	Tinbatti Chowk, At Dwarka.
6951.	Sureshchandra Trivedi Chunilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	333 23-11-62	Desai Vago, Near Chora, At Nadiad, Distt. Kheda.
6952.	Sureshchandra Verma Punashchand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4030 30-7-73	At Meta, Tal. Vadgam, Distt. Banaskantha.

1	2	3	4	5
6953.	Sureshchandra Vyas Amrutlal	B.A.M.S., Gujarat Univ., 1962	1108 27-11-62	C/o Amrutlal Odhavji Vyas, Station Road, Manicadar, Distt. Junagadh.
6954.	Sureshkumar Gor Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4147 3-1-74	At Davad, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
6955.	Sureshkumar Kariya Narsidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5958 4-11-77	Bhavani Sheri, Bazar Line, At Morabi, Distt. Rajkot.
6956.	Sureshkumar Nathvani Pragajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	4646 12-3-75	Ghelani Sheri, At Bhanvad, Distt. Jamnagar.
6957.	Sureshkumar Parmar Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4563 29-10-74	At. Linch Vankarvad, Tal. & Distt. Mehsana.
6958.	Sureshkumar Sharma Prahlabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3036 25-8-70	At Chaloda, Tal. Dholaka, Distt. A'bad.
6959.	Sureshkumar Soni Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5723 15-3-77	Laxminivas Jahagia Pura, Behind Mohan Tokiz, A'bad.
6960.	Sureshkumar Thakar Pranshankar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9044 10-5-84	Sector 30, 15/5, Gandhinagar.
6961.	Sureshkumar Raval Dasharathlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5528 17-9-76	At. Isari, Tal. Megharej, Distt. Sabarkantha.
6962.	Surpalbhai Parmar Vasjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4903 3-7-75	At. Chorimala, Post Rasingpur, Tal. Bhiloda, Distt. Sabarkantha.
6963.	Sursinghbhai Taviyad Ravjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5402 17-5-76	At. Thana (Sanjeli), Tal. Zalod, Distt. Panchmahal.
6964.	Surendrasinhji Rathod Pragjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3392 21-2-72	"Hement", Near New Jel, Opp. Kuvarba, Jain, Dharmashala, Jamnagar.
6965.	Surya Katariya Narayandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7480 5-1-80	Ayub Mahal, Arya Bhawan, At. Jetpur, Distt. Rajkot
6966.	Suryabala Pandya Manishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	4276 20-3-74	At. Amdhara, Tal. Chikhali, Distt. Valdad.
6967.	Suryabalaben Dalal Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3876 16-3-73	Sudhakar Build., 2nd Floor, Bhutadizapa, At. Baroda.
6968.	Suryakant Joshi Khandubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8471 3-8-82	At. Pandoli, Tal. Petlad, Distt. Kheda.
6969.	Suryakant Joshi Manishanker	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	8658 W 10-2-83	At. Jam-Gadhada, Distt. Jamnagar.
6970.	Suryakant Pandya Milshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7963 3-2-81	At. & Post Virsad, Bungalvadi, Via. Sanand, Distt. Kheda.
6971.	Suryakant Navadiya Premchandbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5713 4-3-77	14, Kirti Mandir Society, Narayanagar, Paladi, A'bad,
6972.	Suryakant Paneholi Manilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1963	732 2-6-63	37, Vaishali Society, Kareli Bag, At Baroda.
6973.	Suryakant Tilak Pragjibhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1966	2148 25-8-66	At. Naranpar, Tal. Bhuj, Distt. Kutch.
6974.	Suryakant Thakar Pratulchandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9282 2-5-85	Ramdas Bhuvan, Kaka's Falls, At. Uttarsanda, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
6975.	Suryavabashasinh Rajput Sahdevsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5455 14-2-76	37, Sardarpatel-Colony, A'bad.

1	2	3	4	5
6976.	Suryakant Patel Kashibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6047 24-2-78	Near Swaminarayan Temple, At. Bhadaram, Tal. Borsad, Distt. Kheda.
6977.	Suryakant Patel Chaturbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9355 21-8-85	At. & Post Khade, 387 520, Tal. Khambhat, Distt. Kheda.
6978.	Suryakant Pencholi Bhagvanji	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9392 23-9-85	At. Pipar, Via. Kharedi, Tal. Kalawad (Shitala), Distt. Jamnagar.
6979.	Sunavantray Pandya Motilal	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1948	7496 17-1-80	At. Pipaltoda, Tal. Lalpur, Distt. Jamnagar.
6980.	Susan Matyu	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7906 14-11-80	R. No. 2, Huseni Build., Jail Road, Junagadh.
6981.	Sushma Kapadia Bansilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8971 12-3-84	A-6, Govt. Qtr. Near Govt. Ladies Hostel, Surendra Mangal- das Rd., Ellisbridge, A'bad-6.
6982.	Sushmaben Varmani Govindlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8593 3-11-82	2563/Ghhal Pole, At. Mahendra- vad, Distt. Kheda.
6983.	Sushilaben Patel Ashokbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	6158 16-5-78	Radhaswami Savan B'g, Balinču Sarovar Road, At. Siddhapur Distt. Mehsana.
6984.	Sushilagauri Desai Mahedrakumar	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay, 1960	440 25-10-61	36, Parimal Society, Ellisbridge, A'bad.
6985.	Sushila Patel Bhanubhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	2665 3-4-68	60-A, Mangal Jyoti Society, Kareli Bag, Baroda.
6986.	Sushila Vaghela Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5558 4-10-76	Khushal Karbhari's Mali, Outside Jamalpur Gate, Near Caliso Mill, A'bad.
6987.	Sushamaben Kumudchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5695 24-2-77	Salabatpura Main Road, At. Surat.
6988.	Sushilkumar Vyas Ramniklal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2450 30-3-67	C/o R.N. Vyas, Nutannagar, Plot No. 231, Station Road, Tal. Majiva, Distt. Bhavnagar.
6989.	Suvas Gohil Izek	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7534 15-2-80	Rajdip, 5, Dipak Ciraol., Maninagar (East), A'bad
6990.	Swati Bapat Moreshwar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9266 9-4-85	C/o Bapat M.E. 25/Parashu- Ramnagar, Sayajiganj, Baroda-5.
6991.	Swati Bhagdev Jayantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9295 23-5-85	15/B, Highland Park, Behind Politeenic, A'bad-15.
6992.	Swatiben Patdhan Sudhanvadhan	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1968	6805 21-3-79	Ashirvad Nanuman Falia Naka, Vadi, At. Baroda.
6993.	Takhatsinh Parmar Mangalsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8618 13-1-83	At. Vadu, Tal. Padara, Distt. Baroda.
6994.	Tansukh Gosai Bhimgar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6877 3-4-79	C/o Dr. B.G. Gosai, At. Bhaya- vadar, Tal. Upaleta, Distt. Rajkot.
6995.	Tansukhlal Saraiya Narbheram	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	1304 23-10-61	Adarsh Dugdhalaya, Marve Road, Malad, Bombay.
6996.	Tansukhrai Dave Girdharlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1957	357 1-7-57	Station Road, At. Visavadar, Distt. Junagadh.
6997.	Tapankumar Vaidya Madhusudan	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9001 28-3-84	Panchsheel Society, College Road, At. Nadiad.
6998.	Tara Garaslya Motibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9509 12-6-86	Station Road, At. & Post Vyara, Tal. Vyara, Distt. Surat.

1	2	3	4	5
6999.	Tara Motvani Balchand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3967 7-7-73	Pancheshwar Tower, Type, At. Jamnagar. Bharat
7000.	Taraben Thakkar Chhaganlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1964	1630 12-4-65	C/o Dr. C.C. Thakkar Shshila Sadon, Raopura Tower, At. Baroda.
7001.	Tarakumari Patel Haribhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3539 4-8-72	Vallabhnagar Society, Qua. No. 38/B, Karelilbag, Baroda.
7002.	Taramatt Patel Lallubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8981 12-3-84	Nevya Falia, At. & Post Ambach, Tal. Paradi, Distt. Valsad.
7003.	Taramati Chaudhari Shambhubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5608 25-11-76	At. Navi Vashat Vedashhi, Tal. Valod, Distt. Surat.
7004.	Taramati Chauhan Somabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4240 5-3-74	Renvada, At. Dholka, Distt. A'bad.
7005.	Tarehwari Vaidya Karanlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay	1639 1-8-57	C/o Karanlal C. Vaidya, Moti Bhuvan, Opp. Nichi Bari, Manganath Sheri, Junagadh,
7006.	Tarlika Bhatt Navinchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7685 22-4-80	Shastriyanagar, Govt. Qua., 20/638, A'bad.
7007.	Tarlika Bhatt Ramchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8357 11-3-82	C/o Jitendra R. Bhatt, Mistry Colony, Vadi Rangashal, Near Ganpati Mandir, Baroda-290017.
7008.	Tarlika Parikh Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4507 17-9-74	C/o Mahe Shantilal Nanavati Sultanpura, Golvad, Baroda.
7009.	Tarlika Shah Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4772 9-4-75	67, Keshavnagar, Sabarmati, A'bad.
7010.	Tarlikaben Bhatt Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7453 21-12-79	Motipati, At. Sinhuji, Tal. Mahendavadi, Distt. Kheda.
7011.	Tarlikaben Patel Thakorabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5750 31-3-77	Kharipolev Road, At. Nadiad, Distt. Kheda.
7012.	Tarlike Kapadia Sumantilal	D.S.A.C., Gujarat Ay. Univ., 1965	1670 21-5-65	50, Shrimali Society, Navranpura, Ahmedabad.
7013.	Tarulata Shah Kanakray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7742 6-6-80	26, Snehal Nani Danapth, Adarsh Society, At. Junagadh.
7014.	Tarulata Vyas Dhirajram	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1963	1339 13-11-63	C/o Dr. L. L. Raval, At. Cheranda, Via. Miyagam, Distt. Baroda.
7015.	Tarulataben Sarati Dilipbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7809 9-9-80	Alathan Muni, Tarnamant, B. No. 3/87, At. Bhatar, Distt. Surat.
7016.	Tarulata Gondalia Amardas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4860 28-5-75	Shahpur Vanmali Vaka's Pole, Purani Hou., A'bad.
7017.	Tarulatta Sani Thakorlal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1977	6574 16-2-79	Darbar Road, At. Rajpipala, Tal. Nodad, Distt. Broach.
7018.	Tarulate Makvana Jivanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5568 13-10-76	15, Shri Virat Society New Sharada Road, Sanjivany Hospital, A'bad.
7019.	Tarulate Atmaram Patel Atmaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4769 9-4-75	Jamalpur Chakala, Kadia Sheri, H. No. 2083, A'bad.
7020.	Tarun Patel Amrutlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9636 5-12-86	At. & Post Chitrada—383 421, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha.
7021.	Tarunkumar Shah Dahyalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	9593 7-10-86	At. & Post Shinol, Tal. Modasa, Distt. Sabarkantha.

1	2	3	4	5
7022.	Tarunkumar Shukla Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7203 20-9-79	Sharda Villa, Natadiya Bazar, At Lunavada, Distt. Panchmahal.
7023.	Tarunkumar Vaidya Dasharathlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	7301 20-9-79	66, Sabarmati Society, Sabarmati, (Dharamanagar), A'bad.
7024.	Tarunkumar Jani Vajeshanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	198 1-12-56	At Hadiyana, Tal. Jodiya, Distt. Jamnagar.
7025.	Tarunkumar Pathak Manganlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	703 2-5-55	Kot Sheri, Vadi Faliya, Surat.
7026.	Tarunkumar Shah Mohanlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8988 12-3-84	At & Post Shinol, Tal. Modasa, Distt. Sabarkantha, 383 311.
7027.	Tasantlal Patel Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8281 16-1-82	At & Post Radodara, Tal. Bayad, Distt. Sabarkantha.
7028.	Tashshwali Shukla Bhaskerray	Ayurved Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1978	7191 17-8-79	C/o Vaidya Narhariprasad, Ambalal, Last Pole, Ghanshyam Bhavan, At Baroda.
7029.	Tavjibhai Solanki Chedabhai	Ayurved Visharad, B.I.M. Saurashtra 1961	2191 22-3-61	Ayu. Dispensary, At Ankolvadi, Distt. Junagadh.
7030.	Tejpal Patel Jivabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6067 15-3-78	At & Post Khanpur, Tal. Dahogam, Distt. A'bad.
7031.	Tekraj Pancholi Girdharlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3329 2-2-72	10, Shivbag, Shivkunj, Bhavnagar.
7032.	Tekraj Panthi Chhabilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8773 12-5-83	C/o Panthi Purushottam, Chhabilal, Bala Ay. College, At Lodra, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
7033.	Telashanker Jetharam	Ayurved Visharad, M.S. Univ., 1942	2101	Jilla Panchayat Kachoro Health Shakha, At Baroda.
7034.	Temubha Parmar Jashavantuinhji	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	7106 13-7-79	Hayaniya, At Muli, Distt. Surendranagar.
7035.	Thakarshi Bhatasana Amarsinhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3085 13-1-71	At Rupavati, Post Vichhia, Tal. Jasadan, Distt. Rajkot.
7036.	Thakarshi Chanariya Moyanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4363 30-4-74	At Rajpar, Via. Morai, Distt. Rajkot.
7037.	Thakarshi Dhokia Valaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3327 2-2-72	At Samega, Via. Bantava, Tal. Manavadar, Distt. Junagadh.
7038.	Thakarshi Nakrani Nanajibhai]	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7670 10-4-80	20, Rangnagar Society, Varachh Road, At Surat.
7039.	Thakarshi Rathod Devashibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	7765 16-7-80	At Juna Nagar, Post Nava Mogha Tal. & Distt. Jamnagar.
7040.	Thakerbhai Patel Bhailalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6354 4-10-78	At. & Post Vaghajipur, Tal. Sahera, Via. Santroad, Distt Panchmahal.
7041.	Thakerkumar Shastri Kamaleshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3409 2-3-72	At. & Post Kharsal St. Vidachha, Via. Abrana, Distt. Valsad.
7042.	Thakerprasad Raval Bacharabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3383 17-2-72	At Kalci, Tal. Natar, Distt. Kheda.
7043.	Thakorabhai Joshi Purshottam	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5253 8-3-76	Nava Baer, Miradata's Tekara Patvardhan's Hous., Baroda.
7044.	Thakorabhai Patel Bhikabhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	550 18-2-63	At & Post Savanik, Via. Ganga- dhar, Distt. Surat.

1	2	3	4	5
7045.	Thakorbhaj Patel Chhotabhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course Gujarat 1963	1425 14-4-64	At Dudhvada, Tal. Pudra, Distt. Baroda.
7046.	Thakorbhaj Soni Girdharlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1963	1452 29-6-64	Meta Per Chaklasi, Bhagol, Nadiad, Distt. Kheda.
7047.	Thakorbhaj Patel Chhaganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4647 12-3-75	Hathibhag, At Sokhada, Distt. Baroda.
7048.	Thakorbhaj Patel Maganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5310 29-3-76	Mota Darvaja, At Saras, Tal. Anand, Distt. Kheda.
7049.	Thakorbhaj Patel Motibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7537 20-2-80	At Mandala, Tal. Babhoi, Distt. Baroda.
7050.	Thakorbhaj Patel Umedbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8181 22-9-91	At. & Post Linagada, Tal. Anand Distt. Kheda.
7051.	Thakorlal Bhatt Somnath	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1945	828 30-3-45	Ranchhodiji's Temple, At Matar, Distt. Kheda.
7052.	Thakorlal Dave Acharatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5821 14-6-77	Cithalbhatt's Pole, At Umareth, Tal. Anand, Distt. Kheda.
7053.	Thakorlal Trivedi Motiram	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	313 1-6-56	Chhapagar Sheri, Sagrampura, At Surat.
7054.	Thakorlal Vyas Dhirajlal	Ayurved Visharad, M.S. Univ., 1946	1989 19-12-46	At Bhoj, Tal. Padra, Distt. Baroda.
7055.	Tilokchandra Motvani Holaram	B.A.M.S., Kanpur Univ., 1973	4517 20-9-74	495, A, Sardarnagar, Sindhi Colony, A'bad.
7056.	Tilottama Bhatt Kamalashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5366 22-4-76	C/o Harvadan M. Dave 2, Girdharnagar, Shahibag, A'bad.
7057.	Titaben Bhatt Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7712 17-5-80	Rangmahal, Vadi, At Baroda.
7058.	Trambaklal Bhatt Ambashanker	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	7047 21-6-79	At Modpar, (Gadhavalu), Via, Jam Jodhapur, Distt. Jamnagar.
7059.	Trambaklal Joshi Devjibhai	L.A.M., U.P. Ay. Maha. Patan (Baroda State) 1936	231 13-8-91	66, Malavianagar, Rajkot.
7060.	Trambaklal Nayibhaniya Chhotalal	L.A.M., U.P. Ay. Maha. Patan (Baroda State) 1934	483 12-7-41	General & P.W. Hospital, At Dharangdhré, Distt. Surendernagar.
7061.	Trambaklal Vyas Lallubhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	1088	At Punsari, Tal. Prati, Distt. Distt. Sabarkantha.]
7062.	Trambaklal Vyas Gautamlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6352 4-10-78	At & Post Fatehpura, Tal. Santranpur, Distt. Panchmahal.
7063.	Tribhuvan Jadav Ambaram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6257 2-9-78	At & Post Kodaran, Tal. Vadgam, Distt. Banaskantha.
7064.	Trikambhai Gohil Jadavjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4158 17-1-74	At Mandavi, Tal. Gariyadhar, Distt. Bhavnagar.
7065.	Trikambhai Makvana Lavjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4698 25-3-75	1766, Jivrambhatt's Chal, Rajpur, Gomatipur, A'bad.
7066.	Trikamdas Delvadiya Nanajibhai	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1970	6842 31-3-79	44/A, Lalita Colony, Isanpur, Vatava Road, A'bad.
7067.	Trikamdas Dudharjiya Damodardas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2965 8-6-70	At Kuntasi, Gia, Mota Dashisara, Tal. Maliya, Distt. Rajkot.

1	2	3	4	5
7068.	Trikamji Vanapariya Ukabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4992 17-10-75	Navi Shakmarket Road, At Keshod, Distt. Junagadh.
7069.	Trilokchandra Jain Sunharilal	A.M.S., B.H. Univ., 1948	2330 7-12-66	Sundarkunj, Hospital Road, Jamnagar.
7070.	Tripuraj Nayak Jayashanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay, 1947	474 10-1-47	Jilla Panchayat Dispensary, At Ilav, Tal. Hasot, Distt. Broach.
7071.	Tripurashanker Dave Kanaiyalal	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1941	8171 10-9-81	Baxishari, Lakhadhirvas, At Morabi, Distt. Rajkot.
7072.	Trisiladevi Nayak Nanubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7896 14-11-80	C/o r. Kishorchandra Nanubhai Desai, At & Post Sarikhud, St. Amalsad, W.R.-396 310.
7073.	Trivhovan Dagihariya Haribhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2548 14-7-67	Jilla Panchayat Dispensary, At. Ingerana, Tal. Mota Liliya, Via. Demnagar, Distt Amrell.
7074.	Trivhovan Vaidya Dahyalal	Ayurved Visharad, B.I.M. Saurashtra 1958	2203 15-3-58	Voravad, At Jetpur, Distt. Rajkot.
7075.	Trivikram Bhatt Mangalshwar	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	829 1-6-63	Dhanvantary Mandir Motinagar, Ellishbridge, Paladi, A'bad.
7076.	Tirupati Shah Vadilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8053 27-4-81	10/1, Giriraj Society, Panl Gate, At Baroda.
7077.	Tirupati Avarani Babubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9257 9-4-85	"Lokbharati, At Sunosara, Tal. Shihor, Distt. Bhavnagar.
7078.	Trupati Mehta Bindurai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3465 30-3-72	C/o Mehta Bindurai D. Shiobag Anayas Block No. 4, Takhteshwar, Distt. Bhavnagar.
7079.	Trupati Vaidya Nalinikant	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9408 19-10-85	A/32, Sushma Society, Hindu Milan Temple, Gopipura, At. Surat—395 001.
7080.	Tukaram Chaudhari Tilabhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1961	182 23-10-91	At Bhukla Tirth, Tal. & Distt. Broach.
7081.	Tulajashanker Joshi Popatlal	L.A.M., U. P. Ay. Maha. Patan, (Baroda State) 1940	230 3-11-41	5, Mahatma Gandhi Natural & Ayurvedic Chikitsalaya, At. Patan, Dist. Mchsana.
7082.	Tulajashanker Raval Chatrubhuj	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1951	978 1-2-52	Medical Officer, At Bidada, Distt. Kutch.
7083.	Tulasibhai Bhayani Dharamashibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975 1975	5323 2-4-76	Shriram Health Centre, At Sur- nagar, Via. Songadh, Tal. Garja Dhar, Distt. Bhavnagar.
7084.	Tulasidas Bagatharia Mohanlal	Vaidya Charya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1969	6775 21-3-79	Bhojpara Sheri No. 12, Marg No. 19, At Gondal, Distt. Rajkot.
7085.	Tulasidas Kadiabhai Lallubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3737 31-1-73	Bhoivada Naka, At Idar, Distt. Sabarkantha.
7086.	Tulajashanker Shukla Girijashanker	L.A.M., U.P. Ay. Maha. Patan, (Baroda State) 1941	1530 15-3-41	7, Dungarshinagar, Sarkhej Road, Ahmedabad.
7087.	Tulsibhai Patel Trikambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4766 9-4-75	At Sardarpur, Tal. Bijapur, Dist. Mchsana.
7088.	Tulsidas Gondalia Ukabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8909 24-1-84	C/o U. M. Gondalia, Shivraj Gadh, Tal. Gondal, Distt. Rajkot.
7089.	Tulsidas Patel Nathabhai	L.A.M., U.P. Ay. Maha. Patan, (Baroda State) 1941	558 20-1-62	Lakhawad, At Nandiad, Distt. Kheda.

1	2	3	4	5
7090.	Tushar Tripathi Harshadray	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9291 7-5-85	"Sukhasagar", Hansa Valia Cam- pound, Behind Raja Flat, Naranpura, Railway Crossing, A'bad-93.
7091.	Tushaushandra Shah Vyantilal	B.A.M.S., Indore Univ., 1972	5591 27-10-76	Vaniya Vad, At Buhari, Tal. Valod, Dist. Surat.
7092.	Udaji Zathod Fateji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4405 12-6-74	At Rathodpura, Post Kada, Tal. Visnagar, Distt. Mehsana.
7093.	Udaysinhji Mahida Ranchhodsinh	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1948	889 31-12-48	At Ochhan, Tal. Vagra, Distt. Broach.
7094.	Udesh Parmar Mangalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3931 24-4-73	At Vadu, Tal. Padara, Distt. Baroda.
7095.	Uga K. Rathod Kama	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4732 1-4-75	At Ramod, Harijavadas, Via. Gondal, Distt. Rajkot.
7096.	Ujjaval Pathak Chandravadan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8766 3-3-83	Bardoliwala Dispensary, Station Road, At Jalalpor, Tal. Navdari, Distt. Valsad
7097.	Ukabhai Vashani Bachubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5596 5-11-76	At & Tal. Bhesan, Distt. Junagadh.
7098.	Ula Shah Chimanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	4183 11-2-74	429/2, Limada Pole, Ravpura, Baroda.
7099.	Uma Adalaja Ramdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5720 9-3-77	B. No. 287/2, G-1, Sector 19, At Gandhinagar.
7100.	Uma Dave Vasudevabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6602 21-2-79	19, Om Shri A Ambika Society, Opp. Prakashnagar, Vatava Road, Maninagar, A'bad.
7101.	Umapati Niremath Sarnayya	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi	9426 2-12-85	C/o Chauhan B.D., C/17, ser- vottam Nagar, Near Bhut Bangala, Sabarmati- A'bad-5.
7102.	Uma Raval Vasantray	Vaidyacharya, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1970	6915 16-4-79	3, Vandana Society, Meghani Murg, At Surendranagar.
7103.	Uma Sheth Gunavantrao	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6346 4-10-78	23, Parmeshwrapark Society, Behind Civil Hospital, A'bad.
7104.	Umaben Patel Ranchhodbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9056 25-5-84	Bharra Hospital, At & Post Kim, Tal. Olpad, Distt. Surat.
7105.	Umaben Sheth Rasiklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7921 12-12-80	C/o Rasiklal, R. Sheth, B-4, Narmada Hou. Society Seva- shum, At. & Distt. Broach.
7106.	Umadevi Gandhi Chunilal	Ayurved Visharad, B.I.M. Saurashtra 1960	2241 12-4-60	D/9, E.S.I. Asarva, A'bad.
7107.	Umakant Dave Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7920 12-12-80	At Zemara, Tal. & Viramgam, Distt. A'bad.
7108.	Umakant Joshi Himmatlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1951	213 1-12-51	At Kankani, Tal. Sankheda, Distt. Baroda.
7109.	Umakant Joshi Kaysikhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3759 6-2-73	Ranchhodjis Temple Chowk, At. Kodinar, Distt. Amreli.
7110.	Umakant Joshi Gangalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8328 17-2-82	Brahmanvas, At Nadotra, Tal. Dhanora, Distt. Banaskantha.
7111.	Umakant Thakar Manubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7355 29-10-79	8, Sardarpatel Society, Near Ice Factory, At & Post Dahegam, Distt. A'bad.
7112.	Umarbhai Jethava Ababhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7998 25-2-81	Ajj Street, Post Vanthali (Sortha), Distt. Junagadh.

1	2	3	4	5
7113.	Umedgiri Goswami Ishwargiri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	6785 16-6-83	At & Post Sanosara, Tal. Sinhor, Distt. Bhavnagar.
7114.	Umedray Chhatbar Bhovanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5244 5-3-76	Khatrivad, At Bhagara Bhaayani, Tal. Vadiya, Kukavav, Distt. Amreli.
7115.	Umedsinh Jadeja Amarsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5277 10-5-76	At Dhegamada, Tal. Bhiloda, Distt Sabarkantha.
7116.	Umesh Vyas Zaverilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9226 19-2-85	Opp. Swaminarayan, Temple, Bhupendra Road, Rajkot.
7117.	Umeshchandra Panjabi Parasram	B.A.M.S., Vikram Univ., 1977	7005 16-5-79	42, Bhasin Loj, Friganj, At. Ujjain (M.P.)
7118.	Umeshgiri Goswami Prabhatgiri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8548 14-9-82	At & Post Vav, Tal. Shihor, Via. Rongadh, Distt. Bhavnagar.
7119.	Umeshkumar Dixit Chandraban	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6608 21-2-79	R. No. 7, Patel Society, Maninagar, Javahar Chowk, A'bad.
7120.	Umeshkumar Joshi Manubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6053 8-3-78	G-3, Samarapan Flat, Fulabi Tekra, A'bad.
7121.	Umeshkumar Vaidya Dhirajlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8935 17-2-84	Ramajimadirwas, Navrangpura, A'bad-9.
7122.	Umiyashanker Pandya Manishanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1944	737	Block No. 611, L. I. G. At Bhavnagar.
7123.	Unmeshaben Shah Chhaganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7062 27-6-79	C/o C. P. Shah, Khatrivad, At. Mandavi, Distt. Kutch.
7124.	Umesh Trivedi Ambalal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9288 7-5-85	1, Shivkunj Society, Opp. Sanghavi High School, Naranpura, A'bad-13.
7125.	Upendra Dave Vamanray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6665 28-2-79	Shantiniketan, Plot No. 1114, Krushnanagar, Bhavnagar.
7126.	Upendra Desai Bapubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1963	1439 18-5-64	Jekor Nivas, Adagra Street, Nan'para, Surat.
7127.	Upendra Joshi Sakarlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat, 1965	1841 5-11-65	Vyas Falia, Bardoli, Distt. Surat.
7128.	Upendra Mehta Ramilal	Ayurved Visharad, B.I.M. Saurashtra, 1958	2211 15-3-58	At Mota, Vadala, Via. Kalvad, Shitla, Distt. Jamnagar.
7129.	Upendra Raval Dhirajlal	M.D. (Ay.), Gujarat Ay. Univ., 1977	6167 20-5-78	2455/1, Chhoval's P. Near Kalupur Tower, A'bad.
7130.	Upendra Upadhyay Chunilal	Ayurved Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1974	7028 15-6-79	Nandewasari, At Padaca, Distt. Baroda.
7131.	Upendra Vakil Navnitlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1950	996 1-4-58	Samadi Falia, At Ankleshwar, Distt. Broach.
7132.	Upendrakumar Bhatt Somabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4955 30-9-75	At Kanij, Tal. Mahemdabad, Distt. Kutch.
7133.	Upendrakumar Bhatt Mulshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6222 3-8-78	At & Post Baheli, Tal. Valia, Via. Ankleshwar, Distt. Broach.
7134.	Upendrakumar Bhatt Indukumar	Ayurved Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	7126 17-7-79	9, Nilkanak Society, Kizanpura, Baroda-2.
7135.	Upendrakumar Dave Laxmishanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2487 12-5-67	Vavvali Sheri, Vadava Padar, Devlki, Bhavnagar.

1	2	3	4	5
7136.	Upendrakumar Dave Kapilrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8645 1-2-83	Kanabi Wad, Naran Ghughari's Delo, At Bhavnagar-364 001.
7137.	Upendrakumar Goti Laljibhai	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1967	2418 6-3-67	At Vadiya, Tal. Palitana, Distt. Bhavnagar.
7138.	Upendrakumar Joshi Marmadashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7265 11-9-79	At Raygad, Tal. Himmatnagar, Distt. Sabarkantha.
7139.	Upendrakumar Majithiya Kanallal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3860 8-3-73	Plot No. 1243, Swastim Society, Ambavadi, At. Bhavnagar.
7140.	Upendrakumar Mandloi Sultansing	B.A.M.S., Indore Univ., 1975	6307 27-9-78	57, Yegipura, At Ujjain (M.P.).
7141.	Upendrakumar Patel Jashbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6935 17-4-79	At Palana Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
7142.	Upendrakumar Raval Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2975 16-6-70	Solankivas, Behind Post Office, At Dahegam, Distt. A'bad.
7143.	Upendrakumar Somani Dhirubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3796 16-2-73	At Valod, Distt. Surat.
7144.	Upendrakumar Trivedi Bhavnishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3749 6-2-73	Upmanyu Kutir, Near Jagdish Ashram, At. Limbaedi, Distt. Surendranagar.
7145.	Upendrakumar Upadhyay Purshottamdas	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6810 22-3-79	At Kathana, Tal. Barsad, Distt. Kheda.
7146.	Upeshkumar Patel Motibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4549 15-10-74	At Sarasa, Tal. Anand, Distt. Kheda.
7147.	Upmany Bhatt Ramprasad	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1967	2579 25-7-67	20, New Alkapuri Society, Gulab's Tekra, Behind Sachivalaya.
7148.	Urulaben Yadav Baburao	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6373 13-10-78	Near Arvind Trading Co., At. Post Bhansura, Tal. Medasa, Distt. Sabarkantha.
7149.	Urmila Bhatte Laxman	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1969	4546 15-10-74	Ganesh Bhuvan, Para's 4th Floor, At. Mehsama.
7150.	Urmila Desai Mohanklal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1959	391 1-3-60	C/o Nayak Gunvantlal R, At. Pratapnagar, Tal. Vasada, Via. Bilimore, Distt. Valsad.
7151.	Urmila Mehta Rameshchander	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1958	2698 1-7-58	Sinu Cinema Road, At Godhara, Distt. Panchmahal.
7152.	Urmila Pasi Maganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8836 1-9-83	Vitthalnagar-46, Mental Hos- pital, Karelhbag, At Baroda.
7153.	Urmila Patel Narottamdas	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1957	503 2-12-57	Lallubhai's Chakala, Broach.
7154.	Urmila Shah Mansukhlal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1961	677 4-1-62	C/o Dr. M. P. Shah, Jakatchhapri Station Road, At Shihor, Distt. Bhavnagar.
7155.	Urmila Shah Purshottam	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5992 19-12-77	62, Meghdut Society, Karelhbag, At Baroda.
7156.	Urmila Shah Bhogilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1957	1124	Ramtekari Road, Porbandar, Distt. Junagadh.
7157.	Urmilaben Patel Shankerbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4119 17-11-73	At Kosindra, Tal. Sankheda, Distt. Baroda.
7158.	Urmilaben Patel Chimanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8959 12-3-84	9, Deri Qutr. Lalpari Sarovar Road, At Rajkot-360 003.

1	2	3	4	5
7159.	Urmilaben Rathod Jitendra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5413 4-6-76	At Varad, Tal. Bardoli, Distt. Surat.
7160.	Urvashi Vansiya Ramasingh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5063 2-12-75	At Sachin, Tal. Choryasi, Distt. Surat.
7161.	Urvashi Joshi Laxmishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8504 27-8-82	Narsinhji's Pole, Kapasiya's Khadaki, Baroda-1.
7162.	Urvashi Josh Dinkarra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8917 24-1-84	M-163, Gujarat Hou. Board Quar., Kalavad Road, At Rajkot- 360 001.
7163.	Urvashi Shah Gunavantal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3004 18-7-70	1087, Kikabhathi's Pole, Derasar Wala Khanoh, Ghikanta Road, Dariya, Dariyapur, A'bad.
7164.	Usha Bhatt Vavailal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	5631 18-12-76	401, Prabhudas Lake, At Bhav- nagar.
7165.	Usha Dixit Jayantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8045 27-4-81	C/o B.J. Dixit, B. No. 24/6, Sector No. 30, Gandhinagar.
7166.	Usha Joshi Jadavray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5190 21-2-76	At Chital, Distt. Amreli.
7167.	Usha Joshi Rasiklal	Ayurved Bhisak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1976	7735 6-6-80	Shreyas Society, Atugrah, Airodram, Ring Road, Rajkot-1.
7168.	Usha Kapadia Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3046 16-9-70	Navapura, Vitthal Society, Kashinivas, Baroda.
7169.	Usha Mehta Rupshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3755 6-2-73	H. No. 1279, Sharda -Nivas, Shastri's Khancha, Dhanasuthar Pole, Relief Road, A'bad.
7170.	Usha Mehta Himmatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4021 27-8-73	C/o Nitiben Sharma, Bhiddhanjan Gate, Oza Building, At Jamnagar.
7171.	Usha Mehta Vidyaratna	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4795 21-4-75	27, Ranna Park Society, Ghat- lodiya Road, A'bad.
7172.	Usha Patel Fulshanker	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1960	2560 28-7-67	Hale Public Maternity Road, At Halol, Distt. Panchmahal.
7173.	Usha Patel Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2944 4-4-70	Kalashi Khancha Sheta Sheri, Bajavada, At Baroda.
7174.	Usha Shah Naginchand	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1963	1125 7-8-63	Shivdas Zaveri Street, Sagrampura, Surat.
7175.	Usha Thakkar Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8556 16-9-82	Guj. Rifainari, 6/121, Sashram Township, Javabarazar, Distt. Baroda.
7176.	Usha Upadhyay Balkrushnabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8239 9-12-81	So. No. 17, B.No. 164/13, Ch. Type, Gandhinagar, Distt. Gandhinagar.
7177.	Usha Vyas Hargovind	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4310 2-4-74	C/o Dr. H.F. Vyas, Animal Dis- pensary, Rajmahal, at Keshod, Distt. Junagadh.
7178.	Usha Zaveri Vasantra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3837 2-3-73	C/o Vasantra N. Zaveri, Central Bank Road, Near Shyamsunder Temple, At Jamnagar.
7179.	Ushaben Chavala Chunilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7429 12-12-79	3, Shashtrinagar, At Bardoli, Distt. Surat.
7180.	Ushaben Desai Kuvarji	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1957	392 2-1-59	Parvatiben Hospital, Somaath Road, At Bilimora, Distt. Valsad.
7181.	Ushaben Kanadhiya Kanubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8924 8-2-84	Nanji Master's Khancho, Near Ankleshwasia Block, Khanpur, A'bad.

1	2	3	4	5
7182.	Ushaben Mavani Kishorchandra	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1973	6779 21-3-79	C/o N.T. Anarkat, Garodiya, Kuva Road, At Rajkot.
7183.	Ushaben Modi Bhakhandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4703 29-3-75	Saiyadpura, Vavsheri, Surat.
7184.	Ushaben Pandit Madhusudan	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	1428 16-4-64	Vaidya Nivan, Near Nava Ramji Mandir, Mahatma Gandhi Road, At Anand, Distt. Kheda.
7185.	Ushaben Patel Gosaibhai	B.S.A.M., Indore Univ., 1977	6305 27-9-78	Vahanfalia, Post Matvad, Tal. Navsari, Distt-Valsad.
7186.	Ushaben Patel Bhupendrabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7843 10-10-80	B. No. 102, Room No. 797, Guj. Hou. Colony, Chamanpura, A'bad.
7187.	Ushaben Rajgor Jitendrakumar	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9019 16-4-84	11, Shri Nathdwara Society, Nava Vadaj, A'bad-13.
7188.	Ushaben Shah Kalidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3778 10-2-73	At Barvalaghelasha, Via. Bhim- nath, Tal. Dhandhuka, Distt. A'bad.
7189.	Ushaben Vaidya Piyushchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2795 7-7-69	At Kauhholi, Via. Amalsad, Distt. Valsad.
7190.	Ushakant Shukla Shankarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4108	Zaveri Bazar, At Jamkhambhalia, Distt. Jamnagar.
7191.	Ushakumari Jani Balavantrao	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3878 20-3-73	Gargi Clinic, Near G. P. O., 4th Floor, 467, Sarvodaya Com. Centre, A'bad.
7192.	Ushakumari Mehta Munsukhlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1956	1947 25-2-66	Vadva Padar, Davki, Bhavsar Sheri, At Bhavnagar.
7193.	Ushma Kapadia Laxmichand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3912 3-4-73	9, Jayraj Plot, At Rajkot.
7194.	Usman Natar Nurmohammad	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1972	7044 21-6-79	Bag Darvaja Road, At Shapur, Distt. Junagadh.
7195.	Uttam Patil Vithhal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3042 15-9-70	At Korit, Post Prakash, Tal. Nandubhar, Distt. Dhulia.
7195.	Uttambhat Shah Popatlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	2199 1-11-55	Mahalaxmi Bhuvan, Jayaraj Plot, Sheri No. 3, At Rajkot.
7197.	Uttamprakash Sharma Mangalram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5688 24-2-77	At Kolvada, Tal. Vijapur, Distt Distt. Mehsana.
7198.	Vadekar Bhatt Madhukar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	6249 23-8-78	Govt. H. L. Colony, 78/J, A'bad.
7199.	Vadidatt Shukla Vrindavan Bihari	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	7252 3-9-79	Clinic Registrar, P.G.T.G. & Re- search, Dhanwantari Temple, At Jamnagar.
7200.	Vadilal Mandalia Amrutlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1946	937 28-2-46	At Alarasa, Tal. Borasd, Distt. Kheda.
7201.	Vadilal Shah Bahechardas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1947	2840 5-6-47	At Gabat, Tal. Bayad, Distt. Sabarkantha.
7202.	Vadingbha Dindir Koyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4844 14-5-75	At Thala, Post Sanjoli, Tal. Zalod, Distt. Panchmahal.
7203.	Vahid Tai Isamai	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6617 21-2-79	At Jetpur, Tal. Jetpur Distt. Rajkot.
7204.	Vaibhavi Mehta Ravindraray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4919 15-7-75	Sector No. 20, B. No. 24/6, Gandhinagar.

1	2	3	4	5
7205.	Vaikuthal Yagnik Mohanlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1953	963 1-12-63	Medical Officer, At Anjar, Distt. Kutch.
7206.	Vajeram Agravac Haridas	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ., 1971	3613 19-9-72	At Anindra, Via. Lakhtar, Distt. Surendernagar.
7207.	Vajeram Agravat Vallabhdas	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1960	7162 2-8-79	At Lotaka Vadala, Tal. & Distt. Junagadh.
7208.	Vajibhai Raval Vhanilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7893 15-18-80	At & Post Bhosana, Tal. & Distt. Distt. Mehsana
7209.	Vajirkakhan Pathan Bhurekhan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3701 30-11-72	At Danta Bhavamghdththa, Distt. Banaskantha.
7210.	Vaktavarnal Soni Chatrabhujji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3782 15-2-73	Panchhatadia, At Idar, Distt. Sabarkantha.
7211.	Valabhai Keshola Bhagvanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8236 9-12-81	Jivandip Clinic, At. Sutradad, Tal Voraval, Distt. Junagadh.
7212.	Valaji Parmar Jethalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5121 15-1-76	At Khimrane, Via. Dhuvu V., Distt. Jamnagar.
7213.	Valdas Kubavat Vitthaladas	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	8607 28-12-82	At Vadhavi, Via Joshipura, Tal. & Distt. Junagadh.
7214.	Valentine Rathod Jakabhai	B.S.A.M., Gujarat Av. Univ., 1975	5171 16-2-76	H. No. 2048/15, Punjalal's Chali, Raikhad, A'bad.
7215.	Valji Khunt Laxmanbhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2027 3-6-66	Panch Talvada, Via Damnagar, Tal. Lilia, Distt. Amerli.
7216.	Valajibhai Bhannani Mohanbhai	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1964	6520 1-2-79	Near Patel Officer, At. Chittal, Distt. Amreli.
7217.	Valajibhai Chaudhari Motibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3580 5-9-72	At. Samoda, Tal. Siddhapur, Distt. Mehsana.
7218.	Valajibhai Maniya Kuranibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5345 8-4-76	Saiyadpura- Moti Kadiya Sheril, At. Surat-
7219.	Valajibhai Rathod Danabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3678 2-11-72	Nagarvada Gate, Flia Jagjivandas Vitthaladas House, At. Baroda.
7220.	Valjibhai Vadaliya Chhaganlal	Ayurved Visharad, B.I.M. Saurashtra 1960	2208 22-3-61	At. Jambada, Tal. & Distt. Jamnagar.
7221.	Vajaribhai Vaghela Devashibhai	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1961	7842 10-10-80	Flat No. 1553, Ghogha Road, Navjivan Dispensary, Bhavnagar.
7222.	Valmik Jani Nanilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1953	2552 1-10-53	Allopathic Disponsary, At Dhekadava, Tal. Una, Distt. Junagadh.
7223.	Valmik Vaidya Chandrakant	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Maharashtra 1962	1053 10-12-62	Bhagat Street, Bhagat Talav, Bhavnagar.
7224.	Vallabh Davariya Devraj	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4599 1-1-75	At. Kedvav, Via. Antava, Tal. Manavadar, Distt. Junagadh.
7225.	Vallabh Kanani Bhima	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4994 17-10-75	At. Rajesar, Post, Mendarada., Distt. Junagadh.
7226.	Vallabh Kanoriya Vasharam	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8148 3-9-81	At. Agatria, Via Keshod, Distt. Junagadh.
7227.	Vallabh Patel Sevajibhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2359 10-1-67	C/o. 2240, G. H. B. Colony, New Chamanpura, A'bad.

1	2	3	4	5
7228.	Vallabh Sacrathiya Tejabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7599 17-3-80	C/o. Tejabhai Lakhbhai Sorathia, 19, Gundivadi, At. Rajkot.
7229.	Vallabhbhai Bumtariya Lagbhabhai	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1978	9032 16-4-84	Bhaktiba Govt. Ay. Hospital, At. Kolaki, Tal. Upaleta, Distt. Rajkot.
7230.	Vallabhbhai Dungarani Bogajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4007 17-8-73	At. Mandavdhar, Tal. Gadha Distt. Bhavnagar.
7231.	Vallabhbhai Goti Beeharbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5492 13-8-76	At. Ujalvav, Tal. Umarala, Via Dhola Jn., Distt. Bhavnagar.
7232.	Vallabhbhai Hirpara Shamjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5741 25-3-77	At. Sultanpur, Via. Vadia Devali, Tal. Gondal, Distt. Rajkot.
7233.	Vallabhbhai Jasani Virabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4569 4-11-74	At. Mota Surka, Tal. Shihor, Distt. Bhavnagar
7234.	Vallabhbhai Kapupara Kanajibhai	Ayurved Bhishak, A. I. Ay Vidyapeeth, Delhi 1961	6651 28-2-79	Amrutnivas, Mehilnagar, Behind Nilkanth Talkies, At. Rajkot.
7235.	Vallabhbhai Paladiya Bhurabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4073 1-10-73	At. Ankolvadi, Via. Songadh, Tal. Palitana, Distt. Bhavnagar.
7236.	Vallabhbhai Parmar Raghavbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5465 22-7-76	At. Jangadhada, al. Kalyanpur, Via. Bhopalaka, Distt. Jamnagar.
7237.	Vallabhbhai Patel Ishwarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4448 20-8-74	Near Mahade Gorva, Baroda.
7238.	Vallabhbhai Patel Karibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7714 17-5-80	At. Ghadia, Tal. Kapadvanj, Distt. Kheda.
7239.	Vallabhbhai Vaishnav Hanerajbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5746 31-3-77	At. Kharedi, Via. Bhoraji, Distt. Rajkot.
7240.	Vallabhbhai Virdiya Ambabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3773 9-2-73	At. Kerala (Vadiana), Tal. Distt. Amreli.
7241.	Vallabhadas Bhanvadiya Popatbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3091 13-1-71	At. Gomata, Tal. Gondal, Distt. Rajkot.
7242.	Vallabhadas Chapadiya Valaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4984 17-10-75	Near Surajkund, At. Kanthali, Distt. Junagadh
7243.	Vallabhadas Doshi Punamchand	A.V.V., T. M. Vidyapeeth, Poona 1943	453 31-3-44	Seva Mandal, Megharaj, At. Kasana, Tal. Regharej, Distt. Sabarkantha.
7244.	Vallabhadas Dholariya Shambhubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9384 3-9-85	At. Majevadi-362011, Tal. & Distt. Junagadh.
7245.	Vallabhadas Patel Jivabhai	B.S.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1962	633 23-11-62	C/o. Babubhai Jivabhai Patel, At. Morba, Via. Gariyadhar- Distt. Bhavnagar.
7246.	Vallabhadas Raninga Mohanlal	B.A.M.S., I. I. M. Lucknow, 1972	4156 17-1-74	At. Bantawan, Tal. Manavadar, Distt. Junagadh.
7247.	Vallabhadas Shah Mangaldas	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	1231 1-12-54	At. Medsa, Distt. Sabarkantha.
7248.	Vallabhadas Shah Somalal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Gujarat 1956	1230 1-3-56	Medical Officer, Ketej Hospital, At. Basada
7249.	Vallabhadas Sha Maridas	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1963	7046 21-6-79	At. Bapadar, Via. Rana Kando- rana, Tal. Ranava, Distt. Juna- gad
7250.	Vallabhadas Virdiya Tulsibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4076 4-10-73	Govt. Ay. Dispensary, At. Braroda, Tal. Songadh, Via Sagbara, Distt. Surat.

1	2	3	4	5
7251.	Vallabhdas Kariya Gopalji	Ayurved Bhishak, A. I. A. Vidyapeeth, Delhi 1962	7243 30-8-79	At. Mesvan, Tal. Kashed, Distt. Junagadh.
7252.	Vallabhji Pithadia Kurajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3671 30-10-72	At. Malia Hatina, Distt. Juna- gadh.
7253.	Vallabhji Vaghasiya Ravaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4382 20-5-74	At. Sarsai, Distt. Junagadh.
7254.	Vamanrai Joshi Nareswar	B.S.A.M.- Gujarat Ay. Univ., 1972	3963 15-6-73	Kadoriya Sheri, At. Mahuva, Distt. Bhavnagar.
7255.	Vamanrai Trivedi Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2908 24-2-70	At. & Post Timuna, Tal. Talaji, Distt. Bhavnagar.
7256.	Vanara Jsinh Jadeja Kanubha	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5957 4-11-77	Ambar Tokiz, At. Jamnagar
7257.	Vandana Mahant Laxmiprasad	B.S.A.M.- Gujarat Ay. Univ., 1971	3510 17-5-72	Wadi, Taivada, Gaurivilas, At Baroda.
7258.	Vandana Pathak Purushottam	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9297 23-5-85	Sarangpani's Wado, Khariyav Road, Raopura, Baroda.
7259.	Vitthal Aghera Govindbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9243 12-3-85	At. Motibanugar, Tal. Jamnagar- 361120.
7260.	Vandanaben Dave Deviprasad	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1977	6711 9-3-79	At. Sarbhan, Tal. Amed, Distt. Broach.
7261.	Vandana Desai Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6880 3-4-79	At. Vasanda, Via. Billmora, Distt. Valsad.
7262.	Vandana Dixit Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6748 15-3-79	1106, Mohadevvalo Khancho, Dovaji Saraiya's Pole, Sarakadi Shoti, Nanek Chowk, A'bad.
7263.	Vandanaben Vaidya Narendrabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6749 15-2-79	R. No. 5, Alkesh Society, Kareli- bag, Behind Arya Kanya, Colleg At. Baroda.
7264.	Vandevi Acharya Girdharlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4019 24-8-73	Natraj Niketan, 2, Cricket Bunglao Road, Jamnagar.
7265.	Vanita Joshi Mukundrai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1750 30-6-65	Joshi Dispensary, Chhaya Road, Porbandar, Distt. Junagadh.
7266.	Vanlata Malvaniya Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4673 21-3-75	At. Nanabhadiya, Tal. Mandavi, Distt. Kutch.
7267.	Vanlila Parckh Nandlal	Ayurved Visharad, B.I.M. Saurashtra 1958	2310 15-3-58	C/o. Dr. Vasant H. Shah, Bhav- nagar Road, Bedipara, At. Raj- kot.
7268.	Vanmalidas Agravat Maridas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8177 22-9-81	At. Khorasa (Gir), Via. Sherbag, Tal. Maly.thatina, Distt. Juna- gadh.
7269.	Vanmalibhai Patel Haribhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1949	632 10-2-50	At. Sarbhon, Tal. Bardoli, Distt. Surat.
7270.	Vanraj Kotak Hirajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3862 22-3-73	At. Ashram Chakar, Tal. Bhuj, Kutch.
7271.	Vanrajsinh Raj Dahadursinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8518 27-8-82	C-1, Vaibhav Appt., Divali Dag, Athava Dine, Surat.
7272.	Vanravan Khakhariya Pragji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5937 19-10-77	Bharvad Sheri At. Lalpur, Distt., Jamnagar.
7273.	Vanravanbhai Kher Ishwarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4048 15-9-73	At. Pachehham, Tal. Dhaniduka, Distt. A'bad.

1	2	3	4	5
7274.	Vanshri Shah Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4252 11-3-74	599, 5, Dev's Sheri, Lakha- patel's Pole, Bankadi Sheri, A'bad A'bad.
7275.	Varsh Krischan Jayanand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5354 20-4-76	Near Railway Crossing, At. Vasad, Tal. Anand, Distt. Kheda.
7276.	Varsha Jaha Ramprasad	M.D.(Ay.) Gujarat Ay. Univ., 1977	6142 19-4-78	C/o. Shri P. R. Jaha, 69, Brah- man Mitra Mandal Society, Faladi, Ellishbridge, A'bad.
7277.	Varsha Jani Hiralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4897 26-6-75	Prerana Park, Ayur. Bhavan, A'bad.
7278.	Varsha Kapadia Narendrakumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7467 21-12-79	B. No. 548, Vijaynagar, A'bad. -13.
7279.	Varsha Khandwala Babubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3820 26-2-73	422, Ganpatlal Colony, Opp. New Civil Camp Road, A'bad.
7280.	Varsha Mehta Ravichandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8665 16-2-83	C/o. Shri R. H. Mehta, Ranjit- nagar, B. No. A-6, Flat No. 70, Rupvarsha, At. Jamnagar.
7281.	Varsha Pandya Jamanadas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6599 21-2-79	C/o. J. C. Pandya, 14, Gayatri Society, Jawahar Chowk, Mani- nagar, A'bad.
7282.	Varsha Pandya Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8314 6-2-82	Sector No. 29, Plot No. 275, 22/29, Bus Stand, Gandhinagar.
7283.	Varsha Patel Thakorbbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	9236 12-3-85	Khari Pole Road, At. Nadiad Distt. Kheda-387001.
7284.	Varsha Parekh Bharat	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9454 10-1-85	3/A, 74, Madhuvan Colony, At. Dadra & Nagar Haveli-396240, P. O. Karad, Via. Vapi-Selvas.
7285.	Varsha Shah Rasiklal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9631 5-12-86	C/o. Shah Rasiklal Vitthaldas, Gandhi-Wada, At. & Tal. Nodasa, Distt. Sabarkantha
7286.	Varshaben Thakar Ambalal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9413 19-10-85	C/o. Umeshchandra D. Raval, 21/Naberu Society, Chakalia Rd., At. Dehed-389151, Dist. Panch- mahal.
7287.	Varsha Vaidya Govindprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4622 12-2-75	Dhanwantari Gomatipur, A'bad.
7288.	Varshaben Patel Chunilal	A.M.B.S., B.I.M., Lucknow 1959	5367 28-4-76	12, Moralidhar Co-op. Hou . Society, Odhav Road, A'bad.
7289.	Varshaben Patel Panambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8329 17-2-82	Navadhara, Kaka's Pole, At. Umrath, Tal. Anand, Distt. Kheda.
7290.	Vasant Bakrania Jivabhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	779 2-1-54	Vasant Lila, At. Palitana, Distt. Bhavnagar.
7291.	Vasant Joshi Sitaram	B.A.M.S., B.I.M., Hyderabad, 1978	8882 19-12-83	At. & Post Pindval, Tal. Dharam- pur, Distt. Valsad.
7292.	Vasant Lambole Maganlal	B.A.M.S., Univ. of Poona, 1979	8228 24-11-81	D/5, Nikunj Appt., Siddhanath Road, Near Khadernao Market, Opp. Krishna Theatre, Baroda.
7293.	Vasantben Godhani Mirajbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4914 9-7-75	Primary Health Centre, At. Vanda, Tal. Savarkundala, Distt. Bhavnagar.
7294.	Vasantben Gothana Narendrasinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5926 17-10-77	At. Utran Rajputulia, Tal. Choryasi, Distt. Surat.
7295.	Vasanti Vakil Surendra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1965	1894 16-12-65	Samadi Falia, Ankleshwar, Distt. Broach.
7296.	Vasantika Chauhan Narsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 197.	3428 9-3-72	At. & Post Mandavi, Nagarfalia, Near High School, Distt. Surat.

1	2	3	4	5
7297.	Vasantkumar Barot Jasvantsinh	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1961	793 8-12-61	Sultanpura, Golwad, Baroda.
7298.	Vasantkumar Bhatt Mahadevprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2873 13-1-70	C/o. Dr. Mahadevbhai O. Bhatt, Vasant Dispensary, At. Kasrva Dispensary, At. Kasrva, Via. Lakhatar, Tal. Patadi, Distt. Surendranagar.
7299.	Vasantkumar Gohel Hamabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	6130 12-4-78	At. & Post Juna Ugala, Tal. Una, Distt. Junagadh.
7300.	Vasantkumar Jani Shankarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6429 2-12-78	At. & Post Kanlol, Tal. Nimmat- nagar, Distt. Sabarkantha.
7301.	Vasantkumar Joshi Chunilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1862 30-11-65	Opp. Hummadkuva, At. & Post Prantij, Distt. Sabarkantha.
7302.	Vasantkumar Mehta Chimanlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	925 1-10-58	Shri Arvind Nursing Home, Dispensary & Eye Clinic, Kenal Road, At. Rajkot.
7303.	Vasantkumar Nimkar Purshottam	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1957	486 2-12-57	Mahatma Gandhi Smarak Hospi- tal, At. & Distt. Surendranagar.
7304.	Vasantkumar Pandya Shantilal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6480 1-2-79	Daxini Maholla, At. Mana Varachh, Tal. Choryasi, Distt. Surat.
7305.	Vasantkumar Patel Manilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3748 6-2-73	Vibhag 2, Ambika Devi Society, Block No. 8, Narānpura, Cross- ing, Opp. Vaidya Shala, A'bad.
7306.	Vasantkumar Tamboli Manbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6165 20-5-78	B/2, Rajeshwari Socieir, Saikrupa Halar Road, Valsad.
7307.	Vasantkumar Upadhyay Shivnarayan	B.A.M.S., Indore Univ., 1975	6423 18-11-78	Brahmanpuri, At. Khrogoné M.P.
7308.	Vasantlal Damidardas	Vaidya Visharad, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1968	7421 29-11-79	At. Bhanduri, Tal. Malia- Matina, Distt. Junagadh.
7309.	Vasantlal Jagani Bhimjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3446 15-3-72	Medical Office CHV Prathimik Arogya Centre, At. Lakadia, Tal. Bhasha, Distt. Kutch.
7310.	Vasantlal Jalal Shankarlal	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ., 1972	4052 15-9-73	At. Khakhrechi, Via. Morbi Tal. Malia-Miyana, Distt. Rajkot.
7311.	Vasantlal Mehta Dayashanker	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1963	8130 4-8-81	At. Devada, Via. Kutiyana, Distt. Junagadh.
7312.	Vasantlal Parekh Vanmalidas	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1962	690 16-8-62	Mahidharpura, Jadhkhadi, H. No. 6/1356, Opp. Moti Bag, At. Surat.
7313.	Vasantlata Kothari Chandulal	B.A.M.S., Univ. of Indore 1966	5521 14-9-76	At. Sudasana, Tal. Kheralu, Distt. Mehsana.
7314.	Vasantraj Bhatt Navalshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3507 9-5-72	Bhagvati Bhuvan, Dadia Plot, At. Porbandar, Distt. Junagadh.
7315.	Vasantraj Bhatt Jethalal	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1956	8173 10-9-81	At. Umarada, Tal. Muli, Distt. Surendranagar
7316.	Vasantraj Bhatvadekar Yashavant Rai	L.A.M. U. P. Ay. Maha. Patan (Baroda State), 1938	2745 1-3-69	At. Vesza, Tal. Navsari, Distt. Valsad.
7317.	Vasantraj Gohil Maganlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	2547 13-3-67	At. Bhadrad, Via. Mahuvabandar Distt. Bhavnagar.
7318.	Vasantraj Joshi Narmadashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3416 7-3-72	At. & Post Dhaink, Via. Bhaya- vadar, Distt. Rajkot.

1	2	3	4	5
7319.	Vasantraï Lathiya Naran bhai	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4078 4-10-73	C/o. Dr. N. M. Lathi Hou. No. 577, Opp. Azar Temple, Dovila, Yoginagar, At. Gondal, Distt. Rajkot.
7320.	Vasantraï Mehta Vrajlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2888 28-1-70	At. Mota Ankevadia, Tal. Bharn- gadhra, Distt. Surendranagar.
7321.	Vasantraï Raval, Franshanker	D.A.M., U.P. Ay. Maha. Patan (Baroda State), 1940	2664 6-5-40	Sardar Vallabhbhai's Patel Road At. Rajkot.
7322.	Vasantlal Sahayata Chumilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9316 25-7-85	Azad Chowk, At. Bhabhar-385320 Tal. Diyodar, Distt. Banaskantha.
7323.	Vasantraï Upadhyay Jagnnath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3144 26-2-71	Near Guru Dattaray's Temple, Behind D.K.V. College, Jamnagar.
7324.	Vasantraï Acharya Girjashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	5490 11-8-76	Budhabava's Shri Marihar Nivas, At. Morabi, Distt. Rajkot.
7325.	Vasantraï Joshi Labhshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5048 20-11-75	At. Talakuvada, Via Dabboj, Distt. Baroda.
7326.	Vasantraï Pandya Prabhashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4272 2-3-74	At. Royal, Via Trapaj, Distt. Bhavnagar.
7327.	Vasharambhai Borad Laxmanbhai	G.F.A.M., Fac. of AÜSM, Bombay 1959	791 3-1-59	Station Road, At. Bagara, Distt. Amreli.
7328.	Vashrambhai Makvana Devjibhai	Ayurved Visharad, B.I.M. Saurashtra, 1960	2234 21-3-61	Ay. Dispensary, Ramtekari Road, At. Talaja, Distt. Bhavnagar.
7329.	Vashrambhai Shetha Mavjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	492 4-8-75	Shakara Ghachlis Chali, Rajpur, Post Office Road, A'bad.
7330.	Vashishtkumar Upadhyay Purshottamdas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3951 22-3-73	At. Kathana, Tal. Borasd, Distt Kheda.
7331.	Vasudev Ghotikar Morshwar	Ayurved Visharad, M. S. Univ., 1941	1855 3-11-41	Shanker Pole, Ravpura, Bhat- thode's House, Baroda.
7332.	Vasram Akabari Ramchoddbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3448 17-3-72	At. Umrala, Post Virpur, Tal. Bilakaha, Distt. Junagadh.
7333.	Vasubhai Vaghasiya Lavjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5138 29-1-76	At. Deri Pipalia, Via. Bagasara, Distt. Amreli.
7334.	Vasudev Barot Trikamlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4805 25-4-75	157/1237, Sarvodayanagar, Kho- khra, Mahemdabad, A'bad.
7335.	Vasudev Bhatt Mulshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4555 16-10-74	26, Nutan Society, Post Anand- nagar, A'bad.
7336.	Vasudev Dave Mansukhlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3408 1-3-72	Vyas Doli, At. Droi, Distt. Jamnagar.
7337.	Vasudev Dave Premshanker	Ayurved Bhishak, A. I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	7661 31-3-80	Near Dhanajibhai Chowk, Maha- laxmi Mandir Road, Mehta Sheri, At. Limbadi, Distt. Suren- dranagar.
7338.	Vasudev Lalchandani Thakprdev	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8467 3-8-82	T.A.X.-02, Adipur-Kutch, Tal. Anjar, Distt. Kutch.
7339.	Vasudev Pandya Magantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6208 3-8-78	At. & Post Kidiya, Tal. Luna- vada, Distt. Panchmahal.

1	2	3	4	5
7340.	Vasudev Patel Girdharlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7837 30-9-80	23, Ambika Society, Vemanpura, A'bad.
7341.	Vasudev Ravi Raranlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7175 7-8-79	At. Bayad, Distt. Sabarkantha.
7342.	Vasudev Shukla Tribhovandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3103 3-2-71	B. No. 1, Patel Colony, Siddha- nath Road, Baroda.
7343.	Vasudev Upadhyay Purushottam	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	70 1-5-56	Dumaral Bazar, At. Nadiad.
7344.	Vasudev Vaidya Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4667 20-3-75	At. Ranu, Tal. Padara, Distt Baroda.
7345.	Vasudev bhai padhyay Daleukhram	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7651 28-3-80	At. Padal, Tal Thasara- Distt. Kheda.
7346.	Vasudevprasad Oza Narmadashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3692 23-11-72	C/o. Pandit Dhanshanker Gauri, Shanker Vaidya 1913, Hinglok Joshi, Khancha Bala, Hanuman, Khadia, A'bad.
7347.	Vasudevprasad Purohit Jagnanath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3097 27-1-71	Amali Falia, At. Shukla, Atirth, Tal. & Distt. Broach.
7348.	Vasundhara Charadava Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5777 26-4-77	Parmand Vakil's Hou. Parekh Chakala Road, At. Porbandar, Distt. Junagadh.
7349.	Vasumati Chudasama Chhaganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7773 1-8-80	C/o. G. K. Misbtri, Swashray, Vijaynagar, Plot No. 585, Bhav- nagar.
7350.	Vasuntlal Patil Babulal	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ., 1977	7101 13-2-79	At. Kukarmunda Tal. Ninar, Distt. Surat.
7351.	Vasumati Shah Zaverchand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3382 12-2-72	Subhash Road, Near Nani Haveli, Veraval, Distt. Junagadh.
7352.	Vatsal Vasani Ravajibhai	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	4586 5-12-74	6, Narisiddha Chonbars, 2nd Floor, Ay. Clinic, Opp. Income Tax Office, Ashram Road, A'bad.
7353.	Vatsala Dave Nagindas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5922 17-10-77	284, Sarangpur Chakala, Opp. Rani Masjid, MahalaxmiKhancha A'bad.
7354.	Venabhai Patel Dahyabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4006 12-8-73	At. Rangpur, Post Prampur, Tal. Himmatnagar, Distt. Sabar- kantha.
7355.	Vibha Jani Hasmukhbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8690 3-3-83	190, Mata's Khanche, Vadigam, Dariapur, A'bad.
7356.	Vibha Maheshwari Madanmohan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8689 3-3-83	22, Maheshwari Society, Bapu- nagar, A'bad-42.
7357.	Vibha Trivedi Arvindbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8060 27-4-81	B/F/47, Petro Chemical Town- ship, Post Petrochemical Town- ship, Distt. Baroda.
7358.	Vibhakar Joshi Chandrashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4872 30-5-75	C/o. A. K. Joshi, Kandoriya Sheri, At. Upleta, Distt. Rajkot.
7359.	Vibha Thakar Kantilal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9601 10-11-86	House No. 12/1245, Machhalapith, Shahpur, At. Surat, Tal. or- yasi, Distt. Surat.
7360.	Vibha Valani Naushad	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9602 10-11-86	Kalas Chowk, At. Babra, Distt. Amreli

1	2	3	4	5
7361.	Vibhutiben Rajguru Dineshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8261 31-12-81	Ramaji Mandir, Uni. Road, Alka Farm, Nursali, At. & Tal. & Distt. Baroda.
7362.	Vidhya Gouri Upadhyay Vidhyachandra	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	71 2-8-54	Vakil Navas, Sheri No. 20/24, Digvijay Plot, At. Jamnagar.
7363.	Vidhyaben Patel Ranchhodbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5340 8-4-76	At. Davasad, Tal. Padara, Distt. Baroda.
7364.	Vidhyadhar Jyotishi Balkrishna	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3281 4-11-71	1436, Mamumayak's Pole, Gandh Road, A'bad.
7365.	Vidyutkumar Patel Dahyabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9397 25-9-85	C/o. Dr. R. C. Patel 408 Sheth Road, Near Rohi Garej, At. Puna.
7366.	Vikramkumar Shukla Mahendrakumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8993 28-3-84	Jivan Prakash Plot, Sardar Patel Road, Near Mistri Garej, Suren- dranagar.
7367.	Vijay Mehta Jivabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1962	153 24-7-63	Post Sansoli, Via. Derol, Dist Panchmahal.
7368.	Vijay Tripathi Hariprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4551 15-10-74	15, Gordhanpark, Shantinagar, Society, Vadag, A'bad.
7369.	Vijay Vyas Bhogilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5497 17-8-76	C/o. J. B. Trivedi, 20/Digvijay Plot, Naren Mistri's Bangala, At. Jamnagar.
7370.	Vijaya Joshi Martandrao	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4564 29-10-74	At. & Post Bagidol, Tal. Godhara, Distt. Panchmahal.
7371.	Vijaybhai Dayani Gordhanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4172 5-2-74	36, Tapshil Society, Nanavaruchh Road, Surat.
7372.	Vijaychandra Pandya Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4705 29-3-75	At. Bhader, Via. Dhoraji, Distt. Rajkot.
7373.	Vijaykumar Arya Chintamani	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8410 5-5-82	Nasmukh's Chal, Vakhariya Bandar Road, At. Bilimora, Tal. Gandovi, Distt. Valsad-396321.
7374.	Vijaykumar Bariya Babubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7545 21-2-80	Near Zarela's Vadi, At. Dabhoi, Distt. Baroda.
7375.	Vijaykumar Bhatt Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7851 10-10-80	Near Dena Bank, At. Petlad, Distt. Kheda.
7376.	Vijaykumar Bhatt Ravishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8402 5-4-82	Opp. Tele. Office, Bhattavadi Pole, Umareth, Tal. Anand, Distt. Kheda.
7377.	Vijaykumar Dave Deviprasad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8462 25-6-82	12, Milan Society, Jintan Road, Surendranagar.
7378.	Vijaykumar Mistri Manilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1964	1444 10-6-84	Medical Officer, At. Varsda, Civil Dispensary, Via. Tarapur, Distt. Kheda.
7379.	Vijaykumar Pandit Vasudevrao	B.A.M.S., Indore Univ., 1975	7316 20-9-79	37, Kalali Mahollo, At. Khergohe (M.P.).
7380.	Vijaykumar Patel Rugnathbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5743 25-3-77	At. Kashipura, Tal. Pavi, Jetpur, Distt. Baroda.
7381.	Vijaykumar Patel Ramanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6605 21-2-79	At. Miche Bhatvade, Sadhana, Bal Mandir, At. & Distt. Mehsana.

1	2	3	4	5
7382.	Vijaykumar Patel Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8701 16-3-83	Idlotari Bazar, Ganesh Chowk, At., Post & Tal. Jamusar, Distt. Broach.
7383.	Vijaykumar Purohit Jayantilal	Ayurved Madhyama, S. D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6647 26-2-79	Barhar Road, At. & Post Raj- pipala, Tal. Nahed, Distt. Broach
7384.	Vijaykumar Shah Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	6743 15-3-79	89, Dharmanage Society, Sabar- mati, A'bad.
7385.	Vijaykumar Thakar Champaklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5144 30-1-76	Panigate Ajava Road, Nandanvan Pushapa Chandrodaya Society, At. Baroda.
7386.	Vijaykumar Vaidya Parmanand	B.A.M.S., Univ. of Bombay 1982	9163 17-10-84	At. Baudhan, Distt Surat.
7387.	Vijaykumar Vanavi Chhitabhai	M.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1970	6558 12-2-79	Clinic, At. Navapur, Distt. Dhule, Maharashtra.
7388.	Vijayrajainhji Valal Jashavantsinhji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5875 8-9-77	At. Dhank, Tal. Upalata, Distt. Rajkot.
7389.	Vijaysinh Arodaria Dolatsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6234 10-8-78	At. Kathavada, Post Valashh, Tal. Mangoral, Distt. Surat.
7390.	Vijaysinh Solanki Vaghajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	5346 14-4-76	Pujara Falia, At. Mundra, Distt. Kutch.
7391.	Vijaysinhji Jadav Mulajibava	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8551 14-9-82	Dhanajishajin, At. & Post Pulej, Tal. & Distt. Broach.
7392.	Vijaysinhji Makvana Khodaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6942 25-4-79	Bharvadi Gate, Chand Pali, At. Viramgam, Distt. A'bad.
7393.	Vijaya Savaliya Dhuribhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5376 30-4-76	C/o. Dhrubhai Savaliya, Nav Jyoti Society, Khokhara, Mahem- davad, A'bad.
7394.	Vikramvala Vala Punjavala	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5666 3-2-77	At. Santhali, Via. Vadiya, Distt. Amreli.
7395.	Vikrambhai Patel Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3982 31-7-73	At. Gozaric, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
7396.	Vikram Upadhyay Bhavinbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9654 31-12-86	3/B, Jivan Smruti Society, Mirambika Marg, Naranpura, A'bad-13.
7397.	Vinodchandra Patel Hirajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3925 19-4-73	At. Kalavad, Distt. Jamnagar.
7398.	Vikramsinh Chauhan Rameshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8255 24-12-81	11, Shishnagar Society, Meghani- nagar, A'bad.
7399.	Vilas Patel Jangesh	B.A.M.S., Indore Univ., 1974	5832 6-7-77	At. & Tal. Nizar, Distt. Surat.
7400.	Vilas Shah Navnilal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1964	1604 1-2-65	Mehtha Pole, Ban Road Baroda.
7401.	Vilsan Parmar Paul	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	672 23-10-61	Adward Street, Vasada, Via. Bilimore, Distt. Surat.
7402.	Vilasben Rathod Ratnasinh	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9030 16-4-84	At. & Post Chapaldhara, Tal. Vasanda, Distt. Valsad.
7403.	Vimal Mhesakar Vinayak	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Gujarat 1963	2437 23-3-67	C/o. Professor, Govt. Ay. Coll., Ajvaroad, Baroda.

1	2	3	4	5
7404.	Vimala Joshi Dhirajilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5843 3-8-77	233, Divya Darshan, Gujarat Hou. Board, Gorava, Baroda.
7405.	Vimala Khandhriya Manilal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	2538 1-8-54	Sheri No. 17, Rashtriyahalal Manhar Plot, Rajkot.
7406.	Vimaldev Mishra Rajnandan	M.D. (Ay.) Gujarat Ay. Univ., 1976	6020 2-2-78	Bala Ay. College, Lodra, At. Lodra, Distt. Mchsana.
7407.	Vimalkumar Shah Ghunubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7762 16-7-80	Station Road, At. Nimatnagar, Distt. Sabarkantha.
7408.	Vina Desai Jayantilal	Ayurved Uttama, AS.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1973	7586 11-3-80	Marihar Block, Rajmahal Road, Shiyabag, At. Baroda.
7409.	Vina Ganatra Rameshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7937 29-12-80	19, Sadhana Colony, Near Sadar Patel Stadium, Navarangpura, A'bad.
7410.	Vina Gohel Ratilal	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4578 28-11-74	B. V. Desai C/4, Ramnivas, Govt. Qua. Junagadh.
7411.	Vina Raval Bhanushanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7776 1-8-80	C/o. Bhanubhai Raval, Near Dipak Press, Malivada Road, At. Junagadh.
7412.	Vina Soi Nansrajji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	5634 18-12-76	Arya Kanya Ayu. College, Atmaram Road, Karollbag, At. Baroda.
7413.	Vinantraï Vyas Ravishanker	L.A.M., U.P. Ay. Maha. Patan (Baroda State), 1941	1106 3-11-41	Near Vikasgruh 5/B, Sharda- kunj Society, Ahmedabad.
7414.	Vinavell Bhatt Pranjivan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3835 1-3-73	C/o. P. R. Bhatt, Near Bedi Gate, Vanandvade, Harinivas, At. Jamnagar.
7415.	Vinayak Joshi Purushottam	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1978	6649 26-2-79	At. Tejgadh, Via Jambugun, Tal. Chhota Udepur, Distt. Baroda.
7416.	Vinayak Trivedi Kanubhai	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	7023 15-6-79	Trivedi Kunj, Appolo Clinic Fateghanj, At. Baroda.
7417.	Vinayak Mhaiskar Bhaskar	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1953	2417 6-3-67	S. A. Mahavidyalaya, Ajvaroad, Baroda.
7418.	Vinaykant Patel Ishwarbhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1950	634 1-5-58	14, Aryanagar, Amul Dairy Rd., At. Anand, Distt. Kheda.
7419.	Vinayakrao More Baburao	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1964	1441 1-6-64	At. Desar Via. Samlaya, Tal. Savli, Distt. Baroda.
7420.	Vinit Vaidya Pranlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3278 29-10-71	Kanta Kutir Kalika Plot, At. Morbi, Distt. Rajkot.
7421.	Viny Kumar Patel Vasanji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3209 30-7-71	Jelchowk Bhojpara, Opp. Jel, At. Gondal, Distt. Rajkot.
7422.	Vinayapuri Gosai Vaghapuri	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	9102 31-7-84	Nodhanvad, Via. Songadh, Tal. Palitana, Distt. Bhavnagar.
7423.	Vinitkumar Patel Ranchhodlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9286 7-5-85	1035, Navi Pole, Shahpur, Ahmedabad-380001.

1	2	3	4	5
7424.	Vinod Shah Manilal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1963	1435 6-5-64	Jilla Panchayat Dispensary, At. Katosan Road.
7425.	Vinod Sheta Nanajibhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9169 13-11-84	At & Post Samadhiyala No. 2, Tal. Botad, Distt. Bhavnagar.
7426.	Vinoda Brahmabhatt Bhaifalibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5847 16-8-77	H. No. 1556, Mirajapur Road, Lodhavad, A'bad.
7427.	Vinodaben Parikh Kanubhai	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1962	693 1-4-63	6, Milan Society, Opp. Miram- bika High School, A'bad.
7428.	Vinodbhai Patel Babalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3524 3-7-72	At. Sultanpura, Tal. Kheralu, Distt. Mehsana.
7429.	Vinodbhai Patel Maganbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4391 31-5-74	At. Morva, Tal. Godhara, Distt. Panchmahal.
7430.	Vinodbhai Patel Kasurbhai	B.A.M.S., Vikram Univ., 1976	6538 3-2-79	12/660, Gujarat Hou. Board, Gorava, Baroda-3.
7431.	Vinodbhai Patel Anandjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8488 6-8-82	At. & Post Rajaka, Tal. Bhandhuka, Distt. A'bad.
7432.	Vinod Bhalchandra Joshi Bhalchandra	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, Maharash ra, 1968	2882 22-1-70	M/18, Officer's Colony, Ajka- pur, Baroda.
7433.	Vinodchandra Amalani Vallabhdas	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1968	6732 12-3-79	Amalani Ay. Pharmacy, Ram Tekari Road, At. Porbandar, Distt. Junagadh.
7434.	Vinodchandra Bhatt Mulshankar	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1965	1753 25-7-65	At. Valtal, Distt. Kalra.
7435.	Vinodchandra Bhatt Nathubhai	B.S.A.M. Gujarat Ay. Univ., 1976	7694 29-4-80	Railway Qua., At. Pansar Tal. Kalol, Distt. Mehsana.
7436.	Vinodchandra Dave Vishwanath	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6191 15-7-78	Manilal Mansion, Shastri Pole, Ravpura, Baroda.
7437.	Vinodchandra Dave Jagdishchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7725 29-5-80	Chhatshapad's Mahad, At. Siddhapur, Distt. Mehsana.
7438.	Vinodchandra Jamo Mafatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4645 12-3-75	At. Kahoda, Tal. Siddhapur, Distt. Mehsana.
7439.	Vinodchandra Joshi Bhanushanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8714 16-3-83	At. & Post Bhadbhut, Tal. & Dist t. Broach.
7440.	Vinodchandra Kanthariya Lallubhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9575 23-9-86	At. & Post Amaroli St. Utrani, Distt. Surat.
7441.	Vinodchandra Dalsukhran Pandya Dalsukharan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2984 23-6-70	At. Mujpur, Tal. Pudra, Distt. Baroda.
7442.	Vinodchandra Parikh Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4463 29-8-74	Near Panjab Bank, At. & Distt. Valsad.

1	2	3	4	5
7443.	Vinodchandra Patel Bhavanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5075 15-12-75	At. 77A, Sarita Society, Nand- kuvarbag Gandhechi Vadala, Bhavnagar.
7444.	Vinodchandra Patel Mohanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5652 18-1-77	At. Terama, Tal. Shinor, Post Sadhali, Distt. Baroda.
7445.	Vinodchandra Shah Dahyalal	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1968	2454 30-3-62	6/1336, Jadakhadi Mahidhar- pura, Surat.
7446.	Vinodchandra Swaminarayan Odhavji	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1952	2242 6-2-52	28, Prahlad Plot, Manjuvila, At. Rajkot.
7447.	Vinodchandra Tilak Vithalji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8860 1-11-83	At. & Post Naranpar, Tal. Bhuj, Distt. Bhuj-Kutch.
7448.	Vinodchandra Trivedi Mayashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2989 4-7-70	A/1, Manila Society, Near Railway Crossing, A'bad.
7449.	Vinodchandra Vaidya Hargovinddas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3031 19-8-70	Near Old Post Office, At. Ranuj, Tal. Patan, Distt. Mehsana.
7450.	Vinodkumar Bhatt Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5889 20-9-77	Fulvadi Vav, At. Mendarada, Distt. Junagadh.
7451.	Vinodkumar Bohara Ganapatiprasad	B.A.M.S., Indore Univ., 1977	7315 20-9-79	31, Ajanta, Talkies Road, New Rotary Hotel, At. Ratlan (M.P.).
7452.	Vinodkumar Dave Prabhashanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1961	369 23-10-61	Triloknath Cop. Hou. Society, H. No. 4, Ranip, Ahmedabad.
7453.	Vinodkumar Dave Bhaishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3540 5-8-72	10, Millapara, Davebhuvan, At. Rajkot.
7454.	Vinodkumar Modi Gandalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8783 16-6-83	At. & Post Jotana, Tal. & Distt. Mehsana.
7455.	Vinodkumar Patel Mohanjil	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8953 12-3-84	A-9, Ramkrishna Society, Lambe Hanuman Road, At. Surat-6.
7456.	Vinodkumar Patel Naranbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9368 2-9-85	Bhagini Samaj, At. Udwarda Station, Tal. Pardi, Distt. Valsad.
7457.	Vinodkumar Shah Mirachand	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8265 31-12-81	At. & Post Coral, Tal. Idar, Distt. Sabarkantha-383 411.
7458.	Vinodkumar Suthar Vilthaldas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8424 1-5-82	At. & Post Nadiyal, Tal. Nimat- nagar, Distt. Sabarkantha.
7459.	Vinodkumar Upadhyay Karuneshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5782 30-4-77	Duraga Mata's Pole, Kalupur, A'bad.
7460.	Vinodkumar Vaidya Chunilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4499 9-9-74	Mahadev Chowk, At. Bavla, Tal. Dholake, Distt. A'bad.
7461.	Vinodrai Desai Gujanand	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1948	442 31-7-48	At. Siker, Via. Bardoli, Distt. Surat.

1	2	3	4	5
7462.	Vinodrai Desai Nanubhai	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1966	2059 20-6-66	At. & Post Kosamba, Distt. Valsad.
7463.	Vinodrai Joshi Narmadshanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2062 21-6-66	At. Dhank, Tal. Upleta, Via. Vishavadar, Distt. Rajkot.
7464.	Vinodrai Joshi Dwarkanadas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4822 2-5-75	Vorvad, At. Chital, Distt. Am- reli.
7465.	Vinodrai Kashvalal Devshibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	8819 11-8-83	At. Adasang, Via. Badhada, Tal. Savarkundala, Distt. Bhav- nagar.
7466.	Vinodrai Raval Kameshwar	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1963	8626 13-1-83	Opp. Ramaji Temple, At. Vich- hiya, Distt. Rajkot.
7467.	Vinodray Kakadia Nathabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9508 12-6-86	At. Viradi, Tal. Gariyadhar, Distt. Bhavnagar.
7468.	Vinodrai Mehta Kalidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3704 1-12-72	At. Dhelana, Post Mangarol, Via. Keshod, Distt. Junagadh.
7469.	Vinodrai Pandya Chandrashanker	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1965	6511 1-2-79	E.S.I.S. Dispensary, Amarpara, At. Vankaner, Distt. Rajkot.
7470.	Vinodrai Raval Nanalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3136 24-2-71	At. Old Ratanpur, Post Shiya- nagar, Tal. Valabipur, Distt. Bhavnagar.
7471.	Vinodrai Trivedi Anantrai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3643 9-10-72	At. Sevani, Tal. Kanrej, Distt. Surat.
7472.	Vinodray Dave Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4315 3-4-74	Dave Movas, Subhash Sileri, Khodpura, At. Jetpur, Distt. Rajkot.
7473.	Vinodray Dhandhiya Vasantbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6110 28-3-78	At. Post Hadida, Via. Vijpadi, Tal. Savarkundala, Distt. Bhav- nagar.
7474.	Vinodray Kansagara Virajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6003 10-1-78	Zanda Chowk, At. Vanthali, Distt. Junagadh.
7475.	Vinodshanker Avashthi	H.P.A., P.G.T. Centre in Ay. Jamnagar 1960	2587 14-9-67	R. M.O. G.K. Ay. Hospital & Moghiber Maternity Home, 36, Karanpara, At. Rajkot.
7476.	Vinubhai Chodvadiya Nathabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4677 21-3-75	At. Jira, Via. Dhola Jn., Tal. Savark, Udala, Distt. Bhav- nagar.
7477.	Vinubhai Pandya Lalshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3233 30-8-71	Pavagadh Road, At. Halol, Distt. Panchmahal.
7478.	Vinubhai Patel Motibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5007 20-10-74	At. Sarar, Tal & Distt. Baroda.
7479.	Vinubhai Patel Mohanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8131 4-8-81	67, Jaybajarang Society, Behind Shastri Stadium, Bapunagar, At. A'bad.
7480.	Vinubhai Patel Lalibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8923 8-2-84	12/A, Saurashtra Patel Colony, Opp. Bhid-Bhanjan Hanuman, A'bad-18.

1	2	3	4	5
7481.	Vinubhai Trivedi Babashanker	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1847 22-11-65	C/o Vyas Ashskkuzar Joshi's Khanoha Pole, Khadiya, A'bad.
7482.	Vinubhai Joshi Umiyashanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8234 24-11-81	Near Gandhi Chowk, At. Bhojava, Distt. A'bad.
7483.	Vinubhai Vaidya Manubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8355 11-3-82	C/o Dr. M.J. Bhatt, Dhanwan- tari, Janata Ice Factory Road, Vrundatan Society, Surendra- nagar.
7484.	Vipinbhai Patel Ramabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8128 4-8-81	At. & Post Vansoli, Tal. Maha- ndavad, Dist. Kheda.
7485.	Vipinbhai Patel Purushottambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4257 15-3-74	At. Songir Indral, Tal. San- kheda, Distt. Baroda.
7486.	Vipinchandra Tovar Kanchanlal	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1968	8086 4-6-81	Wadi, Bhatvada, Khodiyar- mata's Temple, At. Baroda.
7487.	Vipinchandra Vyas Jivanlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1965	1765 19-7-65	At. Kheda, Tal. Mohamadabad, Distt. Kaira.
7488.	Vipinkumar Patel Bhailalbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8090 4-6-81	Sardar Chowk, At. & Post Sarsa, Tal. Anand, Distt. Kheda.
7489.	Vipulkumar Khira Balavantrai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9224 19-2-85	C/o Mohanlal Brahmhatt, Shethni Pole, Khadia, Mohan- bhai, Brahmhatt's House, A'bad.
7490.	Vipulkumar Shah Navnitlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9608 10-11-86	At. & Post Sarsa, 388365, Tal. Anand, Distt. Kheda.
7491.	Vipul Trivedi Deventrabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7386 19-11-79	Plot No. 441, Bhadra, Shishu- Vihar, At. Bhavnagar
7492.	Vipulkumar Patel Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	9472 11-2-86	At. Kathaj, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
7493.	Vipulchandra Parekh Amrutlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7535 15-2-80	6/2198, Mahidharpura, Nagar- sheri, At. Surat-3.
7494.	Vipulkumar Gurjar Chhabildas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	7736 6-6-80	Thakkarbapa Colony, At. Viramgam, Distt. A'bad.
7495.	Virabhai Dabhi Dhanajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5949 26-10-77	At. Chhaniyala, Tal. Vadgam, Distt. Banaskantha.
7496.	Viraji Bera Jadavbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5119 8-1-76	Jadeshwari Sheri, At. Movia, Via. Gondal, Distt. Rajkot.
7497.	Virajibhai Gondalia Arjanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4556 16-10-74	At. Nava Vaghania, Tal. Kukavav, Distt. Amreli.
7498.	Viral Rayajiwala Pradyumnabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9323 25-7-85	16/A, Kutchhi Patel Society, At. Himmatnagar-383001, Distt. Sabarkantha.

1	2	3	4	5
7499.	Virajibhai Sheta Karshanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4918 15-7-75	At. Rojid, Via. Bhimnath, Tal. Dhandhuka, Distt. A'bad.
7500.	Virchandbhai Patel Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4220 21-2-74	At. Karali, Tal. Siddhapur, Distt. Mehsana.
7501.	Virendra Trivedi Himmatlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4764 9-4-75	Sardarnagar Muni. Society, Plot No. 44, At. Bhavnagar.
7502.	Virendrabhai Patel Khimajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8500 27-8-82	At. & Post Dadhiya, Tal. Limkheda, Distt. Panchmahal.
7503.	Virendrakumar Dholakiya Shahshikant	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4184 12-2-74	419, Soni Colony, At. New Anjer, Tal. Anjar, Distt. Kutch.
7504.	Virendrakumar Joshi Ratilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	9214 19-2-85	At. Porada, Tal. Petlad, Distt. Kheda.
7505.	Virendrakumar Pethe Ganapatrac	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6049 8-3-78	Satam, Behind Library, At. Zalad, Distt. Panchmahal.
7506.	Virendra Shah Hasmukhlal	B.A.M.S. Gujarat Ay. Univ. 1984	9403 19-10-85	5/789, Ground Floor, Bania Sheri, Mahidharpura, At. Surat- 395 003.
7507.	Virendrakumar Shah Jashavantlal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6496 1-2-79	At Limbani, Tal. Matar, Distt. Kheda.
7508.	Virendraray Vyas Jatashanker	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1966	7078 30-6-79	Near Juna Jagdish Balamandir, At Joravarnagar, Tal. Vadha- van, Distt. Surendra nagar.
7509.	Vishabhai Patel Ratabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay Univ, 1972	3802 19-2-73	Outside Vav Gate, At. Hansa, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
7510.	Vishandas Mathani Tikamdas	B.A.M.S. Vikram Univ., 1975	6737 15-3-79	C/o TT Nathani, Inspector, S.P., Intelligent Branch, Rail- way Colony, 711/0, Maniagar, A'bad.
7511.	Vitthalbhai Patel Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3171 12-4-71	At. Hariyan, Post Kanjar Tal. Khambhat, Distt Kheda.
7512.	Vishnu Vadhavani Nevndram	B.A.M.S., Univ. of Gujarat 1965	1876 8-12-65	Gandhi Road, Kutiyana, Distt. Junagadh.
7513.	Vishnubhai Patel Rambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5196 25-2-76	At. Manjipura, Tal. Thasara, Distt Kheda.
7514.	Vishnubhai Patel Ramabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9547 18-8-86	Behind Ramji Temple, At. & P.O. Paliyad, Tal. Kalol, Distt, Mehsana.
7515.	Vishnubhai Patel Narayandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8101 20-6-81	C/o Gopalbhai Patel, Buddhi- nagar, At. Vijapur, Distt. Meh- sana.
7516.	Vishnukumar Patel Narayanbhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9624 21-11-86	B/1, Haricmnagar, India Colony, Thakkar Bapanagar, A'bad-383 350.
7517.	Vishnubhai Vansd Harmanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3272 26-10-71	Limada Chowk, At Guda, Tal. Petlad, Distt Kheda.

1	2	3	4	5
7518.	Vishnuchandra Gupta Banavarilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3258 7-10-71	Ambalal, Misti's House, Bhojak Sheri, Odvada, At. & Distt Mehsana.
7519.	Vishnudes Nabaraj	Ayurved Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1973	7147 24-7-79	Ramaji Temple, At. Itola, Distt. Baroda.
7520.	Vishnukumar Mulajibhai Soni Mulajibhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1962	1336 31-12-62	241/2, Jahangirpura, Mukhivas, Ahmedabad.
7521.	Vishnuprasad Bhatt Prabhuram	Ayurved Visharad, B.I.M Saurashtra, 1958	2192 1-5-58	Surendranagar, Jila Panchayat Ay. Dispensary, Tal. Limbadi, Distt. Surendranagar.
7522.	Vishnuprasad Desai Chimanlal	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay	1638 1-9-55	3, Asmita Society, Near Railway Crossing, Maninagar, A'bad.
7523.	Vishnuprasad Joshi Narayan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8929 1-9-83	"Kamala Smruti", Shahpur Road, At. Mangarol-362 225.
7524.	Vishnuprasad C. Joshi Chhotalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	3387 19-2-72	Pandyavas, Near Ambajimata, At. & Post & Tal. Kheralu, Distt. Mehsana.
7525.	Vishnuprasad Pancholi Chandra-shanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4838 9-5-75	16, Datt Society, Amod Nagar, Bhattia Sarkhoj Road, A'bad.
7526.	Vishnuprasad Purohit Dhirajram	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1979	8943 17-2-84	C/o Health Inspector, Althan Muni. Tenaments, Block No. C-1-8, "Gayatri Krupa," Bhatia Char Rasta, At. Surat.
7527.	Vishnuprasad Raval Datsukharan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2852 21-10-69	C/o Shetipara's, At. Lodra, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
7528.	Vishnuprasad Raval Narayanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8494 27-8-82	Motavas, At & Post Ranasana, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
7529.	Vishnuprasad Shah Harilal	L.A.M., U.P. Ay. Maha, Patan (Baroda State) 1941	1236 30-7-41	Kapad Bazar, At Daker, Distt. Kheda.
7530.	Vishnuprasad Thakar Damodar	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1955	284 1-2-58	Sasan Road, At. Mondarada, Via. Kushara, Distt. Junagadh.
7531.	Vishnuprasad Valdia Harlhar	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	1054 2-1-54	2/4218, Kala Mati's Street, Sagrampura, Surat.
7532.	Vishnuprasad Yagnik Shivshanker	Ayurved Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1968	6619 21-2-79	Balkrushna Society, Maninagar, Distt. A'bad.
7533.	Vishnuram Trivedi Jatashanker	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1945	2187 1-8-45	Medical Officer, At. Palivada, Via. Botad, Distt. Bhavnagar.
7534.	Vishnushanker Pandya Laxmishanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7658 31-3-80	At. Analeshwar, Tal. & Distt. Broach.
7535.	Vishvanath Dave Uttaram	Ayurved Visharad, M.S. Univ., 1941	2443 3-11-41	At. Miya Sarbhan, Tal. Amod, Distt. Broach.

1	2	3	4	5
7536.	Vishwabandhu Sharma Girish Kumar	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8117 17-7-81	At. & Post & Tal. Modasa, Sirishkutir, Dist. Sabarkantha
7537.	Vishwambhar Raval Manishanker	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1956	7619 18-3-80	At. Panshira, Via. Limbadi, Distt. Surendranagar.
7538.	Vishwanath Bhatt Nautemlai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5126 15-1-76	Jashavanti Narittamlas Badi, At. Mangarol, Distt. Junagadh.
7539.	Vishvanath Dave Popatlal	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1947	8659 10-2-83	Methali Bhavan, Ram Chowk, Manekpara, Distt. Amreli.
7540.	Vishwaprakash Tivari Gopichand	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1973	6634 28-2-79	T-61, J. Railway Colony, At Mehsana.
7541.	Vishwas Kadam Laxman	M.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1974	8885 27-12-83	At. Fort Songadh, Distt. Surat.
7542.	Vishwesh Shukla Maheshwar	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1975	6855 2-4-79	Shukla Sadan, 9, Prahad Plot, At. Rajkot.
7543.	Vitbalal Trivedi Ambelal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5187 16-2-76	C/o Ambalal J. Trivedi, Satya Naraya Society, Ramnagar, Sabarmati.
7544.	Vitthal Akabari Gobarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3462 30-3-72	C/o Vitthalbhai Patel, At. Vada- sada Post Sultanpur, Tal. Jet- pur, Distt. Rajkot.
7545.	Vitthal Devang Ganpatrae	B.A.M.S., Vidarbha Board of AUSM, Maharashtra 1968	2791 19-6-69	At. Dourvada, Tal. Achalpur, Distt. Amravati, Maharashtra State.
7546.	Vitthal Mansuriya Jadav	B.A.M.S., Kanpur Univ., 1972	4604 8-1-75	Pittalia Kuva Road, At. Jasdan, Distt. Rajkot.
7547.	Vitthal Patel Kalyanji	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1962	640 23-7-62	Parsiwad, At. Mahuva, Via. Navsari, Distt. Surat.
7548.	Vithalbhai Bhuva Vasharamabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5301 29-3-76	At. Shrinath Gadh, Via. Gon- dal, Distt. Rajkot.
7549.	Vittalabhai Chadsama Bhaturbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3092 13-1-71	At. Methan, Via. Rajsitapur, Distt. Surendranagar.
7550.	Vitthalbhai Patel Purshottambhai	A.V.V., T.M. Vidyapeeth, Poona, 1943	638 31-3-44	At. Ras, Tal. Borsad, Distt. Kheda.
7551.	Vitthalbhai Patel Shanabhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1965	1720 15-6-65	At. Vaded, Tal. Anand, Distt. Kaira.
7552.	Vitthalbhai Patel Somabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3074 5-12-70	Near Derasar, At. Lodra, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
7553.	Vitthalbhai Patel Chhotubhai	H.P.A., P.G.T. Centre in Ay. Jamnagar, 1967.	3490 19-4-72	At. Mobha, Tal. Padara, Distt. Baroda.
7554.	Vitthalbhai Patel Zaverbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3822 26-2-73	Adarsh Society, B. No. 6, At. Halol, Distt. Panchmahal.

1	2	3	4	5
7555.	Vithalbhai Patel Shankerlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4000 10-8-73	Vachalipati Oradi, At. Bhandu, Tal. Visnagar, Distt. Mehsana.
7556.	Vitthalbhai Patel Bhudarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5259 8-3-76	At. Rupal Naripura, Post Butta Paladi, Tal. & Distt. Mehsana.
7557.	Vitthalbhai Patel Bhomabhai	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9069 15-6-84	C/o Patel Dahyabhai M., Taluka Side Farm, Palaj Road, At. Petlad, Distt. Kheda-388 450
7558.	Vitthalbhai Patel Karshanbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7900 14-11-80	At & Post Pogaku, Tal. Prantij, Distt. Sabarkantha
7559.	Vitthalbhai Patil Tumsdubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5853 23-8-77	C/o Nayan Medical Agency, Rajaratna Chambers, Dabgar- vad, Surat.
7560.	Vitthalbhai Valdia Dhairajlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4010 24-8-73	At. Kada, Tal. Visnagar, Distt. Mehsana.
7561.	Vitthalbhai Vanisavala Atmaram	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1954	1009 1-7-54	Opp. Rang Upvan, Nanpura, Surat.
7562.	Vitthalidas Aghera Hans Raj	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1966	2354 3-1-66	Parekh, Via. Karansinhji Main Road, Rajkot.
7563.	Vitthalidas Harihar Bhovanidas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8857 6-10-83	At. & Post Mityaj, Via. & Tal. Kodinar, Distt Amreli.
7564.	Vitthalidas Karavadiya Anandbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2759 8-4-69	C/o Patidar Cloth Store, At. Jam Jodhpur, Distt. Jamnagar.
7565.	Vitthalidas Patel Mavajibhai	D.A.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1956	639 2-1-57	At. Jam Timbdi, Tal. Jam- kandoruna, Via. Bhayasaradar, Distt. Rajkot.
9566.	Vitthalidas Ukani Bhagvanjibhai	Vaidyacharya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1967	6966 4-5-79	Vatsal, 15-A, Panohvati Society, Kalavad Road, At. Rajkot.
7567.	Vitthalkumar Vyas Vammalidas	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1966	2553 21-7-67	Vyas Vada, Baroda, A'bad.
7568.	Vitthalidas Valdia Chhaganlal	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2489 15-5-67	At. Hadmatia, Via Ankel, Vadi Tal. Talala, Distt. Junagadh.
7569.	Vitthalprasad Trivedi Umiyashanker	Ayurved Visharad, M.S. Univ., 1943	1997	Nagarvada, At. Thasra, Distt. Kheda.
7570.	Volji Kordiya Bavanji	D.S.A.C., C.S. Ay Course, Gujarat 1966	2045 9-6-66	At Ranki, Post Volva, Via Manavadar, Distt. Junagadh.
7571.	Vovindbhai Patel Dwarkadas	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9652 31-12-86	At. & Post Lodra, Wadipura, Tal. Vijapur, Distt. Mehsana.
7572.	Vrajeshchandra Dixit Yamunavallabhji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8811 29-7-83	Akh. Ay. Hospital, Bhadra, A'bad-1.
7573.	Vrajeshkumar Tripathi Dahyalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8994 28-3-84	Vachali Sheri, At. Pandoli, Tal. Petlad, Distt. Kheda.

1	2	3	4	5
7574.	Vrajlal Patel Tribhovandas	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	3949 17-5-73	At. Letroj, Tal. Viramgam, Distt. A'bad
7575.	Vrajlal Popat Jamnadas	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat. 1964	1586 19-1-65	C/o Jamnadas Kanji, At. Ku- shala, Tal. Vanthali.
7576.	Vrajlal Rupavatiya Panchabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5278 12-3-76	At. Moti Ghansari, Via. Ka- shod, Distt. Junagadh.
7577.	Vrajlal Suvagia Nagajibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	6189 5-7-78	Moohi Bazar, At. & Tal. Mahuva, Distt. Bhavnagar.
7578.	Vrajlal Valani Vastabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4985 17-10-75	At. Navi Sankadi, Via. Jetaldar Jn., Distt. Rajkot.
7579.	Vrandatam Trivedi Vrajlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8237 9-12-81	At. & Post Rameshara, Via. Tal. Malo, Distt. Panchmahal
7580.	Vrujdan Gondaliya Bavabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7549 22-2-80	At. Palasava, Tal. & Distt. Junagadh.
7581.	Vrujkishor Sharma Surajpal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1978	6623 21-2-79	55, Raipur Mill Hou. Society, Behind Vikram Mill, Garaspur, A'bad.
7582.	Vrujlal Kumbhani Chhaganlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3684 18-11-72	At. Vadai, Tal. & Distt. Junagadh.
7583.	Vrujlal Mehta Govindji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7665 10-4-80	79, Gurunagar, Varachu. Road, At. Surat-3.
7584.	Vrujlal Mehta Mohanlal	Ayurved Uttama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda, 1975	7131 19-7-79	Kalubha Road, Upanir, Plot No. 6, At. Bhavnagar.
7585.	Vrujlal Moshiya Shanalji	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1972	6628 21-2-79	At. Celana, Tal. Keshod, Distt. Junagadh.
7586.	Vrujlal Patel Bhovanbhai	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1970	7708 2-5-80	Bindu, Nandkishor Society, B. No. 24, Behind Bhaktinagar St., At. Rajkot.
7587.	Vrujlal Savsani Ratnabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8175 22-9-81	At. Namadiya, Tal. Salana- Nanadiya, Via. Dantava, Distt. Junagadh.
7588.	Vrujlal Vaghasiya Bhimaji	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2962 3-6-70	At. Khimpadar, Post Datran, Via. Mendarda, Distt. Junagadh.
7589.	Vrujlal Vaghela Vitthalji	Vaidyacharya, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1969	6961 4-5-79	At. Koyali, Tal. Vanthali, Distt. Junagadh.
7590.	Vrundavan Shah Chhitalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4071 1-10-73	Jagmal's Pole, Bhadipedakai, Bank Road, At. Baroda.
7591.	Vyomeshchandra-Oza Pramodray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5893 20-9-77	10, Ghanshyam Bag. Society, Uttamnagar, Maninagar, A'bad.
7592.	Vyomeshchandra Tripathi Hiralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8321 10-2-82	Vachali Sheri, At. Pandoli, Tal. Petlad, Distt. Kheda.

1	2	3	4	5
7593.	Xma Modi Mohanlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4165 23-1-74	C/o R.C. Panchal, 255, New Chal, Ashokpura, Dubheshwar Road, A'bad.
7594.	Yagna Joshi Maheshchandra	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9586 7-10-86	9/666, Siddhamata's Sheri, Wadi-Falia, At. Surat.
7595.	Yageshkumar Kanuga Dhrajlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4983 17-10-75	36, Mahalaxmi Society, Paladi, A'bad.
7596.	Yagnaprasad Upadhyay Gunavantra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5118 8-1-76	C/o Vaidya Jayantilal Shukla, Khandpole, At. Vadhava, City, Distt. Surendranagar.
7597.	Yagneshkumar Vyas Premshanker	B.S.A.M. & M.D. (Ay.) Gujarat Ay. Univ., 1976	6025 16-2-78	Desai vage, Bhatkhatri, At. Nadiad, Distt. Kheda.
7598.	Yahya Mulla	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8533 14-9-82	Nagina Street, Patel Chowk, Vanthali, Distt. Junagadh.
7599.	Yaminiben Bharati Dhanjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3677 2-11-72	At. Vyara, Distt. Surat.
7600.	Yamuna Mehta Maganlal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1961	919 20-10-62	Yamuna Nivas, Hanuman Pole, Nanavat, At. Surat.
7601.	Yamunavallah Dixit Vitthaladas	M.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1968	2959 29-5-70	C/o Ramprasad J., Purshit Near Rajhana Society, A'bad.
7602.	Yashavant Parekh Thakorlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5977 28-11-77	Patel Falia, At. & Post Zate shwar, Distt. Broach.
7603.	Yashavant Upadhyay Jagannath	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9223 19-2-85	Vijay Tokiz, Station Road, At. Dahod, Distt. Panchmahal.
7604.	Yashavant Yarma Ambelal	Vaidya Visharad, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1970	8464 3-8-82	Varma Medical Store, Near Khadi Bhandar, Gandhi Road, At. Valsad.
7605.	Yashavantkumar Soni Natvarlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7364 29-10-79	New Sansipark Co-op. Hou., Society, Near Kaushalyanata Temple, Kocharab, Near Krushi Bhuvan Office, A'bad.
7606.	Yashavantra Bhatt Prabhulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3665 25-10-72	At Mota Khadaba, Via Dal- pur, Distt. Jamnagar.
7607.	Yashavantra Raval Ramaniklal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3129 17-2-71	C/o R.R. Raval, Raval Sheri, At. Gadhada, Distt. Bhavnagar.
7608.	Yashavantra Mehta Harilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3535 1-8-72	Vishnunivas Station Road, At. Chorvad, Distt. Junagadh.
7609.	Yashavantra Trivedi Mulshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3429 9-3-72	Rajkamal Studio, At. Broach, Lallubhai, Chakala.
7610.	Yashavantsinh Thakor Bhagavatsinh	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Gujarat 1962	288 20-6-62	Tulaja Bhuvan, Station Road, Nanded.

1	2	3	4	5
7611.	Yashesh Bhatt Rameshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	6177 6-6-78	15500/1, Joshi's Manunayak Pole, A'bad. Khancha Telupur,
7612.	Yashodalaxmi Chauhan Doalatsinh	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	6006 10-1-78	Wadi Navapura, Vachala Falla, At. Baroda.
7613.	Yashodar Shukla Nandlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8712 16-3-83	Dhanvantari Bhavan, At. Meh- sana.
7614	Yasmin Bhoriyani Badaruddinbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7767 17-7-80	At. Padana-Vachharavalu, Tal. & Distt. Jamnagar.
7615.	Yasufbhai Mir Fejmahamad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8493 27-8-82	Nala's Bhagol, Mirvad, At. & Post Sanand, Distt. A'bad.
7616.	Yatinkumar Valdya Vinubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8612 28-12-82	Vaidya Villa, Sadar Bazar, Vaidya Sheri, Opp. Nava Pu. At Rajkot.
7617.	Yogosh Gohil Popatlal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1978	6790 21-3-79	C/o M.U. Bahadur, Kapasi, Kutir, Opp. Pratap Filad, At. Jamnagar.
7618.	Yogesh Manjarawala Rameshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8973 12-3-84	7-78, Mota Falia, At. Rander, Tal. Choryasi, Distt. Surat- 395 005.
7619.	Yeshavantgiri Goswami Ramgiri	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1958	7107 13-7-79	Kadiyavad, Dwarka Mandir, At. Jamnagar.
7620.	Yeshavantkumar Patel Shivabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6292 20-9-78	21, Sardar Society, Behind Police Ground, Surendranagar.
7621.	Yogendrakumar Gor Devshanker	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6086 21-3-78	Upadaya Khadaki, Near Laxmi Narayan Temple, At & Post & Tal. Bhiloda, Dist. Sabar- kantha.
7622.	Yogendrakumar Joshi Pramodray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	4855 22-5-75	Gujjar Pole, At. Prantij, Distt. Sabarkantha
7623.	Yogendrakumar Parikh Rasiklal	G.F.A.M., Fac. of AUSM, Bombay 1959	689 2-9-59	1023, Tokalsa's Pole, Ralkhad, Ahemedabad-1.
7624.	Yogendraprasad Dave Rasiklal	Ayurved Bhishak, A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi 1978	8082 7-5-81	At. Kaiyal, Post Dangarva (Dabhi), Tal. Kadi, Distt. Mehsana.
7625.	Yogendrasinh Atodariya Hamirbaya	B.A.M.S., Gujarat Ay Univ, 1984	9380 23-9-85	At. & Post Vasanda, 396580, Tal. Vasanda, Distt. Valsad.
7626.	Yogendrasinh Jadeja Nansbhai	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1977	6516 1-2-79	At. Kuntasi, Tal. Malia-Miyana, Via. Horabi, Distt. Rajkot.
7627.	Yogesh Gajjar Jashavantlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	9154 1-10-84	48, Shreyasnagar Society, Opp. Janiyatav, At. Vidyanagar, Via, Anand, Distt. Kheda.
7628.	Yogesh Joshi Chandrakantbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1982	8507 27-8-82	838, 4th Vas, Naranpura Gam, A'bad.

1	2	3	4	5
7629.	Yogesh Chandra Bhagat Rameshbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1979	8064 27-4-81	At. & Post Kosindra, Tal. Sankhoda, Distt Baroda.
7630.	Yogeshchandra Barot Shanabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	3021 6-8-70	Sultanpura, Golvad, Kuvafalia, Baroda.
7631.	Yogeshchandra Pandya Shankerlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8672 16-2-83	86-A, Ambikanagar Society, No. 2, Highway Road, At. Kalo, Distt. Mehsana.
7632.	Yogeshchandra Shah Ramanlal	Ayurved Madhyama, S.D Pariksha Samiti, Baroda 1977	6808 22-3-79	At. Ranu, Tal. Padara, Distt. Barodi.
7633	Yogeshchandra Thakkar Ishwarlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1983	8999 28-3-84	Cloth Market, At & Post Vadnagar, Tal Kheralu Distt. Mehsana.
7634	Yogeshchandra A Vaidya Ambakprasad	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1963	1385 2-1-64	Rudreshwar Road, At & Post Tal. Shinor, Distt Baroda.
7635	Yogeshkumar Dave Chandulal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7314 20-9-79	At. & Post Kanalush, Tal. Lalpur, Via. & Distt. Jam- nagar.
7636.	Yogeshkumar Joshi Ambalal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6596 16-2-79	Shaktibhuvan, Opp. High School At. Vajalpur, Distt. Panohmahal.
7637.	Yogeshkumar Patel Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8323 10-2-82	Shri Ramvila-1, Pareshnagar, Nathia-Khad Road, Wadi, Baroda-17.
7638.	Yogeshkumar Sharma Mangubhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7491 17-1-80	2172, Radhavallabh Mandir Panditji Pole, Sarangpur, A'bad.
7639.	Yogeshkumar Shah Kantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1972	4082 8-10-73	Darbar, At. Vadnagar, Tal. Kheralu, Distt. Mehsana.
7640.	Yogeshkumar Shah Shantilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4331 15-4-74	At. Thasara, Distt. Khoda.
7641.	Yogeshkumar Shukla Kanakray	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1981	8403 5-4-82	Outside Dudharoj Fatak, Vardh- man Colony Road, Tal. Vadha- van, Distt. Surendranagar.
7642.	Yogeshkumar Tank Nathalal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9553 18-8-86	Rupam Tokiz Road, Jivapara, At. & Distt. Amreli.
7643.	Yogeshkumar Trivedi Dharmendra Rai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8816 11-8-83	26/43, Prahlad Plot, At. Rajkot- 360 001.
7644.	Yogeshkumar Vyas Maheshwarbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8399 5-4-82	Shri Rasashram Farma, Laho- ratarim, Mahadev Vadi, Gondal, Distt. Rajkot.
7645.	Yogini Dave Subhash	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5740 25-3-77	C/o S.G. Dave, Ram Nivas, Near Mahadev Maninagar, A'bad.
7646.	Yogini Desai Shananjay	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	5393 13-5-76	1269, Baja Mehta's Pole, Kanjit Diwan's Kancha, Kalupur, A'bad.
7647.	Yogini Desai Rameshchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1974	5985 30-11-77	Dhanlaxmi Society - Vibhag-2, 25, Parishram Kareli Bag, At. Baroda.
7648.	Yogini Maru Mohanlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1984	9260 9-4-85	C/o Dr. Kantaben Maru, Khadiya Kuva, Wadava, Bhav- nagar.

1	2	3	4	5
7649.	Yogini Naik Ishwarlal	B.A.M.S., Gujarat Ay. Univ., 1985	9638 5-12-86	8, Meghdut Colony, Nursari Road, Mahadevnagar, At. Bilimora, Tal. Gandevi, Distt. Valsad.
7650.	Yogini Semi Ghimanlal	Ayurved Madhyama, S.D. Pariksha Samiti, Baroda 1977	7278 15-9-78	At. Nameshara, Tal. Halol, Distt. Panchmahal.
7651.	Yogini Shah Hiralal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6940 25-4-79	At. Khatalvada, St. Sanjan, Distt. Valsad.
7652.	Yogini Upadhyay Biharilal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1980	8480 3-8-82	9/1166, Lalaji Road, Surat.
7653.	Yogini Zaveri Keshavlal	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1973	4505 17-9-74	Nagori Sheri, Setavad, At. Jamnagar.
7654.	Yoginiben Patel Navinchandra	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1978	7552 29-2-80	C/o Bhirajlal V. Patel, Vitthal Kanya Vidyalaya, At. Nadiad, Distt. Kheda.
7655.	Yogwagkumar Trivedi Indravadan	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	6751 15-3-79	Near Holi Chakala, Mohta Pole, At. Baroda.
7656.	Yunus Damar Mohamad	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5930 17-10-77	Akhada Fali, At. Vanthali, Distt. Junagadh.
7657.	Zahirhusen Bukhari Sakhavathisen	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1977	7839 9-10-80	At. Fifad, Via. Savarkundala, Distt. Bhavnagar.
7658.	Zahiruddin Kanunga Ismetullah	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1969	2940 4-4-70	C/o Dr. I.R. Kanunga, At. Kim, Tal. Oplad, Distt. Surat.
7659.	Zahiruddin Malek Aminbhai	D.S.A.C., C.S. Ay. Course, Gujarat 1966	2076 27-6-66	At. & Post Ajarpura, Tal. Anand, Distt. Kheda.
7660.	Zahurahmad Shekh Ismail	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1976	5973 2-9-77	At. Gandhi Bazar, At. Net- rang, Distt. Broach.
7661.	Zaverbhai Patel Jeshangbhai	L.A.M., U.P. Ay. Maha. Patan (Baroda State), 1933	545 25-1-40	At. Miya Sarbhan, Tal. Amoc, Distt. Broach.
7662.	Zinabhai Amreliya Popatbhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1970	3186 31-4-81	At. & Post Moruka, Via. Akolvadi, Tal. Talala, Distt. Junagadh.
7663.	Zinabhai Borad Nathabhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3332 7-2-72	At. Nazapur, Post Mondarada, Via. Lushala, Distt. Junagadh.
7664.	Zinalal Kheni Parrottambhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1975	9469 11-2-86	65/Vallabhnagar, Society, Vara- chha Road, At. Surat-6.
7665.	Zinabhai Vakani Ramjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3606 16-9-72	At. Bola, Via. Trayaj, Tal. Talaj, Distt. Bhavnagar.
7666.	Zinalal Chauhan Virjibhai	B.S.A.M., Gujarat Ay. Univ., 1971	3550 17-8-72	At. Kariyachad, Tal. & Distt, Amreli.

CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

G - JARAT

PART-II—UNANI

1986

S. No.	Name & Father's Name	Qualification/Awarding body and Year	Regn. No. & Date.	Address
1	2	3	4	5
1.	Abdul Kaiyum Marediya Abubkar	D.U.M., Darul-Uloom, Deoband, 1977	8389 24-3-82	At. & Post Bhagal (Jagana), Tal. Palanpur, Distt. Banas- kantha.
2.	Abdulfab Mastur Husen	Kamil-e-Tib-O-Jarahat, A&U Tibb. Coll., Delhi 1929	1559 7-6-41	Ghadochi Maholla, Distt. Valsad.
3.	Abdulrahim Munatzar Abdulkarim	Kamil-e-Tib-O-Jarahat, A & U Tibb. Coll., Delhi 1929	1558 3-11-41	Ambavadi, Reshamvad, Salabat- pura, Surat-2.
4.	Ahmad Farooq Abdul Aziz	B.U.M.S., Muslim Univ., Aligarh 1977	8899 26-1-84	C/o Amin Pan House, Narottam Mahajnichal, Rakhial Road, A'bad-23.
5.	Amir Bahelim Kalu	B.U.T.S., Muslim Univ., Aligarh 1950	1626 25-3-65	At. & Post Dhala, Tal. Kamrej, Via. Kim, Distt. Surat-394 155.
6.	Bhanuray Shah Ratilal	D.I.M.S., Board of AUSM, Delhi 1961	2957 7-5-70	Shejivias, Near Trikon Bag, At. Rajkot.
7.	Davud Ismail	B.U.M.S., Muslim Univ., Aligarh 1971	3521 26-6-72	At. Kharod, Tal. Ankleshwar, Distt. Broach.
8.	Faruq Parasi Ibrahim	D.U.M., Darul-Uloom, Deoband, 1979	8465 23-8-82	At. & Post Sitpon, Via. Nabi- pur, Tal. & Distt. Broach.
9.	Gulam Nabi Shekh Hafiz Ismail	B.U.T.S., Muslim Univ., Aligarh 1950	1661 18-5-65	At. Dadhal, Tal. Ankleshwar, Distt. Broach.
10.	Gulamhusen Shaekh Fatehmahamed	Kamil-e-Tib-O-Jarahat, A&U Tibb. Coll., Delhi 1949	1575 31-12-49	Fanav Bhagol, Mota Shekha- vada, At. Mahudha, Tal. Nadiad, Distt. Kheda.
11.	Hasan Abbas Yusuf	D.U.M., Darul-Uloom, Deoband, 1975	8952 17-2-84	Near Post Office, At. & Post Kavi, Tal. Jambusar, Distt. Broach.
12.	Hakim Ahmad Adam	D.U.M., Darul-Uloom, Deoband, 1967	8796 5-7-83	Hakim Road, At. & Post Devala, Tal. Jambusar, Distt. Broach.
13.	Hakim Gulamhusain Ahmed	D.U.M., Darul-Uloom, Deoband, 1977	8883 12-12-83	At. & Post Godavadi, Tal. Mandavi, Distt. Surat.
14.	Hakim Mohmed Umar Mohmad Sidik	D.U.M.S., Maharashtra Fac. of AUSM, Bombay 1977	7709 2-5-80	12/6110, Rani Talav, Surat-3.

1	2	3	4	5
15.	Hakimmohamad Kureshi Usman Mohmad Ibrahim	D.U.M., Darul-Uloom, Deoband, 1980	8711 16-3-83	At. & Post Nandasani, Tal. Kadi, Distt. Mehsana-Rawal Street.
16.	Hakim Taherbhai Alihusen	B.U.M.S., Muslim Univ., Aligarh 1957	1986 25-3-66	637, Jamalpur, Vahorvad, Near Gayakvad Haveli, A'bad-7.
17.	Hamidullah Petivala Mohammedmiya	B.U.M.S., Muslim Univ., Aligarh 1977	9087 29-6-84	2072, Navi Maholat, Panch- Kuva, A'bad-1.
18.	Husen Khalid Hakim Mazaharhusen	D.U.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1951	1582 1-12-51	Hakim Manzil, Kazi Madan, Surat-No. 2.
19.	Ibrahim Hanslod Musaji	D.U.M., Darul-Uloom, Deoband, 1971	8275 16-1-82	At. & Post Nani Naroli, Tal. Mangarol, Distt. Surat.
20.	Ibrahim Mohamed	D.U.M., Darul-Uloom, Deoband, 1977	8315 10-2-82	At. Mandava-Buzarga, Tal. Ankleshwar, Distt. Broach.
21.	Ilyas Mohmed Yusuf	D.U.M., Darul-Uloom, Deoband, 1983	8880 12-12-83	Tadvad Khadaki, At. & Post Devala, Tal. Jambusar, Distt. Broach.
22.	Kadar Faruki Ahamad	F.M.B.S., B.I.M., Lucknow 1965	2565 6-10-65	Bholabhai Luhari's Chal, Gomatipur, A'bad-21.
23.	Mahamdakabar Saiyad Karantali	B.U.M.S., Muslim Univ., Aligarh 1955	9 5-12-64	2011, Khanpur, Saiyadbad, A'bad.
24.	Mohamad Mehta Ismail	B.U.T.S., Muslim Univ., Aligarh 1948	1617 5-3-65	Kosamadi, Tal. Ankleshwar, Distt. Broach.
25.	Mohamed Shekh Ahmed Mohmedyusuf	D.U.M., Darul-Uloom, Deoband, 1977	8249 24-12-81	C/o Maulavi Mohmedyusuf, Station Road, Behind Masjid, At. Palampur, Distt. Banas- kantha.
26.	Mohamedadan Madhiya Suleman	D.U.M., Darul-Uloom, Deoband, 1964	8333 17-2-82	At. & Post Majadar, Tal. Vadgam, Distt. Banaskantha.
27.	Mohmedidris Patel Mohmed Ismail Yusuf	D.U.M., Darul-Uloom, Deoband, 1982	8696 3-3-83	Khaniya Khadaki, At. & Post Devala, Tal. Jambusar, Distt. Broach.
28.	Mohamadyusuf Patel Ismail	F.M.B.S., B.I.M., Lucknow, 1958	1895 16-12-65	At. & Post Vesma, Via. Maroli, Tal. Navsari, Distt. Valsad.
29.	Mohamdshafi Abhami Miyahafiz	Fazil-e-Tib-O-Jarahat, A&U Tibb. Coll., Delhi 1939	1561 24-4-41	At. Variav, Tal. Choryasi, Distt. Surat.
30.	Moinudeen Barooqui Mohdyaqub	B.U.M.S., Muslim Univ., Aligarh 1978	8926 8-2-84	Karim Chandhari's Chal, Opp. Harijan Quar, Gomatipur, A'bad-21.
31.	Molvi Bhajjamal Ahmedhusen Mohmed	D.U.M., Darul-Uloom, Deoband, 1981	8272 31-12-81	Mithokhana Maholla, Juna Kasaivada, Godhava, Distt. Panchmahal.

1	2	3	4	5
32.	Shabirjusen Kasmi Mohyuddin	D.U.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1952	1563 18-2-52	Saiyadvada, Surat.
33.	Taher Chandbhai Salohbhai	D.U.S.F., Fac. of AUSM, Bombay 1946	1565 29-6-46	Gopipura, Vhorvad; At. Surat.
34.	Yusuf Desai Ahamad	B.U.T.S., Muslim Univ., Aligarh 1950	1836 29-10-65	At. Tadkeshwar, Via. Kim, Distt. Surat.
35.	Ziyaudin Mohamad	B.U.M.S., Muslim Univ., Aligarh 1969	5592 5-11-76	Kalupur Tower, Dabaliya Pole, A'bad.